

श्रीविष्णुपुराण

प्रथम अंश

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं ध्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

पहला अध्याय

ग्रन्थका उपोद्घात

श्रीसूत उवाच

ॐ पराशरं मुनिवरं कृतपीशाङ्गिकक्रियम् ।
 मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ १
 त्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीतमखिलं गुरो ।
 धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथार्हानि यथाक्रमम् ॥ २
 त्वत्प्रसादान्मुनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमम् ।
 वक्षन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायशो येऽपि विद्विषः ॥ ३
 सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं त्वत्तो यथा जगत् ।
 बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति ॥ ४
 यन्मद्यं च जगद्ब्रह्मन्यतश्चैतच्चराचरम् ।
 लीनमासीद्यथा यत्र लयमेध्यति यत्र च ॥ ५
 यत्प्रमाणाणि भूतानि देवादीनां च सम्भवम् ।
 समुद्रपर्वतानां च संस्थानं च यथा भुवः ॥ ६
 सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणां मुनिसत्तम ।
 देवादीनां तथा वंशान्मनूष्यन्वन्तराणि च ॥ ७
 कल्पान् कल्पविभागांश्च चातुर्युगविकल्पितान् ।
 कल्पानस्य स्वरूपं च युगधर्मांश्च कृत्स्नशः ॥ ८

श्रीसूतजी बोले—मैत्रेयजीने नित्यकर्म्मसे निवृत्त हुए मुनिवर पराशरजीको प्रणाम कर एवं उनके चरण छुकर पूछा— ॥ १ ॥ "हे गुरुदेव! मैंने आपहीसे सम्पूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रोंका क्रमशः अध्ययन किया है ॥ २ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ। आपकी कृपासे मेरे विषधी भी मेरे लिये यह नहीं कह सकेंगे कि 'मैंने सम्पूर्ण शास्त्रोंके अभ्यासमें परिश्रम नहीं किया' ॥ ३ ॥ हे धर्मज्ञ। हे महाभाग। अब मैं आपके मुखारविन्दसे यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत् किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी (दूसरे कल्पके आरम्भमें) कैसे होगा ? ॥ ४ ॥ तथा हे ब्रह्मन्। इस संसारका उत्पादन-कारण क्या है? यह सम्पूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जायगा? ॥ ५ ॥ इसके अतिरिक्त [आकाश आदि] भूतोंका परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवत आदिकी उत्पत्ति, पृथिवीका अविष्टान और सूर्य आदिकी परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदिके वंश, मनु, मन्वन्तर, [बार-बार आनेवाले] चारों युगोंमें विभक्त कल्प और कल्पोंके विभाग, प्रलयका स्वरूप, युगोंके

देवर्षिपार्थिवानां च चरितं यन्महामुने ।
वेदशास्त्राप्रणयनं यथावद्व्यासकर्तृकम् ॥ ९
धर्मश्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनाम् ।
श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वं त्वन्नो वासिष्ठनन्दन ॥ १०
ब्रह्मन्प्रसादप्रवणं कुरुष्व मयि मानसम् ।
येनाहमेतज्जानीयां त्वत्प्रसादान्महामुने ॥ ११

श्रीपराशर उवाच

साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम् ।
पितुः पिता मे भगवान् वसिष्ठो यदुवाच ह ॥ १२
विश्वामित्रप्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा ।
श्रुतस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेयाभूममागुलः ॥ १३
ततोऽहं रक्षसां सत्रं विनाशाय समारभम् ।
भस्मीभूताश्च ज्ञातशास्त्रस्मिन्सत्रे निशाचराः ॥ १४
ततः सङ्क्षीयमाणेषु तेषु रक्षस्वशेषतः ।
मामुवाच महाभागो वसिष्ठो पतिपितामहः ॥ १५
अलमत्यन्तकोपेन तात मन्युमिमं जहि ।
रक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तद् ॥ १६
मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः ।
हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक्पुमान् ॥ १७
सञ्चितस्यापि महता बल्ल क्लेशेन मानवैः ।
यशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः ॥ १८
स्वर्गापवर्गव्यासेधकारणं परमर्षयः ।
वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्दशो भव ॥ १९
अलं निशाचरैर्दग्धैर्दीनैरनपकारिभिः ।
सत्रं ते विरमत्वेतत्क्षमासारा हि साधवः ॥ २०
एवं तातेन तेनाहमनुनीतो महात्मना ।
उपसङ्कृतवान्सत्रं सद्यस्तद्वाक्यगौरवात् ॥ २१
ततः प्रीतः स भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तमः ।
सम्प्राप्तश्च तदा तत्र पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः ॥ २२
पितामहेन दत्तार्घ्यः कृतासनपरिग्रहः ।
मामुवाच महाभागो मैत्रेय पुलहाग्रजः ॥ २३

पुत्रक पुत्रक सम्पूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियोंके चरित्र, शैल्याश्रमीकृत वैदिक शास्त्रांशोंकी यथावत् रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमोंके धर्म—ये सब, हे महामुनि शक्तिनन्दन! मैं आपसे सुनना चाहता हूँ: ६-१० ॥ हे ब्रह्मन्! आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिये जिससे हे महामुने! मैं आगकी कृपासे यह सब जान सकूँ" ॥ ११ ॥

श्रीपराशरजी बोले—“हे धर्मज्ञ मैत्रेय! मेरे पिताजीके पिता श्रीवसिष्ठजीने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंगका तुमने मुझे अच्छा स्मरण करया—[इसके लिये तुम धन्यवादके पात्र हो] ॥ १२ ॥ हे मैत्रेय ! जब मैंने सुना कि पिताजीको विश्वामित्रकी प्रेरणासे राक्षसने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ ॥ १३ ॥ तब राक्षसोंका ध्वंस करनेके लिये मैंने यज्ञ करना आरम्भ किया; उस यज्ञमें सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गये ॥ १४ ॥ इस प्रकार उन राक्षसोंको सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वसिष्ठजी मुझसे बोले— ॥ १५ ॥ “हे नन्द! अत्यन्त क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे ज्ञान करो। राक्षसोंका कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिताके लिये तो ऐसा ही होना था ॥ १६ ॥ क्रोध तो मुखौकी ही हुआ करता है, विचारवानोंको भला कैसे हो सकता है? भैया! भला कौन किसीकी मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फल भोगता है ॥ १७ ॥ हे प्रियवर! यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यन्त कष्टसे संचित यह और तपका भी प्रबल नाशक है ॥ १८ ॥ हे तात! इस लोभ और परलोभ दोनोंको बिगाड़नेवाले इस क्रोधका महाविधायन सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिये तू इसके वशीभूत मत हो ॥ १९ ॥ अब इन बेचारे निरपराध राक्षसोंको तब धरनेसे कोई लाभ नहीं; अपने इस यज्ञको समाप्त करो। साधुओंका धन तो सदा क्षमा ही है” ॥ २० ॥

महात्मा दादाजीके इस प्रकार समझानेपर उनकी आतोंके गौरवका विचार करके धीने वह यज्ञ समाप्त कर दिया ॥ २१ ॥ इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान् वसिष्ठजी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मजीके पुत्र पुलस्त्यजी वहाँ आये ॥ २२ ॥ हे मैत्रेय! पितामह [वसिष्ठजी]—ने उन्हें आर्घ्य दिया, तब वे महार्षि पुलहके श्वशुर आता महाभाग पुलस्त्यजी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले ॥ २३ ॥

पुलस्त्य उवाच

वैरे महति घृह्याक्याद्गुरोरद्वाश्रिता क्षया ।
त्वया तस्मात्समस्ताभि भवाञ्छ्रद्धस्त्राणि येत्यति ॥ २४
सन्तनेर्न ममोच्छेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः ।
त्वया तस्मान्महाभाग ददाम्यन्व्यं महावरम् ॥ २५
पुराणसंहिताकर्ता भवान्वत्स भविष्यति ।
देवतापारमार्थ्यं च यथावहेत्स्यते भवान् ॥ २६
प्रवृत्ते च निवृत्ते च धर्मण्यसममला मतिः ।
भद्रप्रसादादसन्दिग्धा तव वत्स भविष्यति ॥ २७
ततश्च प्राह भगवान्वसिष्ठो मे पितामहः ।
पुलस्त्येन यदुक्तं मे सर्वमेतद्भविष्यति ॥ २८
इति पूर्वं वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता ।
यदुक्तं तस्मृतिं याति त्वत्प्रश्नादखिलं मम ॥ २९
सोऽहं वदाम्यशेषं ते मैत्रेय परिपुच्छते ।
पुराणसंहितां सम्यक् तां निबोध यथातथाम् ॥ ३०
विष्णोः सकाशाद्बुद्धभूतं जगत्त्रैव च स्थितम् ।
स्थितिसंयमकर्ताऽसौ जगतोऽस्य जगच्च सः ॥ ३१

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे प्रथमोऽध्यायः ॥ २ ॥

दूसरा अध्याय

धौबीस तत्त्वोंके विचारके साथ जगत्के उत्पत्ति-
रूपका वर्णन और विष्णुकी पहिमा

श्रीपराशर उवाच

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने ।
सदैकरूपरूपाय विष्णावे सर्वविष्णावे ॥ १
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च ।
वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥ २
एकानेकरूपरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः ।
अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णावे मुक्तिहेतवे ॥ ३
सर्गस्थितिविनाशानां जगतो यो जगन्मयः ।
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णावे परमात्मने ॥ ४

पुलस्त्यजी बोले—तुमने, चित्तमें बड़ा वैराभाव
रहनेपर भी अपने बड़े-बड़े वसिष्ठजीके कहनेसे क्षया
स्वीकार को है, इसलिये तुम सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता
होगे ॥ २४ ॥ हे महाभाग! अत्यन्त क्रोभित होनेपर भी
तुमने मेरी सन्तानको सर्वथा पुलोच्छेद नहीं किया; अतः
मैं तुम्हें एक और उक्तप कर देता हूँ ॥ २५ ॥ हे वत्स!
तुम पुराणसंहिताके यत्ना होगे और देवताओंके मथार्थ
स्वल्पको जानोगे ॥ २६ ॥ तथा परे प्रसादसे तुम्हारी
निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति (भोग और मोक्ष)-
के उत्पन्न करनेवाले कर्मोंमें निःसन्देह हो जायगी ॥ २७ ॥
[पुलस्त्यजीके इस तरह कहनेके अनन्तर] फिर मैं
पितामह भगवान् वसिष्ठजी बोले "पुलस्त्यजीने जो
कुछ कहा है, वह सभी सत्य होगा" ॥ २८ ॥
हे मैत्रेय! इस प्रकार पूर्वकालमें बुद्धिमत् वसिष्ठजी
और पुलस्त्यजीने जो कुछ कहा था, वह सब तुम्हारे
प्रश्नसे मुझे स्मरण हो आया है ॥ २९ ॥ अतः
हे मैत्रेय! तुम्हारे पूछनेसे मैं इस सम्पूर्ण पुराणसंहिताको
तुम्हें सुनाता हूँ; तुम उसे भरी प्रकार ध्यान देकर
सुनो ॥ ३० ॥ यह जगत् विष्णुसे उत्पन्न हुआ है,
उन्हींमें स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लयके
कर्ता हैं तथा यह जगत् भी वे ही हैं ॥ ३१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—जो ब्रह्मा, विष्णु और
शंकररूपसे जगत्को उत्पत्ति, स्थिति और संग्रहके
कारण हैं तथा अपने मर्कोंको संसार-सागरसे तारनेवाले
हैं, उन विकारहित, शुद्ध, अविनाशी, परमात्मा, सर्वदा
एकरस, सर्वविषयी भगवान् वासुदेव विष्णुको नमस्कार
है ॥ १-२ ॥ जो एक होकर भी नाना रूपवाले हैं, स्थूल-
सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त (कारण) एवं व्यक्त (कार्य) रूप
हैं तथा [अपने अनन्य भक्तोंकी] मुक्तिके कारण हैं,
[उन श्रीविष्णुभक्तानुसंगे नमस्कार है] ॥ ३ ॥ जो विश्वस्वर
प्रभु विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और संग्रहके मूल-कारण
हैं, उन परमात्मा विष्णुभगवान्को नमस्कार है ॥ ४ ॥

आधारभूतं विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम् ।
 प्रणाम्य सर्वभूतस्थमच्छुतं पुरुषोत्तमम् ॥ ५
 ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः ।
 तमेवार्थस्वरूपेण धान्तिदर्शनतः स्थितम् ॥ ६
 विष्णुं ग्रसिष्णुं विश्वस्य स्थितं सगं तथा प्रभुम् ।
 प्रणाम्य जगतामीशमजमक्षयमव्ययम् ॥ ७
 कथयामि यथापूर्वं दक्षाद्यैर्मुनिसत्तमैः ।
 पृष्टः प्रोवाच भगवान्भक्तयोनिः पितामहः ॥ ८
 तैश्चोक्तं पुरुकुत्साय भूभुजे नर्मदातटे ।
 सारस्वताय तेनापि मह्यं सारस्वतेन च ॥ ९
 परः पराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः ।
 रूपवर्णीदिनिर्देशविशेषणविवर्जितः ॥ १०
 अपक्षयविनाशाश्रयां परिणामर्शिजन्मभिः ।
 वर्जितः शक्यते वक्तुं यः सदास्तीति केवलम् ॥ ११
 सर्वत्रासीं समस्तं च वसत्यत्रेति वै घतः ।
 ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपद्यते ॥ १२
 तद्वद्ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम् ।
 एकस्वरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निर्मलम् ॥ १३
 तदेव सर्वमेवैतद्व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत् ।
 तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम् ॥ १४
 परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषः प्रथमं द्विज ।
 व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम् ॥ १५
 प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परमं हि यत् ।
 पश्यन्ति सूरयः शुद्धं तद्विष्णोः परमं षट्म् ॥ १६
 प्रधानपुरुषव्यक्तकालास्तु प्रविभागशः ।
 रूपाणि स्थितिसर्गान्तव्यक्तिसद्भावहेतवः ॥ १७
 व्यक्तं विष्णुस्तथाव्यक्तं पुरुषः काल एव च ।
 स्त्रीइतो बालकस्येव चेष्टां तस्य निशाभय ॥ १८
 अव्यक्तं कारणं यत्तत्प्रधानमृषिसत्तमैः ।
 प्रोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्यं सदासदात्मकम् ॥ १९

जो विश्वके अधिष्ठान हैं, अतिसूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियोंमें स्थित पुरुषोत्तम और अधिनाथी हैं, जो परमार्थतः (शारतलये) अति निर्मल ज्ञानस्वरूप हैं, किन्तु अज्ञानवशा नाना पदार्थरूपसे प्रतीत होते हैं, तथा जो [कालस्वरूपसे] जगत्की उत्पत्ति और स्थितिमें समर्थ एवं उसका संभार करनेवाले हैं, उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान् विष्णुको प्रणाम करके तुम्हें वह सारा त्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठोंके पूछनेपर पितामह भगवान् ब्रह्मराजोंने उनसे कहा था ॥ ५-८ ॥

वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियोंने नर्मदा-तटपर राजा पुरुकुत्सको सुनाया था तथा पुरुकुत्सने सारस्वतसे और सारस्वतने मुझसे कहा था ॥ ९ ॥ 'जो पर (प्रकृति)-से भी पर, परमश्रेष्ठ, अन्तरात्मामें स्थित परमात्मा, रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदिसे रहित है; जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश—इन छह विकारोंका सर्वथा अभाव है; जिसको सर्वदा केवल 'है' इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिये यह प्रसिद्ध है कि 'जे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है—इसलिये ही विद्वान् जिसको वासुदेव कहते हैं' वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एकरस और हेम गुणोंके अभावके कारण निर्मल परब्रह्म है ॥ १०-१३ ॥ वही इन सब व्यक्त (कार्य) और अव्यक्त (कारण) जगत्के रूपसे, तथा इसके सार्थी पुरुष और महाकारण कालके रूपसे स्थित है ॥ १४ ॥ हे द्विज! परब्रह्मका प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त (प्रकृति) और व्यक्त (यहदादि) उसके अन्य रूप हैं तथा [सबको क्षीभित करनेवाला होनेसे] काल उसका परमरूप है ॥ १५ ॥

इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल—इन चारोंसे परे है तथा जिसे पण्डितजन ही देख पाते हैं वही भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ १६ ॥ प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल—ये [भगवान् विष्णुके] रूप पृथक्-पृथक् संसारकी उत्पत्ति, पालन और संभारके प्रकाश तथा उत्पादनमें कारण हैं ॥ १७ ॥ भगवान् विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और कालरूपसे स्थित होते हैं, इसे उनकी बालकवत् स्त्रीइतनी ही समझो ॥ १८ ॥

उनमेंसे अव्यक्त कारणके, जो सदासद्रूप (कारण-शक्तिविशिष्ट) और नित्य (सदा एकरस) है, श्रेष्ठ भुविजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं ॥ १९ ॥

अक्षय्यं नान्यदाधारमपेयमजरं ध्रुवम् ।
शब्दस्पर्शविहीनं तद्रूपादिभिरसंहितम् ॥ २०
त्रिगुणं तज्जगद्धोनिरनादिप्रभवाव्ययम् ।
तेनाग्रे सर्वमेवासीद्ब्याप्तं वै प्रलयास्तु ॥ २१
वेदवादिदो विद्वन्विद्यता ब्रह्मवादिनः ।
पठन्ति शैतमेवार्थं प्रधानप्रतिपादकम् ॥ २२
नाहो न रात्रिर्न नभो न भूमि-
नांसीत्तमोऽन्योतिरभूच्च नान्यत् ।

श्रीभ्रादिबुद्धानुपलभ्यमेकं
प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत् ॥ २३
विष्णोः स्वरूपात्परतो हि ते द्वे
रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्रः ।
तस्यैव तेऽन्येन धृते वियुक्ते
रूपान्तरं तद्द्विज कालसंज्ञम् ॥ २४
प्रकृती संस्थितं व्यक्तमतीतप्रलये तु यत् ।
तस्मात्प्राकृतसंज्ञोऽयमुच्यते प्रतिसञ्चरः ॥ २५
अनादिर्भगवान्कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते ।
अव्युच्छिन्नास्ततस्त्वैते सर्गस्थित्यन्तसंयमाः ॥ २६
गुणसाम्ये ततस्तस्मिन्पृथक्पुंसि व्यवस्थिते ।
कालस्वरूपं तद्विष्णोर्मैत्रेय परिवर्तते ॥ २७
तसस्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः ।
सर्वगः सर्वभूतेशः सर्वात्मा परमेश्वरः ॥ २८
प्रधानपुरुषी चापि प्रविश्यात्लेच्छया हरिः ।
क्षोभयामास सध्यापे सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥ २९
यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते ।
मनसो नोपकर्तृत्वात्तथाऽसी परमेश्वरः ॥ ३०
स एव क्षोभको ब्रह्मन्क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमः ।
स सङ्कोषविक्रसाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः ॥ ३१
विक्रसापुस्वरूपैश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा ।
व्यक्तस्वरूपश्च तथा विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ ३२

वह क्षयरहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल शब्द स्पर्शादिशून्य और रूपादिरहित है ॥ २० ॥ यह त्रिगुणमय और जगत्का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लयसे रहित है। यह सम्पूर्ण प्रपंच प्रलयकालसे लेकर सृष्टिके आदितक उसीसे व्याप्त था ॥ २१ ॥ हे विद्वन्! श्रुतिके मर्मको जाननेवाले, श्रुतिपरायण ब्रह्मचैता महात्मागण इसी अर्थको लक्ष्य करके प्रधानके प्रतिपादक इस (निम्नलिखित) श्लोकको कहे करते हैं— ॥ २२ ॥ 'उस समय(प्रलयकालमें) न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथिवी थी, न अन्धकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। यम, श्रोत्रादि इन्द्रियों और बुद्धि आदिका अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था' ॥ २३ ॥

हे विप्र! विष्णुके परम (उपाधिरहित) स्वरूपसे प्रधान और पुरुष—ये दो रूप हुए; उसी (विष्णु)—के जिस अन्य रूपके द्वारा वे दोनों [सृष्टि और प्रलयकालमें] संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपान्तरका ही नाम 'काल' है ॥ २४ ॥ वीते हुए प्रलयकालमें यह व्यक्त प्रपंच प्रकृतिके लीन था, इसलिये प्रपंचके इस प्रलयको प्राकृत प्रलय कहते हैं ॥ २५ ॥ हे द्विज। कालरूप भगवान् अनादि हैं, इनका अन्त नहीं है इसलिये संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते [वे प्रवाहरूपसे निरन्तर होते रहते हैं] ॥ २६ ॥

हे मैत्रेय! प्रलयकालमें प्रधान (प्रकृति)—के सग्यावस्थामें स्थित हो जानेपर और पुरुषके प्रकृतिके पृथक् स्थित हो जानेपर विष्णुभगवान्का कालरूप [इन दोनोंको धारण करनेके लिये] प्रवृत्त होता है ॥ २७ ॥ तदनन्तर [सर्गकाल उपस्थित होनेपर] उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वरने अपनी इच्छासे विकारो प्रधान और अविकारो पुरुषमें प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया ॥ २८—२९ ॥ जिस प्रकार क्रियाशील न होनेपर भी गन्ध अपनी सन्निधिमात्रसे ही मनको क्षुभित कर देता है उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधिमात्रसे ही प्रधान और पुरुषको प्रेरित करते हैं ॥ ३० ॥ हे ब्रह्मन्! वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करनेवाले हैं और वे ही मुख्य होते हैं तथा संक्षेप (साम्य) और विक्रस (क्षोभ) युक्त प्रधानरूपसे भी वे ही स्थित हैं ॥ ३१ ॥ ब्रह्मादि सपक्ष ईश्वरोंके ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि-व्यष्टिरूप, ब्रह्मादि जीवरूप तथा महत्तत्परूपसे स्थित हैं ॥ ३२ ॥

गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने ।
 गुणव्यञ्जनसम्भूतिः सर्गकाले द्विजोत्तम ॥ ३३
 प्रधानतत्त्वमुद्भूतं मह्यन्तं तत्समावृणोत् ।
 सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान् ॥ ३४
 प्रधानतत्त्वेन समं त्वचा बीजमिवावृणुत् ।
 वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः ॥ ३५
 त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तत्त्वाद्जायत ।
 भूतेन्द्रियाणां हेतुस्स त्रिगुणात्वान्महामुने ।
 यथा प्रधानेन महान्महता स तथावृत्तः ॥ ३६
 भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रकं ततः ।
 ससर्ज शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम् ॥ ३७
 शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिः स समावृणोत् ।
 आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्ज ह ॥ ३८
 बलवानभयद्वानुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः ।
 आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समावृणोत् ॥ ३९
 ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्ज ह ।
 ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते ॥ ४०
 स्पर्शमात्रं तु वै वायू रूपमात्रं समावृणोत् ।
 ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्ज ह ॥ ४१
 सम्भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि च ।
 रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समावृणोत् ॥ ४२
 विकुर्वाणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससर्जिरे ।
 संलभतो जायते तस्मान्तस्य गन्धो गुणो मतः ॥ ४३
 तस्मिंस्तस्मिंस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता ॥ ४४
 तन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते ॥ ४५
 न ज्ञान्त्त नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिणः ।
 भूततन्मात्रसर्गोऽयमहङ्कारात् तामसात् ॥ ४६
 तैजसानीन्द्रियाण्यहर्द्वैवा वैकारिका दश ।
 एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिकाः स्मृताः ॥ ४७

हे द्विजश्रेष्ठ ! सर्गकालके प्राप्त होनेपर गुणोंकी साम्यावस्थारूप प्रधान ब्रह्म विष्णुके क्षेत्रज्ञरूपसे अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्त्वकी उत्पत्ति हुई ॥ ३३ ॥ उत्पन्न हुए महामुनेको प्रधानतत्त्वेने आवृत किया; महत्तत्त्व सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका है। किन्तु जिस प्रकार बीज छिपनेकेसे समभारतसे ढँका रहता है वैसे ही यह त्रिविध महत्तत्त्व प्रधान-तत्त्वसे सब ओर व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्तत्त्वसे ही वैकारिक (सात्त्विक) तैजस (राजस) और तामस भूतादि तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने! यह त्रिगुणात्मक होनेसे भूत और ज्वाला आदिका कारण है और प्रधानसे जैसे महत्तत्त्व व्यपन्न है, वैसे ही महत्तत्त्वसे यह (अहंकार) व्याप्त है ॥ ३४—३६ ॥ भूतादि नामक तामस अहंकारने विकृत होकर शब्द-तन्मात्रा और उससे शब्द-गुणवाले आकाशकी रचना की ॥ ३७ ॥ उस भूतादि तामस अहंकारने शब्द-तन्मात्रारूप आकाशको व्यपन्न किया। फिर [शब्द तन्मात्रारूप] आकाशने विकृत होकर स्पर्श-तन्मात्राको रचा ॥ ३८ ॥ उस (स्पर्श-तन्मात्रा)-से चलवान् वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रारूप आकाशने स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुको अवृत्त किया है ॥ ३९ ॥ फिर [स्पर्श-तन्मात्रारूप] वायुने विकृत होकर रूप-तन्मात्राकी सृष्टि की। (रूप-तन्मात्रारूप) वायुसे तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहलाता है ॥ ४० ॥ स्पर्श तन्मात्रारूप वायुने रूप-तन्मात्रावाले तेजको आवृत्त किया। फिर [रूप-तन्मात्रारूप] तेजने भी विकृत होकर रस-तन्मात्राकी रचना की ॥ ४१ ॥ रस (रस-तन्मात्रारूप)-से रस-गुणवाला जल हुआ। रस-तन्मात्रावाले जलको रूप तन्मात्रारूप तेजने आवृत्त किया ॥ ४२ ॥ [रस-तन्मात्रारूप] बलने विकारको प्राप्त होकर गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की, उससे पृथिवी उत्पन्न हुई है जिसका गुण गन्ध माना जाता है ॥ ४३ ॥ उन-उन आकाशादि भूतोंमें तन्मात्रा है [अर्थात् केषल उनके गुण शब्दादि ही हैं] इसलिये वे तन्मात्रा (गुणरूप) ही कहे गये हैं ॥ ४४ ॥ तन्मात्राओंमें विशेष भाव नहीं है इसलिये उनकी अविशेष संज्ञा है ॥ ४५ ॥ वे अविशेष तन्मात्राएँ शान्त, घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं [अर्थात् उनका सुख-दुःख या मोहरूपसे अनुभव नहीं हो सकता] इस प्रकार तामस अहंकारसे यह भूत-तन्मात्रारूप सर्ग हुआ है ॥ ४६ ॥

दस इन्द्रियों तीसरे अर्थात् राक्षस अहंकारसे और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात् सात्त्विक अहंकारसे उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता और ग्यारहवीं मन वैकारिक (सात्त्विक) हैं ॥ ४७ ॥

त्वक् चक्षुर्नासिका जिह्वा श्रोत्रमत्र च पञ्चमम् ।
 शब्दादीनामव्याप्यर्थं बुद्धियुक्तानि वै द्विज ॥ ४८
 पायूपस्थीं करीं पादौ वाक् च मैत्रेय पृथ्वीमी ।
 विसर्गशिल्पगत्युक्तिं कर्म तेषां च कथ्यते ॥ ४९
 आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा ।
 शब्दादिभिर्गुणैर्ब्रह्मन्संयुक्तान्युत्तरोत्तरैः ॥ ५०
 ज्ञान्ता घोरशुच मूढशुच विशेषास्तेन ते स्मृताः ॥ ५१
 नानावीर्याः पृथग्भूतास्तनस्ते संहतिं विना ।
 नाशस्नुवन्नजाः स्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः ॥ ५२
 समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः ।
 एकसङ्गतलक्ष्याश्च सम्प्राप्यैक्यमशेषतः ॥ ५३
 पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च ।
 महदाद्या विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते ॥ ५४
 तत्कमेण विवृद्धं सज्जलस्रुद्धदुदुषत्समम् ।
 भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे महत्तदुदकेशयम् ।
 प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम् ॥ ५५
 तत्राव्यक्तस्वरूपोऽसौ व्यक्तरूपो जगत्पतिः ।
 विष्णुर्ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः ॥ ५६
 मेरुरुत्बमभूतस्य जराद्युश्च महीभराः ।
 गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासन्मुमहात्मनः ॥ ५७
 साद्रिद्धीपसमुद्राश्च सन्धोतिलोकसंग्रहः ।
 तस्मिन्नण्डेऽभवद्विप्र सदेवासुरमानुषः ॥ ५८
 वारिवह्न्यनिलाकाशीस्ततो भूतादिमहता महिः ।
 वृतं दशगुणैरण्डं भूतादिर्महता तथा ॥ ५९
 अव्यक्तेनावृतो ब्रह्मंस्तीः सर्वैः सहितो महान् ।
 एभिर्वावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृतैर्वृतम् ।
 नारिकेलफलस्यान्तर्बाजं ब्राह्मदलैरिव ॥ ६०
 जुषन् रजो गुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः ।
 ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टी सम्प्रसर्तते ॥ ६१

हे द्विज! त्वक्, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र—
 ये पाँचों बुद्धिकी सहायतासे शब्दादि विषयोंको ग्रहण
 करनेवाली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं ॥ ४८ ॥ हे मैत्रेय। पायु (गुदा),
 उपस्थ (लिंग), हस्त, पाद और वाक्—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ
 हैं। इनके कर्म [मल-मूत्रका] त्याग, शिल्प, गति और
 वचन वतलाये जाते हैं ॥ ४९ ॥ आकाश, वायु, तेज, जल
 और पृथिवी—ये पाँचों भूत उत्तरोत्तर (क्रमशः) शब्द-
 स्पर्श आदि पाँच गुणोंसे युक्त हैं ॥ ५० ॥ ये पाँचों भूत
 ज्ञान्ता घोर और मूढ़ हैं [अर्थात् सुख, दुःख और मोहयुक्त
 हैं] अतः ये विशेष कहलाते हैं* ॥ ५१ ॥

इन भूतोंमें पृथक्-पृथक् नाना शक्तियाँ हैं। अतः
 ये परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसारकी रचना नहीं
 कर सके ॥ ५२ ॥ इसीलिये एक-दूसरेके आश्रय रहनेवाले
 और एक ही संघातकी उत्पत्तिके लक्ष्यवाले महत्तत्त्वसे
 लेकर विशेषपर्यन्त प्रकृतिके इन सभी विकारोंने पुरुषसे
 अधिष्ठित होनेके कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक
 होकर प्रधान-तत्त्वके अनुग्रहसे अण्डकी उत्पत्ति
 की ॥ ५३-५४ ॥ हे महाबुद्धे! जलके बुलबुलेके समान
 क्रमशः भूतोंसे शब्द हुआ वह गोलाकार और बलपर
 स्थित पशान् अण्ड ब्रह्म (हिरण्यगर्भ) रूप विष्णुका
 अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ ॥ ५५ ॥ उसमें से
 अव्यक्त स्वरूप जगत्पति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भरूपसे
 स्वयं ही विराजमान हुए ॥ ५६ ॥ उन महत्त्वा हिरण्यगर्भका
 सुमेरु उल्ब (गर्भको ढँकनेवाली झिल्ली), अन्य
 पर्वत, जरायु (गर्भाशय) तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस
 था ॥ ५७ ॥ हे विप्र! उस अण्डमें ही पर्वत और
 द्वीपदिके सहित समुद्र, ग्रह-गणके सहित सम्पूर्ण
 लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध
 प्राणिवर्ग प्रकट हुए ॥ ५८ ॥ वह अण्ड पूर्व-पूर्वकी
 अपेक्षा दस-दस-गुण अधिक जल, अग्नि, वायु,
 आकाश और भूतादि अर्थात् तामस-अहंकारसे आवृत
 है तथा भूतादि महत्त्वसे घिर हुआ है ॥ ५९ ॥ और इन
 सबके सहित वह महत्त्व भी अव्यक्त प्रधानसे
 आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियलके फलका भीजी बीज
 बाहरसे कितने ही छिलकोंसे ढँका रहता है वैसे ही यह
 अण्ड इन सात प्राकृत आधारोंसे घिर हुआ है ॥ ६० ॥
 उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान्
 विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुणका आश्रय लेकर इस
 संसारकी रचनामें प्रवृत्त होते हैं ॥ ६१ ॥

* परस्पर मिलनेसे सभी गूढ ज्ञान, घोर और मूढ़ प्रतीत होते हैं, पृथक्-पृथक् तो पृथिवी और जल स्पष्ट हैं, तेज
 और वायु घोर हैं तथा आकाश पृथ है।

सृष्टं च पाल्यनुयुगे यावत्कल्पविकल्पना ।
 सत्त्वभृद्भगवान्विष्णुरप्रमेयपराक्रमः ॥ ६२ ॥
 तप्तोत्प्रेक्षी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दनः ।
 मैत्रेयास्त्रिलभूतानि भक्षयत्यतिदारुणः ॥ ६३ ॥
 भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकाणसीकृते ।
 नागपर्यङ्कशवने ज्ञेते च परमेश्वरः ॥ ६४ ॥
 प्रमुद्गश्च पुनः सृष्टिं करोति ब्रह्मरूपधृक् ॥ ६५ ॥
 सृष्टिस्थित्यन्तवर्णी ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् ।
 स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ ६६ ॥
 रुष्ट्यसृजति चात्मानंविष्णुः पाल्यं च पाति च ।
 उपसंह्रियते चान्ते संहर्ता च स्वयं प्रभुः ॥ ६७ ॥
 पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च ।
 सर्वेन्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यज्जगत् ॥ ६८ ॥
 स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽख्ययः ।
 सर्गादिकं तु तस्यैव भूतस्थमुपकारकम् ॥ ६९ ॥
 स एव सृज्यः स च सर्गाकर्ता

स एव पाल्यति च पाल्यते च ।

ब्रह्माद्यावस्थाधिरशेषमूर्ति-

विष्णुवीरिणो वरदो वरेण्यः ॥ ७० ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेशो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

ब्रह्मादिकी आयु और कालका स्वरूप

श्रीमैत्रेय उवाच

निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः ।
 कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥ १ ॥

तथा रचना हो जानेपर सत्त्वगुण-विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान् विष्णु उसका कल्पान्तपर्यन्त युग-युगमें पालन करते हैं ॥ ६२ ॥ हे मैत्रेय! फिर कल्पका अन्त होनेपर अति दारुण रूप-प्रधान रुद्ररूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतोंका भक्षण कर लेते हैं ॥ ६३ ॥ इस प्रकार समस्त भूतोंका भक्षण कर संसारको जलमय करके वे परमेश्वर शेषशय्यपर शयन करते हैं ॥ ६४ ॥ जानेपर ब्रह्मरूप होकर वे फिर जगत्की रचना करते हैं ॥ ६५ ॥ वह एक ही भगवान् जनार्दन जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव— इन तीन संज्ञाओंको धारण करते हैं ॥ ६६ ॥ वे प्रभु विष्णु स्वष्टा (ब्रह्मा) होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्यरूप अपनः ही पालन करते हैं और अन्तमें स्वयं ही संहारक (शिव) तथा स्वयं ही उपसंहृत (लौन) होते हैं ॥ ६७ ॥ पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्तःकरण आदि जितना जगत् है सब पुष्करूप है और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतोंके अन्तःप्राणा हैं, इसलिये ब्रह्मादि प्राणियोंमें स्थित सर्गादिक भी उन्हींके उपकारक हैं । [अर्थात् जिस प्रकार ऋत्विजोंद्वय किया हुआ हवन यजमानका उपकारक होता है, उसी तरह परमात्माके रचे हुए समस्त प्राणियोंद्वारा ज्ञेयवाली सृष्टि भी उन्हींकी उपकारक है] ॥ ६८-६९ ॥ वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य (प्रार्थनाके योग्य) भगवान् विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओंद्वारा रचनेवाले हैं, ये ही रचे जाते हैं, ये ही पालते हैं, ये ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं [और स्वयं ही संहृत होते हैं] ॥ ७० ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे भगवान्! जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा है उसका सर्गादिका कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? ॥ १ ॥

श्रीपराशर उवाच

शक्तयः सर्वभासानामत्रिन्यज्ञानगोचराः ।
 यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ।
 भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पायकस्थ यथोष्णता ॥ २
 तन्निबोध यथा समं भगवान्सम्प्रवर्तते ।
 नारायणाख्यो भगवान्ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ३
 उत्पन्नः प्रोच्यते विद्वन्वित्यमेवोपधारतः ॥ ४
 निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतम् ।
 तत्पराख्यं तदद्दं च पराद्दं प्रभिधीयते ॥ ५
 कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तद्वानघ ।
 तेन तस्य निबोध त्वं परिमाणोपपादनम् ॥ ६
 अन्धेषां चैव जन्तूनां चराणामपराश्रय वे ।
 भूभृत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम ॥ ७
 काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषा मुनिसप्तम ।
 काष्ठा त्रिंशत्कला त्रिंशत्कला मौडूतिके विधिः ॥ ८
 तावत्सीख्यैरश्वेरात्रे मुहूर्त्तमानुषं स्मृतम् ।
 अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः ॥ ९
 तैः षड्भिरयनं वर्षं द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे ।
 अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवानामुत्तरे दिनम् ॥ १०
 दिव्यैर्वर्षमहस्वैस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम् ।
 चतुर्दशं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध मे ॥ ११
 चत्वारि त्रीणि द्वै शकं कृतादिषु यथाक्रमम् ।
 दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः ॥ १२
 तत्रमाणीः शतैः सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते ।
 सन्ध्यांशश्चैव तत्सुखो युगस्यानन्तरो हि सः ॥ १३
 सन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्तर्यः कालो मुनिसप्तमः ।
 युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञितः ॥ १४
 कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चैव चतुर्युगम् ।
 प्रोच्यते तत्सहस्रं च ब्रह्मणो दिवसं मुने ॥ १५
 ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्मनवस्तु चतुर्दश ।
 भवन्ति परिमार्णां च तेषां कालकृतं शृणु ॥ १६
 सप्तर्षयः सुराः शक्रो मनुस्तामूनवो नृपाः ।
 एककाले हि सृज्यन्ते संहियन्ते च पूर्ववत् ॥ १७

श्रीपराशरजी बोले— हे तपस्वियोंमें श्रेष्ठ यंत्रेय !

समस्त भाव-पदायोंकी शक्तियाँ अचिन्त्य-ज्ञानकी विषय होती हैं; [उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती] अतः अग्निकी शक्ति उष्णताके समान ब्रह्मकी भी सर्गादि-रचनारूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं ॥ २ ॥ अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक-पितामह भगवान् ब्रह्माजी सृष्टिकी रचनामें प्रकृत होते हैं सो सुनो । हे विद्वन् ! वे सदा उपचारसे ही 'उत्पन्न हुए' कहलाते हैं ॥ ३-४ ॥ उनके अपने परिमाणसे उनकी आयु सी वर्षकी कही जाती है । उस (सी वर्ष)-का नाम पर है, उसका आधा पराद्दं कहलाता है ॥ ५ ॥

हे अनघ ! मैंने जो तुमसे विष्णुभगवान्का कालस्वरूप कहा था उसीके द्वारा उस ब्रह्माकी तथा और भी जो पृथिवी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं उनकी आयुका परिमाण किया जाता है ॥ ६-७ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! पन्द्रह निमेषको काष्ठा कहते हैं, तीस काष्ठाकी एक कला तथा तीस कलाका एक मुहूर्त्त होता है ॥ ८ ॥ तीस मुहूर्त्तका मनुष्यका एक दिन-रात कहा जाता है और उतने ही दिन-रातका दो पक्षयुक्त एक मास होता है ॥ ९ ॥ छः महीनोंका एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन मिलकर एक वर्ष होता है । दक्षिणायन देवताओंकी रात्रि है और उत्तरायण दिन ॥ १० ॥ देवताओंके धारह हजार वर्षोंके सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग नामक चार युग होते हैं । उनका अलग-अलग परिमाण ये तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ११ ॥ पुरातत्त्वके जाननेवाले सतयुग आदिका परिमाण क्रमशः चार, तीन, दो और एक हजार दिव्य वर्ष बतलाते हैं ॥ १२ ॥ प्रत्येक युगके पूर्व उतने ही सौ वर्षकी सन्ध्या बतायी जाती है और युगके पीछे उतने ही परिमाणवाले सन्ध्यांश होते हैं [अर्थात् सतयुग आदिके पूर्व क्रमशः चार, तीन, दो और एक सौ दिव्य वर्षकी सन्ध्याएं और इतने ही वर्षके सन्ध्यांश होते हैं] ॥ १३ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इन सन्ध्या और सन्ध्यांशोंके बीचका जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नामवाले युग जानना चाहिये ॥ १४ ॥

हे मुने ! सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं; ऐसे हजार चतुर्युगका ब्रह्माका एक दिन होता है ॥ १५ ॥ हे ब्रह्मन् ! ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं । उनका कालकृत परिमाण सुनो ॥ १६ ॥ सप्तर्षि, देवगण, इन्द्र, मनु और मनुके पुत्र खजालोग [पूर्वकल्पानुसंधार] एक ही कालमें रचे जाते हैं और एक ही कालमें उनका संहार किया जाता है ॥ १७ ॥

चतुर्वृणाणां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः ।
 मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनां च सप्तमः ॥ १८
 अष्टौ शतसहस्राणि दिव्यवा संख्याया स्मृतम् ।
 द्विपञ्चाशत्संख्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥ १९
 त्रिंशत्कोट्यस्तु स्मृणोः संख्याताः संख्या ह्यिज ।
 सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने ॥ २०
 विंशतिस्तु सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना ।
 मन्वन्तरस्य सङ्ख्येयं मानुषैर्वत्सरैर्द्विज ॥ २१
 चतुर्दशगुणो ह्येव कालो ब्राह्ममहः स्मृतम् ।
 ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः ॥ २२
 तदा हि दह्यते सर्वं त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम् ।
 जनं प्रयान्ति तापार्ता महलोकनिवासिनः ॥ २३
 एकार्णवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः ।
 भोगिशय्यां गतः शोते त्रैलोक्यग्रासवृद्धितः ॥ २४
 जनस्थैर्बोगिभिर्द्वेषिष्वन्त्यमानोऽब्जसम्भवः ।
 तत्प्रमाणां हि तां रात्रिं तदन्ते सृजते पुनः ॥ २५
 एषं तु ब्रह्मणो वर्षमेवं वर्षशतं च यत् ।
 शतं हि तस्य वर्षाणां परमायुर्महात्मनः ॥ २६
 एकमस्य व्यतीतं तु परार्द्धं ब्रह्मणोऽनघ ।
 तस्यान्तेऽभूमहाकल्पः पाद्य इत्यभिविश्रुतः ॥ २७
 द्वितीयस्य परार्द्धस्य वर्तमानस्य वै द्विज ।
 वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीर्तितः ॥ २८

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय

ब्रह्माजीकी उत्पत्ति वाराहभगवान्द्वारा पृथिवीका उद्धार और ब्रह्माजीकी लोक-रचना

श्रीमंत्रेण उवाच

ब्रह्मा नारायणाख्योऽसी कल्प्यादौ भगवान्यथा ।
 ससर्ज सर्वभूतानि तदाशङ्क महामुने ॥ १

हे राम! इकहतर चतुर्वृणगे कुछ अधिक*
 कालका एक मन्वन्तर होना है। यही मनु और देवता
 आदिका काल है ॥ १८ ॥ इस प्रकार दिव्य वर्ष गणनासे
 एक मन्वन्तरमें आठ लाख आसन्न हजार वर्ष कनाये
 जाते हैं ॥ १९ ॥ तथा हे महामुने! मानवी वर्ष गणनाके
 अनुसार मन्वन्तरका परिमाण पूरे तीस करोड़ ससप्त लाख
 बीस हजार वर्ष है। इसमें अधिक नहीं ॥ २०-२१ ॥
 इस कालका चौदह गुना ब्रह्माका दिन होता है, इसके
 अनन्तर नैमित्तिक नामवाल, ब्राह्म-प्रलय होता है ॥ २२ ॥
 उस समय भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक
 तीनों जलने लगते हैं और महाशोकमें रहनेवाले सिद्धगण
 अति सन्तप्त होकर जनलोकको चले जाते हैं ॥ २३ ॥
 इस प्रकार त्रिलोकीके जलमय हो जानेपर जनलोकवासी
 योगियोंद्वारा ध्यान किये जाते हुए नारायणरूप कमलयौनि
 ब्रह्माजी त्रिलोकीके ग्राससे तृप्त होकर दिनके बराबर ही
 परिमाणवाली उस रात्रिमें शेषशय्यापर शयन करते हैं
 और उसके बीत जानेपर पुनः संसारकी सृष्टि करते
 हैं ॥ २४-२५ ॥ इसी प्रकार (पक्ष, मास आदि) गणनासे
 ब्रह्माका एक वर्ष और फिर सौ वर्ष होते हैं ॥ ब्रह्माके
 सौ वर्ष ही उस महापा (ब्रह्मा) की परमायु हैं ॥ २६ ॥ हे
 अनघ! उन ब्रह्माजीका एक परार्द्ध जोत चुका है। उसके
 अन्तमें पाद्य नामसे विख्यात महाकल्प हुआ था ॥ २७ ॥
 हे द्विज! इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्द्धका यह
 वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है ॥ २८ ॥

* इकहतर चतुर्वृणके हिसाबसे चौदह मन्वन्तरमें १९४ चतुर्वृण होते हैं और ब्रह्माके एक दिनमें एक इका चतुर्वृण होते हैं, अतः १८ चतुर्वृण और घने। अतः चतुर्वृणका चौदहवां भाग कुछ कम पाँच हजार एक सौ तीस दिव्य वर्ष होता है, इस प्रकार एक मन्वन्तरमें इकहतर चतुर्वृणके अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं।

श्रीपराशर उवाच

प्रजाः ससर्ज भगवान्ब्रह्मा नारायणात्मकः ।
 प्रजापतिपतिर्देवो यथा तन्मे निशामय ॥ २
 अतीतकल्पावसाने निशासुप्तोत्थितः प्रभुः ।
 सम्बोद्धिक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यं लोकमवैक्षत ॥ ३
 नारायणः परोऽचिन्त्यः परेषामपि स प्रभुः ।
 ब्रह्मस्वरूपी भगवाननादिः सर्वसम्भवः ॥ ४
 इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ।
 ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगतः प्रभवाम्ययम् ॥ ५
 आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।
 अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ ६
 तोयान्तःस्थं यर्ही ज्ञात्वा जगत्सकृर्णनीकुरो ।
 अनुमानात्तदुद्धारं कर्तुकामः प्रजापतिः ॥ ७
 अकरोत्स्वतनूमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा ।
 मत्स्यकूर्पादिकां तद्ब्रह्मरहं यपुरास्थितः ॥ ८
 वैदयज्ञमर्थं रूपमशेषजगतः स्थितौ ।
 स्थितः स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः ॥ ९
 जनलोकगतैस्सिद्धैस्सनकाद्यैरभिष्टुतः ।
 प्रविवेश तदा तोयमात्माधारो धराधरः ॥ १०
 निरीक्ष्य तं तदा देवी पातालतलमागतम् ।
 तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्तिनम्रा वसुन्धरा ॥ ११

पृथिव्युवाच

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष शङ्खचक्रगदाधर ।
 मामुद्धारस्मादद्य त्वं त्वत्तोऽहं पूर्वपुस्थिता ॥ १२
 त्वयाहमुदधृता पूर्व त्वन्नयाहं जनार्दन ।
 तथान्यामि च भूतानि गगनादीन्वशेषतः ॥ १३
 नमस्ते परमात्मात्मन्पुरुषात्मन्मोऽस्तु ते ।
 प्रधानव्यक्तभूताय कालभूताय ते नमः ॥ १४
 त्वं कर्ता सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत् ।
 सर्गादिषु प्रभो ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मरूपधृक् ॥ १५
 सम्भक्षयित्वा सकलं जगत्स्येकार्णाधीकृते ।
 शेषे त्वमेष गोविन्द चिन्त्यामानो मनीषिभिः ॥ १६

श्रीपराशरजी बोले—प्रजापतिर्षोके स्वामी
 नारायणस्वरूप भगवान् ब्रह्माणीने जिस प्रकार प्रजाको सृष्टि
 की थी वह मुझसे सुनो ॥ २ ॥ पिछले कल्पका अन्त
 होनेपर रात्रिमें सोकर जलेपर सत्वगुणके उदकेसे युक्त
 भगवान् ब्रह्माजीने सम्पूर्ण लोकोंको शून्यमय देखा ॥ ३ ॥
 वे भगवान् नारायण पर हैं, अचिन्त्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु आदि
 ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं, ब्रह्मस्वरूप हैं, अनादि हैं और
 सबकी उत्पत्तिके स्थान हैं ॥ ४ ॥ [मनु आदि स्मृतिपर] ३-४
 ब्रह्मस्वरूप श्रीनारायणदेवके विषयमें जो इस जगत्को
 उत्पत्ति और लयके स्थान हैं, यह श्लोक कहते हैं ॥ ५ ॥
 नर [अर्थात् पुरुष—भगवान् पुरुषोत्तम]-से उत्पन्न होनेके
 कारण जलको 'नार' कहते हैं; वह नार (जल) ही उनका
 प्रथम अयन (निवास स्थान) है। इसलिये भगवान्को
 'नारायण' कहा है ॥ ६ ॥

सम्पूर्ण जगत् जलमय हो रहा था। इसलिये
 प्रजापति ब्रह्माजीने अनुमानसे पृथिवीको जलके भीतर
 जान उसे बाहर निकालनेकी इच्छामें एक दूसरा शरीर
 धारण किया। उन्होंने पूर्व-कल्पोंके आदिमें जैसे मत्स्य,
 कूर्म आदि रूप धारण किये थे वैसे ही इस वाराह
 कल्पके आरम्भमें वेदयज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण किया
 और सम्पूर्ण जगत्की स्थितिमें तत्पर हो सबके अन्तर्गता
 और अविचल रूप में परमात्मा प्रजापति ब्रह्माजी, जो
 पृथिवीको धारण करनेवाले और अपने ही आश्रयसे
 स्थिर हैं, जन लोकस्थित सनकादि सिद्धेश्वरोंमें स्तुति
 किये जाते हुए जलमें प्रविष्ट हुए ॥ ७—१० ॥ तब
 उन्हें पाताललोकमें आये देख देवी वसुन्धरा अति
 भक्तिविनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी ॥ ११ ॥

पृथिवी बोली—हे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण
 करनेवाले कर्मलक्षण भगवान्! आपको नमस्कार है। आज
 आप इस पातालतलमें मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वकालमें
 आपहीसे मैं उत्पन्न हुई थी ॥ १२ ॥ हे जनार्दन! पहले भी
 आपहीने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभो! मैं तथा
 आकाशादि अन्य सब भूतोंके भी आप ही उपादान-
 कल्प हैं ॥ १३ ॥ हे परमात्मस्वरूप! आपको नमस्कार है।
 हे पुरुषोत्तमन्! आपको नमस्कार है। हे प्रधान (कारण)
 और व्यक्त (कार्य) रूप! आपको नमस्कार है।
 हे कालस्वरूप! आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ १४ ॥
 हे प्रभो! जगत्की सृष्टि आदिके लिये ब्रह्मा, विष्णु
 और रुद्ररूप धारण करनेवाले आप ही सम्पूर्ण
 भूतोंकी उत्पत्ति, पालन और नाश करनेवाले हैं ॥ १५ ॥
 और जगत्के एकार्णवरूप (जलमय) हो जग्नेपर,
 हे गोविन्द! सबको भक्षणकर अन्तमें आप ही मन्त्रेयिजनोंद्वय
 चिन्तित होते हुए जलमें शयन करते हैं ॥ १६ ॥

भवतो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन ।
 अक्षतारेषु यद्रूपं तदर्चन्ति दिव्यौकसः ॥ १७
 त्वामाराध्य परं ब्रह्म याता मुक्तिं मुमुक्षवः ।
 वासुदेवमनाराध्य को मोक्षं समवाप्स्यति ॥ १८
 यत्किञ्चिन्मनसा ग्राह्यं यद्ग्राह्यं चक्षुरादिभिः ।
 बुद्ध्यया च यत्परिच्छेद्यं तद्रूपमस्त्रितं तव ॥ १९
 त्वन्मयाहं त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया ।
 माधवीमिति लोकोऽयमभिधत्ते ततो हि माम् ॥ २०
 जघारिखिलज्ञानमय जय स्थूलमयाध्यय ।
 जघाऽनन्त जघाय्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो ॥ २१
 परापररत्नविश्रवात्मज्जय यज्ञपतेऽनघ ।
 त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोङ्कारस्त्वमग्नयः ॥ २२
 त्वं वेदास्त्वं तदद्धानि त्वं यज्ञपुरुषो हरे ।
 सूर्यादयो ग्राह्यस्तास नक्षत्राण्यखिलं जगत् ॥ २३
 मूर्तामूर्तमदृश्यं च दृश्यं च पुरुषोत्तम ।
 यच्चोक्तं यच्च नैवोक्तं मयात्र परमेश्वर ।
 तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः ॥ २४
 श्रीपराशर उवाच
 एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्या धरणीधरः ।
 सामस्वराध्वनिः श्रीमाऽज्जगजं परिघर्षरम् ॥ २५
 ततः समुत्क्षिप्य धरां स्वदंष्ट्रया
 महावराहः स्फुटपचालोच्चनः ।
 रसातलादुत्पलपत्रसन्निभः
 समुत्थितो नील इवाचलो महान् ॥ २६
 उत्तिष्ठता तेन मुखानिलाहतं
 तत्सम्भवाध्मो जनलोकसंश्रयान् ।
 प्रक्षालयामास हि तान्यहाभूतीन्
 सनन्दनादीनपकल्पमवान् मुनीन् ॥ २७
 प्रयान्ति तोयानि खुराग्रविश्वत-
 रसातलेऽधः कृतशब्दसन्तति ।
 श्वासानिलास्ताः परितः प्रयान्ति
 सिद्धा जने ये नियता वसन्ति ॥ २८

हे प्रभो! आपका जो परवत्त्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता; अतः आपका जो रूप अवताररूपमें प्रकट होता है उसीको देवगण पूजा करते हैं ॥ १७ ॥ आप परब्रह्मकी ही आराधना करके मुमुक्षुवन मुक्त होते हैं। पला वासुदेवको अराधना किये बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? ॥ १८ ॥ मनसे जो कुछ ग्रहण (संकल्प) किया जाता है, चक्षु आदि इन्द्रियोंसे जो कुछ ग्रहण (गिषय) करनेयोग्य है, बुद्धिद्वारा जो कुछ विचारणीय है वह सब आपहीका रूप है ॥ १९ ॥ हे प्रभो! मैं आपहीका रूप हूँ, आपहीके आश्रित हूँ और आपहीके द्वारा रची गयी हूँ तथा आपहीकी शरणमें हूँ। इसीलिये लोकमें मुझे 'माधवी' भी कहते हैं ॥ २० ॥ हे सम्पूर्ण ज्ञानमय! हे स्थूलमय! हे अघ्नय! आपकी जय हो। हे अनन्त! हे अत्यक्त! हे व्यक्तमय प्रभो! आपकी जय हो ॥ २१ ॥ हे परापर-स्वरूप! हे विश्वात्मन्! हे यज्ञपते! हे अनघ! आपकी जय हो। हे प्रभो! आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषट्कार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही (आहवनीयादि) अग्नियों हैं ॥ २२ ॥ हे हरे! आप ही वेद, वेदांग और यज्ञपुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और सम्पूर्ण जगत् भी आप ही हैं ॥ २३ ॥ हे पुरुषोत्तम! हे परमेश्वर! मूर्त-अमूर्त, दृश्य-अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा, वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार है ॥ २४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—पृथिवीद्वारा इस प्रकार स्तुति किये जानेपर सामस्वर ही बिनकी ध्वनि है उन भगवान् धरणीधरने घर्षर शब्दसे गर्जना की ॥ २५ ॥ फिर विकसित कमलके समान नेत्रोंवाले उन महावराहने अपनी डाढ़ीसे पृथिवीको उठा लिया और वे कमल-दलके समान श्याम तथा नीलचलके सदृश विशालकाय भगवान् रसातलसे बाहर निकले ॥ २६ ॥ निकलते समय उनके मुखके श्वाससे उछलते हुए चलने जनलोकमें रहनेवाले महत्केजवी और निष्ठाप सनन्दनादि मुनीश्वरोंको धिगा दिया ॥ २७ ॥ जल बढ़ा शब्द करता हुआ उनके खुरोंसे पिदीर्ण हुए रसातलमें नीचेकी ओर जाने लगा और जनलोकमें रहनेवाले सिद्धगण उनके रक्त-कपुसे विक्षिप्त होकर हृदय-उपर भागने लगे ॥ २८ ॥

उन्निष्ठतस्तस्य जलार्द्रकुक्षे-
 मंझावराहस्य महीं जिगृह्य ।
 विधुन्वतो वेदमयं शरीरं
 रोमान्तरस्था मुनयः स्तुवन्ति ॥ २९
 तं तुष्टुयुस्तोषपरीतचेतसो
 लोकेजने ये निवसन्ति योगिनः ।
 सपन्दनाद्या ह्यतिमद्यकन्धरा
 धराधरं धीरतरोद्धतेक्षणम् ॥ ३०
 जयेश्वराणां परमेश केशव
 प्रभो गदाशङ्खधरासिचक्रधृक् ।
 प्रसूतिनाशस्थितिहेतुरीश्वर-
 स्वमेव नान्यत्परमं च यत्पदम् ॥ ३१
 पादेषु वेदास्तव यूपदंष्ट्र
 दन्तेषु यज्ञाश्चित्तयश्च वक्त्रे ।
 हुताशाजिह्वोऽसि तनूरुह्यणि
 दर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव ॥ ३२
 विलोचने राश्र्यहनी महात्म-
 न्सर्वाश्रयं ब्रह्म परं शिरस्ते ।
 सूक्तान्यशेषाणि सटाकलापो
 घ्राणं समस्तानि हृषीषि देव ॥ ३३
 स्रुक्तुण्ड सामस्वरधीरनाद
 प्रारवंशकायाखिलसत्रसन्धे ।
 पूर्तेष्टधर्मश्रवणोऽसि देव
 सनातनात्मभगवन्प्रसीद ॥ ३४
 पदक्रमाक्रान्तभुवं भवन्त-
 मादिस्थितं चाक्षर विश्वमूर्ते ।
 विश्वस्य विद्यः परमेश्वरोऽसि
 प्रसीद नाथोऽसि परावरस्य ॥ ३५
 दंष्ट्राश्रविन्व्यस्तमशेषमेतद्-
 भूमण्डलं नाथ विभाव्यते ते ।
 विगाहस्तः पदयन्तं विलग्नं
 सरोजिनीपत्रमिवोरुपङ्कम् ॥ ३६
 द्यावापृथिव्योरतुलप्रभाव
 यदन्तरं तद्गुप्ता तवैव ।
 व्याप्तं जगद्द्व्यापितसपर्यदीप्ते
 हिताय विश्वस्य विधो भव त्वम् ॥ ३७

जिनकी कुक्षि जलमें भीगी हुई है वे महाम्बराह जिस
 समय अपने वेदमय शरीरको कँपते हुए पृथिवीको
 लेकर बाहर निकले उस समय उनकी रोमावलीमें
 स्थित मुनिजन् स्तुति करने लगे ॥ २९ ॥ उन निराशंक
 और उन्नत दृष्टिवाले धराधर भगवान्को जनलोकमें
 रहनेवाले सनन्दादि योगीश्वरोंने प्रसन्नचित्तसे अति
 नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की ॥ ३० ॥

'हे ब्रह्मादि ईश्वरोंके भो परम ईश्वर! हे केशव!
 हे शंख-गदाधर! हे खड्ग-चक्रधारी प्रभो! आपकी
 जय हो। आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और
 नाशके कारण हैं, तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे
 परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और
 कुछ नहीं है ॥ ३१ ॥ हे यूपरूपी डाढ़ेंवाले प्रभो! आप
 ही यज्ञपुरुष हैं। आपके चरणोंमें चाहे वेद हैं, वेदोंमें
 यज्ञ हैं, मुखमें [श्रवण चित आदि] चितियाँ हैं।
 हुताशन (यज्ञाग्नि) आपकी जिह्व है तथा कुशार्द्र
 रोमावलि हैं ॥ ३२ ॥ हे महात्मन्। रात और दिन आपके
 नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर
 है। हे देव! वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप
 (स्कन्धके रोप-गुच्छ) हैं और समग्र ढवि आपके
 प्राण हैं ॥ ३३ ॥ हे प्रभो! स्रुक् आपका तुण्ड (धूसरी)
 है, सामस्वर भीर-गभीर शब्द है, प्रारवंश (यजमानगृह)
 शरीर है तथा सत्र शरीरकी सन्धियाँ हैं। हे देव! इष्ट
 (श्रौत) और पूत (स्मार्त) धर्म आपके कान हैं।
 हे नित्यस्वरूप भगवन्! प्रसन्न होइये ॥ ३४ ॥ हे अक्षर!
 हे विश्वमूर्ते! अपने पाद-प्रहारसे भूमण्डलको व्याप्त
 करनेवाले आपको हम विश्वके आदिकारण समझते
 हैं। आप सम्पूर्ण चरान्तर जगत्के परमेश्वर और नाथ
 हैं; अतः प्रसन्न होइये ॥ ३५ ॥ हे नाथ! आपकी डाढ़ोंपर
 रखा हुआ यह सम्पूर्ण भूमण्डल ऐसा प्रतीत होता है
 मानो कमलवनकी रीदते हुए गजराजके दाँवोंसे कोई
 कीचड़में मना हुआ कमलका पत्ता लगा हो ॥ ३६ ॥
 हे अनुपम प्रभावशाली प्रभो! पृथिवी और आकाशके
 बीचमें जितना अन्तर है वह आपके शरीरसे ही व्याप्त
 है। हे विश्वको व्याप्त करनेमें समर्थ नेत्रयुक्त प्रभो!
 आप विश्वका कल्याण कीजिये ॥ ३७ ॥

परमार्थस्त्वपेवैको नान्योऽस्ति जगतः पते ।
 तवैष महिमा येन व्याप्तमेतच्चराचरम् ॥ ३८
 वदेतद् दृश्यते मूर्धमेतस्त्वानात्मनस्तव ।
 धान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः ॥ ३९
 ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतदबुद्धयः ।
 अर्धस्वरूपं पश्यन्तो धाम्यन्ते मोहसम्प्लवे ॥ ४०
 ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्तेऽखिलं जगत् ।
 ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर ॥ ४१
 प्रसीद सर्वं सर्वान्त्वान्यासाय जगतामिमाम् ।
 उद्धरोर्धोममेयात्मज्जनो देह्यक्जलोचन ॥ ४२
 सत्त्वोद्विक्तोऽसि भगवन् गोविन्द पृथिवीमिमाम् ।
 समुद्धर भसावेश शन्नो देह्यक्जलोचन ॥ ४३
 सर्गप्रवृत्तिर्भवतो जगतामुपकारिणी ।
 भवत्येषा नमस्तेऽस्तु शन्नो देह्यक्जलोचन ॥ ४४

श्रीपराशर उवाच

एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः ।
 उग्जह्वर क्षितिं क्षिप्रं न्यस्तवांश्च महाम्भसि ॥ ४५
 तस्योपरि जलौघस्य महती नीरिव स्थिता ।
 विततत्वात्तु देहस्य न मही याति सम्प्लवम् ॥ ४६
 ततः क्षितिं समां कृत्वा पृथिव्यां सोऽचिनोद्गिरीन् ।
 यथाविभागं भगवाननादिः परमेश्वरः ॥ ४७
 प्राक्सर्गदग्धानखिलान्यर्वतान्पृथिवीतले ।
 अमोघेन प्रभावेण ससर्जामोघवाञ्छितः ॥ ४८
 भूविभागं ततः कृत्वा सप्तद्वीपान्यथातथम् ।
 भूराद्यांश्चतुरो लोकान्पूर्ववत्समकल्पयत् ॥ ४९
 ब्रह्मरूपधरो देवस्ततोऽसी रजसा वृतः ।
 चकार सृष्टिं भगवांश्चतुर्वक्त्रधरो हरिः ॥ ५०
 निमित्तयात्रमेवाऽसौ सृज्यमानां सर्गकर्मणि ।
 प्रधानकारणीभूता यतो है सृज्यशक्तयः ॥ ५१
 निमित्तमात्रं मुखसैवं नान्यत्किञ्चित्पेक्षते ।
 नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम् ॥ ५२

हे जगत्पते! परमार्थ (सत्य वस्तु) तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा (माया) है जिससे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् व्याप्त है ॥ ३८ ॥ यह जो कुछ भी मूर्तिमान् जगत् दिखानेवाला देता है जानिये तब आपहीका रूप है। अज्ञितोद्भिन्न लोग भ्रमते इसे जगत्-रूप देखते हैं ॥ ३९ ॥ इस सम्पूर्ण जान स्वरूप जगत्को बुझिहोन लोग अर्थरूप देखते हैं, अतः ये निरन्तर मोहमय संसार-सागरमें पटक कर रहे हैं ॥ ४० ॥ हे परमेश्वर! जो लोग शुद्धचित्त और विज्ञानवेत्ता हैं वे इस सम्पूर्ण संसारको आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं ॥ ४१ ॥ हे सर्व! हे सर्वात्मन्! प्रसन्न होइये। हे अप्रमेयात्मन्! हे कमलनयन! संसारके निवासके लिये पृथिवीका उद्धार करके हमको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ ४२ ॥ हे भगवन्! हे गौविन्द! इस समय आप सत्त्वप्रधान हैं; अतः हे ईश! जगत्के उद्धारके लिये आप इस पृथिवीका उद्धार कीजिये और हे कमलनयन! हमको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ ४३ ॥ आपके द्वारा यह सर्गकी प्रवृत्ति संस्कारका उपकार करनेवाली हो। हे कमलनयन! आपको नमस्कार है, आप हमको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ ४४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार स्तुति किये जातेपर पृथिवीको धारण करनेवाले परमात्मा वराहजीने उसे शौच हो उठाकर अपार जलके ऊपर स्थापित कर दिया ॥ ४५ ॥ उस जलसमुद्रके ऊपर वह एक बहुत बड़ी नीकाके समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकर होनेके कारण उसमें डूबती नहीं है ॥ ४६ ॥ फिर उन अनादि परमेश्वरने पृथिवीको समतल कर उसपर जहाँ-तहाँ पर्वतोंको विभाग करके स्थापित कर दिया ॥ ४७ ॥ सत्यसंकल्प भगवान्ने अपने अपोष प्रभावेसे पूर्वकल्पके अन्तमें दाय दाय रूपसे परमेश्वरकी पृथिवी-तलपर यथास्थान रच दिया ॥ ४८ ॥ तदनन्तर उन्होंने सप्तद्वीपदि-क्रमसे पृथिवीका यथायोग्य विभाग कर भूलोंकादि चारों लोकोंकी पूर्ववत् कल्पना कर दी ॥ ४९ ॥ फिर उन भगवान् हरिने उन्हेगुणसे युक्त ही चतुर्मुखधारी ब्रह्मरूप धारण कर सृष्टिकी रचना की ॥ ५० ॥ सृष्टिकी रचनार्थ भगवान् तो केवल निमित्तमात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान करण तो शुच्य पदार्थोंकी शक्तियाँ ही हैं ॥ ५१ ॥ हे तपस्वियोंमें श्रेष्ठ वीरेव! वस्तुओंकी रचनार्थ निमित्तमात्रने छोड़कर और किसी शक्तकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही [परिणाम] शक्तिसे वस्तुता (स्थूलरूपता) को प्राप्त हो जाती है ॥ ५२ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अध्याय

अविद्यादि विविध सर्गिक वर्णन

श्रीमंत्रेय उवाच

यथा ससर्ज देवोऽसौ देवर्षिपितृदानवान् ।
 मनुष्यतिर्यग्बृहदादीन्भूष्योमसलिलौकसः ॥ १
 यद्गुणं यत्स्वभावं च यद्रूपं च जगद्द्विज ।
 सर्गादीं सृष्टवान्ब्रह्मा तन्ममाश्रय कृत्स्नशः ॥ २

श्रीपराशर उवाच

मंत्रेय कथयाम्येतच्छृणुष्व सुसमाहितः ।
 यथा ससर्ज देवोऽसौ देवादीनखिलान्बुधुः ॥ ३
 सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा ।
 अबुद्धिपूर्वकः सर्गः प्रादुर्भूतस्तमोमयः ॥ ४
 तमो मोहो महामोहस्तामितो ह्यन्धसंज्ञितः ।
 अविद्या पञ्चपर्येषा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥ ५
 पञ्चधाऽवस्थितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिबोधवान् ।
 बहिरन्तोऽप्रकाशाश्च संवृतात्मा नगात्मकः ॥ ६
 मुख्यं नगा यतः प्रोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम् ॥ ७
 तं दृष्ट्वाऽसाधकं सर्गमभ्यन्दपरं पुनः ॥ ८
 तस्याभिध्यायतः सर्गस्तिर्यक्स्त्रोताभ्यवर्तत ।
 यस्मात्तिर्यक्प्रवृत्तिस्स तिर्यक्स्त्रोतास्ततः स्मृतः ॥ ९
 पश्चादयस्ते विख्यातास्तमः प्राया ह्यवेदिनः ।
 उत्पथग्राहिणश्चैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ १०
 अहङ्कृता अहम्माना अष्टाविंशद्बुधात्मकतः ।
 अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आवृताश्च परस्परम् ॥ ११

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे द्विजराज! सर्गिक आदिमें भगवान् ब्रह्माजीने पृथिवी, आकाश और कल आदिमें रहनेवाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक् और बृहदिको जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूपवाले जगत्की रचना की वह सब आप भुझसे कहिये ॥ १-२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मंत्रेय! भगवान् विभुने जिस प्रकार इस सर्गिकी रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ; सावधान होकर सुनो ॥ ३ ॥ सर्गिक आदिमें ब्रह्माजीके पूर्ववत् सृष्टिका चिन्तन करनेपर पहले अबुद्धिपूर्वक [अर्थात् पहले-पहले असावधानी हो जानेसे] तमोगुणो सृष्टिका आविर्भाव हुआ ॥ ४ ॥ उस महात्मसे प्रथम तम (अज्ञान), मोह, महामोह (भोगेच्छा), तापिल (क्रोध) और अन्धतापिल (अपिनिवेश) नामक पंचपर्या (पाँच प्रकारकी) अविद्या उत्पन्न हुई ॥ ५ ॥ उसके ध्यान करनेपर ज्ञानशून्य, बाहर-भीतरसे तमोमय और जड नगादि (बृह-गुल्म-स्ता-वीरुत्-तृण) रूप पाँच प्रकारका सर्ग हुआ ॥ ६ ॥ [वराहजीद्वारा सर्वप्रथम स्थापित होनेके कारण] नगादिको मुख्य कहा गया है, इसलिये यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है ॥ ७ ॥

उस सृष्टिको पुरुषार्थकी असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्गिके लिये ध्यान किया तो तिर्यक्-स्रोत-सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग [यासके सभान] तिरछा चलनेवाला है इसलिये तिर्यक्-स्रोत कहलाता है ॥ ८-९ ॥ ये पशु, पक्षी आदि नामसे प्रसिद्ध हैं—और प्रायः तमोमय (अज्ञानी), निवेकरहित अनुचित मार्गका अवलम्बन करनेवाले और विपरीत ज्ञानको ही यथार्थ ज्ञान माननेवाले होते हैं। ये सब अहंकाद्ये, अभिमानी, अहङ्गिस वशसे युक्त* आन्तरिक सुख आदिको ही पूर्णतया समझनेवाले और परस्पर एक-दूसरेकी प्रवृत्तिको न जाननेवाले होते हैं ॥ १०-११ ॥

* सांख्य-कारिकामें अहङ्गिस वशैक वर्णन इस प्रकार किया है—

एकदशोन्द्रियव्याः सह बुद्धिवशैरशक्तिरिष्ट्य । सप्तवशं तथा बुद्धेर्विपर्ययात्पुदिसिद्धीनाम् ॥

याव्याप्तिकल्पपरवत्ततः प्रकृत्युपादानकालभाग्यालयाः । धाढ्या विपयोपरमात् पञ्च च तेषु सृष्टयोऽभिमताः ॥

ऊरुः शब्दोऽध्ययनं दुःखविषयात्स्वयः सुकप्रतिः । शनह शिष्टयोऽप्यौ सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुरास्त्रिविधा ॥

(४९-५१)

य्यारह इन्द्रियवध और बुद्धि तथा तिर्यक्के विपर्ययसे सत्त्व बुद्धि-वध—ये कुल अहङ्गिस वध असाधक कहलाते हैं। प्रकृति, वपादान, कल और पाप कमल चार आध्यात्मिक और पापी ज्ञानेन्द्रियोंके बाह्य विपर्ययके निवृत्त हो जानेसे पाँच बाह्य—इस प्रकार

तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत् ।
 ऊर्ध्वस्त्रोतास्तृतीयस्तु सात्त्विकोर्ध्वमवर्तत ॥ १२
 ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तस्त्वनावृताः ।
 प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊर्ध्वस्त्रोतोद्भवाः स्मृताः ॥ १३
 तुष्टात्मनस्तृतीयस्तु देवसर्गस्तु स स्मृतः ।
 तस्मिन्सर्गेऽभवत्प्रीतिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ॥ १४
 ततोऽन्यं स तदा दध्यां साधकं सर्गमुत्तमम् ।
 असाधकांस्तु तान् ज्ञात्वा मुख्यसर्गादिसम्भवान् ॥ १५
 तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः ।
 प्रादुर्बभूव चाव्यक्तादर्वाक्श्रोतास्तु साधकः ॥ १६
 यस्मादर्वाक्व्यवर्तन्त ततोऽर्वाक्श्रोतसस्तु ते ।
 ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः ॥ १७
 तस्मात्ते दुःखबहुला भूयोभूयश्च कारिणः ।
 प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकास्तु ते ॥ १८
 इत्येते कथिताः सर्गाः षडत्र मुनिसत्तम ।
 प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः ॥ १९
 तन्वात्राणां द्वितीयश्च भूतसर्गो हि स स्मृतः ।
 वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रियकः स्मृतः ॥ २०
 इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः ।
 मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावराः स्मृताः ॥ २१

उस सर्गको भी पुरुषार्थका असाधक समझ
 पुनः चिन्तन करनेपर एक और सर्ग हुआ। यह
 ऊर्ध्व-श्रोतनामक तीसरा सात्त्विक सर्ग ऊपरके लोकमें
 रहने लगा ॥ १२ ॥ ये ऊर्ध्व-श्रोत बुद्धिमें उत्पन्न हुए
 प्राणी विषय-सुखके प्रेमी, वाह्य और आन्तरिक
 दृष्टिसम्पन्न, तथा वाह्य और आन्तरिक ज्ञानयुक्त थे ॥ १३ ॥
 यह तीसरा देवसर्ग कहलाता है। इस सर्गके प्रादुर्भूत
 होनेसे सन्तुष्टचित्त ब्रह्मजीको अति प्रसन्नता हुई ॥ १४ ॥

फिर, इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकारकी
 सृष्टियोंमें उत्पन्न हुए प्राणियोंको पुरुषार्थका असाधक
 जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्गके लिये
 चिन्तन किया ॥ १५ ॥ उन सत्यसंकल्प ब्रह्मजीके इस
 प्रकार चिन्तन करनेपर अल्पक (प्रकृति)-से पुरुषार्थका
 साधक अर्वाक्श्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ ॥ १६ ॥
 इस सर्गके प्राणी नीचे (पृथ्वीपर) रहते हैं इसलिये
 वे 'अर्वाक्श्रोत' कहलाते हैं। उनमें सत्त्व, रज और
 तम तीनोंहीकी अधिकता होती है ॥ १७ ॥ इसलिये वे
 दुःखबहुल, अल्पत क्रियाशील एवं वाह्य आभ्यन्तर ज्ञानसे
 युक्त और साधक हैं। इस सर्गके प्राणी मनुष्य हैं ॥ १८ ॥

हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार अबतक तुमसे छः
 सर्ग कहे। उनमें महत्तत्त्वकी ब्रह्मका पहला सर्ग
 जानना चाहिये ॥ १९ ॥ दूसरा सर्ग तन्मात्राओंका है,
 जिसे श्रुतसर्ग भी कहते हैं और तीसरा वैकारिक सर्ग
 है जो ऐन्द्रियिक (इन्द्रिय-सम्बन्धी) कहलाता है ॥ २० ॥
 इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग
 हुआ। चौथा मुख्यसर्ग है। पर्यत-बुद्धादि स्थावर ही
 मुख्य सर्गके अन्तर्गत हैं ॥ २१ ॥

कुल नै बुद्धियों ई तथा उक्ता, सञ्ज, अध्ययन, [आध्यात्मिक, अर्थात्मिक और आधिदैविक] तीन दुःखविघ्न, सुखापि
 और दान-ये आठ सिद्धियाँ हैं। ये [हृत्विचारणिक, दृष्टि, सिद्धिरूप] तीनों वष मुक्तसे पूर्व विघ्नरूप हैं।

अन्वय-वधिरक्षादिसे लेकर पागलपनरक्त मनसहित ग्यारह इन्द्रियोंकी विपरीत अवस्थाएँ यारह इन्द्रियवध हैं।

अब प्रकारकी प्रकृतियोंमें किरणोंमें नितम्ब लय हो जानेसे अपनेकी मुक्त पात लैच 'प्रकृति' नामकको तुष्टि है। संवासे
 ही अपनेकी कृतार्थ मान लेना 'उपासन' नामकी तुष्टि है। समय आनेपर स्वयं ही सिद्धि लाभ हो जायगी, ध्यानादि क्लेशकी
 कष आनयकता है-ऐसा विचार करना 'काल' नामकी तुष्टि है और आर्यादयसे सिद्धि हो जायगी-ऐसा विचार 'भाय'
 यमकी तुष्टि है। ये चारोंका आत्मसे सम्बन्ध है; अतः ये आध्यात्मिक तुष्टियाँ हैं। पदार्थके उपासन, रक्षण और व्यव्य व्यभिर्षे
 शेष देखकर उनसे उपास्य हो जाना वाह्य तुष्टियाँ हैं। जयदादि यज्ञ नियम पौंच हैं, इसलिये वाह्य तुष्टियाँ भी पौंच ही हैं।
 इस प्रकार कुल नौ तुष्टियाँ हैं।

उपदेशकी अपेक्षा ष फरके स्वयं ही परमर्थक्य निरचय कर लेना 'ऊल' सिद्धि है। प्रसंगवश कहीं कुछ मुक्कर उसीसे
 ज्ञानसिद्धि मान लेना 'खद' सिद्धि है। गुरुसे फरकर ही वस्तु प्राप्त हो गयो-ऐसा मान लेना 'अध्ययन' सिद्धि है। आध्यात्मिकादि
 विविध दुःखोंका नाश हो जाना तीन प्रकारकी 'दुःखाधिपत्ता' सिद्धि है। अनीच पदार्थकी प्राप्ति हो जाना 'युष्प्राप्ति' सिद्धि
 है। तथा विघ्न या तपस्विषीक संग प्राप्ति हो जाना 'घन' चपिकर सिद्धि है। इस प्रकार ये आठ सिद्धियाँ हैं।

तिर्यक्त्वोतास्तु यः प्रोक्तस्तीर्य्योऽन्यः स उच्यते ।
तदूर्ध्वं चोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु संस्पृतः ॥ २२
ततोऽर्वाचोतसां सर्गः सप्तमः स तु मनुषः ॥ २३
अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः सान्त्विकस्तामसश्च सः ।
षड्विंशे वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः ॥ २४
प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः ।
इत्येते वै समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः ॥ २५
प्राकृता वैकृताश्चैव जगते मूलहेतवः ।
सृजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ २६

श्रीसैत्रेय उवाच

सङ्क्षेपात्कथितः सर्गो देवादीनां मुने त्वया ।
विस्तराच्छोतुमिच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तम ॥ २७

श्रीपराशर उवाच

कर्माभिर्भाविताः पूर्वेः कुशलाकुशलैस्तु ताः ।
ख्यात्वा तथा ह्यनिर्मुक्ताः संहारे ह्युपसंहृतः ॥ २८
स्थावरान्ताः सुराद्यस्तु प्रजा ब्रह्मंश्चतुर्विधाः ।
ब्रह्मणः कुर्वतः सृष्टिं जज्ञिरे मानसास्तु ताः ॥ २९
ततो देवासुरपितृन्मनुष्यांश्च चतुष्टयम् ।
सिसृक्षुराभ्यांस्वेतानि स्वमात्मानमयुयुजत् ॥ ३०
युक्तात्मनस्तपोमात्रा ह्यदित्ताऽभूत्प्रजापतेः ।
सिसृक्षोजंघनात्पूर्वमसुरा जज्ञिरे ततः ॥ ३१
उत्ससर्ज ततस्तां तु तपोमात्रात्मिकां तनुम् ।
सा तु त्वक्ता तनुस्तेन मैत्रेयाभूद्विभावरी ॥ ३२
सिसृक्षुरन्यदेहस्थः प्रीतिमाप ततः सुराः ।
सन्धोदित्ताः समुद्भूता मुखतो ब्रह्मणो द्विज ॥ ३३
त्यक्ता सापि तनुस्तेन सत्त्वप्रादयभूदिनम् ।
ततो हि बलिने राजावसुरा देवता दिवा ॥ ३४
सत्त्वमात्रात्मिकामैव ततोऽज्यां जगृहे तनुम् ।
पितृवन्मन्व्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे ॥ ३५
उत्ससर्ज ततस्तां तु पितृन्सृष्ट्वापि स प्रभुः ।
सा चोत्सृष्टा भवत्सख्या दिननक्तान्तरस्थिता ॥ ३६
रजोमात्रात्मिकामन्यां जगृहे स तनुं ततः ।
रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तम ॥ ३७

पंचिमीं जो तिर्यक्त्वोत बतलाया उसे तिर्यक् (कील-पतंगादि) गौं भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्वं चोताओंका है जो 'देवसर्ग' कहलाता है। उसके पश्चात् सप्तवीं सर्ग अर्वाक्-चोताओंका है, वह मनुष्य-सर्ग है ॥ २२-२३ ॥ आठवीं अनुग्रह सर्ग है। यह सान्त्विक और तामसिक है। ये पाँच वैकृत (विकारी) सर्ग हैं और पहले तीन 'प्राकृत सर्ग' कहलाते हैं ॥ २४ ॥ नवों कौमार सर्ग हैं जो प्राकृत और वैकृत भी हैं। इस प्रकार सृष्टि-रचनामें प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापतिके प्राकृत और वैकृत नामक ये बगलके मूलभूत नौ सर्ग तुम्हें सुनाये। अब और क्या सुनना चाहते हो? ॥ २५, २६ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले— हे मुने! आपने इन देवादिकोंके सर्गोंका संक्षेपसे वर्णन किया। अब, हे मुनिश्रेष्ठ! मैं इन्हें आपके मुखारविन्दसे विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ २७ ॥

श्रीपराशरजी बोले— हे मैत्रेय! सम्पूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मोंसे युक्त हैं; अतः प्रलयकालमें सबका लय होनेपर भी वह उनके संस्कारोंसे मुक्त नहीं होते ॥ २८ ॥ हे ब्रह्मन्! ब्रह्मादींके सृष्टि कर्मोंमें प्रवृत्त होनेपर देवताओंसे लेकर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी सृष्टि हुई: यह केवल मनोमयी थी ॥ २९ ॥ फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य— इत चारोंकी तथा जलकी सृष्टि करनेकी इच्छासे उन्होंने अपने शरीरका उपयोग किया ॥ ३० ॥ सृष्टि-रचनाको कामनासे प्रजापतिके युक्तशिश होनेपर तमोगुणकी वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी जंघासे असुर उत्पन्न हुए ॥ ३१ ॥ तब, हे मैत्रेय! उन्होंने उस तमोमय शरीरको ज़ेड़ दिया, यह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही शशि हुआ ॥ ३२ ॥ फिर अन्य देहमें स्थित होनेपर सृष्टिकी क्रमानुवाले उन प्रजापतिको अति प्रसन्नता हुई, और हे द्विज! उनके मुखसे सत्त्वप्रधान देवगण उत्पन्न हुए ॥ ३३ ॥ तदनन्तर उस शरीरको भी उन्होंने त्याग दिया; वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्त्वस्वरूप दिन हुआ। इसीलिये रात्रिमें असुर बलवान् होते हैं और दिनमें देवगणोंका बल विशेष होता है ॥ ३४ ॥ फिर उन्होंने आंशिक सत्त्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपनेको पितृवत् मानते हुए [अपने पश्चिम-भागसे] पितृगणकी रचना की ॥ ३५ ॥ पितृगणकी रचना कर उन्होंने उस शरीरको भी ज़ेड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रिके बीचमें स्थित बन्या ॥ ३६ ॥ तत्पश्चात् उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया; हे द्विजश्रेष्ठ! उससे रजः-प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ३७ ॥

तामप्याशु स तत्याज तनुं सद्यः प्रजापतिः ।
 ज्योत्स्ना समभयत्सापि प्राक्सन्ध्या वाऽभिधीयते ॥ ३८
 ज्योत्स्नागमे तु बलिभो मनुष्याः पितरस्तथा ।
 मैत्रेय सन्ध्यासमये तस्मादेते भवन्ति वै ॥ ३९
 ज्योत्स्ना राव्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि वै प्रभोः ।
 ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणतोपाश्रमाणि तु ॥ ४०
 रजोमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम् ।
 ततः क्षुद्र ब्रह्मणो जाता जज्ञे क्रमस्तथा ततः ॥ ४१
 क्षुत्क्षामानन्धकारेऽथ सोऽसृजद्भगवांस्ततः ।
 विरुष्यः श्मश्रुला जातास्तेऽभ्यधावंस्ततः प्रभुम् ॥ ४२
 मैत्रं भो रक्ष्यतामेव यैरुक्तं राक्षसास्तु ते ।
 ऊचुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षास्तु जज्ञणात् ॥ ४३
 अप्रियेण तु तान्दृष्ट्वा केशाः शीर्यन्त वेधसः ।
 स्त्रीनाश्च शिरसो भूयः समारोहन्त तच्छिरः ॥ ४४
 सर्पणात्तेऽभवन् सर्पा हीनत्वादह्यः स्मृताः ।
 ततः कुन्दो जगत्प्रष्टा क्रोधात्मानो विनिर्ममे ।
 वर्णो न कपिशेनोऽभूतास्ते पिशिताशनाः ॥ ४५
 गाधतोऽङ्गात्समुत्पन्ना गन्धर्वास्तस्य तत्क्षणात् ।
 पिबन्तो जज्ञिरे साच्च गन्धर्वास्तेन ते द्विज ॥ ४६
 एतानि सृष्ट्वा भगवान्ब्रह्मा तच्छक्तिचोदितः ।
 ततः स्वच्छन्दतोऽन्यानि वयांसि वयसोऽसृजन् ॥ ४७
 अश्वयो वक्षसश्चक्रे मुखतोऽजाः स सृष्टवान् ।
 सृष्टवानुदराद्गाश्च पाश्र्वाभ्यां च प्रजापतिः ॥ ४८
 पद्भ्यां चाङ्गान्तस्मात्तद्भ्रान्तासभान्गवयान्भृगान् ।
 उद्भ्यानश्वतरांश्चैव न्यङ्कूनन्वाश्च जातवः ॥ ४९
 ओषध्यः फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे ।
 त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादी द्विजोत्तम ।
 सृष्ट्वा पशुषधीः सम्यग्युयोज स तदाध्वरे ॥ ५०
 गौरजः पुरुषो मेषश्चाङ्गवाश्चतरगर्दभाः ।
 एतान्प्राप्यान्पशूनाद्दुरारण्योश्च निबोध मे ॥ ५१

फिर शोध ही प्रजापतिने उस शरीरको भी त्याग दिया, वही ज्योत्स्ना हुआ, जिसे पूर्व-सन्ध्य अर्थात् प्रातःकाल कहते हैं ॥ ३८ ॥ इसीलिये, हे मैत्रेय! प्रातःकाल होनेपर मनुष्य और सार्धकालके समय पितर बलवान् होते हैं ॥ ३९ ॥ इस प्रकार राति, दिन, प्रातःकाल और सार्धकाल ये चारों प्रभु ब्रह्माजीके ही शरीर हैं और तीनों गुणोंके आश्रय हैं ॥ ४० ॥

फिर ब्रह्माजीने एक और रजोमात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्माजीसे क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधासे कामकी उत्पत्ति हुई ॥ ४१ ॥ तब भगवान् प्रजापतिने अन्धकारमें स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टिकी रचना की। उसमें बड़े भूरूप और दाढ़ी-पूँछवाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्माजीकी ओर ही [उन्हे भक्षण करनेके लिये] दौड़े ॥ ४२ ॥ उनमेंसे जिन्होंने यह कहा कि 'ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो' वे 'राक्षस' कहलाये और जिन्होंने कहा 'हम खायेंगे' वे खानेकी वासनावाले होनेसे 'यक्ष' कहे गये ॥ ४३ ॥

उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्तिकी देखकर ब्रह्माजीके केश सिरसे गिर गये और फिर पुनः उनके भस्त्रकपर आरुढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़नेके कारण वे 'सर्प' कहलाये और नीचे गिरनेके कारण 'अहि' कहे गये। तदनन्तर जगत्-रचयित ब्रह्माजीने क्रोधित होकर क्रोधात्सृक्त प्राणियोंकी रचना की; वे कपिश (कालापन लिये हुए पीले) वर्णके, अति उग्र स्वभाववाले तथा यांसाहारी हुए ॥ ४४-४५ ॥ फिर गान करते समय उनके शरीरसे तुरन्त ही गन्धर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज! वे वाणीका उच्चारण करते अर्थात् बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिये 'गन्धर्व' कहलाये ॥ ४६ ॥

इन सबकी रचना करके भगवान् ब्रह्माजीने पशुओंको, उनके पूर्व-धर्मसे प्रेरित होकर स्वच्छन्दात्पूर्वक अपनी आयुसे रचा ॥ ४७ ॥ तदनन्तर अपने वक्षःस्थले भेड़, मुखसे बकरी, उदर और पाश्र्वभागसे गौ, पैरोंसे घोड़े, झंठी, गधे, वनगाय, मृग, लैंट, खच्चर और न्यौकु आदि पशुओंको रचना की ॥ ४८-४९ ॥ उनके रोमीसे फल-मूलरूप औषधियाँ उत्पन्न हुईं। हे द्विजोत्तम! कल्पके आरम्भमें ही ब्रह्माजीने पशु और औषधि आदिकी रचना करके फिर त्रेतायुगके आरम्भमें उन्हें पञ्चादि कर्माँमें सम्मिलित किया ॥ ५० ॥ गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गाँवों

श्रवापदा द्विरक्षुरा हस्ती वानराः पक्षिपञ्चमाः ।
 औदकाः पन्नवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः ॥ ५२
 गायत्रं च ऋचश्चैव त्रिवृत्सोमं रथन्तरम् ।
 अग्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखात् ॥ ५३
 यजूंषि त्रैष्टुभं छन्दः स्तोमं पञ्चदशं तथा ।
 बृहत्साम तथोष्धं च दक्षिणादसृजन्मुखात् ॥ ५४
 सामानि जगतीछन्दः स्तोमं सप्तदशं तथा ।
 वैरूपपतिरात्रं च पश्चिमादसृजन्मुखात् ॥ ५५
 एकदशमथर्वाणामाप्तोर्यामाणमेष च ।
 अनुष्टुभं च वैराजमुत्तरादसृजन्मुखात् ॥ ५६
 उच्चासचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे ।
 देवासुरपितृन् सृष्ट्वा मनुष्याश्च प्रजापतिः ॥ ५७
 ततः पुनः सप्तर्षादीं सङ्कल्पस्य पितामहः ।
 यज्ञान् पिशाचानन्धर्वान् तथैवाप्सरसां गणान् ॥ ५८
 नरकिन्नररक्षसि इयः पशुमगोरगान् ।
 अव्ययं च व्ययं चैव यदिदं स्थाणुजङ्गमम् ॥ ५९
 तत्समस्रं तदा ब्रह्मा भगवानादिकृतप्रभुः ।
 तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिवेदिरे ।
 तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ६०
 हिंसाहिंसे मृदुकूरे धर्माधर्मावृत्तान्ते ।
 तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ ६१
 इन्द्रिधार्येषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभुः ।
 पानात्वं विनियोगं च धार्तवं च्यसृजत्सयम् ॥ ६२
 नामरूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम् ।
 वेदशब्देभ्य एवादीं देवादीनां चकार सः ॥ ६३
 ऋषीणां नामधेयानि यथा वेदश्रुतानि वै ।
 तथा नियोगयोग्यानि ह्यन्येषामपि सोऽवन्तोत् ॥ ६४
 यधर्तुष्यनुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये ।
 दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ ६५
 करोत्येवंविधां सृष्टिं कल्पादीं स पुनः पुनः ।
 सिसृक्षाशक्तियुक्तोऽसौ सृज्यशक्तिप्रचोदितः ॥ ६६

रहनेवाले पशु हैं। जंगली पशु से हैं—श्रवापद (व्याघ्र आदि), दो खुरवाले (वानराय आदि), हाथी, बन्दर और गींचवें पक्षी, छठे जलके जीव तथा सातवें सरीसृप आदि ॥ ५१-५२ ॥ फिर अपने प्रथम (पूर्व) मुखसे ब्रह्माजीने गायत्री, ऋक्, त्रिवृत्सोम रथन्तर और अग्निष्टोम यज्ञोंको निर्मित किया ॥ ५३ ॥ दक्षिण-मुखसे मनु, त्रैष्टुप्छन्द, पंचदशस्तोम, बृहत्साम तथा उक्थकी रचना की ॥ ५४ ॥ पश्चिम-मुखसे साम, जगतीछन्द, सप्तदशस्तोम, वैरूप और अतिरघ्रको उत्पन्न किया ॥ ५५ ॥ तथा उत्तर-मुखसे ऋत्विजोंके एकविंशतिस्तोम, अधर्ववेद, आप्तोर्यामाण, अनुष्टुप्छन्द और वैराजकी सृष्टि की ॥ ५६ ॥

इस प्रकार उनके शरीरसे समस्त ऊँच-नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान् ब्रह्माजीने देव, असुर, पितृगण और मनुष्योंको सृष्टि कर तदनन्तर कल्पका आरम्भ होनेपर फिर यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि सम्पूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर-जंगम जगत्की रचना की। उनमेंसे जिनके जैसे-जैसे कर्म पूर्वकल्पमें थे पुनः-पुनः सृष्टि होनेपर उनके उन्हींमें फिर प्रवृत्ति हो आती है ॥ ५७-६० ॥ उस समय हिंसा-अहिंसा, मृदुता-कठोरता, धर्म-अधर्म, सत्य-मिथ्या—ये सब अपनी पूर्व-भावनाके अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, इसीसे ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं ॥ ६१ ॥

इस प्रकार प्रभु विधाताने ही स्वयं इन्द्रियोंके विषय भूत और शरीर आदिमें विधिन्नाता और व्यवहारको उत्पन्न किया है ॥ ६२ ॥ उन्हींने कल्पके आरम्भमें देवता आदि प्राणियोंके वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य-विभागको निश्चित किया है ॥ ६३ ॥ ऋषियों तथा अन्य प्राणियोंके भी वेदानुकूल नाम और यथायोग्य कर्मोंको उन्हींने निर्दिष्ट किया है ॥ ६४ ॥ जिस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रभुओंके पुनः-पुनः आनेपर उनके विद्वान् और नाम-रूप आदि पूर्वजन्त रहते हैं उसी प्रकार युगादिमें भी उनके पूर्व-भाग ही देखे जाते हैं ॥ ६५ ॥ सिसृक्षा-शक्ति (सृष्टि-रचनाकी इच्छारूप शक्ति) से युक्त वे ब्रह्माजी सृज्य-शक्ति (सृष्टिके प्रारब्ध) की प्रेरणासे कल्पोंके आरम्भमें आरम्भपर इसी प्रकार सृष्टिकी रचना किया करते हैं ॥ ६६ ॥

छठा अध्याय

चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था, पृथिवी-विभाग और अन्नादिकी उत्पत्तिका वर्णन

श्रीमैत्रेय उवाच

अर्वावस्रोतास्तु कथितो भवता वस्तु मानुषः ।
ब्रह्मन्विस्तरतो ब्रूहि ब्रह्मा तमसृजद्यथा ॥ १
यथा अ वर्णानसृजद्यद्गुणाश्च प्रजापतिः ।
यच्च तेषां स्मृतं कर्म विप्रादीनां तदुच्यताम् ॥ २

श्रीपराशर उवाच

सत्याभिध्यायिनः पूर्वं सिंसृक्षोर्ब्रह्मणो जगत् ।
अजायन्त द्विजश्रेष्ठ सन्वोद्विक्त्र मुखात्प्रजाः ॥ ३
वक्षसो रजसोद्विक्त्रास्तथा वै ब्रह्मणोऽभवन् ।
रजसा तमसा चैव समुद्विक्त्रास्तथोरुतः ॥ ४
पद्भ्यामन्याः प्रजा ब्रह्मा ससर्ज द्विजसत्तम ।
तमः प्रधानास्ताः सर्वाश्चातुर्वर्ण्यमिदं तत ॥ ५

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम ।
पादोरुवक्षःस्थलतो मुखतश्च समुद्गताः ॥ ६
यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद् ब्रह्मा अकार वै ।
चातुर्वर्ण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम् ॥ ७
यज्ञैराप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण वै प्रजाः ।
आप्याययन्ते धर्मज्ञ यज्ञाः कल्याणहेतवः ॥ ८

निष्पाद्यन्ते नरैस्तेस्तु स्वधर्माभिरतैस्सदा ।
विशुद्धचरणोपेतैः सद्भिः सन्मार्गागामिभिः ॥ ९
स्वर्गापवर्गौ मानुष्याद्याप्नुवन्ति नरा मुने ।
यच्चाभिरुचितं स्थानं तद्यान्ति मनुजा द्विज ॥ १०
प्रजास्तत्र ब्रह्मण्यं सृष्टाश्चातुर्वर्ण्यव्यवस्थिताः ।
सम्यक्शुद्धासमाचारप्रवर्णा मुनिसत्तम ॥ ११

यद्येच्छावासनिरताः सर्वबाधाविवर्जिताः ।
शुद्धान्तःकरणाः शुद्धाः कर्मानुष्ठाननिर्मलाः ॥ १२
शुद्धे च तासां मनसि शुद्धेऽन्तः संस्थिते हरी ।
शुद्धज्ञानं प्रपश्यन्ति विष्वक्खर्षं येन तत्पदम् ॥ १३
ततः कालात्मको योऽसी स चांशः कथितो हरेः ।
स पातयत्यद्यं घोरमल्पमल्पाल्पसारवत् ॥ १४

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे भगवन्! आपने जो अर्वाव-
स्रोता मानुष्योंके विषयमें कहा उनकी सृष्टि ब्रह्माजीने
किस प्रकार की—यह विस्तारपूर्वक कहिये ॥१॥
श्रीप्रजापतिने ब्राह्मणादि वर्णको जिन-जिन गुणोंसे युक्त
और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो-जो कर्तव्य-
कर्म निर्धारित किये वह सब वर्णन कोजिये ॥२॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विजश्रेष्ठ! जगत्-रचनाको
इच्छासे युक्त सत्यसंकल्प श्रीब्रह्माजीके मुखसे पहले
सत्यप्रधान प्रजा उत्पन्न हुई ॥३॥ तदनन्तर उनके
वक्षःस्थलसे रजःप्रधान तथा जंघाओंसे रज और
दमविशिष्ट सृष्टि हुई ॥४॥ हे द्विजोत्तम! चरणोंसे
ब्रह्मानीने एक और प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की, वह
तमःप्रधान थी। ये हो सत्र चारों वर्ण हुए ॥५॥ इस
प्रकार हे द्विजसत्तम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
ये चारों क्रमशः ब्रह्मानीके मुख, वक्षःस्थल, नाभ
और चरणोंसे उत्पन्न हुए ॥६॥

हे महाभाग। ब्रह्माजीने यज्ञानुष्ठानके लिये ही यज्ञके
उत्तम साधनरूप इस सम्पूर्ण चातुर्वर्ण्यकी रचना की
थी ॥७॥ हे धर्मज्ञ। यज्ञसे तृप्त होकर देवगण
जल बरसाकर प्रजाको तृप्त करते हैं; अतः यज्ञ
सर्वथा कल्याणका हेतु है ॥८॥ जो मनुष्य सदा
स्वधर्मपरायण, सदाचारी, सज्जन और शुभार्णगामी होते
हैं उन्हींसे यज्ञका यथावत् अनुष्ठान हो सकता है ॥९॥
हे मुने! [यज्ञके द्वारा] मनुष्य इस मनुष्य-शरीरसे ही
स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं; तथा और भी
जिस स्थानकी उन्हें इच्छा हो उसीको जा सकते हैं ॥१०॥

हे मुनिसत्तम! ब्रह्मार्जीद्वारा शची हुई यह चातुर्वर्ण्य-
विभागमें स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरणवाली,
स्वेच्छानुसार रहनेवाली, सम्पूर्ण बाधाओंसे रहित, शुद्ध
अन्तःकरणवाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मोंके
अनुष्ठानसे परम पवित्र थी ॥११-१२॥ उसका चित्त शुद्ध
होनेके कारण इसमें निरन्तर शुद्धस्वरूप श्रोत्रिके
विराजमान रहनेसे उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था
जिससे वे भगवान्के उक्त 'विष्णु' नामक परम पदको
देख पाते थे ॥१३॥ फिर (त्रेतायुगके आरम्भमें),
हमने तुमसे भगवान्के जिस काल नामक अंशका
पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सारवाही
(सुखवाही) शुद्ध और घोर (दुःखमय) पापोंकी
प्रजामें प्रवृत्त कर देता है ॥१४॥

अधर्मबीजसमुद्भूतं तमोलोभसमुद्भवम् ।
 प्रजासु तासु मैत्रेय रागादिकमसाधकम् ॥ १५
 ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीव जायते ।
 रसोल्लासाद्यश्वायुः सिद्धद्योऽष्टौ भवन्ति यद् ॥ १६
 तासु क्षीणास्वशेषासु वर्द्धमाने च पातके ।
 हृन्नाभिभवद्दुःखार्तास्ता भवन्ति ततः प्रजाः ॥ १७
 ततो दुर्गाणि ताश्चकुर्धान्वं पार्वतमौदकम् ।
 कृत्रिमं च तथा दुर्गं पुरखर्वटकादिकम् ॥ १८
 गृहाणि च यथान्यायं तेषु चक्रुः पुरादिषु ।
 शीतासपादिबाधानां प्रशमाय महामते ॥ १९
 प्रतीकारमिमं कृत्वा शीतादेस्ताः प्रजाः पुनः ।
 वातौपायं ततश्चकुर्हस्तसिद्धिं च कर्मजाम् ॥ २०
 ग्रीह्यश्च यथाश्चैव गोधूमाश्चाणवस्तितः ।
 प्रियङ्गवो ह्युदाराश्च कोरदुषाः सतीनकाः ॥ २१
 माषा मुद्गा मसुराश्च निष्पावाः सकुलत्थकाः ।
 आढव्यश्चणकाश्चैव शणाः सप्तदश स्मृताः ॥ २२
 इत्येता ओषधीनां तु ग्राह्यानां जातयो मुने ।
 ओषधो यत्रियाश्चैव प्राप्यारण्याश्चतुर्दश ॥ २३

हे मैत्रेय! उससे प्रजामें पुरुषार्थका विघातक तथा अज्ञान और लोभको उत्पन्न करनेवाला रागादिक रूप अधर्मका बीज उत्पन्न हो जाता है ॥ १५ ॥ तभीसे उसे यह विष्णु-पद-प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियाँ नहीं मिलती ॥ १६ ॥

उन समस्त सिद्धियोंके क्षीण हो जाने और पापके बढ़ जानेसे फिर सम्पूर्ण प्रजा दुन्दुह, ह्रास और दुःखसे आतुर हो गयी ॥ १७ ॥ तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदिके स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खर्वट आदि स्थापित किये ॥ १८ ॥ हे महामते! उन पुर आदिकोंमें शीत और घाम आदि बाधाओंसे बचनेके लिये उसने यथायोग्य घर बनये ॥ १९ ॥

इस प्रकार शीतोष्णादिसे बचनेका उपाय करके उस प्रजाने जीविकाके साधनरूप कृषि तथा कला-कौशल आदिकी रचना की ॥ २० ॥ हे मुने! घान, जौ, गेहूँ, खेरे घान्य, तिल, काँगनी, प्यार, कोदो, खेटी पदर, उड़द, भूँग, भसूर, धही पदर, कुलाभी, राई, चना और सन—ये सत्रह प्राप्य ओषधियोंकी जातियाँ हैं। प्राप्य और वन्य दोनों प्रकारकी मिलाकर कुल चौदह ओषधियाँ यादिक हैं:

१- रसोल्लासादि अष्ट-सिद्धियोंका वर्णन स्कन्दपुराणमें इस प्रकार किया है—

रसस्य स्वत एवानरुल्लासः स्वाङ्गुने मुने । (सोल्लासादिकी सिद्धिस्तथा हृदि क्षुधं नरः ॥
 स्व्यादीनां नैरनेक्ष्येण सद्य तुजा प्रजास्तथा । श्लोया सिद्धिरिष्ट सा वृत्तिर्नृत्तिसुधीः ॥
 र्ष्यात्तमश्न योऽस्त्यासां सा तृतीयाऽभिधीयते । चतुर्थी तुल्यता रासायामुपः सुखरूपयोः ॥
 ऐकान्त्यकलनादुत्थं विज्ञेया माय पञ्चमी । परमात्मपरत्वेन तस्यैधानादिभिष्टिता ॥
 षष्ठी च कामचारित्वं लब्धनी सिद्धिरष्टमे । अष्टयो च तथा प्रोक्त यत्रकवचनदापिता ॥

अर्थ—स्वयंपुण्यमें रसका स्वर्भ ही उत्पन्न होता था। वही रसोल्लास नामकी सिद्धि है, उसके प्रभावसे मनुष्य पुख्ताने पट्ट कर देता है। उस समय प्रजा सत्री आदि भोगोंकी अपेक्षाके विना ही सद्य तुजा रहती थी; इसीकी मुनिनेश्रीने 'वृत्ति' नामक दूसरी सिद्धि कहा है। उनका जो उत्तम धर्म था वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। उस समय सम्पूर्ण प्रजाके रूप और आयु एक-से थे, वही उनकी चौथी सिद्धि थी। वलकी ऐकान्तिकी अधिकतम—यह 'विज्ञेय' नामकी पाँचवीं सिद्धि है। परमात्मपरायण रहते हुए तप-भ्यानादिमें ऊपर रहने वाली सिद्धि है। स्वेच्छानुसार विचरना सातवीं सिद्धि कही जाती है तथा जहई-तही भनकी मैन पदे रहना आठवीं सिद्धि कही गयी है।

२- फलाइ या नदीके नटपर बसे हुए खेरे-खेरे टीलोंके 'खर्वट' कहते हैं।

त्रीहयस्सखया माषा गोधूमशृङ्गाणवस्तिताः ।
 प्रियङ्गुसप्तमा ह्येते अष्टमास्तु कुलतथकाः ॥ २४
 श्यामाकास्त्वश नीलाश्च जर्जिलाः सङ्घेयुकाः ।
 तथा वेणुयवाः प्रोक्तास्तथा मर्कटका मुने ॥ २५
 प्राभ्यारण्याः स्मृता ह्येता ओषध्यस्तु चतुर्दश ।
 यज्ञनिष्पत्तये यज्ञस्तथासां हेतुरुत्तमः ॥ २६
 एताश्च सह यज्ञेन प्रजानां कारणं परम् ।
 परावरविदः प्राज्ञास्ततो यज्ञान्वितन्वते ॥ २७
 अह्न्यह्न्यनुष्ठानं यज्ञानां मुनिसत्तम ।
 उपकारकरं पुंसां क्रियमाणाघशान्तिदम् ॥ २८
 येषां तु कालसृष्टोऽसौ पापखिन्दुर्महामुने ।
 घेतःसु चतुर्धे चक्रुस्ते न यज्ञेषु मानसम् ॥ २९
 वेदवादांस्तथा वेदान्यज्ञकर्मादिकं च यत् ।
 तत्सर्वं निन्दयामासुर्वज्रव्यासेधकारिणः ॥ ३०
 प्रवृत्तिमार्गव्युच्छित्तिकारिणो वेदिनिन्दकाः ।
 दुरात्मानो दुराचारा बभूवुः कुटिलाशयाः ॥ ३१
 र्ससिद्धायां तु जातायां प्रजाः सृष्ट्य प्रजापतिः ।
 मर्यादां स्थापयामास यथास्थानं यथागुणम् ॥ ३२
 वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्धर्मभूतां चर ।
 लोकांश्च सर्ववर्णानां सम्यग्धर्मानुपालिनाम् ॥ ३३
 प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियावताम् ।
 स्थानमैन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेष्वनिवर्तिनाम् ॥ ३४
 वैश्यानां मारुतं स्थानं स्वधर्ममनुवर्तिनाम् ।
 गान्धर्वं शूद्रजातीनां परिचर्यानुवर्तिनाम् ॥ ३५
 अध्वाशीतिसहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् ।
 स्मृतं तेषां तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम् ॥ ३६
 सप्तर्षीणां तु यत्स्थानं स्मृतं तद्वै सनौकसाम् ।
 प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिनां खड्गसंज्ञितम् ॥ ३७
 योगिनामभृतं स्थानं स्वात्मसन्तोषकारिणाम् ॥ ३८
 एकान्तिनः सदा ब्राह्मण्ययिनो योगिनश्च ये ।
 तेषां तु परमं स्थानं यत्तत्पश्यन्ति सूरयः ॥ ३९

उनके नाम ये हैं—धान, जौ, लहसु, गेहूँ, छोटे धान्य,
 तिल, काँगनी और कुलथी—ये आठ तथा श्यामाक
 (सर्प), नीलार, वनतिल, गवंधु, वेणुयव और मर्कट
 (नक्का) ॥ २१ २५ ॥ ये चौदह ग्राम्य और अन्य
 ओषधियाँ यज्ञानुष्ठानकी सामग्री हैं और यज्ञ इनकी
 उत्पत्तिका प्रधान हेतु है ॥ २६ ॥ यज्ञोंके सञ्चित ये
 ओषधियाँ प्रजाकी वृद्धिका परम कारण हैं इसलिए
 इहलोक-परलोकके ज्ञाता पुरुष यज्ञोंका अनुष्ठान किया
 करते हैं ॥ २७ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! नित्यप्रति किया जानेवाला
 यज्ञानुष्ठान मनुष्योंका परम उपकारक और उनके
 किसे हुए पापोंको शान्त करनेवाला है ॥ २८ ॥

हे महापुत्र ! जिनके चित्तमें कालकी गतिसे षण्का
 शीज बढ़ता है उन्हीं लोगोंका चित्त यज्ञमें प्रवृत्त नहीं
 होता ॥ २९ ॥ उन यज्ञके विरोधियोंने वैदिक मत, वेद
 और यज्ञादि कर्म—सर्षोंकी निन्दा की है ॥ ३० ॥ ये
 लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमति, वेद विनिन्दक
 और प्रवृत्तिमार्गका उच्छेद करदेवाले ही थे ॥ ३१ ॥

हे धर्मवान्तोमें श्रेष्ठ यंत्रण ! इस प्रकार कृषि आदि
 नीतिव्यक्के साधनोंके निश्चित ही जानेपर प्रजापति ब्रह्मजीने
 प्रजाकी रचना कर उनके स्थान और गुणोंके अनुसार
 मर्यादा, धर्म और आश्रमोंके धर्म तथा अपने धर्मके भली
 प्रकार पालन करनेवाले समस्त वर्णोंके लोक आदिकी
 स्थापना की ॥ ३२ ३३ ॥ कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंका स्थान
 पितृलोक है, युद्ध-क्षेत्रसे कभी न हटनेवाले क्षत्रियोंका
 इन्द्रलोक है ॥ ३४ ॥ तथा अपने धर्मका पालन करदेवाले
 वैश्योंका वायुलोक और सेवाधर्मपरायण शूद्रोंका
 गन्धर्वलोक है ॥ ३५ ॥ अद्वासी हजार ऊधरेता मुनि हैं;
 उनकी जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी
 ब्रह्मधरियोंका स्थान है ॥ ३६ ॥ इसी प्रकार खनवासी
 वानप्रस्थोंका स्थान सप्तर्षीलोक, गृहस्थोंका पितृलोक
 और संन्यासियोंका ब्रह्मलोक है तथा आत्मनुभवसे तृप्त
 योगियोंका स्थान अमरपद (मोक्ष) है ॥ ३७-३८ ॥ जो
 निरन्तर एकान्तसेवी और ब्रह्मचिन्तनमें मग्न रहनेवाले
 योगिजन हैं उनका जो परमस्थान है उसे परिश्रितजन
 ही देख सकते हैं ॥ ३९ ॥

गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः ।
अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ॥ ४० ॥
तामिस्वमन्वतामिस्व महारौरवरौरवी ।
असिपत्रवर्न घोरं कालसूत्रमवीचिकम् ॥ ४१ ॥
धिनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम् ।
स्थानमेतस्ममाख्यातं स्वधर्मत्वाग्निश्रवणे ॥ ४२ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सातवीं अध्याय

मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्प, स्वामधुवधु और शतरूपा तथा उनकी सन्तानका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

ततोऽभिध्यायतस्तस्य जज्ञिरे मानसाः प्रजाः ।
तच्छरीरसमुत्पन्नैः कार्यैस्तैः करणीः सह ।
क्षेत्रज्ञाः समवर्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः ॥ १ ॥
ते सर्वे समवर्तन्त ये भया प्रागुदाहृताः ।
देवाद्याः स्थावरान्तराश्च त्रैगुण्यविषये स्थिताः ॥ २ ॥
एवंभूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च ॥ ३ ॥
यदास्य ताः प्रजाः सर्वा न व्यवर्धन्त धीमतः ।
अथान्यान्यानसान्युत्रान्सदृशानात्मनोऽसृजत् ॥ ४ ॥
भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा ।
मरीचिं वृक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसान् ॥ ५ ॥
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ ६ ॥
ख्यातिं भूतिं च सम्भूतिं क्षमां प्रीतिं तथैव च ।
सन्नतिं च तथैवोन्जाभनसूयां तथैव च ॥ ७ ॥
प्रसूतिं च ततः सृष्ट्वा ददौ तेषां महात्मनाम् ।
पत्न्यो भवध्वमित्युक्त्वा तेषामेव तु दत्तवान् ॥ ८ ॥
सनन्दनादयो ये च पूर्वसृष्टास्तु वैभवाः ।
न ते लोकेष्वसृजन्त निरपेक्षाः प्रजासु ते ॥ ९ ॥
सर्वे तेऽभ्यागतज्ञाना पीतरागा विमत्सराः ।
तेस्त्वेषं निरपेक्षेषु लोकसृष्टौ महात्मनः ॥ १० ॥

चन्द्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने-अपने लोकोंमें आकर फिर लौट आते हैं, किन्तु द्वादशाक्षर मन्त्र (३० नमो भगवते वासुदेवाय) का चिन्तन करनेवाले अभीतक मोक्षपदसे नहीं लौटे ॥ ४० ॥ तामिस्र, अन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवर्न, घोर, कालसूत्र और अवीचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदोंकी निन्दा और यज्ञोंका उच्छेद करनेवाले तथा स्वधर्म-विमुख पुरुषोंके स्थान कहे गये हैं ॥ ४१-४२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—फिर उन प्रजापतिके ध्यान करनेपर उनके देहस्वरूप भूतोंसे उत्पन्न हुए शरीर और इन्द्रियोंके सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुईं। उस समय मतिमान् ब्रह्माजीके जट शरीरसे ही चेतन जीवोंका प्रदुर्भाव हुआ ॥ १ ॥ यैने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओंसे लेकर स्थावरपर्यन्त वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए ॥ २-३ ॥

जब महाशुद्धिमान् प्रजापतिकी वह प्रजा पुत्र-पौत्रादि-क्रमसे और न बढ़ी तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिर, मरीचि, वृक्ष, अत्रि और वसिष्ठ—इन अपने ही सदृश अन्य मानस-पुत्रोंको सृष्टि की। पुरुषोंमें ये नौ ब्रह्मा माने गये हैं ॥ ४-६ ॥

फिर ख्याति, भूति, सम्भूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसूति इन नौ कन्याओंको उत्पन्न कर, इन्हें उन महात्माओंको 'तुम इनको पत्नी हो' ऐसा कहकर सौंप दिया ॥ ७-८ ॥

ब्रह्माजीने पहले जिन सनन्दनादिके उत्पन्न किया था वे निरपेक्ष होनेके कारण सन्तान और संसार आदिमें प्रवृत्त नहीं हुए ॥ ९ ॥ वे सभी ज्ञानसम्पन्न, विरक्त और मत्सरहीन दोषोंसे रहित थे। उन महात्माओंको संसार-रचनासे

ब्रह्मणोऽभूमहान् क्रोधस्त्रैलोक्यमदहनक्षमः ।
 तस्य क्रोधात्ममुद्भूतञ्चालामालानिदीपितम् ।
 ब्रह्मणोऽभूत्तदा सर्वं त्रैलोक्यमखिलं मुने ॥ ११
 भुकृटीकुटिलात्तस्य ललाटात्क्रोधदीपितात् ।
 समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्याह्नार्कसमप्रभः ॥ १२
 अर्धनारीनरसपुः प्रचण्डोऽतिशरीरवान् ।
 विभजात्मानमित्सुकला तं ब्रह्मान्तर्दधे ततः ॥ १३
 तथोत्तरेऽसी द्विधा स्त्रीत्वं पुरुषत्वं तथाऽकरोत् ।
 विभेदपुरुषत्वं च दशधा चैकधा पुनः ॥ १४
 सौम्यासौम्यैस्तदा शान्ताऽशानैः स्त्रीत्वं च स प्रभुः ।
 विभेद बहुधा देवः स्वरूपैरसितैः सितैः ॥ १५
 ततो ब्रह्माऽऽत्मसम्भूतं पूर्वं स्वायम्भुवं प्रभुः ।
 आत्मानमेव कृत्वा प्रजापाल्ये मनुं द्विज ॥ १६
 शतरूपां च तां नारीं तपोविधूतकल्मषाम् ।
 स्वायम्भुवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे प्रभुः ॥ १७
 तस्मात्तु पुरुषाद्देवी शतरूपा व्यजायत ।
 प्रियव्रतोऽतानपादौ प्रसूत्याकृतिसंज्ञितम् ॥ १८
 कन्याद्वयं च धर्मज्ञ रूपाद्यौर्गुणान्वितम् ।
 ददौ प्रसूतिं दक्षाय आकृतिं रुचये पुरा ॥ १९
 प्रजापतिः स जग्राह तयोर्जज्ञे सदक्षिणः ।
 पुत्रो वज्रो महाभाग दम्पत्योर्मिश्रुतं ततः ॥ २०
 यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे ।
 यथा इति समाख्याता देवाः स्वायम्भुसे मनौ ॥ २१
 प्रसूत्यां च तथा दक्षश्चतस्रो विशतिस्तथा ।
 ससर्ज कन्यास्तासं च सम्यक् नामानि ये शृणु ॥ २२
 श्रद्धा लक्ष्मीर्धृतिस्तुष्टिर्मेधा बुद्धिस्तथा क्रिया ।
 बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीर्तिस्त्वयोदशी ॥ २३
 पत्न्यर्थं प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षावणीः प्रभुः ।
 तत्रभ्यः शिष्टाः यक्षीयस्व एकादश सुलोचनाः ॥ २४
 ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः स्मृतिः प्रीतिः क्षमा तथा ।
 सन्ततिश्चानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा ॥ २५
 भृगुर्गवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनिः ।
 पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुश्चर्षिवरस्तथा ॥ २६

ब्रह्मणोको जिलोकीको भस्म कर देनेवाला महान् क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने। उन ब्रह्मणोके क्रोधके कारण सम्पूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओंसे अत्यन्त देदीप्यमान हो गयी ॥ १०-११ ॥

उस समय उनकी टेंड़ी भुकृटि और क्रोध-सन्तप ललाटेसे दोषदरके सूर्यके समान प्रकाशमान रूपकी उत्पत्ति हुई ॥ १२ ॥ उसका अति प्रचण्ड शरीर आधा नर और आधा नारीरूप था। तब ब्रह्मणो 'अपने शरीरका विभाज कर' ऐसा कहकर अन्तर्भाग ही गये ॥ १३ ॥ ऐसा कहे जानेपर उस रुद्रने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागोंको अलग-अलग कर दिया और फिर पुरुष-भागको ग्यारह भागमें विभक्त किया ॥ १४ ॥ तथा स्त्री भागको भी सौम्य, क्रूर, शान्त-अशान्त और श्याम-गौर आदि कई रूपोंमें विभक्त कर दिया ॥ १५ ॥

तदनन्तर हे द्विज! अपनेसे उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वायम्भुवको ब्रह्मणोने प्रजा-पालनके लिये प्रथम मनु बनाया ॥ १६ ॥ उन स्वायम्भुव मनुने । अपने ही साथ उत्पन्न हुई। तपके कारण निष्पाप शतरूपा नामकी स्त्रीको अपनी पत्नीरूपसे ग्रहण किया ॥ १७ ॥ हे धर्मज्ञ! उन स्वायम्भुव मनुसे शतरूपा देवीने प्रियव्रत और उत्तानपादानामक दो पुत्र तथा ददार, रूप और गुणोंसे सम्पन्न प्रसूति और आकृति नामकी दो कन्याएँ उत्पन्न कीं। उनमेंसे प्रसूतिको दक्षके साथ तथा आकृतिको शंघि प्रजापतिके साथ विवाह दिया ॥ १८-१९ ॥

हे महाभाग। शंघि प्रजापतिने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दम्पतीके यह और दक्षिणा—मे युगल (जुड़वाँ) सन्तान उत्पन्न हुई ॥ २० ॥ यज्ञके दक्षिणासे बारह पुत्र हुए, जो स्वायम्भुव मन्वन्तरमें आप नामके देवता कहलाये ॥ २१ ॥ तथा दक्षने प्रसूतिसे चौबीस कन्याएँ उत्पन्न कीं। मुझसे उनके शुभ नाम श्रुनी ॥ २२ ॥ ब्रह्मा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि और तेरहवीं कीर्ति—इन दक्ष-कन्याओंको धर्मने पत्नीरूपसे ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष ग्यारह कन्याएँ ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थीं ॥ २३-२५ ॥ हे मुनिसतम! इन ख्याति आदि कन्याओंको क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिर, पुलस्त्य,

अत्रिर्वीसिष्टो वदितरश्च पितरश्च यथाक्रमम् ।
 ख्यात्याद्या जगद्गुः कन्या मुनयो मुनिसत्तम ॥ २७
 श्रद्धा कार्यं चला दर्पं निवर्तं धृतिरात्मजम् ।
 सन्तोषं च तथा तुष्टिर्लोभं पुष्टिरसूयत ॥ २८
 मेधा श्रुतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च ॥ २९
 बोधं बुद्धिस्तथा लज्जा विनयं वपुरात्मजम् ।
 व्यवसायं प्रज्ज्ञे वै क्षेमं शान्तिरसूयत ॥ ३०
 सुखं सिद्धिर्यशः कीर्तिरित्येते धर्मसूनवः ।
 कामाद्रतिः सुतं हर्षं धर्मपौत्रमसूयत ॥ ३१
 हिंसा भार्या स्वधर्मस्य ततो जज्ञे तश्चात्मजम् ।
 कन्या च निकृतिस्तार्थ्या भयं नरकमेव च ॥ ३२
 माया च वेदना चैव मिथुनं त्विदमेतयोः ।
 तयोर्जज्ञेऽथ वै माया मृत्युं भूतापहारिणम् ॥ ३३
 वेदना स्वसुतं चापि दुःखं जज्ञेऽथ रौरवात् ।
 मृत्योर्व्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश्च जज्ञिरे ॥ ३४
 दुःखोत्तराः स्मृता होते सर्वे चाधर्मलक्षणाः ।
 नैषां पुत्रोऽस्ति वै भार्या ते सर्वे ह्युर्ध्वरेतसः ॥ ३५
 रीडापयेतानि रूपणि विष्णोर्मुनिवरात्मज ।
 नित्यप्रलयहेतुत्वं जगतोऽस्य प्रयान्ति वै ॥ ३६
 दक्षो मरीचिरत्रिश्च भृगवाद्याश्च प्रजेश्वराः ।
 जगत्यत्र महाभाग नित्यसर्गस्य हेतवः ॥ ३७
 मनसो मनुपुत्राश्च भूपा वीर्धराश्च ये ।
 सन्मार्गनिरताः शूरास्ते सर्वे स्थितिकारिणः ॥ ३८

श्रीमंत्रेय उवाच

येयं नित्या स्थितिकर्तृह्यनित्यसर्गस्तथेरितः ।
 नित्याभावश्च तेषां वै स्वरूपं मम कथ्यताम् ॥ ३९

श्रीपराशर उवाच

सर्गस्थितिविनाशाश्च भगवान्मधुसूदनः ।
 तैस्तै रूपैरचिन्त्यात्मा करोत्यव्याहृतो विभुः ॥ ४०
 वैभित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको द्विज ।
 नित्यश्च सर्वभूतानां प्रलयोऽयं सतुर्विधः ॥ ४१

पुलह, ऋतु, अत्रि, वसिष्ठ—इन मुनियों तथा अग्नि और पितरोंने प्रहण किया ॥ २६-२७ ॥

श्रद्धासे काम, चला (लक्ष्मी) से दर्प, धृतिसे नियम, तुष्टिसे सन्तोष और पुष्टिसे लोभकी उत्पत्ति हुई ॥ २८ ॥ तथा मेधासे श्रुत, क्रियासे दण्ड, नय और विनय, बुद्धिसे बोध, लज्जासे विनय, अपुसे उत्सव पुत्र व्यवसाय, शान्तिसे क्षेम, सिद्धिसे सुख और कीर्तिसे यशका जन्म हुआ; ये ही धर्मके पुत्र हैं; रतिने कामसे धर्मके पौत्र हर्मको उत्पन्न किया ॥ २९-३१ ॥

अधर्मकी स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नामकी कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनोंसे भय और नरक नामके पुत्र तथा उनकी पत्नियों माया और वेदना नामकी कन्याएँ हुईं। उनमेंसे पायाने सपस्त प्राणियोंका संहारकर्ता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३२-३३ ॥ वेदनाने भी रौरव (नरक)-के द्वारा अपने पुत्र दुःखको जन्म दिया और मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोधकी उत्पत्ति हुई ॥ ३४ ॥ ये सब अधर्मरूप हैं और 'दुःखोत्तर' नामसे प्रसिद्ध हैं, [क्योंकि इनसे परिणाममें दुःख ही प्राप्त होता है] इनके न कोई स्त्री है और न सन्तान। ये सब ऊर्ध्वरेता हैं ॥ ३५ ॥ हे मुनिकुमार! ये भगवान् विष्णुके बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसारके नित्य-प्रलयके कारण होते हैं ॥ ३६ ॥ हे महाभाग! दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत्के नित्य-सर्गके कारण हैं ॥ ३७ ॥ तथा मनु और मनुके पराक्रमी, सन्मार्गपरायण और शूर-वीर पुत्र राजागण इस संसारकी नित्य-स्थितिके कारण हैं ॥ ३८ ॥

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे ब्रह्मन्! आपने जो नित्य-स्थिति, नित्य-सर्ग और नित्य-प्रलयका उल्लेख किया सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिये ॥ ३९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—जिनकी गति कहीं नहीं रुकती वे अचिन्त्यात्मा सर्वव्यापक भगवान् मधुसूदन निरन्तर इन मनु आदि रूपोंसे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं ॥ ४० ॥ हे द्विज! समस्त भूतोंका चार प्रकारका प्रलय है—वैभित्तिक, प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य ॥ ४१ ॥

ब्रह्मो नैमित्तिकस्तत्र शोतेऽयं जगतीपतिः ।
 प्रयाति प्राकृते चैव ब्रह्माण्डं प्रकृते लघम् ॥ ४२
 ज्ञानादात्मन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि ।
 नित्यः सदैव भूतानां यो विनाशो दिवानिशम् ॥ ४३
 प्रसूतिः प्रकृतेषां तु सा सृष्टिः प्राकृता स्मृता ।
 दैनन्दिनी तथा प्रोक्ता यान्तरप्रलयादनु ॥ ४४
 भूतान्यनुदिनं यत्र जायन्ते मुनिसत्तम ।
 नित्यसर्गो हि स प्रोक्तः पुराणार्थविचक्षणैः ॥ ४५
 एष सर्वशरीरेषु भगवान्भूतभावनः ।
 संस्थितः कुरुते विष्णुरुत्पत्तिस्थितिसंयमान् ॥ ४६
 सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तयः सर्वदेहिषु ।
 वैष्णव्यः परिवर्तन्ते यैत्रेवाहर्निशं समाः ॥ ४७
 गुणत्रयमयं होतद्ब्रह्मन् शक्तिवयं महत् ।
 योऽतियाति स यात्येष परं नावर्तते पुनः ॥ ४८

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

आठवाँ अध्याय

रीड-सृष्टि और भगवान् तथा लक्ष्मीजीकी सर्वव्यापकताका वर्णन

श्रीपरशुर उवाच

कथितस्तामसः सर्गो ब्रह्माण्डे महामुने ।
 रुद्रसर्गं प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥ १
 कल्पादावात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतस्ततः ।
 प्रादुरासीत्प्रभोरङ्गे कुमारो नीललोहितः ॥ २
 क्रोद्ध सुस्वरं सोऽथ प्राद्रवद्द्विजसत्तम ।
 किं त्वं रोदिषि तं ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच ह ॥ ३
 नाम देहीति सं सोऽथ प्रत्युवाच प्रजापतिः ।
 रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि मा रोदीर्थैर्यावह ।
 एवमुक्तः पुनः सोऽथ सप्तकृत्वो क्रोद्ध वै ॥ ४

उनसे नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म-प्रलय है, जिसमें जगत्पति ब्रह्माजी कल्पान्तमें शयन करते हैं; तथा प्राकृतिक प्रलयमें ब्रह्माण्ड प्रकृतिमें लीन हो जाता है ॥ ४२ ॥ ज्ञानके द्वारा योगीका परमात्मामें लीन हो जाना आत्मन्तिक प्रलय है और रात-दिन जो भूतोंका भय होता है वही नित्य-प्रलय है ॥ ४३ ॥ प्रकृतिसे महत्त्वव्यतिक्रमसे जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है और अखान्तर-प्रलयके अनन्तर जो [ब्रह्माके द्वारा] चराचर जगत्को उत्पत्ति होती है वह दैनन्दिनी सृष्टि कही जाती है ॥ ४४ ॥ और हे मुनिश्रेष्ठ! जिसमें प्रतिदिन प्राणियोंकी उत्पत्ति होती रहती है उसे पुराणार्थमें कुरुते महानुभावोंने नित्य-सृष्टि कहा है ॥ ४५ ॥

इस प्रकार समस्त इरीरमें स्थित भूतभावन भगवान् विष्णु जगत्को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं ॥ ४६ ॥ हे यत्रेय! सृष्टि, स्थिति और विनाशकी इन त्रैलोक्यी कृतियोंका समस्त शरीरोंमें समान भवसे अट्टांशि संचार होता रहता है ॥ ४७ ॥ हे श्रेष्ठ! ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणपर्ययी हैं; अतः जो उन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है वह परमपदको ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म-मरणदिके चक्रमें नहीं पड़ता ॥ ४८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे महामुने! मैंने तुमसे ब्रह्माजीके तामस-सर्गका वर्णन किया, अब मैं रुद्र-सर्गका वर्णन करता हूँ, सो सुनो ॥ १ ॥ कल्पके आदिमें अपने समान पुत्र उत्पन्न होनेके लिये चिन्तन करते हुए ब्रह्माजीको गोदमें नीललोहित वर्णके एक कुमारका प्रादुर्भाव हुआ ॥ २ ॥

हे द्विजोत्तम! जन्मके अनन्तर ही वह जोर-जोरसे रोने और इधर-उधर दौड़ने लगा। उसे रोय देख ब्रह्माजीने उससे पूछा—'तू क्यों रोता है?' ॥ ३ ॥ उसने कहा—'येश नाम रखो।' तब ब्रह्माजी बोले—'हे देव! तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, शैव धारण कर।' ऐसा कहनेपर भी वह सात बार और रोया ॥ ४ ॥



श्रीकृष्ण

गीताप्रेस, गोरखपुर

भगवान् श्रीविष्णु




लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव




अक्षरको प्रथम दर्शन



कालयवन और श्रीकृष्ण



कंसकी मल्लप्रालामें श्रीबलराम



कंसकी मल्लशालामें श्रीकृष्ण



श्रीबलरामजीको लातसे धरती फट गयी



पीपडूकपर श्रीकृष्णाका प्रहार

ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्त नामानि वै प्रभुः ।
 स्थानानि चैषामप्यनां पत्नीः पुत्रांश्च स प्रभुः ॥ ५
 भवं शर्वमप्येशानं तथा पशुपतिं द्विज ।
 भीमपुत्रं महादेवमुवाच स पितामहः ॥ ६
 सङ्के नामान्यथैतानि स्थानान्येषां षकार सः ।
 सूर्ध्वो जलं मही वायुर्दक्षिणराकाशमेव च ।
 दीक्षितो ब्रह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात् ॥ ७
 सुवर्चला तथैवोषा विकेशी चापरा शिवा ।
 स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम् ॥ ८
 सूर्यादीनां द्विजश्रेष्ठ सत्रादीनामभिः सह ।
 पत्न्यः स्मृता महाभाग तदपत्न्यानि मे शृणु ॥ ९
 एषां सृतिप्रसूतिभ्यामिदमापुरितं जगत् ॥ १०
 शनैश्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः ।
 स्कन्दः समोऽथ सन्तानो बुधश्चानुक्रमात्सुताः ॥ ११
 एवंप्रकारो रुद्रोऽसौ सती भार्यामनिन्दिताम् ।
 उपवेमे दुहितरं दक्षस्यैव प्रजापतेः ॥ १२
 दक्षकोपाच्च तत्याज सा सती स्वकलेवरम् ।
 हिमवद्दुहिता साऽभून्मेनायां द्विजसत्तम ॥ १३
 उपवेमे पुनश्चोपामनन्यां भगवान्तरुः ॥ १४
 देवीं धातृविधातारी भृगोः ख्यातिरसूयत ।
 क्षियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य वा ॥ १५

श्रीमंत्रेण उवाच

क्षीराब्धी श्रीः समुत्पन्ना श्रूयतेऽमृतमन्थने ।
 भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नेत्येतदाह कथं भवान् ॥ १६

श्रीपराशर उवाच

नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी ।
 यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम ॥ १७
 अर्धो विष्णुरियं वाणी नान्तिरेषा नयो हरिः ।
 बोधो विष्णुरियं बुद्धिर्धर्मोऽसौ सत्किञ्च त्वियम् ॥ १८
 स्वष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्रीभूमिर्भूधरो हरिः ।
 सस्तोषो भगवोऽल्लक्ष्मीस्तुष्टिमंत्रेण प्राश्रयती ॥ १९
 इच्छा श्रीभगवान्मयो यज्ञोऽसौ दक्षिणा त्वियम् ।
 आग्याहुतिरसौ देवी पुरोडाशो जनार्दनः ॥ २०

तब भगवान् ब्रह्माजीने उसके सात नाम और रखे;
 तथा उन आद्योंके स्थान, स्त्री और पुत्र भी निश्चित
 किये ॥ ५ ॥ हे द्विज! प्रजापतिने उसे भव, शर्व, ईशान,
 पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर सम्बोधन
 किया ॥ ६ ॥ यही उसके नाम रखे और इनके स्थान
 भी निश्चित किये। सूर्य, जल, पृथिवी, वायु, अग्नि,
 आकाश, [यज्ञमें] दीक्षित ब्राह्मण और चन्द्रमा—ये
 क्रमशः उनको मूर्तियाँ हैं ॥ ७ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ! रुद्र
 आदि नामोंके साथ उन सूर्य आदि मूर्तियोंको क्रमशः
 सुवर्चला, ऊषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा,
 दीक्षा और रोहिणी नामकी परिधियाँ हैं। हे महाभाग!
 अब उनके पुत्रोंके नाम सुनो; वन्हींके पुत्र-पौत्रदिकोंसे
 यह सम्पूर्ण जगत् परिपूर्ण है ॥ ८—१० ॥ शनैश्चर,
 शुक्र, लोहितग, मनोजव, स्कन्द, सर्ग, सन्तान और
 बुध—ये क्रमशः उनके पुत्र हैं ॥ ११ ॥ ऐसे भगवान् रुद्रने
 प्रजापति दक्षकी अनिन्दिता पुत्री सतीको अपना भार्याक्रमसे
 प्रहस्य किया ॥ १२ ॥ हे द्विजसत्तम! उस सतीने दक्षपर
 कुपित होनेके कारण अपना शरीर त्याग दिया था।
 फिर वह मेनके गर्भसे हिमाचलकी पुत्री (उया) हुई।
 भगवान् शंकरने उस अनन्यपरायणा उपासे फिर भी
 विवाह किया ॥ १३—१४ ॥ भृगुके द्वारा ख्यातिने धरा और
 विधातानामक दो देवताओंको तथा लक्ष्मीजीको जन्म
 दिया जो भगवान् विष्णुकी पत्नी हुई ॥ १५ ॥

श्रीमंत्रेणजी बोले—भगवान्! सुना जाता है कि
 लक्ष्मीजी तो अमृत-मन्थनके समय क्षीर-सागरसे उत्पन्न
 हुई थीं, फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगुके
 द्वारा ख्यातिसे उत्पन्न हुई ॥ १६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विजोत्तम! भगवान्का कभी
 संग न छोड़नेवाली जगज्जननी लक्ष्मीजी तो नित्य ही
 हैं और जिस प्रकार श्रीविष्णुभगवान् सर्वव्यापक हैं वैसे
 ही वे भी हैं ॥ १७ ॥ विष्णु अर्ध हैं और वे वाणी हैं,
 हरि नियम हैं और वे मोदि हैं, भगवान् विष्णु बोध हैं
 और वे बुद्धि हैं तथा वे धर्म हैं और वे सत्किञ्च हैं ॥ १८ ॥
 हे मंत्रेण! भगवान् जगत्के स्रष्टा हैं और लक्ष्मीजी सृष्टि
 हैं, श्रीहरि भूधर (पर्वत अधिप राजा) हैं और लक्ष्मीजी
 भूमि हैं तथा भगवान् सन्तोष हैं और लक्ष्मीजी नित्य-
 नुष्टि हैं ॥ १९ ॥ भगवान् काम हैं और लक्ष्मीजी इच्छा
 हैं, वे यज्ञ हैं और वे दक्षिणा हैं, श्रीजनार्दन पुरोडाश हैं और
 देवी लक्ष्मीजी आग्याहुति (घृतकी आहुति) हैं ॥ २० ॥

पत्नीशाला मुने लक्ष्मीः प्राग्वंशो मधुसूदनः ।
 धितिलक्ष्मीर्हरिर्यूप इध्मा श्रीभगवान्कुशः ॥ २१
 सामस्वरूपी भगवानुद्गीतिः कमलालया ।
 स्याद्ग लक्ष्मीर्जगन्नाथो वासुदेवो हुताशनः ॥ २२
 शङ्करो भगवाञ्छौरिर्गौरी लक्ष्मीर्द्विजोत्तम ।
 मैत्रेय केशवः सूर्यस्तत्रभा कमलालया ॥ २३
 विष्णुः पितृगणः पन्था स्वधा शाश्वतपुष्टिदा ।
 द्यौः श्रीः सर्वात्मको विष्णुस्वकाशोऽतिविस्तरः ॥ २४
 शशाङ्कः श्रीधरः कान्तिः श्रीस्तथैवानपायिनी ।
 धृतिर्लक्ष्मीर्जगच्छ्रेष्ठा वासुः सर्वत्रगो हरिः ॥ २५
 जलधिर्द्विज गोविन्दस्तादृशेला श्रीर्महामुने ।
 लक्ष्मीस्वरूपमिन्द्राणी देवेन्द्रो मधुसूदनः ॥ २६
 यमश्चक्रधरः साक्षाद्धूमोर्णा कमलालया ।
 ऋद्धिः श्रीः श्रीधरो देवः स्वयमेव धनेश्वरः ॥ २७
 गौरी लक्ष्मीर्महभागा केशवो वरुणः स्वयम् ।
 श्रीदेवसेना विप्रेन्द्र देवसेनापतिर्हरिः ॥ २८
 अत्रष्टम्भो गदापाणिः शक्तिर्लक्ष्मीर्द्विजोत्तम ।
 काण्ड लक्ष्मीर्निमेषोऽसी मूर्त्तौऽसी कला त्वियम् ॥ २९
 ज्योत्सना लक्ष्मीः प्रदीपोऽसी सर्वः सर्वेश्वरो हरिः ।
 लताभूता जगन्माता श्रीविष्णुर्दुर्मसंज्ञितः ॥ ३०
 विभावरी श्रीर्दिवसो देवश्चक्रगदाधरः ।
 वरप्रदो वरो विष्णुर्बन्धुः पद्मलनालया ॥ ३१
 नदस्वरूपी भगवाञ्छ्रैर्नदीरूपसंस्थिता ।
 ध्वजश्च पुण्डरीकाक्षः पताका कमलालया ॥ ३२
 तृष्णा लक्ष्मीर्जगन्नाथो लोभो नाशयणः परः ।
 रती रागश्च मैत्रेय लक्ष्मीर्गोविन्द एव च ॥ ३३
 किं चातिबहुनोक्तं सङ्क्षेपेणोद्भव्यते ॥ ३४
 देवतिर्यङ्मनुष्यादौ पुन्यामा भगवान्हरिः ।
 स्त्रीनाम्नी श्रीश्च विद्वेषा नानयोर्विद्यते परम् ॥ ३५

हे मुने! मधुसूदन यज्ञगान्मु० हैं और लक्ष्मीजो पत्नीशाला हैं, श्रोहरि यून हैं और लक्ष्मीजो पति हैं तथा भगवान् कुशा हैं और लक्ष्मीजो इध्मा हैं ॥ २१ ॥ भगवान् सामस्वरूप हैं और श्रीकमलादेवो उद्गीति हैं, जगत्पति भगवान् वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मीजो स्वाहा हैं ॥ २२ ॥ हे द्विजोत्तम! भगवान् विष्णु शंकर हैं और श्रीलक्ष्मीजो गौरी हैं तथा हे मैत्रेय! श्रीकेशव यून हैं और कमलवासिनी श्रीलक्ष्मीजो नन्की प्रथा हैं ॥ २३ ॥ श्रीविष्णु पितृगण हैं और श्रीकमला तिल्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं, विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक वाक्काश हैं और लक्ष्मीजो स्वर्गलोक हैं ॥ २४ ॥ भगवान् श्रीधर चन्द्रमा हैं और श्रीलक्ष्मीजो उनको अक्षय कान्ति हैं, हरि रत्नगामी वासु हैं और लक्ष्मीजो जगज्वेष्ठा (जगत्की गति) और धृति (आधार) हैं ॥ २५ ॥ हे महामुने! श्रीगोविन्द सन्तु हैं और हे द्विज! लक्ष्मीजो उसकी तरंग हैं, भगवान् मधुसूदन देवरज इन्द्र हैं और लक्ष्मीजो इन्द्राणी हैं ॥ २६ ॥ यक्रुपाणि भगवान् यम हैं और श्रीकमला यमपत्नी धूमोर्णा हैं, देवार्थदेव श्रीविष्णु कुबेर हैं और श्रीलक्ष्मीजो साक्षात् ऋद्धि हैं ॥ २७ ॥ श्रीकेशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मीजो गौरी हैं, हे द्विजराज! श्रीहरि देवसेनापति स्वानिकार्तिकेय हैं और श्रीलक्ष्मीजो देवसेना हैं ॥ २८ ॥ हे द्विजोत्तम! भगवान् गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मीजो शक्ति हैं, भगवान् निमेष हैं और लक्ष्मीजो काण्डा हैं, ये मूर्त्त हैं और ये कला हैं ॥ २९ ॥ सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक हैं और श्रीलक्ष्मीजो ज्योति हैं, श्रीविष्णु वृक्षरूप हैं और जगन्माता श्रीलक्ष्मीजो लता हैं ॥ ३० ॥ चक्रगदाधरदेव श्रीविष्णु दिन हैं और लक्ष्मीजो रात्रि हैं, वरदायक श्रीहरि वर हैं और पद्मनिवासिनी श्रीलक्ष्मीजो नद्यु हैं ॥ ३१ ॥ भगवान् नद हैं और श्रीजो नदी हैं, कमलनयन भगवान् श्लेषा हैं और कमलालया लक्ष्मीजो पताका हैं ॥ ३२ ॥ जगदीश्वर परमात्म चारामश्च लोभ हैं और लक्ष्मीजो तृष्णा हैं तथा हे मैत्रेय! रति और राग भी साक्षात् श्रीलक्ष्मी और गोविन्दरूप ही हैं ॥ ३३ ॥ अधिक क्या कहा जाय? संक्षेपमें, यह कहना चाहिये कि देव, तिर्यक् और मनुष्य आदिमें पुरुषवाचो भगवान् हरि हैं और स्त्रीवाचो श्रीलक्ष्मीजो, इनके परे और कोई नहीं है ॥ ३४-३५ ॥

नवाँ अध्याय

दुर्वासाजीके शापसे इन्द्रका पराजय, ब्रह्माजीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए भगवान्का प्रकट होकर देवताओंको समुद्र-मन्थनका उपदेश करना तथा देवता और दैत्योंका समुद्र-मन्थन

श्रीपराशर उवाच

इदं च शृणु मैत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ।
 श्रीसम्बन्धं मयाप्येतच्छ्रुतमासीन्मरीचितः ॥ १
 दुर्वासाः शङ्करस्यांशश्चचार पृथिवीमिमाम् ।
 स ददर्श स्वजं दिव्यामृषिविंश्याधरीकरे ॥ २
 सन्तानकानामखिलं यस्या गन्धेन दासितम् ।
 अतिसेव्यमभूद्ब्रह्मन् तद्वनं वनचारिणाम् ॥ ३
 उन्मत्तव्रतधृग्विप्रस्तां दृष्ट्वा शोभनां स्वजम् ।
 तां यथाचे सरारोहां विद्याधरवधुं ततः ॥ ४
 याचिता तेन तन्वङ्गी मालां विद्याधराङ्गना ।
 ददौ तस्मै विशालाक्षी सादरं प्रणिपत्य तम् ॥ ५
 तामादायात्पत्नो मुर्ध्नि स्वजमुन्मत्तरूपधृक् ।
 कृत्वा स विप्रो मैत्रेय परिबध्नाम मेदिनीम् ॥ ६
 स ददर्श तमाद्यान्तमुन्मत्तरायते स्थितम् ।
 त्रैलोक्याधिपतिं देवं सह देवैः शर्षापितम् ॥ ७
 तामात्मनः स शिरसः स्वजमुन्मत्तधटपदाम् ।
 आदायामरराजाय चिक्षेपोन्मत्तवन्मुनिः ॥ ८
 गृहीत्वाऽमरराजेन स्वगीरावतमुर्द्धनि ।
 न्यस्ता रराज कैलासशिखरे जाह्नवी यथा ॥ ९
 मदान्धकारिताक्षोऽसौ गन्धाकृष्टेन चारणः ।
 करेणाघ्राय चिक्षेप तां स्वजं धरणीतले ॥ १०
 ततश्शुक्रोद्य भगवान्दुर्वासा मुनिसत्तमः ।
 मैत्रेय देवराजं तं क्रुद्धश्चेतदुवाच ह ॥ ११

दुर्वासा उवाच

ऐश्वर्यमददुष्टात्पन्नतिस्तब्धोऽसि वासव ।
 श्रियो धाम स्वजं यस्त्वं महतां नाभिनन्दसि ॥ १२
 प्रसाद इति नोक्तं ते प्रणिपातपुरःसरम् ।
 हर्षोत्फुल्लकपोलेन न चापि शिरसा धृता ॥ १३
 मया दत्तामिमां मालां यस्मान्न बहु मन्यसे ।
 त्रैलोक्यधीरतो मूढ विनाशमुपयास्यति ॥ १४

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय ! तुमने इस समय मुझसे जिसके विषयमें पूछा है वह श्रीसम्बन्ध (लक्ष्मीजीका इतिहास) मैंने भी मरीचि ऋषिसे सुना था, यह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, [साधुधान होकर] सुनो ॥ १ ॥ एक बार शंकरके अंशावतार श्रीदुर्वासाजी पृथिवीतलमें विचर रहे थे। घुड़ते-घुड़ते उन्होंने एक विद्याधरीके हाथोंमें सन्तानक पुष्पोंकी एक दिव्य माला देखी। हे ब्रह्मन्! उसकी गन्धसे सुवासित होकर वह वन वनवासियोंके लिये अति सेवनीय हो रहा था ॥ २-३ ॥ तब उन उन्मत्तवृत्तितले विप्रवरने वह सुन्दर माला देखकर उसे उस विद्याधर-सुन्दरीसे माँगा ॥ ४ ॥ उनके पौंगनेपर उस बड़े-बड़े त्रैलोक्याली कृशांगी विद्याधरीने उन्हें आदरपूर्ण प्रणाम कर वह माला दे दी ॥ ५ ॥

हे मैत्रेय ! उन उन्मत्तवेधधारी विप्रवरने उसे लेकर अपने मस्तकपर डाल लिया और पृथिवीपर विचरने लगे ॥ ६ ॥ इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावतपर चढ़कर देवताओंके साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति शचीपति इन्द्रको देखा ॥ ७ ॥ उन्हें देखकर पुनिर दुर्वासाने उन्मत्तके समान वह मत्तवाली धीरसे गुंजायमान माला अपने शिरपरसे उतारकर देवराज इन्द्रके ऊपर फेंक दी ॥ ८ ॥ देवराजने उसे लेकर ऐरावतके मस्तकपर डाल दी; उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलास पर्वतके शिखरपर श्रीगंगाजी विराजमान हों ॥ ९ ॥ उस मदान्ध हाथीने भी उसकी गन्धसे आकर्षित हो उसे सूँडसे सूँचकर पृथिवीपर फेंक दिया ॥ १० ॥ हे मैत्रेय ! यह देखकर पुनित्रेष्ठ भगवान् दुर्वासाजी अति क्रोधित हुए और देवराज इन्द्रसे इस प्रकार बोले ॥ ११ ॥

दुर्वासाजीने कहा—अरे ऐश्वर्यके मदसे दुन्धित इन्द्र ! तू बड़ा डीठ है, तूने मेरी दी हुई सम्पूर्ण शोभाकी धाम मालाका कुछ भी आदर नहीं किया ! ॥ १२ ॥ अरे ! तूने न तो प्रणाम करके 'बड़ी कृपा की' ऐसा ही कहा और न हर्षसे प्रसन्नवदन होकर उसे अपने शिरपर ही रखा ॥ १३ ॥ हे मूढ ! तूने मेरी दी हुई मालाका कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिये तेरा त्रिलोक्यकी वैभव नष्ट हो जायगा ॥ १४ ॥

मां मन्वसे त्वं सदृशं नूनं शक्रेतरद्विजैः ।
 अतोऽधमानमस्मासु मानिना भवता कृतम् ॥ १५ ॥
 महत्ता भवता यस्मात्क्षिप्ता मासा महीतले ।
 तस्मात्प्रणष्टलक्ष्मीकं प्रैलोक्यं ते भविष्यति ॥ १६ ॥
 यस्य सज्जातकोपस्य भयमेति चराचरम् ।
 तं त्वं मामतिगर्वेण देवराजावमन्वसे ॥ १७ ॥

श्रीपराशर उवाच

महेन्द्रो वारणस्कन्धादघतीर्य त्वरान्वितः ।
 प्रसादयामास मुनिं दुर्वाससमकल्मषम् ॥ १८ ॥
 प्रसाधमानः स तदा प्रणिपातपुरःसरम् ।
 हत्वुवाच सहस्राक्षं दुर्वासा मुनिसत्तमः ॥ १९ ॥

दुर्वासा उवाच

नाहं कृपालुहृद्रवो न च मां भजते क्षमा ।
 अन्ये ते मुनयः शक्र दुर्वाससमवेहि माम् ॥ २० ॥
 गौतमादिभिरन्यैस्त्वं गर्वमारोपितो मुधा ।
 अक्षान्तिसारसर्वस्वं दुर्वाससमवेहि माम् ॥ २१ ॥
 दक्षिष्ठाद्यैर्दयासारैस्तोत्रं कुर्वद्भिरुच्यकैः ।
 गर्वं गतोऽसि येनैवं मामप्यष्टावमन्वसे ॥ २२ ॥
 ज्वलज्जटाकलापस्य भृकुटीकुटिलं मुखम् ।
 निरीक्ष्य कस्त्रिभुवने मम द्यो न गतो भयम् ॥ २३ ॥
 नाहं क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शतक्रतो ।
 विडम्बनामिमाम् भूयः करोष्यनुनयात्मिकाम् ॥ २४ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा प्रयची विप्रो देवराजोऽपि तं पुनः ।
 आरुह्यैरावतं ब्रह्मन् प्रयथाधपरावतीम् ॥ २५ ॥
 ततः प्रभृति निःश्रीकं सशक्रं भुवनत्रयम् ।
 मैत्रेयासीदपध्वस्तं सहस्रौषधीषधिवीरुधम् ॥ २६ ॥
 न यज्ञाः समवर्षन्त न तपस्यन्ति तापसाः ।
 न च दानादिधर्मेषु मनश्चक्रे तदा जनः ॥ २७ ॥
 निःसत्याः सकला लोका लोभाद्युपहतेन्द्रियाः ।
 स्वल्पेऽपि हि बभूवुस्ते साभिलाषा द्विजोत्तम ॥ २८ ॥
 यतः सत्त्वं ततो लक्ष्मीः सत्त्वं भूत्वपुसारि च ।
 निःश्रीकाणां कुतः सत्त्वं विना तेन गुणाः कुतः ॥ २९ ॥

इन्द्र! निश्चय हो तु मुझे और ब्राह्मणोंके समान ही संपन्नता है, इसीलिये तुझ अति मानोने हमारा इस प्रकार अपमान किया है ॥ १५ ॥ अच्छा, तूने मेरी पी हुई गालाको पुशिवीपर फेंका है इसलिये तैरा यह विभुवन भी शीघ्र ही श्रोहीन हो जाएगा ॥ १६ ॥ रे देवराज! जिसके क्रुद्ध होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत् भयभीत हो जाता है उस मरु ही तूने अति गर्वसे इस प्रकार अपमान किया ॥ १७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब तो इन्द्रने तुरन्त ही ऐरावत हाथीसे उतरकर निष्पाम मुनिवर दुर्वासाजीको [अनुनय-विनय करके] प्रसन्न किया ॥ १८ ॥ तब उसके प्रणामादि करनेसे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाजी उससे इस प्रकार कहने लगे ॥ १९ ॥

दुर्वासाजी बोले—इन्द्र! मैं कृपालु-चित्त नहीं हूँ, मेरे अन्तःकरणमें क्षमाको स्थान नहीं है। वे पुनिशर तो और ही हैं; तूने सम्झो, मैं तो दुर्वासा हूँ न? ॥ २० ॥ गौतमादि अन्य पुनिजनोंने व्यर्थ ही तुझे इतना मुँह टण्ड लिया है; पर याद रख, मुझ दुर्वासाका सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है ॥ २१ ॥ दयामूर्त वसिष्ठ आदिके बड़-बड़कर स्तुति करनेसे तू इतना गर्वीला हो गया कि अज मेरा भी अपमान करने चला है ॥ २२ ॥ और! आब त्रिलोकीमें ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटाकलाप और टेढ़ी भृकुटिको देखकर भयभीत न हो जाय? ॥ २३ ॥ रे शतक्रतो! तू बारम्बार अनुनय-विनय करनेका खेप क्यों करता है? तैरे इस कहने-सुननेसे क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता ॥ २४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे अहान्! इस प्रकार कह वें विप्रवर बहोसे चल दिये और इन्द्र भी ऐरावतपर चढ़कर अपरावतीको चले गये ॥ २५ ॥ हे मैत्रेय! तभीसे इन्द्रके सहित तीनों लोक वृक्ष-तला आदिके क्षीण हो जानेसे श्रोहीन और नष्ट-भ्रष्ट होने लगे ॥ २६ ॥ तबसे यज्ञोंका होना बन्द हो गया, तपश्चिन्तने तप करना छोड़ दिया तथा लोगोंका दान आदि धर्मोंमें चित्त नहीं रहा ॥ २७ ॥ हे द्विजोत्तम! सम्पूर्ण लोक लोभादिके वशीभूत हो जानेसे सत्त्वशून्य (सामर्थ्यहीन) हो गये और तुच्छ वस्तुओंके लिये भी लालायित रहने लगे ॥ २८ ॥ नहीं सत्त्व होता है वहाँ लक्ष्मी रहती है और सत्त्व भी लक्ष्मीका ही साथी है। श्रोहीनोंमें भला सत्त्व कहाँ? और विना सत्त्वके गुण कैसे ठहर सकते हैं? ॥ २९ ॥

बलशौर्याद्यभावाच्च पुरुषाणां गुणोर्धिना ।
 लङ्घनीयः समस्तस्य बलशौर्यविवर्जितः ॥ ३०
 भवत्वपध्वस्तमन्तिर्लङ्घितः प्रथितः पुमान् ॥ ३१
 एवमत्यन्तनिःश्रीके त्रैलोक्ये सत्त्वविवर्जिते ।
 देवान् प्रति बलोग्रोगं चक्रुर्देवैर्यदानवाः ॥ ३२
 लोभाभिभूता निःश्रीका दैत्याः सत्त्वविवर्जिताः ।
 श्रिया विहीनैर्निःसत्त्वैर्देवैश्चक्रुस्ततो रणम् ॥ ३३
 विजितास्विदशा देवैरिन्द्राद्याः शरणं ययुः ।
 पितामहं महाभागं हुताशनपुरोगमाः ॥ ३४
 यथासत्कथितो देवैर्ब्रह्मा ग्राह ततः सुरान् ।
 परावरेणं शरणं ब्रजध्वमसुरार्दनम् ॥ ३५
 उत्पत्तिस्थितिनाशानामहेतुं हेतुमीश्वरम् ।
 प्रजापतिपतिं विष्णुमनन्तमपराजितम् ॥ ३६
 प्रधानपुंसोरख्योः कारणं कार्यभूतयोः ।
 प्रणतात्तिहुरं विष्णुं स खः श्रेयो विश्वास्यति ॥ ३७

श्रीपराशर उवाच

एवमुक्त्वा सुरान्सर्वान् ब्रह्मा लोकपितामहः ।
 क्षीरोदस्योत्तरं तीरं तैरेव सहितो ययौ ॥ ३८
 स गत्वा त्रिदशैः सर्वैः समवेतः पितामहः ।
 तुष्टाय चाग्निभरिष्ठाभिः परावरपतिं हरिम् ॥ ३९

ब्रह्मावाच

नमामि सर्वं सर्वेशमनन्तमजमव्ययम् ।
 लोकधाम धराधारमप्रकाशमभेदिनम् ॥ ४०
 नारायणमणीषांसमशेषाणामणीयसाम् ।
 समस्तानां गरिष्ठं च भूरादीनां गरीयसाम् ॥ ४१
 यत्र सर्वं यतः सर्वभूतवन्नं मत्पुरःसरम् ।
 सर्वभूतश्च यो देवः पराणामपि यः परः ॥ ४२
 परः परस्मात्पुरुषात्परमात्मस्वरूपधृक् ।
 योगिभिश्चिन्त्यते योऽस्मै मुक्तिहेतोर्मुमुक्षुभिः ॥ ४३
 सत्त्वाद्यो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः ।
 स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ ४४
 कलाकाष्ठामुहूर्तादिकालसूत्रस्य गोचरे ।
 यस्य शक्तिर्न शुद्धस्य स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥ ४५

ब्रह्मा गुणोंके पुरुषमें बल, शौर्य आदि सभीका
 अभाव हो जाता है और निर्वल तथा अशक्त पुरुष
 सभीसे अपमानित होता है ॥ ३० ॥ अपमानित होनेपर
 प्रतिष्ठित पुरुषकी ब्रुद्धि बिगड़ जाती है ॥ ३१ ॥

इस प्रकार त्रिलोकोंके श्रीहीन और सत्त्वरहित हो
 जानेपर दैत्य और दानवोंने देवताओंपर चढ़ाई कर दी ॥ ३२ ॥
 सत्त्व और वैभवसे शून्य होनेपर भी दैत्वोंने लोभवह
 निःसत्त्व और श्रीहीन देवताओंसे घोर मुद्द ठना ॥ ३३ ॥ अन्तमें
 दैत्योंका देवतालोग पराका हुए । तब इन्द्रादि समस्त दैवगण
 अग्निदेवकी आगे कर पक्षभाग पितामह श्रीब्रह्माजीकी शरण
 गये ॥ ३४ ॥ देवताओंसे सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर श्रीब्रह्माजीने
 उनसे कहा, 'हे देवगण ! तुम दैत्य-दलन परावरेण्वर भगवान्
 विष्णुकी शरण जाओ, जो [आरोपसे] संसारकी उत्पत्ति,
 स्थिति और संहारके कारण हैं किन्तु [यास्तवमें] कारण
 भी नहीं हैं और जो परावरके ईश्वर, प्रजापतियोंके स्वामी,
 सर्वव्यापक, अनन्त और अजेय हैं तथा जो अजन्मा किन्तु
 कार्यरूपमें परिणत हुए प्रधान (मूलप्रकृति) और पुरुषके
 कारण हैं एवं शरणगतवन्तल हैं । [शरण जानेपर] वे
 अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे' ॥ ३५—३७ ॥

श्रीपराशरजी श्रोते—हे मंत्रिय । सम्पूर्ण देवगणोंसे
 इस प्रकार कह लोकपितामह श्रीब्रह्माजी भी उनके
 साथ शीरसागरके उत्तरी तटपर गये ॥ ३८ ॥ वहाँ
 पहुँचकर पितामह ब्रह्माजीने समस्त देवताओंके साथ परावरनाथ
 श्रीविष्णुभगवान्को अति मंगलमय वाक्योंसे स्तुति की ॥ ३९ ॥

ब्रह्माजी कहने लगे—जो समस्त अणुओंसे भी
 अणु और पृथिवी आदि समस्त गुरुओं (भारी पदार्थों)—
 से भी गुरु (भारी) हैं; उन निश्चललोकविश्रम, पृथिवीके
 आधारस्वरूप, अप्रकाश्य, अभेद्य, सर्वरूप, सर्वेश्वर,
 अनन्त, अज और अव्यय नारायणको मैं नमस्कार करता
 हूँ ॥ ४०—४१ ॥ मेरे सहित सम्पूर्ण जगत् जिसमें स्थित है,
 जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है तथा
 जो पर (प्रधानादि) से भी पर है; जो पर पुरुषसे भी पर
 है, मुक्ति-लाभके लिये मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान
 करते हैं तथा जिस ईश्वरसे सत्त्वादि प्राकृतिक गुणोंका
 सर्वथा अभाव है वह सपस्त शुद्ध पदार्थोंसे भी परम शुद्ध
 परमात्मस्वरूप आदिपुरुष हमपर प्रसन्न हों ॥ ४२—४४ ॥
 जिस शुद्धस्वरूप भगवान्की शक्ति (विभूति) कला-कण्ठा
 और मुहूर्त आदि काल-क्रमका विषय नहीं है, वे भगवान्
 विष्णु हमपर प्रसन्न हों ॥ ४५ ॥

प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धोऽप्युपचारतः ।
 प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सर्वदेहिनाम् ॥ ४६ ॥
 यः कारणं च कार्यं च कारणस्यापि कारणम् ।
 कार्यस्यापि च यः कार्यं प्रसीदतु स नो हरिः ॥ ४७ ॥
 कार्यकार्यस्य यत्कार्यं तत्कार्यस्यापि यः स्वयम् ।
 तत्कार्यकार्यभूतो यस्ततश्च प्रणताः स्म तम् ॥ ४८ ॥
 कारणं कारणस्यापि तस्य कारणकारणम् ।
 तत्कारणानां हेतुं तं प्रणताः स्म परेश्वरम् ॥ ४९ ॥
 भोक्तारं भोग्यभूतं च स्वष्टारं सृष्टमेव च ।
 कार्यकर्तृस्वरूपं तं प्रणताः स्म परं पदम् ॥ ५० ॥
 विशुद्धबोधचिन्तित्यमजमक्षयमव्ययम् ।
 अव्यक्तमविकारं यत्तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ५१ ॥
 न स्थूलं न च सूक्ष्मं यन्न विशेषणगोचरम् ।
 तत्पदं परमं विष्णोः प्रणामाः सदाऽमलम् ॥ ५२ ॥
 यस्यामुतामुतांशांशो विश्वशक्तिरियं स्थिता ।
 परब्रह्मस्वरूपं यत्प्रणामामस्तमव्ययम् ॥ ५३ ॥
 यद्योगिनः सदोद्युक्ताः पुण्यपापक्षयेऽक्षयम् ।
 पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ५४ ॥
 यन्न देवा न मुनयो न चाहं न च शङ्करः ।
 जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ५५ ॥
 शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः ।
 भवन्त्यभूतपूर्वस्य तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ५६ ॥
 सर्वेश सर्वभूतात्मन्सर्वं सर्वाश्रयाच्युत ।
 प्रसीद विष्णो भक्तानां ब्रह्म नो दृष्टिगोचरम् ॥ ५७ ॥
 श्रीपराशर उवाच
 इत्युदीरितमाकर्ष्यं ब्रह्मणस्त्रिदशास्ततः ।
 प्रणाम्योद्युः प्रसीदेति ब्रह्म नो दृष्टिगोचरम् ॥ ५८ ॥
 यन्नायं भगवान् ब्रह्मा जानाति परमं पदम् ।
 तन्नताः स्म जगद्भाम तत्र सर्वगताच्युत ॥ ५९ ॥

जो शुद्धस्वरूप होकर भी उपचारसे परमेश्वर
 (परमा-महलक्ष्मी-ईश्वर-शक्ति) अर्थात् लक्ष्मीपति कहलाते
 हैं और जो समस्त देशभारियोंके आरप हैं वे श्रीविष्णुभगवान्
 हमपर प्रसन्न हों ॥ ४६ ॥ जो कारण और कार्यरूप हैं तथा
 कारणके भी कारण और कार्यके भी कार्य हैं वे श्रीहरि हमपर
 प्रसन्न हों ॥ ४७ ॥ जो कार्य (महतत्त्व)-केकार्य (अहंकार)-
 का भी कार्य (तन्मात्रापंचक) हैं उसके कार्य (भूतपंचक)-
 का भी कार्य (ब्रह्माण्ड) जो स्वयं हैं और जो उसके कार्य
 (ब्रह्मा-दशादि)-का भी कार्यभूत (प्रजापतियोंके पुत्र-पौत्रादि)
 हैं उसे हम प्रणाम करते हैं ॥ ४८ ॥ तथा जो जगत्के कारण
 (ब्रह्मादि) का कारण (ब्रह्माण्ड) और उसके कारण
 (भूतपंचक)-के कारण (पंचतन्मात्रा)-के कारणों (अहंकार-
 महत्तत्त्वादि)-का भी हेतु (मूलप्रकृति) हैं उस परमेश्वरको
 हम प्रणाम करते हैं ॥ ४९ ॥ जो भोक्ता और भोग्य, स्रष्टा
 और सृष्ट्य तथा कर्ता और कार्यरूप स्वयं ही है उस परमपदको
 हम प्रणाम करते हैं ॥ ५० ॥ जो विशुद्ध बोधस्वरूप, नित्य,
 अजन्मा, अक्षय, अव्यय, अव्यक्त और अविकारी है वही
 विष्णुका परमपद (परस्वरूप) है ॥ ५१ ॥ जो न स्थूल है
 न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषणका विषय है वही भगवान्
 विष्णुका नित्य-निर्मल परमपद है, हम उसको प्रणाम करते
 हैं ॥ ५२ ॥ जिसके अमुतांश (दस हजारवें अंश) के अमुतांशमें
 महेश्वरचनाकी शक्ति स्थित है तथा जो परब्रह्मस्वरूप है
 उस अव्ययको हम प्रणाम करते हैं ॥ ५३ ॥ नित्य-युक्त योगिगण
 अपने पुण्य पापादिका क्षय हो जानेपर उन्हें कारखारा
 चिन्तनीय जिस अविनाशी पदका साक्षात्कार करते हैं वही
 भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ ५४ ॥ जिसको देवगण,
 पुनिगण, शंकर और मैं—कोई भी नहीं जान सकते
 वही परमेश्वर श्रीविष्णुका परमपद है ॥ ५५ ॥ जिस
 अभूतपूर्व देवको ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप शक्तियाँ हैं
 वही भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ ५६ ॥ हे सर्वेश्वर !
 हे सर्वभूतात्मन् ! हे सर्वरूप ! हे सर्वधार ! हे अच्युत !
 हे विष्णो ! हम भक्तोंपर प्रसन्न होकर हमें दर्शन
 दीजिये ॥ ५७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ब्रह्माजीके इन उद्गारोंको
 सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले—'प्रभो ! हमपर
 प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये ॥ ५८ ॥ हे जगद्भाम
 सर्वगत अच्युत ! जिसे ये भगवान् ब्रह्माजी भी नहीं
 जानते, आपके उस परमपदको हम प्रणाम करते हैं ॥ ५९ ॥

इत्यन्ते वचसस्तेषां देवानां ब्रह्मणास्तथा ।
 ऊचुर्देवर्षयस्सर्वे बृहस्पतिपुरोगमाः ॥ ६०
 आद्यो यज्ञपुरामनीड्याः पूर्वेषां यज्ञं पूर्वजः ।
 तन्नाताः स्म जगत्त्वष्टुः स्रष्टारमविशेषणम् ॥ ६१
 भगवन्भूतभक्ष्येश यज्ञमूर्तिधराव्यय ।
 प्रसीद प्रणतानां त्वं सर्वेषां देहि दर्शनम् ॥ ६२
 एष ब्रह्मा सहास्प्राभिः सहस्रद्वैस्त्रिलोचनः ।
 सर्वादित्यैः समं पूषा पावकोऽयं सहाग्निभिः ॥ ६३
 अश्विनी वसवश्चेमे सर्वे चैते मरुद्गणाः ।
 साध्या विश्वे तथा देवा देवैर्दश्यायमीश्वरः ॥ ६४
 प्रणामप्रवणा नाथ दैत्यसैन्यैः पराजिताः ।
 शरणं त्वामनुप्राप्ताः समस्ता देवतागणाः ॥ ६५
 श्रीपराशर उवाच
 एष संस्तूयमानस्तु भगवाञ्छुचक्रधृक् ।
 जगाम दर्शनं तेषां मैत्रेय परमेश्वरः ॥ ६६
 तं दृष्ट्वा ते तदा देवाः शङ्खचक्रगदाधरम् ।
 अपूर्वरूपसंस्थानं तेजसां राशिमूर्जितम् ॥ ६७
 प्रणाम्य प्रणताः सर्वे संक्षोभस्तिमितेक्षणाः ।
 तुष्टुयुः पुण्डरीकाक्षं पितामहपुरोगमाः ॥ ६८
 देवा ऊचुः
 नमो नमोऽविशेषस्त्वं त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकधृक् ।
 इन्द्रस्त्वमग्निः पदनी वरुणाः सविता यमः ॥ ६९
 वसधो मरुतः साध्या विश्वेदेवगणाः भवान् ।
 योऽयं तवाग्रतो देव समीपं देवतागणः ।
 स त्वमेव जगत्त्वष्टा यतः सर्वगतो भवान् ॥ ७०
 त्वं यज्ञस्त्वं षडङ्कारस्त्वमोङ्कारः प्रजापतिः ।
 विद्या वेद्यं च सर्वात्मस्त्वमव्ययं चाखिलं जगत् ॥ ७१
 त्वामार्चाः शरणं विष्णो प्रयाता दैत्यनिर्जिताः ।
 वयं प्रसीद सर्वात्मस्तेजसाप्याययस्व नः ॥ ७२
 तावदात्तिस्तथा वाञ्छा तावन्न्यो हस्तथाऽसुखम् ।
 यावन्न चाति शरणं त्वामशेषाद्यनाशनम् ॥ ७३
 त्वं प्रसादं प्रसन्नात्पुनः प्रपन्नानां कुरुष्व नः ।
 तेजसां नाथ सर्वेषां स्वशाक्याप्यायनं कुरु ॥ ७४

तदनन्तर ब्रह्मा और देवगणोंके चोल चुकनेपर बृहस्पति आदि समस्त देवविंशति करने लगे— ॥ ६० ॥
 'जो परम स्वामीय आद्य यज्ञ-पुरोष है और पूर्वजोंके भी पूर्वपुरोष हैं उन जगत्के रचयिता विश्वेश परमात्माको हम नमस्कार करते हैं ॥ ६१ ॥ हे भूत-भक्ष्येश यज्ञमूर्तिधर भगवन् ! हे अव्यय ! हम सब शरणागतोंपर आप प्रसन्न होइये और दर्शन दीजिये ॥ ६२ ॥ हे नाथ ! हमारे सहित ये ब्रह्माजी, स्रष्टोंके सहित भगवान् शंकर, चारहों आदित्योंके सहित भगवान् पूषा, अग्निगणोंके सहित पावक और ये दोनों अश्विनीकुमार, आठों वसु, समस्त मरुद्गण, साध्यगण, विश्वेदेव तथा देवराज इन्द्र ये सभी देवगण दैत्य-सेनासे पराजित होकर अति प्रणत हो आपको शरणमें आये हैं ॥ ६३—६५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय ! इस प्रकार स्तुति किये जानेपर शंख-चक्रधारी भगवान् परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए ॥ ६६ ॥ तब उस शंख-चक्रगदाधारी उन्कृष्ट तेजोराशिगण अपूर्ण दिव्य मूर्तिको देखकर किष्कम्ह आदि समस्त देवगण अति विनयपूर्वक प्रणामकर क्षीभवश चकित-नयन हो उन कमलनयन भगवान्की स्तुति करने लगे ॥ ६६—६८ ॥

देवगण बोले—हे प्रभो ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप विश्वेश हैं तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इन्द्र, अग्नि, एवम, वरुण, सूर्य और यमराज हैं ॥ ६९ ॥ हे देव ! प्रसुगण, मरुद्गण, साध्यगण और विश्वेदेवगण भी आप ही हैं तथा आपके सम्मुख जो यह देवसमुदाय है, हे जगत्त्वष्टा ! यह भी आप ही हैं क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं ॥ ७० ॥ आप ही यज्ञ हैं, आप ही षडङ्कार हैं तथा आप ही औंकार और प्रजापति हैं । हे सर्वात्मन् ! विद्या, वेद्य और सम्पूर्ण जगत् आपहीका स्वरूप तो है ॥ ७१ ॥ हे विष्णो ! दैत्योंसे परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरणमें आये हैं; हे सर्वस्वरूप ! आप हमपर प्रसन्न होइये और अपने तेजसे हमें सशक्त कीजिये ॥ ७२ ॥ हे प्रभो ! जबतक जीव सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाले आपकी शरणमें नहीं जाता तभीतक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुःख आदि रहते हैं ॥ ७३ ॥ हे प्रसन्नात्मन् ! हम शरणागतोंपर आप प्रसन्न होइये और हे नाथ ! अपनी शक्तिसे हम सब दैयताओंके [खोये हुए] तेजको फिर बढ़ाइये ॥ ७४ ॥

श्रीपराशर उवाच

एवं संस्तुयमानस्तु प्रणतैरमीहरिः ।
 प्रसन्नदृष्टिर्भगवानिदमाह स विश्वकृत् ॥ ७५ ॥
 तेजसो भवतां देवाः करिष्याम्युपबृंहणम् ।
 वदाम्यहं यत्कियतां भवद्भिस्तदिदं सुराः ॥ ७६ ॥
 आनीय सहिता दैत्यैः क्षीराब्धी सकलौषधीः ।
 प्रक्षिप्यात्रामृतार्थं ताः सकला दैत्यदानवैः ।
 मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिम् ॥ ७७ ॥
 मथ्यताममृतं देवाः सहाये मय्यवस्थिते ॥ ७८ ॥
 सामपूर्वं च दैतेयास्तत्र साहाय्यकर्मणि ।
 सामान्यफलभोक्तारो यूयं चाच्या भविष्यथ ॥ ७९ ॥
 मध्यमाने च तत्राब्धौ यत्समुत्पत्स्यतेऽमृतम् ।
 तत्पानाद्भूलिनो यूयममराश्च भविष्यथ ॥ ८० ॥
 तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिदशद्विवः ।
 न प्राप्स्यन्त्वमृतं देवाः केवलं क्लेशभागिनः ॥ ८१ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा देवदेवेन सर्व एव तदा सुराः ।
 सन्धानमसुरैः कृत्वा यत्नवन्तोऽमृतेऽभवन् ॥ ८२ ॥
 चानौषधीः समानीय देवदैतेयदानवाः ।
 क्षिप्या क्षीराब्धिपयसि शरदभ्रामलत्विधिः ॥ ८३ ॥
 मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिम् ।
 ततो मथितुमारब्धा मैत्रेय तरसाऽमृतम् ॥ ८४ ॥
 विबुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः कृताः ।
 कृष्णो वासुकेर्दैत्याः पूर्वकाये निवेशिताः ॥ ८५ ॥
 ते तस्य मुखनिश्वासावह्नितापहतत्विषः ।
 निस्तेजसोऽसुराः सर्वे बभूवुरमितांजसः ॥ ८६ ॥
 तेनैव मुखनिश्वासावयुनास्तबलाहकैः ।
 पुच्छप्रदेशे वर्षाद्भिस्तदा चाप्याघिताः सुराः ॥ ८७ ॥
 शीरोदयध्ये भगवान्कूर्मरूपी स्वयं हरिः ।
 मन्थनाद्ग्रेथिष्ठानं भ्रमतीऽभूम्यहामुने ॥ ८८ ॥
 रूपेणान्येन देवाणां मध्ये चक्रगदाधरः ।
 सक्वर्ष भागराजानं दैत्यमध्येऽपरेण च ॥ ८९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—विनीत देवताओंद्वारा इस प्रकार स्तुति किये बानगर विश्वकर्ता भगवान् हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले— ॥ ७५ ॥ हे देवगण! मैं तुम्हारे तेजको फिर बढ़ाऊँगा; तुम इस सन्ध में जो कुछ कहता हूँ वह करो ॥ ७६ ॥ तुम दैत्योंके साथ सम्पूर्ण औषधियाँ लाकर अमृतके लिये क्षीर-सागरमें डालो और मन्दराचलको मथानो तथा वासुकि नागको नेती बनाकर उठे दैत्य और दानवोंके सहित मेरी सहायतासे मथकर अमृत निकालो ॥ ७७-७८ ॥ तुमसौं ग 'क्ष'नीतिका अवलम्बन कर दैत्योंसे कहो कि 'इस काममें सहायता करनेसे आपलोग भी इसके फलमें सनान भाग पायेंगे' ॥ ७९ ॥ समुद्रके मथनपर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करनेसे तुम सबल और अमर हो जाओगे ॥ ८० ॥ हे देवगण! तुम्हारे लिये मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे दुर्भे दैत्योंका अपृत = मिल सकेगा और उनके हिस्सेमें केवल समुद्र-मन्थनका ब्रेश ही आवेगा ॥ ८१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब देवदेव भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेपर सभी देवगण दैत्योंसे सन्धि करके अमृतप्राप्तिके लिये यत्न करने लगे ॥ ८२ ॥ हे मैत्रेय! देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकारकी औषधियाँ लाकर उन्हें शरद् ऋतुके आकाशकी-सी निर्मल कान्तिवाले क्षीर-सागरके जलमें डाला और मन्दराचलको मथानी तथा वासुकि नागको नेती बनाकर बड़े वेगसे अमृत मथना आरम्भ किया ॥ ८३-८४ ॥ भगवानुने जिस ओर वासुकिकी पूँछ थी उस ओर देवताओंको तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्योंको नियुक्त किया ॥ ८५ ॥ महातेजस्वी वासुकिके मुखसे निकलते हुए निःश्वासाग्निसे झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गये ॥ ८६ ॥ और उल्टी श्वास जागुसे विविध हुए भेषोंके पूँछकी ओर बरसते रहनेसे देवताओंकी शक्ति बढ़ती गयी ॥ ८७ ॥

हे महामुने! भगवान् स्वयं कूर्मरूप धारण कर क्षीर-सागरमें घूमते हुए मन्दराचलके आघार हुए ॥ ८८ ॥ और वे ही चक्र-गदाधर भगवान् अपने एक अन्य रूपसे देवताओंमें और एक रूपसे दैत्योंमें विलकर नागराजको खींचने लगे थे ॥ ८९ ॥

उपर्याकान्तवाञ्छैर्ल बहुद्रुपेण केशवः ।
 तथापरेण मैत्रेय यन्न दृष्टं सुरासुरैः ॥ ९०
 तेजसा नागराजानं तथाप्यायितवान्हरिः ।
 अन्येन तेजसा देवानुपबृंहितवान्प्रभुः ॥ ९१
 पश्यमाने ततस्तस्मिन्क्षीराब्धौ देवदानवैः ।
 हविर्धामाऽभवत्पूर्वं सुरभिः सुरपूजिता ॥ ९२
 जग्मुर्मुदं ततो देवा दानवाश्च मह्यमुने ।
 व्याक्षिप्तचेतसश्चैव बभूवुः स्तिमितेक्षणैः ॥ ९३
 किमेतदिति सिद्धानां दिवि चिन्तयतां ततः ।
 बभूव वारुणी देवी मदायूर्णितलोचना ॥ ९४
 कृतावर्तान्तस्तस्मात्क्षीरोदाद्वासयञ्जगत् ।
 गन्धेन पारिजातोऽभूत्सस्त्रीनन्दनस्तरुः ॥ ९५
 रूपौदार्यगुणोपेतस्तथा चाप्सरसां गणः ।
 क्षीरोदधेः समुत्पन्नो मैत्रेय परमाद्भुतः ॥ ९६
 ततः शीतोऽशुरभवञ्जगृहे तं महेश्वरः ।
 जगद्गृह्य दिवं नागाः क्षीरोदाब्धिसमुत्थितम् ॥ ९७
 ततो धन्वन्तरिर्देवः श्वेताम्बरधरस्त्वयम् ।
 विभक्तमण्डलं पूर्णममृतस्य समुत्थितः ॥ ९८
 ततः स्वस्थमनस्कास्ते सर्वे दैतेयदानवाः ।
 बभूवुर्मुदिताः सर्वे मैत्रेय मुनिभिः सह ॥ ९९
 ततः स्फुरत्कान्तिपती विक्वासिकम्पे स्थिता ।
 श्रीर्देवी पयसस्तस्माद्दुद्भूता धृतपङ्कजा ॥ १००
 तां तुष्टुवुर्मुदा युक्ताः श्रीसूक्तेन मठर्षयः ॥ १०१
 विश्वाखसुमुखास्तस्या गन्धर्वाः पुरतो जगुः ।
 घृताचीप्रमुखास्तत्र ननुत्तुश्चाप्सरोगणाः ॥ १०२
 गङ्गाद्याः सरितस्तोयैः स्नानार्थमुपतस्थिरे ।
 दिग्गजा हेमपात्रस्थमादास्य विमलं जलम् ।
 स्नापयाञ्चक्रिरे देवीं सर्वलोकमहेश्वरोम् ॥ १०३
 क्षीरोदो रूपधृक्तस्यै मालामस्नानपङ्कजाम् ।
 ददौ विभूषणान्यङ्गे विश्वकर्मा चकार ह ॥ १०४
 दिव्यमाल्याम्बरधरा स्नाता भूषणभूषिता ।
 पश्यतां सर्वदेवानां ययी सक्षःस्थलं हरेः ॥ १०५

तथा हे मैत्रेय ! एक अन्य विशाल रूपसे जो देवता और
 दैत्योंको दिखायी नहीं देता था श्रीकेशवने ऊपरसे पर्यन्तको
 दबा रखा था ॥ ९० ॥ भगवान् श्रीहरि अपने तेजसे नागराज
 वासुकिमें बलका संचार करते थे और अपने अन्य तेजसे
 वे देवताओंका बल बढ़ा रहे थे ॥ ९१ ॥

इस प्रकार, देवता और दानवोंद्वारा क्षीर-समुद्रके मक्षे
 जलं पर पड़ले हवि (यज्ञ-सामग्री)-को आश्रयरूपा सुरपूजिता
 कामधेनु उत्पन्न हुई ॥ ९२ ॥ हे महामुने ! उस समय देव
 और दानवगण अति आनन्दित हुए और उसकी ओर चित्त
 खिंच जानेसे उनकी टफटकी बंध गयी ॥ ९३ ॥ फिर
 स्वर्गलोकमें 'यह क्या है ? यह क्या है ?' इस प्रकार चिन्ता
 करते हुए सिद्धोंके समक्ष मदसे घूमते हुए नेत्रोंवाली
 वारुणीदेवी प्रकट हुई ॥ ९४ ॥ और पुनः पन्थन करनेपर उस
 क्षीर-सागरसे, अपनी गन्धसे त्रिलोकोंको सुगन्धित करनेवाला
 तथा सुर-सुन्दरियोंका आनन्दवर्धक कल्पवृक्ष उत्पन्न
 हुआ ॥ ९५ ॥ हे मैत्रेय ! तत्परयात् क्षीर-सागरसे रूप और
 उदारता आदि गुणोंसे युक्त अति अद्भुत अप्सरारणं प्रकट
 हुई ॥ ९६ ॥ फिर चन्द्रमा प्रकट हुआ जिसे पश्यदेवजीने ग्रहण
 कर लिया । इसी प्रकार क्षीर-सागरसे उत्पन्न हुए विषको
 नागोंने ग्रहण किया ॥ ९७ ॥ फिर श्वेतवस्त्रधारी साक्षात्
 भगवान् धन्वन्तरिजी अभूतसे भरा कण्ठश्चरु सिन्धे प्रकट
 हुए ॥ ९८ ॥ हे मैत्रेय ! उस समय मुनिगणके सहित समस्त दैत्य
 और दानवगण स्वस्थ-चित्त होकर अति प्रसन्न हुए ॥ ९९ ॥

उसके पश्चात् विकसित कमलपर विराजमान
 स्फुरत्कान्तिमयी श्रीलक्ष्मीदेवी हार्थमें कमल-पुष्प धारण किये
 क्षीर-समुद्रसे प्रकट हुई ॥ १०० ॥ उस समय महाविगण अति
 प्रसन्नतापूर्वक श्रीसूक्तद्वारा उनको स्तुति करने लगे तथा
 विश्वाखसु आदि गन्धर्वगण उनके सम्मुख भान और घृताची
 आदि अप्सरारणं नृत्य करने लगीं ॥ १०१-१०२ ॥ उन्हें अपने
 जलसे स्नान करानेके लिये गंगा आदि नदियों स्वयं उपस्थित
 हुईं और दिग्गजोंने सुवर्ण-कलशोंमें भरे हुए उनके निर्मल
 जलसे सर्वलोक-महेश्वरों श्रीलक्ष्मीदेवीको स्नान कराया
 ॥ १०३ ॥ क्षीर-सागरने पूतिमान् होकर उन्हें विकसित
 कमल-पुष्पोंको माला दी तथा विश्वकर्माने उनके अंग-
 प्रार्थनामें विविध आभूषण पहनाये ॥ १०४ ॥ इस प्रकार दिव्य
 माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जलसे स्नान कर, दिव्य
 आभूषणसे विभूषित हो श्रीलक्ष्मीजी सम्पूर्ण देवताओंके देखने-
 देखते श्रीविष्णुभगवान्के यक्ष-स्थलमें विराजमान हुईं ॥ १०५ ॥

तया विलोकिता देवा हरिवक्षःस्थलस्थया ।
 लक्ष्म्या मैत्रेय सहसा परां निर्वृतिमागताः ॥ १०६ ॥
 उद्वेगं परमं जग्मुर्देव्या विष्णुपुराङ्मुखाः ।
 त्यक्त्वा लक्ष्म्या महाभाग विप्रश्चिन्तिपुरोगमाः ॥ १०७ ॥
 ततस्ते जगृहुर्देव्या धन्वन्तरिकरस्थितम् ।
 कमण्डलुं महासीर्या यत्रास्तेऽमृतमुत्तमम् ॥ १०८ ॥
 माक्यञ्च मोहयित्वा ताञ्चिष्युः स्त्रीरूपस्थितः ।
 दानवेभ्यस्तदादाय देवेभ्यः प्रददीं प्रभुः ॥ १०९ ॥
 ततः पपुः सुरगणाः शक्राद्यास्तत्तदाऽमृतम् ।
 उद्यातयुधनिस्त्रिंशद्दैत्यास्तांश्च समभ्ययुः ॥ ११० ॥
 पीतेऽमृते च बलिभिर्देवैर्दैत्यचमूस्तदा ।
 बध्यमाना दिशो भेजे पातालं च विवेश वै ॥ १११ ॥
 ततो देवा मुदा युक्ताः शङ्खचक्रगदाभृतम् ।
 प्रणिपत्य वशापूर्वभाशासत्तन्निविष्टपम् ॥ ११२ ॥
 ततः प्रसन्नभाः सूर्यः प्रययौ स्वेन वर्त्मना ।
 ष्योतीषि च यथामार्गं प्रचयुर्मुनिसत्तम ॥ ११३ ॥
 ऊचाल भगवांश्छोष्यैश्चात्तदीर्तिर्विभयसु ।
 धर्मं च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत ॥ ११४ ॥
 त्रैलोक्यं च श्रिया जुष्टं बभूव द्विजसत्तम ।
 शक्रश्च त्रिदशश्रेष्ठः पुनः श्रीमानजायत ॥ ११५ ॥
 सिंहसनगतः शक्रस्सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः ।
 देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरं ततः ॥ ११६ ॥

इन्द्र उवाच

नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्जसम्भवाम् ।
 अत्रमुनिद्रपञ्चार्क्षीं विष्णुवक्षःस्थलस्थिताम् ॥ ११७ ॥
 पद्यालयां पद्यकरां पद्यापत्रनिभेक्षणाम् ।
 वन्दे पद्यामुखीं देवीं पद्यानाभप्रियामहम् ॥ ११८ ॥
 त्वं सिद्धिस्त्वै स्वस्वः स्वस्वः सुधा त्वं लोकमाप्सवी ।
 सख्या रात्रिः प्रभा भूतिर्मैधा श्रद्धा सरस्वती ॥ ११९ ॥

हे मैत्रेय! श्रीहरि के वक्षःस्थलमें विराजमान श्रीलक्ष्मीजीका दर्शन कर देवताओंको अब्जमाल अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ १०६ ॥ और हे महाभाग! लक्ष्मीजीसे परिचित होनेके कारण भगवान् विष्णुके विरोधी विप्रचिति आदि दैत्यगण परम उद्विग्न (व्याकुल) हुए ॥ १०७ ॥ एतन् महाबलवान् दैत्योंने श्रीधन्वन्तरिजीके हाथसे यह कमण्डलु छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था ॥ १०८ ॥ अतः स्त्री (मोहिनी) रूपधारी भगवान् विष्णुने अपनी मायासे दानकोंको मोहित कर उनसे यह कमण्डलु लेकर देवताओंको दे दिया ॥ १०९ ॥

तब इन्द्र आदि देवगण उस अमृतको पी गये; वृक्षसे दैत्यलोग अति तीक्ष्ण खड्ग आदि हथौसे सुसज्जित हो उनके ऊपर दृढ़ पड़े ॥ ११० ॥ किन्तु अमृत-पानके कारण बलवान् हुए देवताओंद्वारा मातृ-काटी जाकर दैत्योंको सम्पूर्ण सना दिशा-विदेशाओंमें भगा गयी और कुछ पाताललोकमें भी गली गयी ॥ १११ ॥ फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शंख-चक्र-गदा-धारी भगवान्को प्रणाम कर महलेहीके समान स्वर्गका शासन करने लगे ॥ ११२ ॥

हे मुनिश्रेष्ठ! उस समयसे प्रखर तेजोयुक्त भगवान् सूर्य अपने मार्गसे तथा अन्य तारागण भी अपने-अपने मार्गसे चलने लगे ॥ ११३ ॥ सुन्दर दीपितशाली भगवान् अग्निदेव अत्यन्त प्रचलित हो उठे और उसी समयसे अगला प्राणियोंके धर्ममें प्रवृत्ति हो गयी ॥ ११४ ॥ हे द्विजांतम! विलोकी श्रोसम्पना हो गयी और देवताओंमें श्रेष्ठ इन्द्र भी पुनः श्रीमान् हो गये ॥ ११५ ॥ तदनन्तर इन्द्रने स्वर्गलोकमें जाकर फिरसे देवराज्यपर अधिकार पाया और राजसिंहासनपर आरूढ़ हो पदाहस्ता श्रीलक्ष्मीजीकी इस प्रकार स्तुति की ॥ ११६ ॥

इन्द्र बोले—सम्पूर्ण लोकोंकी जननी, भिकसित कमलके सदृश नेत्रवाली, भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें विराजमान कमलौद्धवा श्रीलक्ष्मीदेवीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ११७ ॥ कमल ही जिनका निवासस्थान है, कमल ही जिनके कर-कमलोंमें सुशोभित है, तब कमल-दलके समान ही जिनके नेत्र हैं उन कमलमुखी कमलनाभ-प्रिया श्रीकमलादेवीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ११८ ॥ हे देवि! तुम सिद्धि हो, स्वभा हो, स्वाहृ हो, सुभा हो और विलोकियोंको पवित्र करनेवाली हो तथा गुप्त ही सन्ध्य, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो ॥ ११९ ॥

यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने ।
 आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी ॥ १२०
 आन्वीक्षिकी त्रयीचार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च ।
 सौम्यासौम्यैर्जगद्गूढैस्त्वयैतदेवि पूरितम् ॥ १२१
 का त्वन्या त्वामृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः ।
 अध्यासे देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः ॥ १२२
 त्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयम् ।
 विनष्टप्रायमभवत्त्वयेदानीं समेधितम् ॥ १२३
 दाराः पुत्रास्तथागारसुहृद्भान्धनानादिकम् ।
 भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्दीक्षणानृणाम् ॥ १२४
 शरीरारोग्यमैश्वर्यं परिपक्षक्षयः सुखम् ।
 देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् ॥ १२५
 त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता ।
 त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् ॥ १२६
 मा नः कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदम् ।
 मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनि ॥ १२७
 मा पुत्रान्मा सुहृद्वर्गं मा पशून्मा विभूषणम् ।
 त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षः स्थलालये ॥ १२८
 सत्त्वेन सत्यश्रीचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः ।
 त्वय्यन्ते नै नराः सद्यः सन्त्यक्तं ये त्वयामले ॥ १२९
 त्वया विलोकिताः सद्यः शीलार्हैस्खिलैर्गुणैः ।
 कुलैश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि ॥ १३०
 स श्लाघ्यः स गुणी धन्यः स कुलैः स बुद्धिमान् ।
 स शूरः स च विक्रान्तो वस्तुव्या देवि वीक्षितः ॥ १३१
 सद्यो वैगुण्यमयानि शीलाद्यः सकल्य गुणाः ।
 पदाङ्मुखो जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे ॥ १३२
 न ते वर्षीयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वपि वेधसः ।
 प्रसीद देवि पचाक्षि धाम्नास्त्याक्षीः कदाचन ॥ १३३
 श्रीपरमर उवाच
 एवं श्रीः संस्तुता सम्पक् प्राह देवी शतव्रतम् ।
 शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज ॥ १३४

हे शोभने! यज्ञ-विद्या (कर्म-काण्ड), महाविद्या
 (उपासना) और गुह्यविद्या (इन्द्रजाल) तुम्हीं हो तथा
 हे देवि। तुम्हीं मुक्ति-फलदायिनी आत्मविद्या हो ॥ १२० ॥
 हे देवि! आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या), वेदत्रयी, वार्ता
 (शिल्पवर्णन्यादि) और दण्डनीति (राजनीति) भी तुम्हीं
 हो। तुम्हीं अपने शान्त और उग्र रूपोंसे यह सपस्त
 संसार व्याप्त किया हुआ है ॥ १२१ ॥ हे देवि! तुम्हारे बिना
 और ऐसै कौन स्त्री है जो देवदेव भगवान् गदाधरके
 योगिजनचिन्तित सर्वयज्ञमय शरीरका आश्रय पा
 सके ॥ १२२ ॥ हे देवि! तुम्हारे छोड़ देनेपर सम्पूर्ण त्रिलोकी
 नष्टप्राय हो गयी थी; अब तुम्हीं उसे पुनः जीवन्-दान
 दिया है ॥ १२३ ॥ हे महाभागे! स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य
 तथा सुहृद् ये सब सदा आपत्तिके दृष्टिपातसे मनुष्योंको
 मिलते हैं ॥ १२४ ॥ हे देवि! तुम्हारी कृपा-दृष्टिके मात्र
 पुरुषोंके लिये हारोिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु-पक्षका
 नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं हैं ॥ १२५ ॥ तुम
 सम्पूर्ण लोकोंकी माता हो और देवदेव भगवान् हरि पिता
 हैं। हे मातः! तुमसे और श्रीविष्णुभगवान्से यह सकल
 घराचर जगद् व्याप्त है ॥ १२६ ॥ हे सर्वपावनि मातेश्वरि!
 हमारे कोश (खजाना), गोष्ठ (पशुशाला), गृह, भोगसामग्री,
 शरीर और स्त्री आदिको आप कभी न त्यागं अर्थात् इनमें
 भरपूर रहें ॥ १२७ ॥ अग्नि विष्णुवक्षःस्थल चिन्वासिनि! हमारे
 पुत्र, सुहृद्, पशु और भूषण आदिको आप कभी न
 छोड़ें ॥ १२८ ॥ हे अमले! जिन मनुष्योंको तुम छोड़ देती
 हो उन्हें सत्य (मानसिक बल), सत्य, शीव और शील
 आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं ॥ १२९ ॥ और तुम्हारी
 कृपा-दृष्टि होनेपर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील
 आदि सम्पूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदिसे
 सम्पन्न हो जाते हैं ॥ १३० ॥ हे देवि! जिसपर तुम्हारी कृपा-
 दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्यभाग्य
 है, वही कुलीन और बुद्धिमान् है तथा वही शूरवीर और
 पराक्रमी है ॥ १३१ ॥ हे विष्णुप्रिये! हे जगन्धरनि। तुम
 जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरन्त
 अवगुणरूप हो जाते हैं ॥ १३२ ॥ हे देवि! तुम्हारे गुणोंका
 वर्णन करनेमें जो श्रीब्रह्मजोकी रसना भी समर्थ नहीं है।
 [फिर मैं क्या कर सकता हूँ?] आतः हे कमलानयने!
 अब मुझपर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो ॥ १३३ ॥
 श्रीपरमेश्वरी बोली—हे द्विज! इस प्रकार सम्पक्
 स्तुति किये जानेपर सर्वभूतस्थिता श्रीलक्ष्मीजी सब
 देवताओंके सुनते हुए इन्द्रसे इस प्रकार बोलीं ॥ १३४ ॥

श्रीरुवाच

परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे ।
वरं वृणीष्व यस्त्विच्छो वरदाहं तवागता ॥ १३५

इन्द्र उवाच

वरदा यदि मे देवि वराह्ये यदि चाप्यहम् ।
त्रैलोक्यं न त्वया त्वान्यमेव मेऽस्तु वरः परः ॥ १३६
स्तोत्रेण यस्तथैतेन त्वां स्तोष्यत्वब्धिसम्भवे ।
स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम ॥ १३७

श्रीलक्ष्मी

त्रैलोक्यं त्रिदशश्रेष्ठ न सन्त्यक्ष्यामि चासव ।
दत्तो वरो भया वस्ते स्तोत्राराधनतुष्टयाः ॥ १३८
यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः ।
मां स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखी ॥ १३९

श्रीपरशुर उवाच

एवं ददौ वरं देवी देवराजाय वै पुरा ।
मैत्रेय श्रीमहाभाग स्तोत्राराधनतोषिता ॥ १४०
भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना श्रीः पूर्वमुखे पुनः ।
देवदानववत्नेन प्रसूताऽमृतमन्थने ॥ १४१
एवं यदा जगत्सयामी देवदेवो जनार्दनः ।
अवतारं करोत्येषा तदा क्षीस्तत्सहायिनी ॥ १४२
पुनश्च पश्चादुत्पन्ना आदित्योऽभृदादा हरिः ।
यदा तु भर्गवो रामस्तदाभूद्धरणी त्वियम् ॥ १४३
रावणत्वेऽधवत्पिता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि ।
अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेवानपायिनी ॥ १४४
देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी ।
विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुम् ॥ १४५
यश्चैतच्छृणुयाजन्म लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः ।
अथो न विच्छ्यतिस्तस्य गृहे वायस्कुलप्रथम् ॥ १४६
पठ्यते येषु सर्वेषु गृहेषु श्रीस्तुतिर्मुने ।
अलक्ष्मीः कलाहाभार न तेष्वास्ते कदाचन ॥ १४७
एतत्ते कथितं ब्रह्मयन्मां त्वं परिपृच्छसि ।
क्षीराब्धिं श्रीर्यथा जाता पूर्व भृगुसुता सती ॥ १४८

श्रीलक्ष्मीजी बोलीं—हे देवेश्वर इन्द्र! मैं तेरे इस स्तोत्रसे अति प्रसन्न हूँ; तुझको जो अभीष्ट हो वही वर माँग ले। मैं तुझे वर देनेके लिये ही यहाँ आयी हूँ ॥ १३५ ॥
इन्द्र बोले—हे देवि! यदि आम वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पानेयोग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिये कि आप इस त्रिलोकीका कभी त्याग न करें ॥ १३६ ॥ और हे समुद्रसन्धने! दूसरा वर मुझे यह दीजिये कि जो कोई आपकी इस स्तोत्रसे स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें ॥ १३७ ॥

श्रीलक्ष्मीजी बोलीं—हे देवश्रेष्ठ इन्द्र! मैं अब इस त्रिलोकीको कभी न छोड़ूंगी! तेरे स्तोत्रसे प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ ॥ १३८ ॥ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकालके समय इस स्तोत्रसे मेरी स्तुति करेगा उसके भी मैं कभी विमुख न होऊँगी ॥ १३९ ॥

श्रीपरशुराजजी बोले—हे मैत्रेय! इस प्रकार पूर्वकालमें महाभाग श्रीलक्ष्मीजीने देवराजकी स्तोत्ररूप आराधनासे सन्तुष्ट होकर उन्हें ये वर दिये ॥ १४० ॥ लक्ष्मीजी पहले भृगुजीके हाथ ख्याति नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई थीं, फिर अमृत-मन्थनके समय दैत्य और दानवोंके प्रयत्नसे वे सगुहसे प्रकट हुई ॥ १४१ ॥ इस प्रकार संसारके स्वामी देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवान् जब-जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मीजी उनके साथ रहती हैं ॥ १४२ ॥ जब श्रीहरि आदित्यरूप हुए तो वे पदासे फिर उत्पन्न हुई [और यथा कलहायीं]। तथा जब वे भरगुराज हुए तो वे पृथ्वी हुई ॥ १४३ ॥ श्रीहरिके राम होनेपर वे सीतानी हुई और कृष्णावतारमें श्रीरुक्मिणीजी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारोंमें भी ये भगवान्से कभी पृथक् नहीं होतीं ॥ १४४ ॥ भगवान्के देवरूप होनेपर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होनेपर मानवीरूपसे प्रकट होती हैं। विष्णुभगवान्के शरीरके अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं ॥ १४५ ॥ जो मनुष्य लक्ष्मीजीके जन्मकी इस कथाकी सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घरमें (वर्तमान आगामी और भूत) दोनों कुलोंके रहने हुए कभी लक्ष्मीका नाश न होगा ॥ १४६ ॥ हे मुने! जिन घरोंमें लक्ष्मीजीके इस स्तोत्रका पाठ होता है उनमें कलहको आधारभूत दरिद्रता कभी नहीं रह सकती ॥ १४७ ॥ हे ब्रह्मन्! तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगुजीकी पुत्री होकर फिर लक्ष्मीजी श्रीर-समुद्रसे कैसे उत्पन्न हुईं सो मैंने तुमसे यह सब वृक्षन्त कह दिया ॥ १४८ ॥

इति सकलविभूत्यवाप्तिहेतुः
स्तुतिरियमिन्द्रमुखोद्गाता हि लक्ष्म्याः ।
अनुदिनमिह पठन्ते नृभिर्द्यै-
र्वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः ॥ १४९ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽशो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

दसवाँ अध्याय

भृगु, अग्नि और अग्निष्वात्तादि पितरोंकी सन्तानका वर्णन

श्रीमंत्रेय उवाच

कथितं मे त्वया सर्वं यत्पृष्टोऽसि मया मुने ।
भृगुसर्गात्प्रभृत्वेष सर्गो मे कथ्यतां पुनः ॥ १ ॥

श्रीपराशर उवाच

भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना लक्ष्मीर्विष्णुपरिग्रहः ।
तथा धातुविधातारी ख्यात्यां जातो सुतो भृगोः ॥ २ ॥
आयतिनियतिश्चैव मेरोः कन्ये महात्मनः ।
भार्ये धातुविधात्रोस्ते तयोर्जातो सुतावुभौ ॥ ३ ॥
प्राणश्चैव मृकण्डुश्च मार्कण्डेयो मृकण्डुतः ।
ततो वेदशिरा जज्ञे प्राणस्यापि सुतं शृणु ॥ ४ ॥
प्राणस्य श्रुतिमान्पुत्रो राजवांश्च ततोऽभवत् ।
ततो वंशो महाभाग विस्तरं भार्गवो गतः ॥ ५ ॥
पत्नी परीचैः सम्भूतिः पौर्णमासमसूयत ।
शिरजाः पर्वतश्चैव तस्य पुत्रौ महात्मनः ॥ ६ ॥
वंशसंकीर्तने पुत्रान्वादिष्येऽहं ततो द्विज ।
स्मृतिश्चारिद्रिसः पत्नी प्रसूता कन्यकास्तथा ।
सिनीवाली कुहूश्चैव राका चानुमतिस्तथा ॥ ७ ॥
अनसूया तथैवात्रेर्जज्ञे निष्कल्मषान्मुतान् ।
सोमं तुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम् ॥ ८ ॥
श्रीत्यां पुलस्त्यभार्यायां दत्तोस्तिस्तसुतोऽभवत् ।
पूर्वजन्मनि योऽपस्त्यः स्मृतः स्वायम्भुवोऽन्तरो ॥ ९ ॥
कर्दमश्चोर्वरीयांश्च सहिष्णुश्च सुतास्त्रयः ।
क्षमा तु सुषुवे भार्या पुलहस्य प्रजापतेः ॥ १० ॥

इस प्रकार इन्द्रके मुखसे प्रकट हुई यह लक्ष्मीजीकी स्तुति सकल विभूतियोंकी प्राप्तिका कारण है। जो लोग इसका नित्यप्रति पाठ करेंगे उनके घरमें निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी ॥ १४९ ॥

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे मुने! मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया; अब भृगुजीकी सन्तानसे लेकर सम्पूर्ण सृष्टिका आप मुझसे फिर वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

श्रीपराशरजी बोले—भृगुजीके द्वारा ख्यातिसे विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी और धाता, विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ महात्मा मेरुकी आर्यति और नियति-नाम्नी कन्यार्ये धाता और विधाताकी स्त्रियाँ थीं; उनसे उनके प्राण और मृकण्डु नामक दो पुत्र हुए। मृकण्डुसे मार्कण्डेय और उनसे वेदशिराका जन्म हुआ। अब प्राणकी सन्तानका वर्णन सुनो ॥ ३-४ ॥ प्राणका पुत्र श्रुतिमान् और उसका पुत्र राजवान् हुआ। हे महाभाग! उस राजवान्से फिर भृगुवंशका बड़ा विस्तर हुआ ॥ ५ ॥

परीचिकी पत्नी सम्भूतिने पौर्णमासको उत्पन्न किया। उस महात्माके शिरजा और पर्वत दो पुत्र थे ॥ ६ ॥ हे द्विज! उनके वंशका वर्णन करते समय मैं उन दोनोंकी सन्तानका वर्णन करूँगा। अग्निका पत्नी स्मृति थी, उसके सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति नामको कन्यार्ये हुई ॥ ७ ॥ अग्निका भार्या अनसूयाने चन्द्रमा, दुर्वास और योगी दत्तात्रेय—इन निष्पाप पुत्रोंको जन्म दिया ॥ ८ ॥ पुलस्त्यकी स्त्री प्रीतिसे दत्तोलिका जन्म हुआ जो अपने पूर्व जन्ममें स्वायम्भुव मन्वन्तरमें अगस्त्य कहा जाता था ॥ ९ ॥ प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षमासे कर्दम, उर्वरीयान् और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए ॥ १० ॥

कृतोश्च सन्ततिर्भार्या वालखिल्यानसूयत ।
 षष्टिपुत्रसहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरितसाम् ।
 अङ्गुष्ठपर्वमात्राणां चतस्रास्करतेजसाम् ॥ ११
 ऊर्जायां तु षसिष्ठस्य सप्ताजायन्त वै सुताः ॥ १२
 रजो गोत्रोर्दध्वन्बाहुश्च सवनश्चानघस्तथा ।
 सुतथाः शुक्र इत्येते सर्वे सप्तर्षयोऽमलाः ॥ १३
 योऽसावन्यभिमानी स्याद् ब्रह्मणस्तनयोऽप्रजः ।
 तस्यात्स्वाहा सुतौल्लेभे त्रीनुदारौजसो द्विज ॥ १४
 पावकं पवमानं तु शुचिं चापि जलाशिनम् ॥ १५
 तेषां तु सन्ततावन्ये चत्वारिंशच्च पञ्च च ।
 कथ्यन्ते सप्तयश्चैते पितापुत्रत्रयं च यत् ॥ १६
 एवमेकोनपञ्चाशद्दहनयः परिकीर्तिताः ॥ १७
 पितरो ब्रह्मणा सृष्टा व्याख्याता ये पथा द्विज ।
 अग्निष्वात्ता बर्हिषदोऽनग्नयः सामनयश्च ये ॥ १८
 तेभ्यः स्वधा सुते जज्ञे मेनां वै धारिणीं तथा ।
 ते डभे ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यावप्युभे द्विज ॥ १९
 उत्तमज्ञानसम्पन्ने सर्वैः सप्तुदितैर्गुणैः ॥ २०
 इत्येषा दक्षकन्यानां कथितापत्यसन्ततिः ।
 श्रद्धावान्संस्मरन्नेतामनपत्यो न जायते ॥ २१

ऋतुकी सन्तति नामक भावार्थे अंगुठके पोर्ष्ठीके
 समान शरीरवाले तथा प्रखर सूर्यके समान तेजस्वी
 वालखिल्यादि साठ हजार ऊर्ध्वरता मुनियोंको जन्म
 दिया ॥ ११ ॥ षसिष्ठकी ऊर्जा नामक स्त्रीसे रज, गोत्र,
 ऊर्ध्वबाहु, सवन, अगघ, सुतया और शुक्र ये सात पुत्र
 उत्पन्न हुए । ये निर्मल स्वभाववाले समस्त मुनिगण [तीसरे
 मन्वन्तरमें] सर्वापि हुए ॥ १२-१३ ॥

हे द्विज! अग्निका अभिधानी देव, जो ब्रह्मजीक
 ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नीसे अग्नि
 तेजस्वी पावक, पवमान और जलको भक्षण करनेवाला
 शुचि—ये तीन पुत्र हुए ॥ १४-१५ ॥ इन तीनोंके [प्रत्येकके
 पन्द्रह-पन्द्रह पुत्रके क्रमसे] पितृहीन सन्तानें हुईं । पिता
 अग्नि और उसके तीर पुत्रोंको पितृहिन कर के सब अग्नि
 ही कहलाते हैं । इस प्रकार कुल उनचास (४९) अग्नि
 कहे गये हैं ॥ १६-१७ ॥ हे द्विज! ब्रह्मजीद्वारा रचे गये
 जिन अनग्निक अग्निष्वात्ता और सामिक बर्हिषद् आदि
 पितरोंके विषयमें तुमसे कहा था । उनके द्वारा स्वधने मेना
 और धारिणी नामक दो कन्याएँ उत्पन्न कीं । वे दोनों ही
 उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न और सभी गुणोंसे युक्त ब्रह्मवादिनी
 तथा योगिनी थीं ॥ १८-२० ॥

इस प्रकार यह दक्षकन्याओंकी वंशपरम्पराका वर्णन
 किया । जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह
 निःसन्तान नहीं रहता ॥ २१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

ग्यारहवाँ अध्याय

ध्रुवका वनगमन और मरीचि आदि ऋषियोंसे भेंट

श्रीपराशर उवाच

प्रियव्रतोत्तानपादो मनोः स्वायंभुवस्य तु ।
 द्वी पुत्री तु महावीर्या धर्मज्ञौ कथितौ तव ॥ १
 तयोरुत्तानपादस्य सुरस्यामुत्तमः सुतः ।
 अभीष्टायामभूद्ब्रह्मन्पितुरत्यन्तवत्सलः ॥ २
 सुनीतिर्नाम वा राजस्तस्यासीन्महिषी द्विज ।
 स नातिप्रीतियास्तस्यामभूद्यस्या ध्रुवः सुतः ॥ ३

श्रीपराशरजी बोले—हे वैश्वेय! मैंने तुम्हें
 स्वायंभुवस्यके प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो
 महाबलवान् और धर्मज्ञ पुत्र बतलाये थे ॥ १ ॥ हे
 ब्रह्मन्! उनमेंसे उत्तानपादकी प्रियसी पत्नी सुरचिसे
 पिताका अत्यन्त लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ ॥ २ ॥
 हे द्विज! उस राजाकी जो सुनीति नामक राजपत्नी
 थी उसमें उसका विशेष प्रेम न था । उसका पुत्र
 ध्रुव हुआ ॥ ३ ॥

राजासनस्थितस्याङ्कं पितृभ्रातरमाश्रितम् ।
 दृष्ट्वोत्तमं ध्रुवश्चक्रे तमारोहं मनोरथम् ॥ ४
 प्रत्यक्षं भूपतिस्तस्याः सुरुच्या नाभ्यनन्दत ।
 प्रणयेनागतं पुत्रपुत्रङ्गारोहणोत्सुकम् ॥ ५
 सपत्नीतनयं दृष्ट्वा तमङ्गारोहणोत्सुकम् ।
 स्वपुत्रं च तशारूढं सुरुचिर्वाक्यमब्रवीत् ॥ ६
 क्रियते किं वृथा वत्स महानेय मनोरथः ।
 अन्यस्वीगर्भजातेन ह्यसम्भूय ममोदरे ॥ ७
 उत्तमोत्तममप्राप्यमविवेको हि वाञ्छसि ।
 सत्यं सुतस्त्वमप्यस्य किन्तु न स्वं मया धृतः ॥ ८
 एतद्राजासनं सर्वंभूपत्संश्रयकेतनम् ।
 योग्यं मथैव पुत्रस्य किमात्मा क्लिश्यते त्वया ॥ ९
 उच्चैर्मनोरथस्तेऽयं मत्पुत्रस्येव किं वृथा ।
 सुनीत्यामात्मनो जन्म किं त्वया नाशयत्यते ॥ १०

श्रीपराशर उवाच

उत्सुच्य पितरं बालस्तच्छ्रुत्वा मातृभाषितम् ।
 जगाम कुपितो मातुर्निजाया द्विज मन्दिरम् ॥ ११
 तं दृष्ट्वा कुपितं पुत्रमीषत्यस्फुरिताधरम् ।
 सुनीतिरङ्गमारोष्य मैत्रेयेदमभाषत ॥ १२
 वत्स कः कोपहेतुस्ते कश्च त्वां नाभिनन्दति ।
 कोऽवजानाति पितरं वत्स यस्तेऽपराध्यति ॥ १३

श्रीपराशर उवाच

इत्सुकः सकलं मात्रे कथयामास तद्यथा ।
 सुरुचिः प्राह भूपालप्रत्यक्षमतिगर्षिता ॥ १४
 विनिःश्वस्येति कथिते तस्मिन्पुत्रेण दुर्मनाः ।
 श्वासक्षामेक्षणा त्वीना सुनीतिर्वाक्यमब्रवीत् ॥ १५

सुनीतिरुवाच

सुरुचिः सत्यमाहेदं मन्दभाग्योऽसि पुत्रक ।
 न हि पुण्यवतां वत्स सपत्नीरेवमुच्यते ॥ १६
 नोद्वेगस्तात कर्त्तव्यः कृतं यद्भवता पुरा ।
 तत्कोऽपहर्तुं शक्नोति दातुं कश्चाकृतं त्वया ॥ १७
 तन्त्वया मात्र कर्त्तव्यं दुःखं तद्वाक्यसम्भवम् ॥ १८

एक दिन राजसिंहसनपर बैठे हुए पिताकी गोदमें अपने भाई उत्तमको बैठा देख ध्रुवकी इच्छा भी गोदमें बैठनेकी हुई ॥ ४ ॥ किन्तु खजाने अपनी प्रेयसी सुरुचिके सामने, गोदमें चढ़नेके लिये उत्कण्ठित होकर प्रेमवश आये हुए उस पुत्रका आदर नहीं किया ॥ ५ ॥ अपनी सीतके पुत्रको गोदमें चढ़नेके लिये उत्सुक और अपने पुत्रको गोदमें बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी ॥ ६ ॥ "अरे लल्ला! बिना मेरे पेटसे उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्रीका पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? ॥ ७ ॥ तू अविनेकी है, इसीलिये ऐसी अलाभ्य उत्तमोत्तम वस्तुकी इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इहाँ राजाका पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भमें धारण नहीं किया! ॥ ८ ॥ समस्त चक्रवर्ती राजाओंका व्याघ्रमरूप यह राजसिंहसन तो मेरे ही पुत्रके योग्य है; तू व्यर्थ क्यों अपने चित्तको सन्ताप देता है? ॥ ९ ॥ मेरे पुत्रके समान तुझे वृथा ही भर केंथा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीतिसे हुआ है?" ॥ १० ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज! किमात्माका ऐसा कथन सुन यह बालक कुपित हो पिताको छोड़कर अपनी माताके महलको चल दिया ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय! जिसके ओष्ठ कुछ-कुछ कौप रहे थे—ऐसे अपने पुत्रको क्रोधयुक्त देख सुनीतिने उसे गोदमें फिटाकर पूछा— ॥ १२ ॥ "मैदा! तेरे क्रोधका क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजीको अपमान करने चला है?" ॥ १३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा पूछनेपर धुवने अपनी मातासे वं सब नहीं कह दी जो अति गर्वीली सुरुचिने उससे पिताके सामने कहा था ॥ १४ ॥ अपने पुत्रके सिसक-सिसककर ऐसा कहनेपर दुःखिनी सुनीतिने खिन्निविस और दीर्घ निःश्वासके कारण मतिनयना होकर कहा ॥ १५ ॥

सुनीति बोली—बेटा! सुरुचिने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मन्दभाग्य है। हे वत्स! पुण्यवानोंसे उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते ॥ १६ ॥ बच्चा! तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व-जन्मोंमें जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है? और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है? इसलिये तुझे उसके वाक्योंसे खेद नहीं करना चाहिये ॥ १७-१८ ॥

राजासनं राजच्छत्रं वराश्ववरवारणाः ।
 यस्य पुण्यानि तस्यैते मत्स्यैतच्छाम्य पुत्रकः ॥ १९
 अन्यजन्मकृतैः पुण्यैः सुरुच्यां सुरुचिर्नृपः ।
 भाव्येति प्रोच्यते चान्या महिषा पुण्यवजिता ॥ २०
 पुण्योपचयसम्पन्नस्तास्याः पुत्रस्तथोत्तमः ।
 मम पुत्रस्तथा जातः स्वल्पपुण्यो ध्रुवो भवान् ॥ २१
 तथापि दुःखं न भवान् कर्तुमर्हति पुत्रकः ।
 यस्य यावत्स तेनैव स्वैन तुष्यति मानसः ॥ २२
 यदि ते दुःखमत्यर्थं सुरुच्या वचसा भवत् ।
 तत्पुण्योपचये वर्तन् कुरु सर्वफलप्रदे ॥ २३
 सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्रः प्राणिहिते रतः ।
 निम्नं यथावः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ २४

ध्रुव उवाच

अम्ब यत्त्वमिदं प्राक्थ प्रशमाय वचो मम ।
 नैतदुर्वचसा भिन्ने हृदये मम तिष्ठति ॥ २५
 सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोत्तमोत्तमम् ।
 स्थानं प्राप्स्याम्यशेषाणां जगतामभिपूजितम् ॥ २६
 सुरुचिर्दयिता राजस्तस्या जातोऽस्मि नोदरात् ।
 प्रभावं पश्य मेऽम्ब त्वं वृद्धस्यापि तवोदरे ॥ २७
 उत्तमः स मम भ्राता यो गर्भेण धृतस्तथा ।
 स राजासनमाप्नोतु पित्रा दत्तं तथास्तु तत् ॥ २८
 नान्यदत्तमभीप्सामि स्थानमम्ब स्वकर्मणा ।
 इच्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता मम ॥ २९

श्रीपराशर उवाच

निर्जगाम गृहान्मातुरित्युक्त्वा मातरं ध्रुवः ।
 पुराञ्च निर्गम्य ततस्तद्वाह्योपवनं ययी ॥ ३०
 स ददर्श मुनींस्तत्र सप्त पूर्वागतान्ध्रुवः ।
 कृष्णाजिनोत्तरीयेषु शिष्टेषु समास्थितान् ॥ ३१
 स राजपुत्रस्तान्सर्वान्प्राणिपत्याध्वभाषत ।
 प्रश्नयावनतः सम्यग्भिवादनपूर्वकम् ॥ ३२

ध्रुव उवाच

उत्तानपादतनयं मां निबोधत सत्तमाः ।
 जातं सुनीत्यां निर्वेदाद्युष्माकं प्राप्तमन्तिकम् ॥ ३३

हे अम्ब! जिसका पुण्य होत है उसीको राजासन, राजच्छत्र तथा उत्तम-उत्तम घोड़े और हथियार आदि मिलते हैं— ऐसा जानकर तू शान्त हो जा ॥ १९ ॥ अन्य जन्मोंमें किये हुए पुण्य-कर्मोंके कारण ही सुरुचिमें राजाकी सुरुचि (श्रीति) है और पुण्यहोना होनेसे उसे मुझ-जैसा स्त्रीकेवल भार्या (भरण करनेयोग्य) ही कहते जाते हैं ॥ २० ॥ उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्यपुंज-सम्पन्न है और मेरा पुत्र तु ध्रुव मेरे शरीर ही अल्प पुण्यवान् है ॥ २१ ॥ तथापि केत! तुझे दुःखी नहीं होना चाहिये, क्योंकि जिस मनुष्यको जितना फल मिलता है वह अपनी ही पूर्वजिमें मान रहता है ॥ २२ ॥ और यदि सुरुचिके वाक्योंसे तुझे अत्यन्त दुःख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्यके संग्रह करनेका प्रयत्न कर ॥ २३ ॥ तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमो और समस्त प्राणियोंका हितशील, क्योंकि जैसे नीचो भूमिको और इलकता हुआ जल अपने-आप ही पात्रमें आ जाता है वैसे ही सत्पात्र मनुष्यके पास स्वतः ही समस्त सम्पत्तियाँ आ जाती हैं ॥ २४ ॥

ध्रुव बोला—माताजी! तुमने मेरे चित्तको शान्त करनेके लिये जो वचन कहे हैं वे दुरात्मोंसे बिंधे हुए मेरे हृदयमें तनिक भी नहीं उड़रते ॥ २५ ॥ इसलिये मैं तो अब वही प्रयत्न करूँगा जिससे सम्पूर्ण लोकोंसे आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्ता कर सकूँ ॥ २६ ॥ यज्ञाकी प्रेमसे तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके उदरमें जन्म भी नहीं लिया है, तथापि हे माता! अपने गर्भमें बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना ॥ २७ ॥ उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भमें धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिताका दिया हुआ राजासन वही प्राप्ता करे। [भगवान् करे] ऐसा ही छे ॥ २८ ॥ माताजी! मैं जिससे दूसरेके दिये हुए पदका इच्छुक नहीं हूँ; मैं तो अपने पुण्यार्थसे ही उस पदकी इच्छा करता हूँ जिसको पिताजीने भी नहीं प्राप्त किया है ॥ २९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—मातासे इस प्रकार कह ध्रुव उसके महलसे निकल पड़ा और फिर नगरसे बाहर आकर बाहरी उपवनमें पहुँचा ॥ ३० ॥

वहाँ ध्रुवने पहलेसे ही आगे हुए सात मुनीस्वरोंको कृष्ण मृग-चर्मके बिसौनोंसे युक्त आसनोंपर बँधे देखा ॥ ३१ ॥ उस राजकुमारने इन सबको प्रणाम की मति नसता और संपूर्ण अभिवादानादिपूर्वक उनसे कहा ॥ ३२ ॥

ध्रुवने कहा—हे परमपाओ! मुझे आप सुनीतिसे

कथय ऊचुः

चतुःपञ्चाब्दसम्भूतो बालस्त्वं नृपनन्दन ।
निर्वेदकारणं किञ्चित्तसं नाद्यापि वर्तते ॥ ३४
न चित्तस्य भवतः किञ्चिदधिपते भूपतिः पिता ।
न चैवेष्टवियोगादि तत्र पश्याम बालक ॥ ३५
शरीरं न च ते व्याधिरस्माभिरुपलक्ष्यते ।
निर्वेदः किञ्चिन्मिच्छते कथ्यतां यदि विद्यते ॥ ३६

श्रीपराशर उवाच

ततः स कक्षयामास सुरुच्या यदुदाहृतम् ।
तन्निशाम्य ततः प्रोक्षुर्मुनयस्ते परस्परम् ॥ ३७
अहो क्षात्रं परं तेजो बालस्यापि यदक्षमा ।
सपत्न्या मातुरुक्तं यद् हृदयान्नापसर्पति ॥ ३८
भो भो शत्रियदायाद निर्वेदाद्यत्त्वयाद्युना ।
कर्तुं स्वयसितं तन्नः कथ्यतां यदि रोचते ॥ ३९
यच्च कार्यं तवास्माभिः साहज्यममितद्युते ।
तदुच्यतां विवक्षुस्त्वमस्माभिरुपलक्ष्यसे ॥ ४०

शुच उवाच

नाहमर्थमभ्रीप्सामि न राज्यं द्विजसत्तमाः ।
तत्स्थानमेकमिच्छामि भुक्तं नान्येन यत्पुरा ॥ ४१
एतन्मे कियतां सम्पत्क कथ्यतां प्राप्यते यथा ।
स्थानमग्र्यं समस्तेभ्यः स्थानेभ्यो मुनिसत्तमाः ॥ ४२

मरीचिरुवाच

अनाराधितगोविन्दैर्नैः स्थानं नृपात्मज ।
न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयान्मुतेम् ॥ ४३

अत्रिरुवाच

परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः ।
स प्राप्नोत्वक्षयं स्थानमेतत्सत्यं मथोदितम् ॥ ४४

अत्रिया उवाच

यस्यान्तः सर्वमेवेदमच्युतस्याप्यद्यात्मनः ।
तमाराधय गोविन्दं स्थानमग्र्यं यदीच्छसि ॥ ४५

पुलस्त्य उवाच

परं ब्रह्म परं धाम योऽसी ब्रह्म तथा परम् ।
तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यतिदुर्लभाम् ॥ ४६

उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपादका पुत्र जानें। मैं आत्म-
ग्लानिके कारण आपके निकट आया हूँ ॥ ३१ ॥

अधि बोले—एजकुमार! अभी तो तू चार-पाँच
वर्षका हो बालक है। अभी तेरे निर्वेदका कोई कारण नहीं
दिखायी पड़ता ॥ ३४ ॥ तुझे कोई चिन्ताका विषय भी नहीं
है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है और हे बालक।
तेरी कांछ इष्ट वस्तु खो गयी हो ऐसा भी हमें दिखायी
नहीं देता ॥ ३५ ॥ तथा हमें तेरे शरीरमें भी कोई व्याधि
नहीं देख पड़ती फिर बता, तेरी ग्लानिका क्या कारण
है? ॥ ३६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब सुरुचिने उससे जो कुछ
कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे
ऋषिगण अग्रसमं इस प्रकार कहने लगे ॥ ३७ ॥ 'अहो!
क्षात्रतेज केसा प्रमल है, जिससे बालकमें भी इतनी अक्षमा
है कि अपनी विमाताका कथन उसके हृदयसे नहीं
उलता' ॥ ३८ ॥ हे शत्रियकुमार! इस निर्वेदके कारण तूने
भी कुछ भरनेका निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो, वह
हमलोगोंसे कह दे ॥ ३९ ॥ और हे अनुलित तेजस्वी! यह
भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा
प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है ॥ ४० ॥

शुचने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ! भुक्षे न शो धनकी इच्छा
है और न राज्यकी; मैं तो केवल एक उसी स्थानको
चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसीने न भोगा हो ॥ ४१ ॥
हे मुनिश्रेष्ठ! आपकी सही सहायता होगी कि आप मुझे
भला प्रकार यह बता दें कि क्या करनेसे यह सत्से
अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है ॥ ४२ ॥

मरीचि बोले—हे राजपुत्र! बिना गोविन्दकी आराधना
किये मनुष्यको यह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता; अतः
तू श्रीअच्युतकी आराधना कर ॥ ४३ ॥

अधि बोले—जो परा प्रकृति आदिसे भी परे हैं वे
परमपुरुष जनार्दन जिससे अनुष्ट होते हैं उसीको यह
अक्षयपद मिलता है यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ ४४ ॥

अंगिरा बोले—यदि तू अप्यस्थानका इच्छुक है
तो जिन अष्ययात्मा अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत्
औतप्रीत है, उन गोविन्दकी ही आराधना कर ॥ ४५ ॥

पुलस्त्य बोले—जो परब्रह्म, परमधाम और
परस्वरूप हैं, उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य
अति दुर्लभ मोक्षपदको भी प्राप्त कर लेता है ॥ ४६ ॥

पुनह उवाच

ऐन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमाराध्यं जगत्पतिम् ।
प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराधय सुव्रत ॥ ४७

ऋतुरुवाच

यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेशः परमः पुमान् ।
तस्मिंस्तुष्टे यद्यप्राप्यं किं तदस्ति जनार्दन ॥ ४८

कसिष्ठ उवाच

प्राप्नोष्याराधिते विष्णो मनसा यद्यदिच्छसि ।
त्रैलोक्यानन्तर्गतं स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमम् ॥ ४९

ध्रुव उवाच

आराध्यः कश्चितो देवो भवद्भिः प्रणतस्थ मे ।
मया तत्परितोषाय यज्ञपत्यस्यं तदुच्यताम् ॥ ५०
यथा चाराधनं तस्य मया कार्यं महात्मनः ।
प्रसादसमुद्रास्तन्मे कथयन्तु महर्षयः ॥ ५१

ऋषय ऊचुः

राजपुत्र यथा विष्णोराराधनपरैर्नरैः ।
कार्यमाराधनं तन्नो यथावच्छ्रोतुमर्हसि ॥ ५२
ब्राह्मार्थादिखिलाच्चिन्नं त्याजयेत्प्रथमं नरः ।
तस्मिन्नेव जगद्दहामि ततः कुर्वीत निश्चलम् ॥ ५३

एवमेकाग्रचित्तेन तन्मयेन धृतात्मना ।
जपत्यं यन्निबोधैतत्तन्नः पाश्चिवनन्दनः ॥ ५४

हिरण्यगर्भपुरुषप्रधानाव्यक्तरूपिणे ।
ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे ॥ ५५

एतज्जजाप भगवान् जप्यं स्वायम्भुवो मनुः ।
पितामहस्तत्र पुरा तस्य तुष्टो जनार्दनः ॥ ५६

ददौ यथाभिलषितां सिद्धिं त्रैलोक्यदुर्लभाम् ।
तथा त्वयपि गोविन्दं तोषयैत्तत्सदा जपन् ॥ ५७

पुनह बोले—हे सुव्रत! जिन जगत्पतिकी आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान् विष्णुकी आराधना कर ॥ ४७ ॥

ऋतु बोले—जो परमपुरुष यज्ञपुरुष, यज्ञ और यांगेश्वर हैं, उन जनार्दनके सन्तुष्ट होनेपर कौन-सा वस्तु दुर्लभ रह सकती है? ॥ ४८ ॥

कसिष्ठ बोले—हे वत्स! विष्णुभगवान्को आराधना करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकोंके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है? ॥ ४९ ॥

ध्रुवने कहे—हे महर्षिगण! मुझ विनीतकी आपने आराध्यदेव तो बता दिया। अब उसको प्रसन्न करनेके लिये मुझे क्या अपना चाहिये—यह बताइये। उस महापुरुषकी मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिये, वह आपलोग मुझमें प्रसन्नतापूर्वक कहिये ॥ ५०-५१ ॥

ऋषिगण बोले—हे राजकुमार! विष्णुभगवान्को आराधनार्थे तत्पर पुरुषोंको जिस प्रकार उनको उपरसना करनी चाहिये यह तू हमसे क्याबत ब्रबण कर ॥ ५२ ॥ मनुष्यको चाहिये कि पहले सम्पूर्ण बाह्य विषयोंसे चित्तको हटसे और उसे एकमात्र उन जगद्गोचरमें ही स्थिर कर दे ॥ ५३ ॥ हे राजकुमार! इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तन्मयभावसे जो कुछ अपना चाहिये, वह सुन— ॥ ५४ ॥ ॐ हिरण्यगर्भ, पुरुष, प्रधान और अव्यक्तरूप शुद्ध ज्ञानस्वरूप वासुदेवकी नमस्कार है ॥ ५५ ॥ इस (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) मन्त्रको पूर्वकालमें तैरे पितामह भगवान् स्वायम्भुव मनुने जपा था। तब उनसे सन्तुष्ट होकर श्रीजनार्दनने उन्हें त्रिलोकोंमें दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरन्तर जप करता हुआ श्रीगोविन्दको प्रसन्न कर ॥ ५६-५७ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽशो एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

बारहवाँ अध्याय

ध्रुवकी तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवान्का आविर्भाव और उसे ध्रुवपद-दान

श्रीपराशर उवाच

निशाम्येतदशेषेण मैत्रेय नृपतेः सुतः ।
 निर्जगाम वनात्तस्मात्प्रणिपत्य स तानुषीन् ॥ १
 कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानस्ततो द्विज ।
 मधुसंज्ञं महापुण्यं जगाम वमुनातटम् ॥ २
 पुनश्च मधुसंज्ञेन दैत्येनाभिष्टितं यतः ।
 ततो मधुवनं नाम्ना ख्यातमत्र मद्रितले ॥ ३
 हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलम् ।
 शत्रुघ्नो मधुरां नाम पुरीं यत्र चकार वै ॥ ४
 यत्र वै देवदेवस्य सान्निध्यं हरिमेधसः ।
 सर्वपापहृते तस्मिंस्तपस्तीर्थं चकार सः ॥ ५
 मरीचिमुखैर्मुनिभिर्द्योदिष्टमभूत्तथा ।
 आत्मन्यशेषदेवेशं स्थितं विष्णुमभ्यन्यत ॥ ६
 अनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान्हरिः ।
 सर्वभूतगतो विप्र सर्वभावगतोऽभवत् ॥ ७
 मनस्यवस्थिते तस्मिन्विष्णो मैत्रेय योगिनः ।
 न शशाक धरा भारमुद्धेदुं भूतधारिणी ॥ ८
 वामपादस्थिते तस्मिन्भामार्द्धेन मेदिनी ।
 द्वितीयं च पनामार्द्धं क्षितेर्दक्षिणतः स्थिते ॥ ९
 पादाङ्गुष्ठेन सम्पीड्य यदा स वसुधां स्थितः ।
 तदा सपस्ता वसुधा चचाल सह पर्वतैः ॥ १०
 नद्यो नदाः समुद्राश्च सङ्क्षोभं परमं ययुः ।
 तत्क्षोभादमराः क्षोभं परं जग्मुर्महामुने ॥ ११
 यामा नाम तदा देवा मैत्रेय परमाकुलाः ।
 इन्द्रेण सह सम्पन्न्य ध्यानभङ्गं प्रचक्रमुः ॥ १२
 कूष्माण्डा विविधै रूषैर्महेन्द्रेण महामुने ।
 समाधिभङ्गमत्यन्तमारब्धाः कर्तुमातुराः ॥ १३
 सुनीतिर्नाम तन्माता सास्वा तत्पुरतः स्थिता ।
 पुत्रेति करुणां वाचमाह मायामयी तदा ॥ १४

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियोंको प्रणामकर उस वनसे चल दिया ॥ १ ॥ और हे द्विज! अपनेको कृतकृत्य सा मानकर वह वमुनातटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वनमें आया। आगे चलकर इस वनमें मधु नामक देव रहने लगा था, इसलिये वह इस पृथ्वीतलमें मधुवन नामसे विख्यात हुआ ॥ २-३ ॥ वहाँ मधुके पुत्र लवण नामक महाबली राक्षसको मारकर शत्रुघ्नने मधुरा (मधुर) नामकी पुरी बसायी ॥ ४ ॥ जिस (मधुवन)-में निरन्तर देवदेव श्रीहरिको सान्निधि रहता है उसी सर्वपापहारी तीर्थमें ध्रुवने तपस्या की ॥ ५ ॥ मरीचि आदि मुनीश्वरोंने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था उसने उसी प्रकार अपने हृदयमें विराजमान निखिलदेवेष्वर श्रीविष्णुभगवान्का ध्यान करना आरम्भ किया ॥ ६ ॥ इस प्रकार वे विप्र! अनन्य-चित्त होकर ध्यान करते रहनेसे उसके हृदयमें सर्वभूतान्तर्गामी भगवान् हरि सर्वतोभावेसे प्रकट हुए ॥ ७ ॥

हे मैत्रेय! योगी ध्रुवके चित्तमें भगवान् विष्णुके स्थिता हो जानेपर सर्वभूतोंको धारण करनेवाली पृथ्वी उसका भार न सँभाल सकी ॥ ८ ॥ उसके बायें चरणपर खड़े होनेसे पृथिवीका बायाँ आधा भाग झुक गया और फिर दायें चरणपर खड़े होनेसे दायाँ भाग झुक गया ॥ ९ ॥ और जिस समय वह पंरके अँगूठेसे पृथिवीको (बोचसे) दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतोंके सहित समस्त भूमण्डल विचलित हो गया ॥ १० ॥ हे महामुने! उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यन्त क्षुब्ध हो गये और उनके क्षोभसे देवताओंमें भी बड़ी हलचल मची ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय! शत्रु नाम नामक देवताओंने अत्यन्त व्याकुल हो इन्द्रके साथ परामर्श कर उसके ध्यानको भंग करनेका आयोजन किया ॥ १२ ॥ हे महामुने! इन्द्रके साथ अति अतुर कूष्माण्ड नामक उपदेवताओंने नानारूप धारणकर उसको समाधि भंग करना आरम्भ किया ॥ १३ ॥

उस समय मायाहोसे रची हुई उसकी माता सुनीति नेश्रोमें आसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और 'हे पुत्र! हे पुत्र!' ऐसा कहकर करुणापूर्क वचन बोलने लगी

पुत्रकास्मान्निवर्तस्य शरीरात्ययदारुणात् ।
 निर्बन्धतो मया लब्धो बहूभिस्त्वं मनोरथैः ॥ १५
 दीनामेकां परित्यक्तुमनाथां न त्वमर्हसि ।
 सपत्नीवचनाद्दत्स्य अगतेस्त्वं गतिर्मम ॥ १६
 क्व च त्वं पञ्चवर्षीयः क्व चैतद्गुरुणा तपः ।
 निवर्ततां मनः कष्टानिर्वन्धात्फलवर्जितात् ॥ १७
 कालः क्लीडनकानान्ते तदन्तेऽध्ययनस्य ते ।
 ततः समस्तभोगानां तदन्ते श्रेष्ठते तपः ॥ १८
 कालः क्लीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रक ।
 तस्मिंस्त्वमिच्छसि तपः किं नाशायात्मनो रतः ॥ १९
 मत्प्रीतिः परमो धर्मो ज्योऽवस्थाक्रियाक्रमम् ।
 अनुवर्तस्व मा मोह्यन्निवर्तास्मादधर्मतः ॥ २०
 परित्यजति वत्साद्य यद्येतन्न भवांस्तपः ।
 त्यक्ष्याम्यहमिह प्राणांस्ततो वै पश्यतस्तव ॥ २१
 श्रीपराशर उवाच
 तां प्रलापवतीमेवं व्राष्पाकुलचिलोचनाम् ।
 समाहितमना विष्णीं पश्यन्पि न दृष्टवान् ॥ २२
 वत्स वत्स सुधोराणि रक्षांस्येतानि भीषणे ।
 वनेऽभ्युद्यत्तशस्त्राणि समासान्यपगम्यताम् ॥ २३
 इत्युक्त्वा प्रययौ साश्च रक्षांस्याविर्बभूस्ततः ।
 अभ्युद्यत्तशस्त्राणि ज्वालामालाकुस्मैमुखैः ॥ २४
 ततो नादानतीवोग्रान्नाजपुत्रस्य ते पुरः ।
 मुमुचुर्दीप्तशस्त्राणि धामयन्तो निशाचराः ॥ २५
 शिवाश्च शतशो नेदुः सञ्चालाकवलैर्मुखैः ।
 आसाद्य तस्य बालस्य योग्युक्तस्य सर्वदा ॥ २६
 हन्यतां हन्यतामेष विद्यातां विद्यातामवम् ।
 भक्ष्यतां भक्ष्यतां चायमित्युचुस्ते निशाचराः ॥ २७
 ततो प्राणविधान्नादान् सिंहेष्ट्मकराननाः ।
 व्रासाद्य राजपुत्रस्य नेदुस्ते रजनीचराः ॥ २८
 रक्षांसि तानि ते नादाः शिवास्तान्यायुधानि च ।
 गोविन्दासक्तचित्तस्य ययुर्नेन्द्रियगोचरम् ॥ २९
 एकाग्रचेताः सततं विष्णुमेवात्मसंश्रयम् ।
 दृष्टवान्मृधिवीनाशपुत्रो नान्यं कश्चञ्चन ॥ ३०

[६६ने क-६६]—वेदा! तु राक्षसको चुलानेवाले इस भयंकर
 तपका आग्रह छोड़ दे । मैंने बड़ी-बड़ी कामनाओंद्वारा तुझे
 प्राप्त किया है ॥ १५ ॥ १५ ॥ अरे! मुझ अंजली, अनाथा,
 दुःखियाको सीतके कटु वाक्योंसे खेड़ देना तुझे उचित नहीं
 है। वेदा! मुझ आश्रयहीनाका तो एकामात्र तू ही सहाय है ॥ १६ ॥
 कहाँ तो पाँच वर्षका तू और कहाँ तैश। यह अति उग्र तप ?
 अरे! इस निष्फल कल्पशकारी आग्रहसे अपना मन मोड़
 ले ॥ १७ ॥ अभी तो तेंर खेलने कूदनेका समय है, फिर
 अध्ययनका समय आयेगा, तदनन्तर समस्त भोगोंके भोगनेका
 और फिर अन्तमें तपस्या करना भी ठीक होगा ॥ १८ ॥ वेदा!
 तुझ सुकुमार बालकका 'जो खेल-कूदका लभ्य है उसीमें
 तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाशमें
 तत्पर हुआ है ? ॥ १९ ॥ तैरा परम धर्म तो मुझको प्रमत्त
 रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्थाके अनुकूल
 कर्मोंमें ही लग, भोऽका अनुवर्तन न कर और इस तपरूपी
 अधर्मसे निवृत्त हो ॥ २० ॥ वेदा! यदि आज तू इस तपस्याको
 न छोड़ेगा तो देख तैरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूँगा ॥ २१ ॥

श्रीपराशरजी शैले—हे मैत्रेय! भगवान् विष्णुमें
 चित स्थिर रहनेके कारण सुवने उसे आँखोंमें आँसू भरकर
 इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा ॥ २२ ॥

तब, ' अरे वेदा! महँसे भाग भाग! देख, इस महात्मकंठ
 एनमें ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र-शस्त्र उदाये आ रहे हैं'—
 ऐसा कहती हुई वह चली गयी और वहाँ जिनके मुखसे
 अग्निकी सफटे निकल रही थीं ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र-
 शस्त्र सँभाले प्रकट हो गये ॥ २३-२४ ॥ उन राक्षसोंने अपने
 अति धमकीले शस्त्रोंको घुमाते हुए उस राजपुत्रके सापने
 बड़ा भयंकर कोलाहल किया ॥ २५ ॥ उस नित्य-योगयुक्त
 बालकको भयभीत करनेके लिये अपने मुखसे अग्निकी
 लपटें निकालती हुई सँकड़ें स्यारियाँ घोर नाद करने
 लगीं ॥ २६ ॥ वे राक्षसगण भी 'हसको मारो-भारो, काटी-
 काटो, खाओ खावो' इस प्रकार चिल्लाते लगे ॥ २७ ॥
 फिर सिंह, ऊँट और मकर आदिके-से मुखवाले वे राक्षस
 राजपुत्रको त्राण देनेके लिये नाना प्रकारसे गरजने लगे ॥ २८ ॥

किन्तु उस भगवदासकाचित्त बालकको वे राक्षस,
 उनके शब्द, स्यारियाँ और अस्त्र-शस्त्रादि कुछ भी दिखायीं
 नहीं दिये ॥ २९ ॥ वह राजपुत्र एकाग्रचित्तसे निरन्तर अपने
 आश्रयभूत विष्णुभगवान्को ही देखता रहा और उसने
 किसीकी ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया ॥ ३० ॥

ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुराः ।
सङ्क्षोभं परमं जग्मुस्तपराभवशङ्किताः ॥ ३१
ते समेत्य जगद्धोनिमनादिनिधने हरिम् ।
शरण्यं शरणं यातास्तपसा तस्य तापिताः ॥ ३२

देवा ऊचुः

देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ।
ध्रुवस्य तपसा तप्तास्त्वां वयं शरणं गताः ॥ ३३
दिने दिने कलालेशैः शशाङ्कः पूर्यते यथा ।
तथायं तपसा देव प्रधान्युद्धिपहर्निशम् ॥ ३४
औत्तानपादितपसा वयमित्थं जनार्दन ।
भीतास्त्वां शरणं यातास्तपसस्तं निवर्तय ॥ ३५
न विद्यः किं स शक्त्यं सूर्ययं किमभीप्सति ।
वित्तपाप्मुपसोमानां साभिलाषः पदेषु किम् ॥ ३६
तदस्माकं प्रसीदेश हृदयाच्छ्रुत्यमुद्धर ।
उत्तानपादतन्त्रयं तपसः सन्निवर्तय ॥ ३७

श्रीभगवानुवाच

नेन्द्रत्वं न च सूर्यत्वं नैवाप्सुपधनेशताम् ।
प्रार्थयत्येष यं कामं तं करोम्यखिलं सुराः ॥ ३८
यात देवा यथाकामं स्वस्थानं विगतन्वराः ।
निवर्तयाप्यहं खलं तपस्यासक्तमानसम् ॥ ३९

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा देवदेवेन प्रणाम्य त्रिदशास्ततः ।
प्रययुः स्वानि धिष्यमानि शतक्रतुपुरोगमाः ॥ ४०
भगवानपि सर्वात्या तन्मयत्वेन तोषितः ।
गत्वा ध्रुवमुवाचेदं चतुर्भुजवपुर्हरिः ॥ ४१

श्रीभगवानुवाच

औत्तानपादे भद्रं ते तपसा परितोषितः ।
वरदोऽहमनुप्राप्तो वरं वरय सुव्रत ॥ ४२
बाह्याश्रनिरपेक्षं ते मयि चित्तं यदाहितम् ।
तुष्टोऽहं भवतस्तेन तद्वृणीष्व वरं परम् ॥ ४३

श्रीपराशर उवाच

श्रुत्वेत्थं गदितं तस्य देवदेवस्य बालकः ।
उन्मीलिताक्षो ददृशे ध्यानदृष्टं हरिं पुरः ॥ ४४

तव सम्पूर्ण मायाके लीन हो जानेपर उसके हार जानेकी आशंकासे देवताओंकी बड़ा भय हुआ ॥ ३१ ॥ अतः उसके तपसे सन्तप्त हो वे सब आपसमें मिलकर जगत्के आदि, कारण, शरणागतयत्सर, अनादि और अनन्त श्रीहरिकी शरणमें गये ॥ ३२ ॥

देवता बोले—हे देवाधिदेव, जगन्नाथ, परमेश्वर, पुरुषोत्तम ! हम सब ध्रुवकी तपस्यासे सन्तप्त होकर आपकी शरणमें आये हैं ॥ ३३ ॥ हे देव ! जिस प्रकार चन्द्रमा अपनी कलाओंसे प्रतिदिन बहका है उसी प्रकार यह भी तपस्याके कारण रात-दिन उन्का हो रहा है ॥ ३४ ॥ हे जनार्दन ! इस उत्तानपादके पुत्रकी तपस्यासे त्वभीत होकर हम आपकी शरणमें आये हैं, आप उसे तपसे निवृत्त करीजिये ॥ ३५ ॥ हम नहीं जानते, वह इन्द्रत्व चाहता है या सूर्यत्व अधवा उसे कुबेर, वरुण या चन्द्रमाके पदकी अभिलाषा है ॥ ३६ ॥ अतः हे ईश ! आप हमपर प्रसन्न होइये और इस उत्तानपादके पुत्रको तपसे निवृत्त करके हमारे हृदयका काँटा निकालिये ॥ ३७ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे सुरगण ! उसे इन्द्र, सूर्य, वरुण अधवा कुबेर आदि किसीके पदकी अभिलाषा नहीं है, उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा ॥ ३८ ॥ हे देवगण ! तुम निश्चिन्त होकर इच्छानुसार अपने-अपने स्थानोंको जाओ । मैं तपस्यामें लगे हुए उस आलसकी निवृत्त करता हूँ ॥ ३९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—देवाधिदेव भगवान्के ऐसे कहनेपर इन्द्र आदि स्वयंसे देवगण उन्हें प्रणामकर अपने-अपने स्थानोंको गये ॥ ४० ॥ सर्वात्सा भगवान् हरिने भी ध्रुवकी तपस्यासे प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुजस्वरूपसे जाकर इस प्रकार कहा ॥ ४१ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे उत्तानपादके पुत्र ध्रुव ! तेरा कल्याण हो । मैं तेरी तपस्यासे प्रसन्न होकर तुझे वर देनेके लिये प्रकट हुआ हूँ, हे सुव्रत ! तू वर माँग ॥ ४२ ॥ तूने सम्पूर्ण बाह्य विषयोंसे उपरत होकर अपने चित्तको मुझमें ही लगा दिया है । अतः मैं तुझसे कति सन्तुष्ट हूँ । अब तू अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ वर माँग ॥ ४३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—देवाधिदेव भगवान्के ऐसे वचन सुनकर आलस ध्रुवने आँखें खोलीं और अपनी ध्यानावस्थामें देखे हुए भगवान् हरिकी साक्षात् अपने सम्मुख छट्टे देखा ॥ ४४ ॥

शङ्खचक्रगदाशाङ्खवरासिधरमञ्च्युतम् ।
किरीटिने समालोक्य जगाम शिरसा महीम् ॥ ४५ ॥
रोमाञ्जिताङ्गः सहसा साध्वसं परमं गतः ।
स्तथाय देवदेवस्य स चक्रे मानसं भुवः ॥ ४६ ॥
किं वदामि स्तुतावस्य केनोकेनास्य संस्तुतिः ।
इत्याकुलमतिर्देवं तमेव शरणं वयी ॥ ४७ ॥

ध्रुव उवाच

भगवन्वदि मे तोषं तपसा परमं गतः ।
स्तोतुं तदहमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ मे ॥ ४८ ॥
[ब्रह्माहौर्यस्य वेदत्रैजायते यस्य चो गतिः ।
तं त्वां कथमहं देव स्तोतुं शक्नोमि बालकः ॥
त्वद्भक्तिप्रवर्णं ह्येतत्परमेश्वर मे मनः ।
स्तोतुं प्रवृत्तं त्वत्पादौ तत्र प्रज्ञां प्रयच्छ मे ॥]

श्रीपरमर उवाच

शङ्खप्रानेन गोविन्दस्तं पस्पर्श कृताञ्जलिम् ।
उत्तानपादतनयं द्विजवर्यं जगत्पतिः ॥ ४९ ॥
अथ प्रसन्नवदनः स क्षणानुपनन्दनः ।
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भूतधातारमञ्च्युतम् ॥ ५० ॥

ध्रुव उवाच

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
भूतान्निरादिप्रकृतिर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तम् ॥ ५१ ॥
शुद्धः सूक्ष्मोऽखिलव्यापी प्रधानात्परतः पुमान् ।
यस्य रूपं नमस्तस्मै पुरुषाय गुणाशिने ॥ ५२ ॥
भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः ।
बुद्ध्यादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः परः ॥ ५३ ॥
तं ब्रह्मभूतमात्मानमशेषजगतः पतिम् ।
प्रपद्ये शरणं शुद्धं त्वद्रूपं परमेश्वर ॥ ५४ ॥
बृहत्प्रादुर्ब्रह्मणास्त्वय्यद्रूपं ब्रह्मसंज्ञितम् ।
तस्मै नमस्ते सर्वात्मन्योर्गिञ्चन्त्याविकारिणे ॥ ५५ ॥
सहस्रशीर्षां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।
सर्वव्यापी भुवः स्पृशदत्यतिष्ठद्भ्राङ्गुलम् ॥ ५६ ॥

श्रीअच्युतकी किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शार्ङ्ग धनुष और खड्ग। भरण विषये देख उसने पृथिवीपर शिर रखकर प्रणाम किया ॥ ४५ ॥ और सहसा रोमांचित तथा परम पयशीत होकर उसने देवदेवकी स्तुति करनेकी इच्छा की ॥ ४६ ॥ किन्तु 'इनकी स्तुतिके लिये मैं क्या करूँ? क्या कहनेसे इनका स्तवन हो सकता है?' यह न जाननेके कारण वह पित्तमें व्याकुल हो गया और अन्तमें उसने उन देवदेवकी ही शरण ली ॥ ४७ ॥

ध्रुवने कहा— भगवन्! आप यदि मेरी तपस्वसे सन्तुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिये [जिससे मैं स्तुति कर सकूँ] ॥ ४८ ॥ [हे देव! जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञान भी नहीं जानते; उन्हीं आपको भी बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किन्तु हे परम प्रभो! आपकी भक्तिसे ब्रवीभूत ब्रह्मा मेरा चित्त आपके चरणोंको स्तुति करनेमें प्रवृत्त हो रहा है। अतः आप इसे उसके लिये बुद्धि प्रदान कीजिये] ।

श्रीपराशरजी बोले— हे द्विजवर्य! तब अर्पणति श्रीगोविन्दने अपने आपने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपादके पुत्रको अपने (वेदमय) शंखके अंत (वेदान्तमय) भागसे छू दिया ॥ ४९ ॥ तब तो एक क्षण ही वह राजकुमार प्रसन्न-मुखसे अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्रीअच्युतकी स्तुति करने लगा ॥ ५० ॥

ध्रुव बोले— पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल-प्रकृति—ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५१ ॥ जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधानसे भी परे हैं, वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण-शेका परमपुरुषको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५२ ॥ हे परमेश्वर! पृथिवी आदि समस्त भूत, गन्धादि उनके गुण, बुद्धि आदि अन्तःकरण-चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष (जीव)—से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिलब्रह्मब्रह्मायकके ब्रह्मभूत शुद्धस्वरूप आत्माकी मैं शरण हूँ ॥ ५३-५४ ॥ हे सर्वात्मन्! हे योगियोंके चिन्तनीय! व्यापक और वर्धनशैली होनेके कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकाररहित रूपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५५ ॥ हे प्रभो! आप हजारों मस्तकवाले, हजारों नेत्रवाले और हजारों शरणवाले परमपुरुष हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं और [पृथिवी आदि आवरणोंके सहित] सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको ध्याय कर दस गुण मत्प्रमाणसे स्थित हैं ॥ ५६ ॥

यद्भूतं यच्च वै भव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान् ।
 त्वनो विराट् स्वराट् सम्राट् त्वत्प्रज्ञायधिपूतः ॥ ५७
 अत्यरिच्यत सोऽधश्च तिर्यगूर्ध्वं च वै भुवः ।
 त्वत्तो विश्वमिदं जातं त्वत्तो भूतभविष्यती ॥ ५८
 त्वद्रूपधारिणश्चान्भूतं सर्वमिदं जगत् ।
 त्वत्तो यज्ञः सर्वद्रुतः पृथदाज्यं पशुर्द्विधा ॥ ५९
 त्वत्तः ऋचोऽथ सामानि त्वत्तश्छन्दांसि जज्ञिरे ।
 त्वत्तो वज्रैष्यजायत त्वत्तोऽश्वाश्चैकतो दतः ॥ ६०
 गावस्त्वपः समुद्भूतास्त्वतोऽजा अवयो मृगाः ।
 त्वन्मुखाद्ब्राह्मणास्त्वतो बाहोः क्षत्रमजायत ॥ ६१
 कैश्यास्तवोरुजाः शूद्रास्तव पद्भ्यां समुद्रताः ।
 अक्षयोः सूर्योऽनिलः प्राणाच्चन्द्रमा मनसस्तव ॥ ६२
 प्राणोऽन्तःसुषिराञ्जातो मुखोऽग्निर्जायत ।
 नाभित्तो गगनं द्यौश्च शिरसः समवर्तत ॥ ६३
 दिज्ञः श्रोत्रास्त्रितिः पद्भ्यां त्वत्तः सर्वमभूदिदम् ॥ ६४
 न्यग्रोधः सुमहानस्ये यथा बीजे व्यवस्थितः ।
 संयमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वधि ॥ ६५
 बीजाद्भृङ्गुरसम्भूतो न्यग्रोधस्तु समुत्थितः ।
 विस्तारं च यथा याति त्वत्तः सृष्टी तथा जगत् ॥ ६६
 यथा हि कदली नान्या त्वक्पत्रादपि दृश्यते ।
 एवं विश्वस्य नान्यस्त्वं त्वत्स्थाधीश्वर दृश्यते ॥ ६७
 ह्यादिनी सन्धिनी संवित्त्वय्येका सर्वसंस्थिता ।
 ह्यादतापकरी मिथ्रा त्वधि नो गुणवर्जिता ॥ ६८
 पृथग्भूतैकभूताय भूतभूताय ते नमः ।
 प्रभूतभूतभूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः ॥ ६९
 व्यक्तं प्रधानपुरुषी विराट् सम्राट् स्वराट् तथा ।
 विभाव्यतेऽन्तःकरणे पुरुषेष्वक्षयो भवान् ॥ ७०
 सर्वस्मिन्सर्वभूतस्त्वं सर्वः सर्वस्वरूपधृक् ।
 सर्वं त्वत्तस्ततश्च त्वं नमः सर्वात्मनेऽस्तु ते ॥ ७१

हे पुरुषोत्तम। भूत और भविष्यत् जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं तथा विराट्, स्वराट्, सम्राट् और अभिरूप (ब्रह्मा) आदि भी सब आपहीसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ५७ ॥ वे ही आप इस पृथिवीके नीचे-ऊपर और इधर-उधर सब और बड़े हुए हैं। यह सम्पूर्ण जगत् आपहीसे उत्पन्न हुआ है तथा आपहीसे भूत और भविष्यत् हुए हैं ॥ ५८ ॥ यह सम्पूर्ण जगत् आपके स्वरूपभूत ब्रह्माण्डके अनर्गत है [फिर आपके अन्तर्गत होनेकी तो बात ही क्या है] जिसमें सभी पुरुषोत्तमोंका इयन होता है वह यज्ञ, पृथदान्य (दधि और घृत) तथा [ग्राम्य और यन्त्र] दो प्रकारके पशु आपहीसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ५९ ॥ अर्धहीसे ऋक्ष, साम और गायत्री आदि छन्द प्रकट हुए हैं, आपहीसे यजुर्वेदका प्रादुर्भाव हुआ है और आपहीसे अश्व तथा एक और दौतवाली महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं ॥ ६० ॥ आपहीसे गीर्वाँ, वकरियों, भेड़ों और मृगोंको उत्पत्ति हुई है; आपहीके मुखसे ब्राह्मण, बाहूओंसे क्षत्रिय, जंघाओंसे वैश्य और चरणोंसे शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आपहीके चेतोंसे सूर्य, प्राणसे वायु, मनसे चन्द्रमा, भीतरी छिद्र (नासार्न्ध्र) से प्राण, मुखसे अग्नि, नाभिसे आकाश, किरसे स्वर्ग, श्रोत्रसे दिशाएँ और चरणोंसे पृथिवी आदि उत्पन्न हुए हैं; इस प्रकार हे प्रभो! यह सम्पूर्ण जगत् आपहीसे प्रकट हुआ है ॥ ६१—६४ ॥ जिस प्रकार नन्हेंसे बीजमें बड़ा भारी बट-वृक्ष रहता है उसी प्रकार प्रलय-कालमें यह सम्पूर्ण जगत् बीज-स्वरूप आपहीमें लीन रहता है ॥ ६५ ॥ जिस प्रकार बीजसे अङ्कुररूपमें प्रकट हुआ बट-वृक्ष बढ़कर अत्यन्त विस्तारवाला हो जाता है उसी प्रकार सृष्टिकालमें यह जगत् आपहीसे प्रकट होकर फैल जाता है ॥ ६६ ॥ हे ईश्वर। जिस प्रकार केलीका पौधा छिलके और पत्तोंसे अलग दिखायी नहीं देता उसी प्रकार जगत्से आप पृथक् नहीं हैं, वह आपहीमें स्थित देखा जाता है ॥ ६७ ॥ सबके आधारभूत आपमें ह्यादिनी (निरन्तर आह्लादित करनेवाली) और सन्धिनी (विच्छेदरहित) संवित् (विद्याशक्ति) अभिन्नरूपसे रहती हैं। आपमें (विषयजन्य) आह्लाद या ताप देनेवाली (सात्त्विकी या तामसी) अथवा उभयामिश्रा (राजसी) कोई भी संवित् नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं ॥ ६८ ॥ आप [कार्यदृष्टिसे] पृथक्-रूप और [कारणदृष्टिसे] एकरूप हैं। आप ही भूतसूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीवरूप हैं। हे भूतान्तरात्मन्! ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६९ ॥ [योगियोंके द्वारा] अन्तःकरणमें आप ही महत्त्व, प्रधान, पुरुष, विराट्, सम्राट् और स्वराट् आदि रूपोंसे ऋचना किये जाते हैं और [श्रयस्केत] पुरुषोंमें आप नित्य अक्षय हैं ॥ ७० ॥ आकाशादि सर्वभूतोंमें सार अर्थात् उनके गुणरूप आप ही हैं; समस्त रूपोंको धारण

सर्वात्मकोऽसि सर्वेश सर्वभूतस्थितो यतः ।
 कथयामि ततः किं ते सर्वं वेत्सि हृदि स्थितम् ॥ ७२
 सर्वात्मन्सर्वभूतेश सर्वसत्त्वसमुद्भव ।
 सर्वभूतो भवान्वेत्ति सर्वसत्त्वमनोरथम् ॥ ७३
 यो मे मनोरथो नाथ सफलः स त्वया कृतः ।
 तपश्च तप्तं सफलं यद्दृष्टोऽसि जगत्पते ॥ ७४

श्रीभगवानुवाच

तपसस्तत्फलं प्राप्तं यद्दृष्टोऽहं त्वया ध्रुव ।
 मदर्शनं हि विफलं राजपुत्र न जायते ॥ ७५
 वरं वरय तस्मात्त्वं यथाभिमतमात्मनः ।
 सर्वं सम्पद्यते पुंसां मयि दृष्टिपश्च गते ॥ ७६

ध्रुव उवाच

भगवन्भूतभव्येश सर्वस्यास्ते भवान् हृदि ।
 किमज्ञातं तव ब्रह्मन्मनसा यन्मयेक्षितम् ॥ ७७
 तथापि तुभ्यं देवेश कथयिष्यामि यन्मया ।
 प्रार्थ्यते दुर्विनीतेन हृदयेनातिदुर्लभम् ॥ ७८
 किं वा सर्वजगत्प्रष्टः प्रसन्ने त्वयि दुर्लभम् ।
 त्वत्प्रसादफलं भुङ्क्ते त्रैलोक्यं मध्वानपि ॥ ७९
 नैतद्राजासनं योग्यमजातस्य ममोदरात् ।
 इतिगर्वादबोधन्यां सपत्नीं मातुरुच्छकैः ॥ ८०
 आधारभूतं जगतः सर्वेषामुत्तमोत्तमम् ।
 प्रार्थयामि प्रभो स्थानं त्वत्प्रसादादतोऽव्ययम् ॥ ८१

श्रीभगवानुवाच

यन्मया प्रार्थ्यते स्थानमेतत्प्राप्यति वै भवान् ।
 त्वयाऽहं तोषितः पूर्वमन्यजन्मनि बालक ॥ ८२
 त्वपासीर्बाह्यणः पूर्वं मय्येकाग्रमतिः सदा ।
 मातापित्रोश्च शुभ्रपुर्मिजधर्मानुपालकः ॥ ८३
 कालेन गच्छता मित्रं राजपुत्रस्तवाभवत् ।
 यौवनेऽखिलभोग्गच्छो दर्शनीयोऽञ्जलाकृतिः ॥ ८४
 तत्सङ्गतस्य तामृद्धिमवलोकयतिदुर्लभाम् ।
 भवेद्यं राजपुत्रोऽहमिति वाञ्छा त्वया कृता ॥ ८५

करनेवाले होनेसे सब कुछ आप ही हैं; अब कुछ आपहीसे हुआ है; अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं इसलिये आप सर्वात्माओं नमस्कार हैं ॥ ७२ ॥ हे सर्वेश्वर! आप सर्वात्मक हैं; क्योंकि सम्पूर्ण भूतोंमें व्याप्त हैं; अतः मैं आपसे क्या कहूँ? आप स्वयं ही सब हृदयस्थित आत्माओं जानते हैं ॥ ७३ ॥ हे सर्वोत्तम! हे सर्वभूतेश्वर! हे सब भूतोंके आदि-स्थित! आप सर्वभूतरूपसे सभी प्राणियोंके मनोरथोंको जानते हैं ॥ ७४ ॥ हे नाथ! मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो अल्पमें सफल कर दिया और हे जगत्पते! मेरी तपस्या भी सफल हो गयी, क्योंकि मुझे आपका सन्धात् दर्शन प्राप्त हुआ ॥ ७५ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे ध्रुव! तुमको मेरा साक्षात् दर्शन प्राप्त हुआ, इसमें अवश्य ही मेरी तपस्या तो सफल हो गयी; परन्तु हे राजकुमार! मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता ॥ ७५ ॥ इसलिये तुझको जिस घरको इच्छा हो वह माँग ले। मेरा दर्शन हो जानेपर पुण्यको सभी कुछ प्राप्त हो सकता है ॥ ७६ ॥

ध्रुव बोले—हे भूतभव्येश्वर भगवन्! आप सभीके अन्तःकरणोंमें विराजमान हैं। हे ब्रह्मन्! मेरे मनकी जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? ॥ ७७ ॥ तो भी, हे देवेश्वर! मैं दुर्विनीत किस अति दुर्लभ वस्तुको हृदयसे इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा ॥ ७८ ॥ हे सागस्त संसारको रक्षनेवाले परमेश्वर! आपके प्रसन्न होनेपर (संसारमें) क्या दुर्लभ है? इन्द्र भी आपके कृपाकटाक्षके फलरूपसे ही त्रिलोकियोंको भोगता है ॥ ७९ ॥

प्रभो! मेरी सीतेली माताने गर्वसे अति बड़-बड़कर मुझसे यह कहा था कि 'जो मेरे उदरसे उत्पन्न नहीं है उसके योग्य वह राजासन नहीं है' ॥ ८० ॥ अतः हे प्रभो! आपके प्रसादसे मैं इस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थानको प्राप्त करना चाहता हूँ जो सम्पूर्ण विश्वका आधारभूत है ॥ ८१ ॥

श्रीभगवान् बोले—अरे बालक! तूने अपने पूर्वजन्ममें भी मुझे सन्तुष्ट किया था, इसलिये तू जिस स्थानकी इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा ॥ ८२ ॥ पूर्व जन्ममें तू एक ब्राह्मण था और मुझमें निरन्तर एकाग्रचित्त रहनेवाला, माता-पिताका श्रेयक तथा स्वधर्मका पालन करनेवाला था ॥ ८३ ॥ कालान्तरमें एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्थामें सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न और अति दर्शनीय रूपलावण्ययुक्त था ॥ ८४ ॥ उसके संगसे उसके दुर्लभ वैभवाँ देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि 'मैं भी राजपुत्र होऊँ' ॥ ८५ ॥

ततो यथाभिलषिता प्राप्ता ते राजपुत्रता ।
 उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि ध्रुव दुर्लभे ॥ ८६
 अन्येषां दुर्लभं स्थानं कुले स्वायम्भुवस्य यत् ॥ ८७
 तस्यैतदपरे बालं धेनाहं परितोषितः ।
 मामाराध्य नरो मुक्तिमवाप्नोत्यविलम्बिताम् ॥ ८८
 मध्यर्पितमना बालं किमु स्वर्गादिकं पदम् ॥ ८९
 त्रैलोक्यादधिकं स्थाने सर्वताराग्रहत्रयः ।
 भविष्यति न सन्देहो मत्प्रसादाद्भवन्ध्रुव ॥ ९०
 सूर्यात्सोमस्तथा भौमात्सोमपुत्राद्बृहस्पतेः ।
 सिताकंतनयादीनां सर्वर्क्षाणां तथा ध्रुव ॥ ९१
 सप्तर्षीणामशेषाणां चैवैमानिकाः सुराः ।
 सर्वेषामुपरि स्थानं तव दत्तं मया ध्रुव ॥ ९२
 केचिच्चतुर्भुगं यावत्केचिन्मन्वन्तरं सुराः ।
 तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वै कल्पसंस्थितिः ॥ ९३
 सुनीतिरपि ते माता त्वदासन्नातिनिर्मला ।
 विमाने तारका भूत्य तावत्काले निवसन्त्यति ॥ ९४
 ये च त्वां मानवाः प्रतः सार्यं च सुसमाहिताः ।
 कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति ॥ ९५

श्रीपराशर उवाच

एवं पूर्वं जगन्नाथादेवदेवाज्जनार्दनात् ।
 चरं प्राप्य ध्रुवः स्थानमध्यास्ते स महामते ॥ ९६
 स्वयं शुश्रूषणाद्द्वर्ष्यान्मातापित्रोश्च वै तथा ।
 द्वादशाक्षरमाहात्म्यात्तपसश्च प्रभावतः ॥ ९७
 तस्याभिमानमृद्धिं च महिमानं निरीक्ष्य हि ।
 देवासुराणामाचार्यः श्लोकमत्रोशना जगौ ॥ ९८
 अहोऽस्य तपसो वीर्यमहोऽस्य तपसः फलम् ।
 यदेनं पुरतः कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षयः स्थिताः ॥ ९९
 ध्रुवस्य जननी चेयं सुनीतिर्नाम सूनृता ।
 अस्याश्च महिमानं कः शक्नोति वर्णयितुं भुवि ॥ १००

अतः हे ध्रुव ! तुझको अपनी मनोवर्द्धित पुत्रपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वायम्भुवमनुके कुलमें और किमीको स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हींके घरमें तूने उत्तानपादके यहाँ जन्म लिया ॥ ८६-८७ ॥ अरे बालक ! [भीरोंके लिये यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो परन्तु] जिसने पहले सन्तुष्ट किया है उसके लिये तो यह अत्यन्त तुच्छ है। मेरी आराधना करनेसे तो मोक्षपद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त निरन्तर मुझमें हो लगा हुआ है उसके लिये स्वर्गादि लोकोंका तो कहना ही क्या है ? ॥ ८८-८९ ॥ हे ध्रुव ! मेरी कृपासे तू निरन्तरेण उस स्थानमें, जो त्रिलोकियों सबसे उत्कृष्ट है, सम्पूर्ण ग्रह और तारामण्डलाका आश्रय बनेगा ॥ ९० ॥ हे ध्रुव ! मैं तुझे यह ध्रुव (विश्वल) स्थान देता हूँ जो सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और सम्पूर्ण विमानचारी देवगणोंसे ऊपर है ॥ ९१-९२ ॥ देवताओंसे कोई तो केवल चार युगतक और कोई एक मन्वन्तरक ही रहते हैं; किन्तु तुझे मैं एक कल्पतककी स्थिति देता हूँ ॥ ९३ ॥

धेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारारूपसे उतने ही समयतक धेरे पास एक विमानपर निवास करेगी ॥ ९४ ॥ और जो लोग समाहित-चित्तसे सातकाल और प्रातःकालके समय तेरा गुण-कीर्तन करेंगे उनको महान् पुण्य होगा ॥ ९५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे महापते ! इस प्रकार पूर्वकालमें जगत्पति देवाधिदेव भगवान् जनार्दनसे वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थानमें स्थित हुए ॥ ९६ ॥ हे मुने ! अपने माता-पिताकी धर्मपूर्वक सेवा करनेसे तथा द्वादशाक्षर-मन्त्रके माहात्म्य और तपके प्रभावसे उनके मान, वैभव एवं प्रभावकी वृद्धि देखकर देव और अतुरोंके आचार्य शुकदेवने ये श्लोक कहे हैं— ॥ ९७-९८ ॥

'अहो ! इस ध्रुवके तपका कैसा प्रभाव है ? अहो ! इसकी तपस्याका कैसा अद्भुत फल है जो इस ध्रुवको ही आगे रखकर सप्तर्षिगण स्थित हो रहे हैं ॥ ९९ ॥ इसकी यह सुनीति नामधाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलनेवाली है * । संसारमें ऐसा कौन है

* सुनीतिने ध्रुवको पुण्योपार्जन करनेका उपदेश दिया था, जिसके आधरणसे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुआ। अतएव 'सुनीति' सूनृता कही गयी है।

त्रैलोक्याश्रयतां प्राप्तं परं स्थानं स्थिरायति ।
 स्थानं प्राप्ता परं धृत्वा वा कुक्षिविवरे ध्रुवम् ॥ १०१
 यश्चैतत्कौत्तयेन्नित्यं ध्रुवस्यारोहणं दिवि ।
 सर्वपापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते ॥ १०२
 स्थानभ्रंशं न शानोति दिवि वा खदि वा भुवि ।
 सर्वकल्याणसंयुक्तो दीर्घकालं स जीवति ॥ १०३

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशं द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

तेरहवाँ अध्याय

राजा वेन और पृथुका चरित्र

श्रीपराशर उवाच

ध्रुवाच्छिष्टं च भव्यं च भव्याच्छम्भुर्व्रजायत ।
 शिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्चपुत्रानकल्मषान् ॥ १
 रिपुं रिपुञ्जयं विप्रं वृकलं वृकतेजसम् ।
 रिपोराधत्त ब्रह्मी चाक्षुषं सर्वतेजसम् ॥ २
 अञ्जीजनत्पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषो मनुम् ।
 प्रजापतेरात्मजायां वीरणास्य महत्पत्नः ॥ ३
 मनोरजायन्त दश नड्वलायां महौजसः ।
 कन्यायां तपतां श्रेष्ठ वैराजस्य प्रजापतेः ॥ ४
 कुरुः पुरुः शतद्युम्नस्तपस्वी सत्यवाञ्छुषिः ।
 अग्निष्टोमोऽतिरात्रश्च सुद्युम्नश्चेति ते नव ।
 अभिमन्युश्च दशमो नड्वलायां महौजसः ॥ ५
 क्रुरोरजनयत्पुत्रान् षड्गन्धेयी महाप्रभान् ।
 अङ्गं सुमनसं ख्यातिं क्रतुपङ्क्तिरसं शिखिम् ॥ ६
 अङ्गात्सुनीशापत्यं वै वेनमेकमजायत ।
 प्रजार्थपृथयस्तस्य ममन्युर्दक्षिणं करम् ॥ ७
 वेनस्य पाणीं मथिते सम्बभूव महामुने ।
 वैन्यो नाम महीपालो यः पृथुः परिकीर्तितः ॥ ८
 येन दुग्धा मही पूर्वं प्रजानां हितकारणात् ॥ ९

जो इसको महामाका वर्णन कर सके ? जिसने अपनी कोखमें उस ध्रुवको धारण करके जिलोंकोका आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्यमें भी स्थिर रहनेवाला है ॥ १००-१०१ ॥

जो व्यक्ति ध्रुवके इस दिव्यलोक-प्राप्तिके प्रसंगका कीर्तन करता है वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें पहुँचता है ॥ १०२ ॥ वह स्वर्गमें रहे अथवा पृथिवीमें, कभी अपने स्थानसे व्युत्त नहीं होता तथा समस्त मंगलोंसे भरपूर रहकर बहुत कालतक जीवित रहता है ॥ १०३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मंत्रिय! ध्रुवसे [उत्तमी पत्नीने] शिष्टि और भव्यको उत्पन्न किया और भव्यसे शम्भुका जन्म हुआ तथा शिष्टिके द्वारा उत्तमी पत्नी सुच्छायाने रिपु, रिपुञ्जय, विप्र, वृकल और वृकतेजा नामक पाँच निष्पाप पुत्र उत्पन्न किये। उनमेंसे रिपुके द्वारा ब्रह्मीके गर्भसे महामुनेकी प्राभुषका जन्म हुआ ॥ १-२ ॥ चाक्षुषने अपनी भार्ग्वी पुष्करणीसे, जो वरुण-कुलमें उत्पन्न और महात्म वीरणा प्रजापतिकी पुत्री थी, मनुको उत्पन्न किया [जो छन्दो मन्वन्तरके अधिपति हुए] ॥ ३ ॥ तपस्वियोंमें श्रेष्ठ मनुसे वैराज प्रजापतिकी पुत्री नड्वलाके गर्भमें दस महामुनेकी पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४ ॥ नड्वलासे कुरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान्, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवौ सुद्युम्न और दशमौ अभिमन्यु इन महामुनेकी पुत्रोंका जन्म हुआ ॥ ५ ॥ कुरुके द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयीने अंग, सुपता, ख्याति, क्रुपु, अंगिरा और शिखि इन छः परम तेजस्वी पुत्रोंको उत्पन्न किया ॥ ६ ॥ अंगसे सुनीथाके येन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अभियोंने उस (वेन)-के दाहिने हाथका सन्तानके लिये मन्थन किया था ॥ ७ ॥ हे महामुने! वेनके हाथका मन्थन करनेपर उससे वैन्य नामक महामुने उत्पन्न हुए जो पृथु नामसे विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजाके हितके लिये पूर्वकालमें पृथिवीको दुहा था ॥ ८-९ ॥

श्रीमंत्रेण उवाच

किमर्थं मक्षितः पाणिर्वैनस्य परमर्षिभिः ।
यत्र जज्ञे महावीर्यः स पृथुर्मुनिसत्तम ॥ १०

श्रीपराशर उवाच

सुनीथा नाम या कन्या मृत्योः प्रथमतोऽभवत् ।
अङ्गस्य भार्या सा दत्ता तस्यां वेनो व्यजायत ॥ ११
स मातामहदोषेण तेन मृत्योः सुतात्मजः ।
निसर्गादिषु मैत्रेय दुष्ट एव व्यजायत ॥ १२
अभिषिक्तो यदा राज्यं स वेनः परमर्षिभिः ।
घोषयामास स तदा पृथिव्यां पृथिवीपतिः ॥ १३
न यष्टव्यं न दातव्यं न ह्येतव्यं कथञ्चन ।
भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो ह्यहं यज्ञपतिः प्रभुः ॥ १४
ततस्तमृषयः पूर्वं सम्पूज्य पृथिवीपतिम् ।
ऊचुः सामकलं वाक्यं मैत्रेय सम्पुपस्थिताः ॥ १५

कथय ऊचुः

भो भो राजन् भृगुष्व त्वं यद्ददाम महीपते ।
राज्यदेहोपकाराय प्रजानां च हितं परम् ॥ १६
दीर्घसत्रेण देवेशं सर्ववज्ञेश्वरं हरिम् ।
पूजयिष्याम भद्रं ते तस्यांशस्ते भविष्यति ॥ १७
यज्ञेन यज्ञपुरुषो विष्णुः सम्प्रीणितो नृप ।
अस्माभिर्भवतः कामान्सर्वानिव प्रदास्यति ॥ १८
यज्ञैर्यज्ञेश्वरो येषां राष्ट्रे सम्पूज्यते हरिः ।
तेषां सर्वेषितावापिं ददाति नृप भूभृताम् ॥ १९

वेन उवाच

मतः कोऽभ्यधिकोऽप्येति कञ्जासञ्ज्ञे ममापः ।
कोऽयं हरिरिति ख्यातो यो वो यज्ञेश्वरो मतः ॥ २०
ब्रह्मा जनार्दनः शम्भुरिन्द्रो वासुदेवो रविः ।
हुतभुग्वरुणो धाता पूषा भूमिर्निशाकरः ॥ २१
एते चान्ये च ये देवाः शापानुग्रहकारिणः ।
नृपस्यैते शरीरस्थाः सर्वदेवमयो नृपः ॥ २२
एवं ज्ञात्वा मयाज्ञपतं यद्यथा क्रियतां तथा ।
न दातव्यं न यष्टव्यं न ह्येतव्यं च भो द्विजाः ॥ २३
भर्तृशुश्रूषणं धर्मो यथा स्वीणां परो मतः ।
ममाज्ञापालनं धर्मो भवतां च तथा द्विजाः ॥ २४

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ । परमर्षियोंने
वेनके ऋषिको कथीं मया जिससे महापराक्रमी पृथुका
जन्म हुआ ? ॥ १० ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे पुने ! मृत्युकी सुनीथा
नामवाली जो प्रथम पुत्री थी वह अंगको पत्नीरूपसे दो
(ज्याही) गयो थी। उसीसे वेनका जन्म हुआ ॥ ११ ॥ हे
मैत्रेय ! वह मृत्युकी कन्याका पुत्र अपने मातामह (नाना)—
के दोषसे स्वभावसे ही दुष्ट प्रकृति हुआ ॥ १२ ॥ उस
वेनका जिस समय महर्षियोंद्वारा राजपदपर अधिषेक
हुआ उसी समय उस पृथिवीपतिने संसारभरमें यह
घोषणा कर दी कि 'भगवान्, यहपुरुष मैं ही हूँ, मुझसे
अतिरिक्त यज्ञका भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता
है ? इसीलिये कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न
करे' ॥ १३-१४ ॥ हे मैत्रेय ! तब श्रद्धिधर्मे उस पृथिवीपतिके
पास उपस्थित हो पहले उसको खूब प्रशंसा कर
सान्त्वनायुक्त मधुर वाणीसे कहा ॥ १५ ॥

ऋषिगण बोले—हे राजन् ! हे पृथिवीपते !
तुम्हारे राज्य और देहके उपकार तथा प्रजाके हितके
लिये हम जो बात कहते हैं, सुनो ॥ १६ ॥ तुम्हारा कल्याण
हो; देखो, हम अड़े-बड़े सजोंद्वारा जो सर्व-यज्ञेश्वर
देवाधिपति भगवान् हरिका पूजन करेंगे उसके फलमेंसे
तुमको भी [छटा] भाग मिलेगा ॥ १७ ॥ हे नृप ! इस
प्रकार यज्ञोंके द्वारा यज्ञपुरुष भगवान् विष्णु प्रसन्न होकर
हमलोगोंके साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएँ पूर्ण
करेंगे ॥ १८ ॥ हे राजन् ! जिन राजाओंके राज्यमें यज्ञेश्वर
भगवान् हरिका यज्ञोंद्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी
सभी कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं ॥ १९ ॥

वेन बोला—मुझसे भी कहकर ऐसा और कौन
है जो मेरा भी पूजनीय है ? जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते
हो यह 'हरि' कहलानेवाला कौन है ? ॥ २० ॥ ब्रह्मा,
विष्णु, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, परुण,
धाता, पूषा, पृथिवी और चन्द्रमा तथा इनके अतिरिक्त
और भी जितने देवता शाप और कृपा करनेमें समर्थ
हैं वे सभी राजाके शरीरमें निवास करते हैं, इस प्रकार
राजा सर्वदेवमय है ॥ २१-२२ ॥ हे ब्रह्मण्यो ! ऐसा जानकर
मैंने किसी भी कुछ आज्ञा की है वैसे ही करो। देखो,
कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे ॥ २३ ॥ हे
द्विजगण ! स्त्रोका परमधर्म जैसे अपने पतिकी सेवा
करना ही माना गया है वैसे ही आपलोगोंका धर्म भी
मेरी आज्ञाका फलन करना ही है ॥ २४ ॥

क्षय ऊचुः

देहानुज्ञां महाराज मा धर्मो यातु सङ्क्षयम् ।
हृषिर्षा परिणामोऽयं यदेतदखिलं जगत् ॥ २५

श्रीपराशर उवाच

इति विज्ञाप्यमानोऽपि स वेनः परमर्षिभिः ।
यदा ददाति नानुज्ञां प्रोक्तः प्रोक्तः पुनः पुनः ॥ २६
ततस्ते मुनयः सर्वे क्रोधाभर्षसमन्विताः ।
हन्यतां हन्यतां पाप इत्युचुस्ते परस्परम् ॥ २७
यो यज्ञपुरुषं विष्णुमनादिनिधनं प्रभुम् ।
विनिन्दत्यधमाचारो न स योग्यो भुवः पतिः ॥ २८
इत्युक्त्वा मन्त्रपूर्तैस्तैः कुशैर्मुनिगणान् नृपम् ।
निजञ्चुर्निहतं पूर्वं भगवन्निन्दनादिना ॥ २९
तत्रश्च मुनयो रेणुं ददृशुः सर्वतो द्विज ।
किमेतदिति चासन्नान्मप्रचक्षुस्ते जनांस्तदा ॥ ३०
आख्यातं च जनैस्तेषां चोरीभूतैरराजके ।
राष्ट्रे तु लोकैरारब्धं परस्वादानमातुरैः ॥ ३१
तेषामुदीर्णवेगानां चौराणां मुनिसत्तमाः ।
सुमहान् दृश्यते रेणुः परवित्तापह्नारिणाम् ॥ ३२
ततः सम्मन्यते ते सर्वे मुनयस्तस्य भूभृतः ।
ममन्थुरुक्तं पुत्रार्थमनपत्यस्य यत्नतः ॥ ३३
मध्यमानात्समुत्तस्थौ तस्योरोः पुरुषः किल ।
दग्धस्यूपाप्रतीकप्रशः खर्व्वर्ष्योऽतिह्रस्वकः ॥ ३४
किं करोमीति तान्सर्वान्स विप्रानाह चातुरः ।
निधीदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सोऽभवत् ॥ ३५
ततस्तत्सम्भवा जाता विन्ध्यशैलनिवासिनः ।
निषादा मुनिशार्दूल पापकर्मोपलक्षणाः ॥ ३६
तेन द्वारेण तत्पापं निष्क्रान्तं तस्य भूपतेः ।
निषादास्ते ततो जाता वेनकल्पवनाश्रिताः ॥ ३७
तस्यैव दक्षिणं हस्तं ममन्थुस्ते ततो द्विजाः ॥ ३८
मध्यमाने च तत्राभूत्युद्युदैर्न्यः प्रतापवान् ।
द्वीप्यमानः स्वधपुषा साक्षाद्गिरिव ज्वलन् ॥ ३९
आद्यमाजगधं नाम छात्पपात ततो धनुः ।
शराश्च दिव्या नभसः कवचं च पपात ह ॥ ४०

श्रुतिगण बोले—महाराज! आप ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे धर्मका शय न हो। देखिये, यह सारा जगत् हवि (यज्ञमें हवन को हुई समग्रों) का ही परिणाम है ॥ २५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—महर्षियोंके इस प्रकार बारम्बार समझाने और कहने-सुननेपर भी जब येनये ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यन्त क्रुद्ध और अमर्षयुक्त होकर आपसमें कहने लगे 'इस पापीको मारो, मारो!' ॥ २६-२७ ॥ जो अनादि और अनन्त यज्ञपुरुष प्रभु विष्णुको निन्दा करता है वह अन्यायी किसी प्रकार पृथिवीपति होनेके योग्य नहीं है' ॥ २८ ॥ ऐसा कठ मुनिगणोंने, भगवान्को निन्दा आदि करनेके कारण पतलं हो मरे हुए उस राजाको मन्थरो पवित्र किये हुए कुशाओंसे मार डाला ॥ २९ ॥

हे द्विज! तदनन्तर उन मुनीश्वरोंने सब ओर बड़ी धूलि उड़ती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगोंसे पूछा—'यह क्या है?' ॥ ३० ॥ उन पुरुषोंने कहा—'राष्ट्रके राजाके दो जानेसे तीन दुखिया लोगोंने चोर बनकर दूसरोंका धन लूटना आरम्भ कर दिया है ॥ ३१ ॥ वे मुनिवरो! उन तीव्र वेगवाले परधनहारी चोरोंके उत्पातसे ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ती दीख रही है' ॥ ३२ ॥

तब उन सब मुनीश्वरोंने आपसमें सलाह कर उस पुत्रहीन राजाकी जंघाका पुषके लिये यत्नपूर्वक पथन किया ॥ ३३ ॥ उसको जंघाके मथनेपर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो 'गले दूँढके' स्थान कासा, अत्यन्त नाट और छोटे मुखवाला था ॥ ३४ ॥ उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणोंसे कहा—'मैं क्या करूँ?' उन्होंने कहा—'निधीद (बैठ)' अतः वह 'निषाद' कहलाया ॥ ३५ ॥ इसलिये हे मुनिशार्दूल! उससे उत्पन्न हुए लोग विन्ध्याशैलनिवासी पाप-भरामण निषादगण हुए ॥ ३६ ॥ उस निषादरूप इन्हीं राजा वेनका सम्पूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण वेनके पापीका नारा करनेवाले हुए ॥ ३७ ॥

फिर उन ब्राह्मणोंने उसके दायें हृदयका मन्थन किया। उसका मन्थन करनेसे परम प्रतापी वेनसुवन षु प्रकट हुए, जो अपने शरीरसे प्रचलित अग्निके समान देदीप्यमान थे ॥ ३८-३९ ॥ इसी समय आजगव नामक आद्य (सर्षप्रथम) धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाशसे गिरे ॥ ४० ॥

तस्मिन् जाते तु भूतानि सम्प्राहृतानि सर्वशः ॥ ४१
 सत्पुत्रेणैव जातेन वेनोऽपि त्रिदिवं ययौ ।
 पुनाम्नो नरकान् श्रातः सुतेन सुमहात्मना ॥ ४२
 तं समद्राश्च चक्षश्च रत्नान्यादाय सर्वशः ।
 तोषानि चाभिषेकार्थं सर्वाण्येषोपतस्थिरे ॥ ४३
 पितामहश्च भगवान्देवैराङ्गिरसैः सह ।
 स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्वशः ।
 समागम्य तदा वैन्द्यमभ्यसिञ्चन्नराधिपम् ॥ ४४
 हस्ते तु दक्षिणे चक्रं दृष्ट्वा तस्य पितामहः ।
 विष्णोरंशं पृथुं मत्वा परितोषं परं ययौ ॥ ४५
 विष्णुचक्रं करे चित्त्वं सर्वेषां चक्रवर्तिनाम् ।
 भवत्यव्याहतो यस्य प्रभावस्त्रिदशैरपि ॥ ४६
 महता राजराज्येन पृथुर्वैन्द्यः प्रतापवान् ।
 सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धर्मकोविदैः ॥ ४७
 पित्राऽपरिच्छितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः ।
 अनुरागात्तत्तस्तस्य नाम राजेत्यजायत ॥ ४८
 आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभिव्यास्यतः ।
 पर्वताश्च ददुर्माणं ध्वजभङ्गश्च नाभवत् ॥ ४९
 अकृष्टमच्या पृथिवी सिद्धयन्त्यनानि चिन्तया ।
 सर्वकामहुषा गावः पुटके पुटके मधु ॥ ५०
 तस्य वै जातमात्रस्य यज्ञे पैतामहे शुभे ।
 सूतः सूत्यां समुत्पन्नः सौन्द्येऽहनि महामतिः ॥ ५१
 तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोऽथ पागधः ।
 प्रोक्तौ तदा मुनिवैस्तासुभी सूतमागधौ ॥ ५२
 स्तूयतामेष नृपतिः पृथुर्वैन्द्यः प्रतापवान् ।
 कर्मतदनुरूपं यां पात्रं स्तोत्रस्य चापरम् ॥ ५३
 नतस्तासूचतुर्विप्रान्सर्वानेव कृताञ्जली ।
 अद्य जातस्य नो कर्म ज्ञायतेऽस्य महीपतेः ॥ ५४
 गुणा न चास्य ज्ञायन्ते न चास्य प्रथितं यशः ।
 स्तोत्रं किमाश्रयं त्वस्य कार्यमसाभिरुच्यताम् ॥ ५५

प्रथम ऋषुः
 करिष्यत्येष यत्कर्म चक्रवर्ती महाबलः ।
 गुणा भविष्या ये चास्य तैरयं स्तूयतां नृपः ॥ ५६

उनके उत्पन्न होनेसे सभी जीवोंको अति आनन्द हुआ और केवल सत्पुत्रके ही जन्म होनेसे येन भी स्वर्गलोकको चला गया। इस प्रकार महान्या पुत्रके फलण ही उसकी पुम् अर्थात् नरकसे रक्षा हुई ॥ ४१-४२ ॥

महाराज पृथुके अभिषेकके लिये सभी समुद्र और नदियों सब प्रकारके दान और जल लेकर उपस्थित हुए ॥ ४३ ॥ उस समय आंगिरस देवगणोंके सहित पितामह ब्रह्माजीने और समस्त स्थावर-जंगम प्राणियोंने यहाँ आकर महाराज वैन्द्य (वेनुपुत्र)-का राज्याभिषेक किया ॥ ४४ ॥ उनके दाहिने हाथमें चक्रका चिह्न देखकर उन्हें विष्णुका अंश जान पितामह ब्रह्माजीको परम आनन्द हुआ ॥ ४५ ॥ यह श्रीविष्णुभगवान्के चक्रका चिह्न सभी चक्रवर्ती राजाओंके हाथमें हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओंसे भी कुण्ठित नहीं होता ॥ ४६ ॥

इस प्रकार महादेवस्वी और परम प्रतापी वेनुपुत्र भर्षकुशल महानुभावोंद्वारा विधिपूर्वक अति महान् रथराजेश्वरपदपर अभिषिक्त हुए ॥ ४७ ॥ जिस प्रजाको पिताने अपरक्त (अप्रसन्न) किया था उसीको उन्होंने अनुरंजित (प्रसन्न) किया, इसलिये अनुरंजन करनेसे उनका नाम 'राजा' हुआ ॥ ४८ ॥ जब वे समुद्रमें चलते थे तो जल बहनेसे रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनको ध्वजा कर्षा भंग नहीं हुई ॥ ४९ ॥ पृथिवी बिना जांते-बोये धान्य पकनेवासी थी; केवल धितानमात्रसे ही अन्न सिद्ध हो जाता था, गौएँ कामधेनुरूपा भी और पते-पतेमें मधु परा रहता था ॥ ५० ॥

यज्ञ पृथुने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया; उससे सोमाभिषवके दिन सूति (सोमाभिषवभूमि)-से महामति शूतकी उत्पत्ति हुई ॥ ५१ ॥ उसी महायज्ञमें युद्धिमान् पागधक भी जन्म हुआ। तब मुनिवरोंने उन दोनों सूत और पागधोंसे कहा— ॥ ५२ ॥ 'तुम इन प्रतापवान् वेनुपुत्र महाराज पृथुकी स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुतिके ही योग्य हैं' ॥ ५३ ॥ तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणोंसे कहा— 'ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं' ॥ ५४ ॥ अभी इनके न ही कोई गुण प्रकट हुए हैं और न मश ही दिखाया हुआ है; फिर कहिये, हम किस आधारपर इनकी स्तुति करें' ॥ ५५ ॥

श्लघिगण बोले—ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्यमें जो-जो कर्म करेंगे और इनके जो-जो भावी गुण होंगे उन्हींसे तुम इनका स्तवन करो ॥ ५६ ॥

श्रीपराशर उवाच

ततः स नृपतिस्तोषं तच्छ्रुत्वा परमं वयौ ।
सद्गुणैः श्लाघ्यतामेति तस्माल्लभ्या गुणा मम ॥ ५७
तस्माद्ब्रह्म स्तोत्रेण गुणनिर्वर्णनं त्विमौ ।
करिष्येते करिष्यामि तदेवाहं समाहितः ॥ ५८
यदिमीं वर्जनीयं स किञ्चिद्ब्रह्म यदिष्यतः ।
तदहं वर्जयिष्यामीत्येवं चक्रे मतिं नृपः ॥ ५९
अथ तौ चक्रतुः स्तोत्रं पृथोर्वैन्यस्य धीमतः ।
भविष्यीः कर्मभिः सम्यक् सुस्वर्गो सूतमागर्धौ ॥ ६०
सत्यवाग्दानशीलोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरः ।
हीमान्मैत्रः क्षमाशीलो विक्रान्तो दुष्टशासनः ॥ ६१
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च दयावान् प्रियभाषकः ।
मान्यान्मानयिता यश्चा ब्रह्मण्यः साधुसम्मतः ॥ ६२
समः शत्री च मित्रे च व्यवहारस्थितौ नृपः ॥ ६३
सूतेनेकान् गुणानित्थं स तदा मागधेन च ।
त्रैकारं हृदि तादृक् च कर्मणा कृतवानसी ॥ ६४
ततस्तु पृथिवीपालः पालयन्पृथिवीमिमाम् ।
इयाज विविधैर्यज्ञैर्महद्भिर्भूरिदक्षिणी ॥ ६५
तं प्रजाः पृथिवीनाथमुपतस्थुः क्षुधार्दिताः ।
ओषधीषु प्रणष्टासु तस्मिन्काले ह्याराजके ।
तमूसुप्ते नताः पृष्टास्तत्रागमनकारणाम् ॥ ६६

प्रजा कनुः

अराजके नृपश्रेष्ठ धरित्र्या सकलांषधीः ।
प्रस्तास्ततः क्षयं यान्ति प्रजाः सर्वाः प्रजेश्वर ॥ ६७
त्वन्नो वृत्तिप्रदो धात्रा प्रजापालो निरूपितः ।
वेहि नः क्षुत्परीतानां प्रजानां जीवन्ौषधीः ॥ ६८

श्रीपराशर उवाच

ततस्तु नृपतिर्दिव्यमादायाजगर्षं धनुः ।
शरांश्च दिव्यान्कूपितः सोन्वाध्वक्षसुन्धराम् ॥ ६९
ततो वनाशं त्वरिता गौर्भूत्वा च षसुन्धरा ।
सा लोकाब्जहालोकालीन्सन्त्रासादगमन्मही ॥ ७०
यत्र यत्र ययौ देखी सा तदा भूतधारिणी ।
तत्र तत्र तु सा वैन्यं ददृशेऽभ्युद्यतायुधम् ॥ ७१

श्रीपराशरजी बोले—यह सुनकर राजाको भी परम
मनोबहुआः उन्होंने सोचा 'मनुष्य सदगुणोंके कारण ही
प्रशंसाका पात्र होता है; अतः मुझको भी गुण उपार्जन
करने चाहिये ॥ ५७ ॥ इसीलिये अब स्तुतिके द्वारा ये नि
गुणोंका वर्णन करूँगे मैं भी सावधानतापूर्वक वैसा ही
करूँगा ॥ ५८ ॥ यदि यद्यौर से कुछ त्याग्य अवगुणोंको
भी कहूँगे तो मैं उन्हें त्यागूँगा।' इस प्रकार चणाने अपने
चित्तमें निश्चय किया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर उन (सूत और
मागध) दोनोंने परम बुद्धिमान् वेननन्दन महाराज पृथुको,
उनके भावो कर्मोंके आश्रयसे स्वरसहित भली प्रकार
रतवन किया ॥ ६० ॥ [उन्होंने कहा—] 'ये महाराज
सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादावाले, लज्जाशील, सुहृद्,
क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टका दमन करनेवाले हैं ॥ ६१ ॥
ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान्, प्रियभाषी, माननीयोंको मान
देनेवाले, यज्ञपरायण, ब्रह्मण्य, साधुसमाननें सम्मानित
और शत्रु तथा मित्रके साथ समान व्यवहार करनेवाले
हैं ॥ ६२-६३ ॥ इस प्रकार सूत और मागधके कहे हुए
गुणोंको उन्होंने अपने चित्तमें धारण किया और उसी
प्रकारके कर्म किये ॥ ६४ ॥ तब उन पृथिवीपतिने
पृथिवीका पालन करते हुए जड़ों-वड़ी दक्षिणाओंवाले
अनेकों महान् भज्ञ किये ॥ ६५ ॥ अराजकताके समय
ओषधीयोंके नष्ट हो जानेसे भूखसे व्याकुल हुई प्रजा
पृथिवीनाथ पृथुके पास आदी और उनके पृष्ठनेपर प्रणाम
करके उनसे अपने अनेका कारण निवेदन किया ॥ ६६ ॥

प्रजाने कहा—हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ! अराजकताके
समय पृथिवीने सपस्त ओषधीयों अपनेमें लीन कर ली
है, अतः आपकी सम्पूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है ॥ ६७ ॥
विधाताने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनना
है; अतः क्षुभारूप महारोगसे पीड़ित हम प्रजानोंकी
आप जीवनरूप ओषधि दीजिये ॥ ६८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—यह सुनकर महाराज पृथु अफस
आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य नाण लेकर
अत्यन्त क्रोधपूर्वक पृथिवीके पीछे दौड़े ॥ ६९ ॥ तब
भयसे अत्यन्त व्याकुल हुई पृथिवी गीका रूप धारणकर
भभी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकोंमें गयी ॥ ७० ॥
समस्त भूतोंको धरण करनेवाली पृथिवी जहाँ-जहाँ भी गयी
जहाँ-जहाँ उसने वेनपुत्र पृथुको रस्त्र-सन्धान किये
अपने पीछे आते देखा ॥ ७१ ॥

ततस्तं प्राह वसुधा पृथुं पृथुपराक्रमम् ।
प्रलेपमाना तद्गणपरित्राणपरायणा ॥ ७२

पृथिव्युवाच

स्वीकथे त्वं महापापं किं नरेन्द्र न पश्यसि ।
येन मां हन्तुमत्यर्थं प्रकरोषि नृपोद्यमम् ॥ ७३

पृथुत्वाच्च

एकस्मिन् यत्र निधनं प्रापिते दुष्टकारिणि ।
बहूनां भवति क्षेमं तस्य पुण्यप्रदो बधः ॥ ७४

पृथिव्युवाच

प्रजानामुपकाराय यदि मां त्वं हनिष्यसि ।
आधारः कः प्रजानां ते नृपश्रेष्ठ भविष्यति ॥ ७५

पृथुत्वाच्च

त्वां हत्वा वसुधे वाणीर्मच्छासनपराङ्मुखीम् ।
आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ ७६

श्रीपराशर उवाच

ततः प्रणम्य वसुधा तं भूयः प्राह पार्थिवम् ।
प्रवेक्षिताङ्गी परमं साध्वसं समुपागता ॥ ७७

पृथिव्युवाच

उपायतः समारब्धाः सर्वे सिद्धयन्त्युपक्रमाः ।
तस्माद्ब्रह्म्यापार्षं ते तं कुरुष्व धर्मीच्छसि ॥ ७८

समस्ता या मया जीर्णां नरनाथ महौषधीः ।
यदीच्छसि प्रदास्यामि ताः क्षीरपरिणामिनीः ॥ ७९

तस्मात्प्रजाहिताशायं मम धर्मभृतां वर ।
तं तु वत्सं कुरुष्व त्वं क्षरेपं येन वत्सला ॥ ८०

सभां च कुरु सर्वत्र येन क्षीरं समन्ततः ।
वरीषधीषीजभूतं बीजं सर्वत्र भावये ॥ ८१

श्रीपराशर उवाच

तत उत्सारयामास शीलान् शतसहस्रशः ।
धनुष्कोटश्रुता तदा वैन्यस्तेन शीला विवर्द्धिताः ॥ ८२

न हि पूर्ववत्सर्गं वै विषये पृथिवीतले ।
प्रविभागः पुराणां वा ग्राम्भणां वा पुराऽभवत् ॥ ८३

न सस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिर्न वणिक्पथः ।
वैन्यात्प्रभृति मैत्रेय सर्वस्वीतस्य सम्भवः ॥ ८४

तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथुसे, उनके वाणप्रहारसे बचनेकी कामनासे कौपवी हुई पृथिवी इस प्रकार बोली ॥ ७२ ॥

पृथिवीने कहा—हे राजेन्द्र! क्या आपको स्वी-
कथका महापाप नहीं दीख पड़ता, जो मुझे मारनेपर
आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? ॥ ७३ ॥

पृथु बोले—जहाँ एक अनर्थकारीको मार देनेसे
बहुनोंको सुख प्राप्ता हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद
है ॥ ७४ ॥

पृथिवी बोली—हे नृपश्रेष्ठ! यदि आप प्रजाके
हितके लिये ही मुझे मारना चाहते हैं तो [मेरे मर
जानेपर] आपकी प्रजाका आधार क्या होगा? ॥ ७५ ॥

पृथुने कहा—अरी वसुधे! अपनी आजाका
उल्लंघन करनेवाली तुझे मारकर ही अपने योगबलसे
ही इस प्रजाको धारण करेगा ॥ ७६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब अत्यन्त भयभीत एवं
कौपवी हुई पृथिवीने उन पृथिवीपतिको पुनः प्रणाम
करके कहा ॥ ७७ ॥

पृथिवी बोली—हे राजन्! यत्नपूर्वक आरम्भ
किये हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः मैं भी
आपको एक उपाय बताती हूँ; यदि आपकी इच्छा
हो तो वैसा ही करें ॥ ७८ ॥ हे नरनाथ! मैंने जिन
सपस्त ओषधियोंको पचा लिया है उन्हें यदि आपकी
इच्छा हो तो दुग्धरूपसे मैं दे सकती हूँ ॥ ७९ ॥ अतः
हे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महाराज! आप प्रजाके हितके
लिये कोई ऐसा वत्स (बछड़ा) बनाइये जिससे
जातसल्यपशु मैं उन्हें दुग्धरूपसे निकाल सकूँ ॥ ८० ॥
और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिये जिससे
ही उत्तमोत्तम ओषधियोंके बीजरूप दुग्धको सर्वत्र
उत्पन्न कर सकूँ ॥ ८१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब महाराज पृथुने अपने
धनुषकी कौटिसे सैकड़ों-हजारों धर्मतोकी उछाड़ा
और उन्हें एक स्थानपर इकट्ठा कर दिया ॥ ८२ ॥
इससे पूर्व पृथिवीके समतल न होनेसे पुर और
ग्राम आदिका कोई नियमित विभाग नहीं था ॥ ८३ ॥
हे मैत्रेय! उस समय जन्न, गोरक्षा, कृषि
और व्यापारका भी कोई क्रम न था। यह सब ही
वैनपुत्र पृथुके समयसे ही आरम्भ हुआ है ॥ ८४ ॥

यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीद्द्विजोत्तम ।
 तत्र तत्र प्रजाः सर्वा निवासं समरोचयन् ॥ ८५ ॥
 आहारः फलमूलानि प्रजानामभक्षत्दा ।
 कृच्छ्रेण महता सोऽपि प्रणष्टास्वोषधीषु वै ॥ ८६ ॥
 स कल्पयित्वा वत्सं तु मनुं स्वायम्भुवं प्रभुम् ।
 स्वपाणीं पृथिवीनाथो दुदोह पृथिवीं पृथुः ।
 सस्वजातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया ॥ ८७ ॥
 तेनान्तेन प्रजास्तात वर्तन्तेद्यापि नित्यशः ॥ ८८ ॥
 प्राणप्रदाता स पृथुर्यस्माद्भूमेरभूत्पिता ।
 ततस्तु पृथिवीसंज्ञामवापाखिलाधारिणी ॥ ८९ ॥
 ततश्च देवीर्मुनिभिर्देवै रक्षोभिरत्रिभिः ।
 गन्धर्वैरुरगैर्यक्षैः पितृभिस्तरुभिस्तथा ॥ ९० ॥
 तत्तत्प्रात्रमुपादाय तत्तद्दुग्धं मुने पयः ।
 क्तसदोग्धुविशेषाश्च तेषां तद्योनयोऽभवन् ॥ ९१ ॥
 सैषा धात्री विधात्री च धारिणी पोषणी तथा ।
 सर्वस्य तु ततः पृथ्वी विष्णुपादतलोद्भवा ॥ ९२ ॥
 एषं प्रभावस्स पृथुः पुत्रो वेनस्य वीर्यवान् ।
 जज्ञे महीपतिः पूर्वो राजाभूज्जनरञ्जनात् ॥ ९३ ॥
 य इदं जन्म वैश्यस्य पृथोः संकीर्त्तयेन्नरः ।
 न तस्य दुष्कृतं किञ्चित्फलदायि प्रजायते ॥ ९४ ॥
 दुस्वप्नोपशमं नृणां भृण्वतामेतदुत्तमम् ।
 पृथोर्बन्ध प्रभावश्च करोति सततं नृणाम् ॥ ९५ ॥

हे द्विजोत्तम! जहाँ-जहाँ भूमि समतल थी वहाँ-
 वहाँपर प्रजाते निवास करण पसन्द किया ॥ ८५ ॥ उस
 समयतक प्रजाका आहार केवल फल मूलादि ही था;
 वह भी ओषधियोंके नष्ट हो जानेसे बड़ा दुर्लभ हो
 गया था ॥ ८६ ॥

तब पृथिवीपति पृथुने स्वयम्भुतपनुको बछड़ा
 बनाकर अपने हाथमें ही पृथिवीसे प्रजाके हितके लिये
 समस्त घान्योंको दुहा । हे तात! उसी अन्नके आषासे
 अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है ॥ ८७-८८ ॥ महाराज
 पृथु प्राणदान करनेके कारण भूमिके पिता हुए*
 हसलिये उस सर्वपुत्रधारिणीको 'पृथिवी' नाम मिला ॥ ८९ ॥

हे मुने! फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत,
 गन्धर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण अग्निने अपने-अपने
 पात्रोंमें अपना अग्निमातृ दूध दूह तथा पुहनेवालोंके
 अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए
 ॥ ९०-९१ ॥ इसीलिये विष्णुभगवान्के सर्गोंसे प्रकट
 हुई यह पृथिवी ही सशक्ते जन्म देनेवाली, बनायेवाली
 तथा धारण और पोषण करनेवाली है ॥ ९२ ॥ इस प्रकार
 पूर्वकालमें वेनके पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली
 और वीर्यवान् हुए । प्रजाका रंजन करनेके कारण वे
 'राजा' कहलाये ॥ ९३ ॥

जो पशुबन्ध महाराज पृथुके इस चरित्रका कीर्तन
 करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं
 होता ॥ ९४ ॥ पृथुका यह अत्युत्तम जन्म-वृत्तान्त और
 उनका प्रभाव अपने सुननेवाले पुरुषोंके दुःस्वप्नोंको
 सर्वदा शान्त कर देता है ॥ ९५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

* जन्म देनेवाला, यज्ञोपवीत करानेवाला, अन्नदाता, भयसे रक्षा करनेवाला तथा जो विधादान करे—ये पवित्र
 पिता माने गये हैं; जैसे कहा है—

जनकश्चोपनीता च यश्च विद्याः प्रयच्छति । अन्नदाता भयश्रता पञ्चते पितरः स्मृताः ॥

चौदहवाँ अध्याय

प्राचीनबर्हिका जन्म और प्रचेताओंका भगवदाराधन

श्रीपराशर उवाच

पृथोः पुत्रौ तु धर्मज्ञौ जज्ञातेऽन्तर्द्विजादिनौ ।
शिशुखण्डिनीं हविर्धानमन्तर्धानाद्द्वयजायत ॥ १
हविर्धानात् षड्दानेयी धिषणाऽजनयत्सुतान् ।
प्राचीनबर्हिषं शुक्रं गयं कृष्णं वृजाजिनौ ॥ २
प्राचीनबर्हिर्भगवान्महानासीत्प्रजापतिः ।
हविर्धानान्महाभाग येन संवर्धिताः प्रजाः ॥ ३
प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य पृथिव्यां विश्रुता मुने ।
प्राचीनबर्हिरभवत्ख्यातो भुवि महाबलः ॥ ४
समुद्रतनवायां तु कृतदारी महीपतिः ।
महतस्तपसः पारे सवर्णायां महामते ॥ ५
सवर्णाक्षत सामुद्री दश प्राचीनबर्हिषः ।
सर्वे प्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः ॥ ६
अपुद्यधर्मचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः ।
दशवर्षसहस्राणि समुद्रसलिलेशयाः ॥ ७

श्रीमंत्रेण उवाच

यदर्थं ते महात्मानस्तपस्तेपुर्महामुने ।
प्रचेतसः समुद्राम्भस्येतदाख्यानुमर्हीसि ॥ ८

श्रीपराशर उवाच

पित्रा प्रचेतसः प्रोक्तः प्रजार्थममितात्मना ।
प्रजापतिनियुक्तेन बहुमानपुरस्सरम् ॥ ९

प्राचीनबर्हिरुवाच

ब्रह्मणा देवदेवेन समादिष्टोऽस्म्यहं सुताः ।
प्रजाः संवर्द्धनीयास्ते मया सौक्तं तथेति तत् ॥ १०
तन्मम प्रीतये पुत्राः प्रजावृद्धिमतन्द्रिताः ।
कुरुध्वं माननीयश्चः सम्यगाज्ञा प्रजापतेः ॥ ११

श्रीपराशर उवाच

ततस्ते तपित्तुः श्रुत्वा वचनं नृपनन्दनाः ।
तथेत्युक्त्वा च तं भूयः पप्रच्छुः पितरं मुने ॥ १२

प्रचेतस ऊचुः

येन तात प्रजावृद्धौ समर्थाः कर्मणा वयम् ।
भवेय तत् समस्तं नः कर्म व्याख्यातुमर्हीसि ॥ १३

श्रीपराशरजी बोले—हे मंत्रेय! पृथुंके अन्तर्द्विन और वादी गमक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमेंसे अन्तर्द्विनसे तसकी पत्नी शिशुखण्डिनीने हविर्धानको उत्पन्न किया ॥ १ ॥ हविर्धानसे अन्तिकुलीन्त धिषणाने प्राचीनबर्हि, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज और अजिन—ये छः पुत्र उत्पन्न किये ॥ २ ॥ हे महाभाग! हविर्धानसे उत्पन्न हुए भगवान् प्राचीनबर्हि एक महान् प्रजापति थे, जिन्होंने पहले द्वारा अपनी प्रजाकी बहुत वृद्धि की ॥ ३ ॥ हे मुने! उनके समयमें [यज्ञानुष्ठानकी अधिकताके कारण] प्राचीनाग्र कुश भगस्त भूमितीर्थ कैले हुए थे, इसलिये वे महाबली 'प्राचीनबर्हि' नामसे विख्यात हुए ॥ ४ ॥

हे महापते! उन महोपतिने महान् तपस्याके अन्दर समुद्रकी पुत्री सवर्णासे विवाह किया ॥ ५ ॥ उस समुद्र-कन्या सवर्णाके प्राचीनबर्हिसे दस पुत्र हुए। वे प्रचेता-नामक सभी पुत्र धनुर्विद्याके पारगामी थे ॥ ६ ॥ इन्होंने समुद्रके अलमें रहकर दस हजार वर्षतक समान धर्मका आचरण करते हुए घोर तपस्या की ॥ ७ ॥

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे महामुने! उन महात्मा प्रचेताओंने जिस लिये समुद्रके जलमें तपस्या की थी सो आप कहिये ॥ ८ ॥

श्रीपराशरजी कहने लगे—हे मंत्रेय! एक बार प्रजापतिकी श्रेणासे प्रचेताओंके महात्मा फिर प्राचीनबर्हिने उनसे अति सम्मानपूर्वक सन्तानोत्पत्तिके लिये इस प्रकार कहा ॥ ९ ॥

प्राचीनबर्हि बोले—हे पुत्रो! देवाधिदेव ब्रह्मजीने मुझे आज्ञा दी है कि 'तुम प्रजाको वृद्धि करो' और मैंने भी उनसे 'बहुत अच्छा' कह दिया है ॥ १० ॥ अतः हे पुत्रगण! तुम भी मेरी प्रसन्ताके लिये सावधानतापूर्वक प्रजाको वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापतिकी आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है ॥ ११ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मुने! उन राजकुमारोंने पिताके ये वचन सुनकर उनसे 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर फिर पूछा ॥ १२ ॥

प्रचेता बोले—हे शत! जिस कर्मसे हम प्रजा-वृद्धिमें सपर्य हो सकें उसको आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिये ॥ १३ ॥

गितोवाच

आराध्य वरदं विष्णुमिष्टप्राप्तिमसंशयम् ।
समेति नान्यथा मर्त्यः किमन्यत्कथयामि वः ॥ १४
तस्मात्प्रजाविवृद्ध्यर्थं सर्वभूतप्रभुं हरिम् ।
आराध्यत गोविन्दं यदि सिद्धिमभीप्सथ ॥ १५
धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं चान्विच्छतां सदा ।
आराधनीवो भगवाननादिपुरुषोत्तम ॥ १६
यस्मिन्नाराधिते सर्गं चकारादीं प्रजापतिः ।
तमाराध्याश्चतुर् वृद्धिः प्रजानां वो भविष्यति ॥ १७

श्रीपराशर उवाच

इत्येवमुक्तास्ते पित्रा पुत्राः प्रचेतसो दश ।
मग्नाः पयोधिसलिले तपस्तेपुः समाहिताः ॥ १८
दशवर्षसहस्राणि न्यस्तचित्ता जगत्पती ।
नारायणे मुनिश्रेष्ठ सर्वलोकपरायणे ॥ १९
तत्रैवावस्थिता देवमेकाग्रमनसो हरिम् ।
तुष्टुसुर्वस्तुतः कामान् स्तोतुरिष्टान्प्रयच्छति ॥ २०

श्रीमैत्रेय उवाच

एतत्प्रचेतसो विष्णोः समुद्राम्भसि संस्थिताः ।
चक्रुस्तप्ते मुनिश्रेष्ठ सुपुण्यं वक्तुमर्हसि ॥ २१

श्रीपराशर उवाच

शृणु मैत्रेय गोविन्दं यथापूर्वं प्रचेतसः ।
तुष्टुवुस्तन्मयीभूताः समुद्रसलिलेशयाः ॥ २२
प्रचेतस ऊचुः

नताः स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती ।
तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभुम् ॥ २३
य्योतिराह्वयनीपय्यामण्डनन्तमपारवत् ।
योनिभूतमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ २४
यस्याहः प्रथमं रूपमरूपस्य तथा निशा ।
सन्ध्या च परमेशस्य तस्मै कालात्मने नमः ॥ २५
भुज्यतेऽनुदिनं देवैः पितृभिश्च सुधात्मकः ।
जीवभूतः समस्तस्य तस्मै सोमात्मने नमः ॥ २६
यस्तयांस्यति तीक्षात्मा प्रभाभिर्भासयन्भः ।
धर्मशीताम्भसां योनिस्तस्यै सूर्यात्मने नमः ॥ २७

पिताने कहा—परदायक भगवान् विष्णुकी आराधना करोसे ही मनुष्यको निःसन्देह इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है और किसी उपायसे नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ ॥ १४ ॥ इसलिये यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धिके लिये सर्वभूतोंके स्वामी श्रीहरि गोविन्दकी उपासना करो ॥ १५ ॥ धर्म, अर्थ, काम या मोक्षको इच्छवालोंको सदा अर्गाद पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुकी ही आराधना करनी चाहिये ॥ १६ ॥ कल्पके आरम्भमें जिनकी उपासना करके प्रजागतिने संसारकी रचना की है, तुम उन अच्युतकी ही आराधना करो। इससे तुम्हारी खतानकी वृद्धि होगी ॥ १७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—पिताकी ऐसी आज्ञा होनेपर प्रचेता नागक दसों पुत्रोंने समुद्रके जलमें डूबे रहकर सावधानतापूर्वक रूप करना आरम्भ कर दिया ॥ १८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ। सर्वलोकेश्वर जगत्पति श्रीनारायणमें पिण लगाये हुए उन्होंने दस हजार वर्षतक वहीं (जलमें ही) स्थित रहकर देवाधिदेव श्रीहरिकी एकदश चिरासे श्रुति की, जो अपनी स्तुति की जानेपर श्रुति करनेवालोंको सथा कामनाएँ सफल कर देते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! समुद्रके जलमें स्थित रहकर प्रचेताओंने भगवान् विष्णुकी जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिये ॥ २१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! पूर्वकालमें समुद्रमें स्थित रहकर प्रचेताओंने तन्मन्त्रपात्रसे श्रीगोविन्दकी जो स्तुति की, वह सुनी ॥ २२ ॥

प्रचेताओंने कहा—जिनमें सम्पूर्ण वाक्योंकी नित्य-प्रतिष्ठा है [अर्थात् जो सम्पूर्ण वाक्योंके एकमात्र प्रतिपाद हैं] तथा जो ब्रह्मकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण हैं उन निखिल-जगन्नायक परमरूपको हम नमस्कार करते हैं ॥ २३ ॥ जो आद्य ज्योतिस्वरूप, अनुपम, अणु, अनन्त, अपार और समस्त चराचरके कारण हैं, तथा जिन रूपहीन परमेश्वरके दिन, रात्रि और सन्ध्या ही प्रथम रूप हैं, उन कालस्वरूप भगवान्को नमस्कार है ॥ २४-२५ ॥ समस्त प्राणियोंके जीवनरूप जिनके अमृतमय स्वरूपको देव और पितृगण निरन्तर ही भोगते हैं—उन सोमस्वरूप प्रभुको नमस्कार है ॥ २६ ॥ जो तीक्ष्णस्वरूप अपने तेजसे आकाशमण्डलकी प्रकाशित करते हुए अन्धकारको भक्षण कर जाते हैं तथा जो घाम, शीत और जलके उद्गमस्थान हैं उन सूर्यस्वरूप [नारायण]-को नमस्कार है ॥ २७ ॥

काटिन्यवाम् यो विभर्ति जगदेतदशेषतः ।
 शब्दादिसंश्रयो ज्वापी तस्मै भूष्यात्मने नमः ॥ २८
 यद्योनिभूतं जगतो बीजं यत्सर्वदेहिनाम् ।
 ततोयिरूपमीशस्य नमामो हरिमेधसः ॥ २९
 यो मुखं सर्वदेवानां हृद्यभुक् कव्यभुक् तथा ।
 पितृणां च नमस्तस्मै विद्यायै पावकात्मने ॥ ३०
 पञ्चधावस्थितो देहे यश्छेष्टां कुरुतेऽनिशम् ।
 आकाशयोनिर्भगवांस्तस्मै वाख्यात्मने नमः ॥ ३१
 अवकाशामशेषाणां भूतानां यः प्रयच्छति ।
 अनन्तमूर्तिमाञ्छुद्धस्तस्मै ध्योमात्मने नमः ॥ ३२
 समस्तेन्द्रियसर्गस्य यः सदा स्थानमुत्तमम् ।
 तस्मै शब्दादिरूपाय नमः कृष्णाय वेधसे ॥ ३३
 गृह्णाति विष्वानित्यमिन्द्रियात्मा क्षराक्षरः ।
 यस्तस्मै ज्ञानमूलाय नताः स्म हरिमेधसे ॥ ३४
 गृहीतानिन्द्रियैरर्धानात्मने यः प्रयच्छति ।
 अन्तःकरणरूपाय तस्मै विश्वात्मने नमः ॥ ३५
 यस्मिन्ननन्ते सकलं विश्वं यस्मात्तथोद्गतम् ।
 लवस्थानं च यस्तस्मै नमः प्रकृतिधर्मिणे ॥ ३६
 शुद्धः सैल्लक्ष्यते धान्द्या गुणवानिव वोऽगुणः ।
 तमात्मरूपिणं देवं नताः स्म पुरुषोत्तमम् ॥ ३७
 अक्षिकारमजं शुद्धं निर्गुणं यन्निरञ्जनम् ।
 नताः स्म तत्परं ब्रह्म विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ ३८
 अदीर्घह्रस्वध्रस्वूलमनण्वश्यापलोहितम् ।
 अस्नेहच्छाद्यमतनुमसक्तमशरीरिणम् ॥ ३९
 अनाकाशमसंस्पर्शमगन्धमरसं च यत् ।
 अचक्षुश्रोत्रमचलमवाक् पाणिममानसम् ॥ ४०
 अनामगोभ्रमसुखमतेजस्कमहेतुकम् ।
 अधयं भान्तिरहितमनिद्रमजरामरम् ॥ ४१
 अरजोऽशब्दममृतमप्लुतं यदसंवृतम् ।
 पूर्वापरे न वै यस्मिंस्तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ४२
 परमेशत्वगुणावसर्वभूतमसंश्रयम् ।
 नताः स्म तत्पदं विष्णोर्जिह्वाङ्गुचरं न यत् ॥ ४३

जो कठिनतायुक्त होकर इस सम्पूर्ण संसारको धारण
 करते हैं और शब्द आदि पाँचों विषयोंके आधार तथा
 व्यापक हैं, उन भूमिरूप भगवान्को नमस्कार है ॥ २८ ॥
 जो संसारका योदिरूप है और समस्त देहधारियोंका बीज
 है, भगवान् हरिके उस जलस्वरूपको हम नमस्कार करते
 हैं ॥ २९ ॥ जो समस्त देवताओंका हृद्यभुक् और पितृगणका
 कव्यभुक् मुख है, उस अतीन्द्रियरूप विष्णुभगवान्को
 नमस्कार है ॥ ३० ॥ जो प्राण, अपान आदि पाँच प्रकारसे
 देहमें स्थित होकर दिन-रात चेष्टा करता रहता है तथा
 विसर्गी योनि आकाश है, उस वायुरूप भगवान्को नमस्कार
 है ॥ ३१ ॥ जो समस्त भूतोंकी अवकाश देता है उस
 अनन्तमूर्ति और परम शुद्ध आकाशस्वरूप प्रभुको नमस्कार
 है ॥ ३२ ॥ समस्त इन्द्रिय बुद्धिके जो उत्तम स्थान हैं उन
 प्रत्यक्ष-स्पर्शादिरूप विधाता श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार है ॥ ३३ ॥
 जो धर और अक्षर इन्द्रियरूपसे नित्य विषयोंको ग्रहण
 करते हैं उन ज्ञानमूल ठरिको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ इन्द्रियोंके
 द्वारा ग्रहण किये विषयोंको जो आत्मके सम्मुख उपस्थित
 करता है उस अन्तःकरणरूप विश्वात्माको नमस्कार
 है ॥ ३५ ॥ जिस अनन्तमें सकल विश्व स्थित है, जिससे
 यह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लयको भी स्थान है
 उस प्रकृतिस्वरूप परमात्माको नमस्कार है ॥ ३६ ॥ जो
 शुद्ध और निर्गुण होकर भी प्रमदश गुणयुक्त-से दिखायी
 देते हैं उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तमदेवको हम नमस्कार
 करते हैं ॥ ३७ ॥ जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण,
 निर्मल और श्रोत्रिणुका परमपद है उस ब्रह्मस्वरूपको
 हम नमस्कार करते हैं ॥ ३८ ॥ जो न लम्बा है, न पतला
 है, न मोटा है, न छोट्य है और न काला है, न लाल है; जो
 स्नेह (द्वय), कान्ति तथा शरीरसे रहित एवं अनासक्त
 और अक्षरारी (जीवसे भिन्न) है ॥ ३९ ॥

जो अवकाश स्पर्श, गन्ध और रससे रहित तथा
 अस्नि-कान-विहीन, अचल एवं जिह्वा, हाथ और मनसे
 रहित है ॥ ४० ॥ जो नाम, गोत्र, मुख और तेजसे शून्य
 तथा कारणहीन है; जिसमें भय, भ्रान्ति, निद्रा, जरा और
 मरण—इन (अवस्थाओं)—का अभाव है ॥ ४१ ॥ जो अमल
 (रजोगुणरहित), अशब्द, अमृत, अप्लुत (गतिशून्य) और
 असंवृत (अनाच्छादित) है एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहारकी
 गति नहीं है वही भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ ४२ ॥
 जिसका ईशान (शासन) ही परमगुण है, जो सर्वरूप
 और अनाधार है तथा जिह्वा और जिह्वा अविषय है
 भगवान् विष्णुके उस परमपदको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४३ ॥

श्रीपराशर उवाच

एवं प्रचेतसो विष्णुं स्तुवन्तस्तत्समाधयः ।
दशवर्षसहस्राणि तपश्चैरुर्महागर्चे ॥ ४४
ततः प्रसन्नो भगवांस्तोषामन्तर्जले हरिः ।
ददौ दर्शनमुनिद्रनीलोत्पलदलच्छविः ॥ ४५
पतत्रिराजमारूढमवलोक्य प्रचेतसः ।
प्रणिपेतुः शिशोभिस्तं भक्तिभाराघनामितैः ॥ ४६
ततस्तानाह भगवान्वियतामीप्सितो वरः ।
प्रसादमुमुखोऽहं सो वरदः समुपस्थितः ॥ ४७
ततस्तमूचुर्वरदं प्रणिपत्य प्रचेतसः ।
यथा पित्रा संपादिष्टं प्रजानां वृद्धिकारणम् ॥ ४८
स चापि देवस्तं दत्त्वा यथाभिलषितं धरम् ।
अनर्धानं जगामाशु ते च निश्चक्रमुर्जलात् ॥ ४९

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशं चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पन्द्रहवाँ अध्याय

प्रचेताओंका मारिषा नामक कन्याके साथ विवाह, दक्ष प्रजापतिकी उत्पत्ति एवं दक्षकी सात कन्याओंके संशका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

तपश्चरत्सु पृथिवीं प्रचेतःसु महीरुहाः ।
अरक्ष्यमाणामावतुर्बभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ १
नाशकन्मरुतो वातुं सृतं खमभवदद्भुमैः ।
दशवर्षसहस्राणि न शोकुश्चेष्टितुं प्रजाः ॥ २
तद्दृष्ट्वा जलनिष्क्रान्ताः सर्वे क्रुद्धाः प्रहेलसः ।
मुखेभ्यो वायुमग्निं च तेऽसृजन् जातमन्ववः ॥ ३
ठन्मूलानथ तान्बुक्षान्कृत्वा वायुरशोषयत् ।
तानग्निरदहद्घोरस्तत्राभूद्गुणसङ्क्षयः ॥ ४
हुमक्षयमथो दृष्ट्वा किञ्चिच्चिच्छेषु शाखिषु ।
उपगम्याद्ब्रवीदेतान् राजा सोमः प्रजापतीन् ॥ ५

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्में समाधिस्थ होकर प्रचेताओंने महाशरभरमें रुकर उनकी स्तुति करते हुए दस हजार वर्षगणक तपस्या की ॥ ४४ ॥ तब भगवान् श्रीहरिने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमलकी सी आभायुक्त दिव्य छविसे जलके भीतर ही दर्शन दिया ॥ ४५ ॥ प्रचेताओंने पक्षिराज गरुडपर चढ़े हुए श्रीहरिको देखकर उन्हें भक्तिभावके भारसे झुके हुए मस्तकोंद्वारा प्रणाम किया ॥ ४६ ॥

तब भगवान्ने उनसे कहा—“मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ, तुम अफ़स्र अभीष्ट वर माँगो” ॥ ४७ ॥ तब प्रचेताओंने वरदायक श्रीहरिको प्रणाम कर, जिस प्रकार उनके पिताने उन्हें प्रजा वृद्धिके लिये आहा दी थी वह सब उनसे निवेदन की ॥ ४८ ॥ तदनन्तर, भगवान् उन्हें अभीष्ट वर देकर अन्तर्धान हो गये और वे जलसे बाहर निकल आये ॥ ४९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—प्रचेताओंके तपस्यामें लगे रहनेसे [कृषि आदिद्वारा] किसी प्रकारकी रक्षा न होनेके कारण पृथिवीको वृक्षोंने डँक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गयी ॥ १ ॥ आकाश वृक्षोंसे भर गया था। इसलिये दस हजार वर्षतक न तो वायु ही चला और न प्रजा जो किसी प्रकारकी चेष्टा कर सकी ॥ २ ॥ जलसे निकलनेपर उन वृक्षोंको देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुखसे वायु और अग्निको छोड़ा ॥ ३ ॥ वायुने वृक्षोंको उखाड़-उखाड़कर सुखा दिया और प्रवण्ड अग्निने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वरुं वृक्षोंका नाश होने लगा ॥ ४ ॥

तब वह भयंकर तृक्ष-प्रलय देखकर ऋद्धे-ने वृक्षोंके रह जानेपर उनके राजा सोमने प्रजापति प्रचेताओंके पास जाकर कहा— ॥ ५ ॥

कोपं यच्छत राजानः शृणुष्वं च वक्षो मम ।
 सन्धानं चः करिष्यामि सह क्षितिकुहरहम् ॥ ६
 रत्नभूता च कन्वेयं वार्ध्वी वरवर्णिनी ।
 भविष्यन्तानता पूर्व मया गोभिर्विद्विता ॥ ७
 पारिषा नाम नामैषा वृक्षाणामिति निर्मिता ।
 भार्या वोऽस्तु महाभागा ध्रुव वंशविद्विनी ॥ ८
 युष्माकं तेजसोऽर्द्धेन मम चार्द्धेन तेजसः ।
 अस्वामुत्पत्स्यते विद्वान्दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ ९
 मम चांशेन संयुक्तो युष्माकेजोमयेन वै ।
 तेजसाग्निसमो भूयः प्रजाः संवर्द्धयिष्यति ॥ १०
 कण्डुनाम मुनिः पूर्वमासीद्वेदविदां वरः ।
 सुरव्ये गोमतीतीरि स तेषे परमं तपः ॥ ११
 तत्क्षोभाय सुरेन्द्रेण प्रप्तोचास्त्रा सप्तसराः ।
 प्रयुक्ता क्षोभयामास तमृषिं सा शुचिस्मिता ॥ १२
 क्षोभितः स तथा सान्द्धं वर्षाणामधिकं शतम् ।
 अतिष्ठन्मन्दरद्रोण्यां विषयासक्तमानसः ॥ १३
 तं सा प्राह महाभाग गन्तुमिच्छाम्यहं दियम् ।
 प्रसादसुमुखो ब्रह्मन्नुजां दानुमर्हसि ॥ १४
 तथैवमुक्तः स मुनिस्तस्याभासक्तमानसः ।
 दिनानि कतिचिद्धृद्वे स्थीयतामित्यभाषत ॥ १५
 एवमुक्ता ततस्तेन साग्रे वर्षशतं पुनः ।
 सुभुजे विषयास्तन्वी तेन साकं महात्मना ॥ १६
 अनुजां देहि भगवन् व्रजाभि त्रिदशालघम् ।
 उक्तस्तथेति स पुनः स्थीयतामित्यभाषत ॥ १७
 पुनर्गते वर्षशते साधिके सा शुभानना ।
 यामीत्याह दिवं ब्रह्मन्प्रणवस्मितशोभनम् ॥ १८
 उक्तस्तथैवं स मुनिरुपगुह्यायतेक्षणाम् ।
 इहास्यतां क्षणं सुभु चिरकालं गमिष्यसि ॥ १९
 सा क्रीडमाना सुश्रोणी सह तेनर्षिणा पुनः ।
 शतद्वयं किञ्चिदूनं वर्षाणामन्वतिष्ठत ॥ २०
 यमनाय पाद्मभाग देवराजनिवेशनम् ।
 प्रोक्तः प्रोक्तस्तथा तन्व्या स्थीयतामित्यभाषत ॥ २१

“हे वृषतिगण ! आप क्रोध शान्त कीजिये और मैं जो कुछ कहता हूँ, सुनिये । मैं वृक्षोंके साथ आपलोगोंको सन्धि करा दूँगा ॥ ६ ॥ वृक्षोंसे उत्पन्न हुई इस सुन्दर वर्षावाली रत्नस्वरूपा कन्वाका मैंने पहलेसे ही भविष्यको जानकर अपनी [अमृतमयी] किरणोंसे पालन-पोषण किया है ॥ ७ ॥ वृक्षोंको यह कन्वा पारिषा नामसे प्रसिद्ध है, यह महाभागा इसलिये ही उत्पन्न की गयी है कि निश्चय ही तुम्हारे वंशको बढ़ानेवाली तुम्हारी भार्या हो ॥ ८ ॥ मैं और तुम लोगोंके आधे-आधे तेजसे इसके परम विद्वान् दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा ॥ ९ ॥ वह तुम लोगोंके तेजके सहित मेरे अंशसे युक्त होकर अपने तेजके कारण अग्निके समान होगा और प्रजाकी खूब वृद्धि करेगा ॥ १० ॥

पूर्वकालमें वेदवेदाओंमें श्रेष्ठ एक कण्डु नामक मुनीश्वर थे । उन्होंने गोमती नदीके परम रमणीक तटपर धार तप किया ॥ ११ ॥ तब हन्द्रे ने उन्हें तपोभ्रष्ट करनेके लिये प्रप्तोचा नामकी उत्तम अप्सराको नियुक्त किया । उस मंजुहासिनीने उन ऋषिश्रेष्ठको विचलित कर दिया ॥ १२ ॥ उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे सौंसे भी अधिक वर्षतक विषयासक्त-चिन्तसे मन्दराचलको कन्दारामें रहे ॥ १३ ॥

तब, हे महाभाग ! एक दिन उस अप्सराने कण्डु ऋषिसे कहा—“हे ब्रह्मन् ! अब मैं स्वर्लोकको जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आहा दीजिये” ॥ १४ ॥ उसके ऐसा कहनेपर उसमें आसक्तचित्त हुए मुनिने कहा—“भद्रे ! अभी कुछ दिन और रहो” ॥ १५ ॥ उनके ऐसा कहनेपर उस सुन्दरीने महात्मा कण्डुके साथ अगले सौ वर्षतक और रहकर नाना प्रकारके भोग भोगे ॥ १६ ॥ तब भी, उसके यह पूछनेपर कि ‘भगवन् ! मुझे स्वर्गलोकको जानेकी आज्ञा दीजिये’ ऋषिने यहाँ कहा कि ‘अभी और रहो’ ॥ १७ ॥ तदनन्तर सौ वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर उस सुमुखीने प्रणयभुक्त मुसकानसे सुशोभित वचनोंमें फिर कहा—“ब्रह्मन् ! अब मैं स्वर्गको जाती हूँ” ॥ १८ ॥ यह सुनकर मुनिने उस विशालशरीके आलिङ्गकर कहा—“अयि सुभु ! अब तो तू बहुत दिनोंके लिये यही जायगी इसलिये क्षणभर को और रह” ॥ १९ ॥ तब वह सुश्रोणी (सुन्दर कमरवाली) उस ऋषिके साथ क्रीड़ा करती हुई दो सौ वर्षसे कुछ कम और रहो ॥ २० ॥

हे महाभाग ! इस प्रकार जब-जब वह सुन्दरी देवलोकको जानेके लिये कहती तभी-तभी कण्डु ऋषि उससे यही कहते कि ‘अभी रह जा’ ॥ २१ ॥

तस्य शापभयाद्धीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा ।
 प्रोक्ता प्रणयभङ्गार्थिणेदिनी न जहौ मुनिम् ॥ २२
 तथा च रमतस्तस्य परमर्षैरर्हनिशम् ।
 नवं नक्षत्रभूत्रेम मन्मथाधिष्ठितसः ॥ २३
 एकदा तु त्वराधुक्तो निश्चक्रामोदजान्मुनिः ।
 निष्क्रामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्राह सा शुभा ॥ २४
 इत्युक्तः स तथा प्राह परिवृत्तमहः शुभे ।
 सन्ध्योपासितं करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेत् ॥ २५
 ततः प्रहस्य सुदती तं सा प्राह महामुनिम् ।
 किमग्रा सर्वधर्मज्ञ परिवृत्तमहस्तव ॥ २६
 बहूनां विप्र वर्षाणां परिवृत्तमहस्तव ।
 गतमेतन्न कुरुते विस्मयं कस्य कथ्यताम् ॥ २७

मुनिस्त्वाच

प्रातस्त्वमागता भद्रे नदीतीरमिदं शुभम् ।
 मया दृष्टासि तन्वद्भिः प्रविष्टासि मयाश्रमम् ॥ २८
 इयं च वर्तते सन्ध्या परिणाममहर्गतम् ।
 उपहसः किमर्थोऽयं सद्भावः कथ्यतां मम ॥ २९

प्रम्लोचोवाच

प्रत्यूषस्यागता ब्रह्मन् सत्यमेतन्न तन्भवा ।
 नन्वस्य तस्य कालस्य गतान्यद्दशतानि ते ॥ ३०
 ततस्ससाध्वसो विप्रस्तां पप्रच्छायत्नेक्षणाम् ।
 कथ्यतां भीरु कः कालस्तथा भे रमतः सह ॥ ३१

प्रम्लोचोवाच

सप्तोत्तराण्यतीतानि नक्षत्रवर्षशतानि ते ।
 मासाश्च षट्त्वार्यैवान्वत्सप्ततीतं दिनत्रयम् ॥ ३२

शुभिरुवाच

सत्यं भीरु वदस्येतत्परिहसोऽथ वा शुभे ।
 दिनमेकमाह मन्ये त्वया सार्द्धमिहासितम् ॥ ३३

मुनिके इस प्रकार कहनेपर, प्रणयभंगकी पीड़ाके जाननेवाली उस दक्षिणाने* अपने दाक्षिण्यकेश तथा मुनिके शापसे भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा ॥ २२ ॥ तथा उन महर्षि महोदयका भी कायासकनित्तसे उसके साथ अर्हण रमण करते-करते, उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया ॥ २३ ॥

एक दिन ये मुनिवर बड़ी शीघ्रतासे अपनी कुडीसे निकले। उनके निकलते समय वह सुन्दरी बोली—
 “आप क्यों जाते हैं” ॥ २४ ॥ उसके इस प्रकार पूछनेपर मुनिने कहा—“हे शुभे! दिन अस्त हो चुका है, इसलिये मैं सन्ध्योपासना करूँगा; नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जायगी” ॥ २५ ॥ तब उस सुन्दर दाँतोवालीने उन मुनीस्वरसे हँसकर कहा—“हे सर्वधर्मज्ञ! क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? ॥ २६ ॥ हे विप्र! अनेकों वर्षोंके पश्चात् आज आपका दिन अस्त हुआ है; इससे कहिये, किसको आश्चर्य न होगा?” ॥ २७ ॥

मुनि बोले—भद्रे! नदीके इस सुन्दर तटपर तुम आज सबरे ही आये हो। [मुझे भली प्रकार स्मरण है] मैंने आज ही तुमको अपने आश्रममें प्रवेश करते देखा था ॥ २८ ॥ अब दिनके समाप्त होनेपर यह सन्ध्याकाल हुआ है। फिर, सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करता हो? ॥ २९ ॥

प्रम्लोचा बोली—ब्रह्मन्! आपका यह कथन कि ‘तुम सबरे ही आये हो’ ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं; परन्तु उस समयको तो आज सैंकड़ों वर्ष भीत चुके हैं ॥ ३० ॥

सौमभे कहा—तब उन विप्रवरने उस विशालाक्षीसे कुछ पत्रझाकर पूछ—“अरी भीरु! ठीक-ठीक बता, तै साथ रमण करते मुझे कितना समय बीता गया?” ॥ ३१ ॥

प्रम्लोचाभे कहा—अबतक नौ सौ साठ वर्ष, छः महीने तथा तीन दिन और भी बीत चुके हैं ॥ ३२ ॥

शुभि बोले—अयि भीरु! यह तू ठीक कहती है, यह हे शुभे! मेरे हँसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थानपर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ ॥ ३३ ॥

* दक्षिणा नक्षिककाका लक्षण इस प्रकार कहा है—

या गौरवं नयं प्रेम सद्भाव पूर्वनायके ।

न भुज्यात्न्यसक्तापि सा त्रेया दक्षिणा युधेः ॥

अन्य नायकमें आसक्त रहते हुए भी जो अपने पूर्व-नायकको पौरव, नय, प्रेम और सद्भावके कारण न छोड़ती हो उसे ‘दक्षिणा’ जानना चाहिये। दक्षिणाके गुणको ‘दाक्षिण्य’ कहते हैं।

प्रत्येकोपाय

षडिष्याम्यमृतं ब्रह्मन्कथमत्र तवान्तिके ।
विशेषेणाद्य भवता पुष्टा मार्गानुवर्तिना ॥ ३४

सोम उवाच

निशम्य तद्वचः सत्यं स मुनिर्नृपनन्दनाः ।
धिग्धिक् मामित्कलीवेत्थं निनिन्दात्मान्मात्मना ॥ ३५

मुनिस्त्वाव

तर्पांसि मम नष्टानि हृतं ब्रह्मविदां धनम् ।
ह्यो विवेकः केनापि चोषिन्मोह्यय निर्मिता ॥ ३६

कर्मिषट्कतिगं ब्रह्म ज्ञेयमात्मजयेन मे ।
पतिरेषां ह्यता येन धिक् तं कामं महाग्रहम् ॥ ३७

व्रतानि वेदवेद्याजिकारणान्यखिलानि च ।
नरकग्राममार्गेण सङ्केनापहृतानि मे ॥ ३८

विनिन्द्येत्थं स धर्मज्ञः स्वयमात्मान्मात्मना ।
ताभस्परसमासीनामिदं वचनमब्रवीत् ॥ ३९

गच्छ पापे यथाकामं यत्कार्यं तत्कृतं त्वया ।
देवराजस्य मत्क्षोभं कुर्वन्त्वा भावचेष्टितैः ॥ ४०

न त्वां करोम्यहं भस्म क्रोधतीक्ष्णं यस्मिन्ना ।
सतां सप्तपदं पैत्रमुषितोऽहं त्वया सह ॥ ४१

अथवा तव को दोषः किं वा कुप्याम्यहं तव ।
ममैव दोषो नितरां येनाहमजितेन्द्रियः ॥ ४२

यथा शक्रप्रिवारिण्या कृतो मे तपसो व्ययः ।
त्वया धिक्तां महामोहमज्जूषां सुजुगुप्सिताम् ॥ ४३

सोम उवाच

यावदित्यं स विप्रर्षिस्तां ब्रवीति सुमध्यमाम् ।
तावद्गालत्स्वेदजला सा बभूवातिषेपथुः ॥ ४४

प्रवेपमानां सततं स्विन्नगात्रलतां सतीम् ।
गच्छ गच्छेति सक्रोधमुवाच मुनिसत्तमः ॥ ४५

सा तु निर्भर्त्सिता तेन विनिष्कम्प्य तदाश्रमात् ।
आकाशगामिनी स्वैदे पयार्जं तरुपल्लवैः ॥ ४६

प्रत्येकोपाय—हे ब्रह्मन्! आपके निकट मैं लूट कैसे बोल सकता हूँ? और फिर विशेषतया उस समय जब कि आज आप अपने धर्म-मार्गका अनुसरण करनेमें तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं ॥ ३४ ॥

सोमने कह्य—हे राजकुमारो! उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनिने 'मुझे धिक्कार है! मुझे धिक्कार है!' ऐसा कहकर स्वयं ही अपनेको बहुत कुछ भला-बुरा कहा ॥ ३५ ॥

मुनि बोले—ओह! मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओंका धन था वह लूट गया और विवेकबुद्धि मारी गयी। अहो! स्वामी तो किसीने मोह उपजानेके लिये ही रचा है ॥ ३६ ॥ 'मुझे अपने मनको जीतकर जहाँ ऊर्मियों* से अतीत परब्रह्मको जानना चाहिये'—जितने मेरी इस प्रकारकी बुद्धिको नष्ट कर दिया, उस कामरूपो महाग्रहको धिक्कार है ॥ ३७ ॥ नरकग्रामके मार्गरूप इस स्वोके संगसे वेदवेद्य भगवान्को प्राणिके कारणरूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गये ॥ ३८ ॥

इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवरने अपने-आप ही अपनी निन्दा करते हुए वहाँ बैठो हुई उस आसरासे कहा— ॥ ३९ ॥ 'अरे पापिनि! अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा, तूने अपनी भावभंगीसे मुझे मोहित करके इन्द्रका जो कार्य था वह पूरा कर लिया ॥ ४० ॥ मैं अपने क्रोधसे प्रवृत्तित हुए अग्निद्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनोंको मित्रता सात पग साथ रहनेसे ही जाली है और मैं तो [इतने दिन] तेरे साथ निवास कर चुका हूँ ॥ ४१ ॥ अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है, जो मैं तुझपर क्रोध करूँ? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेन्द्रिय हूँ ॥ ४२ ॥ तू महामोहको पिटारी और अत्यन्त निन्दनीया है। हाय! तूने इन्द्रके स्वार्थके लिये मेरी तपस्या नष्ट कर दी!!! तुझे धिक्कार है!!!! ॥ ४३ ॥

सोमने कह्य—ये ब्रह्मर्षि उक्त सुन्दरीसे जबतक ऐसा कहते रहे तबतक वह [भयके कारण] पसीनेमें सराबोर होकर अत्यन्त काँपती रही ॥ ४४ ॥ इस प्रकार विमका समस्त शरीर पसीनेमें डूबा हुआ था और जो भयसे थर-थर काँप रही थी उस प्रमत्तोपासे मुनिश्रेष्ठ कण्डुने क्रोधपूर्वक कह्य—'अरे! तू चली जा! चली जा!!! ॥ ४५ ॥

तब आस्यार फटकारे जानेपर वह उस आश्रमसे निकली और आकाश-मार्गसे जाते हुए उसने अपना पसोना वृक्षके पत्तोंसे ढँका ॥ ४६ ॥

* ऊर्ध्वा, पिपासा, लोभ, भोह, जल और मृत्यु—ये सः ऊर्मियाँ हैं ।

निर्माजमाना गात्राणि गलत्स्वेदजलानि वै :
 वृक्षादवृक्षं यथौ खाला तदग्ररूपपल्लवैः ॥ ४७
 ऋषिणा यस्तदा गर्भस्तस्या देहे समाहितः ।
 निर्जगाम स रोमाञ्जस्वेदरूपी तदङ्गतः ॥ ४८
 तं वृक्षा जगुर्गर्भमेकं चक्रे तु मारुतः ।
 मया चाप्यायितो गोभिः स तदा यवधे शनैः ॥ ४९
 वृक्षाग्रगर्भसम्भूता मारिषाख्या घरानना ।
 तां प्रदास्यन्ति यो वृक्षाः कोप एष प्रक्षाम्यताम् ॥ ५०
 कण्डोरधत्वमेवं सा वृक्षेभ्यश्च समुद्गता ।
 ममापत्यं तथा वायोः प्रम्लोचतनया च सा ॥ ५१

श्रीपराशर उवाच

स चापि भगवान् कण्डुः क्षीणे तपसि सत्तमः ।
 पुरुषोत्तमाख्यं पैत्रेयं विष्णोरायतनं यथौ ॥ ५२
 तत्रैकाग्रमतिर्भूत्वा चकाराराधनं हरेः ।
 ब्रह्मपारम्यं कुर्वन्जपमेकाग्रमानसः ।
 ऊर्ध्वबाहुर्ग्रहायोगी स्थित्वासौ भूपनन्दनाः ॥ ५३
 प्रचेतस ऊचुः

ब्रह्मपारं मुनेः श्रोतुमिच्छामः परमं स्तवम् ।
 जपता कण्डुना देवो येनाराध्यत केशवः ॥ ५४
 सोम उवाच

पारं परं विष्णुरपारपारः
 परः परेभ्यः परमार्थरूपी ।
 स ब्रह्मपारः परपारभूतः
 परः घराणामपि पारपारः ॥ ५५
 स कारणं कारणतस्ततोऽपि
 तस्यापि हेतुः परहेतुहेतुः ।

कार्येषु चैवं सह कर्मकर्तृ-
 रूपैरशेषैरवतीह सर्वम् ॥ ५६
 ब्रह्म प्रभुर्ब्रह्म स सर्वभूतो
 ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ ।
 ब्रह्माख्यं नित्यमजं स विष्णु-
 रपक्षयाद्यैरखिलैरसङ्गि ॥ ५७

एह कथा वृक्षोके नवीन लाल-लाल पत्तोंसे अपने पत्तीनेसे तर शरीरको पोंछती हुई एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर चली गयी ॥ ४७ ॥ उस समय ऋषिने उसके शरीरमें जो गर्भ स्थापित किया था; वह भी रोमांचसे निकले हुए गसोंके रूपमें उसके शरीरसे बाहर निकल आया ॥ ४८ ॥ उस गर्भको युक्तोंने ग्रहण कर लिया, उसे वायुने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणोंसे उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे-धीरे बढ़ गया ॥ ४९ ॥ वृक्षाग्रसे उत्पन्न हुई वह मारिषा नामकी युमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेगी। अतः अब यह क्रोध शान्त करो ॥ ५० ॥ इस प्रकार वृक्षोंसे उत्पन्न हुई यह कन्या प्रत्योपाकी पुत्री है तथा कण्डु मुनिकी, मेरी और बायुकी भी सन्तान है ॥ ५१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे गौत्रेय! [तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योगभ्रष्टको कन्या होनेसे मारिषाको अग्राह्य न सन्झें सोमदेवनं कहा—] साधुश्रेष्ठ भगवान् कण्डु भी तपके क्षोण हो जानसे पुरुषोत्तमक्षेत्र नामक भगवान् विष्णुकी निवास-भूमिकी गये और हे राजपुत्रो! वहाँ वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकप्रचित्तसे ब्रह्मपारम्यका जप करते हुए ऊर्ध्वबाहु रहकर श्रीविष्णुभगवान्की आराधना करने लगे ॥ ५२-५३ ॥

प्रचेतागण बोले—हम कण्डु मुनिका ब्रह्मपार नामक परमस्तेव सुम्ना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्रीकेशवकी आराधना की थी ॥ ५४ ॥

सोमने कहा—[हे राजकुमारो! वह मन्त्र इस प्रकार है—] 'श्रीविष्णुभगवान् संसार मार्गकी अनिम्य अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है, वे पर (आकारहीन)-से भी पर अधार्द्र अनन्त हैं, अतः सत्यस्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओंकी ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर (अनात्म-प्रपंच)-से परे हैं तथा पर (इन्द्रियों)-के अगोचर परमात्मा हैं और [भक्तोंके] पालक एवं [उनके अभोष्टको] पूर्ण करनेवाले हैं ॥ ५५ ॥ वे कारण (पंचभूत)-के कारण (पंचतन्मात्रा)-के हेतु (तामस-अहंकार) और उसके भी हेतु (महत्त्व)-के हेतु (प्रधान)-के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार सभस्त कर्म और कर्ता आदिके सहित कार्यरूपसे रिक्त सकल प्रपंचका गालन करते हैं ॥ ५६ ॥ ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्व जीवरूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजाका पति (रक्षक) तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अखण्ड, नित्य और अजन्म है तथा वहो क्षय आदि समस्त विकारोंसे शून्य विष्णु है ॥ ५७ ॥

ब्रह्माक्षरमर्ज नित्यं यथाऽसौ पुरुषोत्तमः ।
 तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम ॥ ५८
 एतद्ब्रह्मपराख्यं वै संस्तवं परमं जपन् ।
 अथाप यस्मां सिद्धिं स तमाराध्य केशवम् ॥ ५९
 [इमं स्तवं यः पठति शृणुयाद्वापि नित्यम् ।
 स कामदोषैरखिलैर्मुक्तः प्राप्नोति वाञ्छितम् ॥]
 इयं च मारिषा पूर्वमासीद्य तां ब्रवीमि वः ।
 कार्यगौरवमेतस्याः कश्चने फलदायि वः ॥ ६०
 अपुत्रा प्रागित्यं विष्णुं मृते भर्त्सरि सत्तमा ।
 भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः ॥ ६१
 आराधितस्तथा विष्णुः प्राह प्रत्यक्षतां गतः ।
 खं धृणीष्वेति शुभे सा च प्राहात्मवाञ्छितम् ॥ ६२
 भगवन्बालवैधव्याद् कृथाजन्माहमीदृशी ।
 मन्दभाग्या समुद्भूता विफला च जगत्पते ॥ ६३
 भवन्तु पतयः श्लाघ्या मम जन्मनि जन्मनि ।
 त्वत्प्रसादात्तथा पुत्रः प्रजापतिसमोऽस्तु मे ॥ ६४
 कुलं शीलं सत्यं सत्यं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता ।
 अविस्वदिता सत्त्वं वृद्धसेवा कृतज्ञता ॥ ६५
 रूपसम्पत्समायुक्ता सर्वस्य प्रियदर्शना ।
 अयोनिजा च जायेषं त्वत्प्रसादादधोक्षज ॥ ६६
 सोम उवाच
 तयैवमुक्तो देवेशो हृषीकेश उवाच ताम् ।
 प्रणामनभ्रामुत्थाप्य वरदः परमेश्वरः ॥ ६७
 देव उवाच
 भविष्यन्ति महावीर्यां एकस्मिन्नेव जन्मनि ।
 प्रख्यातोदारकर्माणो भक्त्याः पतयो दश ॥ ६८
 पुत्रं च सुमहावीर्यं महाबलपराक्रमम् ।
 प्रजापतिगुणैर्व्युक्तं त्वमवाप्स्यसि शोभने ॥ ६९
 वंशानां तस्य कर्तृत्वं जगत्प्रसिद्धिर्भविष्यति ।
 त्रैलोक्यमखिला स्मृतिस्तस्य चापूरयिष्यति ॥ ७०

क्योंकि यह अक्षर, अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु हैं, इसलिये [उनका नित्य अनुरक्त भक्त होनेके कारण] मेरे राम आदि दोष शान्त हों' ॥ ५८ ॥

इस ब्रह्मधर नामक परम स्तोत्रका जप करते हुए श्रीकेशवकी आराधना करनेसे उन पुनीश्वरने परमसिद्धि प्राप्त की ॥ ५९ ॥ [जो पुरुष इस स्तवको नित्यप्रति पढ़ता या सुनता है वह काम आदि सकल दोषोंसे मुक्त होकर अपना मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है ।] अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारिषा पूर्वजन्ममें कौन थी। यह बता देनेसे तुम्हारे कार्याका गौरव सफल होगा। [अर्थात् तुम प्रजा-वृद्धिरूप फल प्राप्त कर सकोगे] ॥ ६० ॥

यह साध्वी अपने पूर्व जन्ममें एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्थामें ही पतिके मर जानेपर इस महाभागाने अपने भक्तिभावसे विष्णुभगवान्को सन्तुष्ट किया ॥ ६१ ॥ इसकी आराधनासे प्रसन्न हो विष्णुभगवान्ने प्रकट होकर कहा—“हे शुभे! वर माँग।” तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनायी— ॥ ६२ ॥ “ भगवान्! बाल विधवा होनेके कारण मेरा जन्म व्यर्थ हो हुआ। हे जगत्पते! मैं ऐसी अधागिनी हूँ कि फलहीन (पुत्रहीन) ही उत्पन्न हुई ॥ ६३ ॥ अतः आपकी कृपासे जन्म-जन्ममें मेरे बड़े प्रसन्नसनीय पति हों और प्रजापति (ब्रह्माजी)-के समान पुत्र हो ॥ ६४ ॥ और हे अधोक्षज! आपके प्रसादसे मैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्त्व, दाक्षिण्य (कार्य-कुशलता), शौचप्रकारिता, अविस्वदिता (उलट न कहना), सत्त्व, वृद्धसेवा और कृतज्ञता आदि गुणोंसे तथा सुन्दर रूपसम्पत्तिसे सम्पन्न और सबको प्रिय लगनेवाली अयोनिजा (माताके गर्भसे जन्म लिये बिना) ही उत्पन्न होऊँ ॥ ६५-६६ ॥

सोम बोले—उसके ऐसा कहनेपर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्रीहृषीकेशने प्रणामके लिये झुकी हुई उस बालाको उठाकर कहा ॥ ६७ ॥

भगवान् बोले—तैरे एक ही जन्ममें बड़े पराक्रमी और विख्यात कामधोर दस पति होंगे और हे शोभने! उसी समय तुझे प्रजापतिके समान एक महावीर्यवान् एवं अत्यन्त बल-विक्रमयुक्त पुत्र भी प्राप्त होगा ॥ ६८-६९ ॥ वह इस संसारमें कितने ही वंशोंको चलानेवाला होगा और उसकी सन्तान सम्पूर्ण त्रिलोकीमें फैल जायगी ॥ ७० ॥

त्वं चाप्ययोनिजा साध्वी रूपौदार्यगुणान्विता ।
 मनःप्रीतिकरी नृणां मत्प्रसादाद्धविष्यसि ॥ ७१
 इत्युक्त्वा नानर्द्धे देवस्तां विशालविलोचनान् ।
 सा चेयं मारिषा जाता युष्मत्पत्नी नृपात्मजाः ॥ ७२

श्रीपराशर उवाच

ततः सोमस्य घञ्जनाञ्जगृह्णस्ते प्रचेतसः ।
 संहृत्य कोपं वृक्षेभ्यः पत्नीधर्मेण मारिषाम् ॥ ७३
 दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः ।
 जज्ञे दक्षो महाभागो यः पूर्वं ब्रह्मणोऽभवत् ॥ ७४
 स तु दक्षो महाभागस्मृष्ट्यर्थं सुमहामते ।
 पुत्रानुत्पादयामास प्रजासृष्ट्यर्धमात्मनः ॥ ७५
 अवरांश्च वरांश्चैव द्विपदोऽथ चतुष्पदान् ।
 आदेशं ब्रह्मणः कुर्वन् सृष्ट्यर्थं समुपस्थितः ॥ ७६
 स सृष्ट्वा मनसा दक्षः पश्चादसृजत सिन्धवः ।
 ददौ स दश धर्मास कश्यपस्य त्रयोदश ।
 कालस्य नयने युक्ताः सप्तविंशतिमिन्दसे ॥ ७७
 तासु देवास्तथा दैत्या नागा गावस्तथा खगाः ।
 गन्धर्वाप्सरसश्चैव दानवाद्याश्च जज्ञिरे ॥ ७८
 ततः प्रभृति मैत्रेय प्रजा मैथुनसम्भवाः ।
 सङ्कल्पाद्दर्शनात्मशार्त्तुर्वेषामभवन् प्रजाः ।
 तपोविशेषैः सिद्धान्तां तदात्यन्ततपस्विनाम् ॥ ७९

श्रीमैत्रेय उवाच

अद्भ्युष्टाद्दक्षिणादक्षः पूर्वं जातो भवा श्रुतः ।
 कथं प्राचेतसो भूयः समुत्पन्नो महामुने ॥ ८०
 एष मे संशयो ब्रह्मन्सुमहान्दृदि वर्तते ।
 यद्दक्षिणश्च सोमस्य पुनः श्वशुरतां गतः ॥ ८१

श्रीपराशर उवाच

उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो भूतेषु सर्वदा ।
 ऋषयोऽत्र न मुह्यन्ति ये ज्ञान्ये दिव्यचक्षुषः ॥ ८२
 युगे युगे भवन्त्येते दक्षाणां मुनिसत्तम ।
 पुनश्चैवं निरुद्धयन्ते विद्वांसत्र न मुह्यति ॥ ८३
 क्वानिच्छं जैष्ठ्यामप्येषां पूर्वं नाभूद्विजोत्तम ।
 तप एव गरीयोऽभूत्प्रभावश्चैव कारणम् ॥ ८४

तथा तू भी मेरी कृपासे उदाररूप गुणसम्पन्ना, सुसीला और
 मनुष्योंके पित्रको प्रसन्न करदेवाली अयोनिजा ही उत्पन्न
 होगी ॥ ७१ ॥ हे राजपुत्रों! उस विशालाक्षीसे ऐसा कह भगवन्
 अन्तर्धान हो गये और वही यह मारिषाके रूपसे उत्पन्न
 हुई तुम्हारी पत्नी है ॥ ७२ ॥

श्रीपराशरजी बोले— तब सोमदेवके कहनेसे
 प्रचेतओने अपना क्रोध शान्त किया और उस मारिषाको
 वृक्षोंसे पत्नीरूपमें ग्रहण किया ॥ ७३ ॥ उन दसों
 प्रचेताओंसे मारिषाके महाभाग दक्ष प्रजापतिका जन्म
 हुआ, जो पहले ब्रह्माजोसे उत्पन्न हुए थे ॥ ७४ ॥

हे महामते! उन महाभाग दक्षने, ब्रह्माजीकी आज्ञा
 पालते हुए सर्प-रचनाके लिये उद्यत होकर उनकी अपनी
 सृष्टि बढ़ाने और सन्तान उत्पन्न करनेके लिये नाँव ऋष
 तथा द्विपद-चतुष्पद आदि भिन्न प्रकारके जीवोंकी पुत्ररूपसे
 उत्पन्न किया ॥ ७५, ७६ ॥ प्रजापति दक्षने पहले मनसे
 ही सृष्टि करके फिर सिन्धियोंकी उत्पत्ति की। उनमेंसे दस
 धर्मको और तेरह कश्यपको दीं तथा काल-परिवर्तकों
 नियुक्त [अश्विनी आदि] सतईस चन्द्रमाको विषह
 दीं ॥ ७७ ॥ उन्हींसे देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गन्धर्व,
 अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए ॥ ७८ ॥ हे मैत्रेय।
 दक्षके समयसे ही प्रवाका मैथुन (स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध)
 द्वारा उत्पन्न होना आरम्भ हुआ है। उससे पहले जो अत्यन्त
 तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषोंके तपोबलसे उनके संकल्प,
 दर्शन अथवा स्पर्शपरमसे ही प्रजा उत्पन्न होती थी ॥ ७९ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे महामुने! मैंने तो सुना था
 कि दक्षका जन्म ब्रह्माजीके दायें अँगूठेसे हुआ था, फिर वे
 प्रचेताओंके पुत्र किस प्रकार हुए? ॥ ८० ॥ हे ब्रह्मन्! मेरे
 हृदयमें यह बड़ा सन्देह है कि सोमदेवके दक्षिण (धेकते)
 होकर भी फिर वे उनके श्वशुर हुए ॥ ८१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! प्राणियोंके उत्पत्ति
 और नाश [प्रवाहरूपसे] निरन्तर हुआ करते हैं। इस
 विषयमें श्रवियो तथा अन्य दिव्यदृष्टि-पुरुषोंको कोई
 संशय नहीं होता ॥ ८२ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! ये दक्षादि युग-
 युगमें होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं; इसमें
 विद्वान्को किसी प्रकारका सन्देह नहीं होता ॥ ८३ ॥ हे
 द्विजोत्तम! इनमें पहले किसी प्रकारकी ज्येष्ठता अथवा
 कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही
 उनकी ज्येष्ठताका कारण होता था ॥ ८४ ॥

श्रीमंत्रेण उवाच

देवानां दानवानां च गन्धर्वैरगरक्षसाम् ।
उत्पत्तिं विस्तरेणेह मम ब्रह्मान्प्रकीर्तय ॥ ८५

श्रीपराशर उवाच

प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः पूर्वं दक्षः स्वयम्भुवा ।
यथा ससर्ज भूतानि तथा शृणु महामुने ॥ ८६

मानसान्वेष भूतानि पूर्वं दक्षोऽसृजत्तदा ।
देवानृषीन्सगन्धर्वान्सुरान्यन्नगांस्तथा ॥ ८७

यदास्य सृजमानस्य न व्ययर्धनं ताः प्रजाः ।
ततः सञ्चिन्त्य स पुनः सृष्टिहेतोः प्रजापतिः ॥ ८८

मैथुनेनैव धर्मेण सिमृक्षुर्विविधाः प्रजाः ।
असिक्नीमावहृक्कन्यां वीरणस्य प्रजापतेः ।

सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम् ॥ ८९

अथ पुत्रसहस्राणि वैरुण्यां पञ्च वीर्यवान् ।
असिक्न्यां जनयामास संहितोः प्रजापतिः ॥ ९०

सान्द्रुद्ध्वा नारदो विप्र संखिवर्द्धयिषुन्प्रजाः ।
सङ्गम्य प्रियसंवादो देवर्षिर्दिग्मन्ववीत् ॥ ९१

हे हर्यश्या महावीर्याः प्रजा यूयं करिष्यथ ।
ईदृशो दृश्यते बलो भवतां श्रूयतामिदम् ॥ ९२

बालिशा बत यूयं वै नास्या जानीत वै भुक् ।
अन्तरुध्वमधश्चैव कथं सृक्ष्यथ वै प्रजाः ॥ ९३

ऊर्ध्वं तिर्यग्धश्चैव यदाऽप्रतिहता गतिः ।
तदा कस्माद्भुवो भान्तं सर्वे द्रक्ष्यथ बालिशाः ॥ ९४

ते तु तद्गचनं श्रुत्वा प्रयाताः सर्वतो दिशाम् ।
अद्यापि नो निवर्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥ ९५

हर्यश्वेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः ।
वैरुण्यामथ पुत्राणां सहस्रमसृजत्प्रभुः ॥ ९६

खिवर्द्धयिषवस्ते तु शबलाशवाः प्रजाः पुनः ।
पूर्वोक्तं वचनं ब्रह्मन्नारदेनैव नोदिताः ॥ ९७

श्रीमंत्रेण बोले—हे ब्रह्मन्! आप मुझसे देव, दानव, गन्धर्व, सर्प और राक्षसोंकी उत्पत्ति विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ८५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे महामुने! स्वयम्भू-भगवान् ब्रह्मासीकी ऐसी आज्ञा होनेपर कि 'तुम प्रजा उत्पन्न करो' दक्षने पूर्वकालमें जिस प्रकार प्राणियोंकी रचना की थी वह सुनो ॥ ८६ ॥ उस समय पहले तो दक्षने ऋषि, गन्धर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियोंको ही उत्पन्न किया ॥ ८७ ॥ इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी यह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापतिने सृष्टिकी वृद्धिके लिये मनमें विचारकर मैथुनधर्मसे नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छामे वीरण प्रजापतिकी अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री असिक्नीसे विवाह किया ॥ ८८-८९ ॥

तदनन्तर वीर्यवान् प्रजापति दक्षने शर्मकी वृद्धिके लिये वीरणसुता असिक्नीसे पाँच सहस्र पुत्र उत्पन्न किये ॥ ९० ॥ उनके प्रजा-वृद्धिके उच्छृक देख प्रियवादी देवर्षि नारदने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा— ॥ ९१ ॥ "हे महापराक्रमी हर्यश्वगण! आप लोगोंकी ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो ॥ ९२ ॥ खेदकी शय है, तुमलोग अभी निर-अनधिष्ठ हो क्योंकि तुम इस पृथिवीका मध्य, ऊर्ध्व (ऊपरी भाग) और अधः (नीचेका भाग) कुछ भी नहीं जानते, फिर प्रजाकी रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी पति इस ब्रह्माण्डमें ऊपर-नीचे और उधर-उधर सब ओर अग्रविहृत (ने-रोक-टोक) हैं; अतः हे अज्ञानियो! तुम सब मिलकर इस पृथिवीका अन्त क्यों नहीं देखते?" ॥ ९३-९४ ॥ नारदजीके ये वचन सुनकर ये सब भिन्न-भिन्न दिशाओंको चले गये और समुद्रमें जाकर जिस प्रकार नदियाँ न्हों लौटतीं उसी प्रकार ये भी आगतक नहीं लौटे ॥ ९५ ॥

हर्यश्वोंके इस प्रकार चले जानेपर प्रचेताओंके पुत्र दक्षने वैरुणीसे एक सहस्र पुत्र और उत्पन्न किये ॥ ९६ ॥ वे शबलाश्वगण भी प्रजा ब्रह्मनेके उच्छृक हुए, किन्तु हे ब्रह्मन्! उनसे नारदजीने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दीं।

अन्योऽन्यमूचुस्ते सर्वे सम्यगाह महासुनिः ।
 भ्रातृर्णां पदवीं सैव गन्तव्या नाम संशयः ॥ १८
 ज्ञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च प्रजास्त्रह्यामहे ततः ।
 तेऽपि तेनैव मार्गेण प्रयाताः सर्वतोमुखम् ।
 अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्य इषापगाः ॥ १९
 ततः प्रभृति वं भ्राता भ्रातुरन्वेषणो द्विज ।
 प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्यं विधानता ॥ १००
 तांश्चापि नष्टान् विनाय पुत्रान् दक्षः प्रजापतिः ।
 क्रोधं चक्रे महाभागो नारदं स शशाप च ॥ १०१
 सर्गकामस्ततो विद्वान्स मैत्रेय प्रजापतिः ।
 षट्त्रिं दशोऽम्बत्कन्या वैरुण्यामिति नः श्रुतम् ॥ १०२
 ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ।
 सप्तविंशति सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेमिने ॥ १०३
 द्वे सैव बहुपुत्राय द्वे सैवाङ्गिरसे तथा ।
 द्वे कृशाश्वाय सिद्धये तासां नामानि मे शृणु ॥ १०४
 अरुन्धती वसुर्गामिर्लम्बा भानुर्मरुत्वती ।
 सकृत्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च तादृशी ।
 धर्मकन्यो दश त्वेतास्तास्वपत्यानि मे शृणु ॥ १०५
 विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या सध्यानजायत ।
 मरुत्वत्यां मरुत्वनो वसोश्च वसवः स्मृताः ।
 भागोस्तु भानवः पुत्रा मुहूर्तायां मुहूर्तजाः ॥ १०६
 लम्बायाश्चैव घोषोऽथ नागवीथी तु यामिजा ॥ १०७
 पृथिवीविष्वधं सर्वमरुन्धत्यामजायत ।
 सकृत्पायास्तु सर्वात्या अत्रे सकृत्प एव हि ॥ १०८
 ये त्वनेकवसुप्राणदेवा ज्योतिःपुरोगमाः ।
 वसवोऽप्ये समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तारम् ॥ १०९
 आपो ध्रुवश्च सोमश्च धर्मश्चैवानिलोऽमलः ।
 प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवो नामभिः स्मृताः ॥ ११०
 आपस्य पुत्रो वैतण्ड्यः श्रमः शान्ते ध्वनिस्तथा ।
 ध्रुवस्य पुत्रो भगवान्कालो लोकप्रकल्पनः ॥ १११
 सोमस्य भगवान्चर्चा चर्चस्वी येन जायते ॥ ११२
 धर्मस्य पुत्रो द्रविणो हुतद्व्यवहस्तथा ।
 मनोहरायां शिशिरः प्राणोऽथ वरुणस्तथा ॥ ११३

तब वे सब आपसमें एक-दूसरेसे कहने लगे—'महासुनि
 नारदजी ठीक कहे हैं: हमको भी, हममें सन्देह नहीं,
 अपने माहशोंके मार्गका ही अवलम्बन करना चाहिये'
 हम भी पृथिवीका परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे'
 इस प्रकार वे भी उसी मार्गसे ममस्त दिशाओंको वलें
 गये और समुद्रगत नदियोंके समान आजतक नहीं
 लौटे ॥ १७—१९ ॥ हे द्विज! तबसे ही यदि भार्गवोंको
 खोजनेके लिये भार्गव ही जाय तो वह नष्ट हो जाता है,
 अतः विना पुरुषको ऐसा न करना चाहिये ॥ १०० ॥

महाभाग दक्ष प्रजापतिने उन पुत्रोंको भी गये जाय
 नारदजीपर बड़ा क्रोध किया और उन्हें साप
 दे दिव्य ॥ १०१ ॥ हे मैत्रेय! हमने सुना है कि फिर उस
 विद्वान् प्रजापतिने सर्गवृद्धिकी इच्छासे वैरुणोंसे साठ
 कन्याएँ लम्पन कीं ॥ १०२ ॥ उनमेंसे उन्होंने दस धर्मको,
 तेरह कश्यपको, सत्तारस सोम (चन्द्रना)—को और
 चार अरिष्टनेमिको दीं ॥ १०३ ॥ तथा दो बहुपुत्र, दो
 अंगिरा और दो कृशाश्वको विवाही। अब उनके
 नाम सुनो ॥ १०४ ॥ अरुन्धती, वसु, यामी, लम्बा, भानु,
 मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा—ये दस
 धर्मकी पत्नियाँ थीं; अब कुच इनके पुत्रोंका विवरण
 सुनो ॥ १०५ ॥ विश्वके पुत्र विश्वेदेवा थे, साध्यासे साध्यगण
 हुए, परलपतीसे मरुत्वान् और वसुसे वसुगण हुए तथा
 भानुसे भानु और मुहूर्तासे मुहूर्ताभिमानी देवगण
 हुए ॥ १०६ ॥ लम्बासे घोष, यामीसे नागवीथी और
 अरुन्धतीसे समस्त पृथिवी-विषमक श्रणी हुए तथा संकल्पासे
 सर्वादिपक संकल्पको उत्पत्ति हुई ॥ १०७—१०८ ॥

पिता प्रकारका वसु (तेज अथवा धन) ही
 जिनका श्रण है ऐसे ज्योति आदि जो आठ वसुगण
 लिखमात हैं, अब मैं उनके वंशका विस्तार बताता
 हूँ ॥ १०९ ॥ उनके नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल
 (वायु), अनल (अग्नि), प्रत्युष और प्रभास कहे जाते
 हैं ॥ ११० ॥ आपके पुत्र वैतण्ड्य, श्रम, शान्त और ध्वनि
 हुए तथा ध्रुवके पुत्र लोक-संहरक भगवान् काल
 हुए ॥ १११ ॥ भगवान् चर्चा सोमके पुत्र थे जिनसे पुरुष
 चर्चस्वी (तेजस्वी) हो जाता है और धर्मके उनकी
 भार्या मनोहरासे द्रविण, हुत एवं ह्यवह तथा शिशिर,
 श्रम और वरुण नामक पुत्र हुए ॥ ११२—११३ ॥

अनिलस्य शिष्य भार्या तस्याः पुत्रो मनोजवः ।
 अविज्ञातगतिश्चैव द्वौ पुत्रावनिलस्य तु ॥ ११४
 अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत ।
 तस्य शास्त्रो विशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठजाः ॥ ११५
 अफयं कृत्निकवनां तु कार्तिकेय इति स्मृतः ॥ ११६
 प्रत्नूवस्य विदुः पुत्रं ऋषि नाम्नाथ देवलम् ।
 द्वौ पुत्रीं देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ ॥ ११७
 बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी ।
 योगसिद्धा जगत्कृत्स्नमसक्ता विचरत्युत ।
 प्रभासस्य तु स्या भार्या वसूनामष्टमस्य तु ॥ ११८
 विश्वकर्मा महाभागस्तस्यां जज्ञे प्रजापतिः ।
 कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वर्द्धकी ॥ ११९
 भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतां वरः ।
 यः सर्वेषां विमानानि देवतानां चकार ह ।
 मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महत्तमः ॥ १२०
 तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि मे शृणु ।
 अजैकपादहिर्बुध्न्यस्त्वष्टा रुद्रश्च वीर्यवान् ।
 त्वष्टुश्चाप्यात्मजः पुत्रो विश्वरूपो महातपाः ॥ १२१
 हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्चापराजितः ।
 मृषाकर्षिश्च शम्भुश्च कपर्दी रैवतः स्मृतः ॥ १२२
 मृगव्याधश्च शर्वश्च कपाली च महामुने ।
 एकादशैते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः ।
 शतं त्वेकं समाख्यातं रुद्राणामभित्तीजसाम् ॥ १२३
 कश्यपस्य तु भार्य्यं वास्तवसानामानि मे शृणु ।
 अदितिर्दितिर्दुर्दुर्गैकारिष्ठा च सुरसा खसा ॥ १२४
 सुरभिर्विनता चैव तासां क्रोधवशा इरा ।
 कद्दुर्मुनिश्च धर्मज्ञ तदपत्यानि मे शृणु ॥ १२५
 पूर्वमन्वन्तरे श्लेष्ठा द्वादशसन्सुरोत्तमाः ।
 तुषिता नाम तेऽन्योऽन्यमूर्धुर्वैवस्वतेऽन्तरे ॥ १२६
 उपस्थितेऽनियशसश्चाशुषस्यान्तरे मनोः ।
 समवायीकृताः सर्वे समागम्य परस्परम् ॥ १२७

अनिलकी पत्नी शिष्या थी; उससे अनिलके मनोजव और अविज्ञातगति—ये दो पुत्र हुए ॥ ११४ ॥ अग्निके पुत्र कुमार शरस्तम्ब (सरकण्ठे)—से उत्पन्न हुए थे, ये कृत्तिकाओंके पुत्र होनेसे कार्तिकेय कहलाये। शास्त्र, विशाख और नैगमेय इनके छोटे भाई थे ॥ ११५—११६ ॥ देवल नामक ऋषिको प्रत्नूवका पुत्र कहा जाया है। इन देवलके भी दो क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए ॥ ११७ ॥

बृहस्पतिजीकी बहिन वरस्त्री, जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भावसे समस्त भूमण्डलमें विचरती थी, आठवें वसु प्रभासकी भार्या हुई ॥ ११८ ॥ उससे सहस्रों शिल्पों (कारोपार्यों)—के कर्ता और देवताओंके शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्माका जन्म हुआ ॥ ११९ ॥ जो समस्त शिल्पकारोंमें श्रेष्ठ और सब प्रकारके आभूषण बनानेवाले हुए तथा जिन्होंने देवताओंके सम्पूर्ण विमानोंकी रचना की और जिन महात्माकी [अविष्कृता] शिल्पविद्याके आश्रयसे बहुत-से मनुष्य जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ १२० ॥ उन विश्वकर्माके चार पुत्र थे; उनके नाम सुनो। वे अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। इनमेंसे त्वष्टाके पुत्र महतिर्दुर्गैकारिष्ठा नामके थे ॥ १२१ ॥ हे महामुने! हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शम्भु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली—ये त्रिलोकीके अधीश्वर ग्यारह उद्गृह्ये गये हैं। ऐसे सैकड़ों महादेवस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध हैं ॥ १२२—१२३ ॥

जो [दक्षकन्याएँ] कश्यपजीकी स्त्रियाँ हुई उनके नाम सुनो—वे अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, तासा, क्रोधवशा, इरा, कद्दु और मुनि थीं। हे धर्मज्ञ! अब तुम उनको सन्तानका विवरण श्रवण करो ॥ १२४—१२५ ॥

पूर्व (चाक्षुष) मन्वन्तरमें तुषिता नामक वारह श्लेष्ठा देवगण थे। ये यज्ञस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मन्वन्तरके पश्चात् वैवस्वत-मन्वन्तरके उपस्थित होनेपर एक-दूसरेके पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे— ॥ १२६—१२७ ॥

आगच्छत ब्रुतं देवा अदितिं सम्प्रविश्य वै ।
 मन्वन्तरे प्रसूयामस्तनः श्रेयो भवेदिति ॥ १२८
 एवमुक्त्वा तु ते सर्वे चाक्षुषस्यान्तरे मनोः ।
 मारीचात्वङ्मघपाञ्जाता अदित्या दक्षकन्यया ॥ १२९
 तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि ।
 अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च ॥ १३०
 विष्वस्यान्सविता चैव मित्रो वरुण एव च ।
 अंशुर्भगश्चचित्तेजा आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ १३१
 चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वमासन्वे तुषिताः सुराः ।
 वैवस्वतेऽन्तरे ते वै आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ १३२
 यः सप्तविंशतिः प्रोक्तः सोमपत्न्योऽथ सुकृताः ।
 सर्वा नक्षत्रयोगिन्यस्तनाम्यश्चैव ताः स्मृताः ॥ १३३
 तासामपत्यान्यभवन्दीप्तान्यमिततेजसाम् ।
 अरिष्टनेमिपत्नीनामपत्यानीह षोडश ॥ १३४
 बाहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृताः ॥ १३५
 प्रत्यङ्गिरसजाः श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मर्षिसत्वृताः ।
 कृशाश्वस्य तु देवर्षेर्देवप्रहरणाः स्मृताः ॥ १३६
 एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि ।
 सर्वे देवगणास्तात त्रयस्त्रिंशत्तु ऋन्द्वाजाः ॥ १३७
 तेषामपीह सततं निरोद्योत्पत्तिरुच्यते ॥ १३८
 यथा सूर्यस्य मैत्रेय उदयास्तमनाविह ।
 एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥ १३९
 दित्या पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम् ।
 हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च दुर्जयः ॥ १४०
 सिंहिका चाभवत्कन्या विप्रधितेः परिग्रहः ॥ १४१
 हिरण्यकशिपेः पुत्राश्चत्वारः प्रक्षितीजसः ।
 अनुद्वादश्वे ह्यादशच प्रह्लादश्चैव बुद्धिमान् ।
 संह्लादश्च महावीर्या दैत्ववंशविचर्द्दनाः ॥ १४२

“हे देवगण! आओ, हमलोग शीघ्र ही अदितिके गर्भमें प्रवेश कर इस वैवस्वत-मन्वन्तरमें जन्म लें, इदोर्षे हमारा हित है” ॥ १२८ ॥ इस प्रकार भाक्षुष-मन्वन्तरमें निरजपकर उन सबने मरीचिपुत्र कश्यपजीके यहाँ दक्षकन्य अदितिके गर्भसे जन्म लिया ॥ १२९ ॥ वे अति तेजस्वी उससे उचपन होकर विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विष्वस्यान्, सविता, मित्र, वरुण, अंशु और भग नामक द्वादश आदित्य कहलाये ॥ १३०-१३१ ॥ इस प्रकार पहले चाक्षुष, मन्वन्तरमें जो तुषित नामक देवगण थे वे ही वैवस्वत-मन्वन्तरमें द्वादश आदित्य हुए ॥ १३२ ॥

सोमकी जिन सैताईस सुत्रवा पत्नियोंके विषयमें पहले कह चुके हैं वे सब नक्षत्रयोगिनी हैं और उन चापीसे ही विख्यात हैं ॥ १३३ ॥ उन अति तेजस्विणियोंसे अनेक प्रतिभाराली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टनेमिकी पत्नियोंके सोलह पुत्र हुए। बुद्धिमान् बहूपुत्रकी भार्या [कपिला, अतिलोहिता, पीता और अशिता नामक] चार प्रकारकी विद्युत् कड़ी जाती हैं ॥ १३४-१३५ ॥ ब्रह्मर्षियोंसे सत्कृत ऋचाओंके अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यङ्गिरासे उत्पन्न हुए हैं तथा शास्त्रोंके अभिमानी देवप्रहरण नामक देवगण देवर्षि कृशाश्वकी सन्तान कहे जाते हैं ॥ १३६ ॥ हे तात। [आठ धनु, ग्यारह उद्ग, बारह आदित्य, प्रजापति और खण्डकार] ये तैंतीस वेदोक्त देवता अपनी इच्छानुसार जन्म लेनेवासे हैं। कहते हैं, इस लोकमें इनके उत्पत्ति और निरोध निरन्तर हुआ करते हैं। ये एक हजार युगके अनन्तर पुनः-पुनः उत्पन्न होते रहते हैं ॥ १३७-१३८ ॥ हे मैत्रेय। जिस प्रकार लोकमें सूर्यके अस्त और उदय निरन्तर हुआ करते हैं उसी प्रकार ये देवगण भी युग-युगमें उत्पन्न होते रहते हैं ॥ १३९ ॥

हमने सुना है दितिके कश्यपजीके वीर्यसे परम दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र तथा सिंहिका नामकी एक कन्या हुई जो विप्रधितिकी विधवा गयी ॥ १४०-१४१ ॥ हिरण्यकशिपुके अति तेजस्वी और महापरशुमी अनुद्वाद, ह्याद, बुद्धिमान् प्रह्लाद और संह्लाद नामक चार पुत्र हुए जो दैत्यवंशकी बढ़नेवाले थे ॥ १४२ ॥

* ज्योतिःशास्त्रमें कक्ष ई—

कक्षाय कश्यपश्च विद्युत्वातपायातिलोहिता। पीता वर्षाथ विद्वेया बुद्धिश्च विना पवेत् ॥

अर्थात् कपिल (भूते) गर्भको विजली वायु लावेवासी, अम्यन लोहित धूप भिक्षालेवाली, पीतवर्णा बुद्धि लावेवाली और शिला (ज्येष्ठा) दुर्भिक्षकी सूचना देनेवाली होती है।

तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समदृग्दर्शी ।
 प्रह्लादः परमां भक्तिं च उवाच जनादने ॥ १४३ ॥
 दैत्येन्द्रदीपितो यद्विनः सर्वाङ्गोपचितो द्विज ।
 न ददाह च यं विप्र वासुदेवे हृदि स्थिते ॥ १४४ ॥
 महार्णवान्तःसलिले स्थितस्य चलतो मही ।
 सञ्चाल सकला यस्य पाशाबद्धस्य धीमतः ॥ १४५ ॥
 न भिन्नं त्रिविधैः शस्त्रैर्व्यस्य दैत्येन्द्रपातितैः ।
 शरीरमद्रिकठिनं सर्वत्राच्युतचेतसः ॥ १४६ ॥
 विषानलोष्णलमुखा यस्य दैत्यप्रसोदिताः ।
 नान्ताय सर्पमतयो बभूवुरुरुतेजसः ॥ १४७ ॥
 शैलीराक्रान्तदेशेऽपि यः स्मरन्पुरुषोत्तमम् ।
 तत्याज नात्मनः प्राणान् विष्णुस्मरण दंशितः ॥ १४८ ॥
 पतन्तमुच्चादवनिर्यमुपेत्य महामतिम् ।
 दधार दैत्यपतिना क्षिप्तं स्वर्गनिवासिना ॥ १४९ ॥
 यस्य संशोषको वायुर्द्वै दैत्येन्द्रयोजितः ।
 अवाप सङ्क्षयं सद्यश्चित्तस्थे मधुसूदने ॥ १५० ॥
 विषाणभङ्गमुन्मत्ता मदहानिं च दिग्गजाः ।
 यस्य वक्षःस्थले प्राप्ता दैत्येन्द्रपरिणामिताः ॥ १५१ ॥
 यस्य चोत्पादिता कृत्या दैत्यराजपुरोहितैः ।
 बभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्तचेतसः ॥ १५२ ॥
 शम्बरस्य च मायानां सहस्रमतिमायिनः ।
 यस्मिन्नयुक्तं चक्रेण कृष्णस्य वितथीकृतम् ॥ १५३ ॥
 दैत्येन्द्रसूदोपहृतां यस्य हालाहलं विषम् ।
 जग्वासास मतिमानधिकारममस्सरी ॥ १५४ ॥
 समचेता जगत्यस्मिन्व्यः सर्वेष्वेव जन्तुषु ।
 यथात्मनि तथाव्येधां परं पैत्रगुणान्वितः ॥ १५५ ॥
 धर्मात्मा सत्यशौर्यादिगुणानामाकरः परः ।
 उपमानमशेषाणां साधूनां यः सदाभवत् ॥ १५६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

हे महाभाग । उनमें प्रह्लादजी सर्वत्र समदर्शी और
 जितेन्द्रिय थे, जिन्होंने श्रीविष्णुभगवान्की परम भक्तिका
 यर्गन किया था ॥ १४३ ॥ जिनको दैत्यराजद्वारा दीप्त किये
 हुए अग्निने उनके सर्वोत्तम व्याप्त शंकर भी, हृदयमें वासुदेव
 भगवान्के स्थित रहनेसे नहीं जला पाया ॥ १४४ ॥ जिन
 महाबुद्धिमान्के पाशाबद्ध होकर समुद्रके जलमें पड़े-पड़े
 दधर-उधर हिलने-डुलनेसे सारी पृथिवी हिलने लगी
 थी ॥ १४५ ॥ जिनका पर्यतके समान कठोर शरीर,
 सर्वत्र भगवच्चित्त रहनेके कारण दैत्यराजके चलाये हुए
 अस्त्र-शस्त्रोंसे भी छिन्न-भिन्न नहीं हुआ ॥ १४६ ॥
 दैत्यराजद्वारा प्रेरित विषागिनसे प्रज्वलित मुखवाले सर्प
 भी जिन महामतेजस्वीका अन्त नहीं कर सके ॥ १४७ ॥
 जिन्होंने भगवत्स्मरणरूपी कवच धारण किये रहनेके
 कारण पुरुषोत्तम भगवान्का स्मरण करते हुए पत्थरोंकी
 मार पड़नेपर भी अपने प्राणोंको नहीं छोड़ा ॥ १४८ ॥
 स्वर्गनिवासी दैत्यपतिद्वारा ऊपरसे गिराये जानेपर जिन
 महामतिको पृथिवीने पास जाकर बीचहोमें अपनी गोदमें
 धारण कर लिया ॥ १४९ ॥ चित्तमें श्रीमधुसूदनभगवान्के
 स्थित रहनेसे दैत्यराजका निमुक्त किया हुआ सबका
 शोषण करनेवाला वायु जिनके शरीरमें लगनेसे शान्त हो
 गया ॥ १५० ॥ दैत्येन्द्रद्वारा आक्रमणके लिये निमुक्त
 उन्मत्त दिग्गजोंके दौत जिनके वक्षःस्थलमें लगनेसे टूट गये
 और उनका सारा मद चूर्ण हो गया ॥ १५१ ॥ पूर्वकालमें
 दैत्यराजके पुरोहितोंकी उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन
 गोविन्दसक्तचित्त भक्तराजके अन्तका कारण नहीं हो
 सकी ॥ १५२ ॥ जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति
 मायावी शम्बरासुरकी हजारों मायारें श्रीकृष्णचन्द्रके
 चक्रसे व्यर्थ हो गयीं ॥ १५३ ॥ जिन मतिमान् और
 निर्मत्सरने दैत्यराजके रसोइमोंके लाने हुए हालाहल
 विषको निर्विकार-भावसे पच लिया ॥ १५४ ॥ जो इस
 संसारमें समस्त प्राणियोंके प्रति सभान्वित और अपने
 समान ही दूसरोंके लिये भी परमप्रेमयुक्त थे ॥ १५५ ॥ और
 जो परम धर्मात्मा महापुरुष, सत्य एवं शौर्य आदि
 गुणोंको खानि तथा समस्त साधु-पुरुषोंके लिये
 उपमानस्वरूप हुए थे ॥ १५६ ॥

सोलहवाँ अध्याय

नृसिंहावतारविषयक प्रश्न

श्रीमंत्रेय उवाच

कथितो भवता संशो मानवानां महात्मनाम् ।
 कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः ॥ १
 घत्सेतद् भगवानाह प्रह्लादं दैत्यसत्तमम् ।
 ददाह नागिनर्त्तकैश्च क्षुण्णस्तत्याज जीधितम् ॥ २
 जगाम वसुधा ध्रुवं यत्राब्धिसलिले स्थिते ।
 पार्श्वेऽब्दे विचलति विक्षिप्ताङ्गुः समाह्लात् ॥ ३
 शैलैराक्रान्तदेहोऽपि न ममार च यः पुरा ।
 स्वया चातीव माहात्म्यं कथितं यस्य धीमतः ॥ ४
 तस्य प्रभावमतुलं विष्णोर्भक्तिमतो मुने ।
 श्रोतुमिच्छामि यस्यैतच्चरितं दीप्ततेजसः ॥ ५
 किन्निमित्तमसौ शस्त्रैर्विद्विष्यतो दितिर्मुने ।
 किमर्थं चाब्धिसलिले विद्विष्यतो धर्मतत्परः ॥ ६
 आक्रान्तः पर्वतैः कस्माद्दृष्टश्चैव महोरगैः ।
 क्षिप्तः किमद्रिशिखरातिकं वा पादकसम्बन्धे ॥ ७
 दिग्दन्तिनां दन्तधूमिं स च कस्मान्निरूपितः ।
 संशोषकोऽभिलक्ष्णास्य प्रयुक्तः किं महासुरैः ॥ ८
 कृत्यां च दैत्यगुरुषो युयुजुस्तत्र किं मुने ।
 शम्बरश्चापि पायानां सहस्रे किं प्रयुक्तवान् ॥ ९
 हालाहलं विषमहो दैत्यसुदैर्महात्मनः ।
 कस्माद्दत्तं विनाशाय यज्जीर्णं तेन धीमता ॥ १०
 एतत्सर्वं महाभाग प्रह्लादस्य महात्मनः ।
 चरितं श्रोतुमिच्छामि महामाहात्म्यसूत्रकम् ॥ ११
 न हि कीर्तुहलं तत्र यदैत्यैर्न हतो हि सः ।
 अनन्ययत्नसो विष्णोः कः समर्थो निपातने ॥ १२
 तस्मिन्धर्मपरे नित्यं केशवाराधनोद्यते ।
 स्ववंशप्रभवेदैत्यैः कृतो द्वेषोऽतिदुष्करः ॥ १३
 धर्मात्मनि महाभागे विष्णुभक्ते विमत्सरे ।
 दैतेवैः प्रहृतं कस्मात्तन्माख्यातुमर्हसि ॥ १४

श्रीमंत्रेयजी बोले— आपने महात्मा मनुष्योंके वंशोत्थ वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत्के लनकर कारण भगवान् विष्णु ही हैं । १ ॥ किन्तु भगवान्! अपने जो कहा कि दैत्यश्रेष्ठ प्रह्लादजीको न तो अग्निने ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र-शस्त्रोंसे आघात किये जानेपर ही अपने प्रणोंको छोड़ा ॥ २ ॥ तथा पाराशर्य छोकर समुद्रके जलमें पड़े रहनेपर उनके हिलते-डुलते हुए अंगोंसे आला होकर पृथिवी द्रगम्गाने लगी ॥ ३ ॥ और शरीरपर पत्थरोंको खींचार पड़नेपर भी वे नहीं परे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान् आदमों ने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है ॥ ४ ॥ हे मुने! जिन अति शैशवी महात्माके ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णुभक्तका अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ ॥ ५ ॥ हे मुनिवर! वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे; फिर दैत्योंने उन्हें क्यों अस्त्र-शस्त्रोंसे पीड़ित किया और क्यों समुद्रके जलमें डाला ? ॥ ६ ॥ उन्होंने किसलिये उन्हें पर्वतोंसे दवाया ? किस कारण सर्पोंसे डँसाया ? क्यों पर्वतशिखरसे गिराया और क्यों अग्निमें डलवाया ? ॥ ७ ॥ उन महादैत्योंने उन्हें दिग्गर्भोंके दाँतोंसे क्यों कूँघवाया और क्यों सर्व शोषक वायुको उनके लिये नियुक्त किया ? ॥ ८ ॥ हे मुने! उनपर दैत्यगुरुओंने किसलिये कृत्याका प्रयोग किया और शम्बरसुरने क्यों अपनी सहस्रों मायःओंका वार किया ? ॥ ९ ॥ उन महात्माके मारनेके लिये दैत्यराजके रसोइयोंने, जिसे वे महाबुद्धिमान् पचा गये थे ऐसा हालाहल विष क्यों दिया ? ॥ १० ॥

हे महाभाग! महात्मा प्रह्लादका यह सम्पूर्ण चरित्र, जो उनके महान् माहात्म्यका सूत्रक है, मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ११ ॥ यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्यभावसे भगवान् विष्णुमें लगा हुआ है उसको भला कौन मार सकता है ? ॥ १२ ॥ [आश्चर्य तो इसीका है कि] जो नित्यधर्मपरायण और भगवद्भक्तधर्ममें तत्पर रहते थे, उनके जो कुलमें उत्पन्न हुए दैत्योंने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया! [क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्मभक्त पुरुषोंसे तो किसीका भी द्वेष होना अत्यन्त कठिन है] ॥ १३ ॥ उन धर्मात्मा, महाभाग, मत्सरहीन विष्णु-भक्तको दैत्योंने किस कारणसे इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिये ॥ १४ ॥

प्रहृन्ति महात्मानो विपश्चा अपि नेदृशे ।
गुणैस्समन्विते साथी किं पुनर्यः स्वपक्षजः ॥ १५ ॥
तदेतत्कथ्यतां सर्वं विस्तरान्मुनिपुङ्गव ।
दैत्येश्वरस्य चरितं श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥ १६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सत्रहवाँ अध्याय

हिरण्यकशिपुका दिग्विजय और प्रह्लाद-चरित

श्रीपरशर उवाच

मैत्रेय श्रूयतां सम्यक् चरितं तस्य भीमतः ।
प्रह्लादस्य सदोदारचरितस्य महात्मनः ॥ १ ॥
दितेः पुत्रो महावीर्यो हिरण्यकशिपुः पुरा ।
त्रैलोक्यं यशमानिन्ये ब्रह्मणो वरदर्पितः ॥ २ ॥
इन्द्रत्वमकरोर्ह्यस्यः स चासीत्सविता स्वयम् ।
घायुरग्निरयो नाश्रः सोमश्चाभून्महासुरः ॥ ३ ॥
धनानामधिपः सोऽभूत्स एवासीत्स्वयं यमः ।
यज्ञभागानशेषांस्तु स स्वयं बुभुजेऽसुरः ॥ ४ ॥
देवाः स्वर्गं परित्यज्य तत्रासान्मुनिसत्तम ।
विषेरुरखनी सर्वे विधाणा मामूर्धो तनुम् ॥ ५ ॥
जित्वा त्रिभुवनं सर्वं त्रैलोक्येश्वर्यदर्पितः ।
उपगीयमानो गन्धर्वैर्बुभुजे विषयान्प्रिवान् ॥ ६ ॥
पानासक्तं महात्मानं हिरण्यकशिपुं तदा ।
उपासान् चक्रिरे सर्वे सिद्धगन्धर्वपन्नगाः ॥ ७ ॥
अवाद्यन् जगुश्चान्ये जयशब्दं तथापरे ।
दैत्यराजस्य पुरतश्चक्रुः सिद्धा मुदान्विताः ॥ ८ ॥
तत्र प्रनृत्ताप्सरसि स्काटिकाधमयेऽसुरः ।
पथो पानं मुदा युक्तः प्रासादे सुमनोहरे ॥ ९ ॥
तस्य पुत्रो महाभागः प्रह्लादो नाम नामतः ।
पपाट बालपाठशानि गुरुगेहङ्गतोऽर्भकः ॥ १० ॥
एकदा तु स धर्मात्मा जगाम गुरुणा सह ।
पानासक्तस्य पुरतः पितुर्दैत्यपतेस्तदा ॥ ११ ॥

महात्प्रलोग तो ऐसे गुण-सम्पन्न साथी पुरुषोंके विपत्ती होनेपर भी उनपर किसी प्रकारका प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्षमें होनेपर तो कहना ही क्या है? ॥ १५ ॥ इसलिये हे मुनिश्रेष्ठ । यह सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । मैं उन दैत्यराजका सम्पूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ ॥ १६ ॥

श्रीपरशरजी बोले—हे मित्रेय ! उन सर्वदा उदारचरित परमबुद्धिमान् महात्मा प्रह्लादजीका चरित्र तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो ॥ १ ॥ पूर्वकालमें दितिके पुत्र महाबली हिरण्यकशिपुने ब्रह्माजीके वरसे गर्वयुक्त (सशक्त) होकर सम्पूर्ण त्रिलोकियोंको अपने वशीभूत कर लिया था ॥ २ ॥ वह दैत्य इन्द्रपदका भोग करता था । वह महान् असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, यरुण और चन्द्रमा बना हुआ था ॥ ३ ॥ वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही सम्पूर्ण यज्ञ-भागोंको भोगता था ॥ ४ ॥ हे मुनिसत्तम ! उसके भयसे देवाण स्वर्गको छोड़कर मनुष्य-शरीर धारणकर भूपण्डलमें विचलते रहते थे ॥ ५ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण त्रिलोकियोंको जीतकर त्रिभुवनके अधिपति बनकर रहने लगा और गन्धर्वोंसे अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने उभोष्ट भोगोंको भोगता था ॥ ६ ॥

उस समय उस मद्यपानासक्त महाकाय हिरण्यकशिपुकी ही समस्त सिद्ध, गन्धर्व और नाग आदि उपासना करते थे ॥ ७ ॥ उस दैत्यराजके सामने कोई सिद्धगण तो बाधे शक्तीकर उसका मनोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जयजयकार करते ॥ ८ ॥ तथा वह असुरराज वहाँ स्मटिक एवं अश्र-शिलाके बने हुए मनोहर महलमें, जहाँ अप्सराओंका उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नताके साथ मद्यपान करता रहता था ॥ ९ ॥ उसका प्रह्लाद नामक महाभाग्यवान् पुत्र था । वह बालक पुरुषके यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा ॥ १० ॥ एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजीके साथ अपने पिता दैत्यराजके पास गया जो उस समय मद्यपानमें लगा हुआ था ॥ ११ ॥

पादप्रणामाचनतं तमुत्थाप्य पिता सुतम् ।
हिरण्यकशिपुः प्राह प्रह्लादममितीक्षसम् ॥ १२

हिरण्यकशिपुत्वाच्च

पक्वतां भवता वत्स सारभूतं सुभाषितम् ।
कालेनैतावता यत्ते सदोद्युक्तेन शिक्षितम् ॥ १३

प्रह्लाद उवाच

श्रुयतां तां वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया ।
समाहितमना भूत्वा धन्मे चेतस्यवस्थितम् ॥ १४
अनादिमध्यान्तमजमवृद्धिक्षयमच्युतम् ।
प्रणतोऽस्म्यन्तसन्तानं सर्वकारणकारणम् ॥ १५

श्रीपराशर उवाच

एतन्निशाम्य दैत्येन्द्रः सकोपो रक्तलोचनः ।
विलोक्य तद्गुरुं प्राह स्फुरिताधरपल्लवः ॥ १६

हिरण्यकशिपुत्वाच्च

ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षस्तुतिसंहितम् ।
असारं ग्राहितो बालो मामवज्ञाय दुर्मते ॥ १७

गुरुत्वाच्च

दैत्येश्वर न क्रोपस्य वशमागन्तुमर्हसि ।
मयोपदेशजनितं नायं वदति ते सुतः ॥ १८

हिरण्यकशिपुत्वाच्च

अनुशिष्योऽसि केनेदृग्वत्स प्रह्लाद कथ्यताम् ।
मयोपदिष्टं नेत्येष प्रब्रवीति गुरुस्त्वव ॥ १९

प्रह्लाद उवाच

शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः ।
तमुते परमात्मानं तात कः केन शास्यते ॥ २०

हिरण्यकशिपुत्वाच्च

कोऽयं विष्णुः सुदुर्बुद्धे यं ब्रवीषि पुनः पुनः ।
जगतामीश्वरस्यैह पुरतः प्रसभं मम ॥ २१

प्रह्लाद उवाच

न शब्दगोचरं यस्य योगिष्येयं परं पदम् ।
यत्ते अज्ञ स्वयं विश्वं स विष्णुः परमेश्वरः ॥ २२

हिरण्यकशिपुत्वाच्च

परमेश्वरसंज्ञोऽज्ञ किमन्यो मय्यवस्थिते ।
तथापि मर्तुकामस्त्वं प्रब्रवीषि पुनः पुनः ॥ २३

तत्र अपने चरणोंमें लुके हुए अपने परम तेजस्वी
पुत्र प्रह्लादजीको उठकर पिता हिरण्यकशिपुने कहा ॥ ११ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—वत्स! अबतक अभ्यन्तमें
निरन्तर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसको
सारभूत शुभ भाषण होने सुनाओ ॥ १३ ॥

प्रह्लादजी बोले—पिताजी। मेरे मनमें जो सबके
सारांशरूपसे स्थित है वह मैं आपको आज्ञानुसार सुनाता
हूँ, सावधान होकर सुनिये ॥ १४ ॥ जो आदि, मध्य
और अन्तसे रहित, अजन्मा, वृद्धि-क्षय शून्य और
अच्युत है, समस्त कारणोंके कारण तथा जगत्के स्थिति
और सन्तकता उन श्रीहरिकों में प्रणाम करता हूँ ॥ १५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—यह सुन दैत्यराज
हिरण्यकशिपुने क्रोधसे नेत्र लाल कर प्रह्लादके गुरूको
ओर देखकर कांपते हुए ओठोंसे कहा ॥ १६ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—रे दुर्बुद्धि ब्रह्मणाधम!
यह क्या? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालकको मेरे
विपक्षीकी स्तुतिसे युक्त असार शिक्षा दी है ॥ १७ ॥

गुरुजीने कहा—दैत्यराज! आपको क्रोधके बरिभूव
न होना चाहिये। आपका यह पुत्र मेरी सिखायी हुई बात
नहीं कह रहा है ॥ १८ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—मेटा प्रह्लाद! यताओ तो
तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कल्लो
हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया नहीं है ॥ १९ ॥

प्रह्लादजी बोले—पिताजी! इदयमें स्थित भगवान्
विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्के उपदेशक हैं। उन
परमात्माको छोड़कर और कौन किलीके कुछ सिखा
सकता है? ॥ २० ॥

हिरण्यकशिपु बोला—अरे मूर्ख! जिस विष्णुका
तू मुझ जगदीश्वरके सामने घृष्टतापूर्वक निशंका होकर
आरम्भ्यार वर्णन करता है, वह कौन है? ॥ २१ ॥

प्रह्लादजी बोले—योगियोंके ध्यान करनेकोप्य
जिसका परमपद जाणोका विषय नहीं हो सकता तथा
जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप
है वह परमेश्वर ही विष्णु है ॥ २२ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—अरे मूढ़! मेरे रहते हुए
और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी
तू भीतके मुखमें जानेकी इच्छासे बारम्बार ऐसा बक
रहा है ॥ २३ ॥

प्रह्लाद उवाच

न केवलं तात भमं प्रजानां
स ब्रह्मभूतो भवतश्च विष्णुः ।
धाता विधाता परमेश्वरश्च
प्रसीद कोपं कुरुषे किमर्थम् ॥ २४

हिरण्यकशिपुकथा

प्रविष्टः कोऽस्य हृदये दुर्बुद्धेरतिपापकृत् ।
येनेदृशान्यसाधूनि चदत्याविष्टमानसः ॥ २५

प्रह्लाद उवाच

न केवलं मदहृदयं स विष्णु-
रक्ष्म्य लोकानखिलानयस्थितः ।
स मां त्वदादींश्च पितस्ममस्ता-
न्मसन्नचेष्टासु युनक्ति सर्वगः ॥ २६

हिरण्यकशिपुकथा

निष्कास्यतामयं पापः शास्यतां च गुरोर्गृहे ।
योजितो दुर्मतिः केन विपक्षविषयस्तुतौ ॥ २७

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तोऽसी तदा दैत्यैर्नीतो गुरुर्गृहं पुनः ।
जग्राह विद्यामनिशं गुरुशुश्रूषणोद्यतः ॥ २८
कालेऽतीतेऽपि महति प्रह्लादमसुरेश्वरः ।
समाहूयाश्रयीद्गात्रा काञ्चित्पुत्रक गीयताम् ॥ २९

प्रह्लाद उवाच

यतः प्रधानपुरुषौ यतश्चैतच्चराचरम् ।
कारणं सकलस्यास्य स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥ ३०

हिरण्यकशिपुकथा

दुरात्मा वध्यतामेष नानेनार्थोऽस्ति जीवता ।
स्वपक्षहानिकर्तृत्वाद्यः कुलाङ्गारतां गतः ॥ ३१

श्रीपराशर उवाच

इत्याज्ञप्तास्तस्तेन प्रगृहीतमहायुधाः ।
उद्यतास्तस्य नाशाय दैत्याः शतसहस्रशः ॥ ३२

प्रह्लाद उवाच

विष्णुः शस्त्रेषु सुष्मासु भूमि च्यसी व्यनस्थितः ।
दैतेयास्तेन सत्येन पाक्वमन्वायुधानि मे ॥ ३३

प्रह्लादजी बोले—हे तात। वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियन्ता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइये, प्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? २४ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालकके हृदयमें घुस बैठा है जिससे आविष्टचित्त होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है? २५ ॥

प्रह्लादजी बोले—पिताजी! ये विष्णुभगवान् तो मेरे ही हृदयमें नहीं, बल्कि सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित हैं। ये सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियोंको अपनी-अपनी चेष्टाओंमें प्रवृत्त करते हैं ॥ २६ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—इस पापीको यहाँसे निकालो और गुरुके यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मतिको न जाने किसने घेर विपक्षीकी प्रशंसामें नियुक्त कर दिया है? २७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—उसके ऐसा करनेपर दैत्यगण उस बालकको फिर गुरुजीके यहाँ ले गये और वे वहाँ गुरुजीकी रात-दिन भली प्रकार सेवा-शुश्रूषा करते हुए विद्याध्ययन करने लगे ॥ २८ ॥ बहुत काल व्यतीत हो जानेपर दैत्यराजने प्रह्लादजीको फिर बुलाया और कहा—'बेटा! आज कोई गाथा (कथा) सुनाओ' ॥ २९ ॥

प्रह्लादजी बोले—मिनसे प्रधान, पुरुष और यह चराचर जगत् उत्पन्न हुआ है वे सकल प्रपंचके कारण श्रीविष्णुभगवान् हमपर प्रसन्न हों ॥ ३० ॥

हिरण्यकशिपु बोला—अरे! यह बड़ा दुरात्मा है। इसको मार डालो; अब इसके जीनेसे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्षकी हानि करनेवाला होनेसे यह तो अपने कुलके लिये अंगाररूप हो गया है ॥ ३१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—उसकी ऐसी आज्ञा होनेपर सैकड़ों-हजारों दैत्यगण बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र लेकर उन्हें मारनेके लिये तैयार हुए ॥ ३२ ॥

प्रह्लादजी बोले—अरे दैत्यो! भगवान् विष्णु तो शस्त्रोंमें, शुभलोकोमें और मुझमें—सर्वत्र ही स्थित हैं। इस सत्यके प्रभावसे इन अस्त्र-शस्त्रोंका घेर ऊपर कोई प्रभाव न हो ॥ ३३ ॥

श्रीपराशर उवाच

ततस्तैश्शतशो दैतैः शस्त्राघैराहृतोऽपि सम् ।
नाथाप वेदनामल्पामभूच्चैव पुनर्नवः ॥ ३४

हिरण्यकशिपुस्त्वाच

दुर्बुद्धे विनिवर्तस्व वैरिपक्षस्तथादतः ।
अभयं ते प्रयच्छामि मातिमूढमतिर्भव ॥ ३५

प्रह्लाद उवाच

भयं भयानामपहरिणि स्थिते
भनस्वनन्ते मम कुत्र तिष्ठति ।

यस्मिन्समृते जन्मजरान्ताकादि-
भयानि सर्वाण्यपयानि तात ॥ ३६

हिरण्यकशिपुस्त्वाच

भो भो सर्पाः दुराचारमेनमत्यन्तदुर्मतिम् ।
विषप्यालाकुर्वीर्यवैः सद्यो नयत सहस्रयम् ॥ ३७

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तास्ते ततः सर्पाः कुहकास्तक्षकादयः ।
अदृशन्त समस्तेषु गात्रेष्वतिविषोत्सवाणाः ॥ ३८

स त्वासरुमतिः कृष्णे दृश्यमानो महोरगैः ।
न विवेदात्मनो गात्रं तन्स्मृत्याह्लादसुस्थितः ॥ ३९

सर्पा ऊचुः

दंष्ट्रा क्षिणीर्णा मणयः स्फुटन्ति
फणेषु तापो हृदयेषु कम्पः ।

भास्य त्वच्चः स्वल्पमपीह भिन्नं
प्रशाधि दैत्येश्वर कार्यमन्यत् ॥ ४०

हिरण्यकशिपुस्त्वाच

हे दिग्गजाः सङ्कटदन्तमिश्रा
ज्जतैनमस्मद्रिपुपक्षभिन्नम् ।

तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य
यशःउरपोः प्रच्यलितो हुताशः ॥ ४१

श्रीपराशर उवाच

ततः स दिग्गजांशालो भूभुच्छिखरसन्निभैः ।
पातितो धरणीपृष्ठे विषाणैर्वावपीडितः ॥ ४२

स्मरतस्तस्य गोविन्द्मिभदन्ताः सहस्रशः ।
शीर्णा वक्षःस्थले प्राण्य स प्राह पितरं ततः ॥ ४३

श्रीपराशरजी बोले—तब तो उन सैकड़ों दैत्योंके शस्त्र-समूहका आघात होनेपर भी उनको तनिक-सी भी वेदना न हुई. वे फिर भी ज्यों-के-त्यों नवीन बल-सम्पन्न हो रहे ॥ ३४ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—हे दुर्बुद्धे! अब तु विपक्षीकी स्तुति करना छोड़ दे; जा, मैं तुझे अभयदान देता हूँ. अब और अधिक नादान मत हो ॥ ३५ ॥

प्रह्लादजी बोले—हे तात! जिनके स्मरणमात्रसे जन्म, जरा और मृत्यु आदिके चपरा भय दूर से जाते हैं, उन सकल-भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थिर रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है ॥ ३६ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—अरे सर्पो! इस अत्यन्त दुर्बुद्धि और दुराचारीको अपने विषागिन-सन्तान मुखसे काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो ॥ ३७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसी आज्ञा होनेपर अतिक्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पोंने उनके समस्त अंगोंमें काट ॥ ३८ ॥ किन्तु उन्हें तो श्रीकृष्णवन्दनमें ओसकषित रहनेके कारण भगवत्स्मरणके भरमानन्दमें डूले रहनेसे उन महासर्पोंके काटनेपर भी अपने शरीरकी कोई सुधि नहीं हुई ॥ ३९ ॥

सर्प बोले—हे दैवराज! देखो, हमारी दाँवें टूट गयीं, पाँगियाँ चटखने लगीं, फणोंमें पीड़ा होने लगी और हृदय काँपने लगा, तथापि इसको त्वचा ही जरा भी नहीं कटी। इसलिये अब आप हमें कोई और कार्य बताइये ॥ ४० ॥

हिरण्यकशिपु बोला—हे दिग्गजो! तुम सब अपने संकीर्ण दंतोंको मिलाकर मेरे शत्रु-पक्षधरी [अहंकार] मुखसे विमुख किये हुए इस बोलकको मार डालो। देखो, जैसे अरणोंसे उत्पन्न हुआ अग्नि उसीकी बला डालता है उसी प्रकार फोड़-फोड़ जिससे उत्पन्न होते हैं उसीके नाश करनेवाले से जाते हैं ॥ ४१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब पर्वत-शिखरके समान विशालकाय दिग्गजोंने उस बालकको पृथिवीपर पटककर अपने दंतोंसे खूब टँपा ॥ ४२ ॥ किन्तु श्रीगोविन्दका स्मरण करते रहनेसे हाथियोंके हजारों दंत उनके यक्ष-स्थलसे टककर टूट गये; तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपुसे कहा— ॥ ४३ ॥

दन्ता गजानां कुलिशाग्रनिष्ठुराः

शीर्षां घृतेते न बलं ममैतत् ।

महाविपत्तापविनाशनोऽयं

जनार्दनानुस्मरणानुभासः ॥ ४४

हिरण्यकशिपुरुवाच

श्वाल्घ्यतामसुरा वह्निरपसर्पत दिग्गजाः ।

याद्यो समेधयाग्निं त्वं दह्यतामेघ पापकृत् ॥ ४५

श्रीपराशर उवाच

मह्यकाष्ठचयस्थं तमसुरेन्द्रसुतं ततः ।

प्रञ्चाल्य दानवा वह्निं ददद्भुः स्वामिनोदिताः ॥ ४६

प्रह्लाद उवाच

तातैष वह्निः पवनेरितोऽपि

न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम् ।

पश्यामि पयास्तरणास्तूतानि

शीतानि सर्वाणि दिशाम्पुखानि ॥ ४७

श्रीपराशर उवाच

अथ दैत्येश्वरं प्रोचुर्भागवस्यात्मजा द्विजाः ।

पुरोहिता मह्यत्मानः साध्ना संस्तूय वाग्मिनः ॥ ४८

पुरोहिता ऊचुः

राजन्नियम्यतां कोपो बालेऽपि तनये निजे ।

कोपो देवनिष्कायेषु तेषु ते सफलो यतः ॥ ४९

तथातथैवं बालं ते शासितारो वयं नृप ।

यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति ॥ ५०

बालत्वं सर्वदोषाणां दैत्यराजास्पदं यतः ।

ततोऽत्र कोपमत्वर्थं योक्तुमर्हसि नार्थके ॥ ५१

न त्यक्ष्यति हरेः पक्षमस्माकं वचनाद्यदि ।

ततः कृत्यां वधाद्यस्य करिष्यामोऽनिवर्तिनीम् ॥ ५२

श्रीपराशर उवाच

एवमभ्यर्क्षितस्तेस्तु दैत्यराजः पुरोहितैः ।

दैतैर्निष्कास्यामास पुत्रं पाषकसञ्जयात् ॥ ५३

ततो गुरुगृहे बालः स वसन्बालदानवान् ।

अध्यापयामास मुहुरुपदेशान्तरे गुरोः ॥ ५४

“ये जो हाथियोंके बज्रके समान कठोर दौत दूट गये हैं इसमें मेरा कोई बल नहीं है; यह तो श्रीजनार्दन-भागवान्के महाविपत्ति और क्लेशोंके नष्ट करनेवाले स्मरणका ही प्रभाव है” ॥ ४४ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—अरे दिग्गजो! तुम हट जाओ। दैत्यगण! तुम अग्नि जलाओ, जीर है यामु। तुम अग्निको प्रज्वलित करो जिससे इस पापीको जला डाला जाय ॥ ४५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब अपने स्वामीकी आज्ञासे दानवगण काष्ठके एक बड़े ढेरमें स्थित उस असुर राजकुमारकी अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे ॥ ४६ ॥

प्रह्लादकी बोले—हे तत! पवनसे प्रेरित हुआ भी यह अग्नि पुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिले हुए हों ॥ ४७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर, गुरुजनोंके पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा [षण्ढामर्क आदि] पुरोहितगण सामनीतिसे दैत्यगणको बड़ाई करते हुए बोले ॥ ४८ ॥

पुरोहित बोले—हे राजन्! अपने इस बालक पुत्रके प्रति अपना क्रोध शान्त कीजिये; आपको तो देवताओंपर ही क्रोध करना चाहिये, क्योंकि उसकी सफलता तो चर्चा है ॥ ४९ ॥ हे राजन्। हम आपके इस बालकको ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्षके नाशका कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जायगा ॥ ५० ॥ हे दैत्यराज! बाल्यावस्था तो सब प्रकारके दोषोंका आश्रय होती ही है, इसलिये आपको इस बालकपर अत्यन्त क्रोधका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ५१ ॥ यदि हमारे कहनेसे भी यह विष्णुका पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करनेके लिये किसी प्रकार न टलनेवाली कृत्या उत्पन्न करेंगे ॥ ५२ ॥

श्रीपराशरजीने कहा—पुरोहितोंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दैत्यगणने दैत्योंका प्रह्लादको अग्निसमूहसे बाहर निकलवाया ॥ ५३ ॥ फिर प्रह्लादकी, गुरुजनोंके यहाँ रहते हुए उनके पक्ष। चुकनेपर अन्य दानवकुमारोंकी शार-जार उपदेश देने लगे ॥ ५४ ॥

प्रज्ञाद उवाच

श्रूयतां परमार्थो मे दैतेषा दितिजात्मजाः ।
 न चान्यधैतन्मन्तव्यं नात्र लोभादिकारणम् ॥ ५५ ॥
 जन्म बाल्यं ततः सर्वो जन्तुः प्राप्नोति यौवनम् ।
 अख्याहृतैव भवति ततोऽनुदिवसं जराम् ॥ ५६ ॥
 ततश्च मृत्युमभ्येति जन्तुर्दैत्येश्वरात्मजाः ।
 प्रत्यक्षं दुश्यते चैतदस्माकं भवतां तथा ॥ ५७ ॥
 मृतस्य च पुनर्जन्म भवत्येतच्च नान्यथा ।
 आगमोऽयं तथा यच्च नोपादानं विनोद्धवः ॥ ५८ ॥
 गर्भवासादि यावत् पुनर्जन्मोपपादनम् ।
 समस्तावस्थकं तावद्दुःखमेवावगम्यताम् ॥ ५९ ॥
 क्षुत्पृष्णोपशर्मं तद्वृक्षरीताद्युपशर्मं सुखम् ।
 मन्यते बालबुद्धित्वाद्दुःखमेव हि तत्पुनः ॥ ६० ॥
 अत्यन्तस्तिमिताङ्गानां व्याधामेन सुखैधिणाम् ।
 भ्रान्तिज्ञानायुक्तगङ्गाणां दुःखमेव सुखायते ॥ ६१ ॥
 क्व शरीरप्रशेषाणां श्लेष्मादीनां मह्यत्रयः ।
 क्व कान्तिशोभासौन्दर्यमणीयादयो गुणाः ॥ ६२ ॥
 मांसासृक्पूयविष्णुमूत्रस्नायुमभ्यास्थिसंहतौ ।
 देहे चेत्प्रीतिमान् मूढो भविता नरकेऽप्यसौ ॥ ६३ ॥
 अग्नेः शीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा ।
 क्रिधते सुखकर्तृत्वं तद्विलोपस्य चेतारैः ॥ ६४ ॥
 करोति हे दैत्यसुता थावन्धात्रं परिग्रहम् ।
 तावन्धात्रं स एवास्य दुःखं चेतसि यच्छति ॥ ६५ ॥
 यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान् ।
 तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कयः ॥ ६६ ॥
 यद्यद्गृहे तन्मनसि यत्र तन्नावतिष्ठतः ।
 नाशादाद्येपकारणं तस्य तत्रैव तिष्ठति ॥ ६७ ॥

प्रज्ञादजी बोले—हे दैत्यकुलान्तपन्न असुर-बालको! सुने, मैं तुम्हें परमार्थको उपदेश करता हूँ, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहनेमें किसी प्रकारका लोभदि कारण नहीं है ॥ ५५ ॥ सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात् दिन-दिन वृद्धावस्थाकी प्राप्ति भी अनिवार्य ही है ॥ ५६ ॥ और हे दैत्यराजकुमारो! फिर यह जीव मृत्युके मुखों परला जाता है, यह तम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ५७ ॥ परदेपर पुनर्जन्म होता है, यह निमग्न भी कभी नहीं उल्टा। इस विषयमें [भ्रुति-स्मृतिरूप] व्याप भी प्रमाण है कि बिना उपादानके कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती ॥ ५८ ॥ पुनर्जन्म ऊपर जगत्नेवाली गर्भवास अवधि जिसकी अवस्थाएँ हैं उन सबको दुःखरूप ही जानो ॥ ५९ ॥ मनुष्य मूर्खतावश क्षुण्ण, तृष्णा और शोभादिके शान्तिके सुख माके हैं, परन्तु वास्तवमें तो वे दुःखमान हो हैं ॥ ६० ॥ जिनका शरीर [वातादि दोषसे] अत्यन्त शिथिल हो जाता है उन्हें जिस प्रकार व्याधामे सुखप्रद प्रतीत होता है उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रान्तिलानसे ढँकी हुई है उन्हें दुःख ही सुखरूप जान पड़ता है ॥ ६१ ॥ अहो! कर्तुं तो कफ आदि पलायुणित पदार्थोंका संपूर्णरूप शरीर और कहीं कान्ति, शोभा, सौन्दर्य एवं मणीयता आदि दिव्य गुण ? [तथापि मनुष्य इस पृथिव्य शरीरमें कान्ति आदिका आरोप कर सुख मानने लगता है] ॥ ६२ ॥ यदि किसी मूढ़ पुरुषको मांस, रुधिर, रीच, विच्छा, मूत्र, स्नायु, मण्डा और अवस्थियोंके संपूर्णरूप इस शरीरमें प्रीति हो सकती है तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है ॥ ६३ ॥ अग्नि, जल और भात क्रमशः शीत, तृषा और क्षुधाके कारण ही सुखकारी होते हैं और इनके प्रतियोगो जल आदि भी अपनेसे विन आग्नि आदिके कारण ही सुखके हेतु होते हैं ॥ ६४ ॥

हे दैत्यकुमारो! विषयोंका जितना-जितना संग्रह किया जाता है उतना-उतना ही वे मनुष्यके चित्तमें दुःख बढ़ते हैं ॥ ६५ ॥ जीव अपने मनको प्रिय लगानेवाले जितने ही सम्बन्धोंको बढाता जाता है उतने ही उसके हृदयमें शोकरूपी शाल्य (कटि) स्थिर होते जाते हैं ॥ ६६ ॥ घरमें जो कुछ धन धान्यादि होते हैं मनुष्यके बर्तुं-तर्तुं (परदेशमें) रहनेपर भी वे पदार्थ उसके चित्तमें बने रहते हैं, और उनके बाल और दाह आदिके सम्मश्री भी उसीमें मौजूद रहती है। [अर्थात् भ्रममें स्थित पदार्थोंके सुरक्षित रहनेपर भी मनःस्थिति पदार्थोंके नाश अवस्थाकी भावनासे पदार्थ-नाशका दुःख प्राप्त हो जाता है] ॥ ६७ ॥

* यह पुनर्जन्म होनेमें भ्रुति है क्योंकि जयपक पुन-जन्मके किये हुए तृषाद्युप कर्मरूप कारकका होने न पड़ना बाप हस्तक बर्तव्य जन्म भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार, जय इस जन्ममें तृषाद्युपका आरम्भ हुआ है तो दाहका जन्ममें पुनर्जन्म भी अवश्य होगा।

जन्मन्यत्र महद्दुःखं श्रियमाणस्य चापि तत् ।
 वातनासु घमस्योयं गर्भसङ्क्रमणेषु च ॥ ६८
 गर्भेषु सुखलेशोऽपि भवद्विरनुमीयते ।
 यदि तत्कथ्यतामेवं सर्वं दुःखमयं जगत् ॥ ६९
 तदेवमतिदुःखानामास्पदेऽत्र भवार्णवे ।
 भवतां कथ्यते सत्यं विष्णुरेकः परायणः ॥ ७०
 मा जानीत अयं आत्मा देही देहेषु शाश्वतः ।
 जरायीवनजन्माद्या धर्मा देहस्य नात्मनः ॥ ७१
 बालोऽहं तावदिच्छतो यतिष्ये श्रेयसे युवा ।
 युवाहं बाल्ये प्राप्ते करिष्याम्यात्मनो हितम् ॥ ७२
 वृद्धोऽहं भव कार्याणि समस्तानि न गोचरे ।
 किं करिष्यामि मन्दात्मा समर्थेन न यत्कृतम् ॥ ७३
 एवं दुराशया क्षिप्तमनिसः पुरुषः सदा ।
 श्रेयसोऽभिमुखं याति न कदाचित्पिपासितः ॥ ७४
 बाल्ये स्त्रीङ्गनासक्ता यौवने विषयोन्मुखाः ।
 अज्ञा नयन्त्यशक्त्या च बाल्येकं समुपस्थितम् ॥ ७५
 तस्माद्बाल्ये विदेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा ।
 बाल्ययौवनवृद्धादीर्देशु भावैरसंयुतः ॥ ७६
 तदेतद्वो मयास्वार्थं यदि जानीत नानृतम् ।
 तदस्मदीतये विष्णुः स्मर्यतां बन्धमुक्तिदः ॥ ७७
 प्रवृत्तः स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम् ।
 पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहर्निशम् ॥ ७८
 सर्वभूतस्थिते तस्मिन्मतिर्मेत्री दिवानिशम् ।
 भवतां जायतामेवं सर्वकलेशान्ब्रह्मस्यथ ॥ ७९
 तापत्रयेणाभिहतं यदेतदविहर्लं जगत् ।
 तदा शौच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोति कः ॥ ८०

इस प्रकार जौते-जी तो यहाँ मरण दुःख होता ही है, परनेपर भी यप वातनाओंका और गर्भ-प्रवेशका उग्र कष्ट भोगना पड़ता है ॥ ६८ ॥ यदि तुम्हें गर्भवासमें लेशपात्र भी सुखका अनुपान होता हो तो कहो। सारा संसार इसी प्रकार अत्यन्त दुःखमय है ॥ ६९ ॥ इसलिये दुःखोंके परम आश्रय इस संसार संपुटमें एकमात्र विष्णुभगवान् ही आम लोगोंको परमगति है—यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ ॥ ७० ॥

ऐसा मत समझो कि ठग तो अभी बालक है, क्योंकि जरा, मौलन और जन्म आदि अवस्थाएँ तो देहके ही धर्म हैं, शरीरका अधिपता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है ॥ ७१ ॥ जो मनुष्य ऐसी दुराशाओंसे विक्षिप्तचित्त रहता है कि 'अभी मैं बालक हूँ इसलिये इच्छानुसार खेल-कूद लूँ, युवावस्था प्राप्त होनेपर कल्याण-सम्रधनका यत्न करूँगा।' [फिर मुझ होनेपर कहता है कि] 'अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़पेमें आत्मकल्याण कर लूँगा।' और [बुढ़ होनेपर सोचता है कि] 'अब मैं बूढ़ हो गया, अब तो मेरी इन्द्रियों अपने कर्माँमें प्रवृत्त ही नहीं होतीं, शरीरके स्थिथिल हो जानेपर अब मैं क्या कर सकता हूँ? सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं।' वह अपने कल्याण-पथपर कभी अग्रसर नहीं होता; केवल भोग-तुष्णामें ही व्याकुल रहता है ॥ ७२—७४ ॥ मूर्खलोग अपनी बाल्यावस्थामें खेल-कूदमें लगे रहते हैं, युवावस्थामें विषयोंमें फँस जाते हैं और बुढ़पा आनेपर उसे असमर्थताके कारण व्यर्थ ही फाटते हैं ॥ ७५ ॥ इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिये कि देहकी बाल्य, यौवन और बुढ़ आदि अवस्थाओंकी अपेक्षा न करके बाल्याधिस्थामें ही अपने कल्याणका यत्न करे ॥ ७६ ॥

मैंने तुमलोगोंसे जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नताके लिये ही भक्तनको छुटानेपरले श्रीविष्णुभगवान्का स्मरण करो ॥ ७७ ॥ उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्या है? और स्मरणमात्रसे ही वे अति शुभ फल देते हैं तथा रात-दिन उर्ध्वीका स्मरण करनेवालोंका पाप भी नष्ट हो जाता है ॥ ७८ ॥ उन सर्वभूतस्थ प्रभुमें तुम्हारी बुद्धि अर्हतिरु लगी रहे और उनमें निरन्तर तुम्हारा प्रेम बने; इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जावेंगे ॥ ७९ ॥

जब कि यह सभी संसार तापत्रयसे दाध हो रहा है तो इन वैचारे शौचनीय जोखोंसे कौन बुद्धिमान् द्वेष करेगा? ॥ ८० ॥

अथ भद्राणि भूतानि हीनशक्तिरहं परम् ।
मुदं तदापि कुर्वीत हामिद्वेषफलं यतः ॥ ८१ ॥
बद्धवैरणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः ।
सुशोच्यान्यतिमोहेन व्याप्तानीति मनोविषाम् ॥ ८२ ॥
एते भिन्नदृशां दैत्या विकल्पाः कथिता मया ।
कृत्वाभ्युपगमं तत्र सङ्क्षेपः श्रूयतां मम ॥ ८३ ॥
विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोः सर्वमिदं जगत् ।
द्रष्टव्यमात्मवत्तस्माद्भेदेन विघ्नक्षणीः ॥ ८४ ॥
समुत्सुंस्वासुरं भावं तस्माद्भुवं तथा यथम् ।
तथा यत्नं करिष्यामी यथा प्राप्स्याम निर्वृतिम् ॥ ८५ ॥
या नाग्निना न चार्केण नेन्दुना च न वायुना ।
पर्जन्यवरुणाभ्यां वा न सिद्धैर्न च राक्षसैः ॥ ८६ ॥
न यक्षैर्न च दैत्येन्द्रैर्नौरगैर्न च किन्नरैः ।
न मनुष्यैर्न पशुभिर्दोषैर्नैवात्मसम्भवैः ॥ ८७ ॥
अरश्वरोगातीसारप्लीहगुल्मादिकैस्तथा ।
द्वेषेर्ष्यामत्सरार्द्यैर्वा रागलोभादिभिः क्षयम् ॥ ८८ ॥
न सार्वर्ण्यैर्नैवैतैर्केशिचनित्या यात्यन्तनिर्मला ।
तामाप्नोत्यमले न्यस्य केशये हृदयं नरः ॥ ८९ ॥
असारसंसारविवर्तनेषु

मा यत तोषं प्रसभं बवीमि ।

सर्वत्र दैत्यास्समतामुपेत
सभलभाराधनमच्युतस्य ॥ ९० ॥

तस्मिन्प्रसन्ने किमिहास्थलभ्यं
धर्मार्थकामैरलमल्पकास्ते ।

समाश्रिताद्ब्रह्महृत्तरोरभन्ता-

निःसंशयं प्राप्स्यथ वै महत्फलम् ॥ ९१ ॥

यदि [ऐसा दिखायी दे कि] 'और जीव तो आनन्दमें हैं, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ' तब भी प्रसन्न ही होना चाहिये, क्योंकि द्वेषका फल तो दुःखरूप ही है ॥ ८१ ॥ यदि कोई प्राणी वैराग्यसे द्वेष भी करे तो विचारवानोंके लिये तो ये 'अहो! ये महामोहमें व्याप्त हैं!' इस प्रकार अत्यन्त शोचनीय ही हैं ॥ ८२ ॥

हे दैत्यगण! ये मैंने भिन्न-भिन्न दुष्टिवालीके विकल्प (भिन्न-भिन्न उपाय) कहे। अब उनका समन्वयपूर्वक संश्लिप्त विचार सुनो ॥ ८३ ॥ यह सम्पूर्ण जगत् सर्वभूतमय भगवान् विष्णुका विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषोंको इसे आत्माके समान अभेदरूपसे देखना चाहिये ॥ ८४ ॥ इसलिये दैत्यभावको छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शान्ति लाभ कर सकें ॥ ८५ ॥ जो [परम शान्ति] अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेघ, वरुण, भिद्वि, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषोंसे तथा ज्वर, नेत्ररोग, अतिसार, प्लीहा (तिल्ली) और गुल्म आदि रोगोंसे एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भावसे भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सर्वदा अत्यन्त निर्मल है उसे मनुष्य अमलस्वरूप श्रीकेशवमें मनोनिवेश करनेसे प्राप्त कर लेता है ॥ ८६-८९ ॥

हे दैत्यो! मैं अग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसारके विषयोंमें कभी सन्तुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी [वस्तुविषय] आराधना है ॥ ९० ॥ उन अशुभके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ ही क्या है? तुम धर्म, अर्थ और कामकी इच्छा कभी न करना; वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं। उस ब्रह्मरूप महावृक्षका अधश्च लेनेपर तो तुम निःसन्देह [मोक्षरूप] महाफल प्राप्त कर लोगे ॥ ९१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अठारहवाँ अध्याय

प्रह्लादको मारनेके विषे विष, मस्य और अग्नि आदिका प्रयोग
एवं प्रह्लादकृत भगवत्-स्तुति

श्रीपराशर उवाच

तस्यैतां दानवाश्चेष्टां दृष्ट्वा दैत्यपतेर्भयात् ।
आचचख्युः स चोवाच सूदानाहूय सत्वरः ॥ १

हिरण्यकशिपु उवाच

हे सूदा मम पुत्रोऽसावन्येषामपि दुर्मतिः ।
कुमार्गदेशिको दुष्टो हन्यतामविलम्बितम् ॥ २
ह्यलाहलं विषं तस्य सर्वभक्षेषु दीयताम् ।
अविज्ञातमसी पापो हन्यतां मा विचार्यताम् ॥ ३

श्रीपराशर उवाच

ते तथैव ततश्चक्रुः प्रह्लादाय महात्मने ।
विषदानं यथाज्ञप्तं पित्रा तस्य महात्मनः ॥ ४
ह्यलाहलं विषं घोरमनन्तोच्चरणेन सः ।
अभिमन्त्र्य सहान्नेन मैत्रेय बुभुजे तदा ॥ ५
अधिकारे स तद्भुक्त्वा प्रह्लादः स्वस्थमानसः ।
अनन्तरख्यातिनिर्वीर्यं जरयामास तद्विषम् ॥ ६
ततः सूदा भयव्रता जीर्णं दृष्ट्वा महद्विषम् ।
दैत्येश्वरमुपागम्य प्रणिपत्येदमब्रुवन् ॥ ७

सूदा जनुः

दैत्यराज विषं दत्तमस्माभिरतिभीषणम् ।
जीर्णं तेन सहान्नेन प्रह्लादेन सुतेन ते ॥ ८

हिरण्यकशिपु उवाच

त्वय्यंतां त्वय्यंतां हे हे सद्यो दैत्यपुरोहिताः ।
कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मा चिरम् ॥ ९

श्रीपराशर उवाच

सकाशमराम्य ततः प्रह्लादस्य पुरोहिताः ।
सामपूर्वमधोद्युक्ते प्रह्लादं विनयान्वितम् ॥ १०

पुरोहिता जनुः

जातस्त्रैलोक्यविख्यात आयुष्यन्ब्रह्मणः कुले ।
दैत्यराजस्य तनयौ हिरण्यकशिपोर्भवान् ॥ ११
किं देवैः किमनन्तेन किमन्येन तथाश्रयः ।
पिता ते सर्वलोकानां त्वं तथैव भविष्यसि ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—उनकी ऐसी येष्य देख दैत्योंने
दैत्यराज हिरण्यकशिपुसे डरकर उससे साय दूतान कह सुनया,
और ठहरे भी तुरन्त अपने रसोइयोंको बुलाकर कहा ॥ १ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—ओ सूदगण! मेरा यह
दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरोंको भी कुमार्गका उपदेश
देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो ॥ २ ॥ तुम
उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्यपदार्थोंमें हलाहल
विष मिलाकर दो और किसी प्रकारका शोच-विचार
न कर इस पापीको मार डालो ॥ ३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब उन रसोइयोंने महात्मा
प्रह्लादको, जैसी कि उनके पिताने आज्ञा दी थी उसीके
अनुसार विष दे दिया ॥ ४ ॥ हे मैत्रेय! तब वे इस
मोर हलाहल विषको भगवन्नामके उच्चारणसे अभिपन्त्रित
कर अन्नके साथ खा गये ॥ ५ ॥ तथा भगवन्नामके
प्रभावसे निस्तेज हुए उस विषको खाकर उसे
बिना किसी विकारके पचाकर स्वस्थ चित्तसे
स्थित रहे ॥ ६ ॥ उस महान् विषको पचा हुआ देख
रसोइयोंने भयसे व्याकुल हो हिरण्यकशिपुके पास जा
उसे प्रणाम करके कहा ॥ ७ ॥

सूदगण बोले—हे दैत्यराज! हमने आपकी आज्ञासे
अत्यन्त तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रह्लादने
उसे अन्नके साथ पचा लिया ॥ ८ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—हे पुरोहितगण! शीघ्रता करो,
शीघ्रता करो! उसे नष्ट करकेके लिये अब कृत्या उत्पन्न
करो; और दैरी न करो ॥ ९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब पुरोहितोंने अति विनीत
प्रह्लादसे, उसके पास जाकर शान्तिपूर्वक कहा ॥ १० ॥

पुरोहित बोले—हे आयुष्यन्! तुम त्रिलोकोंमें विख्यात
ब्रह्माजीके कुलमें उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपुके
पुत्र हो ॥ ११ ॥ तुम्हें देवता, अनन्त अधवा और भी
किसीसे क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा
सम्पूर्ण लोकोंके आश्रय हैं और तुम भी ऐसे हो लोगे ॥ १२ ॥

तस्मात्परित्यजैनां त्वं विपक्षस्तवसंहिताम् ।
 श्लाघ्यः पिता समस्तानां गुरुणां परमो गुरुः ॥ १३
 प्रह्लाद उवाच
 एवमेतन्महाभागाः श्लाघ्यमेतन्महाकुलम् ।
 मरीच्ये सखलेऽप्यस्मिन् त्रैलोक्ये नान्यथा वदेत् ॥ १४
 पिता च मम सर्वस्मिञ्जगत्पुत्रकृष्टचेष्टितः ।
 एतदप्यक्षगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतम् ॥ १५
 गुरुणामपि सर्वेषां पिता परमको गुरुः ।
 यदुक्तं भान्तिस्तत्रापि स्वल्पापि हि न विद्यते ॥ १६
 पिता गुरुर्न सन्देहः पूजनीयः प्रथमतः ।
 तत्रापि नापराध्यामीत्येवं मनसि मे स्थितम् ॥ १७
 यस्वेतत्किमनन्तेनेत्युक्तं घुष्पाधिरीदृशम् ।
 को ज्ञप्सति यश्चान्याय्यं किं तु कैश्चनोऽर्थवत् ॥ १८
 इत्युक्त्वा सोऽभवन्मौनी तेषां गौरवयन्त्रितः ।
 प्रहस्य च पुनः प्राह किमनन्तेन साध्विति ॥ १९
 साधु भो किमनन्तेन साधु भो गुरवो मम ।
 श्रूयतां यद्वनन्तेन यदि खेदं न यास्यथ ॥ २०
 धर्मार्थकाममोक्षाश्च पुरुषार्था उदाहृताः ।
 चतुष्टयमिदं यस्मात्सस्मात्किं किमिदं वचः ॥ २१
 मरीचिमिक्षेर्दक्षाद्यैस्तथैवान्यैरनन्ततः ।
 धर्मः प्राणस्तथा चान्यैरर्थः कामस्तथाऽपरे ॥ २२
 तत्तत्त्ववेदिनो भूत्वा ज्ञानध्यानसमाधिभिः ।
 अवापुर्मुक्तिमपरे पुरुषा ध्वस्तबन्धनाः ॥ २३
 सम्पदैश्च पर्यमाहात्म्यज्ञानसन्ततिकर्मणाम् ।
 धिमुक्तेः शैकतो लभ्ये मूलपाराधनं हरेः ॥ २४
 यत्र धर्मार्थकामस्यं मुक्तिश्चापि फलं द्विजाः ।
 तेनापि किं किमित्येधमनन्तेन किमुच्यते ॥ २५
 किं चापि बहुनोक्तेन भवन्तो गुरवो मम ।
 वदन्तु साधु खसाधु विवेकोऽस्माकमल्पकः ॥ २६

इसलिये तुम यह विपक्षको स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता यह प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओंमें परम गुरु हैं ॥ १३।

प्रह्लादजी बोले—हे महाभागण! यह ठीक ही है। इस सम्पूर्ण विलोकोंमें भगवान् मरीचिका यह महान् कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है। इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता ॥ १४। और मेरे पिताजी भी सम्पूर्ण जगत्में बहुत बड़े पराक्रमी हैं; यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी विलकुल ठीक है, अन्यथा नहीं ॥ १५ ॥ और आपने जो कहा कि सपस्त गुरुओंमें पिता ही परम गुरु हैं—इसमें भी मुझे लेशमात्र शन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ पिताजी परम गुरु हैं और प्रयत्नपूर्वक पूजनयोग्य हैं—इसमें कोई सन्देह नहीं। और मेरे निमित्त भी भलो विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा ॥ १७ ॥ किन्तु आपने जो यह कहा कि 'तुझे अनन्तसे क्या प्रयोजन है?' सो ऐसी बातको भला कौन न्ययोचित कह सकता है? आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है ॥ १८ ॥

ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखनेके लिये चुप हो गये और फिर हँसकर कहने लगे—'तुझे अनन्तसे क्या प्रयोजन है? इस विचारको धन्यवाद है ॥ १९ ॥ हे मेरे गुरुगण! आप कहते हैं कि तुझे अनन्तसे क्या प्रयोजन है? धन्यवाद है आपके इस विचारको। अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनन्तसे जो प्रयोजन है सो सुनिये ॥ २० ॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे कि-इ श्लोके हैं, उनसे क्या प्रयोजन?—आपके इस कथनको क्या कहा जाय! ॥ २१ ॥ उन अनन्तसे ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्धन्य ऋषीश्वरोंको धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरोंको अर्थ एवं अन्य किन्हींको कामको प्राप्ति हुई है ॥ २२ ॥ किन्हीं अन्य महापुरुषोंने ज्ञान, ध्यान और समाधिके द्वारा उन्हींके तत्त्वको जानकर अपने संसार-बन्धनको काटकर मोक्षपद प्राप्त किया है ॥ २३ ॥ अतः सम्पत्ति, ऐश्वर्य, माहात्म्य, ज्ञान, सन्तति और कर्म तथा मोक्ष—इन सबकी एकमात्र मूल श्रीहरिकी आराधना ही उपार्जनीय है ॥ २४ ॥ हे द्विजगण! इस प्रकार, जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं उनके लिये भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि 'अनन्तसे तुझे क्या प्रयोजन है?' ॥ २५ ॥ और बहुत कहनेसे क्या लाभ? आपलोग तो मेरे गुरु हैं; उचित-अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं। और मुझे तो विचार भी बहुत हो कम है ॥ २६ ॥

अधुनात्र किमुक्तेन स एव जगतः पतिः ।
स कर्ता च विकर्ता च संहर्ता च हृदि स्थितः ॥ २७

स भोक्ता भोज्यमध्येर्ष स एव जगदीश्वरः ।
भवद्भिरेतत्क्षन्तव्यं बाल्यादुक्तं तु धनमया ॥ २८

पुरोहिता ऋतुः

दह्यमानस्तपस्माभिरग्निना बाल रक्षितः ।
भूयो न वक्ष्यसीत्येवं नैव ज्ञातोऽस्यबुद्धिमान् ॥ २९

यदास्मद्ब्रह्मनाम्नोऽह्याहं न त्यक्ष्यते भवान् ।
ततः कृत्यां विनाशाय तव स्त्रक्ष्याम दुर्पते ॥ ३०

प्रह्लाद उवाच

कः केन हन्यते जन्तुर्जन्तुः कः केन रक्ष्यते ।
हन्ति रक्षति चैवात्मा ह्यसत्साधु समाचरन् ॥ ३१

कर्मणा जायते सर्वं कर्मैव गतिसाधनम् ।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन साधुकर्म समाचरेत् ॥ ३२

श्रीपराशर उवाच

हत्पुक्तास्तेन ते कृद्धः दैत्यराजपुरोहिताः ।
कृत्वन्मुपादयाभिसुखालामालोऽम्बलाकृत्रिमम् ॥ ३३

अतिभीमा समागम्य पादव्यासक्षतक्षितिः ।
शूलेन साधु सङ्कुब्धा तं जघानाशु वक्षसि ॥ ३४

तप्तस्य हृदयं प्राप्य शूलं बालस्य दीप्तिमतम् ।
जगाम खण्डितं भूमौ तत्रापि शतधा गतम् ॥ ३५

यत्रानपायी भगवान् हृद्यास्ते हरिरीश्वरः ।
भङ्गो भवति षड्रस्य तत्र शूलस्य का कथा ॥ ३६

अपाये तत्र पापैश्च पातिता दैत्ययाजकैः ।
तानेव सा जघनाशु कृत्या नाशं जगाम च ॥ ३७

कृत्यया दह्यमानास्ताम्बिलोक्च स महामतिः ।
ब्राह्मि कृष्योत्यनन्तेति घदनभ्यवपद्यत ॥ ३८

प्रह्लाद उवाच

सर्वध्यापिन् अगद्गुप जगत्त्रष्टर्जनार्दन ।
पाहि विप्रानिमानस्माद्दुःसहान्मन्त्रपावकात् ॥ ३९

इस विषयमें अधिक क्या कह्य जाय ? [पैरे विचारसे तो] उनके कन्तःकरणोंमें स्थित एकमात्र वे ही संसारके स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं ॥ २७ ॥ वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं ! हे गुरुगण ! मैंने बाल्यभावसे यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें ॥ २८ ॥

पुरोहितगण बोले—अरे बालक ! हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात न कहेगा तूझे अग्निमें जलानेसे बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है ? ॥ २९ ॥ रे दुर्भग ! यदि तू हयारे कहनेसे अपने इस भोक्ष्यम आग्रहको नहीं छोड़ेगा तो हम तूझे नष्ट करनेके लिये कृत्या उत्पन्न करेंगे ॥ ३० ॥

प्रह्लादजी बोले—कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है ? शुभ और अशुभ आचरणोंके द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है ॥ ३१ ॥ कर्मोंके कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनको शुभाशुभ गतियोंके साधन हैं। इसलिये प्रयत्नपूर्वक शुभकर्मोंका ही आचरण करना चाहिये ॥ ३२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—उनके ऐसा कहनेपर उन दैत्यराजके पुरोहितोंने क्रोधित होकर अग्निशिखाके समान प्रज्वलित शरीरवाली कृत्या उत्पन्न कर दी ॥ ३३ ॥ उस अति भयंकर होने अपने पादाघातसे पृथिवीको कम्पित करते हुए वहाँ प्रकट होकर अड़े क्रोधसे प्रह्लादजीकी छातीमें त्रिशूलसे प्रहार किया ॥ ३४ ॥ किन्तु उस बालकके षष्ठःस्यलमें लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल दृष्टकर पृथिवीपर गिर पड़ा और वहाँ गिरनेसे भी उसके सिकड़े टुकड़े हो गये ॥ ३५ ॥ जिस हृदयमें निरन्तर अधुष्णभावसे श्रीहरिभगवान् विद्यमान हैं उसमें लगनेसे तो बच्चेके भी दूक-दूक से जाते हैं, त्रिशूलकी जो बात ही क्या है ? ॥ ३६ ॥

उन पापी पुरोहितोंने उस निष्पाप बालकपर कृत्याका प्रयोग किया था; इसलिये तुरन्त ही उसने उनपर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गयी ॥ ३७ ॥ अपने गुरुओंको कृत्याहार जलाये जाते देख महामति प्रह्लाद 'हे कृत्या ! रक्षा करो ! हे अनन्त ! शशाओ !' ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े ॥ ३८ ॥

प्रह्लादजी कहने लगे—हे सर्वध्यायी, विश्वरूप, विश्वस्रष्टा जनार्दन ! इन ब्राह्मणोंको इस मन्त्रान्वितरूप दुःसह दुःखसे रक्षा करो ॥ ३९ ॥

यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगद्गुरुः ।
 विष्णुरेष सथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ ४०
 यथा सर्वगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपायिनम् ।
 चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ ४१
 ये हन्तुमागता दत्तं यैर्विषं यैर्हुताशनः ।
 यैर्दिग्गजैरहं क्षुण्णो दष्टः सर्वैश्च यैरपि ॥ ४२
 तेष्वहं मित्रभावेन स्मः पापोऽस्मि न क्वचित् ।
 यथा तेनाद्य सत्वेन जीवन्त्ससुरयाजकाः ॥ ४३

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तास्तेन ते सर्वे संस्पृष्टाश्च निरामयाः ।
 समुत्तस्युर्द्विजा भूयस्तमूचुः प्रशयान्वितम् ॥ ४४

पुरोहिता उवुः

दीर्घायुरप्रतिहतो बलवीर्यसमन्वितः ।
 पुत्रपीप्रधनेश्वर्यैर्वृत्तो बलस भवोत्तमः ॥ ४५

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा तं ततो गत्वा यथावृत्तं पुरोहिताः ।
 दैत्यराजाय सकलमाचक्षुर्मुह्यमानुने ॥ ४६

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽधो

'सर्वव्यापी जगद्गुरु भगवन् विष्णु सभो प्राणियोमे स्यात् हैं'—इस सत्यके प्रभावसे ये पुरोहितगण जीवित हो जायें ॥ ४० ॥ यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्रीविष्णुभगवान्को अपने दिवाङ्गीमें भी देखता हूँ तो ये पुरोहितगण जीवित हो जायें ॥ ४१ ॥ जो लोग मुझे मारनेके लिये आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने दिग्गजोंसे पीड़ित कराया और जिन्होंने सपौसे डँसाया उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उठें ॥ ४२-४३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ज्ञानगण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस दिनयावनत बालकसे कहने लगे ॥ ४४ ॥

पुरोहितगण बोले—हे बल! तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु, निर्द्वन्द्व, बल-वीर्यसम्पन्न तथा पुत्र, पीत्र एवं धन-ऐश्वर्यदिसे सम्पन्न हो ॥ ४५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे महामुने! ऐसा कह पुरोहितोंने दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पास जा उसमें सारा समाचार ज्यों-का-त्यों सुना दिया ॥ ४६ ॥

अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

उन्नीसवाँ अध्याय

प्रह्लादकृत भगवत्-गुण-वर्णन और प्रह्लादकी रक्षाके लिये भगवान्का सुदर्शनचक्रको भेजना

श्रीपराशर उवाच

हिरण्यकशिपुः श्रुत्वा तां कृत्यां वितथीकृताम् ।
 आहूय पुत्रं पप्रच्छ प्रभावस्यास्य कारणम् ॥ १

हिरण्यकशिपु उवाच

प्रह्लाद सुप्रभावोऽस्मि किमेतत्ते विचेष्टितम् ।
 एतन्मन्त्रादिजनितमुताह्ये सहर्जं तव ॥ २

श्रीपराशर उवाच

एवं पृष्टस्तदा पित्रा प्रह्लादोऽसुरबालकः ।
 प्रणिपत्य पितुः पादायिषं वचनयज्ञवीत् ॥ ३

श्रीपराशरजी बोले—हिरण्यकशिपुने कृत्यको भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रह्लादकी बुलाकर उनके इस प्रभावका कारण पूछा ॥ १ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—अरे प्रह्लाद! तू बड़ा प्रभावशाली है! तेरी ये चेष्टाएँ मन्त्रादिजनित हैं या स्वाभाविक ही हैं ॥ २ ॥

श्रीपराशरजी बोले—पिताके इस प्रकार पूछनेपर दैत्यकुमार प्रह्लादजीने उसके चरणोंमें प्रणाम कर इस प्रकार कहा— ॥ ३ ॥

न मन्त्रादिकृतं तात न च नैसर्गिको मम ।
 प्रभास एष सामान्यो यस्य यस्याद्युतो हृदि ॥ ४
 अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा ।
 तस्य पापामस्तात हेत्वभावात्न विद्यते ॥ ५
 कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः ।
 तद्बीजं जन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम् ॥ ६
 सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा ।
 चिन्तयन्सर्वभूतस्वभात्मन्यपि च केशवम् ॥ ७
 शरीरं मानसं दुःखं दैवं भूतभवं तथा ।
 सर्वत्र शुभचित्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥ ८
 एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी ।
 कर्तव्या परिहृतैर्जात्वा सर्वभूतमयं हरिम् ॥ ९

श्रीपराशर उवाच

इति श्रुत्वा स दैत्येन्द्रः प्रासादशिखरे स्थितः ।
 क्रोधान्धकारितमुखः प्राह दैतेयकिङ्करान् ॥ १०

हिरण्यकशिपुस्वाच

दुरात्मा क्षिप्यतामस्मात्प्रासादाच्चतयोजनात् ।
 गिरिमृष्टे पतत्वस्मिन् शिलाभिन्नाङ्गसंहतिः ॥ ११
 ततस्तं त्रिक्षिपुः सर्वे जालं दैतेयदानवाः ।
 पपात सोप्यधः क्षिप्तो हृदयेनोद्बुद्धरिम् ॥ १२
 पतमानं जगद्धात्री जगद्धातरि केशवे ।
 भक्तियुक्तं दधारानमुपसङ्गम्य मेदिनी ॥ १३
 तत्त्वे विलोक्य तं स्वस्वामिशीर्षोऽस्थपञ्चरम् ।
 हिरण्यकशिपुः प्राह शम्बरं मायिनां वरम् ॥ १४

हिरण्यकशिपुस्वाच

नास्माभिः शक्यते हन्तुमसौ दुर्बुद्धिबालकः ।
 मायां वेत्ति भवांस्तस्मान्माययैर्न निषूदय ॥ १५

शम्बर उवाच

सूदधाम्येष दैत्येन्द्र पश्य मायाबलं मम ।
 सहस्रमत्र मायानां पश्य कोटिशतं तथा ॥ १६

श्रीपराशर उवाच

ततः स समृजे मायां प्रह्लादे शम्बरोऽसुरः ।
 विनाशमिच्छदुर्बुद्धिः सर्वत्र समदर्शिनि ॥ १७

“पितामी। मेरा यह प्रभाव न तो मन्त्रादिजनित है और न स्थाभक्तिक ही है, बल्कि जिस-जिसके हृदयमें श्रीअच्युतभगवान्कृत निवास होता है उसके लिये यह सामान्य बात है ॥ ४ ॥ जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका दुःख नहीं सोचता, वे तब! कोई कारण न रहनेसे उसका भी कर्म बुरा नहीं होता ॥ ५ ॥ जो मनुष्य मन, वचन या कर्मसे दूसरोंको कष्ट देता है उसके उस परपीडारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ उसके अत्यन्त अशुभ फल मिलता है ॥ ६ ॥ अपने सद्चित्त समस्त प्राणियोंमें श्रेयसेवाको वर्तमान समझकर मैं न तो किसीका बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता ही हूँ ॥ ७ ॥ इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त होनेसे पूजाको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? ॥ ८ ॥ इसी प्रकार भगवान्को सर्वभूतमय जानकर विद्वानोंको सभी प्राणियोंमें अविचल भक्ति (प्रेम) फरनी चाहिये” ॥ १९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—अपने महलको अट्टालिकापर बैठे हुए उस दैत्यराजने यह सुनकर क्रोधान्ध हो अपने दैत्य अनुचरोंसे कहा ॥ १० ॥

हिरण्यकशिपु बोला—यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस ही योजन ऊँचे महलसे गिरा दो, जिससे यह इस पर्यतके ऊपर गिरे और शिलाओंसे इसके अंग-अंग छिन्न-भिन्न हो जायें ॥ ११ ॥

तब उन समस्त दैत्य और दानवोंने उन्हें महलसे गिरा दिया और वे भी उनके उकेलनेसे हृदयमें शौहरिका स्मरण करते-करते नीचे गिर गये ॥ १२ ॥ जगत्कर्ता भगवान् केशवके परमभक्त प्रह्लादजीके गिरते समय उन्हें आगद्धात्री पृथिवीने निकट जाकर अपनी गोदमें ले लिया ॥ १३ ॥ तब बिना किसी हड्डी-पसलीके टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकशिपुने परममायावी शम्बरासुरसे कहा ॥ १४ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिये आप मायासे ही इसे मार डालिये ॥ १५ ॥

शम्बरासुर बोला—हे दैत्येन्द्र। इस बालकको मैं अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी मायाका खल देखो। देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों-हजारों-करोड़ों मायार्थ दिखलाता हूँ ॥ १६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब उस दुर्बुद्धि शम्बरासुरने समदर्शी प्रह्लादके लिये, उसके नाशकी इच्छासे बहुत-सी मायार्थ रचीं ॥ १७ ॥

समाहितमतिर्भूत्वा शम्भुरेऽपि विमत्सरः ।
 मैत्रेय सोऽपि प्रह्लादः सस्मार मधुसूदनम् ॥ १८
 ततो भगवता तस्य रक्षार्थं चक्रमुत्तमम् ।
 आजगाम सप्ताङ्गत्वं ज्वालापालि सुदर्शनम् ॥ १९
 तेन मायासहस्रं तच्छम्भुरस्याशुगामिना ।
 बालस्थ रक्षता देहमेकैकं च विशोधितम् ॥ २०
 संशोषकं तथा चायुं दैत्येन्द्रस्त्विदमब्रवीत् ।
 शीघ्रमेव ममादेशादुरात्मा नीघतां क्षयम् ॥ २१
 तथेत्युक्त्वा तु सोऽप्येनं विवेश पवनो लघु ।
 शीतोऽतिरूक्षः शोषाय तद्रेहस्यात्तिदुःसहः ॥ २२
 तेनाविष्टमहात्मानं स बुद्ध्या दैत्यबालकः ।
 हृदयेन महात्मानं दधार धरणीधरम् ॥ २३
 हृदयस्थस्ततस्तस्य तं वायुमतिर्भोषणम् ।
 पपां जनार्दनः क्रुद्धः स यथौ पवनः क्षयम् ॥ २४
 क्षीणासु सर्वमायासु पवने च क्षयं गते ।
 जगाम सोऽपि भवनं गुरोरेव महामतिः ॥ २५
 अहन्वहन्वश्चाचार्यो नीतिं राज्यफलप्रदाम् ।
 ग्राहयामास तं बालं राज्ञामुशनसा कृताम् ॥ २६
 गृह्येत्नीतिशास्त्रं तं धिनीतं च यदा गुरुः ।
 मेने तर्देनं तत्पित्रे कथयामास शिक्षितम् ॥ २७
 आचार्य उवाच
 गृहीतनीतिशास्त्रस्ते पुत्रो दैत्यपते कृतः ।
 प्रह्लादस्तत्त्वतो वेत्ति भार्गवेण यदीरितम् ॥ २८
 हिरण्यकशिपुरुवाच
 मित्रेषु वर्तेत कथमरिवर्गेषु भूपतिः ।
 प्रह्लाद मिधु लोकेषु मध्यस्थेषु कथं चरेत् ॥ २९
 कथं मन्त्रिष्वमात्येषु बाह्येष्वभ्यन्तरेषु च ।
 चारेषु पीरवर्गेषु शङ्कितेष्वितरेषु च ॥ ३०
 कृत्याकृत्यविधानञ्च दुर्गाटविकसाधनम् ।
 प्रह्लाद कथ्यतां सम्यक् तथा कण्टकशोधनम् ॥ ३१

किन्तु, हे मैत्रेय! शम्भुरासुरके प्रति भी सर्वथा दृग्भवेन
 १८कं प्रह्लादजी सावधान चित्तसेत्रमधुसूदनभगवान्का
 स्मरण करते रहे ॥ १८ ॥ उस समय भगवान्की आंखासे
 उनकी रक्षाके लिये बर्हें ज्वाला-मालाओंसे युक्त सुदर्शनचक्र
 आ गया ॥ १९ ॥ उस शोभागामो सुदर्शनचक्रने उस बालस्थ
 रक्षा करते हुए शम्भुरासुरकी सहस्रो पायाओंको एक-
 एक करके नष्ट कर दिया ॥ २० ॥

तत्र दैत्यराटने सबको भुखा डालनेवाले वायुसे
 कहः कि मेरी आज्ञासे तुम शीघ्र हो इस दुरात्माको नष्ट
 कर दो ॥ २१ ॥ अतः उस अति ताँब शीतल और रूख
 वायुने, जो अति असहनीय था 'जो आज्ञा' कह उनके
 शरीरको सुखानेके लिये उसमें प्रवेश किया ॥ २२ ॥
 अपने शरीरमें जायुका आवेसः हुआ जान दैत्यकुमार
 प्रह्लादने भगवान् शरणीधरको हृदयमें धारण किया ॥ २३ ॥
 उनके हृदयमें स्थित हुए शोकादनेने क्रुद्ध होकर उस
 भोषण वायुको रो लिया, इससे वह क्षीण हो गया ॥ २४ ॥
 इस प्रकार पवन और सम्पूर्ण मायाओंके क्षीण हो
 जानेपर महामति प्रह्लादजी अपने गुरुके घर चले गये ॥ २५ ॥
 तदनन्तर गुरुजी उन्हें चित्तप्रति शुकाचार्यजीकी भक्तियों
 हुई राज्यफलप्रदायिनी राजनीतिका अध्ययन कराने
 लगे ॥ २६ ॥ जब गुरुजीने उन्हें नीतिशास्त्रमें निपुण और
 विनयसम्पन्न देखा तो उनके पितासे कहा—'अब यह
 सुशिक्षित हो गया है' ॥ २७ ॥

आचार्य बोले—हे दैत्यराज! अब हमने तुम्हारे पुत्रको
 नीतिशास्त्रमें पूर्णतया निपुण कर दिया है, भृगुनन्दन
 शुकाचार्यजीने जो कुछ कहा है उसे प्रह्लाद मन्वतः
 जानता है ॥ २८ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—प्रह्लाद! [यह तो बता]
 राजाको मित्रोंसे कैसा सत्ताय करना चाहिये? और
 शत्रुओंसे कैसा? तथा शिरोक्षीयों को मध्यस्थ (दोनों
 पक्षोंके हितचिन्तक) हो, उनसे किस प्रकार आचरण
 करे? ॥ २९ ॥ मन्त्रियों, अमात्यों, बाह्य और अन्तःपुरके
 सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, शक्तिों (जिन्हें शोकर
 बलान् दास बना लिया हो) तथा अन्यान्य जनोके प्रति
 किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये? ॥ ३० ॥ हे प्रह्लाद!
 यह टोक-टीक बता कि करने और न करनेयोग्य
 कार्योंका विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और आर्यिक
 (जंगली मनुष्य) आदिको किस प्रकार बर्हायुक्त हो
 और गुप्त शत्रुरूप फट्टेको कैसे निकाले? ॥ ३१ ॥

एतच्छान्यच्च सकलमधीतं भजता यथा ।
तथा मे कथ्यतां ज्ञातुं तवेच्छामि मनोगतम् ॥ ३२

श्रीपराशर उवाच

प्रणिपत्य पितुः पादौ तदा प्रक्षयभूषणः ।
प्रह्लादः प्राह दैत्येन्द्रं कृताञ्जलिपुटस्तथा ॥ ३३

प्रह्लाद उवाच

ममोपदिष्टं सकलं गुरुणा नात्र संशयः ।
गृहीतं तु मया किन्तु न सदेतन्मतं मम ॥ ३४

साम चोपप्रदानं च भेददण्डौ तथापरौ ।
उपायाः कथिताः सर्वे पित्रादीनां च साधने ॥ ३५

तानेवाहं न पश्यामि मित्रार्थीस्तात मा कुथः ।
साध्याभावे महाबाहो साधनैः किं प्रयोजनम् ॥ ३६

सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये ।
परमात्मनि गोविन्दे मित्रामित्रकथा कुतः ॥ ३७

त्वयस्ति भगवान् विष्णुर्भूमि चान्नत्र चास्ति सः ।
यतस्ततोऽयं मित्रं मे शत्रुश्चेति पृथक्कुतः ॥ ३८

तदेभिरत्नमत्यर्थं दुष्टारम्भोक्तिविस्तरैः ।
अविद्वान्तर्गतैर्यतः कर्तव्यस्तात शोभने ॥ ३९

विद्याबुद्धिरविद्याधामज्ञानरत्नात् जायते ।
बालोऽग्निं किं न खद्योतमसुरेश्वर मन्यते ॥ ४०

तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये ।
आयासायापरं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम् ॥ ४१

तदेतद्वराभ्याहमसारं सारमुत्तमम् ।
निशामय महाभाग प्रणिपत्य द्ववीमि ते ॥ ४२

न चिन्तयति को राज्यं को धने नाभिवृद्धतिः ।
तथापि भाव्यमेवैतदुभयं प्राप्यते नरैः ॥ ४३

सर्व एव महाभाग महत्त्वं प्रति सोढमाः ।
तथापि पुंसां भाग्यानि नोद्यमा भूतिहेतवः ॥ ४४

जडानामविवेकानामशूराणामपि प्रभो ।
भाग्यभोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिप्रतामपि ॥ ४५

तस्याद्यतेत पुण्येषु य इच्छेन्महतीं श्रियम् ।
यतितर्ह्यं सप्तत्वे च निर्वाणमपि चेच्छता ॥ ४६

। यह सब तथा और भी जो कुछ पूने पढ़ हो वह सब मुझे सुना, मैं तेरे मनके भावोंको जाननेके लिये बहुत उत्सुक हूँ ॥ ३२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब विनयभूषण प्रह्लादजीने पितरके चरणोंमें प्रणाम कर दैत्यराज द्विरण्यकशिपुसे हाथ जोड़कर कहा ॥ ३३ ॥

प्रह्लादजी बोले—पिताजी! इसमें सन्देह नहीं, गुरुजीने तो मुझे इन सभी विषयोंकी शिक्षा दी है, और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ; परन्तु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं ॥ ३४ ॥ साम, दान तथा दण्ड और भेद—ये सब उपाय मित्रादिके साधनेके लिये बतलाये गये हैं ॥ ३५ ॥ किन्तु, पिताजी! आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु-मित्र आदि दिखायी हो नहीं देते; और हे महाबाहो! जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनोंसे लेना ही क्या है? ॥ ३६ ॥ हे तात। सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविन्दमें भला शत्रु-मित्रकी बात ही कहीं है? ॥ ३७ ॥ श्रीविष्णुभगवान् तो आपमें, मुझमें और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान हैं, फिर 'यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है' ऐसे भेदभावको स्थान ही कहीं है? ॥ ३८ ॥ इसलिये, हे तात। अविद्याजन्य दुष्कर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाले इस चाग्बालको सर्वथा छोड़कर अपने शुभाके लिये ही यत्न करना चाहिये ॥ ३९ ॥ हे दैत्यराज! अज्ञानके कारण ही मनुष्योंकी अविद्यामें विद्या-मुक्ति होती है। बालक क्या अज्ञानवश खद्योतको ज्ञे अग्नि नहीं समझ लेता? ॥ ४० ॥ कर्म यही है जो बन्धनका कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्तिकी साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रमरूप तथा अन्य विद्याएँ कला-कौशलमात्र ही हैं ॥ ४१ ॥

हे महाभाग! इस प्रकार इन सबको असार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उद्यम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिये ॥ ४२ ॥ राज्य पानेकी चिन्ता किसी नहीं होती और धनकी अभिलाषा भी किसीकी नहीं है? तथापि ये दोनों मिलते उन्हींको हैं जिन्हें मिलानेवाले छेते हैं ॥ ४३ ॥ हे महाभाग! महत्त्व-प्राप्तिके लिये सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभवका कारण तो मनुष्यका भाग्य ही है, उद्यम नहीं ॥ ४४ ॥ हे प्रभो! जड, अविवेकी, निर्बल और अनीतिज्ञोंको भी भाग्यवश नाना प्रकारके भाग और राज्यादि प्राप्त होते हैं ॥ ४५ ॥ इसलिये जिसे महान् वैभवकी इच्छा हो उसे केवल पुण्यसंचयका ही यत्न करना चाहिये; और जिसे मोक्षकी इच्छा हो उसे भी समत्वलाभका ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४६ ॥

देवा मनुष्याः पशवः पक्षिषुक्षसरीसृपाः ।
रूपमेतदनेन्तस्य विष्णोर्भिन्नमिव स्थितम् ॥ ४७
एतद्विजानता सर्वं जगत्स्वावरजङ्गमम् ।
द्रष्टव्यमात्मवद्विष्णुर्वृतोऽयं विश्वरूपभृक् ॥ ४८
एवं ज्ञाते स भगवाननादिः परमेश्वरः ।
प्रसीदत्यच्युतस्तस्मिन्प्रसन्ने क्लेशसङ्क्षयः ॥ ४९

श्रीपराशर उवाच

एतच्छ्रुत्वा तु कोपेन समुत्थाय वरासनात् ।
हिरण्यकशिपुः पुत्रं पदा वक्षस्यताडयत् ॥ ५०
उवाच च स कोपेन सामर्षः प्रन्वल्निव ।
निषिध्य पाणिना पाणिं हनुकामो जगद्धृषा ॥ ५१

हिरण्यकशिपुहवाच

हे विप्रचित्ते हे राहो हे बलैष महार्णवे ।
नागपशैर्दुर्दैर्दृष्ट्वा क्षिप्यन्तं मा विलम्ब्यताम् ॥ ५२
अन्यथा सकला लोकास्तथा दैतेयदानवाः ।
अनुयास्यन्ति मूढस्य मतमस्य दुरात्मनः ॥ ५३
बहुशो वारितोऽस्माभिरयं पापस्तथाप्यरेः ।
स्तुतिं करोति दुष्टानां वध एवोपकारकः ॥ ५४

श्रीपराशर उवाच

ततस्तौ सत्वरा दैत्या बद्ध्वा तं नागबन्धनैः ।
भर्तुराज्ञां पुरस्कृत्य चिक्षिपुः सलिलाणर्वे ॥ ५५
ततश्चच्चाल चलता प्रह्लादेन महार्णवः ।
वह्नेलोऽभूत्परं क्षोभमुपेत्य च समन्ततः ॥ ५६
भूलोकमखिलं दृष्ट्वा प्लाव्यमानं महाभ्रमा ।
हिरण्यकशिपुर्दैत्यानिदमाह महाभते ॥ ५७

हिरण्यकशिपुहवाच

दैतेयाः सकलैः शैलैरत्रैव वरुणास्ये ।
निश्छिन्नैः सर्वैः सर्वैश्चीयतामेघ दुर्मतिः ॥ ५८
नाग्निर्दहति नैवायं शस्त्रैश्छिन्नो न घोरगैः ।
क्षयं नीतो न चातेन न विषेण न कृत्याया ॥ ५९
न मायाभिर्न चैवोच्छ्वात्यातितो न च दिग्गजैः ।
बाल्मेऽतिदुष्टचित्तोऽयं नानेनाथोऽस्ति जीवता ॥ ६०

देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप—ये सब भगवान् विष्णुसे भिन्न-से स्थित हुए भी वास्तवमें श्रीअनन्तके ही रूप हैं ॥ ४७ ॥ इस बातको जाननेवाला पुरुष सम्पूर्ण चराचर जगत्को आत्मवत् देखे, क्योंकि यह पशु विश्व-रूपधारी भगवान् विष्णु ही हैं ॥ ४८ ॥ ऐराजान लेनेपर वे अनादि परमेश्वर भगवान् अभ्युत भस्म होतें हैं और उनके प्रसन्न होनेपर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं ॥ ४९ ॥

श्रीपराशरजी बोले— यह सुनकर हिरण्यकशिपुने क्रोधपूर्वक अपने राजसिंहासनसे उठकर पुत्र प्रह्लादके वक्षःस्थलमें लात मारी ॥ ५० ॥ और क्रोध तथा अमर्षसे जलते हुए मानो सम्पूर्ण संसारको मार डालेगा इस प्रकार हाथ पक्रेता हुआ बोला ॥ ५१ ॥

हिरण्यकशिपुने कहा—हे विप्रचित्ते ! हे राहो ! हे बल ! तुमलोग इसे भली प्रकार नागपाशासे बाँधकर महासागरमें डाल दो, देरी मत करो ॥ ५२ ॥ नहीं तो सम्पूर्ण लोक और दैत्य-दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्माके मतका ही अनुगमन करेंगे [अर्थात् इसकी तरह वे भी विश्वभक्त हो जायेंगे] ॥ ५३ ॥ हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रुकी ही स्तुति किये जाता है। ठीक है, दुष्टोंको तो मार देना ही लाभदायक होता है ॥ ५४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब उन दैत्योंने अपने स्वामीके आज्ञाको शिरोधार्य कर तुरन्त ही उन्हें नागपाशासे बाँधकर समुद्रमें डाल दिया ॥ ५५ ॥ उस समय प्रह्लादजीके हिलने-डुलनेसे सम्पूर्ण महासागरमें हलचल मच गयी और अत्यन्त क्षोभके कारण उसमें सब ओर ऊँची-ऊँची लहरें उठने लगीं ॥ ५६ ॥ हे महाभते ! उस महान् जल-पूरसे सम्पूर्ण पृथिवीको डूबती देख हिरण्यकाशिपुने दैत्योंसे इस प्रकार कहा ॥ ५७ ॥

हिरण्यकशिपु बोला—अरे दैत्यो! तुम इस दुर्मतिको इस समुद्रके भीतर ही किसी ओरसे छुला न रखकर सब ओरसे सम्पूर्ण पर्वतोंसे दबा दो ॥ ५८ ॥ देखो, इसे न तो अग्निने जलाया, न यह शस्त्रोंसे कटा, न सर्पोंसे नष्ट हुआ और न वायु, विष और कृत्यासे ही क्षीण हुआ, तथा न यह मायाओंसे, ऊपरसे गिरानेसे अथवा दिग्गजोंसे ही मारा गया। यह बलक अत्यन्त दुष्ट-चित्त है, अब इसके जीवनाका कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५९-६० ॥

तदेव तोषमथ्ये तु समाक्रान्तो महीधरैः ।
 तिष्ठत्वथ्सद्गन्धानं प्राणान्हास्यति दुर्मतिः ॥ ६१
 ततो दैत्या दानवाश्च पर्वतैस्तं महोदधौ ।
 आक्रम्य चयनं चक्रुर्योजनानि सहस्वराः ॥ ६२
 स चित्तः पर्वतैरन्तः समुद्रस्य महामतिः ।
 तुष्टावाहिकवेलावाभेकाप्रपतिरच्युतम् ॥ ६३

प्रह्लाद उवाच

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम ।
 नमस्ते सर्वलोकात्मनमस्ते तिग्मचक्रिणे ॥ ६४
 नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ।
 जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ६५
 ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पुनः ।
 रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये ॥ ६६
 देवा यक्षासुराः सिद्धा नागा गन्धर्वकिन्नराः ।
 पिशाचा राक्षसाश्चैव मनुष्याः पशवस्तथा ॥ ६७
 पक्षिणः स्थावराश्चैव पिपीलिकसरीसृपाः ।
 भूम्यापोऽग्निर्नभो वायुः शब्दःस्पर्शस्तथा रसः ॥ ६८
 रूपं गन्धो मनो बुद्धिरत्मा कालस्तथा गुणाः ।
 एतेषां परमार्थश्च सर्वमेतच्छमच्युत ॥ ६९
 विद्याविद्ये भयान्सत्यमसत्यं त्वं विद्यामृते ।
 प्रवृत्तं च निवृत्तं च कर्म वेदोदितं भवान् ॥ ७०
 समस्तकर्मभोक्ता च कर्मोपकरणानि च ।
 त्वमेव विष्णो सर्वाणि सर्वकर्मफलं च यत् ॥ ७१
 मय्यन्यत्र तथान्येषु भूतेषु भुवनेषु च ।
 तस्यैव व्याप्तिरैश्वर्यगुणसंसूचिकी प्रभो ॥ ७२
 त्वां योगिन्श्चित्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः ।
 हृद्यकथ्यभुगेकस्यं पितृदेवस्वरूपधृक् ॥ ७३
 रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं
 ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश ।
 रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा-
 स्तेष्वन्तरात्माग्रमतीव सूक्ष्मम् ॥ ७४

अतः अथ यह पर्वतोंसे लदा हुआ इनारों वर्षतक
 जलमें ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण
 छोड़ देगा ॥ ६१ ॥

तब दैत्य और दानवोंने उस समुद्रमें ही पर्वतोंसे
 ढँककर उसके ऊपर हजारों मोहनका डेर कर
 दिया ॥ ६२ ॥ उन महामतिने समुद्रमें पर्वतोंसे खाद
 दिये जानेपर अपने नित्यकर्मोंके सभय एकाग्रचित्तसे
 शीघ्रच्युतभगवान्को इस प्रकार स्तुति की ॥ ६३ ॥

प्रह्लादजी बोले—हे कमलनयन! आपको नमस्कार
 है। हे पुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकरूपन्!
 आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्णचक्रधारी प्रभो! आपको
 आरम्भार नमस्कार है ॥ ६४ ॥ गो ब्राह्मण-हितकारी
 ब्रह्मण्यदेय भगवान् कृष्णको नमस्कार है। जगत्-
 हितकारी श्रीगोविन्दको बारम्बार नमस्कार है ॥ ६५ ॥

आप ब्रह्मरूपसे विश्वकी रचना करते हैं, फिर
 उसके स्थित हो जानेपर विष्णुरूपसे पालन करते हैं
 और अन्तमें रुद्ररूपसे संहार करते हैं—ऐसे त्रिमूर्तिधारी
 आपको नमस्कार है ॥ ६६ ॥ हे अच्युत! देव, यक्ष,
 असुर, सिद्ध, नाग, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, यक्षम,
 मनुष्य, पशु, फली, स्थावर, पिपीलिका (चींटी), सरीसृप,
 पृथिवी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श,
 रूप, रस, गन्ध, मरु, बुद्धि, आत्मा, फल और
 गुण—इन सबके पारमार्थिक रूप आप ही हैं, वास्तवमें
 आप ही वे सब हैं ॥ ६७—६९ ॥ आप ही विद्या और
 अविद्या, सत्य और असत्य तथा विप और अमृत
 हैं तथा अम ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म
 हैं ॥ ७० ॥ हे विष्णो! आप ही समस्त कर्मोंके भोक्ता
 और उनकी साधन हैं तथा सर्व कर्मोंके जितने भी
 फल हैं वे सब भी आप ही हैं ॥ ७१ ॥ हे प्रभो!
 मुझमें तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनोंमें आपहीके
 गुण और ऐश्वर्यकी सूचिका व्याप्ति हो रही है ॥ ७२ ॥
 योगिगण आपहीका ध्यान करते हैं और याज्ञिकगण
 आपहीका यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगणके
 रूपसे एक आप ही हव्य और कव्यके भोक्ता हैं ॥ ७३ ॥

हे ईश! यह निखिल ब्रह्माण्ड ही आपका स्थूल रूप
 है, उससे सूक्ष्म यह संसार (पृथिवीमण्डल) है, उससे भी
 सूक्ष्म ये भिन्न-भिन्न रूपधारी सपत्त प्राणी हैं; उनमें भी
 जो अन्तरात्मा है वह और भी अत्यन्त सूक्ष्म है ॥ ७४ ॥

तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणाना-

मगोचरे चत्परमात्मरूपम् ।

क्वियच्चिन्त्ये तत्र रूपमस्ति

तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय ॥ ७५ ॥

सर्वभूतेषु सर्वात्मन्या शक्तिरपरा तव ।

गुणाभया नमस्तस्यै श्राश्रयतायै सुरेश्वर ॥ ७६ ॥

यातीतयोचरा चार्चा मनसां चाविशेषणा ।

ज्ञानिज्ञानपरिच्छेदा तां बन्धे स्वेश्वरीं पराम् ॥ ७७ ॥

ॐ नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा ।

व्यतिरिक्ते न यथास्ति व्यतिरिक्तेऽखिलस्य यः ॥ ७८ ॥

नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै महात्मने ।

नाम रूपं न यस्मैको योऽस्तित्वेनोपलभ्यते ॥ ७९ ॥

यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवौकसः ।

अपश्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मै महात्मने ॥ ८० ॥

योऽन्तस्तिष्ठन्नशेषस्य पश्यतीशः शुभाशुभम् ।

तं सर्वसाक्षिणं विश्वं नमस्ते परेश्वरम् ॥ ८१ ॥

नमोऽस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नमिदं जगत् ।

व्येयः स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मेऽव्ययः ॥ ८२ ॥

यत्रोत्तमेतत्प्रोतं च विश्वमक्षरमव्ययम् ।

आधारभूतः सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः ॥ ८३ ॥

ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः ।

यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः ॥ ८४ ॥

सर्वगत्यादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः ।

मत्तः सर्वमहं सर्वं भयि सर्वं सनातने ॥ ८५ ॥

अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः ।

ब्रह्मसंज्ञोऽहमेवाग्रे लक्षान्ते च परः पुमान् ॥ ८६ ॥

उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणोंके अविषय आपका कोई अचिन्त्य परमात्मस्वरूप है उन पुरुषोत्तमरूप आपको नमस्कार है ॥ ७५ ॥ हे सर्वोत्तम! समस्त भूतोंमें आपको जो गुणाभया धराशक्ति है, हे सुरेश्वर! उस नित्यस्वरूपिणीको नमस्कार है ॥ ७६ ॥ जो वाणी और मनके परे हैं, विशेषणरहित तथा जानियोकें ज्ञानसे परिच्छेद्य हैं उस स्वतन्त्रा परमात्मिकी में बन्धन करता हूँ ॥ ७७ ॥ ॐ उन भगवान् वासुदेवको सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त (असंग) हैं ॥ ७८ ॥ जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सनामात्रसे ही उपलब्ध होते हैं उन महात्माको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ७९ ॥ जिनके पर स्वरूपको न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार-शरीरोंका सम्यक् अर्पण करते हैं उन महात्माको नमस्कार है ॥ ८० ॥ जो ईश्वर सबके अन्तःकरणोंमें स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मोंको देखते हैं उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ८१ ॥

जिनसे यह जगत् सर्वथा अभिन्न है उन श्रीविष्णु-भगवान्को नमस्कार है, वे जगत्के आदिकारण और योगिकके ध्येय अल्प्य हरि मुझपर प्रसन्न हैं ॥ ८२ ॥ जिनमें यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है वे उच्चर, अल्प्य और सबके आधारभूत हरि मुझपर प्रसन्न हों ॥ ८३ ॥ ॐ जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्रीविष्णुभगवान्को नमस्कार है, उन्हें बारम्बार नमस्कार है ॥ ८४ ॥ भगवान् अनन्त सर्वगामी हैं; अतः ये ही मेरे रूपसे स्थित हैं, इसलिये यह सम्पूर्ण जगत् मुझहीसे हुआ है, मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातनमें ही यह सब स्थित है ॥ ८५ ॥ मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ; तथा मैं ही जगत्के आदि और अन्तमें स्थित ब्रह्मसंज्ञक परमपुरुष हूँ ॥ ८६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे ब्रह्मसंज्ञो एकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥

बीसवाँ अध्याय

प्रह्लादकृत भगवत्-स्तुति और भगवान्‌का आविर्भाव

श्रीपराशर उवाच

एवं सञ्चिन्तयन्विष्णुमभेदेनात्मनो द्विज ।
तन्वचत्वमवाध्याप्रयं मेने चात्मानमध्वुतम् ॥ १
विसस्वार तथात्मानं नान्यत्किञ्चिदजानत ।
अहमेवाव्ययोऽनन्तः परमात्मेत्यचिन्तयत् ॥ २
तस्य तद्भावनायोगात्क्षीणपापस्य वै क्रमात् ।
शुद्धेऽन्तःकरणे विष्णुस्तस्मै ज्ञानमयोऽच्युतः ॥ ३
योगप्रभासात्प्रह्लादे जाते विष्णुमयेऽसुरे ।
चलत्पुरगबन्धैस्तैर्मैत्रेय श्रुतितं क्षणात् ॥ ४
धान्तग्राह्यगणः सोमिर्ययौ क्षोभं महर्णवः ।
चचाल च मही सर्वा सशीलवनकानना ॥ ५
स च तं शीलसङ्गतं दैत्यैर्न्यस्तमथोपरि ।
विक्षिप्य तस्मात्सत्किलानिश्चक्रम महामतिः ॥ ६
दृष्ट्वा च स जगद्भूयो गगनाद्युपलक्षणम् ।
प्रह्लादोऽस्मीति सस्वार पुनरात्मानमात्मनि ॥ ७
तुष्टाव च पुनर्धीमाननादिं पुरुषोत्तमम् ।
एकाग्रमतिरव्यग्रो घतबाक्कयमानसः ॥ ८

प्रह्लाद उवाच

ॐ नमः परमार्थार्थं स्थूलसूक्ष्म क्षराक्षर ।
स्थक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरञ्जन ॥ ९
गुणाञ्जन गुणाधार निर्गुणात्मन् गुणस्थित ।
मूर्तामूर्तमहामूर्तं सूक्ष्ममूर्तं स्फुटास्फुट ॥ १०
करालसौम्यरूपात्मन्विद्याऽविद्यामयाध्वुत ।
सदसद्रूपसद्भाव सदसद्भावभावन ॥ ११
नित्यानित्यप्रपञ्चात्मन्निष्प्रपञ्चामलाश्रित ।
एकानेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादिकारण ॥ १२

श्रीपराशरजी बीले—हे द्विज! इस प्रकार भगवान् विष्णुको अपनेसे अचिन्त चिन्तन करते-करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जानेसे उन्होंने अपनेको अच्युत रूप ही अनुभव किया ॥ १ ॥ ये अपने-आपको भूल गये; उस समय उन्हें श्रीविष्णुभगवान्‌के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस, केवल यही भावना चित्तमें थी कि मैं ही अव्यय और अनन्त परमात्मा हूँ ॥ २ ॥ उस भावनाके योगसे वे क्षीण-पाप हो गये और उनके शुद्ध अन्तःकरणमें ज्ञानस्वरूप अश्वत्थ श्रीविष्णुभगवान् विराजमान हुए ॥ ३ ॥

हे मैत्रेय! इस प्रकार योगबलसे असुर प्रह्लादजीके विष्णुमय हो जानेपर उनके विचलित होनेसे वे नागपाश एक क्षणपरमें ही टूट गये ॥ ४ ॥ भ्रमणशील ग्राह्यगण और तरलतरंगोंसे पूर्ण सम्पूर्ण महासागर धुब्य हो गया, तथा पर्वत और वनोपवनोंसे पूर्ण समस्त पृथिवी हिलने लगी ॥ ५ ॥ तथा महापति प्रह्लादजी अपने ऊपर दैत्योंद्वारा लादे गये उस सम्पूर्ण पर्वत-समूहको दूर फेंककर जलसे बाहर निकल आये ॥ ६ ॥ तब आकाशादिरूप जगत्को फिर देखकर उन्हें चित्तमें यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रह्लाद हूँ ॥ ७ ॥ और तब महाबुद्धिमान्ने मन, वाणी और शरीरके संयमपूर्वक धैर्य धारणकर एकग्रचित्तसे पुनः भगवान् अनादि पुरुषोत्तमकी स्तुति की ॥ ८ ॥

प्रह्लादजी कहने लगे—हे परमार्थ! हे अर्थ (दृश्यरूप)! हे स्थूलसूक्ष्म (जगत्-स्वप्नदृश्य-स्वरूप)! हे क्षराक्षर (कार्य-कारणरूप)! हे व्यक्ताव्यक्त (दृश्यादृश्यस्वरूप)! हे करतातीत! हे सकलेश्वर! हे निरञ्जन देव! आपको नमस्कार है ॥ ९ ॥ हे गुणोंको अनुरञ्जित करनेवाले! हे गुणाधार! हे निर्गुणात्मन्! हे गुणस्थित! हे मूर्त और अमूर्तरूप महामूर्तिमन्! हे सूक्ष्ममूर्त! हे प्रकाशाप्रकाशस्वरूप! [आपको नमस्कार है] ॥ १० ॥ हे विकराल और सुन्दररूप! हे विद्या और अविद्यामय अश्वत्थ! हे सदसत् (कार्यकारण) रूप जगत्के उद्भवस्थान और सदसत्त्वगतके पालक! [आपको नमस्कार है] ॥ ११ ॥ हे नित्यानित्य (आकाशघटादिरूप) प्रपञ्चात्मन्! हे प्रपञ्चसे पृथक् रहनेवाले! हे ज्ञानियोंके आश्रयरूप! हे एकानेकरूप आदिकारण वासुदेव! [आपको नमस्कार है] ॥ १२ ॥

यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो

यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः ।

विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो-

नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ १३ ॥

श्रीपराशर उवाच

तस्य तच्चेतसो देवः स्तुतिमित्थं प्रकुर्वतः ।

आदिर्बभूव भगवान् पीताम्बरधरो हरिः ॥ १४ ॥

ससम्भ्रमस्तपालोक्य समुत्थायाकुलाक्षरम् ।

नमोऽस्तु विष्णावेत्येनद् व्याजहारासकृद् द्विज ॥ १५ ॥

प्रह्लाद उवाच

देव प्रपन्नात्तिहर प्रसादं कुरु केशव ।

अवलोकनदानेन भूयो मां पावयाच्युत ॥ १६ ॥

श्रीभगवानुवाच

कुर्वतस्ते प्रसन्नोऽहं भक्तिमध्यभिजारिणीम् ।

यथाभिलषितो मत्तः प्रह्लाद त्रियतां वरः ॥ १७ ॥

प्रह्लाद उवाच

नाथ योनिःसहस्रेषु येषु येषु राजाम्यहम् ।

तेषु तेष्व्युताभक्तिरष्पुतास्तु सदा त्वयि ॥ १८ ॥

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्पापसर्पतु ॥ १९ ॥

श्रीभगवानुवाच

मयि भक्तिस्तवास्त्येष भूयोऽप्येवं भविष्यति ।

वरस्तु मत्तः प्रह्लाद त्रियतां यस्तवैप्सितः ॥ २० ॥

प्रह्लाद उवाच

मयि द्वेषानुबन्धोऽभूत्संस्तुतामुद्यते तव ।

मत्पितुस्तत्कृतं पापं देव तस्य प्रणश्यतु ॥ २१ ॥

शस्त्राणि पातितान्यङ्गे क्षिप्तो यच्चामिनसंहतो ।

दंशितश्चोरगैर्दत्तं यद्विषं मम भोजने ॥ २२ ॥

बद्धा समुद्रेयक्षिप्तो यच्चित्तोऽस्मि शिलोन्वयैः ।

अन्यानि चाप्यसाधूनि यानि विशा कृतानि मे ॥ २३ ॥

त्वयि भक्तिमतो द्वेषादघं तत्सम्भवं च यत् ।

त्वत्प्रसादात्प्रभो सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता ॥ २४ ॥

श्रीभगवानुवाच

प्रह्लाद सर्वमेतत्ते मत्प्रसादाद्भविष्यति ।

अन्वच्च ते वरं त्वयि त्रियतामसुरात्मज ॥ २५ ॥

जो स्थूल-सूक्ष्मरूप और स्फुट-प्रकाशमय है, जो अधिपत्यरूपसे सर्वभूतस्वरूप तथापि वस्तुतः सम्पूर्ण भूतादिसे भरे हैं, विश्वके कारण न होनेपर भी जिन्हें यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है; उन पुरुषदेव भगवान्को नमस्कार है ॥ १३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—उनके इस प्रकार तन्मयता-पूर्वक स्तुति करनेपर पीताम्बरधारी देवाधिदेव भगवान् हरि प्रकट हुए ॥ १४ ॥ है द्विज! उन्हें जहला प्रकट हुए देख वे खड़े हो गये और गद्गद भाषीसे 'विष्णुभगवान्को नमस्कार है! विष्णुभगवान्को नमस्कार है!' ऐसा बारम्बार कहने लगे ॥ १५ ॥

प्रह्लादजी बोले—हे शरणागत-दुःखहारी श्रीकेशदेव! प्रसन्न होइये। हे अच्युत! अपने पुण्य-दर्शनोंसे मुझे फिर भी पवित्र फीजिये ॥ १६ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे प्रह्लाद! मैं तेरी अनन्यभाक्तीसे अति प्रसन्न हूँ; तुझे जिस वरकी इच्छा हो माँग ले ॥ १७ ॥

प्रह्लादजी बोले—हे नाथ! सहस्रों योनियोंमेंसे मैं जिस-जिसमें भी जाऊँ उसी-उसीमें, हे अच्युत! आपमें मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे ॥ १८ ॥ अक्विकी पुरुषोंके विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है विसी ही अणक स्मरण करते हुए मेरे हृदयमें कभी दूर न हो ॥ १९ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे प्रह्लाद! मुझमें तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी; किन्तु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वरकी इच्छा है मुझसे माँग ले ॥ २० ॥

प्रह्लादजी बोले—हे देव! आपकी स्तुतिमें प्रवृत्त होनेसे मेरे पिताके चित्तमें मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, इन उमसे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाय ॥ २१ ॥ इसी अतिरिक्त [उनकी आज्ञासे] मेरे शरीरपर जो क्रूरताएँ किये गये—मुझे अग्निसमुद्रमें डाला गया, राषोंसे कटाया गया, भोजनमें विष दिया गया, बाँधकर समुद्रमें डाला गया, शिलाओंसे दनाया गया तथा और भी जो-जो दुर्घटनें पिताजीने मेरे साथ किये हैं, वे सब आपमें भक्ति रखनेवाले पुरुषके प्रति द्वेष होनेसे, उन्हें उनके कारण जो पाप लग है, हे प्रभो! आपकी कृपासे मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जायें ॥ २२—२४ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे प्रह्लाद! मेरी कृपासे तुम्हारे सब इच्छार्ण पूर्ण होंगे। हे असुरकुमार! मैं तुम्हको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो माँग लो ॥ २५ ॥

प्रह्लाद उवाच

कृतकृत्योऽस्मि भगवन्खरेणानेन यत्त्वयि ।
भक्तिर्नी त्वत्प्रसादेन भक्तिरस्यभिचारिणी ॥ २६
धर्पार्थकर्मैः किं तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता ।
समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि ॥ २७

श्रीभगवानुवाच

यथा ते निश्चलं चेतो मयि भक्तिसमन्वितम् ।
तथा त्वं मत्प्रसादेन निर्वाणं परमाप्त्यसि ॥ २८

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तवान्तर्दधे विष्णुस्तस्य मैत्रेय पश्यतः ।
स चापि पुनरागम्य ब्रवन्ने चरणौ पितुः ॥ २९
तं पिता मूर्ख्युपाधाय परिब्रज्य च पीडितम् ।
जीवसीत्याह वत्सेति बाष्पाद्रनयनो द्विज ॥ ३०
प्रीतिमांश्चाऽभवत्तस्मिन्ननुतापी महासुरः ।
गुरुपिप्रोश्चकारैवं शुश्रूषां सोऽपि धर्मावित् ॥ ३१
पितर्युपरतिं नीते नरसिंहस्वरूपिणा ।
विष्णुना सोऽपि दैत्वानां मैत्रेयाभूत्पतिस्ततः ॥ ३२
ततो राज्यद्युतिं प्राप्य कर्मशुद्धिकरीं द्विज ।
पुत्रपौत्रांश्च सुकहनवाप्यैश्वर्यमेव च ॥ ३३
क्षीणाधिकारः स यदा पुण्यपापविवर्जितः ।
तदा स भगवद्ध्यानान्तरं निर्वाणमाप्तवान् ॥ ३४
एवंप्रभाषो दैत्वोऽसी मैत्रेयासीन्महामतिः ।
प्रह्लादो भगवद्भक्तो यं त्वं मामनुपृच्छसि ॥ ३५
यस्त्वेतच्चरितं तस्य प्रह्लादस्य महात्मनः ।
शृणोति तस्य पापानि सद्यो गच्छन्ति सङ्क्षयम् ॥ ३६
अहोरात्रकृतं पापं प्रह्लादचरितं नरः ।
शृण्वन् पठंश्च मैत्रेय व्यपोहति न संशयः ॥ ३७
पौर्णमास्याममावास्यामष्टम्यामथ वा पठन् ।
द्वादश्यां वा तदाप्नोति गोपदानफलं द्विज ॥ ३८
प्रह्लादं सकलापत्सु यथा रक्षितवान्हरिः ।
तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा ॥ ३९

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

प्रह्लादजी बोले—हे भगवन्! मैं तो आपके इस वरसे ही कृतकृत्य हो गया कि आपको कृपासे आपमें मेरी निरन्तर अविचल भक्ति रहेगी ॥ २६ ॥ हे प्रभो! सम्पूर्ण जगत्के कारणरूप आपमें जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्टीमें रहती है, फिर धर्म, अर्थ, कामसे तो उसे लेना ही क्या है? ॥ २७ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे प्रह्लाद! मेरी भक्तिसे युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है उसके कारण तू मेरी कृपासे परम निर्वाणपद प्राप्त करेगा ॥ २८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! ऐसा कह भगवान् उनके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये; और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिताके चरणोंकी बन्दना की ॥ २९ ॥ हे द्विज! तब पिता हिरण्यकशिपुने, जिसे नाना प्रकारसे पीडित किया था उस गुत्रका सिर सूँघकर, आँखोंमें आँसू भरकर कहा—'बेटा, बीता तो है।' ॥ ३० ॥ वह महान् असुर अपने कियेपर पछताकर फिर प्रह्लादसे प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रह्लादजी भी अपने गुरु और पिता-पिताकी सेवा-शुश्रूषा करने लगे ॥ ३१ ॥ हे मैत्रेय! तदनन्तर नृसिंहरूपधारी भगवान् विष्णुद्वारा पिताके मारे जानेपर वे दैत्योंके राजा हुए ॥ ३२ ॥ हे द्विज! फिर प्रारम्भाक्षयकारिणी राज्यलक्ष्मी, बहुत-से पुत्र-पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर, कर्माधिकारके क्षीण होनेपर पुण्य-पापसे रहित हो भगवान्का ध्यान करते हुए उन्हींके परम निर्वाणपद प्राप्त किया ॥ ३३-३४ ॥

हे मैत्रेय! जिनके विषयमें तुमने पूछा था वे परम भगवद्भक्त महामति दैत्यप्रवर प्रह्लादजी ऐसे प्रभावशाली हुए ॥ ३५ ॥ उन मत्प्रसादात् प्रह्लादजीके इस चरित्रको जो पुरुष सुनता है उसके पाप सौत्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ हे मैत्रेय! इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य प्रह्लाद-चरित्रके सुनने या पढ़नेसे दिव-रतके (निरन्तर) किये हुए पापसे आक्षय छूट जाता है ॥ ३७ ॥ हे द्विज! पूर्णिमा, अमावास्या, अष्टमी अथवा द्वादशीको इसे पढ़नेसे मनुष्यको गौदानका फल मिलता है ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार भगवान्ने प्रह्लादजीको सम्पूर्ण आपत्तियोंसे रक्षा की थी उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है ॥ ३९ ॥

इक्कीसवाँ अध्याय

कश्यपजीकी अन्य स्त्रियोंके वंश एवं घरद्वाराकी उत्पत्तिका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

संज्ञादपुत्र आयुष्माञ्छिविर्वाष्कल एव च ।
 विरोचनस्तु प्रह्लादिर्विलिखन्ने विरोचनात् ॥ १
 बलेः पुत्रशतं त्वासीद्भागज्वेष्टं महामुने ।
 हिरण्याक्षसुताश्चासन्सर्व एव महोबलाः ॥ २
 उत्कुरः शकुनिश्चैव भूतसन्तापनस्तथा ।
 महानाभो महाबाहुः कालिनाभस्तथापरः ॥ ३
 अभवन्दनुपुत्राश्च द्विभूर्द्धा शम्बरस्तथा ।
 अयोमुखः शङ्कुशिराः कपिलः शङ्करस्तथा ॥ ४
 एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च महोबलः ।
 स्वर्भानुर्वृषपर्वा च पुलोमश्च महाबलः ॥ ५
 एते दनोः सुताः क्वाता विप्रचित्तिश्च वीर्यवान् ॥ ६
 स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शर्मिष्ठा वार्षपर्दणी ।
 उपदानी ह्यशिराः प्रख्याता वरकन्धकाः ॥ ७
 वैश्वानरसुते चोभे पुलोमा कालका तथा ।
 उभे सुते मह्यभागे भारीचेस्तु परिग्रहः ॥ ८
 ताभ्यां पुत्रसहस्राणि घट्टिर्दानवसत्तमाः ।
 पौल्येभाः कालकेयाश्च मारीचतनयाः स्मृताः ॥ ९
 ततोऽपरे महावीर्या दारुणास्त्वतिनिर्घृणाः ।
 सिंहिक्राव्यधोत्पना विप्रचित्तेः सुतास्तथा ॥ १०
 व्यञ्जः शल्यश्च बलवान् नभश्चैव महाबलः ।
 घातापी नमुषिश्चैव इत्वलः खसृमस्तथा ॥ ११
 अन्यको नरकश्चैव कालनाभस्तथैव च ।
 स्वर्भानुश्च महावीर्यो व्यङ्गयोर्धो महासुरः ॥ १२
 एते वै दानवाः श्रेष्ठा दनुर्वंशविवर्द्धनाः ।
 एतेषां पुत्रपौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १३
 प्रह्लादस्य तु दैत्यस्य निशातकवचाः कुले ।
 समुत्पन्नाः सुमहता तपसा भावितात्मनः ॥ १४
 यद् सुताः सुमहत्सत्त्वास्ताश्रायाः परिकीर्तिताः ।
 शूकी श्येनी च भासी च सुग्रीवीसुविगृहिकाः ॥ १५

श्रीपराशरजी बोले—संज्ञादके पुत्र आयुष्मान् शिवि और वाष्कल ये तथा प्रह्लादके पुत्र विरोचन थे और विरोचनसे बरिका जन्म हुआ ॥ १ ॥ हे महामुने! बलिके सौ पुत्र थे जिनमें आणामुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्षके पुत्र उत्कुर, शकुनि, भूतसन्तापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान् थे ॥ २-३ ॥

(कश्यपजीकी एक दूसरी स्त्री) दनुके पुत्र द्विभूर्धा, शम्बर, अयोमुख, शङ्कुशिरा, कपिल, संकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महोबल, स्वर्भानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और परपराक्रमी विप्रचित्ति थे। वे सत्र दनुके पुत्र विख्यात हैं ॥ ४-६ ॥ स्वर्भानुकी कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और ह्यशिरा—ये वृषपर्वाकी परम सुन्दरी कन्याएँ विख्यात हैं ॥ ७ ॥ वैश्वानरकी पुलोमा और कालका दो पुत्रियाँ थीं। हे महाभाग! वे दोनों कन्याएँ मरीचिनन्दन कश्यपजीकी भार्या हुईं ॥ ८ ॥ उनके पुत्र साठ हजार दानव-श्रेष्ठ हुए। मरीचिनन्दन कश्यपजीके वे सभी पुत्र पौलोम और कालकेय कहलाये ॥ ९ ॥ इनके सिवा विप्रचित्तिके सिंहिकाके गर्भसे और भी बहुत-से महाबलवान्, भयंकर और अतिकूर पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १० ॥ वे अंशु, शल्य, बलवान् नभ, महाबली घातापी, नमुषि, इत्वल, खसृम, अन्यक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वर्भानु और महादैत्य चक्र योधी थे ॥ ११-१२ ॥ ये सष दानवश्रेष्ठ दनुके वंशको बढ़ानेवाले थे। इनके और भी सैकड़ों-हजारों पुत्र-पौत्रादि हुए ॥ १३ ॥ महान् तपस्याएँ आत्मज्ञानसम्पन्न दैत्यवर प्रह्लादजीके कुलमें निजातकवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥

कश्यपजीकी स्त्री ताम्बाकी शूकी, श्येनी, भासी, सुग्रीवी, सुवि और सुगृहिका—ये छः अति प्रभावशालिनी कन्याएँ कह्ये जाती हैं ॥ १५ ॥

शुकी शुक्रानजनवदुलूकप्रत्युलूकिकान् ।
 श्वेनी श्वेनास्तथा भासी भासानुद्भाश्च गुद्गधपि ॥ १६ ॥
 शुच्यौदकान्पक्षिगणान्सुगीवी तु व्यजायत ।
 अश्वानुष्टान्दर्भाश्च ताघावंशः प्रकीर्तितः ॥ १७ ॥
 विनतायास्तु द्वौ पुत्रौ विख्यातौ गरुडारुणी ।
 सुपर्णः पततां श्रेष्ठो दारुणः पन्नगाशनः ॥ १८ ॥
 सुरसायां सहस्रं तु सर्पाणामपितीजसाम् ।
 अनेकशिरसां ब्रह्मन् खैचराणां महत्तमनाम् ॥ १९ ॥
 काद्रवेयास्तु खलिनः सहस्रमपितीजसः ।
 सुपर्णवशगा ब्रह्मन् जज्ञिरे मैकमस्तकाः ॥ २० ॥
 तेषां प्रधानभूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः ।
 शङ्खश्वेतौ महापद्मः कम्बलाश्वतरी तथा ॥ २१ ॥
 एलापुत्रस्तथा नागः कर्कोटकधनञ्जयी ।
 एते चान्ये च बहवो दन्दशूकरा विषोत्बणाः ॥ २२ ॥
 गणं क्रोधवशं विद्धि तस्याः सर्वं च दृष्टिणः ।
 स्थलजाः पक्षिणोऽब्जाश्च दारुणाः पिशिताशनाः ॥ २३ ॥
 क्रोधो तु जनयाभास पिशाचांश्च महाबलान् ।
 गास्तु वै जनयामास सुरभिमहिषांस्तथा ।
 इरावृक्षलतावल्मीस्तृणजातीश्च सर्वशः ॥ २४ ॥
 खसा तु यक्षरक्षांसि पुनिरप्सरसस्तथा ।
 अरिष्टा तु मह्यसन्सान् गन्धर्वान्सपजीजनत् ॥ २५ ॥
 एते कश्यपदायादाः कीर्तितः स्थाणुजङ्गमाः ।
 तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २६ ॥
 एष मन्वन्तरे सर्गो ब्रह्मन्सारोषिषे स्मृतः ॥ २७ ॥
 वैवस्वते च महति वारुणे वितते कृतीः ।
 सुहानस्य ब्रह्मणो वै प्रजासर्ग इहोच्यते ॥ २८ ॥
 पूर्वं यत्र तु सप्तर्षीगुत्यन्नान्सजमानसान् ।
 पितृत्वे कल्पयामास स्वयमेव पितामहः ।
 गन्धर्वभोगिदेवानां दानवानां च सप्तम ॥ २९ ॥
 दितिर्विनष्टपुत्रा वै तोषयामास काश्यपम् ।
 तथा चाराधितः सम्यक् काश्यपस्तपतां वरः ॥ ३० ॥
 वरेणच्छन्दयामास सा च वक्षे ततो वरम् ।
 पुत्रमिन्द्रवधार्थाव समर्थमपितीजसम् ॥ ३१ ॥

शुकीसे शुक्र, डलूक एवं उलूकीके प्रतिपक्षी
 काक आदि उत्पन्न हुए तथा श्वेनीसे श्वेन (शक),
 भासीसे भास और गुद्गधमसे गुद्गोका जन्म हुआ ॥ १६ ॥
 शुचिसे जलके पक्षिगण और सुगीवीसे अश्व, उष्ट्र
 और गर्दभोंकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताघाका
 वंश कहा जाता है ॥ १७ ॥ विनताके गरुड और अरुण
 ये दो पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियोंमें श्रेष्ठ सुपर्ण
 (गरुडजी) अति भयंकर और सर्पोंकी खानेवाले
 हैं ॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन्। सुरसासे सहस्रों सर्प उत्पन्न हुए
 जो शङ्ख ही प्रभावशाली, आकाशमें विचरनेवाले, अनेक
 शिरोवाले और बड़े विशालकाय थे ॥ १९ ॥ और कद्रुके
 पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिरवाले
 सहस्रों सर्प ही हुए जो गरुडजीके वशवर्त थे ॥ २० ॥
 उनमेंसे शेष, वासुकि, तक्षक, शंखश्वेत, पद्मपद्म,
 कम्बल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, कर्कोटक, धनञ्जय
 तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटनेवाले
 सर्प प्रधान हैं ॥ २१-२२ ॥ क्रोधवशके पुत्र क्रोधवशगण
 हैं। वे सभी बड़ी-बड़ी दाढ़ीवाले, भयंकर और
 कच्चा मांस खानेवाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षिगण
 हैं ॥ २३ ॥ महाबली पिशाचोंकी भी क्रोधाने ही जन्म
 दिया है। सुरभिसे गी और भक्षि आदिकी उत्पत्ति
 हुई तथा इरासे युक्ष, लता, बेल और सब प्रकारके
 तृण उत्पन्न हुए हैं ॥ २४ ॥ खसाने यक्ष और राक्षसोंकी,
 मुनिने अप्सराओंके तथा अरिष्टाने अति शयर्भ गन्धर्वोंकी
 जन्म दिया ॥ २५ ॥ ये सब स्थावर-जंगम करवपजीकी
 सन्तान हुए। इनके और भी सैकड़ों-हजारों पुत्र-
 पौत्रादि हुए ॥ २६ ॥ हे ब्रह्मन्! यह स्वारेषिय-मन्वन्तरकी
 सृष्टिकार वर्णन कहा जाता है ॥ २७ ॥ वैवस्वत-मन्वन्तरके
 आरम्भमें महान् वारुण यत्र हुआ, उसमें ब्रह्माजी होता
 थे, अथ वें उनकी प्रजाका वर्णन करता है ॥ २८ ॥

हे साधुश्रेष्ठ! पूर्व-मन्वन्तरमें जो सप्तर्षिगण
 स्वयं ब्रह्माजीके मानसपुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे, उन्हींकी
 ब्रह्मानेने इस कल्पमें गन्धर्व, नाग, देव और दानवादिके
 पितृरूपसे निश्चित किया ॥ २९ ॥ पुत्रोंके नष्ट हो जानेपर
 दितिने कश्यपजीको प्रसन्न किया। उसकी सम्यक्
 आराधनासे सन्तुष्ट हो तपस्विधर्ममें श्रेष्ठ कश्यपजीने उसे वर
 देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इन्द्रके वध करनेमें
 समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्रकी वर माँगा ॥ ३०-३१ ॥

स च तस्मै वरं प्रादाद्भार्यायै मुनिसत्तमः ।
 दत्त्वा च वरमत्युग्रं कश्यपस्तामुवाच ह ॥ ३२
 शक्रं पुत्रो निहन्ता ते यदि गर्भं शरच्छतम् ।
 समाहितातिप्रयता शौचिनी धारयिष्यसि ॥ ३३
 इत्येवमुक्त्वा तौ देवीं सङ्गतः कश्यपो मुनिः ।
 दधार सा च तं गर्भं सम्यक्छौचसमन्विता ॥ ३४
 गर्भमात्मवक्षार्थाय ज्ञात्वा तं भद्रवापि ।
 शुभ्रपुस्तामखागच्छद्विनयादभराधिपः ॥ ३५
 तस्याश्चैवान्तरप्रेक्सुरतिष्ठत्पाकशासनः ।
 ऊने वर्षशते चास्या ददर्शान्तरमात्मना ॥ ३६
 अकृत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाविशत् ।
 निम्नं चाहारव्रमास तस्याः कुक्षिं प्रविश्य सः ॥ ३७
 यज्ञपाणिर्मह्यगर्भं चिच्छेदाद्य स सप्तधा ।
 सम्पीड्यमाणो वज्रेण स रुरोदातिदारुणम् ॥ ३८
 मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरभाषत ।
 सोऽभवत्सप्तधा गर्भस्तमिन्द्रः कुपितः पुनः ॥ ३९
 एकैकं सप्तधा चक्रे वज्रेणारिविदारिणा ।
 मरुतो नाम देवास्ते बभूवुरतिवेगिनः ॥ ४०
 यदुक्तं च भगवता तेनैव मरुतोऽभवन् ।
 देवा एकोनपञ्चाशत्सहाया वज्रपाणिनः ॥ ४१

मुनिश्रेष्ठ कश्यपजीने अपनी भार्या दितिकी वह
 दर दिया और उस अति उग्र वरको देते हुए वे उससे
 बोले— ॥ ३२ ॥ “यदि तुम भगवान्के ध्यानमें शरपर
 रहकर अपना गर्भ शौच” और संवागपूर्वक सौ वर्षतक
 धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्रको भारनेवला
 होगा” ॥ ३३ ॥ ऐसा कहकर मुनि कश्यपजीने उस
 देवीसे संगमन किया और उसने बड़े शौचपूर्वक रहते
 हुए वह गर्भ धारण किया ॥ ३४ ॥

उस गर्भको अपने लक्षका कारण जान देवराज
 इन्द्र भी दिनसपूर्वक उसकी सेवा करनेके लिये आ
 गये ॥ ३५ ॥ उसके शौचादिमें कभी कोई अन्तर पड़े—
 यही देखनेको इच्छासे इन्द्र वर्षों हर क्षण उपस्थित रहते
 थे। अन्तमें सौ वर्षमें कुछ ही कर्पा रहनेपर उन्होंने एक
 अन्तर देख ही लिया ॥ ३६ ॥ एक दिन दिति बिना
 चरण-शुद्धि किये ही अपनी शय्यापर लौट गयी। उस
 समय निद्राने उसे घेर लिया। तब इन्द्र हाथमें वज्र लेकर
 उसकी कुक्षिमें घुस गये और उस महागर्भके सप्त
 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार लज्जसे पीड़ित होनेसे वह
 गर्भ जोर-जोरसे रोने लगा ॥ ३७-३८ ॥ इन्द्रने उससे
 पुनः-पुनः कहा कि ‘मर रो’। किन्तु जब वह गर्भ सप्त
 भागोंमें विभक्त हो गया, [और फिर भी न मरा] तो
 इन्द्रने अत्यन्त कुपित हो अपने शत्रु-विनाशक वज्रसे
 एक-एकके सात-सात टुकड़े और कर दिये। वे ही
 अति वेगवान् मरुत् नामक देवता हुए ॥ ३९-४० ॥
 भगवान् इन्द्रने जो उससे कहा था कि ‘मा रोदीः’ (मर
 रो) इसीलिये वे मरुत् कहलाये। ये उनवास मरुद्गण
 इन्द्रके सहायक देवता हुए ॥ ४१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

* शौच अति निवम मरुत्पुराणमें इस प्रकार कालार्थ गये हैं—

अन्धकारं नैव भोक्तव्यं गर्भिण्या वरवाणिनिः न स्थानव्यं न गन्तव्यं वृक्षमूलेषु सर्वदा ॥

वर्जयेत् करहं लोके गात्रभङ्गं तथैव च । नान्मुक्तकेशो तिष्ठेच्च नाशुचिः स्यात् कदाचन ॥

हे कुन्दरि! गर्भिणी स्त्रीको चाकिये कि सार्यकलमें भोजन न करे, वृक्षोंके नीचे न जाए और न वहाँ टहरे ही तथा लोगोंके
 साथ कलह और औराई लेना छोड़ दे, कभी केश झुला न रखे और न अपवित्र हो रहे।

तथा भास्मान् भी छडा है—“न दिस्पृक्षस्वर्भूतानि न शपेन्तानृतं वदेत्” इत्यादि। अर्थात् प्राणियोंकी हिंसा न करे, किसीको
 दुष्ट-भला न करे और कभी कूट न बोले।

बाईसवाँ अध्याय

विष्णुभगवाण्की विभूति और जगत्की व्यवस्थाका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

यदाभिषिक्तः स पृथुः पूर्व राज्ये महर्षिभिः ।
 ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामहः ॥ १
 नक्षत्रग्रहविप्राणां वीरुधां चाप्यशेषतः ।
 सोमं राज्ये दधद्ब्रह्मा यज्ञानां तपसामपि ॥ २
 राज्ञां वैश्वर्षणं राज्ये जलानां वरुणं तथा ।
 आदित्यानां पतिं विष्णुं वसूनामथ पावकम् ॥ ३
 प्रजापतीनां दक्षं तु वासवं मरुतामपि ।
 दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमधिपं ददौ ॥ ४
 पितृणां धर्मराजं तं यमं राज्येऽभ्यषेचयत् ।
 ऐरावतं गजेन्द्राणामशेषाणां पतिं ददौ ॥ ५
 पतत्रिणां तु गरुडं देवानामपि यासवम् ।
 उच्चैःश्रवसमश्वानां वृषभं तु गवामपि ॥ ६
 मृगाणां चैव सर्वेषां राज्ये सिंहं ददौ प्रभुः ।
 शेषं तु दन्दशूकानामकरोत्पतिमव्ययः ॥ ७
 हिमालयं स्थावराणां मुनीनां कपिलं मुनिम् ।
 नखिनां दंष्ट्रिणां चैव मृगाणां व्याघ्रमीश्वरम् ॥ ८
 वनस्पतीनां राजानां हनक्षमेवाभ्यषेचयत् ।
 एषमेवान्यजातीनां प्राधान्येनकरोत्प्रभुः ॥ ९
 एवं विभज्य राज्यानि दिशां पालाननन्तरम् ।
 प्रजापतिपतिर्ब्रह्मा स्थापयामास सर्वतः ॥ १०
 पूर्वस्यां दिशि राजानं वैराजस्य प्रजापतेः ।
 दिशापालं सुधन्वानं सुतं वै सोऽभ्यषेचयत् ॥ ११
 दक्षिणस्यां दिशि तथा कर्दमस्य प्रजापतेः ।
 पुत्रं शङ्खपदं नाम राजानं सोऽभ्यषेचयत् ॥ १२
 पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमष्ट्युतम् ।
 केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत् ॥ १३
 तथा हिरण्यरोमाणं पर्जन्यस्य प्रजापतेः ।
 उदीच्यां दिशि दुर्द्धर्षं राजानमभ्यषेचयत् ॥ १४
 तैरिवं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सप्ततना ।
 यथाप्रदेशमद्यापि धर्मतः परिपाल्यते ॥ १५

श्रीपराशरजी बोले—पूर्वकालमें महाविषीने जब महाराज पृथुको राज्यपदपर अभिषिक्त किया तो लोक-पितामह श्रीब्रह्माजीने भी क्रमसे रान्योंका बँटवारा किया ॥ १ ॥ ब्रह्मजीने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, सम्पूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदिके राज्यपर चन्द्रमाको नियुक्त किया ॥ २ ॥ इसी प्रकार विश्रवाके पुत्र कुम्भरजीको राजाओंका, वरुणको जलोंका, विष्णुको आदित्योंका और अग्निको वसुगणोंका अधिपति बनाया ॥ ३ ॥ दक्षको प्रजापतियोंका, इन्द्रको मरुद्गणका तथा प्रह्लादजीको दैत्य और दानवोंका आधिपत्य दिया ॥ ४ ॥ पितृगणके राज्यपदपर धर्मराज यमको अभिषिक्त किया और सम्पूर्ण गन्धर्वोंका स्वामित्व ऐरावतको दिया ॥ ५ ॥ गरुडको पक्षियोंका, इन्द्रको देवताओंका, उच्चैःश्रवाको घोड़ोंका और वृषभको गौओंका अधिपति बनाया ॥ ६ ॥ प्रभु ब्रह्माजीने समस्त मृगों (वन्यपशुओं)—का राज्य सिंहको दिया और सर्पोंका स्वामी शेषनागको बनाया ॥ ७ ॥ स्थावरोंका स्वामी हिमालयके, मुनिजनोंका कपिलदेवजीको और नख तथा दाढ़ीवाले मृगागणका राजा व्याघ्र (बाघ)—को बनाया ॥ ८ ॥ तथा प्लक्ष (पाकर)—को वनस्पतियोंका राजा किया ॥ इसी प्रकार ब्रह्माजीने और-और जातियोंके प्राधान्यकी भी व्यवस्था की ॥ ९ ॥

इस प्रकार रान्योंका विभाग करनेके अनन्तर प्रजापतियोंके स्वामी ब्रह्माजीने सब ओर दिक्पालोंकी स्थापना की ॥ १० ॥ उन्होंने पूर्व-दिशामें वैराज प्रजापतिके पुत्र राजा सुधन्वाको दिक्पालपदपर अभिषिक्त किया ॥ ११ ॥ तथा दक्षिण-दिशामें कर्दम प्रजापतिके पुत्र राजा शंखपदको नियुक्ति की ॥ १२ ॥ कर्षी ज्युत न होनेवाले रजसपुत्र महात्मा केतुमान्को उन्होंने पश्चिम-दिशामें स्थापित किया ॥ १३ ॥ और पर्जन्य प्रजापतिके पुत्र अति दुर्द्धर्ष राजा हिरण्यरोमाको उत्तर-दिशामें अभिषिक्त किया ॥ १४ ॥ वे आजतक सप्त द्वीप और अनेकों नगरोंसे युक्त इस सम्पूर्ण पृथिवीका अपने-अपने विभागानुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं ॥ १५ ॥

एते सर्वे प्रवृत्तस्य स्थितौ विष्णोर्महात्मनः ।
 विभूतिभूता राजानो ये चान्ये मुनिसत्तम ॥ १६
 ये भविष्यन्ति ये भूताः सर्वे भूतेश्वरा द्विज ।
 ते सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोरंशा द्विजोत्तम ॥ १७
 ये तु देवाधिपतयो ये च देव्याधिपास्तथा ।
 दानवानां च ये नाथा ये नाथाः पिशिताशिनाम् ॥ १८
 पशूनां ये च पतयः पतयो ये च यक्षिणाम् ।
 मनुष्याणां च सर्पाणां नागानामधिपाश्च ये ॥ १९
 वृक्षाणां पर्वतानां च ग्रहाणां चापि येऽधिपाः ।
 अतीता वर्तमानाश्च ये भविष्यन्ति चापरे ।
 ते सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोरंशसमुद्भवाः ॥ २०
 न हि पालनसामर्थ्यमृते सर्वेश्वरं हरिम् ।
 स्थितं स्थितौ महाप्राज्ञ भक्त्यन्यस्य कस्यचित् ॥ २१
 सृजत्वेष जगत्सृष्टौ स्थितौ पाति सनातनः ।
 हन्ति खेयान्तकत्वेन रजःसत्त्वादिसंश्रवः ॥ २२
 चतुर्विभागः संसृष्टौ चतुर्धा संस्थितः स्थितौ ।
 प्रलयं च करोत्यन्ते चतुर्भेदो जनार्दनः ॥ २३
 एकेनांशेन ब्रह्मासी भवत्यव्यक्तमूर्तिमान् ।
 परीक्षामिश्राः पतयः प्रजानां चान्यभागशः ॥ २४
 कालस्तृतीयस्तस्यांशः सर्वभूतानि चापरः ।
 इत्थं चतुर्धा संसृष्टौ वर्ततेऽसौ रजोगुणः ॥ २५
 एकांशेनस्थितो विष्णुः करोति प्रतिपालनम् ।
 मन्वादिरूपश्चान्येन कालरूपोऽपरेण च ॥ २६
 सर्वभूतेषु चान्येन संस्थितः कुरुते स्थितिम् ।
 सत्त्वं गुणं समाश्रित्य जगतः पुरुषोत्तमः ॥ २७
 आश्रित्य तमसो वृत्तिमनकाले तथा पुनः ।
 रुद्रस्वरूपो भगवानेकांशेन भवत्यजः ॥ २८
 अग्न्यन्तकादिरूपेण भागेनान्येन वर्तते ।
 कालस्वरूपो भागो यस्मिन् सर्वभूतानि चापरः ॥ २९
 विनाशं कुर्वतस्तस्य चतुर्द्धैवं महात्मनः ।
 विभागकल्पना ब्रह्मन् कथ्यते सार्वकालिकी ॥ ३०
 ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथैवाखिलजन्तवः ।
 विभूतयो हरेरेता जगतः सृष्टिहेतवः ॥ ३१

हे मुनिसत्तम! ये तथा अन्य भी जो सम्पूर्ण राजालोक हैं वे सभी विश्वके पालनमें प्रवृत्त परमात्मा श्रीविष्णुभगवान्के विभूतिरूप हैं ॥ १६ ॥ हे द्विजोत्तम! जो-जो भूताधिपति पहले हो गये हैं और जो-जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान् विष्णुके अंश हैं ॥ १७ ॥ जो जो भी देवताओं, देवों, दानवों और मांसपोजियोंके अधिपति हैं, जो-जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागोंके अधिनायक हैं, जो-जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहोंके स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्यद् एवं वर्तमानकालीन जितने भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत भगवान् विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए हैं ॥ १८-२० ॥ हे महाप्राज्ञ! सृष्टिके पालन-कार्यमें प्रवृत्त सर्वेश्वर श्रीहरिको छोड़कर और किसीमें भी पालन करनेकी शक्ति नहीं है ॥ २१ ॥ रवः और सत्त्वादि गुणोंके आश्रयसे वे सनातन प्रभु ही जगत्को रचनाके समय रचना करते हैं, स्थितिके लक्ष्य पालन करते हैं और अन्तसमयमें कालरूपसे संहर करते हैं ॥ २२ ॥

वे जनार्दन चार विभागसे सृष्टिके और हर विभागे ही स्थितिके समय रहते हैं तथा चार रूप धारण करके ही अन्तमें प्रलय करते हैं ॥ २३ ॥ एक अंशसे वे अव्यक्तस्वरूप ब्रह्म होते हैं, दूसरे अंशसे परीक्षि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा सम्पूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुणविशिष्ट होकर चार प्रकारसे सृष्टिके समय स्थित होते हैं ॥ २४-२५ ॥ फिर वे पुरुषोत्तम सत्त्वगुणका आश्रय लेकर जगत्की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंशसे विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंशसे मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंशसे काल और चौथेसे सर्वभूतोंमें स्थित होते हैं ॥ २६-२७ ॥ तथैव अन्तकालमें वे अजन्मा भगवान् तमोगुणकी वृत्तिक आश्रय ले एक अंशसे रुद्ररूप, दूसरे भागसे अग्नि और अन्तकादि रूप, तीसरेसे कालरूप और चौथेसे सम्पूर्ण भूतस्वरूप हो जाते हैं ॥ २८-२९ ॥ हे ब्रह्मन्! विनाश करनेके लिये उन महात्माकी यह चार प्रकारकी सार्वकालिक विभागकरणना कही जाती है ॥ ३० ॥ ब्रह्म, पक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी-ये श्रीहरिको विभूतिरथैव जगत्की सृष्टिकी कारण हैं ॥ ३१ ॥

विष्णुर्पन्वाद्यः कालः सर्वभूतानि च द्विज ।
 स्थितेर्निमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥ ३२
 रुद्रः कालान्तव्रह्माश्च सपस्त्रार्थेषु जन्तवः ।
 चतुर्धा प्रलययैता जनादर्नविभूतयः ॥ ३३
 जगदादीं तथा मध्ये सृष्टिराप्रलयाद् द्विज ।
 धात्रा मरीचिमिश्रैश्च क्रियते जन्तुभिस्तथा ॥ ३४
 ब्रह्म सृजन्यादिकाले मरीचिप्रमुखास्ततः ।
 उत्पादयन्वपत्यानि जन्तवश्च प्रतिक्षणाम् ॥ ३५
 कालेन न विना ब्रह्मा सृष्टिनिष्पादको द्विज ।
 न प्रजापतयः सर्वे न चैवास्त्रिलजन्तवः ॥ ३६
 एवमेव विभागोऽयं स्थितावप्युपदिश्यते ।
 चतुर्धा तस्य देवस्य मैत्रेय प्रलये तथा ॥ ३७
 यत्किञ्चित्सृज्यते येन सत्त्वजातेन वै द्विज ।
 तस्य सृज्यस्य सम्भूतो तत्तत्सर्वं वै हरेस्तनुः ॥ ३८
 हन्ति स्रवच्च यत्किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।
 जनार्दनस्य तद्भ्रंशं मैत्रेयान्तकरं सपुः ॥ ३९
 एवमेव जगत्त्रयं जगत्पाता तथा जगत् ।
 जगद्भक्षयिता देवः समस्तस्य जनार्दनः ॥ ४०
 सृष्टिस्थित्वन्नकालेषु त्रिधैवं सम्प्रवर्तते ।
 गुणप्रवृत्त्या परमं पदं तस्यागुणं महत् ॥ ४१
 तस्य ज्ञानमयं व्यापि स्वसंवेद्यमनौपमम् ।
 चतुष्प्रकारं तदपि स्वरूपं परमात्मनः ॥ ४२
 श्रीमैत्रेय उवाच
 चतुष्प्रकारतां तस्य ब्रह्मभूतस्य हे मुने ।
 ममाक्ष्व यथान्वार्यं यदुक्तं परमं पदम् ॥ ४३
 श्रीपरमर उवाच
 मैत्रेय कारणं प्रोक्तं साधनं सर्ववस्तुषु ।
 साध्यं च वस्तुधिमत्तं यत्साधयितुमात्मनः ॥ ४४
 योगिनो मुक्तिकापस्य प्राणायामादिसाधनम् ।
 साध्यं च परमं ब्रह्म पुनर्वावर्तते यतः ॥ ४५

हे द्विज! विष्णु, मनु आदि, काल और समस्त भूभाग—ये जगत्की स्थितिके कारणरूप भगवान् विष्णुकी विभूतियाँ हैं ॥ ३२ ॥ तथा रुद्र, काल, अन्तकादि और सफल जीव—श्रीजनार्दनकी ये चार विभूतियाँ प्रलयकी कारणरूप हैं ॥ ३३ ॥

हे द्विज! जगत्के आदि और मध्यमें तथा प्रलय-पर्यन्त भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न-भिन्न जीवोंसे ही सृष्टि हुआ करती है ॥ ३४ ॥ सृष्टिके आरम्भमें पहले ब्रह्मानी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदनन्तर सगस्त जीव क्षण-क्षणमें सन्तान उत्पन्न करते रहते हैं ॥ ३५ ॥ हे द्विज! कालके बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि-रचना नहीं कर सकते [अतः भगवान् कालरूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टिके कारण हैं] ॥ ३६ ॥ हे मैत्रेय! इसी प्रकार जगत्की स्थिति और प्रलयमें भी उन देवदेवके चार-चार विभाग बताये जाते हैं ॥ ३७ ॥ हे द्विज! जिस किसी जीवद्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुए जीवकी उत्पत्तिमें सर्वथा शरीरिका शरीर ही कारण है ॥ ३८ ॥ हे मैत्रेय! इसी प्रकार जो कोई स्थावर-जंगम भूतोंमेंसे किसीको नष्ट करता है, वह नाश करनेवाला भी श्रीजनार्दनका अन्तकारक रीद्वरूप ही है ॥ ३९ ॥ इस प्रकार ये जनार्दनदेव ही समस्त संसारके रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत्-रूप भी हैं ॥ ४० ॥ जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और अन्तके समय जे इसी प्रकार तीनों गुणोंकी प्रेरणासे प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परमपद महान् निर्गुण है ॥ ४१ ॥ परमात्माका वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद्य (स्वयं-प्रकाश) और अनुपम है तथा वह भी चार प्रकारका ही है ॥ ४२ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे मुने! आपने जो भगवान्का परम पद कहा, वह चार प्रकारका कैसे है? यह आप मुझसे विधिपूर्वक कहिये ॥ ४३ ॥

श्रीपरमेश्वरजी बोले—हे मैत्रेय! एक वस्तुओंका जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है और जिस अपनी अभिमत वस्तुकी सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है ॥ ४४ ॥ मुक्तिकी इच्छावाले योगिजनोंके लिये प्राणायाम आदि साधन हैं और परब्रह्म ही साध्य है, जहाँसे फिर लौटना नहीं पड़ता ॥ ४५ ॥

साधनात्मन्मनं ज्ञानं मुक्तये योगिनां हि यत् ।
 स भेदः प्रथमस्तस्य ब्रह्मभूतस्य वै मुने ॥ ४६
 चुञ्जतः क्लेशमुक्त्वर्थं साध्यं यद्ब्रह्म योगिनः ।
 तदात्मन्मनविज्ञानं द्वितीयोऽंशो महामुने ॥ ४७
 उभयोस्त्वविभागेन साध्यसाधनयोर्हि यत् ।
 विज्ञानमर्हंतमयं तद्भागोऽन्यो मयोदितः ॥ ४८
 ज्ञानत्रयस्य वै तस्य विशेषो यो महामुने ।
 तन्निराकरणद्वारा दर्शितात्मस्वरूपवत् ॥ ४९
 निर्व्यापारमनाख्येयं व्याप्तिमात्रमनूपमम् ।
 आत्मसम्बोधविषयं सत्तामात्रमलक्षणम् ॥ ५०
 प्रशान्तमभयं शुद्धं दुर्षिंभास्यमसंश्रयम् ।
 विष्णोर्ज्ञानमयस्योक्तं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥ ५१
 तत्र ज्ञाननिरोधेन योगिनो यान्ति ये लयम् ।
 संसारकर्षणोपत्तौ ते यान्ति निर्बीजतां द्विज ॥ ५२
 एवंप्रकारममलं नित्यं व्यापकमक्षयम् ।
 समस्तहेयरहितं विष्णवाख्यं परमं पदम् ॥ ५३
 तद्ब्रह्म परमं योगी यतो नावर्तते पुनः ।
 श्रयत्यपुण्योपरमे क्षीणक्लेशोऽतिनिर्मलः ॥ ५४
 द्वे रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्त्तं चामूर्त्तमेव च ।
 क्षराक्षरस्वरूपे ते सर्वभूतेष्ववस्थिते ॥ ५५
 अक्षरं तत्परं ब्रह्म क्षरं सर्वमिदं जगत् ।
 एकदेशस्थितस्याग्नेर्ज्योत्स्ना विस्तरिणी यथा ।
 परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत् ॥ ५६
 तत्राप्यासन्नदूरत्वाद्बहुत्वस्यल्पतामयः ।
 ज्योत्स्नाभेदोऽस्ति तच्छलेप्रतद्गुन्मीत्रेय विद्यते ॥ ५७
 ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्मन्प्रधाना ब्रह्मशक्तयः ।
 ततश्च देवा मैत्रेय न्यूना दक्षादयस्ततः ॥ ५८
 ततो मनुष्याः पशवो भृगुपक्षिसरीसृपाः ।
 नूनान्यूनतराश्चैव वृक्षगुल्मादयस्तथा ॥ ५९
 तदेतवक्षरं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम् ।
 आविर्भावतिरोभावजन्मनाशविकल्पवत् ॥ ६०

हे मुने! जो योगीको मुक्तिका कारण है, वह 'साधनात्मन्मन-ज्ञान' ही उस ब्रह्मभूत परमपदका प्रथम भेद है ॥ ४६ ॥ क्लेश-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योगाध्यासी योगीका साध्यरूप जो ब्रह्म है, हे महामुने! उसका ज्ञान ही 'आत्मन्मन-विज्ञान' नामक दूसरा भेद है ॥ ४७ ॥ इन दोनों साध्य-साधनोंका अर्धपूर्वक जो 'अर्हंतमय ज्ञान' है उसीके में तीसरा भेद कहता हूँ ॥ ४८ ॥ और हे महामुने! उक्त तीनों प्रकारके ज्ञानकी विशेषताका निराकरण करनेपर अनुभव हुए आत्मस्वरूपके समान ज्ञानस्वरूप भगवान् विष्णुका बो-
 निर्व्यापार अनिर्वचनीय, व्याप्तिमात्र, अनुपम, आत्मबोधस्वल्प, सत्तामात्र, अलक्षण, शान्त, अभय, शुद्ध, भस्मनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह 'ब्रह्म' नामक ज्ञान [उसका शीथ भेद] है ॥ ४९—५१ ॥ हे द्विज जो योगिजन अन्य ज्ञानोंके निरोधकर इस (श्रीशे भेद) में ही लीन हो जाते हैं वे इस संसार-क्षेत्रके भीतर बीजारोपणरूप कर्म करनेमें निर्बीज (वासनारहित) होते हैं [अर्थात् वे लोकसंग्रहके लिये कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मोंका रहोई फल-पुण्यरूप फल प्राप्त नहीं होता] ॥ ५२ ॥ इस प्रकारका वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और भयस्थ हेय गुणोंसे रहित विष्णु नामक परमपद है ॥ ५३ ॥ पुण्य-पापका श्रय और क्लेशोंकी निवृत्ति होनेपर जो अत्यन्त निर्मल हो जाता है वही योगी उस परब्रह्मका आश्रय लेता है जहाँसे वह फिर नहीं लौटता ॥ ५४ ॥

उस ब्रह्मके मूर्त्त और अमूर्त्त दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षररूपसे समस्त प्राणियोंमें स्थित हैं ॥ ५५ ॥ अक्षर ही वह परब्रह्म है और क्षर सम्पूर्ण जगत् है। जिस प्रकार एकदेशीय अग्निका प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है वही प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् परब्रह्मकी ही शक्ति है ॥ ५६ ॥ हे मैत्रेय! अग्निकी निकटता और दूरताके भेदसे जिस प्रकार उसके प्रकाशमें भी अधिकता और न्यूनताका भेद रहता है उसी प्रकार ब्रह्मकी शक्तिमें भी तारतम्य है ॥ ५७ ॥ हे ब्रह्मन्! ब्रह्म, विष्णु और शिव ब्रह्मको प्रधान शक्तियाँ हैं, उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनन्तर दैत्य आदि प्रजापतिगण हैं ॥ ५८ ॥ उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृपादि हैं तथा उनसे भी अल्पान्त न्यून वृक्ष, गुल्म और लता आदि हैं ॥ ५९ ॥ अतः हे मुनिवर! आविर्भाव (उत्पन्न होना), तिरोभाव (हिमि जाना), जन्म और नाश आदि विकल्पयुक्त भी यह सम्पूर्ण जगत् वास्तवमें नित्य और अक्षय ही है ॥ ६० ॥

सर्वशक्तिमयो विष्णुः स्वरूपं ब्रह्मणः परम् ।
 पूर्त्तं यद्योगिभिः पूर्वं योगारम्भेषु चिन्तयते ॥ ६१
 सालम्बनो महायोगः सधीजो यत्र संस्थितः ।
 मनस्यध्याहते सम्यग्युज्जती जायते मुने ॥ ६२
 स परः परशक्तीनां ब्रह्मणः समनन्तरम् ।
 मूर्त्तं ब्रह्म महाभाग सर्वब्रह्ममयो हरिः ॥ ६३
 तत्र सर्वमिदं प्रोक्तयोर्तं त्रैसाखिलं जगत् ।
 ततो जगन्जगत्त्रिस्मिन्स जगच्चाखिलं मुने ॥ ६४
 क्षराक्षरमयो विष्णुर्बिभर्त्यखिलमीश्वरः ।
 पुरुषाद्याकृतमयं भूषणास्वस्वरूपवत् ॥ ६५

श्रीमंत्रेय उवाच

भूषणास्वस्वरूपस्यं यच्चैतदखिलं जगत् ।
 विभक्तिं भगवान्विष्णुस्तन्ममाख्यातुमर्हसि ॥ ६६

श्रीपराशर उवाच

नमस्कृत्याप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे ।
 कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममाभवत् ॥ ६७
 आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम् ।
 विभक्तिं कौस्तुभमणिस्वरूपं भगवान्हरिः ॥ ६८
 श्रीवत्ससंस्थानभरमनन्तेन समाश्रितम् ।
 प्रधानं बुद्धिरध्यास्ते गदारूपेण माधवे ॥ ६९
 भूतादिमिन्द्रियादिं च द्विषाहङ्कारमीश्वरः ।
 विभक्तिं शङ्करूपेण शार्ङ्गरूपेण च स्थितम् ॥ ७०
 चलत्स्वरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलम् ।
 चक्रस्वरूपं च मनो धत्ते विष्णुकरे स्थितम् ॥ ७१
 पञ्चरूपा तु या माला वैजयन्ती गदाभृतः ।
 सा भूतेहेतुसङ्घता भूतमाला च वै द्विज ॥ ७२
 यानीन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकमि वै ।
 शररूपाण्यशेषाणि सानि धत्ते जनार्दनः ॥ ७३
 विभक्तिं यच्चासिरत्नमच्युतोऽत्यन्तनिर्मलम् ।
 विद्यामयं तु तज्ज्ञानमविद्याकोशसंस्थितम् ॥ ७४
 इत्थं पुमान्प्रधानं च बुद्ध्यहङ्कारमेव च ।
 भूतानि च ह्यधीकेशे मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।
 विद्याविद्ये च मैत्रेय सर्वमेतत्समाश्रितम् ॥ ७५

सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्मके पर-स्वरूप तथा मूर्तरूप
 हैं जिनका योगिजन योगारम्भके पूर्व चिन्तन करते हैं ॥ ६१ ॥
 हे मुने! जिनमें मनको सम्यक्-प्रकारसे निरन्तर एकाग्र
 करनेवालोंको आलम्बनमय सजीव (सम्प्रज्ञात) महायोगकी
 प्राप्ति होती है, हे महाभाग! हे सर्वब्रह्ममय श्रीविष्णुभगवान्
 समस्त परा शक्तियोंमें प्रधान और ब्रह्मके अत्यन्त निकटवर्ती
 पूर्त-ब्रह्मस्वरूप हैं ॥ ६२-६३ ॥ हे मुने! उन्होंने यह सम्पूर्ण
 जगत् आंतप्रोत है, उन्होंनेसे उत्पन्न हुआ है, उन्होंनेमें स्थित
 है और स्वयं वे ही समस्त जगत् हैं ॥ ६४ ॥ क्षराक्षरमय
 (कार्य-करण-रूप) ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष-प्रकृतिमय
 सम्पूर्ण जगत्को अपने अभाव्य और आयुधरूपसे धारण
 करते हैं ॥ ६५ ॥

श्रीमंत्रेयजी बोले— भगवान् विष्णु इस संसारको
 भूषण और आयुधरूपसे किस प्रकार धारण करते हैं यह
 आप मुझसे कहिये ॥ ६६ ॥

श्रीपराशरजी बोले— हे मुने! जगत्का परलन
 करनेवाले आपनेय श्रीविष्णुभगवान्को नमस्कार कर
 अब मैं, जिस प्रकार वसिष्ठजीने मुझसे कहा था वह
 तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ६७ ॥ इस जगत्के निर्लेप तथा निर्गुण
 और निर्मल आत्माको अर्थात् बुद्ध शेषरूपस्वरूपको
 श्रीहरि कौस्तुभमणिरूपसे धारण करते हैं ॥ ६८ ॥ श्रीवत्सनां
 प्रधानको श्रीवत्सरूपसे आश्रय दिया है और बुद्धि
 श्रीमाधवकी गदारूपसे स्थित है ॥ ६९ ॥ भूतोंके कारण
 तापस अहंकार और इन्द्रियोंके कारण राजस अहंकार
 इन दोनोंको वे शंख और शार्ङ्ग धनुषरूपसे धारण करते
 हैं ॥ ७० ॥ अपने वेगसे पवनकी भी पराजित करनेवाला
 अत्यन्त चंचल, सात्विक अहंकाररूप मन श्रीविष्णुभगवान्के
 कर-कमलोंमें स्थित चक्रका रूप धारण करता है ॥ ७१ ॥
 हे द्विज! भगवान् गदाधरकी जो [मुक्ता, माणिक्य,
 यरकत, इन्द्रनील और हीरकमयी] पंचरूपा वैजयन्ती
 माला है वह पंचतन्मात्राओं और पंचभूतोंका ही संघात
 है ॥ ७२ ॥ जो ज्ञान और कर्ममयी इन्द्रियों हैं उन सबको
 श्रीजनार्दन भगवान् व्यापकरूपसे धारण करते हैं ॥ ७३ ॥
 भगवान् अच्युत जो अत्यन्त निर्मल खड्ग धारण करते
 हैं वह अविद्यामय कोशसे अलक्ष्यदित विद्यामय ज्ञान
 ही है ॥ ७४ ॥ हे मैत्रेय! इस प्रकार पुरुष, प्रधान, बुद्धि,
 अहंकार, पंचभूत, मन, इन्द्रियों तथा विद्या और अविद्या
 सभी श्रीकृष्णकेसममें आश्रित हैं ॥ ७५ ॥

अस्त्रभूषणसंस्थानस्वरूपं रूपवर्जितः ।
 विभक्तिं मायारूपोऽसौ श्रेयसे घ्राणिनां हरिः ॥ ७६
 सविकारं प्रधानं च पुमांसमखिलं जगत् ।
 विभक्तिं पुण्डरीकाक्षस्तदेवं परमेश्वरः ॥ ७७
 याविद्या या तथाविद्या यत्सद्यच्चासदव्ययम् ।
 तत्सर्वं सर्वभूतेशो मैत्रेय मधुसूदने ॥ ७८
 कलाकाष्ठीनिमेषादिदिनत्वचनहायनैः ।
 कालस्वरूपो भगवानपापो हरिरिष्यथः ॥ ७९
 भूलोकोऽथ भुवलोकः स्वर्लोको मुनिसत्तम ।
 महर्जनस्तमः सत्यं सप्त लोका इमे विभुः ॥ ८०
 लोकात्मपूतिः सर्वेषां पूर्वेषामपि पूर्वजः ।
 आधारः सर्वविद्यानां स्वयमेव हरिः स्थितः ॥ ८१
 देवमानुषपशुवादिस्वरूपैर्बहुभिः स्थितः ।
 ततः सर्वेश्वरोऽनन्तो भूतमूर्तिरमूर्तिमान् ॥ ८२
 ऋचो यजूंषि सामानि तथैवाध्वर्वाणानि वै ।
 इतिहासोपवेदाश्च वेदानेषु तथोक्तयः ॥ ८३
 वेदाङ्गानि समस्तानि मन्वादिगदितानि च ।
 शास्त्राप्यशेषाण्यारख्यानान्युवाकाश्च ये स्मरन्ति ॥ ८४
 काव्यसापाश्च ये केचिद्गीतकान्यखिलानि च ।
 शब्दमूर्तिधरस्यैतद्गुर्विष्णोर्महात्मनः ॥ ८५
 यानि मूर्तान्यमूर्तानि नान्यत्रान्यत्र वा स्मरन्ति ।
 सन्ति वै सस्तुजातानि तानि सर्वाणि तद्गुणैः ॥ ८६
 अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो
 नान्यत्ततः कारणकार्यजातम् ।
 ईदृङ्मनो यस्य न तस्य भूयो
 भवोऽत्र वा द्वन्द्वगदा भवन्ति ॥ ८७
 इत्येष तैऽज्ञः प्रथमः पुराणस्यास्य वै द्विज ।
 यथावत्कथितो यस्मिन्बुधुते पापैः प्रमुच्यते ॥ ८८
 कार्तिक्यां पुष्करस्नाने द्वादशाब्देन यत्फलम् ।
 तदस्य श्रवणात्सर्वं मैत्रेयाप्नोति मानवः ॥ ८९
 देवर्षिपितृगन्धर्वयक्षादीनां च सम्भवम् ।
 भवन्ति शृण्वतः पुंसो देवाद्या वरदा मुने ॥ ९०

श्रीहरि रूपरहित होकर भी मायागतिरूपसे प्रापियोंके कल्याणके लिये इन सबको अस्त्र और भूषणरूपसे धारण करते हैं ॥ ७६ ॥ इस प्रकार वे कमलनयन परमेश्वर भविकार प्रधान [निर्विकार], पुरुष तथा सम्पूर्ण जगत्को धारण करते हैं ॥ ७७ ॥ जो कुछ भी विद्या-अविद्या, सत्-असत् तथा अव्ययरूप है, हे मैत्रेय! वह सब सर्वभूतेश्वर श्रीमधुसूदनमें ही स्थित है ॥ ७८ ॥ कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्षरूपसे वे कालस्वरूप निष्पाप अव्यय क्रीही ही विराजमान हैं ॥ ७९ ॥

हे पुत्रिश्रेष्ठ! भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक तथा मनु, जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान् ही हैं ॥ ८० ॥ सभी पूर्वजोंके पूर्जन तथा सपत्ता पिछाओंके आधार श्रीहरि ही स्वयं लोकमयस्वरूपसे स्थित हैं ॥ ८१ ॥ निराकार और सर्वेश्वर श्रीअनन्त ही भूतस्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाचारूपोंसे स्थित हैं ॥ ८२ ॥ ऋक्, यजुः, साम और अथर्ववेद, इतिहास (ऋग्वेदादि), उपवेद (आयुर्वेदादि), वेदान्तवाक्य, सषरत वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराणादि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक (कल्पसूत्र) तथा सपत्ता काव्य-वेदा और राग-रागिणी आदि जो कुछ भी हैं वे सब शब्दमूर्तिधारी परमात्मा विष्णुका ही शरीर हैं ॥ ८३-८५ ॥ इस लोकमें अथर्व क्री और भी जितने पूर्ण, अपूर्ण पदार्थ हैं, वे सब उनका शरीर हैं ॥ ८६ ॥ 'मैं तथा यह सम्पूर्ण जगत् जनार्दन श्रीहरि ही हैं; उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य-कारणादि नहीं है'—जिसके चित्तमें ऐसी भावना है उसे फिर देहजन्य राग-द्वेषादि द्वन्द्वरूप रोगकी प्राप्ति नहीं होगी ॥ ८७ ॥

हे द्विज! इस प्रकार तुमसे इस पुराणके पहले अंशका यथावत् वर्णन किया। इसका श्रवण करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ८८ ॥ हे मैत्रेय! बारह वर्षतक कार्तिक मासमें पुष्करक्षेत्रमें स्नान करनेसे जो फल होता है; वह सब मनुष्यको इसके श्रवणमात्रसे मिल जाता है ॥ ८९ ॥ हे मुने! देव, ऋषि, गन्धर्व, पितृ और यक्ष आदिकी उत्पत्तिका श्रवण करनेवाले पुरुषको वे देवादि वरदायक हो जाते हैं ॥ ९० ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमोऽंशे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरस्वपिर्णायके श्रीमति विष्णुमहापुराणे प्रथमोऽंशः समाप्तः ॥

श्रीविष्णुपुराण

द्वितीय अंश

पहला अध्याय

प्रियव्रतके वंशका वर्णन

श्रीमंत्रेय उवाच

भगवन्सम्यगाख्यातं ममैतदखिलं त्वया ।
जगतः सर्गसम्बन्धि यत्पृष्टोऽसि गुरो मया ॥ १
योऽयमंशो जगत्सृष्टिसम्बन्धो गदितस्त्वया ।
तत्राहं श्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि मुनिसत्तम ॥ २
प्रियव्रतोत्तानपादी सुतौ स्वायम्भुवस्य यौ ।
तयोरुत्तानपादस्य ध्रुवः पुत्रस्त्वयोदितः ॥ ३
प्रियव्रतस्य नैवोक्ता भवता द्विज सन्ततिः ।
तामहं श्रोतुमिच्छामि प्रसन्नो वक्तुमर्हसि ॥ ४

श्रीपराशर उवाच

कर्दमस्यात्मजां कन्यामुपयेमे प्रियव्रतः ।
सम्राट् कुक्षिश्व तत्कन्ये दशपुत्रास्तथाऽपरे ॥ ५
महाप्रजा महावीर्या विनीता दयिता पितुः ।
प्रियव्रतसुताः ख्यातास्तेषां नामानि मे शृणु ॥ ६
आग्नीश्वरग्निबाहुश्च वपुष्मान्दुर्गिमास्तथ ।
मेधा मेधातिशिर्यः सवनः पुत्र एव च ॥ ७
ज्योतिष्मान्दशमस्तेषां सत्यनाया सुतोऽभवत् ।
प्रियव्रतस्य पुत्रास्तौ प्रख्याता बलवीर्यतः ॥ ८
मेधाग्निबाहुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः ।
जातिस्मरा महाभागा न सन्त्याय मनो दधुः ॥ ९

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे भगवन्! हे गुरो! मैंने जगत्की सृष्टिके विषयमें आपसे भी कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया ॥ १ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! जगत्की सृष्टिसम्बन्धी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है, उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ स्वायम्भुवमनुके जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमेंसे उत्तानपादके पुत्र ध्रुवके विषयमें तो आपने कहा ॥ ३ ॥ किंतु, हे द्विज! आपने प्रियव्रतकी सन्तानके विषयमें कुछ भी नहीं कहा, अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नतपूर्वक कहिये ॥ ४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—प्रियव्रतने कर्दमजीकी पुत्रीसे विवाह किया था। उससे उनके सम्राट् और कुक्षि नामकी दो कन्याएँ तथा दस पुत्र हुए ॥ ५ ॥ प्रियव्रतके पुत्र बड़े बुद्धिमान्, बलवान्, विनयसम्पन्न और अपने माता-पिताके अत्यन्त प्रिय कहे जाते हैं; इनके नाम सुनो— ॥ ६ ॥ वे आग्नीश्र, अग्निबाहु, वपुष्मन्, सुतिमान्, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा दसवाँ यथार्थनामा ज्योतिष्मान् था। वे प्रियव्रतके पुत्र अपने बल-पराक्रमके कारण विख्यात थे ॥ ७-८ ॥ उनमें महाभाग मेधा, अग्निबाहु और पुत्र—ये तीन योगपरायण तथा अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त जाननेवाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगोंमें अपना चित्त नहीं लगाया ॥ ९ ॥

निर्मलाः सर्वकालान् समस्ताशेषु वै मुने ।
 चक्रुःक्रियां यथान्यायमफलप्रकाङ्क्षिणो हि ते ॥ १०
 प्रियव्रतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिसत्तम ।
 सप्तद्वीपानि मैत्रेय विभज्य सुमहात्मनाम् ॥ ११
 जम्बूद्वीपं महाभाग साग्नोष्णाय ददौ पिता ।
 मेघातिथेस्तथा प्रादान्तस्तद्वीपं तथापरम् ॥ १२
 शाल्मलं च वपुष्मन्तं नरेन्द्रमभिषिक्तवान् ।
 ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे राजानं कृतवान्प्रभुः ॥ १३
 द्युतिमन्तं च राजानं क्रौञ्चद्वीपे समादिशत् ।
 शाकद्वीपेश्वरं चापि भव्यं चक्रे प्रियव्रतः ।
 पुष्कराधिपतिं चक्रे सवनं चापि स प्रभुः ॥ १४
 जम्बूद्वीपेश्वरो वस्तु आग्नीध्रो मुनिसत्तम ॥ १५
 तस्य पुत्रा बभूवुस्ते प्रजापतिसमा मव ।
 नाभिः किम्पुरुषश्चैव हरिवर्ष इलावृतः ॥ १६
 रम्यो हिरण्वाश्वत्थश्च कुरुर्भद्राश्व एव च ।
 केतुमालस्तथैवान्यः साधुचेष्टोऽभवनृपः ॥ १७
 जम्बूद्वीपविभागोऽथ तेषां विप्र निशामव ।
 पित्रा दत्तं हिमाह्नं तु वर्षं नाभस्तु दक्षिणम् ॥ १८
 हेमकूटं तथा वर्षं ददौ किम्पुरुषाय सः ।
 तृतीयं नैषधं वर्षं हरिवर्षाय दत्तवान् ॥ १९
 इलावृताय प्रददौ मेरुर्ष्व तु मध्यमः ।
 नीलाचलाश्रितं वर्षं रम्याय प्रददौ पिता ॥ २०
 श्वेतं तदुत्तरं वर्षं पित्रा दत्तं हिरण्यते ॥ २१
 यदुत्तरं शृङ्गवतो वर्षं सत्कुरवे ददौ ।
 मेरोः पूर्वोण यद्वर्षं भद्राश्वाय प्रदत्तवान् ॥ २२
 रान्यमादनवर्षं तु केतुमालाय दत्तवान् ।
 इत्येतानि ददौ तेभ्यः पुत्रेभ्यः स नरेश्वरः ॥ २३
 वर्षेष्वेतेषु तान्युत्रानभिषिच्य स भूमिपः ।
 शालग्रामं महापुण्यं मैत्रेय तपसे ययौ ॥ २४
 यानि किम्पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने ।
 तेषांस्त्राभिषिक्तोसिद्धिः सुखप्रावाहायततः ॥ २५

हे मुने! ये निर्मलचित्त और कर्म-फलकी इच्छते रहित थे तथा समस्त विषयोंमें सदा न्यायानुकूल ही प्रयत्न होते थे ॥ १० ॥

हे मुनिश्रेष्ठ! राजा प्रियव्रतने अपने शेष सात महात्मा पुरोक्तों से सात द्वीप बाँट दिये ॥ ११ ॥ हे महाभाग! पिता प्रियव्रतने आग्नीध्रको जम्बूद्वीप और मेघातिथीको प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया ॥ १२ ॥ उन्होंने शाल्मलद्वीपमें वपुष्मन्को अधिष्ठात किया; ज्योतिष्मन्को कुशद्वीपका राजा बनाया ॥ १३ ॥ द्युतिमन्को क्रौञ्चद्वीपके शासनपर नियुक्त किया, भव्यको प्रियव्रतने शाकद्वीपका स्वामी बनाया और सवनको पुष्करद्वीपका अधिष्ठात किया ॥ १४ ॥

हे मुनिसत्तम! उनमें जो जम्बूद्वीपके अधीश्वर राजा आग्नीध्र थे उनके प्रजापतिके सप्तान नी पुत्र हुए। वे नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत्, रम्य, हिरण्वान्, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे ॥ १५—१७ ॥ हे विप्र! अब उनके जम्बूद्वीपके विभाग सुनो। पिता आग्नीध्रने दक्षिणमें ओरका हिमवर्ष (जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं) नाभिको दिया ॥ १८ ॥ इसी प्रकार किम्पुरुषको हेमकूटवर्ष तथा हरिवर्षको तीसरा नैषधवर्ष दिया ॥ १९ ॥ जिसके मध्यमें मेरुपर्वत है वह इलावृत्वर्ष उन्होंने इलावृत्तको दिया तथा नीलाचलसे लगा हुआ वर्ष रम्यको दिया ॥ २० ॥

पिता आग्नीध्रने उसका उत्तरवर्ती श्वेतवर्ष हिरण्वान्को दिया तथा जो वर्ष शृंगवान्पर्वतके उत्तममें स्थित है वह कुरुको और जो मेरुके पूर्वमें स्थित है वह भद्राश्वको दिया तथा केतुमालको रान्यमादनवर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्नीध्रने अपने पुत्रोंको ये वर्ष दिये ॥ २१—२३ ॥ हे मैत्रेय! अपने पुत्रोंको इन वर्षोंमें अधिष्ठात कर वे तपस्याके लिये शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्रको चले गये ॥ २४ ॥

हे महामुने! किम्पुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं उनमें सुखकी बहुलता है और जिना यत्नके स्वभावसे ही समस्त भोग-सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥ २५ ॥

विपर्ययो न तेष्वस्ति जरामृत्युभयं न च ।
 धर्माधर्मौ न तेष्वस्तां नोत्तमाधममध्वमाः ।
 न तेष्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु सर्वदा ॥ २६
 हिमाह्वयं तु वै वर्षं नाभेरासीन्महात्पनः ।
 तस्यैर्षभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेध्यां महाद्युतिः ॥ २७
 ऋषभाद्धरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः ।
 कृत्वा राज्यं स्वधर्मेण तथेष्ट्वा विविधान्मखान् ॥ २८
 अभिषिच्य सुतं वीरं भरतं पुषिषीपतिः ।
 तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रमं ययौ ॥ २९
 वानप्रस्थविधानेन तत्रापि कृतनिश्चयः ।
 तपस्तेषु यथान्यायमिवाज स महीपतिः ॥ ३०
 तपसा कर्षितोऽत्यर्थं कृशो धमनिसन्ततः ।
 नग्नो वीटो मुखे कृत्वा वीराख्यानं ततो गतः ॥ ३१
 ततश्च भारतं वर्षमेतल्लोकेषु गीयते ।
 भरताय यतः पित्रा दत्तं प्रातिष्ठता वनम् ॥ ३२
 सुमतिर्भरतस्याभूत्पुत्रः परमधार्मिकः ।
 कृत्वा सम्यग्ददौ तस्मै राज्यमिष्टमखः पिता ॥ ३३
 पुत्रसङ्क्रामितश्चीस्तु भरतः स महीपतिः ।
 योगाध्यसरतः प्राणान् शालग्रामेऽत्यजन्मुने ॥ ३४
 अजायत च विप्रोऽसी योगिनां प्रवरे कुले ।
 मैत्रेय तस्य चरितं कथयिष्यामि ते पुनः ॥ ३५
 सुमतेस्तेजसस्तस्मादिन्द्रद्युम्नो च्यजायत ।
 परमेष्ठी ततस्तस्मात्प्रतिहारस्तदन्वयः ॥ ३६
 प्रतिहर्तेति विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मजः ।
 भवस्तस्मादधोदगीथः प्रस्तावस्तसुतो विभुः ॥ ३७
 पृथुस्ततस्ततो नक्तो नक्तस्यापि गयः सुतः ।
 नरो गयस्य तनयस्तत्पुत्रोऽभूद्विराट् ततः ॥ ३८
 तस्य पुत्रो महावीर्यो धीर्मास्तस्मादजायत ।
 महान्तस्तसुतश्चाभून्वनस्युस्तस्य चात्मजः ॥ ३९
 त्वष्टा त्वष्टश्च विरजो रजस्तस्याप्यभूत्सुतः ।
 शतजिद्रजसस्तस्य जज्ञे पुत्रशतं मुने ॥ ४०

उनमें किसी प्रकारके विपर्यय (असुख या
 अकाल-मृत्यु आदि) तथा जरा-मृत्यु आदिका कोई
 भय नहीं होता और न धर्म, अधर्म अथवा उत्तम,
 अधम और मध्यम आदिका ही भेद है। उन आठ वर्षोंमें
 कभी कोई युगपरिवर्तन भी नहीं होता ॥ २६ ॥

महात्मा-विश्वामित्र नामक वर्ष १३; उनके मेरुदेवीसे
 अतिशय कान्तिष्णान् अश्रम नामक पुत्र हुआ ॥ २७ ॥
 ऋषभजीसे भरतका जन्म हुआ जो उनके सौ पुत्रोंमें सबसे
 बड़े थे। महाभाग पृथिवीपति ऋषभदेवकी धर्मपूर्वक राज्य-
 शासन तथा विविध यज्ञोंका अनुष्ठान करनेके अनन्तर
 अपने वीर पुत्र भरतको राज्याधिकार सौंपकर तपस्याके
 लिये पुलहाश्रमको चले गये ॥ २८-२९ ॥ महाराज ऋषभने
 वहाँ भी वानप्रस्थ-आश्रमको विधिसे रहते हुए निश्चयपूर्वक
 तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किये ॥ ३० ॥
 वे तपस्याके कारण सूखकर अत्यन्त कृश हो गये और
 उनके शरीरकी शिरार (रक्तवाहिनी नाड़ियाँ) दिखायी
 देने लगीं। अन्तमें अपने पुष्यं एक पत्थरको बटिया
 रखकर उन्होंने नगनावस्थामें महाप्रस्थान किया ॥ ३१ ॥

पिता ऋषभदेवजीने वन जाते समय अपना राज्य
 भरतजीको दिया था; अतः तबसे यह (हिमवर्ष) इस लोकमें
 भारतवर्ष नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ३२ ॥ भरतजीके सुमति नामक
 परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरतने यज्ञानुष्ठानपूर्वक
 यथेच्छ राज्य-सुख भोगकर उसे सुमतिको सौंप दिया ॥ ३३ ॥
 हे मुने! महाराज भरतने पुत्रको राज्यतक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यासमें
 तत्पर हो अन्तमें शालग्रामक्षेत्रमें अपने प्राण छोड़ दिये ॥ ३४ ॥
 फिर इन्होंने योगियोंके पवित्र कुलमें ब्राह्मणरूपसे जन्म लिया।
 हे मैत्रेय! इनका वह धरिज मैं तुमसे फिर कहूँगा ॥ ३५ ॥

तदनन्तर सुमतिके वीर्यसे इन्द्रद्युम्नका जन्म हुआ,
 उससे परमेष्ठी और परमेष्ठीका पुत्र प्रतिहार हुआ ॥ ३६ ॥
 प्रतिहारके प्रतिहर्ता नामसे विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा
 प्रतिहर्ताका पुत्र भव, भवका उदगीथ और उदगीथका
 पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ ॥ ३७ ॥ प्रस्तावका पृथु,
 पृथुका नक्त और नक्तका पुत्र गय हुआ। गयके नर और
 उसके विराट् नामक पुत्र हुआ ॥ ३८ ॥ उसके पुत्र
 महावीर्य था, उससे धीमान्ताका जन्म हुआ तथा धीमान्ता
 पुत्र महान्त और उसका पुत्र मनसु हुआ ॥ ३९ ॥ मनसुका
 पुत्र त्वष्टा, त्वष्टाका विरज और विरजका पुत्र रज हुआ।
 हे मुने! उनके पुत्र शतजित्के सौ पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥

विष्वग्ज्योतिः प्रक्षानास्ते येरिमा वर्द्धिताः प्रजाः ।
 तैरिदं भारतं वर्षं नवभेदमलङ्कृतम् ॥ ४१ ॥
 तेषां वंशप्रसूतैश्च भुक्तेयं भारती पुरा ।
 कृतत्रेतादिसर्गेण युगाख्यामेकसप्ततिम् ॥ ४२ ॥
 एष स्वावम्भुवः सर्गो येनैदं पुरितं जगत् ।
 चाराहे तु मुने कल्पे पूर्वमन्वन्तराधिपः ॥ ४३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयोऽंशे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

उनमें विष्वग्ज्योति प्रथम था । उन सौ पुत्रोंसे यहीकी प्रजा बहुत बढ़ गयी । तब उन्होंने इस भारतवर्षकी नौ विभागोंसे विभूषित किया । [अर्थात् ये सब इस्को नौ भागोंमें बाँटकर भोगने लगे] ॥ ४१ ॥ उन्होंने वंशपर्यन्त पूर्वकालमें कृतत्रेतादि युगक्रमसे इकट्ठतर युगपर्यन्त इस भरतभूमिको भोगा था ॥ ४२ ॥ हे मुने ! यही इस कालकल्पमें सभसे पहले मन्वन्तराधिप व्यावम्भुवमनुका वंश है, जिसने उस समय इस सम्पूर्ण संसारको व्याप्त किया हुआ था ॥ ४३ ॥

दूसरा अध्याय

भूगोलका विवरण

श्रीमैत्रेय उवाच

कथितो भवता ब्रह्मन्सर्गः स्वायम्भुवश्च मे ।
 श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तः सकलं मण्डलं भुवः ॥ १ ॥
 यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पर्वताः ।
 वनाणि सरितः पुर्यो देवादीनां तथा मुने ॥ २ ॥
 यत्प्रमाणमिदं सर्वं यदाधारं यदात्मकम् ।
 संस्थानमस्य च मुने यथावद्वक्तुमर्हसि ॥ ३ ॥

श्रीपराशर उवाच

मैत्रेय भूयतामेतत्सङ्क्षेपाद् गदतो मम ।
 नास्य वर्षशतेनापि वक्तुं शक्यो हि विस्तरः ॥ ४ ॥
 जम्बूद्वीपश्चात् द्वीपी शाल्यलश्चापरो द्विज ।
 कुक्षः क्रीञ्जस्तथा जाकः पुष्कलश्चैव सप्तमः ॥ ५ ॥
 एते द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्तभिरावृताः ।
 लवणेक्षुसुरासर्पिर्दधिदुग्धजलैः समम् ॥ ६ ॥
 जम्बूद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः ।
 तस्यापि मेरुमैत्रेय मध्ये कनकपर्वतः ॥ ७ ॥
 चतुराशीतिसाहस्रो योजनैरस्य चोच्छ्रयः ॥ ८ ॥
 प्रविष्टः वोद्ग्राभस्ताद्द्वारिंशन्मूर्ध्नि विस्तृतः ।
 मूले वोद्ग्रासाहस्रो विस्तारस्तस्य सर्वशः ॥ ९ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे ब्रह्मन् ! आपने मुझसे स्वायम्भुवमनुके वंशका वर्णन किया । अब मैं आपके पुष्ट्यादिन्दसे सम्पूर्ण पृथिवीमण्डलका विवरण सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ हे मुने ! जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदिकी पुरिबी हैं, उन सबका जितना-जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान-कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत् वर्णन कीजिये ॥ २-३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय ! सुनो, मैं इन सब बातोंका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, इनका विस्तारपूर्वक वर्णन तो सौ वर्षमें भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ हे द्विज ! जम्बू, प्लक्ष, शाल्यल, कुक्ष, क्रीञ्ज, जाक और सातवीं पुष्कर—ये सातों द्वीप चारों ओरसे खारे पानी, शशुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जलके सात समुद्रोंमें घिरे हुए हैं ॥ ५-६ ॥

हे मैत्रेय ! जम्बूद्वीप इन सबके मध्यमें स्थित है और उसके भी चोखों-चोखमें सुवर्णमय सुमेरुपर्वत है ॥ ७ ॥ इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है और नीचेकी ओर यह सोलह हजार योजन पृथिवीमें घुसा हुआ है । इसका विस्तार ऊपर भागमें असीस हजार योजन है तथा नीचे (गलेटीमें) केवल सोलह हजार योजन है । इस प्रकार

भूपचास्यास्य शैलेऽसौ कर्णिकाकारसंस्थितः ॥ १०
 हिमवान्हेमकूटश्च निषधश्चास्य दक्षिणेः ।
 नीलः श्वेतश्च शृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वताः ॥ ११
 लक्षप्रमाणी द्वौ मध्यौ दशहीनास्तथापरे ।
 सहस्रद्वितीयोच्छ्रयास्तावद्विस्तारिणश्च ते ॥ १२
 भारतं प्रथमं वर्षं ततः किम्पुरुषं स्मृतम् ।
 हरिवर्षं तथैवान्पन्मेरोर्दक्षिणतो द्विज ॥ १३
 रम्यकं चोत्तरं वर्षं तस्यैवानु हिरण्मयम् ।
 उत्तराः कुरक्षश्चैव यथा वै भारतं तथा ॥ १४
 नवसाहस्रमेकैकमेतेषां द्विजसत्तम ।
 इलावृतं च तन्मध्ये सौवर्णो मेरुरुच्छ्रितः ॥ १५
 मेरोश्चतुर्दिशं तनु नवसाहस्रविस्तृतम् ।
 इलावृतं महाभाग चत्वारश्चात्र पर्वताः ॥ १६
 विश्वरुषा रचिता मेरोर्द्योजनासुतमुच्छ्रिताः ॥ १७
 पूर्वेषु मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ।
 विपुलः पश्चिमे पाश्चिमे सुपाश्चिमे चोत्तरे स्मृतः ॥ १८
 कदम्बस्तेषु जम्बूश्च पिप्पलो चट एव च ।
 एकादशशताधामाः पादपा गिरिकेतवः ॥ १९
 जम्बूद्वीपस्य सा जम्बूनामहेतुर्पृथग्मुने ।
 महामाजप्रमाणानि जम्बूवास्तस्याः फलानि वै ।
 पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्षमाणानि सर्वतः ॥ २०
 रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वै ।
 सरित्पवर्तते चापि पीयते तन्निवासिभिः ॥ २१
 न स्वेदो न च दीर्गश्च्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः ।
 तत्यानात्स्वच्छम्नसां जनानां तत्र जायते ॥ २२
 तीरमृत्तद्रसं प्राप्य सुखवायुविशोषिता ।
 जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्णं सिद्धभूषणम् ॥ २३
 भद्रार्थं पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे ।
 वर्षं द्वे तु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्यमिलावृतः ॥ २४

यह पर्वत इस पृथिवीरूप कमलकी कर्णिका (फीश) के समान है ॥ ८—१० ॥ इसके दक्षिणमें हिमवान्, हेमकूट और निषध तथा उत्तरमें नील, श्वेत और शृंगी नामक वर्षपर्वत हैं [जो भिन-भिन वर्षोंका विभाग करते हैं] ॥ ११ ॥ उनमें बीचके दो पर्वत [निषध और नील] एक-एक लाख योजनतक फैले हुए हैं, उनसे दूसरे-दूसरे दस-दस हजार योजन कम हैं । [अर्थात् हेमकूट और श्वेत नब्बे-नब्बे हजार योजन तथा हिमवान् और शृंगी अस्सी-अस्सी सहस्र योजनतक फैले हुए हैं] वे सभी दो-दो सहस्र योजन ऊँचे और इतने ही चौड़े हैं ॥ १२ ॥

हे द्विज! मेरुपर्वतके दक्षिणकी ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किम्पुरुषवर्ष और तीसरा हरिवर्ष है ॥ १३ ॥ उत्तरकी ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्मय और तदनन्तर उत्तरकुरुवर्ष है जो [द्वीपमण्डलकी सीमापर होनेके कारण] भारतवर्षके समान [भूधाकार] है ॥ १४ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ! इनपैसे प्रत्येकका विस्तार नौ-नौ हजार योजन है तथा इन सबके बीचमें इलावृतवर्ष है जिसमें सुवर्णमय सुमेरुपर्वत खड़ा हुआ है ॥ १५ ॥ हे महाभाग । यह इलावृतवर्ष सुमेरुके चारों ओर नौ हजार योजनतक फैला हुआ है । इसके चारों ओर चार पर्वत हैं ॥ १६ ॥ ये चारों पर्वत मानी सुमेरुको धारण करनेके लिये ईश्वरकृत कीलियाँ हैं [क्योंकि इनके बिना ऊपरसे विस्तृत और मूलमें संकुचित होनेके कारण सुमेरुके गिरनेकी सम्भावना है] । इनमेंसे मन्दराचल पूर्वमें, गन्धमादन दक्षिणमें, विपुल पश्चिममें और सुपाश्चिम उत्तरमें है । ये सभी दस-दस हजार योजन ऊँचे हैं ॥ १७—१८ ॥ इनपर पर्वतोंकी श्रृंखलाओंके समान क्रमशः ग्यारह-ग्यारह सौ योजन ऊँचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और चटके वृक्ष हैं ॥ १९ ॥

हे महामुने! इनमें जाम्बू (जामुन) वृक्ष जम्बूद्वीपके नामका कारण है । उसके फल महान् गजराजके समान बड़े होते हैं । जब वे पर्वतपर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं ॥ २० ॥ उनके रससे निकली जम्बू नामकी शसिद्ध नदी वहीं बहती है, जिसका जल वहाँके रहनेवाले पीते हैं ॥ २१ ॥ उसका पान करनेसे वहाँके शुद्धचित्त लोगोंके पसीना, दुर्गन्ध, सुड़ापा अथवा इन्द्रियक्षय नहीं श्रेता ॥ २२ ॥ उसके किनारेकी मृत्तिका उस रससे मिलाकर धन्द-धन्द आयुसे सुखनेपर जाम्बूनद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषोंका भूषण है ॥ २३ ॥ मेरुके पूर्वमें भद्रार्थवर्ष और पश्चिममें केतुमालवर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ! इन दोनोंके बीचमें इलावृतवर्ष है ॥ २४ ॥

वनं चैत्ररथं पूर्वं दक्षिणे गन्धमादनम् ।
 वैभ्राजं पश्चिमे तद्दत्तरे नन्दनं स्मृतम् ॥ २५ ॥
 अरुणोदं महाभद्रमसितोदं समानसम् ।
 सरांस्येताभि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा ॥ २६ ॥
 शीताम्भश्च कुमुन्दश्च कुररी माल्यवांस्तथा ।
 वैकङ्कप्रमुखा मेरोः पूर्वतः केसराचलाः ॥ २७ ॥
 त्रिकूटः शिशिरश्चैव पतङ्गो रुचकस्तथा ।
 निषदाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपर्वताः ॥ २८ ॥
 शिखिवासाः सर्वैर्दूर्यः कपिलो गन्धमादनः ।
 जारुधिप्रमुखास्तद्वत्पश्चिमे केसराचलाः ॥ २९ ॥
 मेरोरनन्तराङ्गेषु जठरादिष्ववस्थिताः ।
 शङ्खकूटोऽथ कृषभो हंसो नागस्तथापरः ।
 कालञ्जयाद्याश्च तथा उत्तरे केसराचलाः ॥ ३० ॥
 चतुर्दशसहस्राणि योजनानां महापुरी ।
 मेरोरुपरि मैत्रेय ब्रह्मणः प्रथिता दिवि ॥ ३१ ॥
 तस्यासमन्ततश्चाष्टौ दिशासु विदिशासु च ।
 इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याताः प्रवराः पुरः ॥ ३२ ॥
 विष्णुपादविनिष्कान्ता प्लावथित्वेन्दुमण्डलम् ।
 समन्तात् ब्रह्मणः पुर्या गङ्गा पतति वै दिशः ॥ ३३ ॥
 सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रतिपद्यते ।
 सीता चालकनन्दा च चक्षुर्भद्रश्च वै क्रमात् ॥ ३४ ॥
 पूर्वेण शैलात्सीता तु शीलं द्यात्यन्तरिक्षगा ।
 ततश्च पूर्ववर्षेण भद्रास्येनैति सार्णवम् ॥ ३५ ॥
 तथैवालकनन्दापि दक्षिणेनैत्य भारतम् ।
 प्रयाति सागरं भूत्वा सप्तभेदा महामुने ॥ ३६ ॥
 चक्षुश्च पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः ।
 पश्चिमं केतुमालास्यं वर्षं गत्वैति सागरम् ॥ ३७ ॥
 भद्रा तद्योत्तरगिरीमुत्तरांश्च तथा कुरुन् ।
 अतीत्योत्तरमम्भोधिं समभ्येति महामुने ॥ ३८ ॥
 आर्णालनिषधायामी माल्यवद्गन्धमादनी ।
 तयोर्वध्यगतो मेरुः कर्णिकाकारसंस्थितः ॥ ३९ ॥
 भारताः केतुमालाश्च भद्राण्यः कुरुवस्तथा ।
 यत्राणि लोकपदस्य मर्यादाशीलबद्धान्तः ॥ ४० ॥

इसी प्रकार उसके पूर्वकी ओर चैत्ररथ, दक्षिणकी ओर गन्धमादन, पश्चिमकी ओर वैभ्राज और उत्तरी ओर नन्दन नामक वट हैं ॥ २५ ॥ तथा सर्वेश देवकीसे सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस—ये चार सरतार हैं ॥ २६ ॥

हे मैत्रेय! शीताम्भ, कुमुन्द, कुररी, माल्यवात् तथा वैकङ्क आदि पर्वत [शुभ्रको कर्णिकारूप] मेरुके पूर्व-दिशाके केसराचल हैं ॥ २७ ॥ त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक और निपाद आदि केसरधल उसके दक्षिण ओर हैं ॥ २८ ॥ शिखिवासा, वैदूर्य, कपिल, गन्धमादन और जारुधि आदि उसके पश्चिमीय केसरपर्वत हैं ॥ २९ ॥ तथा मेरुके अति समीपस्थ इलायूतवर्षमें और जठरादि देशोंमें स्थित शंखकूट, कृषभ, हंस, नाग तथा कालञ्ज आदि पर्वत उत्तरदिशाके केसरचल हैं ॥ ३० ॥

हे मैत्रेय! मेरुके ऊपर अन्तरिक्षमें बौद्ध सठस्र योजनके विस्तारवाली ब्रह्माजीकी महापुरी (ब्रह्मपुरी) है ॥ ३१ ॥ उसके सब ओर दिशा एवं विदिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोंके आठ अति रमणीक और विख्यात नगर हैं ॥ ३२ ॥ विष्णुपादोद्भवा श्रीगंगाकी चन्द्रमण्डलकी चारों ओरसे आप्लावित कर स्वर्गलोकसे ब्रह्मपुरीमें गिरती हैं ॥ ३३ ॥ वहाँ गिरनेपर ये चारों दिशाओंमें क्रमसे सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा नामसे चार भागोंमें विभक्त हो जाती हैं ॥ ३४ ॥ उनमेंसे सीता पूर्वकी ओर आकाश-मार्गसे एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर जाती हुई अन्तमें पूर्वस्थित भद्रास्यवर्षको पारकर समुद्रमें मिल जाती है ॥ ३५ ॥ इसी प्रकार, हे महामुने! अलकनन्दा दक्षिण-दिशाकी ओर भारतवर्षमें जाती है और सात भागोंमें विभक्त होकर समुद्रमें मिल जाती है ॥ ३६ ॥ चक्षु पश्चिमदिशाके सप्तस्र पर्वतोंको पारकर केतुमाल नामक वर्षमें बहती हुई अन्तमें सागरमें जा गिरती है ॥ ३७ ॥ तथा हे महामुने! भद्रा उत्तरके पर्वतों और उत्तरकुरुवर्षको पार करती हुई उत्तरीय समुद्रमें मिल जाती है ॥ ३८ ॥ माल्यवान् और गन्धमादनपर्वत उत्तर तथा दक्षिणकी ओर नीलाचल और निषधपर्वतके फले हुए हैं। उन दोनोंके बीचमें कर्णिकाकार पेश्यवर्ष स्थित है ॥ ३९ ॥

हे मैत्रेय! मर्यादापर्वतोंके बहिर्भागमें स्थित भारत, केतुमाल, भद्रास्य और कुरुवर्ष इस लोकपदाके चतुर्दि-समान हैं ॥ ४० ॥

जठरो देवकूटश्च मर्यादापर्वतावुभौ ।
 ती दक्षिणोत्तरायामावाचीननिषभायतौ ॥ ४१
 गन्धमादनकैलासी पूर्वपश्चायतावुभौ ।
 अशीनियोजनाद्यामावर्णवान्ध्ववस्थितौ ॥ ४२
 निषधः पारियात्रश्च मर्यादापर्वतावुभौ ।
 मेरोः पश्चिमदिग्भागे यथा पूर्वं तथा स्थितौ ॥ ४३
 त्रिशुङ्गो जारुधिश्चैव उत्तरी वर्षपर्वतौ ।
 पूर्वपश्चायतावेतावर्णवान्ध्ववस्थितौ ॥ ४४
 इत्येते मुनिवर्चोक्ता मर्यादापर्वतास्तव ।
 जठराद्याः स्थिता मेरोस्तेषां द्वौ द्वौ चतुर्दिशम् ॥ ४५
 मेरोश्चतुर्दिशं ये तु प्रोक्ताः केसरपर्वताः ।
 शीतान्ताद्या मुने तेषामतीव हि मनोरमाः ।
 शैलानामन्तरे द्रोण्यः सिद्धचारणसेविताः ॥ ४६
 सुरम्याणि तथा तासु काननाणि पुराणि च ।
 लक्ष्मीविष्णुचिन्मसूयादिदेवानां मुनिसत्तम ।
 तास्यायतनवर्षाणि जुष्टानि धरकिन्नरैः ॥ ४७
 गन्धर्वयक्षरक्षांसि तथा दैतेयदानवाः ।
 क्रीडन्ति तासु रम्यासु शैलश्रीणीष्वहर्निशम् ॥ ४८
 भीमा ह्येते स्मृताः स्वर्गा धर्मिणामालया मुने ।
 नैतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतैरपि ॥ ४९
 भद्राश्वे भगवान्विष्णुपुरास्ते ह्यशिरा द्विज ।
 घराहः केतुमाले तु भारते कूर्मरूपधृक् ॥ ५०
 मत्स्यरूपश्च गोविन्दः कुरुष्वास्ते जनार्दनः ॥ ५१
 विश्वरूपेण सर्वत्र सर्वैः सर्वप्रगो हरिः ।
 सर्वस्याधारभूतोऽसौ मैत्रेयास्तेऽखिलात्मकः ॥ ५२
 यानि किम्पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने ।
 न तेषु शोको नायासो नोद्वेगः क्षुद्रयादिकम् ॥ ५३
 स्वस्थाः प्रजा नियतकूरस्सर्वदुःखविश्रजिताः ।
 दशद्वादशसर्षणां सहस्राणि स्थिरायुवः ॥ ५४
 न तेषु वर्षते देवो भीमान्यम्भांसि तेषु वै ।
 कृतत्रेतादिकं नैव तेषु स्थानेषु कल्पना ॥ ५५
 सर्वेष्वेतेषु वर्षेषु सप्त सप्त कुलाचलाः ।
 नटश्च शतशस्तेभ्यः प्रसूता या द्विजोत्तम ॥ ५६

जठर और देवकूट—ये दोनों मर्यादापर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिणकी ओर नील तथा निषधपर्वततक फैले हुए हैं ॥ ४१ ॥ पूर्व और पश्चिमकी ओर फैले हुए गन्धमादन और कैलास—ये दो पर्वत जिनका विस्तार अस्सी योजन है, समुद्रके भीतर स्थित हैं ॥ ४२ ॥ पूर्वके समान मेरुकी पश्चिम ओर भी निषध और पारियात्र नामक दो मर्यादापर्वत स्थित हैं ॥ ४३ ॥ उत्तरकी ओर त्रिशुंग और जारुधि नामक वर्षपर्वत हैं । ये दोनों पूर्व और पश्चिमकी ओर समुद्रके गर्भमें स्थित हैं ॥ ४४ ॥ इस प्रकार, हे मुनिवर ! तुमसे जठर आदि मर्यादापर्वतोंका वर्णन किया, जिनमेंसे दो-दो पेरुकी चारों दिशाओंमें स्थित हैं ॥ ४५ ॥

हे मुने ! पेरुके चारों ओर स्थित जिन शीतान्त आदि केसरपर्वतोंके विषयमें तुमसे कहा था, उनके बीचमें सिद्ध-चारणादिसे सेवित अति सुन्दर कन्दराएँ हैं ॥ ४६ ॥ हे मुनिसत्तम ! उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओंके अत्यन्त सुन्दर मन्दिर हैं जो सदा किन्नरश्रेष्ठोंसे सेवित रहते हैं ॥ ४७ ॥ उन सुन्दर पर्वत-दोणियोंमें गन्धर्व, यक्ष, यक्षस, दैत्य और दानवादि अहर्निश क्रीडा करते हैं ॥ ४८ ॥ हे मुने ! ये सम्पूर्ण स्थान भीम (पृथिवीके) स्वर्ग कहलाते हैं; ये धार्मिक पुरुषोंके निवासस्थान हैं । पापकर्मा पुरुष इनमें सौ जन्ममें भी नहीं जा सकते ॥ ४९ ॥

हे द्विन ! श्रीविष्णुभगवान् भद्राश्ववर्षमें ह्यशीनरूपसे, केतुमालवर्षमें घराहरूपसे और भारतवर्षमें कूर्मरूपसे रहते हैं ॥ ५० ॥ तथा वे सक्रप्रतिपालक श्रीगोविन्द कुरुवर्षमें मत्स्यरूपसे रहते हैं । इस प्रकार वे सर्वत्र सर्वगामी हरि विश्वरूपसे सर्वत्र ही रहते हैं । हे मैत्रेय ! वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं ॥ ५१-५२ ॥ हे महामुने । किम्पुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और सुधाका भय आदि कुछ भी नहीं है ॥ ५३ ॥ वर्षोंकी प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुःखोंसे रहित हैं तथा जहाँके लोग दस-बारह हजार वर्षोंकी स्थिर आयुवाले होते हैं ॥ ५४ ॥ उनमें वर्षा कभी नहीं होती, कंचल पार्थिव अट ही है और न उन स्थानोंमें कृतत्रेतादि युगोंकी ही कल्पना है ॥ ५५ ॥ हे द्विजोत्तम ! इन सभी वर्षोंमें सात-सात कुलापर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियाँ हैं ॥ ५६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽंशे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

भारतादि नौ खण्डोंका विभाग

श्रीपराशर उवाच

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
 वर्षं तद्भारतं नाम भारती चत्र सन्ततिः ॥ १
 नवखोजनसाहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने ।
 कर्मभूमिरिव स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम् ॥ २
 महेंद्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः ।
 विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥ ३
 अतः सम्प्राप्यते स्वर्गो पुक्तिमस्माल्प्रयान्ति वै ।
 तिर्यक्तं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा मुने ॥ ४
 इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं घान्तश्च गम्यते ।
 न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमौ विधीयते ॥ ५
 भारतस्यास्य सर्वस्य नवभेदानिशामय ।
 इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान् ॥ ६
 नागद्वीपस्तथा सौष्यो गन्धर्वस्तथ चारुणः ।
 अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ॥ ७
 योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् ।
 पूर्वं किन्नरा घस्यन्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः ॥ ८
 ब्रह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्रश्च भगशः ।
 इन्द्रायुधवागिन्द्रादीर्ध्वतयन्तो व्यवस्थिताः ॥ ९
 शतद्रुचन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनिर्गताः ।
 वेदस्मृतिमुखाद्याश्च पारियात्रोद्भवा मुने ॥ १०
 नर्मदा सुरसाद्याश्च नद्यो विन्ध्यादिनिर्गताः ।
 तापेपयोष्णीनिर्विन्ध्याप्रमुखा ऋक्षसम्भवाः ॥ ११
 गोदावरी भीमरथी कृष्णसेणयादिकास्तथा ।
 सह्यापादोद्भवा नद्यः स्मृताः पापभयापहाः ॥ १२
 कृतमाला ताम्रपर्णीप्रमुखा मलयोद्भवाः ।
 त्रिसामा चार्थकुल्याद्या महेंद्रप्रभवाः स्मृताः ॥ १३
 ऋषिकुल्याकुमारारुधाः शुक्तिमत्पादसम्भवाः ।
 आसां नद्युपनद्याश्च सन्धन्याश्च सह्यशः ॥ १४

श्रीपराशरजी बोले—हे मित्रेय! जो समुद्रके उत्तर तथा हिमालयके दक्षिणमें स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भारतकी सन्तान रही हुई है ॥ १ ॥ हे महामुने! इसका विस्तार नौ हजार भोजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करनेवालोंकी कर्मभूमि है ॥ २ ॥ इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमत्, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र—ये सप्त कुलपर्वत हैं ॥ ३ ॥ हे मुने। इसी देशमें मनुष्य शुभकर्मोंद्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहींसे [पाप-कर्मों प्रवृत्त होनेपर] वे नरक अथवा तिर्यग्योनिमें पड़ते हैं ॥ ४ ॥ यहींसे [कर्मानुसार] स्वर्ग, मोक्ष, अनरिक्त अथवा पाताल आदि लोकोंको प्राप्त किया जा सकता है, पृथिवीमें यहाँके सिवा और कहीं भी मनुष्यके लिये कर्मकी विधि नहीं है ॥ ५ ॥

इस भारतवर्षके नौ भाग हैं; उनके नाम ये हैं— इन्द्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान्, नागद्वीप, सौष्य, गन्धर्व और चारुण तथा यह समुद्रसे घिरा हुआ द्वीप उनमें नववां है ॥ ६-७ ॥ यह द्वीप उत्तरसे दक्षिणांक सहस्र योजन है। इसके पूर्वोय भागमें किन्नारके और पश्चिमीयमें यवन बसे हुए हैं ॥ ८ ॥ तथा ब्रह्म, युद्ध और व्यापार आदि अपने-अपने कर्मोंके व्यवस्थाके अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्णविभागानुसार मध्यमें रहते हैं ॥ ९ ॥ हे मुने। इसकी शतद्रु और चन्द्रभागा आदि नदियाँ हिमालयकी तलैटीसे वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वतसे, नर्मदा और सुरसा आदि विन्ध्याचलसे तथा तापी, पयोष्णी और निर्विन्ध्या आदि ऋक्षगिरिसे निकली हैं ॥ १०-११ ॥ गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवैणी आदि पापहारिणी नदियाँ सह्यपर्वतसे उत्पन्न हुई कही जाती हैं ॥ १२ ॥ कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयोद्भवा, त्रिसामा और आर्षकुल्या आदि महेंद्रगिरिसे तथा ऋषिकुल्या और कुमारो आदि नदियाँ शुक्तिमत् पर्वतसे निकली हैं। इनकी और भी सहस्रों शाखा नदियाँ और उपनदियाँ हैं ॥ १३-१४ ॥

तस्मिन्ने कुरुपाञ्चाला मध्यदेशादयो जनाः ।
 पूर्वदेशादिकाश्चैव कामरूपनिवासिनः ॥ १५
 पुण्ड्राः कलिङ्गा मगधा दक्षिणाद्याश्च सर्वशः ।
 तथापरान्ताः सीराष्ट्राः शूराभीरास्तथाकुंदाः ॥ १६
 कारुषा भालकाश्चैव पारियात्रनिवासिनः ।
 सौवीर्यः सैन्धवा हूणाःसात्वाःकोशलवासिनः ।
 माद्रारामास्तथाश्वघाताः पारसीकादयस्तथा ॥ १७
 आसां पिबन्ति सलिलं वसन्ति सहिताः सदा ।
 समीपतो महाभाग इष्टपुष्टजनाकुलाः ॥ १८
 चत्वारि भारते वर्षे घृगान्यत्र महामुने ।
 कृतं त्रेता ह्यपरञ्च कलिञ्चान्यत्र न क्वचित् ॥ १९
 तपस्तप्यन्ति मुनयो जुहुते चात्र गन्धिनः ।
 दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात् ॥ २०
 पुरुषैर्यज्ञपुरुषो जम्बूद्वीपे सदेव्यते ।
 यज्ञैर्यज्ञमयो विष्णुरन्यद्वीपेषु चान्यथा ॥ २१
 अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने ।
 यतो हि कर्मभूरेवा ह्यतोऽन्या भोगभूमयः ॥ २२
 अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रैरपि सत्तमं ।
 कदाचिस्तभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात् ॥ २३
 गायन्ति देवाः किल गीतकानि
 धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे ।
 स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते
 भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥ २४
 कर्माण्यसङ्कल्पिततत्फलानि
 संन्यस्य विष्णौ परमात्मभूते ।
 अधाप्य तां कर्ममहीमनन्ते
 तस्मिँल्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ २५
 जानीम नैतत् क्व सर्वं विलीने
 स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धम् ।
 प्राप्स्याम धन्याः खलु ते मनुष्या
 ये भारते नेन्द्रियविप्राहीनाः ॥ २६

इन नदियोंके तटपर कुरु, पांचाल और
 मध्यदेशादिके रहनेवाले, पूर्वदेश और कामरूपके
 निवासी, पुण्ड्र, कलिङ्ग, मगध और दक्षिणात्यलोग,
 अपरान्तदेशवासी, सीराष्ट्रगण तथा शूर, अभीर
 और अर्जुनगण, कारुष, भालव और पारियात्रनिवासी,
 भीमोर, सैन्धव, हूण, सात्त्व और कोशल-देशवासी
 तथा माद्र, आराम, अम्बष्ठ और पारसीगण
 रहते हैं ॥ १५—१७ ॥ हे महाभाग! ये लोग सदा आपसमें
 मिलकर रहते हैं और इन्हेंका जल पान करते
 हैं। इनकी सन्निधिके कारण वे बड़े इष्ट-पुष्ट
 रहते हैं ॥ १८ ॥

हे मुने! इस भारतवर्षमें ही सत्ययुग, त्रेता,
 त्रापर और कलि नामक चार युग हैं, अन्यत्र कहीं
 नहीं ॥ १९ ॥ इस देशमें परलोकके लिये पुनिजन
 तपस्या करते हैं, याज्ञिकलोग यज्ञानुष्ठान करते हैं
 और दानोजन अष्टपूर्वक दान देते हैं ॥ २० ॥ जम्बूद्वीपमें
 यज्ञमय यज्ञपुरुष भगवान् विष्णुका सदा यज्ञोद्धार
 यज्ञ-किया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपोंमें
 उनका और-और प्रकारसे उपासना होती है ॥ २१ ॥
 हे महामुने! इस जम्बूद्वीपमें भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ
 है, क्योंकि यह कर्मभूमि है इसके अतिरिक्त
 अन्यान्य देश भोग-भूमियाँ हैं ॥ २२ ॥ हे सतम!
 जीवकी सहस्रों जन्मोंके अनन्तर महान् पुण्योका
 उदय होनेपर ही कभी इस देशमें मनुष्य-जन्म प्राप्त
 होता है ॥ २३ ॥ देवगण भी निरन्तर यही गान करते
 हैं कि 'जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्गके मार्गभूत
 भारतवर्षमें जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओंको
 अपेक्षा भी अधिक धन्य (महभाग्य) हैं ॥ २४ ॥ जो
 लोग इस कर्मभूमिमें जन्म लेकर अपने फलाकांक्षासे
 रहित कर्मोंको परमात्म-स्वरूप श्रीविष्णुभगवान्को
 अर्पण करनेसे निर्मल (पापपुण्यसे रहित) होकर
 उन अनन्तमें ही लीन हो जाते हैं [ये धन्य
 हैं] ॥ २५ ॥

'पता नहीं, अपने स्वर्गप्रदकर्मोंका क्षय होनेपर
 हम कहीं जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य
 हैं जो भारतभूमिमें उत्पन्न होकर इन्द्रियोंकी शक्तिसे
 हीन नहीं हुए हैं' ॥ २६ ॥

नववर्षं तु मैत्रेय जम्बूद्वीपमिदं मया ।
लक्ष्ययोजनविस्तारं सङ्क्षेपात्कथितं तव ॥ २७
जम्बूद्वीपं समावृत्य लक्ष्ययोजनविस्तरः ।
मैत्रेय वलयाकारः स्थितः क्षारोदधिर्बहिः ॥ २८

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वित्वेऽंशं तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय

प्लक्ष तथा शाल्मल आदि द्वीपोंका विशेष वर्णन

श्रीपराशर उवाच

क्षारोदेन यथा द्वीपो जम्बूसंज्ञोऽभिवेष्टितः ।
संवेष्ट्य क्षारमुदधिं प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः ॥ १
जम्बूद्वीपस्य विस्तारः शतसाहस्रसम्मितः ।
स एव द्विगुणो ब्रह्मण् प्लक्षद्वीप उदाहृतः ॥ २
सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षद्वीपेश्वरस्य वै ।
ष्वेष्टः शान्तहृयो नाम शिशिरस्तदनन्तरः ॥ ३
सुखोदयस्तथानन्दः शिवः क्षेमक एव च ।
ध्रुवश्च सप्तमस्तेषां प्लक्षद्वीपेश्वरा हि ते ॥ ४
पूर्वं शान्तहृयं वर्षं शिशिरं च सुखं तथा ।
आनन्दं च शिवं चैव क्षेमकं ध्रुवमेव च ॥ ५
भर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वर्षपर्वताः ।
सप्तैव तेषां नामानि भृगुष्व भुनिसत्तम ॥ ६
गोमेदश्चैव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा ।
सोमकः सुमनाश्चैव वैभ्राजश्चैव सप्तमः ॥ ७
वर्षाचलेषु रम्येषु वर्षेष्वेतेषु चानघाः ।
वसन्ति देवगन्धर्वसहिताः सततं प्रजाः ॥ ८
तेषु पुण्या जनपदाश्चिराच्च प्रियते जनः ।
आधयो व्याधयो वापि सर्वकालसुखं हि तत् ॥ ९
तेषां नद्यस्तु सप्तैव वर्षाणां च समुद्रगाः ।
नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रुताः पापं हन्ति याः ॥ १०
अनुत्पन्न शिखी चैव विपाशा त्रिदिवाकलमा ।
अमृता सुकृता चैव सप्तैतास्तत्र निम्नगाः ॥ ११

हे मैत्रेय। इस प्रकार लाख योजनके त्रिलोखाले नववर्ष-विशिष्ट इस जम्बूद्वीपका मैंने तुमसे संक्षेपमें वर्णन किया ॥ २७ ॥ हे मैत्रेय! इस जम्बूद्वीपको बाईस करोड़ ओरसे लाख योजनके त्रिलोखाले बलयाकारके खारे पानीके समुद्रने घेरा हुआ है ॥ २८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—जिसे प्रकार जम्बूद्वीप क्षारसमुद्रसे घिरा हुआ है उसी प्रकार क्षारसमुद्रको घेरे हुए प्लक्षद्वीप स्थित है ॥ १ ॥ जम्बूद्वीपका विस्तार एक लक्ष योजन है; और हे ब्रह्मण! प्लक्षद्वीपके उससे दून्ध कहा जाता है ॥ २ ॥ प्लक्षद्वीपके स्वामी मेधातिथिके सात पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शान्तहृय था और उससे छोटा शिशिर ॥ ३ ॥ उनके अनन्तर क्रमशः सुखोदय, आनन्द, शिव और क्षेमक थे तथा सातवाँ ध्रुव था। ये सब प्लक्षद्वीपके अधीश्वर हुए ॥ ४ ॥ [उनके अपने-अपने अधिकृत वर्षोंमें] प्रथम शान्तहृयवर्ष है तथा अन्य शिशिरवर्ष, सुखोदयवर्ष, आनन्दवर्ष, शिववर्ष, क्षेमकवर्ष और ध्रुववर्ष हैं ॥ ५ ॥ तथा उनकी पर्याय निरिच्छत करनेवाले अन्य सात पर्वत हैं। हे मुनिश्रेष्ठ! उनके नाम ये हैं, सुनो— ॥ ६ ॥ गोमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुमना और सातवाँ वैश्राज ॥ ७ ॥

इन अति सुरम्य वर्ष-पर्वतों और वर्षोंमें देवता और गन्धर्वोंके सहित सदा निम्नाप प्रजा निवास करती हैं ॥ ८ ॥ जहाँके निवासीगण पुष्पवान् होते हैं और वे चिरकालत्क जीवित रहकर मरते हैं; उनको किसी प्रकारकी आधि-व्याधि नहीं होती, निरन्तर सुख ही रहता है ॥ ९ ॥ उन वर्षोंकी सप्त ही समुद्रगामिनी नदियाँ हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ जिनके अवणमात्रसे वे पापोंके दूर कर देती हैं ॥ १० ॥ वहाँ अनुत्पत्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अकलमा, अमृता और सुकृता—ये नौ सप्त नदियाँ हैं ॥ ११ ॥

एते शैलास्तथा नद्यः प्रधानाः कथितास्तथा ।
 क्षुद्रशैलास्तथा नद्यस्तत्र सन्ति सहस्रशः ।
 तत्रः पिबन्ति सदा हृष्टा नदीर्जनपदास्तु ते ॥ १२
 अपसर्पिणी न तेषां वै न चैवोत्सर्पिणी द्विज ।
 न त्वेषास्ति युगावस्था तेषु स्थानेषु सप्तसु ॥ १३
 श्रेतायुगसमः कालः सर्वदैव महामते ।
 प्लक्षद्वीपादिषु ग्रहज्ज्वाकद्वीपान्तिकेषु वै ॥ १४
 पञ्च वर्षसहस्राणि जना जीवन्त्यनामयाः ।
 धर्माः पञ्च तद्यैतेषु वर्णाश्रमविभागशः ॥ १५
 वर्णाश्च तत्र चत्वारस्तान्निबोध यदाप्ति ते ॥ १६
 आर्यकाः कुसराश्चैव विदिश्या भाविनश्च ते ।
 विप्रक्षत्रियवैश्यास्ते शूद्राश्च मुनिसत्तम ॥ १७
 जम्बूवृक्षप्रमाणस्तु तन्मध्ये सुप्रज्ञास्तरुः ।
 प्लक्षस्तन्नामसंज्ञोऽयं प्लक्षद्वीपो द्विजोत्तम ॥ १८
 हन्यते तत्र भगवांस्तैर्वर्णैरायकादिभिः ।
 सोमरूपी जगत्प्रष्टा सर्वः सर्वेश्वरो हरिः ॥ १९
 प्लक्षद्वीपप्रमाणेन प्लक्षद्वीपः समावृतः ।
 तथैवैश्वरसोदेन परिवेषानुकारिणा ॥ २०
 इत्येवं तत्र यैत्रेय प्लक्षद्वीप उदाहृतः ।
 सङ्क्षेपेण मया भूयः शात्मलं मे निशामय ॥ २१
 शात्मलस्येश्वरो वीरो वपुष्पांस्तत्पुत्राञ्जृणु ।
 तेषां तु नामसंज्ञानि सप्तवर्षाणि तानि वै ॥ २२
 श्वेतोऽथ हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा ।
 वैश्रुतो मानसश्चैव सुप्रभश्च महामुने ॥ २३
 शात्मलेन समुद्रोऽसौ द्वीपेनेश्वरसोदकः ।
 विस्तारद्विगुणेनाथ सर्वतः संवृतः स्थितः ॥ २४
 तत्रापि पर्यताः सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः ।
 वर्षाभिर्व्यञ्जका ये तु तथा सप्त च निम्नगाः ॥ २५
 कुमुदश्चोन्नतश्चैव तृतीयश्च बलाहकः ।
 द्रोणो यत्र महौषध्यः स चतुर्थो महौधरः ॥ २६
 कङ्कस्तु पञ्चमः षष्ठो महिषः सप्तमस्तथा ।
 ककुद्यान्पर्वतधरः सरिन्नामानि मे शृणु ॥ २७

यह मैंने तुमसे प्रधान-प्रधान पर्वत और नदियोंका वर्णन किया है; वहाँ छोटे-छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्रों हैं। उस देशके हृष्ट-पुष्ट लोग सदा उन नदियोंका जल पान करते हैं ॥ १२ ॥ हे द्विज! उन लोगोंमें इस अथवा वृद्धि नहीं होती और न उन सात वर्षोंमें युगको ही कोई अवस्था है ॥ १३ ॥ हे महामते! हे ब्रह्मन्! प्लक्षद्वीपसे लेकर शाकद्वीपपर्यन्त उन्हीं द्वीपोंमें सदा श्रेतायुगके समान समय रहता है ॥ १४ ॥ इन द्वीपोंके पञ्चम सदा नारोग रहकर पाँच हजार वर्षतक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम-विभागानुसार पाँचों धर्म (अहिंस, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) वर्तमान रहते हैं ॥ १५ ॥

यहाँ जो चार वर्ण हैं वह ये तुमको सुनाता हूँ ॥ १६ ॥ हे मुनिसत्तम! उस द्वीपमें जो आर्यक, कुरर, विदिश्य और भावी नामक जातियाँ हैं; वे ही क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं ॥ १७ ॥ हे द्विजोत्तम! उसीमें जम्बूवृक्षके ही परिमाणवाला एक प्लक्ष (पाकर)-का वृक्ष है, जिसके नामसे उसकी संज्ञा प्लक्षद्वीप हुई है ॥ १८ ॥ वहाँ आर्यकादि वर्णोंद्वारा जगत्प्रष्ट, सर्वरूप, सर्वेश्वर भगवान् हरिका सोमरूपसे यवन किया जाता है ॥ १९ ॥ प्लक्षद्वीप अपने ही शरावर परिमाणवाले वृत्तकार इश्वरसके समुद्रसे घिरा हुआ है ॥ २० ॥ हे मैंने; इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेपमें प्लक्षद्वीपका वर्णन किया, अब तुम शात्मलद्वीपका विवरण सुनो ॥ २१ ॥

शात्मलद्वीपके स्वामी वीरवर वपुष्मान् थे। उनके पुत्रोंके नाम सुनो--हे महामुने! वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैश्रुत, मानस और सुप्रभ थे। उनके सात वर्ष उन्हींके नामानुसार संज्ञावाले हैं ॥ २२-२३ ॥ यह (प्लक्षद्वीपको घेरनेवाला) इश्वरसका समुद्र अपनेसे दूने विस्तारवाले इस शात्मलद्वीपसे चारों ओरसे घिरा हुआ है ॥ २४ ॥ वहाँ भी रत्नोंके उद्भवस्थानरूप सात पर्वत हैं, जो उसके सप्तों वर्षोंके विभाजक हैं तथा सात नदियाँ हैं ॥ २५ ॥ पर्वतोंमें पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकारकी महौषधियाँ हैं ॥ २६ ॥ पाँचवाँ कंक, छठा महिष और सातवाँ गिरिवर ककुद्यान् है। अब नदियोंके नाम सुनो ॥ २७ ॥

योनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रा मुक्ता विष्णोचनी ।
 निवृत्तिः सप्तमी तासां स्मृतास्ताः पापशान्तिदाः ॥ २८
 श्वेतज्व हरितं चैव वैद्युतं मानसं तथा ।
 जीमूतं रोहितं चैव सुप्रभं चापि शोभनम् ।
 सप्तैतानि तु वर्षाणि सातुर्वर्ण्ययुतानि वै ॥ २९
 शात्मत्वे ये तु वर्णाश्च असन्त्येते महामुने ।
 कपिलाश्चारुणाः पीताः कृष्णाश्चैव पृथक् पृथक् ॥ ३०
 ब्राह्मणाः क्षत्रिय वैश्याः शूद्राश्चैव यजन्ति तम् ।
 भगवन्तं सप्तस्तस्य विष्णुमात्मानमव्ययम् ।
 वायुभूतं मखश्रेष्ठैर्यज्वानो यज्ञसंस्थितिम् ॥ ३१
 देवानामत्र सान्निध्यमतीथ सुमनोहरे ।
 शात्मलिः सुमहन्वृक्षो नाम्ना निर्वृत्तिकारकः ॥ ३२
 एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन सभायुतः ।
 विस्ताराच्छाल्मलस्यैव सपेन तु समन्ततः ॥ ३३
 सुरोदकः परिवृतः कुशाद्वीपेन सर्वतः ।
 शाल्मलस्य तु विस्ताराद् द्विगुणेन समन्ततः ॥ ३४
 ज्योतिष्मतः कुशाद्वीपे सप्त पुत्रान्वृणुष्व तान् ॥ ३५
 उद्भिदो वेणुमांशुचैव वैरथो लम्बनो धृतिः ।
 प्रभाकरोऽथ कपिलस्तनामा वर्षपद्धतिः ॥ ३६
 तस्मिन्वसन्ति मनुजाः सह दैतेयदानवैः ।
 तथैव देवगन्धर्वैश्चक्रिम्कुरुषाद्ययः ॥ ३७
 वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजानुष्ठानतत्पराः ।
 दमिनः शुष्मिणः स्नेहा मन्देहाश्च महामुने ॥ ३८
 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चानुकमोदिताः ॥ ३९
 षथोक्तकर्मकर्तृत्वात्स्वाधिकारक्षयाय ते ।
 तत्रैव तं कुशाद्वीपे ब्राह्मरूपं जनार्दनम् ।
 यजन्तः क्षपयन्पुत्रमधिकारफलप्रदम् ॥ ४०
 विद्रुमो हेमशैलश्च द्युतिमान् पुष्यवांस्तथा ।
 कुशेशयो हरिश्चैव सप्तमो मन्दराचलः ॥ ४१
 वर्षाचलास्तु सप्तैते तत्र द्वीपे महामुने ।
 महारश्च सप्त तासां तु शृणु नामान्यनुकमात् ॥ ४२
 भूतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्पत्तिस्तथा ।
 विद्युद्गम्भा मही चान्या सर्वपापहरास्त्विमाः ॥ ४३

वे योनि, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विष्णोचनी
 और निवृत्ति हैं तथा स्मरणमात्रसे ही सारे पापोंको
 शान्त कर देनेवाली हैं ॥ २८ ॥ श्वेत, हरित,
 वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभायमान
 सुप्रभ—ये उसके चारों वर्णोंसे युक्त सात वर्ण हैं ॥ २९ ॥
 हे महामुने! शाल्मलद्वीपमें कपिल, अरुण, पीत
 और कृष्ण—ये चार वर्ण निवास करते हैं जो
 पृथक्-पृथक् क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
 शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके अर्था, अव्यय
 और यज्ञके आश्रय स्वरूप विष्णुमात्मान्क
 श्रेष्ठ यज्ञोद्धार यजन करते हैं ॥ ३०-३१ ॥ इस अत्यन्त
 मनोहर द्वीपमें देवगण सदा विराजमान रहते हैं।
 इसमें शाल्मल (सेमल) का एक महान् वृक्ष है
 जो अपने नामसे ही अत्यन्त ज्ञानिदायक है ॥ ३२ ॥
 यह द्वीप अपने समान ही विस्तारवाले एक
 मंदिरके समुद्रसे सब ओरसे पूर्णतया घिर
 हुआ है ॥ ३३ ॥ और यह सुरासमुद्र शाल्मलद्वीपमें
 देने विस्तारवाले कुशाद्वीपद्वारा सब ओरसे
 परिवेष्टित है ॥ ३४ ॥

कुशाद्वीपमें [वहाँके अधिपति] ज्योतिष्मान्के
 सात पुत्र थे, उनके नाम युनी। वे उद्भिद, वेणुमान्,
 वैरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके
 नामानुसार ही वहाँके वर्णोंके नाम पड़े ॥ ३५-३६ ॥
 उसमें दैत्य और दानवोंके सहित मनुष्य तथा
 देव, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते
 हैं ॥ ३७ ॥ हे महामुने! वहाँ भी अपने-अपने कर्मोंमें
 तत्पर दमी, शुष्मी, स्नेह और मन्देहनापक चार
 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
 शूद्र ही हैं ॥ ३८-३९ ॥ अपने प्रारब्धकर्मके निमित्त
 शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुशाद्वीपमें ही
 भे श्वरूप जनार्दनकी उपासनाद्वारा अपने प्रारब्धकर्मके
 देनेवाले अत्युग्र अहंकारका क्षय करते हैं ॥ ४० ॥
 हे महामुने! इस द्वीपमें विद्रुम, हेमशैल,
 द्युतिमान्, पुष्यवान्, कुशेशय, हरि और सावर्वा
 मन्दराचल—ये सात पर्वपर्वत हैं। तथा उसमें सात ही
 नदियाँ हैं, उनके नाम क्रमशः सुनो— ॥ ४१-४२ ॥ वे
 भूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्पत्ति, विद्युत्, अम्बा
 और मही हैं। ये सम्पूर्ण पापोंको हरनेवाली हैं ॥ ४३ ॥

अन्वाः सहस्रशस्तत्र क्षुद्रनद्यस्तथाचलाः ।
 कुशद्वीपे कुशस्तम्बः सङ्घा तस्य तत्सुतम् ॥ ४४
 तत्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समावृतः ।
 घृतोदश्च समुद्रो वै क्रौञ्चद्वीपेन संवृतः ॥ ४५
 क्रौञ्चद्वीपो महाभाग श्रूयताञ्चापरो महान् ।
 कुशद्वीपस्य विस्ताराद् द्विगुणो यस्य विस्तरः ॥ ४६
 क्रौञ्चद्वीपे द्युतिमतः पुत्रास्तस्य महात्मनः ।
 तन्नामानि च वर्षाणि तेषां धत्ते महिपतिः ॥ ४७
 कुशलो मन्दगश्चोष्णः पीवरोऽथान्धकारकः ।
 मुनिश्च दुन्दुभिश्चैव सप्तैते तत्सुता मुने ॥ ४८
 तत्रापि देवगन्धर्वसेविताः सुमनोहराः ।
 वर्षाञ्जला मह्यबुद्धे तेषां नामानि मे शृणु ॥ ४९
 क्रौञ्चश्च वामनश्चैव तृतीयश्चान्धकारकः ।
 अतुर्थो रत्नशैलश्च स्याहिनी ह्यसन्निभः ॥ ५०
 दिवावृत्तञ्चमश्चात्र तथान्यः पुण्डरीकवान् ।
 दुन्दुभिश्च महाशैलो द्विगुणास्ते परस्परम् ।
 द्वीपा द्वीपेषु ये शैला यथा द्वीपेषु ते तथा ॥ ५१
 वर्षेच्छेतेषु रम्येषु तथा शैलवरेषु च ।
 निवसन्ति निरातङ्गाः सह देवगणैः प्रजाः ॥ ५२
 पुष्करः पुष्करा धन्यास्तिव्याख्याश्च महामुने ।
 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चानुक्रमेदिताः ॥ ५३
 नदीर्मित्रेव ते तत्र याः पिबन्ति शृणुष्व ताः ।
 सप्तप्रधानाः शतशस्तत्रान्याः क्षुद्रनिम्नगाः ॥ ५४
 गौरी कुमुदती चैव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा ।
 क्षान्तिश्च पुण्डरीका च सप्तैता वर्षनिम्नगाः ॥ ५५
 तत्रापि विष्णुर्भगवान्पुष्कराद्यैर्जनार्दनः ।
 यागै रुद्रस्वरूपश्च इज्यते यज्ञसन्निधौ ॥ ५६
 क्रौञ्चद्वीपः समुद्रेण दधिपण्डोदकेन च ।
 आवृतः सर्वतः क्रौञ्चद्वीपतुल्येन मानतः ॥ ५७
 दधिपण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन संवृतः ।
 क्रौञ्चद्वीपस्य विस्ताराद् द्विगुणेन महामुने ॥ ५८
 शाकद्वीपेश्वरस्यापि भव्यस्य सुमहात्मनः ।
 सप्तैव तनयास्तेषां दक्षी वर्षाणि सप्त सः ॥ ५९

वहाँ और भी सहस्रों छोटी-छोटी नदियाँ और पर्वत हैं। कुशद्वीपमें एक कुशका झाड़ू है। उसीके कारण इसका यह नाम पड़ा है ॥ ४४ ॥ यह द्वीप अपने ही अरावर निरतारवाले भीके समुद्रसे चिरा हुआ है और वह घृत-समुद्र क्रौञ्चद्वीपसे परियेष्ठित है ॥ ४५ ॥

हे महाभाग! अब इसके अगले क्रौञ्चनामक महाद्वीपके विषयमें सुनो, जिसका विस्तार कुशद्वीपसे दूना है ॥ ४६ ॥ क्रौञ्चद्वीपमें महात्मा द्युतिमान्के जो पुत्र थे; उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान्ने उनके प्रथमके नाम रखे ॥ ४७ ॥ हे मुने! उसके कुशल, मन्दग, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि—ये सात पुत्र थे ॥ ४८ ॥ वहाँ भी देवता और गन्धर्वोंसे सेवित अति मनोरुद्र सात वर्षपर्वत हैं। हे महामुने! उनके नाम सुनो— ॥ ४९ ॥ उनमें पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अन्धकारक, चौथा चोड़ोके मुखके समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, पाँचवाँ दिवावृत्, छठा पुण्डरीकवान् और सातवाँ महापर्वत दुन्दुभि है। ये द्वीप परस्पर एक-दूसरेसे दूने हैं; और उन्हींकी भाँति उनके पर्वत भी [उत्तरोत्तर द्विगुण] हैं ॥ ५०-५१ ॥ इन भुरग्य धर्मों और पर्वतश्रेणियोंमें देवगणोंके सहित सम्पूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती हैं ॥ ५२ ॥ हे महामुने! वहाँके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमसे पुष्कर, पुष्करा, धन्य और तिव्य कहलाते हैं ॥ ५३ ॥ हे भैया! वहाँ जिनका जल पान किया जाता है उन नदियोंका विवरण सुनो। उस द्वीपमें सात प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं ॥ ५४ ॥ ये सात वर्षनदियाँ गौरी, कुमुदती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका हैं ॥ ५५ ॥ वहाँ भी रुद्ररूपी जनार्दन भगवान् विष्णुकी पुष्करदि वरुणोंद्वारा यज्ञादिसे पूजा की जाती है ॥ ५६ ॥ यह क्रौञ्चद्वीप चारों ओरसे अपने तुल्य परिमाणवाले दधिपण्ड (मट्टे)-के समुद्रसे चिरा हुआ है ॥ ५७ ॥ और हे महामुने! यह मट्टेका समुद्र भी शाकद्वीपसे चिरा हुआ है, जो विस्तारमें क्रौञ्चद्वीपसे दूना है ॥ ५८ ॥

शाकद्वीपके राजा महात्मा भव्यके भी सात ही पुत्र थे। उनको भी उन्हींने पृथक्-पृथक् सात वर्ष दिये ॥ ५९ ॥

जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मरीचकः ।
 कुसुमोदश्च मौदाकिः सप्तमश्च महाद्रुमः ॥ ६०
 तत्संज्ञान्येव तत्रापि सप्त वर्षाण्यनुक्रमात् ।
 तत्रापि पर्वताः सप्त वर्षविच्छेदकारिणः ॥ ६१
 पूर्वस्तत्रोदयगिरिर्जलाधारस्तथापरः ।
 तथा रैवतकः श्यामस्तथैवास्तगिरिर्द्विज ।
 आम्बिकेयस्तथा रम्यः केसरी पर्वतोत्तमः ॥ ६२
 शाकस्तत्र महायुक्षः सिद्धगन्धर्वसेवितः ।
 यत्रत्याघातसंस्पर्शादीद्वादो जायते परः ॥ ६३
 तत्र पुण्या जनपदाश्चातुर्वर्षसमन्विताः ।
 नद्यश्चात्र महापुण्याः सर्वपापभयापह्नवः ॥ ६४
 सुकुमारी कुमारी च नलिनी धेनुका च या ।
 ह्यक्षुश्च वेणुका चैव गभस्ती सप्तमी तथा ॥ ६५
 अन्याश्च शतशस्तत्र क्षुद्रनद्यो महापुने ।
 यहीधरास्तथा सन्ति शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६६
 ताः पिबन्ति मुदा युक्तजलदादिषु ये स्थिताः ।
 वर्षेषु ते जनयदाः स्वर्गादभ्येत्य मेदिनीम् ॥ ६७
 धर्महानिर्न तेष्वस्ति न सहस्रैः परस्परम् ।
 मर्यादाव्युत्क्रमो नापि तेषु देशेषु सप्तम् ॥ ६८
 मगाश्च मागभाश्चैव मीनसा मन्दगास्तथा ।
 मगा ब्राह्मणभूयिष्ठा मागधाः क्षत्रियास्तथा ।
 वैश्यास्तु मानसास्तेषां शूद्रास्तेषां तु मन्दगाः ॥ ६९
 शाकद्वीपे तु तैर्विष्णुः सूर्यरूपधरो मुने ।
 अथोत्तरिष्यते सम्यक्कर्मभिर्नियतात्मभिः ॥ ७०
 शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समावृतः ।
 शाकद्वीपप्रमाणेन खलयेनेव वेष्टितः ॥ ७१
 क्षीराब्धिः सर्वतो ब्रह्मन्पुष्कराख्येन वेष्टितः ।
 द्वीपेन शाकद्वीपात् द्विगुणेन समन्ततः ॥ ७२
 पुष्करे सवनस्यापि महावीरोऽभवत्सुतः ।
 धातकिश्च तयोस्तत्र द्वे वर्षे नामचिह्निते ।
 महावीरं तथैवान्यद्भातकीखण्डसंज्ञितम् ॥ ७३
 एकश्चात्र महाभाग प्रख्यातो वर्षपर्वतः ।
 मानसोत्तरसंज्ञो वै मध्यतो वलयाकृतिः ॥ ७४

ये सात पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकि और महाद्रुम थे। उन्हींके नामानुसार वहाँ क्रमशः सात वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षोंका विभाग करनेवाले सात ही पर्वत हैं ॥ ६०-६१ ॥ हे द्विज! वहाँ पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधार; तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताक्ष, आम्बिकेय और अलि सूर्य्य गिरिश्चैव केसरी हैं ॥ ६२ ॥ वहाँ सिद्ध और गन्धर्वोंसे सेवित एक अति महान् शाकयुक्ष है, जिसके प्रायुका स्पर्श करनेसे हृदयमें परम आह्लाद उत्पन्न होता है ॥ ६३ ॥ वहाँ चातुर्वर्षसे युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भयको दूर करनेवाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, ह्यक्षु, वेणुका और गभस्ती—ये सात महापवित्र नदियाँ हैं ॥ ६४-६५ ॥ हे महामुने! इनके सिवा उरु द्वीपमें और भी सैकड़ों छोटी-छोटी नदियाँ और सैकड़ों-हजारों पर्वत हैं ॥ ६६ ॥ स्वर्ग-भोगके अनन्तर जिनोंने पृथिवी-तलपर आकर बलद आदि वर्षोंमें जन्म कृपा किया है वे लोग प्रसन्न होकर उनका जल पान करते हैं ॥ ६७ ॥ उन सातों वर्षोंमें धर्मका ह्यस परस्परिक संघर्ष (कलह) अथवा पर्यादाका उल्लंघन कभी नहीं होता ॥ ६८ ॥ वहाँ मग, मागध, मानस और मन्दग—ये चार वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ जाति हैं, मागध क्षत्रिय हैं, मानस वैश्य हैं तथा मन्दग शूद्र हैं ॥ ६९ ॥ हे मुने! शाकद्वीपमें शास्त्रानुकूल कर्म करनेवाले पूर्वक यारों वर्षोंद्वारा संयत चित्तसे विधिपूर्वक सूर्यरूपधारी भगवान् विष्णुकी उपासना की जाती है ॥ ७० ॥ हे मैत्रेय! वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तारवाले मण्डलाकार दुग्धके समुद्रसे घिरा हुआ है ॥ ७१ ॥ और हे ब्रह्मन्! वह क्षीर-समुद्र शाकद्वीपसे दूने परिमाणकाले पुष्करद्वीपसे परिवेष्टित है ॥ ७२ ॥

पुष्करद्वीपमें वहाँके अधिपति महाराज सवनके महावीर और धातकि नामक दो पुत्र हुए। अतः उन दोनोंके नामानुसार उसमें महावीर-खण्ड और धातकी-खण्ड नामक दो वर्ष हैं ॥ ७३ ॥ हे महाभाग! इन्हीं मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष-पर्वत कक्ष जाता है जो इसके मध्यमें वलयाकार स्थित है तथा पचास सहस्र

योजनानां सहस्राणि ऊर्ध्वं पञ्चाशदुच्चरुतः ।
 तावदेव च विस्तीर्णाः सर्वतः परिमण्डलः ॥ ७५ ॥
 पुष्करद्वीपवलयं पश्येन विभक्तनिधयः ।
 स्थितोऽसी तेन विच्छिन्नं जातं तदूर्ध्वकद्वयम् ॥ ७६ ॥
 बलयाकारमेकैकं तयोर्वर्षं तथा गिरिः ॥ ७७ ॥
 दशवर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः ।
 निरामया विशोकाश्च रागद्वेषादिवर्जिताः ॥ ७८ ॥
 अथमोत्तमी न तेषास्ती न मध्यमधकी द्विज ।
 नेर्घ्यासूया भयं द्वेषो लोभादिको न च ॥ ७९ ॥
 महावीरं बह्विर्षं धातकीखण्डमन्ततः ।
 मानसोत्तरशैलस्य देवदैत्यादिसंविताम् ॥ ८० ॥
 सत्यानृते न तत्रास्तां द्वीपे पुष्करसंज्ञिते ।
 न तत्र नद्यः शैला घा द्वीपे वर्षद्वयान्विते ॥ ८१ ॥
 तुल्यवेषास्तु मनुजा देवास्तत्रैकरूपिणः ।
 वर्णाश्रमास्मारहीनं धर्माचरणवर्जितम् ॥ ८२ ॥
 त्रयी वार्ता दण्डनीतिशुश्रूषारहितञ्च यत् ।
 वर्षद्वयं तु पत्रेय भूमिः स्वर्गोऽयमुत्तमः ॥ ८३ ॥
 सर्वर्तुसुखदः कालो जरारोगादिवर्जितः ।
 धातकीखण्डसंज्ञेऽथ महावीरे च वै मुने ॥ ८४ ॥
 न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम् ।
 तस्मिन्निवसति बह्या मूज्यमानः सुरासुरैः ॥ ८५ ॥
 स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः ।
 समेन पुष्करस्यैव विस्तारान्मण्डलं तथा ॥ ८६ ॥
 एवं द्वीपाः समुद्रैश्च सप्त सप्तभिरावृताः ।
 द्वीपश्चैव समुद्रश्च समानौ द्विगुणौ परी ॥ ८७ ॥
 पवासि सर्वदा सर्वसमुद्रेषु समानि वै ।
 न्यूनातिरिक्ता तेषां कदाचिन्नैव जायते ॥ ८८ ॥
 स्थालीस्थमग्निसंयोगादुद्रेकि सलिलं यथा ।
 तथेन्दुवृद्धौ सलिलमम्भोधौ मुनिसत्तम ॥ ८९ ॥
 अन्यूनानतिरिक्ताश्च वर्षन्त्यापो हसन्ति च ।
 उदयास्तमनेघ्विन्दोः पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः ॥ ९० ॥

योजन ऊँचा और इतना ही सब ओर गोलाकार फैला हुआ है ॥ ७४-७५ ॥ यह पर्वत पुष्करद्वीपरूप गोलेको मानो बीचमेंसे विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होनेसे उसमें दो वर्ष हो गये हैं; उनमेंसे प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत बलयाकार ही है ॥ ७६-७७ ॥ वहाँके मनुष्य रोग, शोक और राग-द्वेषादिसे रहित हुए दस सहस्र वर्षतक जीवित रहते हैं ॥ ७८ ॥ हे द्विज! उनमें उत्तम-अथवा अथवा मध्य-मध्यक आदि (विरोधी) भाव नहीं हैं और न उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभादि दोष ही हैं ॥ ७९ ॥ महावीरवर्ष मानसोत्तर पर्वतके बाहरकी ओर है और धातकी-खण्ड पीतरकी ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं ॥ ८० ॥ दो खण्डोंसे युक्त उस पुष्करद्वीपमें सत्य और मिथ्याका व्यवहार नहीं है और न उसमें पर्वत तथा नदियाँ ही हैं ॥ ८१ ॥ वहाँके मनुष्य और देवगण समान वेष और समान रूपवाले होते हैं। हे मंत्री! वर्णाश्रमाचारसे हीन, काम्य कर्मोंसे रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दण्डनीति और शुश्रूषा आदिसे शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भूमि (पृथिवीके) स्वर्ग हैं ॥ ८२-८३ ॥ हे मुने! उन पश्चिमीर और धातकी खण्ड नामक वर्षोंमें काल (समय) समस्त ऋतुओंमें सुखदायक और जरा तथा रोगादिसे रहित रहता है ॥ ८४ ॥ पुष्करद्वीपमें ब्रह्मणोको उत्तम निवासस्थान एक न्यग्रोध (वट)-का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवादिसे पूजित श्रीब्रह्मणो विराजते हैं ॥ ८५ ॥ पुष्करद्वीप चारों ओरसे अपने ही समान विस्तारवाले मोटे पानीके समुद्रसे मण्डलके समान घिरा हुआ है ॥ ८६ ॥

इस प्रकार चारों द्वीप सप्त समुद्रोंसे घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा [उन्हें घेरनेवाले] समुद्र परस्पर समान हैं, और उत्तरोत्तर दूरे होते गये हैं ॥ ८७ ॥ सभी समुद्रोंमें सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती ॥ ८८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! पात्रको जल जिस प्रकार अग्निका संयोग होनेसे उबलने लगता है उसी प्रकार चन्द्रमाकी कलाओंके बढ़नेसे समुद्रका जल भी बढ़ने लगता है ॥ ८९ ॥ शुक्ल और कृष्ण वर्षोंमें चन्द्रमाके उदय और अस्तसे न्यूनाधिक न होते हुए सौ जल घटता और बढ़ता है ॥ ९० ॥

दशोत्तराणि पञ्चैव द्वाङ्गुलानां शतानि वै ।
 अपां घृद्धिक्षयीं दुष्टीं सामुद्रीणां महामुने ॥ ११
 भोजनं पुष्करद्वीपे तत्र स्वयमुपस्थितम् ।
 घड्रसं भुञ्जते विप्रं प्रजाः सर्वाः सर्वैश्च हि ॥ १२
 स्वादूदकस्य परितो दृश्यतेऽलोकसंस्थितिः ।
 द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सर्वजन्तुविवर्जिता ॥ १३
 लोकालोकस्ततश्शीलो योजनाद्युत्विस्तृतः ।
 उच्चक्रयेणापि नाधन्ति सहस्राण्यक्ष्णो हि सः ॥ १४
 ततस्तपः समावृत्य तं शैलं सर्वतः स्थितम् ।
 तपश्चाण्डकटाहेन समन्तात्परिवेष्टितम् ॥ १५
 पञ्चाशत्कोटिविस्तारा सेयमुर्वीं महामुने ।
 सहैवाण्डकटाहेन सह्यीपाब्धिमह्यधरा ॥ १६
 सेयं थात्री विधात्री च सर्वभूतगुणाधिका ।
 आधारभूता सर्वेषां मैत्रेय जगतामिति ॥ १७

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽंशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अध्याय

सात पताललोकीयत वर्णन

श्रीपराशर उवाच

विस्तार एष कश्चितः पृथिव्या भवतो मया ।
 सप्ततिस्तु सहस्राणि द्विजेष्वक्षयोजयि कथ्यते ॥ १
 दशसाहस्रमेकैकं पातालं मुनिसत्तम ।
 असलं वितलं चैव नितलं च गभस्तिमत् ।
 महास्यं सुतलं चाग्र्यं पातालं घापि सप्तमम् ॥ २
 सुकलकृष्णारुणाः पीताः शर्कराः शैलकाञ्चनाः ।
 भूमयो यत्र मैत्रेय वरप्रासादयण्डिताः ॥ ३
 तेषु दानवदैतेषा यक्षाश्च शतशस्तथा ।
 निवसन्ति महानागजातयश्च महामुने ॥ ४
 स्वर्लोकदपि रम्याणि पातालाभीति नारदः ।
 ग्राह स्वर्गसदां मध्ये पातालाभ्यागतो दिवि ॥ ५
 आद्वादकारिणः शुभा मणयो यत्र सुप्रभाः ।
 नागाभरणभूषासु पातालं केन तत्समम् ॥ ६

हे महामुने! समुद्रके जलकी वृद्धि और ध्व
 पौत्र सी दस (५२०) अंगुलतक देखी जाती हैं ॥ ११ ॥
 हे विप्र! पुष्करद्वीपमें सम्पूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा [विना
 प्रयत्नके] अपने-आप ही प्राप्त हुए पद्मस भोजनको
 आहार करते हैं ॥ १२ ॥

आद्वादक (पीले पानीके) समुद्रके चारों ओर लोक-
 निवाससे शून्य और सपस्त जाँचसे रहित उससे दूरी
 सुवर्गमयी भूमि दिखायी देती है ॥ १३ ॥ वहाँ दस सहस्र
 योजन विस्तारवाला लोकालोके-पर्वत है। वह पर्वत ऊँचद्वी
 भी उतने ही सहस्र योजन है ॥ १४ ॥ उसके आगे उस
 पर्वतको सब ओरसे आवृतकर घोर अन्धकार छाया हुआ
 है, तथा वह अन्धकार चारों ओरसे ब्रह्माण्ड-कटाहसे अमृत
 है ॥ १५ ॥ हे महामुने! अण्डकटाहके रहित द्वीप, समुद्र और
 पर्वतादियुक्त यह सपस्त भूमण्डल पचास करोड़ योजन
 विस्तारवाला है ॥ १६ ॥ हे मैत्रेय। आकाशादि समस्त भूमिसे
 अधिक गुणवाली यह पृथिवी सम्पूर्ण जगत्की आधारभूत
 और उसकी पालन तथा उद्भव करनेवाली है ॥ १७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज! मैंने तुमसे यह
 पृथिवीका विस्तार कहा; इसको ऊँचाई भी सप्त
 सहस्र योजन कहो जाती है ॥ १ ॥ हे मुनिसत्तम।
 असल, वितल, नितल, गभस्तिमान्, महागल, सुगल
 और पाताल—इन सतोंमेंसे प्रत्येक दस-दस सहस्र
 योजनकी दूरीपर है ॥ २ ॥ हे मैत्रेय। सुन्दर महस्सेसे
 सुशोभित बरौकी भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अश्व्य और
 पीत वर्णकी तथा शर्करामयी (कैंकरीली), शैली
 (पत्थरकी) और सुवर्णमयी है ॥ ३ ॥ हे महामुने।
 उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े-बड़े नाग आदिकोंकी
 सैकड़ों जातियाँ निवास करती हैं ॥ ४ ॥

एक बार नारदजीने पाताललोकसे स्वर्गमें आकर
 वहाँके निवासियोंसे कहा था कि 'पाताल जो स्वर्गसे
 भी अधिक सुन्दर है' ॥ ५ ॥ वहाँ नागवर्णके
 आभूषणोंमें सुन्दर श्पायुक्त आद्वादकारिणी सुभ्र पतिर्षा
 जड़ी हुई हैं उस पातालको किसके समान कहें? ॥ ६ ॥

दैत्यदानवकन्याभिरितश्चेत्तश्च शोभिते ।
 पाताले कस्य न प्रीतिर्विमुक्तस्यापि जायते ॥ ७
 दिवाकर्कशमथो यत्र प्रभां तन्वन्ति नातपम् ।
 शशिरश्मिर्न शीताय निशि श्रोताय केवलम् ॥ ८
 भक्ष्यभोज्यमहापानमुदितैरपि भोगिभिः ।
 यत्र न ज्ञायते कालो पतोऽपि दनुजादिभिः ॥ ९
 वनानि नद्यो रम्याणि सरांसि कमलाकराः ।
 पुंस्कोकिलाभिलापाश्च मनोज्ञान्धराणि च ॥ १०
 भूषणान्यतिशुभ्राणि गन्धाढ्यं चानुलेपनम् ।
 घौणान्यनुदङ्गानां स्वनास्तूर्याणि च द्विज ॥ ११
 एतान्यन्यानि स्रोदारभाग्यभोग्यानि दानवैः ।
 दैत्वोरगैश्च भुज्यन्ते पातालान्तरगतैरैः ॥ १२
 पातालानामभश्चास्ते विष्णोर्व्यां तामसी तनुः ।
 शेषाक्ष्या यद्गुणान्वक्तुं न शक्नव दैत्यदानवाः ॥ १३
 योऽनन्तः पठ्यते सिद्धैर्देवो देवर्षिपूजितः ।
 स सहस्रशिरा व्यक्तस्वस्तिकाफलभूषणः ॥ १४
 फणामपांसद्वलेण चः स विद्योत्तयन्दिशः ।
 सर्वाङ्करोति निर्वीर्यान् द्वितीय जगतोऽसुरान् ॥ १५
 मदाघूर्णितमेत्रोऽसौ यः सदैवैककुण्डलः ।
 किरीटी स्वग्रथे भाति साग्निः श्वेत इवाचलः ॥ १६
 नीलवासा मदोत्सिक्तः श्वेतहरोपशोभितः ।
 साभगङ्गाप्रवाहोऽसौ कैलासाद्रिखापरः ॥ १७
 लाङ्गलासक्तहस्ताग्रो विभ्रन्मुसलमुत्तमम् ।
 ज्वास्यते स्वयं कान्त्या यो वारुण्या च पूर्त्या ॥ १८
 कल्पान्ते यस्य वक्रेभ्यो विषानलशिखोष्णलः ।
 संकर्षणात्मको सन्नो निष्कृत्याति जगत्त्रयम् ॥ १९
 स विभ्रच्छेखरीभूतमशेषं क्षितिमण्डलम् ।
 आस्ते पातालमूलस्थः शेषोऽशेषसुरार्चितः ॥ २०
 तस्य वीर्यं प्रभावश्च स्वरूपं रूपमेव च ।
 न हि घर्णयितुं शक्यं ज्ञातुं च त्रिदशैरपि ॥ २१
 यदीषा सकला पृथ्वी फणामपाशिखारुणा ।
 आस्ते कुसुममालेव कस्तहीर्यं यदिष्यति ॥ २२

जहाँ-तहाँ दैत्य और दानवोंकी कन्याओंसे सुरोभित
 पाताललोकमें किस मुक्त पुरुषकी भी प्राप्ति न होगी ॥ ७ ॥
 जहाँ दिनमें सूर्यकी किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं,
 रात नहीं करती; तथा रातमें चन्द्रमाकी किरणोंसे शीत
 नहीं होता, केवल चाँदनी ही फैलती है ॥ ८ ॥ जहाँ भक्ष्य,
 भोज्य और महापानादिके भोगोंसे आनन्दित सर्वाँ तथा
 दानवादिकोंको सपन जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता ॥ ९ ॥
 जहाँ सुन्दर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलोंके
 वन हैं, जहाँ नरकोकिलोंकी सुमधुर मूरु गूँगती है
 एवं आकाश मनोहारी है ॥ १० ॥ और हे द्विज! जहाँ
 पातालनिवासी दैत्य, दानव एवं नागणपत्य अति स्वच्छ
 आभूषण, सुगन्धमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंगादिके
 स्वर तथा तुर्य—ये सब एवं भाग्यशालियोंके भोगनेयोग्य
 और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं ॥ ११-१२ ॥

पातालोंके नीचे विष्णुभगवान्का शेष नामक जो
 तपोपय विग्रह है उसके गुणोंका दैत्य अथवा दानवगण
 भी वर्णन नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ जिन देवर्षिपूजित
 देवका सिद्धाण 'अनन्त' कहकर वखान करते हैं वे
 अति निर्मल, स्पष्ट स्वस्तिक चिह्नोंसे विभूषित तथा
 सहस्र सिरवाले हैं ॥ १४ ॥ जो अपने फणोंकी सहस्र
 मणियोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए संसारके
 कल्याणके लिये समस्त असुरोंको बोर्यहीन करते रहते
 हैं ॥ १५ ॥ भदके धारण अरुण नयन, सदैव एक ही
 कुण्डल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण
 किये जो अग्निमुक्त श्वेत पर्वतके समान सुरोभित हैं ॥ १६ ॥
 मदसे दम्भत हुए जो नीलाम्बर तथा श्वेत हारोंसे सुरोभित
 होकर मेघमाला और गंगाप्रवाहसे युक्त दूसरे कैलास-
 पर्वतके समान तिरालपान हैं ॥ १७ ॥ जो अपने हाथोंमें
 हल और उत्तम मूसल धारण किये हैं तथा जिनकी
 उपसना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर
 करती हैं ॥ १८ ॥ कल्पान्तमें जिनके मुखसे विषाग्निशिखाके
 सपान देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों
 लोकोंका भक्षण कर जाता है ॥ १९ ॥ व समस्त देवगणोंसे
 बन्दित शेषभगवान् अशेष भूषणकी मुकुटधर धारण
 किये हुए पाताल-कल्पमें विराजमान हैं ॥ २० ॥ उनका
 बल-वीर्य, प्रभाव, स्वरूप (तत्त्व) और रूप (आकार)
 देवताओंसे भी नहीं जाना और कहा जा सकता ॥ २१ ॥
 जिनके फणोंकी मणियोंकी आभासे अरुण वर्ण हुई यह
 समस्त पृथिवी फूलोंकी मालाके समान रखी हुई है
 उनके बल-वीर्यका वर्णन भला कौन करेगा ? ॥ २२ ॥

यदा विजृम्भतेऽनन्तो मदाधूर्णितलोचनः ।
 तदा चलति भूरेषा साब्धितोया सकानना ॥ २३
 गन्धर्वाभ्ररसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणाः ।
 नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमव्ययः ॥ २४
 यस्य नागवधूढस्तैर्लेपितं हरिचन्दनम् ।
 मुहुः श्वासानिलापास्तं याति दिक्षुदशासताम् ॥ २५
 यमाराभ्य पुराणार्षिर्गणैर्ज्योतीषि तत्त्वतः ।
 ज्ञातवान्सकलं शैव निमित्तपठितं फलम् ॥ २६
 तेनेयं मागवर्षेण शिरसा विधृता मही ।
 विधर्ति मालां लोकानां सदेवासुरमानुषाम् ॥ २७

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयोऽंशे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

छटा अध्याय

भिन्न-भिन्न नरकोंका तथा भगवन्नामके महातयकर वर्णन

श्रीपराशर उवाच

ततश्च नरका विप्र भुवोऽधः सलिलस्य च ।
 पापिनो येषु पात्यन्ते ताञ्कृणुष्व मह्यमुने ॥ १
 रौरवः सूकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा ।
 महाज्वालस्तप्तकुम्भो लवणोऽथ विलोहितः ॥ २
 रुधिराम्भो वैतरणिः कुम्भीशः कुम्भिभोजनः ।
 असिपत्रवर्नं कृष्णो लालाभक्षश्च दारुणः ॥ ३
 तथा पूषकः पापो वह्निज्वालो ह्यधःशिराः ।
 सन्दंशः कालसूत्रश्च तमश्चावीचिरेव च ॥ ४
 श्वभोजनोऽथाप्रतिष्ठश्चाप्रचिश्च तथा परः ।
 इत्येवमादयश्चान्ये नरका भृशदारुणाः ॥ ५
 यमस्य विषये घोराः शस्त्राग्निभयदायिनः ।
 पतन्ति येषु पुरुषाः पापकर्मरतास्तु ये ॥ ६
 कूटसाक्षी तथाऽसम्यक्पक्षपातेन यो वदेत् ।
 यश्चान्यदन्तं वक्ति स नरो याति रौरवम् ॥ ७
 भूणह्य पुरहन्ता च गोघ्नश्च मुनिसत्तम ।
 यान्ति ते नरकं रोधं यश्चोच्छ्वासनिरोधकः ॥ ८

जिस समय मदमतनयन शेषजी जमुहार्द लेते हैं उह समय समुद्र और जन आदिके सहित यह सम्पूर्ण पृथिवी चलायमान हो जाती है ॥ २३ ॥ इनके गुणोंका अन्त भयव, अस्त्र, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते: हरशिये ये अलिनाशी देव 'अन्त' कहलाते हैं ॥ २४ ॥ जिनका नाग-अश्रुओद्भय लेपित रुचिन्द पनः-पुनः श्वास-वायुसे छूट-छूटकर दिशाओंको सुगन्ध करता रहता है ॥ २५ ॥ जिनकी आराधनासे पूर्वकालीन महर्षि गर्गिण सागरत ज्योतिष्काल (ग्रह-वृक्षत्रादि) और शकुन-वपशकुनादि नैमित्तिक फलोंको तत्त्वतः जान था ॥ २६ ॥ उन नागश्रेष्ठ शेषजीने इस पृथिवीकी अपने मस्तकपर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्योंके सहित सम्पूर्ण लोकमाला (पातालादि समस्त लोकों) को धारण किये हुए हैं ॥ २७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे विप्र! तदनन्तर पृथिवी और जलके नीचे नरक हैं जिनमें पापी लोग गिरने जाते हैं। हे महामुने! उनका विवरण सुनो ॥ १ ॥ रौरव, सूकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण, विलोहित, रुधिराम्भ, वैतरणि, कुम्भीश, कुम्भिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पूषक, पाप, सलिलज्वाल, अधःशिरा, सन्दंश, कालसूत्र, तमसु, अवीचि, श्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रचि—ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यपराजके शासनधीन हैं और अति दारुण शस्त्र-भय तथा अग्नि-भय देनेवाले हैं और जिनमें जो पुरुष पापगत होते हैं वे ही गिरते हैं ॥ २—६ ॥

जो पुरुष कूटसाक्षी (सूत्र गवाह अर्थात् जाकर भी न बतलानेवाला या कुछ-का-कुछ कहनेवाला) होता है अथवा जो पक्षपातसे ग्यार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्याभाषण करता है वह रौरवनरकमें जाता है ॥ ७ ॥ हे मुनिसत्तम! भूण (गर्भ) नष्ट करनेवाले, ग्रामज्वाल और भो-इत्यारे लोग रोध नामक नरकमें जाते हैं जो श्वासोच्छ्वासकी रोकनेवाला है ॥ ८ ॥

सुरापो ब्रह्महा हर्ता सुवर्णस्य च सूकरे ।
 प्रयान्ति नरके यश्च तैः संसर्गमुपैति वै ॥ १
 राजन्यवैश्यहा ताले तथैव गुरुतल्पगः ।
 तप्तकुण्डे स्वसुगामी हन्ति राजभटांश्च यः ॥ १०
 साध्वीविक्रयकृद्बन्धपालः केसरिविक्रयी ।
 तप्तलोहे पतन्त्येते यश्च भक्तं परित्यजेत् ॥ ११
 स्तुषां सुतां चापि गत्वा महाश्वसे निपात्यते ।
 अवमन्ता गुरूणां यो यश्चाक्रोष्टा नराधमः ॥ १२
 वेददूषयिता यश्च वेदविक्रयिकश्च यः ।
 अमाय्यगामी यश्च स्यात्ते यान्ति स्ववर्णं द्विज ॥ १३
 चोरो विलोहे पतति मर्यादादूषकस्तथा ॥ १४
 देवद्विजपितृद्वेषा रत्नदूषयिता च यः ।
 स धाति कृमिभक्षे वै कृमीशे च दुरिष्टकृत् ॥ १५
 पितृदेवातिथींस्त्यक्त्वा पर्यशनाति नराधमः ।
 लालाभक्षे स यात्युग्रे शरकर्ता च वेधके ॥ १६
 करोति कर्षिणे यश्च यश्च खड्गदिवृन्तरः ।
 प्रयान्त्येते विशसने नरके भृशदारुणे ॥ १७
 असत्प्रतिगुहिता तु नरके यात्यधोमुखे ।
 अयाज्ययाजकश्चैव तथा नक्षत्रसूचकः ॥ १८
 वेगी पूयबहे चैको याति मिष्टान्नभुङ्गरः ॥ १९
 लाक्षामांसरसानां च तिलानां लवणस्य च ।
 विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेव नरकं द्विज ॥ २०
 मार्जारकुक्कुटच्छागश्ववराहविहङ्गमान् ।
 योषयन्नरकं याति तमेव द्विजसत्तम ॥ २१
 रङ्गोपजीवी कैवल्यः कुण्डाङ्गी गरदस्तथा ।
 सूची माहिषकश्चैव पर्वकारी च यो द्विजः ॥ २२

यज्ञ-पान करनेवाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुरानेवाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है ये सब सूकरनरकमें जाते हैं ॥ १ ॥ शत्रिय अथवा वैश्यका धंध करनेवाला तालनरकमें तथा गुरु-स्त्रीके साथ गमन करनेवाला, पगिनीगामी और खजदूतोंको मारनेवाला पुरुष तप्तकुण्डनरकमें पड़ता है ॥ १० ॥ सती स्त्रीको बेचनेवाला, कारागृहरक्षक, अश्वविक्रेता और भक्तपुरुषका त्याग करनेवाला—ये सब लोग दण्डलोहनरकमें गिरते हैं ॥ ११ ॥ पुरषधू और पुरीके साथ विषय करनेवाला पुरुष महाज्वालनरकमें गिरता है तथा जो नखम गूजनोक्य अपमान करनेवाला और इनसे दुर्वचन श्रोतनेवाला होता है तथा जो वेदकी निन्दा करनेवाला, वेद बेचनेवाला या अगम्या स्त्रीसे सम्भोग करता है, है द्विज ॥ वे सब लवणनरकमें जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ चोर तथा मर्यादाका उल्लंघन करनेवाला पुरुष विलोहितनरकमें गिरता है ॥ १४ ॥ देव, द्विज और पितृगणसे द्वेष करनेवाला तथा रत्नको दूषित करनेवाला कृमिभक्षनरकमें और अनिष्ट यज्ञ करनेवाला कुमोशनरकमें जाता है ॥ १५ ॥

जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियोंकी छोड़कर उनसे पहले योजन कर लेता है वह अति उग्र लालाभक्षनरकमें पड़ता है; और चाण बनानेवाला वैधकनरकमें जाता है ॥ १६ ॥ जो मनुष्य कर्षी नामक वाण मनाते हैं और जो खड्गादि शस्त्र बनानेवाले हैं वे अति दारुण विशसनरकमें गिरते हैं ॥ १७ ॥ असत्-प्रतिग्रह (दुष्प्रतिग्रह) (उपाधीसे धन-संग्रह) करनेवाला, अयाज्य-याजक और नक्षत्रोपजीवी (नक्षत्र-विद्याके न जानकर भी उसका ढोंग रचनेवाला) पुरुष अधोमुखनरकमें पड़ता है ॥ १८ ॥ साहस (विचुर कर्म) करनेवाला पुरुष पूयवहनरकमें जाता है, तथा [पुत्र-विशदिकी संभन करके] अंकले तो स्वादु भोजन करनेवाला और लवण, मोल, रस, तिल तथा लवण आदि बेचनेवाला ब्राह्मण भी उसी (पूयवह) नरकमें गिरता है ॥ १९-२० ॥ हे द्विजबेठ! बिलाय, कुक्कुट, छाग, अश्व, सूकर तथा पक्षियोंको [जीविकार्थके लिये] पालनेसे भी पुरुष उसी नरकमें जाता है ॥ २१ ॥ नट या मत्स्यवृत्तिसे रहनेवाला, धीवरका कर्म करनेवाला, कुण्ड (उपपत्तिसे उत्पन्न सन्तान)—का अन्न खानेवाला, दिव्य देनेवाला, चुगलखोर, स्त्रीकी असद्वृत्तिके आश्रय रहनेवाला, धन आदिके लोभसे विना पर्यके अमावास्या आदि पर्वदिनोंका कार्य करनेवाला

आगारदाही भिन्नः शाकुनिर्गामयाजकः ।
 रुधिरान्धे पतस्येते सोमं विक्रीणते च ये ॥ २३
 मखहा ग्रामहन्ता च वाति वैतरणीं नरः ॥ २४
 रेतःपातादिकर्तारो मर्वादाभेदिनो हि ये ।
 ते कृष्णे यान्त्यशौचाश्च कुहकजायिनश्च ये ॥ २५
 असिपत्रवनं याति वनच्छेदी वृक्षैश्च यः ।
 औरिभिको मृगव्याधो वह्निज्वाले पतन्ति वै ॥ २६
 यान्तेते द्विज तत्रैव ये चापाकेषु वह्निदाः ॥ २७
 प्रह्वयं लोपक्वे यश्च स्वाश्रमाद्विच्युतश्च यः ।
 सन्दंशयातनामध्ये पततस्तावुभावपि ॥ २८
 दिवा स्वप्ने च स्कन्दन्ते ये नरा ब्रह्मचारिणः ।
 पुत्रैरध्यापिता ये च ते पतन्ति स्वभोजने ॥ २९
 एते ज्ञान्ये च नरकाः शतशोऽथ सहस्रशः ।
 येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः ॥ ३०
 यथैव पापान्येतानि तन्धान्यानि सहस्रशः ।
 भुज्यन्ते तानि पुरुषैर्नरकान्तरगोचरैः ॥ ३१
 वर्णाक्षयविरुद्धं च कर्म कुर्वन्ति ये नराः ।
 कर्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते ॥ ३२
 अधःशिरोभिर्दृश्यन्ते नारकैर्दिवि देवताः ।
 देवाश्चक्षुधेमुखांसर्वानथः पश्यन्ति नारकान् ॥ ३३
 स्वावतः कृमयेऽश्वाश्च पक्षिणः पशवो नराः ।
 धार्मिकस्त्रिदशास्तादृन्धेक्षिणश्च यथाक्रमम् ॥ ३४
 सहस्रभागप्रथमा द्वितीयानुक्रमास्तथा ।
 सर्वे ह्येते महाभाग यावन्पुक्तिसमाश्रयाः ॥ ३५
 यावन्तो जन्तवः स्वर्गे तावन्तो नरकाकसः ।
 पापकृद्वाति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्मुखः ॥ ३६
 पापानायनुरूपाणि प्रायश्चित्तानि यद्यथा ।
 तथा तथैव संस्पृश्य प्रोक्तानि परमर्षिभिः ॥ ३७
 पापे गुरुणि गुरुणि स्वल्पान्यल्पे च तद्विदः ।
 प्रायश्चित्तानि मंत्रैश्च जगुः स्वायम्भुवादयः ॥ ३८
 प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वै ।
 यानि तेषामज्ञेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् ॥ ३९

द्विज, घरमें आग लगानेवाला, पित्रकी हत्या करनेवाला, शकुन आदि बतानेवाला, ग्रामका पुरोहित तथा सोम (सदिरा) घेघने-वाला—ये सब श्रध्यान्धनरकमें गिरे हैं ॥ २२-२३ ॥ यज्ञ अथवा ग्रामको नष्ट करनेवाला कृप यैतरणीनरकमें जाता है, तथा जो लोग धीर्यपातादि कलेबरी, खेतांकी बाड़ तोड़नेवाले, अपवित्र और छलवृत्तिके अन्नप रूनेवाले होते हैं वे कृष्णनरकमें गिरते हैं ॥ २४-२५ ॥

जो वृथा हो वटांको काटता है वह असिपत्रवनरकमें जाता है। सोपीपजीयो (गङ्गारि५) और व्याघ्राण वह्निज्वालनरकमें गिरते हैं तथा हे द्विज! जो कच्चे मट्टों अथवा ईंट आदिको पकानेके लिये उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस (वह्निज्वालनरक)—में ही जाते हैं ॥ २६, २७ ॥ वनोंको लोप करनेवाले तथा अपने आश्रमते पतित वानां हो प्रकारके पुरुष अन्ध-श नामक नरकमें गिरते हैं। २८ ॥ जिन ब्रह्मचारियोंका दिनमें तथा रातमें सम्म [धुरी भाव-यसे] शौर्यपात हो जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रोंसे पक्वते हैं वे लोग स्वभोजननरकमें गिरते हैं ॥ २९ ॥

इस प्रकार, ये तथा अन्य सैकड़ों-हजारों नरक हैं, जिनमें दुष्कर्मों लोग नाना प्रकारको यातनाएँ भोग करते हैं ॥ ३० ॥ इन उपर्युक्त शर्षोंके समान और भी सड़कों पाप-कर्म हैं, उनके फल पनुक्त भिन्न-भिन्न नरकोंमें भोग करते हैं ॥ ३१ ॥ जो लोग अपने वर्णाश्रम-धर्मके षिठ्ठ मन, वचन अथवा कर्मसे कोई आचरण करते हैं वे नरकमें गिरते हैं ॥ ३२ ॥ अधोपुत्रनरक निवासियोंको स्वर्गलोकमें देवगण दिखायी दिशा करते हैं और देवता लोग नीचेके लोकोंमें नारकी जीवोंको देखते हैं ॥ ३३ ॥ गापो लोग नरकभोगके अनन्तर क्रमसे स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण एक मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं ॥ ३४ ॥ हे महाभाग! मुमुक्षुपर्यन्त इन सबमें दूसरीकी अपेक्षा पहले प्राणी [संख्यामें] सहस्र गुण अधिक हैं ॥ ३५ ॥ जितन बी स्वर्गमें हैं उतने ही नरकमें हैं, जो पापो पुरुष [अपने पापका] प्रायश्चित्त नहीं करते वे जो नरकमें जाते हैं ॥ ३६ ॥

भिन्न-भिन्न पापोंके अनुरूप जो-जो प्रायश्चित्त हैं उन्हीं-उन्हींको महर्षियोंने वेदार्थका स्मरण करके बताया है ॥ ३७ ॥ हे मंत्रेय! स्वायम्भुवमनु आदि स्मृतिकांशों महान् पापोंके लिये महान् और अल्पोंके लिये अल्प प्रायश्चित्तोंकी व्यवस्था की है ॥ ३८ ॥ किन्तु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित्त हैं उन सबमें श्रीकृष्णस्मरण सर्वश्रेष्ठ है ॥ ३९ ॥

कृते पापेऽनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते ।
 प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम् ॥ ४०
 प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याह्नादियु संस्मरन् ।
 नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ ४१
 विष्णुसंस्मरणात्क्षीणसमस्तकलेशसञ्चयः ।
 मुक्तिं प्रयाति स्वर्गोऽस्तिस्तस्य विघ्नोऽनुमीयते ॥ ४२
 वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु ।
 तस्यान्तरायो मैत्रेय देयेन्द्रत्यादिकं फलम् ॥ ४३
 क्व नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम् ।
 क्व जपो वासुदेवेति मुक्तिर्बीजमनुत्तमम् ॥ ४४
 तस्माद्दर्हिनिर्शं विष्णुं संस्मरन्पुरुषो मुने ।
 न याति नरकं मर्त्यः सङ्क्षीणखिलपातकः ॥ ४५
 मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः ।
 नरकस्वर्गसंज्ञे वै पापपुण्ये द्विजोत्तम ॥ ४६
 यस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेर्थागमाय च ।
 कोपाय च यतस्तस्माद्दुस्तु यस्त्यात्मकं कुतः ॥ ४७
 तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते ।
 तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ ४८
 तस्माद्दुःखात्मकं नास्ति न च किञ्चित्सुखात्मकम् ।
 मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणाः ॥ ४९
 ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते ।
 ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्विद्यते परम् ॥ ५०
 विद्याविद्येति मैत्रेय ज्ञानमेवोपधारय ॥ ५१
 एवमेतन्मयाख्यातं भवतो मण्डलं भुवः ।
 पातालानि च सर्वाणि तथैव नरका द्विज ॥ ५२
 समुद्राः पर्वताश्चैव द्वीपा वर्षाणि निम्नगाः ।
 सङ्क्षीपात्सर्वमाख्याते किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५३

जिस पुरुषके चित्तमें पाप-कर्मके अनन्तर पश्चात्तप
 होता है उसके लिये ही प्रायश्चित्तोक्त विधान है। किन्तु
 यह हरिस्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित्त है ॥ ४० ॥
 प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रिमें अथवा मध्याह्नमें किसी
 भी समय श्रीनारायणका स्मरण करनेसे पुरुषके समस्त
 पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ श्रीविष्णुभगवान्के
 स्मरणसे समस्त पापराशिके भस्म हो जानेसे पुरुष भोक्षपद
 प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग-लाभ तो उसके लिये विघ्नरूप
 माना जाता है ॥ ४२ ॥ हे मैत्रेय! जिसका चित्त जप, होम
 और अर्चनादि करते हुए निरन्तर भगवान् वासुदेवमें लगा
 रहता है उसके लिये इन्द्रपद आदि फल तो अन्तराय
 (विघ्न) हैं ॥ ४३ ॥ कर्त्तव्य तो पुनर्जन्मके शक्यमें डारनेवाली
 स्वर्ग-प्राप्ति और कहीं भोक्षका सर्वोत्तम बीज 'वासुदेव'
 नामका जप! ॥ ४४ ॥

इसलिये हे मुने! श्रीविष्णुभगवान्का अहर्निश
 स्मरण करनेसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य
 फिर नरकमें नहीं जाता ॥ ४५ ॥ चिदको प्रिय लगनेवाला
 ही स्वर्ग है और उसके विपरीत (अप्रिय लगनेवाला)
 ही नरक है। हे द्विजोत्तम! पाप और पुण्यहीके दूसरे
 नाम नरक और स्वर्ग हैं ॥ ४६ ॥ जब कि एक ही
 वस्तु सुख और दुःख तथा ईर्ष्या और कोपका कारण हो
 जाती है तो उसमें वस्तुता (वियत स्वभावत्व) ही
 कहाँ है? ॥ ४७ ॥ क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीतिकी
 कारण होती है तो वही दूसरे समय दुःखदायिनी हो
 जाती है और वही कभी क्रोधकी हेतु होती है तो कभी
 प्रसन्नता देनेवाली हो जाती है ॥ ४८ ॥ अतः कोई भी
 पदार्थ दुःखप्रय नहीं है और न कोई सुखप्रय है। ये सुख-
 दुःख तो मनके ही विकार हैं ॥ ४९ ॥ [परमार्थतः] ज्ञान ही
 परब्रह्म है और [अविद्याकी उपाधिसे] वही बन्धनका
 कारण है। यह सम्पूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है; ज्ञानसे भिन्न
 और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय! विद्या और अविद्याको
 भी तुम ज्ञान ही समझो ॥ ५०-५१ ॥

हे द्विज! इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमण्डल,
 सम्पूर्ण पाताललोक और नरकोंका वर्णन कर दिया ॥ ५२ ॥
 समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ—इन सभीको मैंने
 संक्षेपसे व्याख्या कर दी; अन्न, गुण और क्या सुनना
 चाहते हो? ॥ ५३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयोऽंशे पञ्चोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सातवाँ अध्याय

भूर्भुवः आदि सात ऊर्ध्वलोकोंका वृत्तान्त

श्रीमंत्रेण उवाच

कथितं भूतलं ब्रह्मन्मैतदखिलं त्वया ।
भुवर्लोकैर्दिक्काल्लोकैश्चैतुमिच्छाम्यहं मुने ॥ १
तथैव ग्रहसंस्थानं प्रमाणाणि यथा तथा ।
समाचक्ष्व मह्यभाग तन्मह्यं परिपृच्छते ॥ २

श्रीपराशर उवाच

रविचन्द्रमसोर्यावन्मयूखैरवभास्यते ।
ससमुद्रसरिच्छैला तावती पृथिवी स्मृता ॥ ३
यावत्प्रमाणा पृथिवी विस्तारपरिमण्डलान् ।
नभस्तापत्रमाणं वै व्यासमण्डलतो द्विज ॥ ४
भूमेर्योजनलक्षे तु सौरं मैत्रेय मण्डलम् ।
लक्षाद्दिवाकरस्थपि मण्डलं शशिनः स्थितम् ॥ ५
पूर्णे शतसहस्रे तु योजनानां निशाकरात् ।
नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नमुपरिष्ठात्प्रकाशते ॥ ६
द्वे लक्षे चोत्तरे ब्रह्मन् बुधो नक्षत्रमण्डलात् ।
तावत्प्रमाणभागे तु बुधस्याप्युशनाः स्थितः ॥ ७
अङ्गुरकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे स्ववस्थितः ।
लक्षद्वये तु भौमस्य स्थितो देवपुरोहितः ॥ ८
शौरिर्बृहस्पतेश्चोर्ध्वं द्विलक्षे समवस्थितः ।
सप्तर्षिमण्डले तस्माल्लक्षमेकं द्विजोत्तम ॥ ९
ऋषिभ्यस्तु सहस्राणां शतादूर्ध्वं व्यवस्थितः ।
मेहीभूतः समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वै भुवः ॥ १०
त्रैलोक्यमेतत्कथितमुत्सेधेन मह्यमुने ।
इन्द्र्याफलस्य भूरेषा इन्द्र्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥ ११
भुवादूर्ध्वं महर्लोको यत्र ते कल्पवासिनः ।
एकयोजनकोटिस्तु यत्र ते कल्पवासिनः ॥ १२
द्वे कोटी तु जनो लोको यत्र ते ऋषयः सुताः ।
सप्तदशानां प्रथिता मैत्रेयामलचेतसः ॥ १३
चतुर्गुणोत्तरे चोर्ध्वं जनलोकालयः स्थितम् ।
वैराजा यत्र ते देवाः स्थिता द्वादशविजिताः ॥ १४

श्रीमंत्रेणजी बोले— ब्रह्मन्! आपने भूभूसे समस्त भूमण्डलका वर्णन किया है मुने! अब मैं भुवर्लोक आदि समस्त लोकोंके विषयमें सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ हे मह्यभाग! मुझ विज्ञानसे आप प्रह्वणकी स्थिति तथा उनके परिमाण आदिक्रम यथास्तु वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

श्रीपराशरजी बोले— जितनी दूरतक सूर्य और चन्द्रमाके किरणोंका प्रकाश जाता है; समुद्र, नदी और गर्वतादिसे युक्त उतना प्रदेश पृथिवी कहलाता है ॥ ३ ॥ हे द्विज! जितना पृथिवीका विस्तार और परिमण्डल (वैश) है उतना ही विस्तार और परिमण्डल भुवर्लोकका भी है ॥ ४ ॥ हे मैत्रेय! पृथिवीसे एक लाख योजन दूर सूर्यमण्डल है और सूर्यमण्डलसे भी एक लक्ष योजनके अन्तरपर चन्द्रमण्डल है ॥ ५ ॥ चन्द्रमासे पूरे सौ हजार (एक लाख) योजन ऊपर सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकाशित हो रहा है ॥ ६ ॥

हे ब्रह्मन्! नक्षत्रमण्डलसे दो लाख योजन ऊपर बुध और शुक्रसे भी दो लक्ष योजन ऊपर शुक्र स्थित है ॥ ७ ॥ शुक्रसे इतनी ही दूरीपर मंगल है और मंगलसे भी दो लाख योजन ऊपर बृहस्पतिजी है ॥ ८ ॥ हे द्विजोदम! बृहस्पतिजीसे दो लाख योजन ऊपर शनि है और शनिसे एक लक्ष योजनके अन्तरपर सप्तर्षिमण्डल है ॥ ९ ॥ तथा सप्तर्षियोंसे भी सौ हजार योजन ऊपर समस्त ज्योतिश्चक्रकी नाभिरूप बुधमण्डल स्थित है ॥ १० ॥ हे महामुने! यैने तुमसे १६ त्रिलोकीकी उच्चतमके विषयमें वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञफलकी भोग-भूमि है और यज्ञानुष्ठानकी स्थिति इस भारतवर्षमें ही है ॥ ११ ॥

भूभूसे एक करोड़ योजन ऊपर महर्लोक है, वहाँ कल्पान्त-पर्यन्त रहनेवाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं ॥ १२ ॥ हे मैत्रेय! उससे भी दो करोड़ योजन ऊपर जनलोक है जिसमें ब्रह्माजीके प्रख्यात पुत्र निर्मलचित्त सनकादि रहते हैं ॥ १३ ॥ जनलोकसे चौगुना अर्थात् आठ करोड़ योजन ऊपर तपलोक है; वहाँ वैराज नामक देवगणोंका निवास है जिनका कभी दाह नहीं होता ॥ १४ ॥

षड्गुणेन तपोलोकः सत्यलोको विराजते ।
 अपुनर्मांरका यत्र ब्रह्मलोको हि स स्मृतः ॥ १५
 पादागम्यन्तु यत्किञ्चिद्ब्रह्मस्त्वस्ति पृथिवीमयम् ।
 स भूर्लोकः समाख्यातो विस्तरोऽस्य भयोदितः ॥ १६
 भूमिसूर्यान्तरं यच्च सिद्धादिमुनिसेवितम् ।
 भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तम ॥ १७
 ध्रुवसूर्यान्तरं यच्च नियुतानि चतुर्दश ।
 स्वर्त्रैक्यं स्त्रेऽपि गदितो लोकसंस्थानधिनाकैः ॥ १८
 त्रैलोक्यमेतत्कृतकं मैत्रेय परिपठशते ।
 जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतकं त्रयम् ॥ १९
 कृतकाकृतयोर्मध्ये महर्लोक इति स्मृतः ।
 शून्यो भवति कल्पान्ते योऽत्यन्तं न विनश्यति ॥ २०
 एते सप्त मया लोका मैत्रेय कथितास्तव ।
 पातालानि च सप्तैव ब्रह्माण्डस्यैव विस्तरः ॥ २१
 एतदपडकटाहेन तिर्यक् चोर्ध्वमधस्तथा ।
 कपित्थस्य चक्षा बीजं सर्वतो वै समावृतम् ॥ २२
 दशोत्तरेण पयसा मैत्रेयाण्डं च तदवृतम् ।
 सर्वोऽम्बुपरिधानोऽसी वह्निना खेचित्तो ब्रह्मिः ॥ २३
 षस्तिंश्च वायुना वायुर्मैत्रेय नभसा वृतः ।
 भूतादिना नभः सोऽपि महता परिवेष्टितः ।
 दशोत्तराण्यशेषाणि मैत्रेयैतानि सप्त वै ॥ २४
 मह्यन्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम् ।
 अनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यान्तं चापि विद्यते ॥ २५
 तदनन्तमसंख्यातप्रमाणं चापि वै यतः ।
 हेतुभूतमशेषस्य प्रकृतिः सा परा मुने ॥ २६
 अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च ।
 ईदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च ॥ २७
 दारुण्यग्निर्यक्षा तैलं तिले तद्ब्रह्मण्युमानपि ।
 प्रधानेऽवस्थितो व्यापी चेतनात्मात्मवेदनः ॥ २८
 प्रधानं च पुमांश्चैव सर्वभूतात्मभूतया ।
 विष्णुशक्त्या महाबुद्धे वृत्ती संश्रयधर्मिणी ॥ २९

तपलोकसे त्रैलोक्या अर्थात् चारह करोड़ योजनके
 अन्तरपर सत्यलोक भूशोभित है जो ब्रह्मलोक भी
 कहलाता है और जिसमें फिर न मरनेवाले अमरण
 निवास करते हैं ॥ १५ ॥ जो भी पार्थिव यत्न करणसंश्रुते
 योग्य है वह भूर्लोक ही है। उसका विस्तार मैं कह
 चुका ॥ १६ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ। पृथिवी और सूर्यके मध्यमें
 जो सिद्धगण और मुनिगण-सेवित स्थान है, वही
 दूसरा भुवर्लोक है ॥ १७ ॥ ध्रुवं और भुवके बीचमें
 जो चौदह लाख योजनका अन्तर है, उसीको
 लोकस्थितिका विचार करनेवालोंने स्वर्लोक कहा है ॥ १८ ॥
 हे मैत्रेय! ये (भूः, भुवः, स्वः) 'कृतक' त्रैलोक्य
 कहलाते हैं और नभ, तप तथा सत्य—ये तीनों
 'अकृतक' लोक हैं ॥ १९ ॥ इन कृतक और अकृतक
 त्रिलोकियोंके मध्यमें महर्लोक कहा जाता है, जो
 कल्पान्तमें केवल जनशून्य हो जाता है, अत्यन्त नष्ट
 नहीं होता [इसलिये यह 'कृतकावृत्त' कहलाता है] ॥ २० ॥

हे मैत्रेय! इस प्रकार मैंने तुमसे ये सात
 लोक और सात ही पाताल कहे। इस ब्रह्माण्डका बस
 इतना ही विस्तार है ॥ २१ ॥ यह ब्रह्माण्ड कपित्थ
 (केथे)—के बीजके समान ऊपर-नीचे सब ओर
 अण्डकटाहसे घिरा हुआ है ॥ २२ ॥ हे मैत्रेय!
 यह अण्ड अपनेसे दसगुने जलसे आवृत है और यह
 जलका सम्पूर्ण आवरण अग्निसे घिरा हुआ है ॥ २३ ॥
 अग्नि वायुसे और वायु आकाशसे परिवेष्टित है तथा
 आकाश भूर्लोकके कारण तामस अहंकार और अहंकार
 महत्त्वसे घिरा हुआ है। हे मैत्रेय! ये सातों उत्तरोत्तर
 एक-दूसरेसे दसगुने हैं ॥ २४ ॥ ब्रह्मण्युक्तो भी प्रधानमें
 आवृत कर रखा है। वह अनन्त है; तथा उसका
 न कभी अन्त (पाश) होता है और न कोई संख्या
 ही है; क्योंकि हे मुने! यह अनन्त, असंख्येय, अपरिमेय
 और सम्पूर्ण जगत्का कारण है और वही परा प्रकृति
 है ॥ २५-२६ ॥ उसमें ऐसे-ऐसे हजारों, लाखों
 तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्माण्ड हैं ॥ २७ ॥ जिस
 प्रकार काष्ठमें अग्नि और तिलमें तैल रहता है उसी
 प्रकार ऋप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधानमें
 स्थित है ॥ २८ ॥ हे महाबुद्धे। ये संश्रयशील (आपसमें
 मिले हुए) प्रधान और पुरुष भी समस्त
 भूर्लोककी स्वरूपभूता विष्णु-शक्तिसे आवृत हैं ॥ २९ ॥

तयोः सैव पृथग्भावकारणं संश्रवस्य च ।
 क्षोभकारणभूता च सर्गकाले महामते ॥ ३०
 यथा सक्तं जले वातो विभर्ति कणिकाशतम् ।
 शक्तिः सापि तथा विष्णोः प्रधानपुरुषात्मकम् ॥ ३१
 यथा च पादपो मूलस्कन्धशाखादिसंयुतः ।
 आदिबीजात्प्रभवति बीजान्यन्यानि वै ततः ॥ ३२
 प्रभवन्ति ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्यपरे हुमाः ।
 तेऽपि तल्लक्षणद्रव्यकारणानुगता मुने ॥ ३३
 एवमव्याकृतात्पूर्वं जायन्ते महदादयः ।
 विशेषान्तास्ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्यसुरादयः ।
 तेभ्यश्च पुत्रास्तेषां च पुत्राणामपरे सुताः ॥ ३४
 बीजाद्बृक्षप्ररोहेण यथा नापचयस्तरौ ।
 भूतानां भूतसर्गेण नैवास्त्यपचयस्तथा ॥ ३५
 सन्निधानाद्यथाकशकालाद्याः करणं तरोः ।
 तथैवापरिणामेन विश्वस्य भगवान्हरिः ॥ ३६
 प्रीहिबीजे यथा मूलं नालं पत्राङ्कुरौ तथा ।
 अण्डं कोषस्तु पुष्पं च क्षीरं तद्ब्रह्म तण्डुलाः ॥ ३७
 तथाः कणाश्च सन्तो वै वान्त्याविर्भावमात्मनः ।
 प्ररोहहेतुसामग्रीमासाद्य मुनिसत्तम ॥ ३८
 तथा कर्मस्वनेकैषु देवाद्याः समवस्थिताः ।
 विष्णुशक्तिं समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति वै ॥ ३९
 स च विष्णुः परं ब्रह्म यतः सर्वमिदं जगत् ।
 जगच्च यो यत्र चेदं यस्मिंश्च लयमेधयति ॥ ४०
 तद्ब्रह्म तत्परं धाम सदसत्परमं पदम् ।
 अस्य सर्वमभेदेन यतश्चैतच्चराचरम् ॥ ४१
 स एव मूलप्रकृतिर्ध्वंकरूपी जगच्च सः ।
 तस्मिन्नेव लयं सर्वं याति तत्र च तिष्ठति ॥ ४२
 कर्ता क्रियाणां स च इत्यते क्रतुः
 स एव तत्कर्मफलं च तस्य ।
 सृगादि यत्साधनमप्यशेषं
 हरेर्न किञ्चिद्द्व्यतिरिक्तमस्ति ॥ ४३

हे महामते ! वह विष्णु-शक्ति ही [प्रलयके समय] उनके पार्थक्य और [स्थितिके समय] उनके सम्मिलनकी हेतु है तथा शारारणके समय वही उनके क्षोभकी कारण है ॥ ३० ॥ जिस प्रकार जलके संसर्गसे वायु सैकड़ों जल-कणोंको धारण करता है उसी प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्ति भी प्रधान-पुरुषमय जगत्को धारण करती है ॥ ३१ ॥

हे मुने ! जिस प्रकार आदि बीजमें ही मूल, स्कन्ध और शाखा आदिके सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदनन्तर उसमें और भी बीज उत्पन्न होते हैं, तथा उन बीजोंमें अन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी वहाँ लक्षण, द्रव्य और कारणोंसे युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत (प्रधान)-से पद्मतल्लसे लेकर पंचयूतपर्यन्त [सम्पूर्ण विकार] उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव, असुर आदिका जन्म होता है और फिर इनके पुत्र तथा उन पुत्रोंके अन्य पुत्र होते हैं ॥ ३२-३४ ॥ अपने बीजसे अन्य वृक्षके उत्पन्न होनेसे जिस प्रकार पूर्ववृक्षकी कोई क्षति नहीं होती उसी प्रकार अन्य प्राणियोंके उत्पन्न होनेसे उनके जन्मदाता प्राणियोंका हास नहीं होता ॥ ३५ ॥

जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधिपत्रसे ही वृक्षके कारण होते हैं उसी प्रकार भगवान् श्रीहरि भी विश्व परिणामके ही विश्वके कारण हैं ॥ ३६ ॥ हे मुनिसत्तम ! जिस प्रकार धानके बीजमें मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोष, पुष्प, सीर, तण्डुल, तुष और कण सभी रहते हैं; तथा अंकुरोत्पत्तिकी हेतुभूत [भूमि एवं जल आदि] सामग्रीके प्राप्त होनेपर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्वकर्मोंमें स्थित देवता आदि विष्णु-शक्तिका आश्रय पानेपर आपिभूत हो जाते हैं ॥ ३७-३९ ॥ जिससे यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत् रूपसे स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाया वह पारब्रह्म ही विष्णुमगधन् है ॥ ४० ॥ यह ब्रह्म ही उन (विष्णु)-का परमधाम (परस्वरूप) है, वह षट् स्तु और असत् दोनोंसे विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह सम्पूर्ण चण्डर जगत् उससे उत्पन्न हुआ है ॥ ४१ ॥ वही अव्यक्त मूलप्रकृति है, वही व्यक्तस्वरूप संसार है, उसीमें यह सम्पूर्ण जगत् लीन होता है तथा उसीके अग्रय स्थित है ॥ ४२ ॥ यज्ञादि क्रियाओंका कर्ता यही है, यज्ञरूपसे उसीका यजन किया जाता है, और उन यज्ञादिक्रमफलस्वरूप भी यही है तथा यज्ञके साधनरूप जो सृजा आदि हैं वे सब भी हरिसे अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं ॥ ४३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

आठवाँ अध्याय

सूर्य, नक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था तथा कारलचक्र, लोकपाल और गंगाविभायिका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

व्याख्यातमेतद्वह्नाण्डसंस्थानं तव सूत्रत ।
 ततः प्रमाणसंस्थाने सूर्यादीनां शृणुष्व मे ॥ १
 योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव ।
 ईषादण्डस्तथैवास्य द्विगुणो मुनिसत्तम ॥ २
 सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि वै ।
 योजनानां तु तस्याश्नस्तत्र चक्रं प्रतिष्ठितम् ॥ ३
 त्रिनाभिमति पञ्चारे षण्णेभिन्मध्यात्मके ।
 संवत्सरमध्ये कृत्स्नं कालचक्रं प्रतिष्ठितम् ॥ ४
 ह्य्याश्च सप्तच्छन्दांसि तेषां नामानि मे शृणु ।
 गायत्री च बृहत्सुष्मिण्यजगती त्रिष्टुबेक्ष च ।
 अनुष्टुप्पङ्क्तिरित्युक्ता छन्दांसि हरयो रथेः ॥ ५
 चत्वारिंशत्सहस्राणि द्वितीयोऽक्षो विवस्वतः ।
 पञ्चान्यानि तु सार्धानि स्यन्दनस्य मन्नामते ॥ ६
 अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्युगाद्धयोः ।
 ह्रस्वोऽक्षस्तद्युगाद्धेन ध्रुवाधारो रथस्य वै ।
 द्वितीयेऽक्षे तु तच्चक्रं संस्थितं पानसाचले ॥ ७
 मानसोत्तरशीलस्य पूर्वतो वासवी पुरी ।
 दक्षिणे तु यमस्यान्वा प्रसीच्यां वरुणस्य च ।
 उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे शृणु ॥ ८
 यस्वीकसारा शक्रस्य याम्या संयमनी तथा ।
 पुरी सुखा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी ॥ ९
 काष्ठां गतो दक्षिणतः क्षिप्रेषुरिव सर्पति ।
 मैत्रेय भगवान्भानुर्योतिषां चक्रसंयुतः ॥ १०
 अहोरात्रव्यवस्थानकारणं भगवान् रविः ।
 देवयानः परः पन्था योगिनां क्लेशसङ्क्षये ॥ ११
 दिवसस्य रथिर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थितः ।
 सर्वद्वीपेषु मैत्रेय निशाद्धस्य च सम्मुखः ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—हे सुत्रत! मैंने तुमसे यह
 ब्रह्माण्डकी स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहोंकी
 स्थिति और उनके परिमाण सूत्रों ॥ १ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ!
 सूर्यदेवके रथका विस्तार नौ हजार योजन है तथा
 इससे दूना उसका ईषा-दण्ड (जूआ और रथके
 बीचका भाग) है ॥ २ ॥ उसका धुरा ढेढ़ करोड़ सात
 लाख योजन लम्बा है जिसमें उसका पहिया लगा
 हुआ है ॥ ३ ॥ इस पूर्वाहन, मध्याहन और पराहनरूप
 तीन नाभि, परिवत्सरदि पाँच अरे और षड्-क्षतुरूप
 छः नेमिवहले अक्षयस्वरूप संवत्सररथक चक्रमें सम्पूर्ण
 कालचक्र स्थित है ॥ ४ ॥ सात छन्द ही उसके घोड़े
 हैं, उनके नाम सुनो—गायत्री, बृहती, उष्णिक्, जगती,
 त्रिष्टुप् अनुष्टुप् और पंक्ति—ये छन्द ही सूर्यके सात
 घोड़े कहे गये हैं ॥ ५ ॥ हे महातम! भगवान् सूर्यके
 रथका दूसरा धुरा साढ़े पैंतालीस सहस्र योजन लम्बा
 है ॥ ६ ॥ दोनों धुरोंके परिमाणके तुल्य ही उसके
 युगाद्धों (जूआँ) का परिमाण है, इनमेंसे छोटा धुरा
 उस रथके एक युगाद्ध (जूएँ)-के सहित ध्रुवके
 आधारपर स्थित है और दूसरे धुरेका चक्र
 मानसोत्तरपर्वतपर स्थित है ॥ ७ ॥

इस पानसोत्तरपर्वतके पूर्वमें इन्द्रकी, दक्षिणमें यमकी,
 पश्चिममें वरुणकी और उत्तरमें चन्द्रमाकी पुरी है; उन
 पुरियोंके नाम सुनो ॥ ८ ॥ इन्द्रकी पुरी यस्वीकसारा है,
 यमकी संयमनी है, वरुणकी सुखा है तथा चन्द्रमाकी
 विभावरी है ॥ ९ ॥ हे मैत्रेय! ज्योतिषचक्रके सहित भगवान्
 पान् दक्षिण-दिशामें प्रवेशकर छोड़े हुए बाणके समान
 तीव्र वेगसे चलते हैं ॥ १० ॥

भगवान् सूर्यदेव दिन और रात्रिकी व्यवस्थाके
 कारण हैं और रागादि क्लेशोंके क्षीण हो जानेपर वे
 ही क्रममुक्तिभागी योगिनोंके देवयान नामक श्रेष्ठ
 मार्ग हैं ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय! सभी द्वीपोंमें सर्वदा मध्याहन
 तथा मध्यरात्रिके समय सूर्यदेव मध्य आकाशमें सामनेकी
 ओर रहते हैं ॥ १२ ॥

* अर्थात् जिस द्वीप या खण्डमें सूर्यदेव मध्याह्नके समय सम्मुख पड़ते हैं उसकी समान रेखापर दूसरी ओर स्थित द्वीपान्तर्गम वे उली प्रकार मध्यरात्रिके समय रहते हैं।

उदयास्तमने चैव सर्वकालं तु सम्मुखे ।
 विदिशासु त्वशेषासु तथा ब्रह्मन् दिशासु च ॥ १३
 सूर्यत्र दृश्यते भास्वान्स तेषामुदयः स्मृतः ।
 तिरोभावं च यत्रैति तत्रैवास्तमनं रवेः ॥ १४
 नैवास्तमनमर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः ।
 उदयास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रवेः ॥ १५
 शक्रादीनां पुरे तिष्ठन् स्मृशालेष पुरत्रयम् ।
 विकोणौ द्वौ विकोणस्थस्वीन् कोणाद्रे पुरे तथा ॥ १६
 वदितो बद्धमानाभिरामध्याह्नात्तपन् रविः ।
 ततः परं ह्रस्वीभिर्गोभिरस्तं नियच्छति ॥ १७
 उदयास्तमनाभ्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशी ।
 यावत्पुरस्तात्तपति तावत्पृष्ठे च पार्श्वयोः ॥ १८
 ऋतेऽमरगिरेर्मैरुरुपरि ब्रह्मणः सभाम् ।
 ये ये मरीच्योऽर्कस्य प्रयान्ति ब्रह्मणः सभाम् ।
 ते ते निरस्तास्तद्भ्रसा प्रतीपमुपयान्ति वै ॥ १९
 तस्याद्दिशमुत्तरस्यां वै दिवारारिः सदैव हि ।
 सर्वेषां द्वीपवर्षाणां मेरुरुत्तरतो यतः ॥ २०
 प्रभा विवस्वतो रात्रावस्तं गच्छति भास्करे ।
 विशत्यग्निमतो रात्रौ यत्निरूर्वात्प्रकाशते ॥ २१
 वह्नेः प्रभा तथा भानुर्दिनेष्ववशिषति द्विज ।
 अतीव यत्निसंयोगादतः सूर्यः प्रकाशते ॥ २२
 तेजसी भास्करानेये प्रकाशोष्णस्वरूपिणी ।
 परस्परानुप्रवेशादाप्यावेते दिवानिशाम् ॥ २३
 दक्षिणोत्तरभूम्यर्द्धे समुत्पिच्छति भास्करे ।
 अहोरात्रं विशत्यम्भस्तमः प्राकाश्यशीलवत् ॥ २४
 आताम्रा हि भवन्त्यापो दिवा नक्तप्रवेशानात् ।
 दिनं विशति चैवाम्भो भास्करेऽस्तमुपेयुधि ।
 तस्माच्छुक्ला भवन्त्यापो नक्तमह्नः प्रवेशनात् ॥ २५

इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक-दूसरेके सम्मुख ही होते हैं। हे ब्रह्मन्! समस्त दिशा और विदिशाओंमें बलके लोग [रात्रिका अन्त होनेपर] सूर्यको जिस स्थानपर देखते हैं उनके लिये वहाँ उसका उदय होता है और वहाँ दिनके अन्तमें सूर्यका तिरोभाव होता है वहाँ उसका अस्त कहा जाता है ॥ १३-१४ ॥ सर्वदा एक रूपसे स्थित सूर्यदेवका वास्तवमें न उदय होता है और न अस्त; वस, उनका देहना और न देखना ही उनके उदय और अस्त है ॥ १५ ॥ मध्यह्नकालमें इन्द्रादिपैरे किसीकी पुरीपर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव [पार्श्वयत्नो दो पुरियोंके स्थित] तीन पुरियों और दो कोणों (विदिशाओं)-को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार अग्नि आदि कोणोंमेंसे किसी एक कोणमें प्रकाशित होते हुए वे [पार्श्वयत्नो दो कोणोंके स्थित] तीन कोण और दो पुरियोंको प्रकाशित करते हैं ॥ १६ ॥ सूर्यदेव उदय होनेके अन्तर मध्याह्नपर्यन्त अपना वदनी हुई किरणोंसे ऋते हैं और फिर धीरे धीरे हुई किरणोंसे अस्त हो जाते हैं * ॥ १७ ॥

सूर्यके उदय और अस्तमें ही पूर्ण तथा परिष्कृत दिशाओंकी व्यवस्था हुई है। वास्तवमें तो, वे जिस प्रकार पूर्वमें प्रकाश करते हैं उसी प्रकार परिष्कृत तथा पार्श्ववर्तिनी [उत्तर और दक्षिण] दिशाओंमें भी करते हैं ॥ १८ ॥ सूर्यदेव देवपर्वत सुमेरुके ऊपर स्थित ब्रह्माजीकी सभाके अतिरिक्त और सभी स्थानोंको प्रकाशित करते हैं; उनकी जो किरणें ब्रह्माजीकी सभामें जाती हैं वे उसके तेजसे निरस्त होकर शरीर लीट आती हैं ॥ १९ ॥ सुमेरुपर्वत समस्त द्वीप और वर्षोंके उत्तरमें हैं इसलिए उत्तरदिशामें (मेरुपर्वतपर) सदा [एक ओर] दिन और [दूसरी ओर] रात रहते हैं ॥ २० ॥ रात्रिके समय सूर्यके अस्त हो जानेपर उक्षका तेज अग्निमें प्रविष्ट हो जाता है; इसलिये उस समय अग्नि दूरहीसे प्रकाशित होने लगता है ॥ २१ ॥ इसी प्रकार, हे द्विज! दिनके समय अग्निका तेज सूर्यमें प्रविष्ट हो जाता है; अतः अग्निके संयोगसे ही सूर्य अत्यन्त प्रखरतासे प्रकाशित होता है ॥ २२ ॥ इस प्रकार सूर्य और अग्निके प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन-रातमें वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं ॥ २३ ॥

मेरुके दक्षिणी और उत्तरी भूम्यर्द्धमें सूर्यके प्रकाशित होने समय अन्धकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जलमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ २४ ॥ दिनके समय रात्रिके प्रवेश करनेसे ही जल कुछ तापवर्ण दिखायी देता

* किरणोंको वृद्धि, इस एवं शीतला-पचना आदि सूर्यके संपर्क और दूर होनेसे मनुष्यके अनुभवके अनुसार कही गयी है।

एषं पुष्करमख्येन वद राति दिवाकरः ।
 त्रिंशद्भागान्तु घेदिन्यास्तादा मौर्तुर्तिकी गतिः ॥ २६
 कुलालचक्रपर्यन्तो भ्रमन्नेष दिवाकरः ।
 करोत्यहस्तक्षा रात्रिं विमुञ्चन्नेदिनीं द्विज ॥ २७
 अथनस्योत्तरस्यादी मकरं याति भास्करः ।
 ततः कुम्भं च मीनं च राशे राश्यन्तरं द्विज ॥ २८
 त्रिष्वेतेष्वथ भुक्तेषु ततो वैबुधतीं गतिम् ।
 प्रयाति सविता कुर्वन्नेहोरात्रं ततः समम् ॥ २९
 ततो रात्रिः क्षयं याति बद्धैस्तेऽनुदिनं दिनम् ॥ ३०
 ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्ठामुपागतः ।
 राशिं कर्कटकं प्राप्य कुरुते दक्षिणायनम् ॥ ३१
 कुलालचक्रपर्यन्तो यथा शीघ्रं प्रवर्तते ।
 दक्षिणप्रक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्रं प्रवर्तते ॥ ३२
 अतिवेगितया कालं वायुवेगवलाच्चरन् ।
 तस्मात्प्रकृष्टां भूमिं तु कालेनाल्पेन गच्छति ॥ ३३
 सूर्यो द्वादशभिः शीघ्र्यामुहूर्तैर्दक्षिणायने ।
 त्रयोदशार्द्धमृक्षणांमहना तु चरति द्विज ।
 मुहूर्तैस्तावदुक्षाणि नक्तमष्टादशैश्चरन् ॥ ३४
 कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्दं प्रसर्पति ।
 तथोदगयने सूर्यः सर्पते मन्दविक्रमः ॥ ३५
 तस्माद्दीर्घेण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति ।
 अष्टादशमुहूर्तं यदुत्तरायणपश्चिमम् ॥ ३६
 अहर्भ्रमति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः ॥ ३७
 त्रयोदशार्द्धमहना तु ऋक्षाणां चरते रविः ।
 मुहूर्तैस्तावदुक्षाणि रात्रौ द्वादशभिश्चरन् ॥ ३८
 अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्रं भ्रमति वै यथा ।
 मृत्पिण्ड इव मध्यस्थो घृतो भ्रमति वै तथा ॥ ३९

हैं, किन्तु सूर्य-अस्त हो जानेपर उसमें दिनका प्रवेश हो जाता है; इसलिये दिनके प्रवेशके कारण ही रात्रिके समय वह शुक्लवर्ण हो जाता है ॥ २५ ॥

इस प्रकार जब सूर्य पुष्करद्वीपके मध्यमें पहुँचकर पृथ्वीका तीसरा भाग पार कर लेता है तो उसकी वह गति एक मुहूर्तकी होती है। [अर्थात् उरने भागके अतिक्रमण करनेमें उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है] ॥ २६ ॥ हे द्विज! कुलाल-चक्र (कुम्हारके चाक) के सिरेपर घूमते हुए जीवके समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथिवीके तीसरे भागका अतिक्रमण करनेपर एक दिन-रात्रि करता है ॥ २७ ॥ हे द्विज! उत्तरायणके अरम्भमें सूर्य सबसे पहले मकरराशिमें जाता है, उसके पश्चात् वह कुम्भ और मीन राशियोंमें एक राशिसे दूसरी राशिमें जाता है ॥ २८ ॥ इन तीनों राशियोंको भ्रमण भुक्तेपर सूर्य रात्रि और दिनको समान करता हुआ वैबुधती गतिको अवलम्बन करता है, [अर्थात् वह भूमध्य-रेखाके बीचमें ही चलता है] ॥ २९ ॥ उसके अनन्तर नित्यप्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर [मेघ तथा वृष राशिका अतिक्रमण कर] मिथुनराशिसे निकलकर उत्तरायणकी अन्तिम सीमापर उपस्थित हो वह कर्कराशिमें पहुँचकर दक्षिणायनका आरम्भ करता है ॥ ३०-३१ ॥ जिस प्रकार कुलाल-चक्रके सिरेपर स्थित जीव अति शीघ्रतासे घूमता है उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायनको पार करनेमें अति शीघ्रतासे चलता है ॥ ३२ ॥ अतः वह अति शीघ्रतापूर्वक वायुवेगसे चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्गको यौद्धे समयमें ही पार कर लेता है ॥ ३३ ॥ हे द्विज! दक्षिणायनमें दिनके समय शीघ्रतापूर्वक चलनेसे उस समयके स्थले तेरह नक्षत्रोंको सूर्य वारह मुहूर्तोंमें पार कर लेता है, किन्तु रात्रिके समय (मन्दगामी होनेसे) उतने ही नक्षत्रोंको अठारह मुहूर्तोंमें पार करता है ॥ ३४ ॥ कुलाल-चक्रके मध्यमें स्थित जीव जिस प्रकार धीरे-धीरे चलता है उसी प्रकार उत्तरायणके समय सूर्य मन्दगतिसे चलता है ॥ ३५ ॥ इसलिये उस समय वह धौड़ी-सो भूमि भी अति दीर्घकालमें पार करता है, अतः उत्तरायणका अन्तिम दिन अत्यन्त मुहूर्तका होता है, उस दिन भी सूर्य अति मन्दगतिसे चलता है और ज्योतिरश्चक्राधिके साढ़े तेरह नक्षत्रोंको एक दिनमें पार करता है किन्तु रात्रिके समय वह उतने ही (साढ़े तेरह) नक्षत्रोंको वारह मुहूर्तोंमें ही पार कर लेता है ॥ ३६-३८ ॥ अतः जिस प्रकार नाभिदेशमें चक्रके मन्द-मन्द घूमनेसे बहोका मृत्-पिण्ड भी मन्दगतिसे घूमता है उसी प्रकार ज्योतिरश्चक्रके मध्यमें स्थित जीव अति मन्द गतिसे घूमता है ॥ ३९ ॥

कुस्तालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रैव घर्तते ।
 ध्रुवस्तथा हि मैत्रेय तत्रैव परिवर्तते ॥ ४०
 उभयोः काष्ठयोर्मध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु ।
 दिवा नक्तं च सूर्यस्य मन्दा शीघ्रा च वै गतिः ॥ ४१
 मन्दाहिन यस्मिन्मयने शीघ्रा नक्तं तदा गतिः ।
 शीघ्रा निशि यद्य चास्य तदा मन्दा दिवा गतिः ॥ ४२
 एकप्रमाणमेवैव मार्गं याति दिवाकरः ।
 अहोरात्रेण यो भुङ्क्ते सप्तस्ता राशयो द्विज ॥ ४३
 षडेव राशीन् ये भुङ्क्ते रात्र्याप्यष्टच षड्दिवा ॥ ४४
 राशिप्रमाणजनिता दीर्घह्रस्वात्मता दिने ।
 तथा निशायां राशीनां प्रमाणैर्लघुदीर्घता ॥ ४५
 दिनादेर्दीर्घह्रस्वत्वं तद्भोगेनैव जायते ।
 उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निशि मन्दा गतिर्दिवा ॥ ४६
 दक्षिणे त्वयने चैव विपरीता विवस्वतः ॥ ४७
 उषा रात्रिः समाख्याता व्युष्टिषाप्युच्यते दिनम् ।
 प्रोच्यते च तथा सन्ध्या उषाव्युष्टयोर्दन्तरम् ॥ ४८
 सन्ध्याकाले च सम्प्राप्ते रात्रौ परमदारुणे ।
 मन्देहा राक्षसा घोराः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् ॥ ४९
 प्रजापतिकृतः शापस्तेषां मैत्रेय रक्षसाम् ।
 अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥ ५०
 ततः सूर्यस्य तैर्युद्धं भवत्यत्यन्तदारुणम् ।
 ततो द्विजोत्तमास्तोयं संक्षिपन्ति महामुने ॥ ५१
 अञ्कारस्रहसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम् ।
 तेन दहन्ति ते पाषा वज्रीभूतेन क्षारिणा ॥ ५२
 अग्निहोत्रे हूयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः ।
 सूर्यो ज्योतिः स्रह्वांशुस्तथा दीप्यति भास्करः ॥ ५३
 ओङ्कारो भगवान्निष्णुस्विधामा वचसां पतिः ।
 तदुच्चारणतस्ते तु विनाशो यान्ति राक्षसाः ॥ ५४
 वैष्णवोऽशः परः सूर्यो ज्योत्स्नज्योतिरसम्प्लवम् ।
 अभिधायक अञ्कारस्तस्य तत्प्रेरकः परः ॥ ५५

हे मैत्रेय! जिस प्रकार कुलाल-चक्रकी नाभि अपने स्थानपर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थानपर ही घूमता रहता है ॥ ४० ॥

इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण हीमांशोंके मध्यमें मण्डलाकार घूमते रहनेसे सूर्यकी गति दिन अथवा रात्रिके सम्य मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है ॥ ४१ ॥ जित अयनमें सूर्यकी गति दिनके समय मन्द होती है उसमें रात्रिके समय शीघ्र होती है तथा जिस समय रात्रि-कालमें शीघ्र होती है उस समय दिनमें मन्द हो जाती है ॥ ४२ ॥ हे द्विज! सूर्यको सदा एक वराहर मार्ग ही पार करना पड़ता है; एक दिन-रात्रिमें यह समस्त राशियोंका भोग कर लेता है ॥ ४३ ॥ सूर्य ऊः राशियोंको रात्रिके समय भोगता है और ऋःको दिनके समय। राशियोंके परिमाणानुसार ही दिनका बढ़ना-घटना होता है तथा रात्रिकी लघुता-दीर्घता भी राशियोंके परिमाणसे ही होती है ॥ ४४-४५ ॥ राशियोंके भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रिकी लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायणमें सूर्यकी गति रात्रिकालमें शीघ्र होती है तथा दिनमें मन्द। दक्षिणायनमें अथकी गति इसके विपरीत होती है ॥ ४६-४७ ॥

रात्रि तथा कहलाती है तथा दिन व्युष्टि (प्रभात) कहा जाता है; इन तथा तथा व्युष्टिके बीचके समयको सन्ध्या कहते हैं * ॥ ४८ ॥ इस आंत दारुण और भयानक सन्ध्याकालके उपस्थित छेन्पर मन्देहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्यको खाना चाहते हैं ॥ ४९ ॥ हे मैत्रेय! उन राक्षसोंको प्रजापतिका यह शप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्यप्रति हो ॥ ५० ॥ अतः सन्ध्याकालमें उनका सूर्यसे अति भीषण युद्ध होता है; हे महामुने! उस समय द्विजोत्तमगण जो ब्रह्मस्वरूप अञ्कार तथा गायत्रीसे अभिमन्त्रित जल छोड़ते हैं, उस वज्रस्वरूप बलसे से दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं ॥ ५१-५२ ॥ अग्निहोत्रमें जो 'सूर्यो ज्योतिः' इत्यादि मन्त्रसे प्रथम आहुति दी जाती है उससे सहस्रांशु दिनरात्र देदीप्यमान हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ अञ्कार विश्व, त्रैजम् और प्राङ्गरूप तीन धामोंसे युक्त भगवान् विष्णु है तथा सम्पूर्ण वाणियों (देवी) का अधिपति है, उसके उच्चारणमात्रसे ही ये राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं ॥ ५४ ॥ सूर्य विष्णुभगवान्का अति श्रेष्ठ अंश और विकाररहित अनाज्योतिःस्वरूप है। अञ्कार उसका वाचक है और वह उसे इन राक्षसोंके वर्धन अत्यन्त प्रेरित करनेवाला है ॥ ५५ ॥

* 'व्युष्टि' अर्थात् 'उषा' दिन और रात्रिके वैदिक नाम हैं; यथा--'रात्रिर्वा उषा अहर्बुध्निः'।

तेन सम्प्रेरितं ज्योतिरोद्गारेणाथ दीप्तिमन् ।
 दहत्याशेषरश्नांसि मन्देद्वाख्यान्वधानि वै ॥ ५६
 तस्मान्नोल्लङ्घनं कार्यं सन्ध्योपासनकर्मणः ।
 स ह्यन्ति सूर्यं सन्ध्याया नोपास्तिं कुरुते तु यः ॥ ५७
 ततः प्रयाति भगवान्बाह्यगौरभिरक्षितः ।
 बालखिल्यादिभिश्चैव जगतः पालनोद्यतः ॥ ५८
 काष्ठा निमेषा दश पञ्च चैव

त्रिंशच्च काष्ठा गणयेत्कलां च ।

त्रिंशत्कलश्चैव भवेन्मुहूर्त-
 स्तैस्त्रिंशत्ता रात्र्यहनी समेते ॥ ५९
 ह्यसञ्जुद्धी त्वहर्भागैर्दिवसानां यथाक्रमम् ।
 सन्ध्या मुहूर्तमात्रा वै ह्यसफूद्भ्योः समा स्मृता ॥ ६०
 रेखाप्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहूर्तगते रबीः ।
 प्रगतः स्मृतस्ततः कालो भगवत्याहः स पञ्चमः ॥ ६१
 तस्मात्प्रातस्तनात्कालात्त्रिमुहूर्तस्तु सङ्गमः ।
 मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तस्तु तस्मात्कालात्तु सङ्गमः ॥ ६२
 तस्मान्मध्याह्निकात्कालादपराह इति स्मृतः ।
 त्रय एव मुहूर्तास्तु कालभागः स्मृतो बुधैः ॥ ६३
 अपराह्णे स्यतीते तु कालः सायाह्न एव च ।
 दशपञ्चमुहूर्ता वै मुहूर्तास्त्रय एव च ॥ ६४
 दशपञ्चमुहूर्ता वै अहर्वैषुवतं स्मृतम् ॥ ६५
 यद्गते ह्यसते चैवाप्ययने दक्षिणोत्तरे ।
 अहस्तु ग्रसते रात्रिं रात्रिर्ग्रसति वासरम् ॥ ६६
 शरद्वसन्तयोर्मध्ये विषुवं तु विभाव्यते ।
 तुलामेषगते भानी समरात्रिदिनं तु तत् ॥ ६७
 कर्कटावस्थिते भानी दक्षिणायनमुच्यते ।
 उत्तरायणमप्युक्तं मकरस्थे दिवाकरे ॥ ६८
 त्रिंशन्मुहूर्तं कथितमहोरात्रं तु यन्मया ।
 तानि पञ्चदश ब्रह्मन् पक्ष इत्यभिधीयते ॥ ६९
 मासः पक्षद्वयेनोक्तो ह्यै मासौ चाकंजावृतुः ।
 ऋतुत्रयं चाप्ययनं द्वेऽयने वर्षसंज्ञिते ॥ ७०

उस ॐकारको प्रेरणासे अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मन्देहा नामक सम्पूर्ण पापी राक्षसोंको दग्ध कर देती है ॥ ५६ ॥ इसलिये सन्ध्योपासन-कर्मका उल्लंघन कभी न करना चाहिये, जो पुरुष सन्ध्योपासन नहीं करता वह भगवान् सूर्यका घात करता है ॥ ५७ ॥ तदनन्तर [उन राक्षसोंका यथ करानेके पश्चात्] भगवान् सूर्य संसारके पालनमें प्रवृत्त हो बालखिल्यादि ब्राह्मणोंसे सुरक्षित होकर गमन करते हैं ॥ ५८ ॥

पन्द्रह निमेषको एक काष्ठा श्रोतो है और तीस काष्ठाकी एक कला गिनी जाती है। तीस कलाओंका एक मुहूर्त होता है और तीस मुहूर्तोंके सम्पूर्ण रात्रि-दिन होते हैं ॥ ५९ ॥ दिनोंका इस अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातःकाल, मध्याह्नकाल आदि दिवसांशोंके ह्रास-वृद्धिके कारण होते हैं; किन्तु दिनोंके घटते-बढ़ते रहनेपर भी सन्ध्या सर्षदा समान भावसे एक मुहूर्तकी ही होती है ॥ ६० ॥ उदयसे लेकर सूर्यको तीन मुहूर्तकी गतिके कालको 'प्रातःकाल' कहते हैं, यह सम्पूर्ण दिनका पाँचवाँ भाग होता है ॥ ६१ ॥ इस प्रातःकालके अनन्तर तीन मुहूर्तका समय 'संगम' कहलाता है तथा संगमकालके पश्चात् तीन मुहूर्तका 'मध्याह्न' होता है ॥ ६२ ॥ मध्याह्नकालसे पीछेका समय 'अपराह्ण' कहलाता है इस काल-भागको भी बुधजन तीन मुहूर्तका ही बताते हैं ॥ ६३ ॥ अपराह्णके बीतनेपर 'सायाह्न' आता है। इस प्रकार [सम्पूर्ण दिनमें] पन्द्रह मुहूर्त और [प्रत्येक दिवसांशमें] तीन मुहूर्त होते हैं ॥ ६४ ॥

वैषुवत दिवस पन्द्रह मुहूर्तका होता है, किन्तु उत्तरायण और दक्षिणायनमें क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायणमें दिन रात्रिका शस करते लगता है और दक्षिणायनमें रात्रि दिनका प्रास करती रहती है ॥ ६५-६६ ॥ शरद् और वसन्त-ऋतुके मध्यमें सूर्यके तुला अथवा मेषराशियों जानेपर 'विषुव' होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं ॥ ६७ ॥ सूर्यके कर्कटार्षिमें उपस्थित होनेपर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकरराशिपर आनेसे उत्तरायण कहलाता है ॥ ६८ ॥

हे ब्रह्मन्! मैंने जो तीस मुहूर्तके एक रात्रि-दिन कहे हैं, ऐसे पन्द्रह रात्रि-दिवसका एक 'पक्ष' कहा जाता है ॥ ६९ ॥ दो पक्षका एक मास होता है, दो सौरमासकी एक ऋतु और तीन ऋतुका एक अयन होता है तथा दो अयन ही [पिलाकर] एक वर्ष कहे जाते हैं ॥ ७० ॥

संवत्सरादयः पञ्च चतुर्मासविकल्पिताः ।
 निश्चयः सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते ॥ ७१ ॥
 संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः ।
 इद्वत्सरस्मृतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः ।
 वत्सरः पञ्चमश्चात्र कालोऽयं युगसंज्ञितः ॥ ७२ ॥
 यः श्वेतस्योत्तरः शैलः शृङ्गवानिति विश्रुतः ।
 श्रीणि तस्य तु शृङ्गाणि वैश्यं शृङ्गवान्स्मृतः ॥ ७३ ॥
 दक्षिणं चोत्तरं चैव मध्यं वैशुवतं तथा ।
 शरद्वसन्तयोर्मध्ये तद्भानुः प्रतिपद्यते ।
 मेषादीं च तुलादीं च मैत्रेय निवृत्तिस्थितः ॥ ७४ ॥
 तदा तुल्यमहोरात्रं करोति तिमिरापहः ।
 दशपञ्चमुहूर्तं वै तदेतद्भयं स्मृतम् ॥ ७५ ॥
 प्रथमे कृत्तिकाभागे यदा भास्वास्तदा शशी ।
 विशाखानां चतुर्थेऽंशे मुने तिष्ठत्यसंशयम् ॥ ७६ ॥
 विशाखानां यदा सूर्यश्चरत्यंशं तृतीयकम् ।
 तदा चन्द्रं किजानीयात्कृत्तिकाशिरसि स्थितम् ॥ ७७ ॥
 तदैव विषुवाख्योऽयं कालः पुण्योऽभिधीयते ।
 तदा दानानि देयानि देयेभ्यः प्रयतात्मभिः ॥ ७८ ॥
 ब्राह्मणेभ्यः पितृभ्यश्च मुखमेतत्तु दानजम् ।
 दत्तदानस्तु विषुवे कृतकृत्योऽभिजायते ॥ ७९ ॥
 अहोरात्राद्धैमासास्तु कलाः कश्चिदक्षणास्तथा ।
 पौर्णमासी तथा ज्ञेया अमावास्या तथैव च ।
 सिनीवाली कुट्टश्चैव राका चानुपतिस्तथा ॥ ८० ॥
 तपस्तपस्वी मधुमाधवी च
 शुक्रः शुचिश्चायनमुत्तरं स्यात् ।
 नभोनभस्वी च इषस्तथोर्ज-
 सहःसहस्याविति दक्षिणं तत् ॥ ८१ ॥

[सौर, सखन, चन्द्र तथा नाश्वन—इन] चार प्रकारके मासोंके अनुसार विविधरूपसे कल्पित संवत्सरादि षोडश प्रकारके वर्ष 'युग' कहलाते हैं यह युग ही [मलमासादि] सब प्रकारके काल निर्णयका कारण कहा जाता है ॥ ७१ ॥ उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर और पाँचवाँ वत्सर है। यह काल 'युग' नामसे विख्यात है ॥ ७२ ॥

एवंतवर्षके उत्तरमें जो शृंगवान् नामसे विख्यात षर्त है उसके तीन भृंग हैं, बिनके कारण यह शृंगवान् कहा जाता है ॥ ७३ ॥ उनमेंसे एक शृंग उत्तरमें, एक दक्षिणमें तथा एक मध्यमें है। मध्यभृंग को 'वैशुवत' है। शरद और भस्वन् ऋतुके मध्यमें सूर्य इस वैशुवतशृंगपर आते हैं; अतः है मैत्रेय! मेष अथवा तुलाराशिके आरम्भमें तिमिरापहारी सूर्यदेव विषुवत्पर स्थित होकर दिन और रात्रिको समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों पन्द्रह-पन्द्रह मुहूर्तके होते हैं ॥ ७४ ७५ ॥ हे मुने! जिस समय सूर्य कृत्तिकाक्षत्रके प्रथम भाग अर्थात् पेशाशिके अन्तमें तथा चन्द्रमा निश्चय ही विशाखाके चतुर्थांश [अर्थात् कृत्तिकाके आरम्भ]-में हों; अथवा जिस समय सूर्य विशाखाके तृतीय भाग अर्थात् तुलाके अन्तिमांशका भोग करते हों और चन्द्रमा कृत्तिकाके प्रथम भाग अर्थात् पेशान्तमें स्थित जान पड़े तभी यह 'विषुव' नामक अति पवित्र काल कहा जाता है; इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगणके उद्देशसे संमार्चित होकर दानादि देने चाहिये। यह समय दानप्रदार्थके लिये मानो देवताओंके खुले हुए मुखके समान है। अतः 'विषुव' कालमें दान करनेवाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ॥ ७६—७९ ॥ यागादिके काल-निर्णयके लिये दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और क्षण आदिके विषय भली प्रकार जनिना चाहिये। राका और अनुपति दो प्रकारकी पूर्णमासी^१ तथा सिनीवाली और कुट्ट दो प्रकारकी अमावास्या^२ होती हैं ॥ ८० ॥ माघ-फाल्गुन, चैत्र-वैशाख तथा ज्येष्ठ-आषाढ़—ये छः मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण-भाद्र, आश्विन-कार्तिक तथा मगहन-पौष—ये ऋतुः दक्षिणायन कहलाते हैं ॥ ८१ ॥

१-जिस पूर्णिपामें पूर्णचन्द्र विरसम्पन्न होता है वह 'राका' कहल्यती है तथा जिसमें एक कलाहीन होता है वह 'अनुपति' कही जाती है।

२-दृष्टवन्ता अमावास्याका नाम 'सिनीवाली' है और नष्टवन्ताका नाम 'कुट्ट' है।

लोकालोकश्च यश्चैतलः प्रागुत्तरे भवतो मया ।
 लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुव्रताः ॥ ८२
 सुधामा शङ्खपाच्चैव कर्दमस्थात्मजो द्विज ।
 हिरण्यरोमा सैवान्यश्चतुर्थः केतुमानपि ॥ ८३
 निर्दन्डा निरभिमाना निस्तन्त्रा निष्परिग्रहाः ।
 लोकपालाः स्थिता ह्येते लोकालोके चतुर्दिशम् ॥ ८४
 उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीध्वाश्च दक्षिणम् ।
 पितृयानः स वै पन्था वैश्वानरपथाद्बहिः ॥ ८५
 तत्रासते महात्मान ऋषयो येऽग्निहोत्रिणः ।
 भूतारम्भकृत् ब्रह्म शंसन्तो ऋत्विगुह्यताः ।
 प्रारभन्ते तु ये लोकालोके पन्थाः स दक्षिणः ॥ ८६
 चलितं ते पुनर्ब्रह्म स्थापयन्ति युगे युगे ।
 सन्सत्या तपसा चैव मर्यादाभिः श्रुतेन च ॥ ८७
 जायमानास्तु पूर्वं च पश्चिमानां गृहेषु वै ।
 पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते निश्चनेष्विह ॥ ८८
 एवमावर्तमानास्ते तिष्ठन्ति नियतव्रताः ।
 सवितुर्दक्षिणं मार्गं श्रिता ह्याचन्द्रतारकम् ॥ ८९
 नागवीक्ष्युत्तरं यच्च सप्तर्षिभ्यश्च दक्षिणम् ।
 उत्तरः सवितुः पन्था देवयानश्च स स्मृतः ॥ ९०
 तत्र ते वशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः ।
 सन्ततिं ते जुगुप्सन्ति तस्मान्मृत्युर्जितश्च तैः ॥ ९१
 अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् ।
 उदकपन्थानमर्षाणाः स्थितान्याभूतसम्प्लवम् ॥ ९२
 तेऽसम्प्रयोगास्त्वोभस्य मैथुनस्य च वर्जनात् ।
 इच्छाद्वेषाप्रवृत्त्या च भूतारम्भविवर्जनात् ॥ ९३
 पुनश्च कामासंयोगाच्छब्दादेर्दोषदर्शनात् ।
 इत्येभिः कारणैः शुद्धास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ॥ ९४
 आभूतसम्प्लवं स्थानममृतत्वं विभाव्यते ।
 त्रैलोक्यस्थितिकालोऽयमपुनर्मरि उच्यते ॥ ९५
 ब्रह्महत्याश्चमेधाभ्यां पापपुण्यकृतो विधिः ।
 आभूतसम्प्लवान्तन्तु फलमुक्तं तयोर्द्विज ॥ ९६

योंने पहली गुमसे जिस लोकालोकपर्वतका वर्णन किया है, उसीपर चार व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं ॥ ८२ ॥ हे द्विज ! सुधामा, कर्दमके पुत्र शंखपाद और हिरण्यरोमा तथा केतुमान्—ये चारों निर्दन्ड, निरभिमान, नियतस्व और निष्परिग्रह लोकपालगण लोकालोक-पर्वतकी चारों दिशाओंमें स्थित हैं ॥ ८३-८४ ॥

जो अगस्त्यके उत्तर तथा अत्रवीथिके दक्षिणमें वैश्वानर(गार्गसे भिन्न [युगवीथि नामक] मार्ग है वही पितृयानपथ है ॥ ८५ ॥ इस पितृयानमार्गमें महात्मा-पुनिवन रहते हैं । जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियोंकी उत्पत्तिके आरम्भक ब्रह्म (वैद)-की स्तुति करते हुए यज्ञनुष्ठानके लिये उद्यत हो कर्मका आरम्भ करते हैं वह (पितृयान) उनका दक्षिणमार्ग है ॥ ८६ ॥ ये युग-युगान्तरमें विच्छिन्न हुए वैदिक धर्मकी सन्तान, तपस्या, वर्णाश्रम-मर्यादा और विविध शास्त्रोंके द्वारा पुनः स्थापना करते हैं ॥ ८७ ॥ पूर्वतन धर्मप्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन सन्तानके यज्ञ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म-प्रचारकगण अपने यही सन्तानरूपसे उत्पन्न हुए अपने पितृगणके कुलोंमें जन्म लेते हैं ॥ ८८ ॥ इस प्रकार, वे व्रतशील पहर्षिगण अन्धत्वा और तारगणकी स्थितिपर्यन्त सूर्यके दक्षिणमार्गमें पुनः-पुनः आवे-जाते रहते हैं ॥ ८९ ॥

नागवीथिके उत्तर और सप्तर्षियोंके दक्षिणमें जो सूर्यका उत्तरीय मार्ग है उसे देवयानमार्ग कहते हैं ॥ ९० ॥ उसमें जो प्रसिद्ध निर्मलस्वभाव और जितेन्द्रिय ब्रह्मचारिगण निवास करते हैं वे सन्तानकी इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्युको जीत लिया है ॥ ९१ ॥ सूर्यके उत्तरमार्गमें अस्सी हजार कश्चिरेता मुनिगण प्रलयकालपर्यन्त निवास करते हैं ॥ ९२ ॥ उन्होंने लोभके असंयोग, मैथुनके त्याग, इच्छा और द्वेषकी अप्रवृत्ति, फर्मातुष्ठानके त्याग, काम-वासनाके असंयोग और शब्दादि विषयोंके दोषदर्शन इत्यादि कारणोंसे सुदृढचित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है ॥ ९३-९४ ॥ भूतोंके प्रलयपर्यन्त स्थिर रहनेको ही अमरता कहते हैं । त्रिलोकीकी स्थितिकालके इस कालकी ही अपुनर्मरि (पुनर्पत्युरहित) कहा जाता है ॥ ९५ ॥ हे द्विज ! ब्रह्महत्या और अश्वमेधयज्ञसे जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलयपर्यन्त कहा गया है ॥ ९६ ॥

यावन्मात्रे प्रदेशे तु मैत्रेयावस्थितो ध्रुवः ।
 क्षयमावाति तावत्तु भूमेराभूतसम्प्लवात् ॥ ९७
 ऊर्ध्वोत्तरमुषिभ्यस्तु ध्रुवो यत्र व्यवस्थितः ।
 एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं ज्योमिनि भासुरम् ॥ ९८
 निर्धूतदोषपङ्कानां यतीनां संयतात्मनाम् ।
 स्थानं तत्परमं विप्र पुण्यपापपरिक्षये ॥ ९९
 अमुपसपुण्योपरमे क्षीणाशेषाप्तिहेतवः ।
 यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १००
 धर्मध्रुवाद्यास्तित्थन्ति यत्र ते लोकास्तक्षिणः ।
 तत्साष्टोत्पन्नयोगेद्वास्तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १०१
 यत्रोतमेतत्प्रोतं च यदभूतं सचराचरम् ।
 भास्वै च विश्वं मैत्रेय तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १०२
 दिवीव अक्षुरात्ततं योगिनां तन्मयात्मनाम् ।
 विवेकज्ञानदुष्टं च तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १०३
 यस्मिन्प्रतिष्ठितो भास्वान्मेढीभूतः स्वयं ध्रुवः ।
 ध्रुवे च सर्वज्योतीषि ज्योतिःश्वभोमुचो द्विज ॥ १०४
 मैत्रेयुः सङ्गता वृष्टिवृष्टेः सृष्टेश्च पोषणम् ।
 आप्यायनं च सर्वेषां देवादीनां महामुने ॥ १०५
 ततश्चाव्याहृतिद्वारा पोषितास्ते ह्रविर्भुजः ।
 वृष्टेः करणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः ॥ १०६
 एवमेतत्पदं विष्णोस्तृतीयममलात्मकम् ।
 आधारभूतं लोकानां त्रयाणां वृष्टिकारणम् ॥ १०७
 ततः प्रभवति ब्रह्मन्सर्वपापहरा सरित् ।
 गङ्गा देवाङ्गनाङ्गानामनुलेपनपिञ्जरा ॥ १०८
 चामप्यदाभ्युजाङ्गुष्ठनखस्त्रैतोर्विनिर्गताम् ।
 विष्णोर्विर्भर्ति यो भक्त्यश्च त्रिस्राहर्निशं ध्रुवः ॥ १०९
 ततः सप्तर्षयो यस्याः प्राणाशामपरायणाः ।
 तिष्ठन्ति यीचिमात्लाभिरुह्यमानजटा जले ॥ ११०
 वायोषैः सन्तैर्यस्याः प्लावितं शशिमण्डलम् ।
 भूयोऽधिकतरां कानिं वह्न्येतदुह क्षये ॥ १११

हे मैत्रेय! जितने प्रदेशमें ध्रुव स्थित है, पृथिवीमें
 लेकर उस प्रदेशपर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रलयकालमें नष्ट
 हो जाता है ॥ ९७ ॥ सप्तर्षियोंमें उत्तर-दिशामें ऊपरकी
 ओर जहाँ ध्रुव स्थित है वह अति तेजोमय स्थान हो आकाशमें
 विष्णुभगवान्का तीसरा दिव्यभाग ॥ ९८ ॥ है विप्र!
 पुण्य-पापके भील हो जानेपर तोय पंकशून्य संयतत्वा
 पुनिजनोंका यही परमस्थान है ॥ ९९ ॥ पाप-पुण्यके
 निवृत्त हो जाने तथा देह-प्राप्तिके सम्पूर्ण कारणोंके नष्ट
 हो जानेपर प्राणिगण जिस स्थानपर जाकर फिर शोक नहीं
 करते वही भगवान् विष्णुका परापद है ॥ १०० ॥ जहाँ
 भगवान्की मनाव देशवर्षतासे प्रायः हुए योगद्वारा
 सनेत्र होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक-साक्षिगण निवास
 करते हैं वहाँ भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ १०१ ॥
 हे मैत्रेय! जिसमें यह भूत, भविष्यत् और वर्तमान
 चरी-पर अगत् ओत प्रांत हो रहा है वही भगवान् विष्णुका
 परमपद है ॥ १०२ ॥ जो तत्त्वोंन योगिनजनोंको आकाश-
 मण्डलमें देदोप्यमान सूर्यके समान सबके प्रकाशकरवत्से
 प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञानसे ही प्रत्यक्ष
 होता है वही भगवान् विष्णुका परमपद है ॥ १०३ ॥
 हे द्विज! उस विष्णुपदमें ही सबके आधारभूत परम
 तेजस्वी ध्रुव स्थित है, तथा ध्रुवकीमें समस्त नक्षत्र, नक्षत्रोंमें
 पेम और मेघोंमें वृष्टि आश्रित है। हे महामुने! उस
 वृष्टिसे ही समस्त सृष्टिका पोषण और सम्पूर्ण देव-
 मनुष्यादि प्राणियोंकी पुष्टि होती है ॥ १०४-१०५ ॥ छन्दस्तर
 गी आदि प्राणियोंसे उत्पन्न दुग्ध और घृत आदिकी
 आहुतियोंसे परितुष्ट अग्निदेव ही प्राणियोंके स्थितिके
 हिन्दे पुनःसृष्टिके कारण होते हैं ॥ १०६ ॥ इस प्रकार
 विष्णुभगवान्का यह निर्मल तृतीय लोक (ध्रुव) ही
 त्रिलोकिकर आधारभूत और वृष्टिका आदिकरण है ॥ १०७ ॥
 हे ब्रह्मन्! इस विष्णुपदसे ही देवांगन्योंके
 अंगशगसे पाण्डुरवर्ण हुई-सो सर्वपापपहारिणी श्रीगणेशी
 उत्पन्न हुई है ॥ १०८ ॥ विष्णुभगवान्के चाम चरण-
 कमलके अँगुलके नखरूप स्रोतसे निकली हुई उन
 गंगाजीको ध्रुव दिन-रात अपने चक्करपर घारण करख
 है ॥ १०९ ॥ छन्दस्तर जिनके जलमें छड़े होकर प्राणायाम-
 परायण सप्तर्षिगण उनकी तरंगधरीसे जटाकल्पके
 कम्पामयान होते हुए, अघमर्षण-मन्त्रका शप करते
 हैं तथा जिनके विस्तृत जलसमूहसे आप्लावित

मेरुपृष्ठे पतत्युर्ध्वनिष्कान्ता अशिमण्डलात् ।
 जगतः पावनाधाय प्रयाति च चतुर्दिशम् ॥ ११२
 सीता चालकनन्दा च चक्षुर्भद्रा च संस्थिता ।
 एकैव या चतुर्भेदा दिग्भेदगतिलक्षणा ॥ ११३
 भेदं आलकनन्दास्यं यस्याः शर्वोऽपि दक्षिणम् ।
 दधार शिरसा प्रीत्या वर्षाणामधिकं शतम् ॥ ११४
 शम्भोर्बटाकलापञ्च विनिष्कान्ताशिक्षर्कराः ।
 स्नात्रयित्वा दिवं त्रिभ्यो यः पापान्सगरत्नमञ्जु ॥ ११५
 स्नातस्य सत्किने यस्याः सद्यः प्राप्तं प्रणश्यति ।
 अपूर्वपुण्यप्राप्तिश्च सद्यो मैत्रेय जायते ॥ ११६
 दत्ताः पितृभ्यो यत्रापस्तनयैः श्रद्धयान्वितैः ।
 समाशते प्रयच्छन्ति तृप्तिं मैत्रेय दुर्लभाम् ॥ ११७
 यस्यामिध्वा महायज्ञैर्यज्ञेशं पुरुषोत्तमम् ।
 द्विज भूपाः परां सिद्धिमवापुर्दिवि चेह च ॥ ११८
 स्नानाद्विधूतपापाश्च यज्जलैर्यतयस्तथा ।
 केशवासक्तमनसः प्राप्ता निर्वाणमुत्तमम् ॥ ११९
 श्रुताऽभिलषिता दुष्टा स्पृष्टा पाताऽपगाहिता ।
 या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने ॥ १२०
 गङ्गा गङ्गैति वैनाम योजनानां शतैस्त्वयि ।
 स्थितैरुच्चारितं हन्ति पापं जन्मत्रयाजितम् ॥ १२१
 यतः सा पावनायालं त्रयाणां जयतामपि ।
 समुद्भूता परं तत्तु तृतीयं भगवत्पदम् ॥ १२२

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽंशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवा अध्याय

ज्योतिश्चक्र और शिशुमारचक्र

श्रीपराशर उवाच

तारामयं भगवतः शिशुमाराकृति प्रभोः ।
 दिवि रूपं ह्येयं तस्य पुच्छे स्थितो ध्रुवः ॥ १
 सैव भयन् भ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान् पल्लव् ।
 भ्रमन्तमनु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत् ॥ २

होकर चन्द्रमण्डल ध्रुवके अनन्तर गुनः पत्रलेसे भी अधिक कान्ति धारण करता है, वे श्रीगंगाभी चन्द्रमण्डलसे निकलकर मेरुपर्वतके ऊपर गिरती हैं और संसारको पवित्र करनेके लिये भारी दिशाओमें जाती हैं ॥ ११०—११२ ॥ चारों दिशाओमें जानेसे वे एक ही सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्र—इन चार भेदोंवाली हो जाती हैं ॥ ११३ ॥ जिसके अलकनन्दा नामक दक्षिणोय भेदको भगवान् शंकरने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सौ वर्षसे भी अधिक अपने मस्तकपर धारण किया था, जिसने श्रीशंकरके जड़कलापसे निकलकर पापी सगस्पृचोंके आस्थिदूर्णको आस्पायित कर उन्हें स्वर्गमें पहुँचा दिया। हे मैत्रेय! जिसके जलमें स्नान करनेसे शौच ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्यकी प्राप्ति होती है ॥ ११४—११६ ॥ जिसके प्रवाहमें पुत्रोंद्वारा पितृयोंके लिये श्रद्धापूर्वक किया हुआ एक दिनका भी तर्पण उन्हें सौ वर्षतक दुर्लभ इति देता है ॥ ११७ ॥ हे द्विज! जिसके तटपर राजाओंने महायज्ञोंसे यज्ञेश्वर भगवान् पुरुषोत्तमका मजन करके हल्लोक और स्वर्गलोकमें परमसिद्धि लाभ की है ॥ ११८ ॥ जिसके जलमें स्नान करनेसे निष्पाप हुए पतिजनोंने भगवान् केवलमें पितृ लागकर अत्युत्तम निर्वाणपद प्राप्त किया है ॥ ११९ ॥ जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करनेसे ही नित्यप्रति प्रार्थियोंको पवित्र करती रहती है ॥ १२० ॥ तथा जिसका 'गंगा, गंगा' ऐसा नाम सौ योजनकी दूरीसे भी उच्चारण किये जानेपर [जीवके] तीन जन्मोंके संचित पापोंके नष्ट कर देता है ॥ १२१ ॥ त्रिलोकीको पवित्र करनेमें समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान्का तीसरा परमपद है ॥ १२२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—आकाशमें भगवान् विष्णुका जो शिशुमार (गिरगिट अथवा गोधा)—के समान आकार—वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ-भागमें ध्रुव अवस्थित है ॥ १ ॥ यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहोंको घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुवके साथ नक्षत्रगण भी चक्रके समान घूमते रहते हैं ॥ २ ॥

सूर्याद्यन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहेः सह ।
 जालानीकमयैर्बन्धैर्ध्रुवे बद्धानि तानि वै ॥ ३
 शिशुमारकृति प्रोक्तं यद्रूपं ज्योतिषां दिशि ।
 नारायणोऽयं धाम्नां तस्याधारः स्वयं हृदि ॥ ४
 उत्तानपादपुत्रस्तु तमाराध्य जगत्पतिम् ।
 स ताराशिशुमारस्य ध्रुवः पुच्छे व्यवस्थितः ॥ ५
 आधारः शिशुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनादनः ।
 ध्रुवस्य शिशुमारस्तु ध्रुवे भानुर्व्यवस्थितः ॥ ६
 तदाधारं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम् ॥ ७
 येन विप्र विधानेन तन्ममैकमनाः शृणु ।
 विवस्वानष्टभिर्मासैरादाद्यापो रसात्मिकाः ।
 वर्षत्सम्भु ततश्चान्नमन्नादप्यखिलं जगत् ॥ ८
 विवस्वानंशुभिस्तीक्ष्णैरादाय जगतो जलम् ।
 सोमं पुष्पात्सुधेन्दुश्च वायुनाडोमयैर्दिवि ।
 मालैर्विक्षिपतेऽश्रेषु धूमगन्धिनिलमूर्तिषु ॥ ९
 न क्षयन्ति यत्तस्तेभ्यो जलान्यधाणि तान्यतः ।
 अभस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः ।
 रस्कारं कालजनितं मैत्रेयासाद्य निर्मलाः ॥ १०
 सरित्समुद्रभीमास्तु तश्चापः प्राणिसम्भवाः ।
 चतुष्कारा भगवानादत्ते सञ्चिता मुने ॥ ११
 आकाशगङ्गासलिलं तथादाय गभस्तिमान् ।
 अनभगतमैषोर्व्यां सद्यः क्षिपति रश्मिभिः ॥ १२
 तस्य संस्पर्शनिर्धूतपापपङ्को द्विजोत्तम ।
 न याति परकं मर्त्यो दिव्यं स्नानं हि सत्समृतम् ॥ १३
 दृष्टसूर्यं हि चङ्गारि पतत्यभ्रैर्विना दिशः ।
 आकाशगङ्गासलिलं तद्गोभिः क्षिप्यते रवेः ॥ १४
 कृत्तिकादिषु कक्षेषु विषमेषु च यदिवः ।
 दृष्टार्कपतितं ज्ञेयं तद्गाङ्गं दिग्गजोद्भितम् ॥ १५
 युग्मक्षेत्रेषु च यत्सोयं पतत्यर्कोद्भितं दिशः ।
 तत्सूर्यरश्मिभिः सर्वं समादाय निरस्यते ॥ १६
 उभयं पुण्यमत्यर्थं नृणां पापधवापहम् ।
 आकाशगङ्गासलिलं दिव्यं स्नानं महामुने ॥ १७

सूर्य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहण
 वायु-गण्डलमयी होरीसे ध्रुवके साथ बंधे हुए हैं ॥ ३ ॥

ध्रुवे गुप्तसे आकाशमें प्रहणके जिस शिशुमार-
 स्वरूपका वर्णन किया है, अनन्त तेजके आश्रय स्थल
 भगवान् नारायण ही उसके हृदयस्थित आधार हैं ॥ ४ ॥

उत्तानपादके पुत्र ध्रुवनं टा जगत्पतिकी आराधना करके
 तारापथ शिशुमारके पुच्छस्थानमें स्थिति प्राप्त की है ॥ ५ ॥

शिशुमारके आधार मर्त्येश्वर श्रीनारायण हैं। शिशुमार ध्रुवका
 आश्रय है और ध्रुवमें सूर्यदेव स्थित हैं तथा हे विप्र!

जिस प्रकार देव, असुर और पशुप्यादिके सहित यह
 सम्पूर्ण जगत् सूर्यके आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुने।

सूर्य अतः गास्तक अपनी किरणोंसे छः रशमोंसे मुक्त जलके
 ग्रहण करके उसे चार महानामों बरसा देता है उससे

अन्नकी उत्पत्ति होती है और अन्नहोसे सम्पूर्ण आर्ष
 पोषित होता है ॥ ६-८ ॥ सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियोंसे

संसारका जल खींचकर उससे चन्द्रमाका पोषण करता
 है और चन्द्रमा आकाशमें वायुपथी नाडियोंके मार्गसे

उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघोंमें पहुँचा देता है ॥ ९ ॥
 यह चन्द्रमाद्वारा प्राप्त जल मेघोंमें तुरन्त ही अष्ट नहीं

होता इसलिये 'अथ' कहलता है। हे मेघेय! कालजनित
 संस्कारके प्राप्त होनेपर यह अष्टरथ जल निर्मल होकर

वायुकी उेरणासे पृथिवीपर बरसने लगता है ॥ १० ॥
 हे मुने! अगत्यात् सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथिवी तथा

प्राणियोंमें उत्पन्न—इन चार प्रकारके जालीय आकर्षण कले
 हैं ॥ ११ ॥ तथा आकाशगंगाके जलको ग्रहण करके

वे उसे विना मेघादिके अपनी किरणोंसे ही तुरन्त पृथिवीपर
 बरसा देते हैं ॥ १२ ॥ हे द्विजोत्तम! उसके स्पर्शान्वसे

पाप-पंकके धूल जानेसे मनुष्य रक्तों नहीं जाता। अतः
 वह दिव्य-स्नान कहलाता है ॥ १३ ॥ सूर्यके दिखलायी

देते हुए, विना मेघोंके ही जो जल बरसता है वह सूर्यको
 किरणोंद्वारा बरसाया हुआ आकाशगंगाका ही जल होता

है ॥ १४ ॥ कृत्तिका आदि विषम (अयुग्म) नक्षत्रोंमें जो
 जल सूर्यके प्रकाशित रहते हुए बरसता है उसे दिग्गजोंद्वारा

बरसाया हुआ आकाशगंगाका जल समझना चाहिये ॥ १५ ॥
 [रोहिणी और आर्द्रा आदि] सम संख्यावाले नक्षत्रोंमें

जिस जलकी सूर्य बरसता है वह सूर्यरश्मियोंद्वारा
 [आकाशगंगासे] ग्रहण करके ही बरसाया जाता है ॥ १६ ॥

हे महामुने! आकाशगंगाके ये [सम तथा विषम नक्षत्रोंमें
 बरसनेवाले] दोनों प्रकारके जलमय दिव्य स्नान अत्यन्त
 पवित्र और मनुष्योंके पाप-धनको दूर करनेवाले हैं ॥ १७ ॥

यत्तु मेधीः समुत्सृष्टं वारि तत्प्राणिनां द्विज ।
 पुष्पात्योषधयः सर्वा जीवनायामृतं हि तत् ॥ १८
 तेन वृद्धिं परां नीतः सकलशरीषधीगणः ।
 साधकः फलपाकान्तः प्रजानां द्विज जायते ॥ १९
 तेन यज्ञान्यधाप्रोक्तान्मानवाः शास्वचक्षुषः ।
 कुर्वन्त्यहरहस्तैश्च देवानाप्याययन्ति ते ॥ २०
 एवं यज्ञाश्च वेदाश्च यणाश्च वृष्टिपूर्वकाः ।
 सर्वे देवनिक्तायाश्च सर्वे भूतगणाश्च ये ॥ २१
 वृष्ट्या भुतमिदं सर्वमन्नं निष्पाद्यते यया ।
 सापि निष्पाद्यते वृष्टिः सवित्रा मुनिसत्तम ॥ २२
 आधारभूतः सवितुर्ध्रुवो मुनिवरोत्तम ।
 ध्रुवस्य शिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणात्मकः ॥ २३
 हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः ।
 विभर्ता सर्वभूतानामादिभूतः सनातनः ॥ २४

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽंशे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

दसवाँ अध्याय

द्वादश सूर्योके नाम एवं अधिकारियोंका वर्णन

श्रीपरमेश्वर उवाच

साशीतिमण्डलशतं काष्ठयोरनारं द्वयोः ।
 आरोहणायरोहभ्यां भानोरब्देन चा गतिः ॥ १
 स रथोऽधिष्ठितो देवैरादित्यैर्ऋषिभिस्तथा ।
 गन्धर्वैरप्सररोभिश्च ग्रामणीसर्पराक्षसैः ॥ २
 धाता क्रतुस्थला चैव पुलस्त्यो वासुकिस्तथा ।
 रथभृद्ग्रामणीर्हेतिस्तुम्बुरुश्चैव सप्तमः ॥ ३
 एते खसन्ति वै चैत्रे मधुमासे सदैव हि ।
 मैत्रेय स्यन्दने भानोः सप्त मासाधिकारिणः ॥ ४
 अर्यमा पुलहश्चैव रथीजाः पुञ्जिकस्थला ।
 प्रहेतिः कच्छवीरश्च नारदश्च रथे रवेः ॥ ५
 माधवे निवसन्त्येते शुचिसंज्ञे निबोध मे ॥ ६

हे द्विज! जो जल मेषोंद्वारा बरसाया जाता है वह प्राणियोंके जीवनके लिये अमृतरूप होता है और ओषधियोंका पोषण करता है ॥ १८ ॥ हे विश्व! उस वृष्टिके जलसे परम वृद्धिको प्राप्त होकर समस्त ओषधियों और फल पकनेपर सूख जानेवाले [गोधूम, मध आदि अन्न] प्रभावर्गके [शरीरकी उत्पत्ति एवं पोषण आदिके] साधक होते हैं ॥ १९ ॥ उनके द्वारा शास्त्रविद् मनीषिगण नित्यप्रति यथाविधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओंको सन्तुष्ट करते हैं ॥ २० ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मणादि वर्ण, समस्त देवसमूह और प्रार्थनगण वृष्टिके ही आश्रित हैं ॥ २१ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! अन्नको उत्पन्न करनेवाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टिकी उत्पत्ति सूर्यसे होती है ॥ २२ ॥

हे मुनिवरोत्तम! सूर्यका आधार ध्रुव है, ध्रुवका शिशुमार है तथा शिशुमारके आश्रय श्रीनारायण हैं ॥ २३ ॥ उस शिशुमारके हृदयमें श्रीनारायण स्थित हैं जो समस्त प्राणियोंके पालनकर्ता तथा आदिभूत सनातन पुरुष हैं ॥ २४ ॥

श्रीपरमेश्वरजी बोले—आरोह और अवरोहके द्वारा सूर्यकी एक वर्षमें जितनी गति है उस सम्पूर्ण मार्गकी दोनों काष्ठाओंका अन्तर एक सी अस्सी मण्डल है ॥ १ ॥ सूर्यका रथ [प्रति पास] भिन्न-भिन्न आदित्य, ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षसगणोंसे अधिष्ठित होता है ॥ २ ॥ हे मैत्रेय! मधुमास चैत्रमें सूर्यके रथमें सर्वदा शाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकि सर्प, रथभृत् यक्ष, हेति राक्षस और तुम्बुरु गन्धर्व—ये सात मासाधिकारी रहते हैं ॥ ३-४ ॥ तथा अर्यमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथीजा यक्ष, पुञ्जिकस्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गन्धर्व—ये चैत्र-मासमें सूर्यके रथपर निवास करते हैं। हे मैत्रेय! अब ज्यैष्ठ-मासमें [निवास करनेवालोंके नाम] सुनो ॥ ५-६ ॥

मिश्रोऽग्निस्तक्षको रक्षः पौरुषेयोऽथ मेनका ।
 ह्यहा रथस्वनश्चैव मैत्रेयैते वसन्ति वै ॥ १७
 वरुणो वसिष्ठो नागश्च सहजन्वा हूहू रथः ।
 रथचित्रस्तथा शुक्रे वसन्त्याषाढसंज्ञके ॥ १८
 इन्द्रो विश्वावसुः श्रोत एलापुत्रस्तथाङ्गिराः ।
 प्रम्लोचा च नभस्येते सर्पिश्चाकै वसन्ति वै ॥ १९
 विवस्वानुप्रसेनश्च भृगुरापुरणस्तथा ।
 अनुम्लोचा शङ्खपालो घ्याद्यो भाद्रपदे तथा ॥ २०
 पूषा घसुरुचिर्वातो गीतमोऽथ धनञ्जयः ।
 सुषेणोऽन्यो घृताची च वसन्त्याश्वयुजे रवी ॥ २१
 विश्वावसुर्भरद्वाजः पर्जन्यैरावतौ तथा ।
 विश्वाची सेनजिज्वापः कार्तिके च वसन्ति वै ॥ २२
 अंशकाश्यपताक्ष्यास्तु महापद्मस्तथोर्वशी ।
 चित्रसेनस्तथा विद्युन्मार्गशीर्षेऽधिकारिणः ॥ २३
 क्रतुर्भगस्तथोर्णायुः स्फूर्जः कर्कोटकस्तथा ।
 अरिष्टनेमिश्चैवान्या पूर्वचित्तिर्वराप्सराः ॥ २४
 पीषमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले ।
 लोकप्रकाशनार्थाय विप्रसर्वाधिकारिणः ॥ २५
 त्वष्टाथ जमदग्निश्च कम्बलोऽथ तिलोत्तमा ।
 ब्रह्मोपेतोऽथ ऋतजित् धृतराष्ट्रोऽथ सप्तमः ॥ २६
 पाषमासे वसन्त्येते सप्त मैत्रेय भास्करे ।
 श्रूयतां चापरे सूर्ये फाल्गुने निवसन्ति ये ॥ २७
 विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित् ।
 विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञोपेतो महामुने ॥ २८
 मासेष्वेतेषु मैत्रेय वसन्त्येते तु सप्तकाः ।
 सवितुर्पण्डले ब्रह्मन्विष्णुशक्त्युपबृंहिताः ॥ २९
 स्तुवन्ति मुनयः सूर्यं गन्धर्वगीयते पुरः ।
 नृत्यन्त्यप्सरसो यान्ति सूर्यस्यानु निशाचराः ॥ ३०
 वहन्ति पन्नगा दक्षैः क्रियतेऽभीषुसङ्ग्रहः ॥ ३१

उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक
 सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व और
 रथस्वन नामक यक्ष—ये इस रथमें वास करते हैं ॥ १७ ॥
 तथा आषाढ़-मासमें वरुण नामक आदित्य, वसिष्ठ ऋषि,
 नाग सर्प, सहजन्वा अप्सरा, हूहू गन्धर्व, रथ राक्षस और
 रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं ॥ १८ ॥

आद्यण मासमें इन्द्र नामक आदित्य, विश्वावसु गन्धर्व,
 श्रोत यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रम्लोचो अप्सरा
 और सर्पि नामक राक्षस सूर्यके रथमें वसते हैं ॥ १९ ॥ तथा
 भाद्रपदमें विवस्वान् नामक आदित्य, उपसेन गन्धर्व, भृगु
 ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुम्लोचः अप्सरा, शंखपाल सर्प
 और व्याघ्र नामक राक्षसका उसमें निवास होता है ॥ २० ॥

आश्विन-मासमें पूषा नामक आदित्य, घसुरुचि गन्धर्व,
 यात राक्षस, गीतम ऋषि, धनञ्जय सर्प, सुषेण गन्धर्व और
 भृताची नामकी अप्सराका उसमें वास होता है ॥ २१ ॥
 कार्तिक-मासमें वसनें विश्वावसु नामक गन्धर्व, भरद्वाज
 ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा,
 सेनजित् यक्ष तथा अण्य नामक राक्षस रहते हैं ॥ २२ ॥

मार्गशीर्षके अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप
 ऋषि, ताक्ष्य यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन
 गन्धर्व और विद्युत् नामक राक्षस हैं ॥ २३ ॥ हे विप्रक!
 पीष-मासमें क्रतु ऋषि, भग आदित्य, उर्णायु गन्धर्व,
 स्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक सर्प, अरिष्टनेमि यक्ष तथा पूर्वचित्ति
 अप्सरा जगत्के प्रकाशित करनेके लिये सूर्यमण्डलमें
 रहते हैं ॥ २४-२५ ॥

हे मैत्रेय! त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि
 ऋषि, कम्बल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस,
 ऋतजित् यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धर्व—ये सात मास-मासमें
 भास्करमण्डलमें रहते हैं। अब, जो फाल्गुन-मासमें सूर्यके
 रथमें रहते हैं उनके नाम सुनो ॥ २६-२७ ॥ हे महामुने! वे
 विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रम्भा अप्सरा, सूर्यवर्च
 गन्धर्व, सत्यजित् यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत
 नामक राक्षस हैं ॥ २८ ॥

हे ब्रह्मन्! इस प्रकार विष्णुभगवान्की शक्तिसे तेजोमय
 हुए ये सात-सात गण एक-एक पासतक सूर्यमण्डलमें रहते
 हैं ॥ २९ ॥ मुनिगण सूर्यकी स्तुति करते हैं, गन्धर्व सम्मुख रहकर
 उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, राक्षस
 रथके पीछे चलते हैं, सर्प बहन करनेके अनुकूल रथको
 सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथकी जागदोर सींभालते हैं

यात्प्रखिल्यास्तथैवैनं परिवार्य समासते ॥ २२

सोऽयं सप्तगणः सूर्यमण्डले मुनिसत्तम ।

हिमोष्णवारिवृष्टीनां हेतुः स्वसमयं गतः ॥ २३

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽंशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

ग्यारहवाँ अध्याय

सूर्यशक्ति एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन

श्रीमंत्रेय उवाच

यदेतद्भगवानाह गणः सप्तविधो रवेः ।

मण्डले हिमतापादेः कारणो तन्मया श्रुतम् ॥ १

व्यापारश्चापि कश्चितो गन्धर्वोऽगरक्षसाम् ।

ऋषीणां यात्प्रखिल्यानां तत्रैवाप्सरसां गुरो ॥ २

यक्षाणां च रथे भानोर्विष्णुशक्तिधृतात्मनाम् ।

किं चादित्यस्य यत्कर्म तन्नामोक्तं त्वया मुने ॥ ३

यदि सप्तगणो वारि हिममुष्णं च वर्षति ।

तत्किमत्र रवेर्येन वृष्टिः सूर्यादितीर्थते ॥ ४

दिसस्वानुदितो मध्ये यात्प्रस्तमिति किं जनः ।

अवीत्येतत्समं कर्म यदि सप्तगणस्य तत् ॥ ५

श्रीपराशर उवाच

मंत्रेय श्रुत्वात्मेतद्वाद्भस्वान्परिपृच्छति ।

यथा सप्तगणेऽप्येकः प्राधान्येनाधिको रविः ॥ ६

सर्वशक्तिः परा विष्णोर्ऋषयजुः सामसंज्ञिता ।

सैषा त्रयी तपत्पद्मे जगतश्च हिनस्ति या ॥ ७

सैव विष्णुः स्थितः स्थित्वा जगतः पालनेषतः ।

ऋषयजुः सामभूतोऽन्तः सवितुर्द्विज तिष्ठति ॥ ८

मासि मासि रवियौ यस्तत्र तत्र हि सा परा ।

ब्रवीमयी विष्णुशक्तिरसत्स्थानं करोति सै ॥ ९

ऋचः स्तुवन्ति पूर्वाह्ने मध्याह्नेऽथ यजूधि वै ।

वृहद्रथन्तरादीनि सामान्यह्नः क्षये रविम् ॥ १०

तथा नित्यसेलक यात्प्रखिल्यादि इसे सब ओरसे घेरे रहते हैं ॥ २०—२२ ॥ हे मुनिसत्तम! सूर्यमण्डलके ये सात-सात गण ही अपने-अपने समयपर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदिके कारण होते हैं ॥ २३ ॥

श्रीमंत्रेयजी बोले—भगवन्! आपने जो कहा कि सूर्यमण्डलमें स्थित सातों गण शीत-ग्रीष्म आदिके कारण होते हैं, शो मैंने सुना ॥ १ ॥ हे गुरो! आपने सूर्यके रथमें स्थित और विष्णु-शक्तिसे प्रभावित गन्धर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, यात्प्रखिल्यादि, अप्सरा तथा यक्षोंके तो पृथक्-पृथक् व्यापार बतलाये, किंतु हे मुने! यह नहीं बतलाया कि सूर्यका कार्य क्या है? ॥ २-३ ॥ यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षाके करनेवाले हैं तो फिर सूर्यका क्या प्रयोजन है? और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्यसे होती है? ॥ ४ ॥ यदि सातों गणोंका यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो 'सूर्य उदय हुआ, अब मध्यम है, अब अस्त होता है' ऐसा लोग क्यों कहते हैं? ॥ ५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मंत्रेय। जो कुछ आपने पूछा है उसका उत्तर सुने, सूर्य सात गणोंमेंसे ही एक है तथापि उनमें प्रधान होनेसे उनकी विशेषता है ॥ ६ ॥ भगवान् विष्णुकी जो सर्वशक्तिमयी ऋच, यजुः, साम नामकी परा शक्ति है वह वेदत्रयी ही सूर्यको ताप प्रदान करती है और [उपासना किये जानेपर] संसारके समस्त पापोंको नष्ट कर देती है ॥ ७ ॥ हे द्विज। जगत्की स्थिति और पालनके लिये वे ऋच, यजुः और सामरूप विष्णु सूर्यके भीतर निवास करती हैं ॥ ८ ॥ प्रत्येक मासमें जो-जो सूर्य होता है उसी-उसीमें वह वेदत्रयीरूपणी विष्णुकी परा शक्ति निवास करती है ॥ ९ ॥ पूर्वोत्तरमें ऋच, मध्याह्नमें वृहद्रथन्तरादि यजुः तथा सायंकालमें सामश्रुतियों सूर्यकी स्तुति करती हैं * ॥ १० ॥

* इस विषयमें यह ज्ञाति भी है—

'ऋचः पूर्वाह्ने दिशि देव ह्यसौ कुरुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अह्नः सामवेदेऽह्नमये महीत्यो ।'

अङ्गमेधा त्रयी विष्णोर्ऋग्यजुःसामसंज्ञिता ।
 विष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति सा ॥ ११
 न केवलं रवेः शक्तिर्वैष्णवी सा त्रयीमयी ।
 ब्रह्माथ पुरुषो रुद्रस्त्रयमेतत्त्रयीमयम् ॥ १२
 सर्गादीं ऋद्भ्यो ब्रह्म स्थितौ विष्णुर्यजुर्मयः ।
 रुद्रः सामभवोऽन्ताय तस्यात्तस्याशुचिर्ध्वनिः ॥ १३
 एवं सा सान्त्विकी शक्तिर्वैष्णवी या त्रयीमयी ।
 आत्मसप्तगणस्थं तं भास्वन्तमधितिष्ठति ॥ १४
 तथा चाधिष्ठतः सोऽपि जान्वलीति स्वर्श्रीभिः ।
 तमः समस्तजगतां नाशं नयति चाखिलम् ॥ १५
 स्तुवन्ति घ्नन् मुनयो गन्धर्वैर्गोघते पुरः ।
 नृपन्व्योऽप्सरसो यान्ति तस्य जानु निशाचराः ॥ १६
 वहन्ति पन्नगा यक्षैः क्रियन्तेऽभीषुसङ्ग्रहः ।
 बालखिल्यास्तथैवैनं परिचार्य समासते ॥ १७
 नोदेता नास्तामेता च कदाचिच्छक्तिरूपधृक् ।
 विष्णुर्विष्णोः पृथक् तस्य गणसप्तविधोऽप्ययम् ॥ १८
 स्तम्भरश्चदर्पणस्येव योऽयमासन्तां गतः ।
 छायादर्शनसंयोगं स तं प्राप्नोत्वयात्मनः ॥ १९
 एवं सा वैष्णवी शक्तिर्नैवापैति ततो द्विज ।
 मासानुमासं भास्वन्तमध्यास्ते तत्र संस्थितम् ॥ २०
 पितृदेवमनुष्यादीन्स सदाप्याययन्प्रभुः ।
 परिवर्तत्यहोरात्रकारणं सविता द्विज ॥ २१
 सूर्यरश्मिः सुधुम्णा यस्तपितस्तेन चन्द्रमाः ।
 कृष्णपक्षेऽमरैः शश्वत्पीयते धी सुधापयः ॥ २२
 पीतं तं द्विकलं सोमं कृष्णपक्षक्षये द्विज ।
 पिबन्ति पितरस्तेषां भास्करानर्पणं तथा ॥ २३
 आदत्ते रश्मिभिर्यन्तु क्षितिसंस्थं रसं रविः ।
 तमुत्सृजति भूतानां पुष्ट्यर्थं सस्यवृद्धये ॥ २४

यह ऋक् यजुः सामस्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान् विष्णु
 ही अंग है। यह विष्णु-शक्ति सर्वदा आदित्यमें रहती है ॥ ११ ॥
 यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्यलोकी अधिष्ठात्री
 हो, जो नहीं; बलिक ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयीमयी ही
 हैं ॥ १२ ॥ सर्गके आदिमें ब्रह्मा ऋद्भ्यमें हैं, उसको स्थितिके
 समय विष्णु यजुर्मय हैं तथा अन्तकालमें रुद्र साममय हैं,
 इक्ष्वाक्ये सामान्तकी ध्वनि अपांजन" मानी गयी है ॥ १३ ॥
 इस प्रकार यह त्रयीमयी सान्त्विकी वैष्णवी शक्ति अपने
 सप्तगणोंमें स्थित आदित्यमें ही [अतिशयरूपसे] अवस्थित
 होती है ॥ १४ ॥ उससे अधिष्ठित सूर्यदेव भी अर्पणों
 प्रथम रश्मियोंसे अत्यन्त प्रबलित होकर संतारके सम्पूर्ण
 अन्धकारको नष्ट कर देता है ॥ १५ ॥

उन सूर्यदेवकी मुनिगण स्तुति करते हैं, गन्धर्वगण
 उनके सम्मुख यशोमान करते हैं। अप्सराएँ नृत्य काती
 हुई चलती हैं, राक्षस रथके पीछे रहते हैं, सर्पगण रथका
 साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ोंकी बागडोर संभालते
 हैं तथा बालखिल्यादि रथको सज ओरसे घेरे रहते
 हैं ॥ १६-१७ ॥ त्रयीवृत्तिकरूप भगवान् विष्णुका न कभी
 उदय होता है और न अस्त [अर्थात् वे ऋषीरूपसे सदा
 विद्यमान रहते हैं]; वे सात प्रकारके गण तो उनसे पृथक्
 हैं ॥ १८ ॥ स्तम्भमें लगे हुए दर्पणके निकट जो कोई जाता
 है उसीको अपनी छाया दिखायी देने लगती है ॥ १९ ॥ हे
 द्विज ! इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्यके रश्मि कभी
 चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मासमें पृथक्-पृथक्
 सूर्यके [परिवर्तित होकर] उसमें स्थित होनेपर यह
 उसको अभिष्ठात्री होती है ॥ २० ॥

हे द्विज ! दिन और रात्रिके कारणस्वरूप भगवान् सूर्य
 पितृगण, देवगण और मनुष्यादिको सदा रूप करके
 घूमते रहते हैं ॥ २१ ॥ सूर्यको जो सुधुम्ना नामकी किरण
 है उससे शुक्लपक्षमें चन्द्रमाका मोषण होता है और फिर
 कृष्णपक्षमें उस अमृतमय चन्द्रमाकी एक-एक कलाका
 देवगण निरन्तर पान करते हैं ॥ २२ ॥ हे द्विज ! कृष्णपक्षके
 क्षय होनेपर [चतुर्दशीके अन्तर] दो कलायुक्त चन्द्रमाका
 पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्यद्वारा पितृगणका
 शर्पण होता है ॥ २३ ॥

सूर्य अपनी किरणोंसे पृथिवीसे जितना जल
 धोती है उस सबको प्राणियोंको गुष्टि और अन्नकी
 वृद्धिके लिये बरसा देता है ॥ २४ ॥

* रुद्रके मातृकरत होनेसे उनका नाम अपविध भाना गण है अथः सामान्यके लयके (रुद्रमें) ऋक् तथा यजुर्वेदके अन्धकारक
 निमेध क्रिय गयी है। इसमें गोघमके स्तुति प्रकण है—'न रम्भपन्नवृषपुत्री' अर्थात् सामान्यके समय ऋक्-यजुःका अध्यापन न करे।

तेन प्रीणात्प्रशेषाणि भूतानि भगवान् रविः ।
पितृदेवमनुष्यादीनेषुमाध्यायवत्यसौ ॥ २५ ॥
पक्षतृप्तिं तु देवानां पितॄणां चैव मासिकीम् ।
शश्वत्पितं च मर्त्यानां मैत्रेयार्कः प्रयच्छति ॥ २६ ॥

उससे भगवान् सूर्य समस्त प्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभीका पोषण करते हैं ॥ २५ ॥ हे मैत्रेय ! इस रीतिसे सूर्यदेव देवताओंको पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा मनुष्योंकी नित्यप्रति तृप्ति करते रहते हैं ॥ २६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयोऽंशे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

बारहवाँ अध्याय

नवग्रहोंका वर्णन तथा लोकान्तरसम्बन्धी व्याख्यानका उपसंहार

श्रीपराशर उवाच

रथस्त्रिचक्रः सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः ।
वामदक्षिणतो युक्ता दश तेन चरन्त्यसौ ॥ १ ॥
वीथ्याश्रयाणि ऋक्षाणि ध्रुवाधारेण वेगिना ।
ह्रासवृद्धिक्रमस्तस्य रश्मीनां सवितुर्यथा ॥ २ ॥
अर्कस्थेव हि तस्याश्वाः सकृद्युक्तं गच्छन्ति ते ।
कल्पमेकं मुनिश्रेष्ठ चारिगर्भसमुद्भवाः ॥ ३ ॥
श्रीणां पीतं सुरैः सोममाप्याययति दीप्तिमान् ।
मैत्रेयैककलं सन्तं रश्मिर्नैकेन भास्करः ॥ ४ ॥
क्रमेण येन पीतोऽसौ देवैस्तेन निशाकरम् ।
आप्याययत्यनुदिनं भास्करो चारितस्करः ॥ ५ ॥
सम्भृतं चार्धमासेन तत्सोमस्थं सुधामृतम् ।
पिबन्ति देवा मैत्रेय सुधाहारं यतोऽमराः ॥ ६ ॥
त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि त्रयस्त्रिंशच्छतानि च ।
त्रयस्त्रिंशत्तथा देवाः पिबन्ति क्षणदाकरम् ॥ ७ ॥
कलाह्रयावशिष्टस्तु प्रशिष्टः सूर्यमण्डलम् ।
अपाख्यरश्मी घसति अमावास्या ततः स्पृता ॥ ८ ॥
अप्सु तस्मिन्नहोरात्रे पूर्वं विशति चन्द्रमाः ।
ततो वीरुस्तु वसति प्रयात्यर्कं ततः क्रमात् ॥ ९ ॥
छिनत्ति वीरुधो यस्तु वीरुस्तंस्थे निशाकरे ।
पत्रं वा पातयत्यैर्कं ब्रह्महत्यां स विन्दति ॥ १० ॥
सोमं पञ्चदशे भगे किञ्चिच्छिष्टे कलात्सके ।
अपराह्णे पितृगणा जघन्यं पशुं पासते ॥ ११ ॥

श्रीपराशरजी बोले—चन्द्रमाका रथ तीन पहियोंवाला है, उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुन्द-कुसुमके समान श्वेतवर्ण दस घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुवके आधारपर स्थित इस वेगशाली रथसे चन्द्रदेव भ्रमण करते हैं और नक्षत्रोंपर आश्रित अस्थिनी आदि नक्षत्रोंका भोग करते हैं। सूर्यके समान इनको किरणोंके भी घटने-बढ़नेका निश्चित क्रम है ॥ १-२ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! सूर्यके समान समुद्रगर्भसे उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिये जानेपर एक कल्पपर्यन्त रथ छोड़ते रहते हैं ॥ ३ ॥ हे मैत्रेय ! सूर्यके पान करते रहनेसे श्रीण हुए कलामात्र चन्द्रमाका प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरणसे पुनः पोषण करते हैं ॥ ४ ॥ जिस क्रमसे देवगण चन्द्रमाका पान करते हैं उसी क्रमसे जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपदासे प्रतिदिन पुष्ट करते हैं ॥ ५ ॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार आधे पहलनेमें एकत्रित हुए चन्द्रमाके अमृतको देवगण फिर पीने लगते हैं क्योंकि देवताओंका आहार तो अमृत ही है ॥ ६ ॥ तैत्तीस ठण्ड, तैत्तीस सी, तैत्तीस (३६३३३) देवगण चन्द्रस्थ अमृतका पान करते हैं ॥ ७ ॥ जिस समय दो कलामात्र रक्त हुआ चन्द्रमा सूर्यमण्डलमें प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरणमें रहता है वह तिथि अमावास्या कहलाती है ॥ ८ ॥ उस दिन रात्रिमें वह पहले तो जलमें प्रवेश करता है, फिर वृक्ष-लता आदिमें निवास करता है और तदनन्तर क्रमसे सूर्यमें चला जाता है ॥ ९ ॥ बुध और शता आदिमें चन्द्रमाकी स्थितिके समय [अमावास्याको] जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्रा भी तोड़ता है उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है ॥ १० ॥ केवल चन्द्रमाको कलारूप यत्किञ्चित् भागके बच रहनेपर उस क्षीण चन्द्रमाको पितृगण मध्याह्नोत्तर कालमें चारों ओरसे घेर लेते हैं ॥ ११ ॥

पिबन्ति द्विकलाकारं शिष्टा तस्य कला तु वा ।
 सुधामृतमयी पुणद्या तामिन्दोः पितरो मुने ॥ १२
 निस्सृतं तदमावास्यां गभस्तिभ्यः सुधामृतम् ।
 मासं तृप्तिमवाप्याग्र्यां पितरः सन्ति निर्वृताः ।
 सौम्या बर्हिमदृश्वैव अग्निष्वात्ताश्च ते त्रिधा ॥ १३
 एषं देवान् सिते पक्षे कृष्णापक्षे तथा पितॄन् ।
 वीरुधश्चापृतमयैः शीतैरम्परमाणुभिः ॥ १४
 वीरुधीषधिनिष्यत्या मनुष्यपशुकीटकान् ।
 आप्याययति शीतांशुः प्राकाश्याह्लादनेन तु ॥ १५
 वाष्पग्निद्रव्यसम्भूतो रथश्चन्द्रसुतश्च च ।
 पिशाङ्गीस्तुरगैर्युक्तः सोऽष्टाभिर्वायुवेगिभिः ॥ १६
 सवरूथः सानुकर्षो युक्तो भूसम्भवेर्हृद्यैः ।
 सोपासङ्गपताकस्तु शुकस्यापि रथो महान् ॥ १७
 अधाश्चः काञ्चनः श्रीमान्भौमस्पर्धि स्थो महान् ।
 पद्मरागारुणैरश्वैः संयुक्तो बहिनसम्भवैः ॥ १८
 अत्याधिः पाण्डुरैर्युक्तो वाजिभिः काञ्चनो रथः ।
 तस्मिंस्तित्थति वर्षान्ते राशी राशी बृहस्पतिः ॥ १९
 आकाशसम्भवैरश्वैः श्वलैः स्वन्दनं युतम् ।
 तमारुह्य शनैर्याति मन्दगायी शनैश्चरः ॥ २०
 स्वर्भानोस्तुरगा इष्टौ भृङ्गाभा धूसरं रथम् ।
 सकृद्गुक्तास्तु मैत्रेय वहन्त्यविरतं सदा ॥ २१
 आदित्यानिस्सृतो राहुः सोमं गच्छति पर्वसु ।
 आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सरिषु पर्वसु ॥ २२
 तथा केतुरग्रस्याश्वा अप्यष्टौ वातरंहसः ।
 यत्तालधूमवर्णाभा लाक्षारसनिभारुणाः ॥ २३
 एते मया ग्रहाणां वै तवाख्याता रथा नव ।
 सर्वे भुवै महाभाग प्रवक्ष्या वायुरहिमभिः ॥ २४

हे मुने! उस समय उस द्विकलाकार चन्द्रमाकी
 यची हुई अमृतमयी एक कलाका वे पितृगण पत
 करते हैं ॥ १२ ॥ अमावास्याके दिन चन्द्र-रश्मिसे निकले
 हुए उस सुधामृतका पान करके अत्यन्त तुष्ट हुए
 सौम्य, बर्हिपद और अग्निष्वात्ता तीन प्रकारके पितृगण
 एक मासपर्यन्त सन्तुष्ट रहते हैं ॥ १३ ॥ इस प्रकार
 चन्द्रदेव शुक्लपक्षमें देवतःओंकी और कृष्णपक्षमें
 पितृगणकी पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल
 जलकणोंसे लता-वृक्षादिका और लता-ओषधी आदि
 उत्पन्न करके तथा अपनी चन्द्रकाहारा आह्लादित
 करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट-पतंगदि सभी प्राणियोंका
 पापण करते हैं ॥ १४-१५ ॥

चन्द्रमाके पूज सुधका रथ वायु और अग्निमय
 द्रव्यका बना हुआ है और उसमें वायुके सभ्य
 बंगाली आठ पिशांगवर्ण मोड़े जुते हैं ॥ १६ ॥ वरुध^१,
 अनुकर्ष^२, उपासंग^३ और पताका तथा पुधिपीसे उत्पन्न
 हुए मोड़ोंके सहित शुकका रथ भी अति महान्
 है ॥ १७ ॥ तथा मंगलका अति शोभायमान सुवर्ण-
 निर्मित महान् रथ भी अग्निसे उत्पन्न हुए, पद्मराग-
 णिके सपान, अरुणवर्ण, आठ घोड़ोंसे युक्त है ॥ १८ ॥
 जो आठ पाण्डुरवर्ण घोड़ोंसे युक्त सुवर्णका रथ है
 उसमें वर्षके अन्तमें प्रत्येक शशिमें बृहस्पतिजो विराजमान
 होते हैं ॥ १९ ॥ आकाशसे उत्पन्न हुए विचित्रवर्ण घोड़ोंसे
 युक्त रथमें आरुढ़ होकर मन्दगामी शनैश्चरजो वीर-
 धीरे चलते हैं ॥ २० ॥

राहुका रथ धूसर (मटियाले) वर्णका है, उसमें
 भ्रमरके सपान कृष्णवर्ण आठ घोड़े जुते हुए हैं ।
 हे मैत्रेय! एक बार जोत दिखे जानेपर ये घोड़े भिन्न-
 चलते रहते हैं ॥ २१ ॥ चन्द्रपर्वी (पूर्णिमा)-पर यह यह
 सूर्यसे निकलकर चन्द्रमाके पास जाता है तथा सौरपर्वी
 (अमावास्या)-पर यह चन्द्रमासे निकलकर सूर्यके
 निकट जाता है ॥ २२ ॥ इसी प्रकार केतुके रथके
 वायुवेगशाली आठ घोड़े भी पुआलके धुरैकी-सी
 आभावाले तथा लाखके समान लाल रंगके हैं ॥ २३ ॥

हे महाभाग! मैंने तुमसे यह नवीं श्रेणीके रथोंके वर्ण
 किये; ये सभी वायुमयी डोरीसे ध्रुवके साथ बंधे हुए
 हैं ॥ २४ ॥

प्रहर्षतारारिष्ययानि ध्रुवे बद्धान्यशेषतः ।
 भ्रमन्त्युचितचारेण मैत्रेयानिलरश्मिभिः ॥ २५ ॥
 यावन्त्यश्चैव तारास्तास्तावन्तो वातरश्मयः ।
 सर्वे ध्रुवे निबद्धास्ते भ्रमन्तो भ्रामयन्ति तम् ॥ २६ ॥
 तैलपीडा चक्षा चक्रं भ्रमन्तो भ्रामयन्ति वै ।
 तथा भ्रमन्ति ज्योतीषि वातविद्धानि सर्वशः ॥ २७ ॥
 अलातचक्रवद्वान्ति वातचक्रेरितानि तु ।
 यस्मान्ज्योतीषि वहति प्रवहस्तेन स स्मृतः ॥ २८ ॥
 शिशुमारस्तु यः प्रोक्तः स ध्रुवो यत्र तिष्ठति ।
 सन्निवेशं च तस्यापि शृणुष्व मुनिसत्तम ॥ २९ ॥
 यदश्ना कुरुते पापं तं दृष्ट्वा निशि मुच्यते ।
 यावन्त्यश्चैव तारास्ताः शिशुमारश्रिता दिशि ।
 तावन्त्येव तु यर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च ॥ ३० ॥
 उत्तानपादस्तस्याधो विज्ञेयो ह्युत्तरो हनुः ।
 यज्ञोऽधरश्च विज्ञेयो धर्मो मूर्द्धानमाश्रितः ॥ ३१ ॥
 हृदि नारायणश्चास्ते अश्विनौ पूर्वपादयोः ।
 षरुणश्चार्धधा चैव पश्चिमे तस्य सक्थिनी ॥ ३२ ॥
 शिश्वः संवत्सरस्तस्य मित्रोऽपानं समाश्रितः ॥ ३३ ॥
 पुच्छेऽग्निश्च महेन्द्रश्च स्रज्यपोऽथ ततो ध्रुवः ।
 तारका शिशुमारस्य नास्तमेति जलुष्टयम् ॥ ३४ ॥
 इत्येष सन्निवेशोऽयं पृथिव्या ज्योतिषा तथा ।
 द्वीपानामुदधीनां च पर्वतानां च कीर्तितः ॥ ३५ ॥
 वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु असन्ति वै ।
 तेषां स्वरूपमाख्यातं सद्दृष्टोपः श्रूयतां पुनः ॥ ३६ ॥
 यदम्बु वैष्णावः कायस्ततो विप्र वसुन्धरा ।
 पश्चाकारा समुद्भूता पर्वताख्यादिसंयुता ॥ ३७ ॥
 ज्योतीषि विष्णुर्भुवनानि विष्णु-

र्शनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च ।

नद्यः समुद्रश्च स एव सर्व
 यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य ॥ ३८ ॥
 ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोऽसा-
 वशेषमूर्तिर्न तु अस्तुभूतः ।

हे धैरेय! समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारामण्डल
 वायुमयी रज्जुसे ध्रुवके साथ बंधे हुए यद्योचित
 प्रकारसे घूमते रहते हैं ॥ २५ ॥ जितने तारागण हैं
 उतनी ही वायुमयी खेरियाँ हैं। उनसे बंधकर वे सब
 स्वयं घूमते तथा ध्रुवकी घुमती रहते हैं ॥ २६ ॥
 जिस प्रकार तैली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हूकी भी
 घुपाते रहते हैं उसी प्रकार सपस्त ग्रहण वायुसे
 बंधकर घूमते रहते हैं ॥ २७ ॥ क्योंकि इस वायुचक्रसे
 प्रेरित होकर समस्त ग्रहण अलातचक्र (बनैती)-के
 सगान घूमा करते हैं, इसलिये यह 'प्रवह' कहलाता
 है ॥ २८ ॥

जिस शिशुमारचक्रका पहले वर्णन कर चुके हैं,
 तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ! अब तुम
 उसकी स्थितिका वर्णन सुनो ॥ २९ ॥ राशिके समय
 उनका दर्शन करनेसे मनुष्य दिनमें जो कुछ पापकर्म
 करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाशमण्डलमें
 जितने शारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष
 वह जीवित रहता है ॥ ३० ॥ उत्तानपाद उसको ऊपरको
 हनु (जोड़ी) है और यज्ञ नौचेकी तथा धर्मने उसके
 परतकपर अधिकार कर रखा है ॥ ३१ ॥ उसके हृदय-
 देशमें नारायण हैं, दोनो चरणोंमें अश्विनोकुमार हैं
 तथा जंबाओंमें षरण और अर्धधा हैं ॥ ३२ ॥ संवत्सर
 उसका शिरण है, मित्रने उसके अधन-देशको आश्रित कर
 रखा है, तथा अग्नि, महेन्द्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छभागमें
 स्थित हैं। शिशुमारके पुच्छभागमें स्थित ये अग्नि
 आदि चार तारे कभी अस्त नहीं होते ॥ ३३-३४ ॥ इस
 प्रकार मैंने तुमसे पृथिवी, ग्रहण, द्वीप, समुद्र, पर्वत,
 वर्ष और नदियोंका तथा जो-जो उनमें बसते हैं उन
 सभीके स्वरूपका वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेपसे
 फिर सुनो ॥ ३५-३६ ॥

हे विप्र! भगवान् विष्णुका जो मूर्तिरूप जल है
 उससे पर्वत और समुद्रादिके सहित कपलके
 समान आकारवाली पृथिवी उत्पन्न हुई ॥ ३७ ॥
 हे विप्रवर्य! तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएँ,
 नदियाँ और समुद्र सभी भगवान् विष्णु ही हैं तथा
 और भी जो कुछ है अथवा नहीं है यह सब भी
 एकमात्र वे ही हैं ॥ ३८ ॥ क्योंकि भगवान् विष्णु
 ज्ञानस्वरूप हैं इसलिये वे सर्वभय हैं, परिच्छिन्न

ततो हि शैलाब्धिधरादिभेदा-
 ज्ञानोहि विज्ञानविजृम्भितानि ॥ ३९
 यदा तु शुद्धं निजकृपि सर्वं
 कर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोषम् ।
 तदा हि सङ्कल्पतरोः फलानि
 भवन्ति नो वस्तुषु वस्तु भेदाः ॥ ४०
 वस्तुवस्ति किं कुत्रचिदादिमध्य-
 पर्यन्तद्विनं सतनैकरूपम् ।
 यच्चान्यथात्वं द्विज घाति भूयो
 न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम् ॥ ४१
 यही घटत्वं घटतः कपालिका
 कपालिका चूर्णरजस्ततोऽणुः ।
 जनैः स्वकर्मस्तिपितात्मनिश्चयै-
 रालक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु ॥ ४२
 तस्मान् विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चित्-
 त्वेचित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम् ।
 विज्ञानमेकं निजकर्मभेद-
 विभिन्नचित्तैर्बहुधाभ्युपेतम् ॥ ४३
 ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोक-
 मशेषलोभादिनिरस्तसङ्गम् ।
 एकं सदेकं परमः परेशः
 स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ ४४
 सद्भाव एव भवतो मयोक्तो
 ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत् ।
 एतत्तु यत्संन्यवहारभूतं
 तत्रापि चोक्तं भुवनभित्तं ते ॥ ४५
 यज्ञः पशुर्वह्निरशेषऋत्विक्
 सोमः सुराः स्वर्गमवश्च कामिः ।
 इत्यादिकर्माश्रितमार्गदृष्टं
 भूरादिभोगाश्च फलानि तेषाम् ॥ ४६
 यच्चैतद्भुवनगतं मया तसोक्तं
 सर्वत्र व्रजति हि तत्र कर्मवश्यः ।
 ज्ञात्वैवं भुवमचलं सदैकरूपं
 तत्कुर्याद्दिशति हि येन वासुदेवम् ॥ ४७

पदार्थाकार नहीं हैं। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथिवी आदि भेदोंको तुम एकमात्र विज्ञानका ही क्लृप्तात जानो ॥ ३९ ॥ जिस समय जोर आत्मज्ञानके द्वारा दोषरहित होकर सम्पूर्ण कर्मोंका क्षय हो जानेसे अपने शुद्ध-स्वरूपमें स्थित हो जाता है उस समय आत्मवस्तुमें संकल्पवृक्षके फलरूप पदार्थ-भेदोंकी प्रतीति नहीं होती ॥ ४० ॥

हे द्विज! कोई भी घटादि वस्तु है ही कहीं? आदि, मध्य और अन्तसे रहित नित्य एकरूप चित् ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः-पुनः बदलती रहती है, पूर्णवत् नहीं रहती, तबमें आस्ताविकता ही क्या है? ॥ ४१ ॥ देखो, मृत्तिका ही घटरूप हो जाती है और फिर वही घटसे कपाल, कपालसे चूर्णरज और रजसे अणुरूप हो जाती है। तो फिर यथाशक्ति अपने कर्मोंके प्रशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूपको भूलकर इसमें कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं ॥ ४२ ॥ अतः हे द्विज! विज्ञानसे अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थादि नहीं है। अपने-अपने कर्मोंके भेदसे भिन्न-भिन्न चित्तोंद्वारा एक ही विज्ञान तब प्रकारसे मान लिया गया है ॥ ४३ ॥ वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निःशोक और लोभादि समस्त दोषोंसे रहित है। वही एक सत्त्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक् और कोई पदार्थ नहीं है ॥ ४४ ॥

इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थका वर्णन किया है, केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहारमात्र है उस त्रिभुवनके विषयमें भी मैं तुमसे कह चुका ॥ ४५ ॥ [इस ज्ञान-मार्गके अतिरिक्त] मैंने कर्म-मार्ग-सम्बन्धी यज्ञ, पशु, वह्नि, समस्त ऋत्विक्, सोम, सुराण तथा स्वर्गमय कामना आदिक भी दिग्दर्शन करा दिया। भूरादिकके सम्पूर्ण भोग इन कर्म-कलापोंके ही फल हैं ॥ ४६ ॥ यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकोंका वर्णन किया है इन्हींमें भी कर्मवश घूमा करता है, ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्यको जही करण चारिये जिससे भुव, अधल एवं सदा एकरूप भगवान् वासुदेवमें लीन हो जाय ॥ ४७ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽंशे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

तेरहवाँ अध्याय

भरत-चरित्र

श्रीमंत्रेण उवाच

भगवन्साम्यगाख्यातं यत्पृष्टोऽसि मया किल ।
भूसमुद्रादिसरितां संस्थानं ग्रहसंस्थितिः ॥ १
विष्णुधाधारे यथा शततैल्लोक्यं समवस्थितम् ।
परमार्थस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानं प्रधानतः ॥ २
यत्चेतद्भगवानाह भरतस्य महीपतेः ।
श्रोतुमिच्छामि चरितं तन्ममाख्यातुमर्हसि ॥ ३
भरतः स महीपालः शालग्रामेऽवसत्किल ।
योगयुक्तः समाधाय वासुदेवे सदा मनः ॥ ४
पुण्यदेशप्रभाषेण ध्यायत्तत्र सदा हरिम् ।
कथं तु नाऽभवन्मुक्तिर्यदभूत्स द्विजः पुनः ॥ ५
विप्रत्वे च कर्तृ तेन यद्भूयः सुमहात्मना ।
भरतेन मुनिश्रेष्ठ तत्सर्वं वक्तुमर्हसि ॥ ६

श्रीपराशर उवाच

शालग्रामे महाभागो भगवन्व्यस्तमानसः ।
स उवास चिरं कालं मैत्रेय पृथिवीपतिः ॥ ७
अहिंसादिष्वशेषेषु गुणेषु गुणिनां वरः ।
अथाप परमां काष्ठां मनसश्चापि संश्रमे ॥ ८
यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्द केशव ।
कृष्ण विष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ९
इति राजाह भरतो हरेर्नामानि केवलम् ।
नान्यञ्जगाद मैत्रेय किञ्चित्स्वप्नान्तरेऽपि च ।
एतत्पदं तदर्थं च विना नान्यदचिन्तयत् ॥ १०
समित्पुष्पकुशादानं चक्रे देवक्रियाकृते ।
नान्यानि चक्रे कर्माणि निस्सङ्गे योगतापसः ॥ ११
जगाम सोऽधिपेकार्थमेकदा तु महानदीम् ।
सर्वीं तत्र तदा चक्रे स्नानस्थानन्तरक्रियाः ॥ १२
अथाजगाम तत्तीरं जलं पातुं पिपासिता ।
आसन्नप्रसवा ब्रह्मन्नेकैव हरिणी वनात् ॥ १३

श्रीमंत्रेणजी बोले—हे भगवन्! मैंने पृथिवी, समुद्र, नदियों और ग्रहाण्णको स्थिति आदिके विषयमें जो कुछ पूछ था सो सब आपने भर्णन कर दिया ॥ १ ॥ उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान् विष्णुके ही आश्रित हैं और कैसे परमार्थस्वरूप ज्ञान ही स्वर्गमें प्रधान है ॥ २ ॥ किन्तु भगवन्! आपने पहले जिसकी शर्चा की थी यह राजा भरतका चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिये ॥ ३ ॥ कहते हैं, वे राजा भरत निरन्तर योगयुक्त होकर भगवान् वसुदेवमें चित्त लगाये शालग्रामक्षेत्रमें रहा करते थे ॥ ४ ॥ इस प्रकार पुण्यदेशके प्रभाव और हार्दिकन्तनसे भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मणका जन्म लेना पड़ा ॥ ५ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! ब्रह्मण होकर भी उन महात्मा भरतजीने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिये ॥ ६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! वे महाभाग पृथिवीपति भरतजी भगवान्में चित्त लगाये चिरकालतक शालग्रामक्षेत्रमें रहे ॥ ७ ॥ गुणजानेमें श्रेष्ठ उन भरतजीने अहिंसा आदि सम्पूर्ण गुण और मनके संयममें परम उत्कृष्ट लाभ किया ॥ ८ ॥ 'हे पञ्जेश! हे अच्युत! हे गोविन्द! हे माधव! हे अनन्त! हे केशव! हे कृष्ण! हे विष्णो! हे हृषीकेश! हे वासुदेव! आपको नमस्कार है'—इस प्रकार राजा भरत निरन्तर केवल भगवन्नामोंका ही उच्चारण किया करते थे ॥ हे मैत्रेय! वे स्वप्नमें भी इस पदके अतिरिक्त और कुछ नहीं करते थे और न कभी इसके अधिक अतिरिक्त और कुछ चिन्तन ही करते थे ॥ ९-१० ॥ वे निःसंग, योगयुक्त और तपस्वी राजा भगवान्की पूजाके लिये केवल समिध, पुष्प और कुशाका ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे ॥ ११ ॥

एक दिन वे स्नानके लिये नदीपर गये और वहाँ स्नान करनेके अनन्तर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएँ कीं ॥ १२ ॥ हे ब्रह्मन्! इतनेहीमें उस पदी-तीरपर एक आसन्नप्रसवा (शीघ्र ही बच्चा जननेवाली) प्यासी हरिणी वनमेंसे जल पीनेके लिये आयी ॥ १३ ॥

ततः समभवत्तत्र पीतप्राये जले तथा ।
 सिंहस्य नादः सुमहान्सर्वप्राणिभयङ्करः ॥ १४
 ततः सा सहसा त्रासादाप्लुता निम्नगातडम् ।
 अत्युच्चारोहणेनास्या नद्या गर्भः पपात ह ॥ १५
 तपूष्णमानं वेगेन वीक्षिमालापरिप्लुतम् ।
 जग्राह स नृपो गर्भात्पतितं भृगपोतकम् ॥ १६
 गर्भप्रच्युतिदोषेण प्रोत्तुङ्गाक्रमणेन च ।
 मैत्रेय सपि हरिणी पपात च ममार च ॥ १७
 हरिणीं तां विलोक्याथ विपन्नां नृपतापसः ।
 भृगपोतं समादाय निजमाश्रममागतः ॥ १८
 चकारानुदिनं घासी भृगपोतस्य वै नृपः ।
 पोषणं पुष्यमाणश्च स तेन वदुथे पुने ॥ १९
 चचाराश्रमपर्वने तृणानि गहनेषु सः ।
 दूरं गत्वा च शार्दूलत्रासादध्याययौ पुनः ॥ २०
 प्रातर्गत्वातिदूरं च साधमायात्यथाश्रमम् ।
 पुनश्च भरतस्याभूदाश्रमस्योदजाजिरे ॥ २१
 तस्य तस्मिन्मृगे दूरसमीपपरिवर्तिनि ।
 आसीच्चेतः समासक्तं न चयावन्यतौ द्विज ॥ २२
 विमुक्तशम्यतनयः प्रोक्षितशोषबाधवः ।
 ममत्वं स चकारोर्ध्वस्तस्मिन्हरिणबालके ॥ २३
 किं कृकैर्भक्षितो व्याघ्रैः किं सिंहैर्निर्यातितः ।
 धिराग्रमाणे निष्क्रान्ते तस्यासीदिति मानसम् ॥ २४
 एषा वसुमती तस्य खुराग्रक्षतकर्षुरा ।
 प्रीतये मम जातोऽसी वस मयेणकबालकः ॥ २५
 विषाणारुणेण महाहृं कण्डूयनपरो हि सः ।
 क्षेमेणाभ्यागतोऽरण्यादपि मां सुखविष्यति ॥ २६
 एते सृणुशिखास्तस्य दशनैरचरोद्गतैः ।
 कुशाः कशशा विराजन्ते ऋतवः सामगा इव ॥ २७
 इत्थं चिरगते तस्मिन्स चक्रे मानसं पुनिः ।
 प्रीतिप्रसन्नवदनः पार्श्वस्थे चाभसन्मृगे ॥ २८

इस समय जब वह प्रायः जल में चुकी थी, वहीं सब प्राणियोंको भयभीत कर देनेवाली सिंहकी गम्भीर गर्वना सुनारी पड़ी ॥ १४ ॥ वह वह अत्यन्त भयभीत हो अकस्मात् उछलाकर नदीके तटपर चढ़ गयी, अतः अत्यन्त उच्च स्थानपर चढ़नेके कारण उसका गर्भ नदीमें गिर गया ॥ १५ ॥

नदीकी तरंगमालाओंमें पड़कर रहने हुए उस गर्भ-शब्द भृगुबालकके राजा भरतने पकड़ लिया ॥ १६ ॥ हे मैत्रेय! गर्भपातके दोषमें तथा बहुत कैने उलटनेके कारण वह हरिणी भी पछाड़ लाकर गिर पड़ी और मर गयी ॥ १७ ॥ उस हरिणीको मरी हुई देख तपस्वी भग उमके बच्चेको अपने आश्रमपर ले आये ॥ १८ ॥

हे पुने! फिर राजा भरत उस मृगछेनेका निष्ठापी पालन-पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन-दिन बढ़ने लगा ॥ १९ ॥ वह बच्चा कभी तो उस आश्रमके आस-पास ही घास चरता रतता और कभी वनमें दूरलक जाकर फिर सिंहके भयसे लौट आता ॥ २० ॥ प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता, तो भी सावंकालको फिर आश्रममें ही लौट आता और भ्रतजीके आश्रमको पक्षशालाके अंगिनमें पड़ खत ॥ २१ ॥

हे द्विज! इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहनेवाले उस मृगमें तो राजका चित्त सर्वदा आसक्त रही लगा, वह अन्य भिययोंकी ओर जाता ही नहीं था ॥ २२ ॥ जिन्होंने सम्पूर्ण राज-पाट और अपने पुत्र तथा बन्धु-बान्धवोंको छोड़ दिया था वे ही भरतजी उस हरिणके नरूपपर अत्यन्त ममता करने लगे ॥ २३ ॥ उसे मार जानेके अनन्तर यदि लौटनेमें देती हो जाती तो वे मन-ही-मन सोचने लगते — 'अच्छे! उस बच्चेको आज किसी भेड़ियेने तो नहीं खा लिया? किसी सिंहके पंजेमें तो आगे वह नहीं पड़ गया?' ॥ २४ ॥ देखो, उसके पुरीके चित्तोंसे यह पृथिवी कैसी विचित्र हो रही है? भेरी ही प्रसन्नताके लिये उत्पन्न हुआ यह मृगछेना न जाने आर्थ कहीं रह गया है? ॥ २५ ॥ क्या वह वनसे कुशलापूर्वक लौटकर अपने साँगसे भेरी भुजाको खुशलाकर मुझे आनन्दित करेगा? ॥ २६ ॥ देखो, उसके नवजात रीतिसे कटी हुई शिखावाले ये कुशा और काशा सामाध्यायो [शिखाहीन] श्रद्धाचारियोंके समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं? ॥ २७ ॥ देखके गये हुए उस बच्चेके निमित्त पक्ष मुनि इसी प्रकार चिन्ता करने लगते थे और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेमसे उनका मुख खिल जाता था ॥ २८ ॥

समाधिभङ्गस्तस्यासीत्तन्मयत्वादतात्मनः ।
 सन्त्यक्तराज्यभोगद्विस्वजनस्यापि भूपतेः ॥ २९
 चपलं चपले तस्मिन्दूरगं दूरगामिनि ।
 भृगपोतेऽभवच्चिन्तं स्वैर्यवत्तस्य भूपतेः ॥ ३०
 कालेन गच्छता सोऽथ कालं चक्रे भङ्गीपतिः ।
 पितेव सार्वं पुत्रेण भृगपोतेन वीक्षितः ॥ ३१
 भृगमेव तदाद्राक्षीत्त्वज-प्राणानसावपि ।
 तन्मयत्वेन मैत्रेय नान्यत्किञ्चिदचिन्तयत् ॥ ३२
 ततश्च सत्कालकृतां भावनां प्राप्य तादृशीम् ।
 जम्बूमार्गं महारण्ये जातो जातिस्मरो भृगः ॥ ३३
 जातिस्मरत्त्वादुद्विग्नः संसारस्य द्विजोत्तम ।
 विहाय मातरं भूयः शालग्राममुपावयौ ॥ ३४
 शुष्कंस्तृणैस्तथा पर्णैः स कुर्वन्नात्मपोषणम् ।
 भृगत्वहेतुभूतस्य कर्मणो निष्कृतिं ययौ ॥ ३५
 तत्र चोत्सृष्टदेहोऽसौ जज्ञे जातिस्मरो द्विजः ।
 सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुले ॥ ३६
 सर्वविज्ञानसम्पन्नः सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित् ।
 अपश्यत्स च मैत्रेय आत्मानं प्रकृतेः परम् ॥ ३७
 आत्मनोऽधिगतज्ञानो देवादीनि महामुने ।
 सर्वभूताभ्यभेदेन स ददर्श तदात्मनः ॥ ३८
 न षपाठ गुरुप्रोक्तं कृतोपनयनः श्रुतिम् ।
 न ददर्श च कर्माणि शास्त्राणि जगृहे न च ॥ ३९
 उक्तोऽपि ऋषुः किञ्चिज्जडव्यव्ययमभाषत ।
 तदप्यसंस्कारगुणं ग्राम्यवाक्योक्तिसंश्रितम् ॥ ४०
 अपध्वस्तक्षपुः सोऽपि मलिनाम्बरधूमिह्वजः ।
 क्लिन्नदन्तान्तरः सर्वैः परिभूतः स नागरैः ॥ ४१
 सम्पानना परां ह्यग्निं योगार्द्धैः कुरुते यतः ।
 जनेनाद्यमतो योगी योगसिद्धिं च विन्दति ॥ ४२

इस प्रकार उसीमें आसक्तपिता रहनेसे, राज्य, भोग, समृद्धि और स्वजनको त्याग देनेवाले भी राजा भरतकी समाधि भंग हो गयी ॥ २९ ॥ उस राजाका स्थिरचित्त उस भृगुके चंचल होनेपर चंचल ही जाया और दूर चले जानेपर दूर चला जाता ॥ ३० ॥

कालान्तरमें राजा भरतने, उस भृगुकालकृद्द्वारा पुत्रके सबल नयनोंसे देखे जाते हुए पिताके समान अपने प्राणोंका त्याग किया ॥ ३१ ॥ हे मैत्रेय ! राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस भृगुको ही देखता रहा तथा उसीमें तन्मय रहनेसे उसने और कुछ भी चिन्तन नहीं किया ॥ ३२ ॥ तदनन्तर, उस समयकी क्षुब्ध भावनाके कारण वह जम्बूमार्ग (कर्णजण्डपर्वत) के घोर वनमें अपने पूर्वजन्मको स्मृतिसे मुक्त एक भृगु हुआ ॥ ३३ ॥ हे द्विजोत्तम ! अपने पूर्वजन्मका स्मरण रहनेके कारण वह संसारसे उपरत हो गया और अपनी माताको छोड़कर फिर शालग्रामक्षेत्रमें आकर ही रहने लगा ॥ ३४ ॥ वहाँ सूखे घास-फूस और पराँसे ही अपना शरीर-पोषण करता हुआ वह अपने भृगुत्व-प्राप्तिके हेतुभूत कर्मोंका निराकरण करने लगा ॥ ३५ ॥

तदनन्तर, उस शरीरको छोड़कर उसने सदाचार-सम्पन्न योगियोंके पवित्र कुलमें ब्राह्मण-जन्म ग्रहण किया । उस देहमें भी उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा ॥ ३६ ॥ हे मैत्रेय ! वह सर्वविज्ञानसम्पन्न और सप्रस्त शास्त्रोंके मर्मको जाननेवाला था तथा अपने आत्माको निरन्तर प्रकृतिसे परे देखता था ॥ ३७ ॥ हे महामुने ! आत्मज्ञानसम्पन्न होनेके कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियोंकी अपनेसे अभिन्नरूपसे देखता था ॥ ३८ ॥ उपनयन-संस्कार हो जानेपर वह गुरुके पढ़ानेपर भी वेद-पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्मकी और ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था ॥ ३९ ॥ जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़के समान कुछ असंस्कृत, अस्वार एवं प्रापीण वाक्योंसे मिले हुए बचन बोल देता ॥ ४० ॥ निरन्तर मैला-कुर्चला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिष्कृत दन्तमुक्त रहनेके कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगरनिवासियोंसे अपमानित होता रहता था ॥ ४१ ॥

हे मैत्रेय ! योगीके लिये सबसे अधिक क्षतिकारक सम्पान ही है, जो योगी अन्य मनुष्योंसे अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है ॥ ४२ ॥

तस्माच्छरेत वै योगी सतां धर्ममदूषयन् ।
 जना यथाक्रमन्वेरनाच्छेद्युर्वैव सङ्गतिम् ॥ ४३
 हिरण्यगर्भवचनं विचित्रव्येत्थं महामतिः ।
 आत्मानं दर्शयामास जडोन्मत्ताकृतिं जने ॥ ४४
 भुङ्क्ते कुल्माषद्वीहादिशाकं वन्यं फलं कणान् ।
 यद्यदाप्नोति सुबहु तदने कालसंयमम् ॥ ४५
 पितर्युपरते सोऽथ भातुभातुष्वभाभ्यर्षैः ।
 कारितः क्षेत्रकर्मादि कदन्नाहारपोषितः ॥ ४६
 सतृक्षपीनाययवो जङ्कारी च कर्मणि ।
 सर्वलोकोपकरणं बभूवाहारवेतनः ॥ ४७
 नं तादृशमसंस्कारं विप्राकृतिविचेष्टितम् ।
 क्षुत्ता पृथतराजस्य काल्यै पशुमकल्पयत् ॥ ४८
 रात्री तं समलङ्कृत्य वैशसस्य विधानतः ।
 अधिष्ठितं महाकाली ज्ञात्वा योगेश्वरं तथा ॥ ४९
 ततः खड्गं समादाय निशितं निक्षिप्ता तथा ।
 क्षतारं क्रूरकर्माणामच्छिन्नत्कण्ठमूलतः ।
 स्वपार्षदयुता देवी ययौ रूधिरमुल्बणम् ॥ ५०
 ततस्सौवीरराजस्य प्रयातस्य महात्मनः ।
 विष्टिकर्ताथ मन्येत विष्टियोग्योऽयमित्यपि ॥ ५१
 तं तादृशं यहात्मानं भस्मच्छन्मिवानत्वम् ।
 क्षप्ता सौवीरराजस्य विष्टियोग्यममन्यत ॥ ५२
 स राजा शिबिकाखड्गो गन्तुं कृतमतिर्द्विज ।
 बभूवेशुभतीतीरे कपिलवैर्धराक्षमम् ॥ ५३
 श्रेयः किमत्र संसारे दुःखप्राये नृणामिति ।
 प्रष्टुं तं मोक्षधर्मज्ञं कपिलाख्यं महामुनिम् ॥ ५४
 उवाह शिबिकां तस्य क्षतुर्वचनचोदितः ।
 नृणां विष्टिगृहीतानामन्येषां सोऽपि मध्यगः ॥ ५५
 गृहीतो विष्टिना विप्रः सर्वज्ञानैकभाजनः ।
 जातिस्मरोऽसौ पापस्य क्षयकाय उवाह ताम् ॥ ५६
 ययौ जडमतिः सोऽथ युगमात्रावलोकनम् ।
 कुर्वन्वतिमतां श्रेष्ठस्तदन्ये त्वरितं ययुः ॥ ५७

अतः योगीको, सन्मार्गको दूषित न करने हुए ऐसे
 आचरण करना चाहिये जिससे लोग अपमान करें और
 संगतिसं दूर रहें ॥ ४३ ॥ हिरण्यगर्भके इस सारयुक्त बचनके
 स्मरण रखते हुए वे महामतिं विप्रवर अपने-आपके
 लोगोंमें बद्ध और डराने-सा ही प्रकार करते थे ॥ ४४ ॥
 कुल्माष (जौ आदि) धान, शाक, जंगली फल अथवा
 फण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस शोड़े-सेफें
 भी बहुत भानकर वे उसीको खा लेते और अपना कलशै
 करते रहते ॥ ४५ ॥

फिर पिताके ज्ञान हो जानेपर उनके भाई-बन्धु
 उनका सड़े-गले अन्नसे पौषण करते हुए उनसे खेती-
 बारीका कार्य करने लगे ॥ ४६ ॥ वे बेलके समान पुष्ट
 शरीरवाले और कर्पमें गहवत् निश्चेष्ट थे। अतः केवत
 आहारमावसे ही वे सब लोगकि यन्त्र बन आते थे। [अर्थात्
 सभी लोग उन्हें आहारमात्र देकर अपना-अपना काम
 निकाल लिया करते थे] ॥ ४७ ॥

उन्हें इस प्रकार संस्कारशून्य और ब्राह्मणवैक्ये
 विरुद्ध आचरणशाला देख लतिके समय पृथतराजके
 सेवकोंने बलिकी निधिसे सुराजितकर कालीका बलिभु
 बनाया। किन्तु इस प्रकार एक परम योगीश्वरको
 बलिके लिये उपस्थित देख महाकालीने एक तीक्ष्ण
 खड्ग ले उस क्रूरकर्मा रखसेवकका गला काट डाली
 और अपने पार्षदोंसहित उसका तीखा रुधिर पान
 किया ॥ ४८-५० ॥

तदनन्तर, एक दिन महात्मा सौवीरराज कहीं जा
 रहे थे। उस समय उनके बेगारियोंने समझा कि यह भी
 बेगारके ही योग्य है ॥ ५१ ॥ राजाके सेवकोंने भी भस्ममें
 छिपे हुए अंगिके समान उन महात्माका रंग-रङ्ग देखकर
 उन्हें बेगारके योग्य समझा ॥ ५२ ॥ हे द्विज! उन सौवीरराजने
 मोक्षधर्मके ज्ञाता महामुनि कपिलसे यह पूछनेके लिये
 कि 'इस दुःखमय संसारमें धनुष्योंका श्रेय किसमें है'
 शिबिकापर चढ़कर इधुमतो नदीके किनारे उन महर्षिके
 आश्रमपर जाकेका विचार किया ॥ ५३-५४ ॥

तब राजसेवकके कहनेसे परत पुनि भी उसकी
 फलकीकी अन्य बेगारियोंके बीचमें लगकर बहन
 करने लगे ॥ ५५ ॥ इस प्रकार बेगारमें पकड़े जाकर अपने
 पूर्वजन्मका स्मरण रखनेवाले, सम्पूर्ण विज्ञानके एकपात्र
 पात्र वे विप्रवर अपने भामय प्रारब्धका क्षय करनेके
 लिये उस शिबिकाको उठाकर चलने लगे ॥ ५६ ॥ वे
 बुद्धिमानीमें श्रेष्ठ द्विजवर तो चार हाथ भूमि देखते हुए
 मन्द-गतिसे चलते थे, किन्तु उनके अन्य साथी नहदी-
 नहदी चल रहे थे ॥ ५७ ॥

चिलोक्य नृपतिःसोऽथ विषयां शिबिकागतिम् ।
किमेतदित्वाह सभं गम्यतां शिबिकावाहः ॥ ५८
पुनस्तथैव शिबिकां चिलोक्य विषयां हि सः ।
नृपः किमेतदित्वाह भवद्भिर्गम्यतेऽन्वया ॥ ५९
भूपतेर्वदतस्तस्य श्रुत्वेत्यं बहुराशो सचः ।
शिबिकावाहकाः प्रोचुरसं यातीत्यसत्वरम् ॥ ६०

राजोकान

किं श्रान्तेऽत्यल्पमस्त्रानं त्वयोद्य शिबिका मम ।
किमायाससहो न त्वं पीवानसि निरीक्ष्यसे ॥ ६१

ब्राह्मण उवाच

नाहं पीवान् चेत्योहा शिबिका भवतो मया ।
न श्रान्तोऽसि न चायासो सोढव्योऽस्ति म्हांपते ॥ ६२

राजावाच

प्रत्यक्षं दृश्यसे पीवानद्यापि शिबिका त्वयि ।
श्रमश्च भारोद्बहने भवत्येव हि देहिनाम् ॥ ६३

ब्राह्मण उवाच

प्रत्यक्षं भवतां भूप यददृष्टं मम तद्बद ।
बलवान्बलश्रवेति वाच्यं पश्चाद्विशेषणम् ॥ ६४

त्वय्येव शिबिका चेति त्वय्यह्यपि च संस्थिता ।
मिथ्यैतदत्र तु भव्याऽङ्गणोतु वचनं मम ॥ ६५

भूमी पादयुगं त्वास्ते जङ्घे पादद्वये स्थिते ।
ऊर्वोर्जङ्घाद्वयावस्थौ तदाधारं तथोदरम् ॥ ६६

वक्षःस्थलं तथा ब्राह् स्कन्धौ चोदरसंस्थितौ ।
स्वन्धाश्रितेये शिबिका मम भ्रात्रेऽत्र किं कृतः ॥ ६७

शिबिकायां स्थितं चेदं वपुस्त्वदुपलक्षितम् ।
तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा ॥ ६८

अहं त्वं च तथान्ये च भूतैरुह्याय पार्थिव ।
गुणप्रसाहपतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम् ॥ ६९

कर्मवश्या गुणाश्रिते सन्साहाः पृथिवीपते ।
अविद्यासञ्चितं कर्म तच्चाशेषेषु जन्तुषु ॥ ७०

आत्मा शुद्धोऽक्षरः शान्तो निर्गुणः प्रकृतेः परः ।
प्रवृद्ध्यपचयी नास्य एकस्याखिलजन्तुषु ॥ ७१

इस प्रकार शिबिकाकी विषय-गति देखकर राजाने कहा—“अरे शिबिकावाहको! यह क्या करने हो? सभान गतिसे चलते” ॥ ५८ ॥ किन्तु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषय देखकर राजाने फिर कहा—“अरे क्या है? इस प्रकार असमान भावसे क्यों चलते हो?” ॥ ५९ ॥ राजाके बार-बार ऐसे वचन सुनकर वे शिबिकावाहक [भरतजीको दिखाकर] कड़के लगे—“हमसे एक मही धीरे धीरे चलता है” ॥ ६० ॥

राजाने कहा—अरे, तू तो अभी मेरी शिबिकाको थोड़ी ही दूर घहन किया है; क्या इतनेहीमें थक गया? तू वैसे जो बहुत मोटा-मुष्टण्डा दिखायी देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सह जाता? ॥ ६१ ॥

ब्राह्मण बोले—राजन्! मैं न मोटा हूँ और न मैंने आपकी शिबिका हो उठा रखा है। मैं बल्का भी नहीं हूँ और न मुझे श्रम सहन करनेको ही आवश्यकता है ॥ ६२ ॥

राजा बोले—अरे, तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखायी दे रहा है, इस समय भी शिबिका तैरे कन्धेपर रखी हुई है और जोड़ा दोपेसे पेशधरिणोंको श्रम होता ही है ॥ ६३ ॥

ब्राह्मण बोले—राजन्! तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखायी दे रहा है, मुझे पहले यही बताया। उसके ‘चलवान्’ अथवा ‘अवलवान्’ आदि विशेषणोंकी भाँति तो पीछे करना ॥ ६४ ॥

‘तूने मेरी शिबिकाका घहन किया है, इस समय भी वह तैरे ही कन्धोंपर रखी हुई है’—तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, अच्छे मरेसे बात सुनो—

॥ ६५ ॥ देखो, पृथिवीपर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरोंके ऊपर जंघाएँ हैं और जंघाओंके ऊपर दोनों ऊर तथा कर्शुओंके ऊपर उदर है ॥ ६६ ॥ उदरके ऊपर वक्षःस्थल, बाहु और कन्धोंकी स्थिति है तथा कन्धोंके ऊपर यह शिबिका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझ रहा? ॥ ६७ ॥

इस शिबिकामें जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तवमें तो ‘तुम यहाँ (शिबिकामें) हो और मैं यहाँ (पृथिवीपर) हूँ’—ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है ॥ ६८ ॥ हे राजन्! मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतोंसे ही घहन किये जाते हैं। तथा यह भूतवर्ग भी

गुणोंके प्रवाहमें पड़कर ही बहा जा रहा है ॥ ६९ ॥ हे पृथिवीपते! ये सत्त्वादि गुण भी कर्मोंके वशीभूत हैं और समस्त जीवोंमें कर्म अविद्याजन्य ही हैं ॥ ७० ॥ आत्मा जो शुद्ध, अक्षर, शान्त, निर्गुण और प्रकृतिसे परे है तथा समस्त जीवोंमें यह एक ही ओत-प्रोत है। अतः उसके

वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते ॥ ७१ ॥

यदा नोपचयस्तस्य न त्रैसापचयो नृप ।
 तदा पीवानस्रोतीत्यं कथा युक्त्वा त्वयेरितम् ॥ ७२
 भूपादजङ्घाकटचूरुजठरादिषु संस्थिते ।
 शिबिकेवै यथा स्कन्धे तथा भारः समस्त्वया ॥ ७३
 तथान्यैर्जन्तुभिर्भूय शिबिकोढा न केवलम् ।
 शैलद्रुमगृहोत्थोऽपि पृथिवी सम्भवोऽपि वा ॥ ७४
 यदा पुंसः पृथग्भावः प्राकृतैः कारणैर्नृप ।
 सोढव्यस्तु तदायासः कथं वा नृपते मया ॥ ७५
 यद्द्रव्या शिबिका चेयं तद्द्रव्यो भूतसंग्रहः ।
 भवतो मेऽखिलस्यास्य ममत्वैनोपकृतिः ॥ ७६

श्रीपराशर उवाच

एवमुक्त्वा भवन्मौनी स वह्निर्विश्विकां द्विज ।
 सोऽपि राजावतीर्योऽपि तत्पादौ जगृहे त्वरन् ॥ ७७

राजोवाच

भो भो विसृज्य शिबिकां प्रसादं कुरु मे द्विज ।
 कथ्यतां को भवानत्र जात्परूपधरः स्थितः ॥ ७८
 यो भवान्यनिमित्तं वा यदागमनकारणम् ।
 तत्सर्वं कथ्यतां विद्वन्महां शुश्रूषवे त्वया ॥ ७९

ब्राह्मण उवाच

श्रूयतां सोऽहमित्येतद्भक्तुं भूप न शक्यते ।
 उपभोगनिमित्तं च सर्वप्राग्मनस्त्रिया ॥ ८०
 सुखदुःखोपभोगौ तु तौ देहाद्युपपादकौ ।
 धर्माधर्मोद्भवी भोक्तुं जन्तुर्देहादिमृच्छति ॥ ८१
 सर्वस्यैव हि भूपाल जन्तोः सर्वत्र कारणम् ।
 धर्माधर्मी यतः कस्मात्कारणं पृच्छ्यते त्वया ॥ ८२

राजोवाच

धर्माधर्मी न सन्देहस्सर्वकार्येषु कारणम् ।
 उपभोगनिमित्तं च देहादेहान्तरागमः ॥ ८३
 यस्त्वेतद्भवता प्रोक्तं सोऽहमित्येतदात्मनः ।
 वक्तुं न शक्यते श्रोतुं तन्ममेच्छा प्रवर्तते ॥ ८४

हे नृप ! जब उसके उपचय (वृद्धि), अपचय (क्षय) ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्तिसे कही कि 'तु मोटा है?' ॥ ७२ ॥ यदि क्रमशः पृथिवी, पाद, जंघा, कटि, ऊरु और उदरपर स्थित जन्तुोंपर सबी हुई यह शिबिका मेरे लिये भाररूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हो लिये भी तो हो सकती है? [क्योंकि ये पृथिवी आदि तो जैसे तुमसे पृथक् हैं वैसे ही मुझ आत्मासे भी सर्वथा भिन्न हैं] ॥ ७३ ॥ तथा इस युक्तिसे तो अन्य सम्पत्त जीवोंने भी केवल शिबिका ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पर्वत, वृक्ष, गृह और पृथिवी आदिका भार उठा सख हैं ॥ ७४ ॥ हे राजन् ! जब प्रकृतिजन्य कारणोंसे पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? ॥ ७५ ॥ और जिस द्रव्यसे यह शिबिका बनाई है उसीसे यह आपका मेरा भवता और सबका शरीर भी बना है: जिसमें कि ममत्वका आरोप किया हुआ है ॥ ७६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा कह वे द्विजक शिबिकाको धारण किये हुए ही मौन हो गये, और राजते भी तुला पृथिवीपर उतरकर उनके चरण पकड़ लिये ॥ ७७ ॥ राजा बोला—वहो द्विजराज ! इस शिबिकामें छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये । प्रभो ! कृपया बताइये, इस जडवेषको धारण किये आप कौन हैं? ॥ ७८ ॥ हे विद्वन् ! आप कौन हैं? किस निमित्तसे महों आपका आना हुआ? तथा आनेका क्या कारण है? यह सब मैंने भ्रूश्रुसे कहिये । मुझे आपके विषयमें सुननेकी बड़ी इच्छा हो रही है ॥ ७९ ॥

ब्राह्मण बोले—हे राजन् ! सुनो, मैं अमुक हूँ—यह बात कही नहीं जा सकती और तुमने जो मेरे यहाँ आनेका कारण पूछा सो आना-जाना आदि सभी क्रियाएँ कर्मफलके उपभोगके लिये ही हुआ करती हैं ॥ ८० ॥ सुख-दुःखका भोग ही देह आदिको प्राप्ति करानेवाला है तथा धर्माधर्मजन्य सुख-दुःखोंको भोगनेके लिये ही जीव देहादि धारण करता है ॥ ८१ ॥ हे भूपाल ! समस्त जीवोंकी सम्पूर्ण अवस्थाओंके कारण ये धर्म और अधर्म ही हैं, फिर विशेषरूपसे मेरे आगमनका कारण तुम क्यों पूछते हो? ॥ ८२ ॥

राजा बोला—अवश्य ही, समस्त कामोंमें धर्म और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफलके उपभोगके लिये ही एक देहसे दूसरे देहमें जाना होता है ॥ ८३ ॥ किन्तु आपने जो कहा कि 'मैं कौन हूँ—यह नहीं बताया जा सकता' इसी बातको सुननेकी मुझे इच्छा हो रही है ॥ ८४ ॥

योऽस्ति सोऽहमिति ब्रह्मन्कथं वक्तुं न शक्यते ।
आत्मन्येष न दोषाय शब्दोऽहमिति यो द्विज ॥ ८५

ब्राह्मण उवाच

शब्दोऽहमिति दोषाय नात्मन्येष तथैव तत् ।
अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्तिलक्षणः ॥ ८६

जिह्वा ब्रवीत्यहमिति दन्तोष्ठी तालुके नृप ।
एते नाहं यतः सर्वे साङ्गनिष्ठादनहेतवः ॥ ८७

किं हेतुभिर्वदत्येषा वागेवाहमिति स्वयम् ।
अतः पीवानसीत्येतद्भक्तुमित्थं न युज्यते ॥ ८८

पिण्डः पृथग्यतः पुंसः शिरःपाण्यादित्सङ्गणः ।
ततोऽहमिति कुत्रैतां संज्ञां राजन्करोम्यहम् ॥ ८९

यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिवसक्तम ।
तदैवोऽहमयं चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते ॥ ९०

यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थितः ।
तदा हि को भवान्सोऽहमित्येतद्विफलं वचः ॥ ९१

त्वं राजा शिबिका श्रेयमिमे साहः पुरःसराः ।
अयं च भवतो लोको न सदेतन्प्रीच्यते ॥ ९२

वृक्षादारु ततश्चेयं शिबिका त्वदधिष्ठिता ।
किं वृक्षसंज्ञा वास्याः स्थाद्दारुसंज्ञाय वा नृप ॥ ९३

वृक्षारूढो महाराजो नार्यं वदति ते जनः ।
न च दारुणि सर्वस्त्वां ब्रवीति शिबिकागतम् ॥ ९४

शिबिका दारुसङ्गतो रचनास्थितिसंस्थितः ।
अन्विष्यतां नृपश्रेष्ठ सद्भेदे शिबिक्य त्वया ॥ ९५

एषं छत्रशालाकानां पृथग्भावे विमृश्यताम् ।
‘क्व यातं छत्रमित्येष न्यायस्त्वधि तथा मधि ॥ ९६

पुमान् स्त्री गौरजो वाजी कुञ्जरो विहगस्तारुः ।
देहेषु लोकसंज्ञेयं विज्ञेया कर्महेतुषु ॥ ९७

पुमान् देवो न नरो न पशुर्न च पादपः ।
शरीरकृतिभेदास्तु भूषते कर्मद्योनयः ॥ ९८

हे ब्रह्मन्! 'जो है' [अर्थात् जो आत्मा कर्ता-
भीत्कारूपसे प्रतीत होता हुआ सदा सत्त्वरूपसे वर्तमान
है] वही मैं हूँ—ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे
द्विज! यह 'अहम्' शब्द दो आत्मामें किसी प्रकारके
दोषका कारण नहीं होता ॥ ८५ ॥

ब्राह्मण बोले—हे सबन्! तुमने जो कहा कि
'अहम्' शब्दसे आत्मामें कोई दोष नहीं आता सो ठीक
ही है, किन्तु अनात्मामें ही आत्मत्वका ज्ञान करानेवाला
भ्रान्तिमूलक 'अहम्' शब्द ही दोषका कारण है ॥ ८६ ॥
हे नृप! 'अहम्' शब्दका उच्चारण जिह्वा, दन्त, ओष्ठ
और तालुके ही होता है, किन्तु ये सब उस शब्दके
उच्चारणके कारण हैं, 'अहम्' (मैं) नहीं ॥ ८७ ॥ तो क्या
जिह्वादि कारणोंके द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपनेको 'अहम्'
कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थितिमें 'तू मोटा है' ऐसा
कहना भी ठीक नहीं है ॥ ८८ ॥ सिर तथा कर-चरणादिरूप
यह शरीर भी आत्मामें पृथक् ही है। अतः हे सबन्! इस
'अहम्' शब्दका मैं कहीं प्रयोग कर्क? ॥ ८९ ॥ तथा हे
नृपश्रेष्ठ! यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय
आत्मा हो तो भी 'यह मैं हूँ और यह अन्य है'—ऐसा
कहा जा सकता था ॥ ९० ॥ किन्तु, जब समस्त शरीरोंमें
एक ही आत्मा विराजमान है तब 'आम कौन हैं? मैं वह
हूँ।' ये सब वाक्य निष्फल ही हैं ॥ ९१ ॥

'तू राजा है, यह शिबिका है, ये सामने शिबिकावाहक
हैं तथा ये सब तेरी प्रजा हैं'—हे नृप! इनमेंसे कोई भी
वात परमार्थतः सत्य नहीं है ॥ ९२ ॥ हे रघुन्! वृक्षसे
लकड़ी हुई और उससे तैरो यह शिबिका गनी; तो क्या
इसे लकड़ी कहा जाय या वृक्ष? ॥ ९३ ॥ किन्तु 'महाराज
वृक्षपर बैठे हैं' ऐसा कोई नहीं कहता और न कोई लकड़ी
लकड़ीपर बैठा हुआ ही बताता है। सब लोग शिबिकामें
बैठा हुआ ही कहते हैं ॥ ९४ ॥ हे नृपश्रेष्ठ! रचनाविशेषमें
स्थिता लक्ष्मियोंका समूह ही तो शिबिका है। यदि वह
उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठको अलग करके
इसे दूँगे ॥ ९५ ॥ इसी प्रकार छत्रकी शलाकाओंको अलग
रखकर छत्रका विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही
न्याय तुममें और मुझमें लागू होता है [अर्थात् मेरे और
तुम्हारे शरीर भी पंचभूतसे अतिरिक्त और कोई वस्तु
नहीं हैं] ॥ ९६ ॥ पुरुष, स्त्री, गौ, अज (बकरा), अश्व,
गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओंका
प्रयोग कर्महेतुके शरीरोंमें ही जानना चाहिये ॥ ९७ ॥ हे
राजन्! पुरुष (जीव) तो न देवता हैं, न मनुष्य हैं, न पशु
हैं और न वृक्ष हैं। ये सब तो कर्मजन्य शरीरोंकी
आकृतियोंके ही भेद हैं ॥ ९८ ॥

वस्तु राजेति यस्त्वोक्ते यच्च राजभटात्मकम् ।
 तथान्वच्च नृपेर्त्थं तन्न सत्सङ्कल्पनामयम् ॥ १९
 यत्तु कालान्तरेणापि नान्यां संज्ञामुपैति वै ।
 परिणामादिसम्भूतां तद्वस्तु नृप तच्च किम् ॥ २० ॥
 त्वं राजा सर्वलोकस्य पितुः पुत्रो रिपो रिपुः ।
 फत्याः पतिः पिता सूनोः किं त्वां भूष वदाम्यहम् ॥ २०१
 त्वं किमेतच्छ्रमः किं नु ग्रीवा तव तथोदरम् ।
 किमु पादादिकं त्वं वा तवैतत्किं महीपते ॥ २०२
 समस्तावयवेभ्यस्त्वं पृथाभूय व्यवस्थितः ।
 क्रोड्धर्मित्यत्र विपुणो भूत्वा चिन्तय पार्श्विष ॥ २०३
 एवं व्यवस्थिते तत्पदे मयाहमिति भाषितुम् ।
 पृथक्करणनिष्पाद्यं शक्यते नृपते कथम् ॥ २०४

लोकमें धन, राजा, राजाके सैनिक तथा और भी जो-जो वस्तुएँ हैं, हे राजन् ! वे परमार्थतः सत्य नहीं हैं, केवल कल्पनामय ही हैं ॥ १९ ॥ जिस वस्तुको परिणामादिके कारण होनेवाली कोई संज्ञा कालान्तरमें भी नहीं होती, वही परमार्थ-वस्तु है। हे राजन् ! ऐसी वस्तु कौन-सी है ? ॥ २०० ॥ [तु अपनेलोकों देख] समस्त पत्राके लिये तू राजा है, पिताके लिये पुत्र है, ऋतुके लिये शत्रु है, पत्नीका पति है और नृपका पति है। हे राजन् ! बतला, मैं तुझे क्या कहूँ ? ॥ २०१ ॥ हे महीपते ! तू क्या यह सिर है, अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पादादिमेंसे कोई है ? तथा ये सिर आदि भी 'तेरे' क्या हैं ? ॥ २०२ ॥ हे पृथिवीेश्वर ! तू इन समस्त अवयवोंसे पृथक् है; अब सातधान होकर विचार कि 'मैं कौन हूँ' ॥ २०३ ॥ हे महाराज ! आत्मतत्त्व इस प्रकार व्यवस्थित है। उसे सबसे पृथक् करके ही बताया जा सकता है। तो फिर मैं उसे 'आहम्' शब्दसे कैसे बतला सकता हूँ ? ॥ २०४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयोऽङ्कः त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चौदहवाँ अध्याय

जहभरत और सौवीरनेशका संवाद

श्रीपराशर उवाच

निशम्य तस्येति वचः परमार्थसमन्वितम् ।
 प्रश्नवाचनतो भूत्वा तमाह नृपतिर्द्विजम् ॥ १
 राजोवाच
 भगवन्वत्त्वया प्रोक्तं परमार्थमयं वचः ।
 श्रुते तस्मिन्भ्रमन्तीव मनसो मम वृत्तयः ॥ २
 एतद्विवेकविज्ञानं अदशेषेषु जन्तुषु ।
 भवता दर्शितं विभ्र तत्परं प्रकृतेर्महत् ॥ ३
 नाहं बहमि शिबिकां शिबिका न मथि स्थिता ।
 शरीरमन्वदस्मत्तो येनेयं शिबिका घृता ॥ ४
 गुणप्रवृत्त्या भूतानां प्रवृत्तिः कर्मचोदिता ।
 प्रवर्तन्ते गुणा ह्येते किं मपैति त्वयोदितम् ॥ ५
 एतस्मिन्परमार्थज्ञ मम श्रोत्रपथं गते ।
 मनो विह्वलतामेति परमार्थार्थितां यतम् ॥ ६

श्रीपराशरजी बोले—उनके से परमार्थमय वचन सुनकर सबाने विनयावगत होकर उन विप्रवसे कहः ॥ १ ॥

राजा बोले—भगवन् ! आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियाँ भ्रान्त-सी हो गयी हैं ॥ २ ॥ हे विप्र ! आपने सम्पूर्ण जीवोंमें ज्ञान जिस असंग विज्ञानका दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृतिसे परे ब्रह्म ही है [इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है] ॥ ३ ॥ परंतु आपने जो कहा कि मैं शिबिकाको वहन नहीं कर रहा हूँ, शिबिका परे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यन्त पृथक् है। जीवोंकी प्रवृत्ति गुणों (शक्त, रस, तम) की प्रेरणासे होती है और गुण कर्मोंसे प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं—इसमें मेरा कतृत्व कैसे माना जा सकता है ? ॥ ४-५ ॥ हे परमार्थज्ञ ! यह बात मेरे कानोंमें पड़ती ही मेरा मन परमार्थकी जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है ॥ ६ ॥

पूर्वमेव महाभागं कपिलर्षिमहं द्विज ।
 प्रद्युम्नभ्युद्यतो गत्वा श्रेयः किं त्वत्र शंस मे ॥ ७
 तदन्तरे च भवता यदेतद्वाक्यमीरितम् ।
 तेनैव परमार्थार्थं त्वयि चेतः प्रधावति ॥ ८
 कपिलर्षिर्भगवतः सर्वभूतस्य वै द्विज ।
 विष्णोरंशो जगन्मोहनाशायोर्वीमुपागतः ॥ ९
 स एव भगवान् नूनमस्माकं हितकाम्यया ।
 प्रत्यक्षतामत्र गतो यथैतद्भवतोच्चते ॥ १०
 तन्मह्यं प्रणतय त्वं चक्ष्रेयः परमं द्विज ।
 तद्गदाखिलाधिज्ञानजलवीच्युदधिर्भवान् ॥ ११

ब्राह्मण उवाच

भूप पृच्छसि किं श्रेयः परमार्थं नु पृच्छसि ।
 श्रेयांस्यपरमार्थानि अंशेषाणि च भूपते ॥ १२
 देवताराधनं कृत्वा धनसम्पदमिच्छति ।
 पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रेयस्तस्यैव सन्तुष ॥ १३
 कर्म यज्ञात्मकं श्रेयः फलं स्वर्गात्तिलक्षणम् ।
 श्रेयः प्रधानं च फले तदेवानभिसंहिते ॥ १४
 आत्मा ध्येयः सदा भूप योगयुक्तैस्तथा परम् ।
 श्रेयस्तस्यैव संयोगः श्रेयो यः परमात्मनः ॥ १५
 श्रेयांस्येवमनेकानि शतशोऽथ सहस्रशः ।
 सन्त्यत्र परमार्थस्तु न त्वेते श्रूयतां च मे ॥ १६
 धर्माय त्वज्यते किन्तु परमार्थो धनं यदि ।
 स्वयश्च क्रियते कस्मात्कामप्राप्त्युपलक्षणः ॥ १७
 पुत्रश्रेयश्चरमार्थः स्यात्सोऽप्यन्यस्य नरेश्वर ।
 परमार्थभूतः सोऽन्यस्य परमार्थो हि तत्पिता ॥ १८
 एवं न परमार्थोऽस्ति जगत्स्मिञ्चराचरे ।
 परमार्थो हि कार्याणि कारणानामशेषतः ॥ १९
 राज्यादिप्राप्तिरत्रोक्ता परमार्थतया यदि ।
 परमार्थो भयन्त्यत्र न भवन्ति च वै ततः ॥ २०
 ऋग्यजुःसामनिष्ठाद्यं यज्ञकर्म मतं तव ।
 परमार्थभूतं तत्रापि श्रूयतां गदतो मम ॥ २१

हे द्विज! मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनिसे यह पूछनेके लिये कि वताइये 'संसारमें मनुष्योंका श्रेय किममें है' उनके पास जानेको तत्पर हुआ हूँ ॥ ७ ॥ किन्तु यांचहीमें, आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ-क्षण करनेके लिये आपकी ओर झुक गया है ॥ ८ ॥ हे द्विज! ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान् विष्णुके ही अंश हैं। इन्होंने संसारकर मोह दूर करनेके लिये ही पृथिवीपर अवतार लिया है ॥ ९ ॥ किन्तु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उसमें मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान् कपिलदेव में हितकी कापनासे यहाँ आगके रूपमें प्रकट हो गये हैं ॥ १० ॥ अतः हे द्विज! हमारा जो परम श्रेय ही वह आप भूय विनीतसे कहिये; हे प्रभो! आप सम्पूर्ण विज्ञान-तरंगोंका मारो समुद्र ही हैं ॥ ११ ॥

ब्राह्मण बोले—हे राजन्! तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते! श्रेय जो सब अपारपार्थिक ही है ॥ १२ ॥ हे भूप! जो पुरुष देवताओंकी आराधना करके धन, सम्पत्ति, पुत्र और राज्यादिकी इच्छा करता है उसके लिये तो वे ही परम श्रेय हैं ॥ १३ ॥ जिसका फल स्वर्गलोककी प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है; किन्तु प्रधान श्रेय तो उसके फलको इच्छा न करनेमें ही है ॥ १४ ॥ अतः हे राजन्! योगयुक्त पुरुषोंको प्रकृति आदिसे अतीत उस आत्मका ही ध्यान करना चाहिये, क्योंकि उस परमात्मका संयोगरूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है ॥ १५ ॥

इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों-हजारों प्रकारके अनेकों हैं, किन्तु ये सब परमार्थ नहीं हैं। अब जो परमार्थ है सो सुनो— ॥ १६ ॥ यदि धन ही परमार्थ है तो धर्मके लिये उसका त्याग क्यों किया जाता है? तथा इच्छित भोगोंकी प्राप्तिके लिये उसका व्यय क्यों किया जाता है? [अतः वह परमार्थ नहीं है] ॥ १७ ॥ हे नरेश्वर! यदि पुत्रको परमार्थ कहा जाय तो वह तो अन्य (अपने पिता)-का परमार्थभूत है, तथा उसका पिता भी दूसरेका पुत्र होनेके कारण उस (अपने पिता)-का परमार्थ होगा ॥ १८ ॥ अतः इस धराधर जगत्में पिताका कार्यरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है। क्योंकि फिर तो सभी कारणोंके कार्य परमार्थ हो जायेंगे ॥ १९ ॥ यदि संसारमें राज्यादिकी प्राप्तिको परमार्थ कहा जाय तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते। अतः परमार्थ भी आगमापायी हो जायगा! [इसलिये राज्यादि भी परमार्थ नहीं हो सकते] ॥ २० ॥ यदि ऋक्, यजुः और सामरूप वेदब्रह्मसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञकर्मको परमार्थ मानते हो तो उसके विषयमें मेरा ऐसा विचार है— ॥ २१ ॥

यत्तु निष्पाद्यते कार्यं मृदा कारणभूतया ।
 तत्कारणानुगमनान्ज्ञाद्यते नृप मृण्मयम् ॥ २२
 एवं विनाशिभिर्द्रव्यैः समिदाज्यकुशादिभिः ।
 निष्पाद्यते क्रिया या तु सा भवित्री विनाशिनी ॥ २३
 अनाशी परमार्थश्च प्राज्ञैरभ्युपगम्यते ।
 तत्तु नाशि न सन्देहे नाशिद्रव्योपपादितम् ॥ २४
 तदेवाफलदं कर्म परमार्थो मतस्तत्र ।
 मुक्तिसाधनभूतत्वात्परमार्थो न साधनम् ॥ २५
 ध्यानं चैवात्मनो भूप परमार्थार्थज्ञाद्यितम् ।
 भेदकारि परेभ्यस्तु परमार्थो न भेदवान् ॥ २६
 परमात्मात्मनोर्योगः परमार्थ इतीध्यते ।
 मिथ्यैतदन्यद्व्यस्यं हि नैति तदद्रव्यतां यतः ॥ २७
 तस्माच्छ्रेयांस्यशेषाणि नृपैतानि न संशयः ।
 परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपाच्छ्रूयतां मम ॥ २८
 एको ध्यायी सप्तः शुद्धो निर्गुणः प्रकृतेः परः ।
 जन्मवृद्ध्यादिरहित आत्मा सर्वगतोऽज्ययः ॥ २९
 परज्ञानमघोऽमद्भिर्नामजात्यादिभिर्विभुः ।
 न योगवान् युक्तोऽभून्नैव पार्श्वि च योष्यते ॥ ३०
 तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत् ।
 विज्ञानं परमार्थोऽसी द्वैतिनोऽतश्च्यदर्शिनः ॥ ३१
 वेणुरन्ध्रप्रभेदेन भेदः षड्जादिसंज्ञितः ।
 अभेदध्यापिनो वायोस्तथास्य परमात्मनः ॥ ३२
 एकस्वरूपभेदश्च बाह्यकर्मप्रवृत्तिजः ।
 देवादिभेदेऽप्यध्यस्ते नास्थेवावरणे हि सः ॥ ३३

हे नृप! जो वस्तु कारणरूपा प्रतिकारका कार्य होती है वह कारणकी अनुगामिनी होनेसे प्रतिकारक ही बनी जाती है ॥ २२ ॥ अतः जो क्रिया समिध, घृत और कुशा आदि नाशवान् द्रव्योंसे सम्पन्न होती है वह भी नाशवान् ही होगी ॥ २३ ॥ किन्तु परमार्थको तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी चतलाते हैं और नाशवान् द्रव्योंसे विष्पन्न होनेके रूप कर्म [अथवा उनसे विष्पन्न होनेवाले स्वर्गादि] नाशवान् ही हैं—इसमें सन्देह नहीं ॥ २४ ॥ यदि फलाशसे रहित निष्कारकर्मको परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्तिरूप फलका साधन होनेसे साधन ही है, परमार्थ नहीं ॥ २५ ॥ यदि देहादिसे आत्मका पार्थक्य विचारकर उसके धार करनेको परमार्थ कहा जाय तो वह तो अनात्मसे आत्मका भेद करनेवाला है और परमार्थमें भेद है नहीं [अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता] ॥ २६ ॥ यदि परमात्मा और जीवात्माके संयोगको परमार्थ कहें तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्यसे अन्य द्रव्यको एकता कभी नहीं हो सकती* ॥ २७ ॥

अतः हे राजन्! निःसन्देह ये सब श्रेय ही हैं, [परमार्थ नहीं] अथ जो परमार्थ है वह मैं संक्षेपसे सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥ २८ ॥ आत्मा एक, व्यापक, सप्त, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृतिसे परे है; वह जन्म-वृद्धि आदिसे रहित, सर्वव्यापी और अज्यय है ॥ २९ ॥ हे राजन्! वह परम ज्ञानमय है, असत् नाम और जाति आदिसे उस सर्वव्यापकका संयोग न कभी हुआ, न है और न होगा ॥ ३० ॥ 'वह, अपने और अन्य प्राणियोंके शरीरमें विद्यमान रहते हुए भी, एक ही है'—इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है; इसी भावनावाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी हैं ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार अभिन्न भावसे व्याप्त एक ही वायुके बँसुरीके छिद्रोंके भेदसे षड्ज आदि भेद होते हैं उसी प्रकार [शरीरादि उपाधियोंके कारण] एक ही परमात्माके [देवता-मनुष्यादि] अनेक भेद प्रतीत होते हैं ॥ ३२ ॥ एकस्व आत्मके ही जन्म भेद हैं ये बाह्य देहादिकी कर्मप्रवृत्तिके कारण ही हुए हैं । देवादि शरीरोंके भेदका निराकरण हो जानेपर वह नहीं रहता । इसकी स्थिति तो अविद्याके आवरणतक ही है ॥ ३३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽंशे यतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

* अर्थात् यदि आत्मा परमात्मसे भिन्न है तब तो नी और शरीरके समान उनकी एकता हो नहीं सकती और यदि मिथ्य-प्रतिबिम्बकी भाँति अभिन्न है तो उपाधोंके निराकरणके अतिरिक्त और उनका संयोग ही क्या होगा ?

पन्द्रहवाँ अध्याय

ऋभुका निदाघको अद्वैतज्ञानोपदेश

श्रीपरशुराम उवाच

इत्युक्ते मौनिनं भूयश्चिन्तयानं महिपतिम् ।
प्रत्युवाचाथ विप्रोऽसावद्वैतान्तर्गतां कथाम् ॥ १

ब्राह्मण उवाच

श्रूयतां नृपशार्दूल यद्गीतमृभुणा पुरा ।
अवबोधं जनयता निदाघस्य महात्मनः ॥ २
ऋभुर्नामाऽभवत्पुत्रो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ।
धिज्ञाततत्त्वसद्भावो निसर्गादेश भूपते ॥ ३
तस्य शिष्यो निदाघोऽभूत्पुलस्त्यतनयः पुरा ।
प्रादादशेषधिज्ञानं स तस्मै परया मुदा ॥ ४
असाप्तज्ञानतन्त्रस्य न तस्याद्वैतवासान्ना ।
स ऋभुस्तर्कयापास निदाघस्य नरेश्वर ॥ ५
देविकायास्तटे क्षीरनगरे नाम वै पुरम् ।
समृद्धमतिरम्यं च पुलस्त्येन निवेशितम् ॥ ६
रम्योपवनपर्यन्ते स तस्मिन्पाश्चिद्योत्तम ।
निदाघो नाम योगज्ञ ऋभुशिष्योऽवसत्पुरा ॥ ७
दिव्ये वर्षसहस्रे तु समतीतेऽस्य तत्पुरम् ।
जगाम स ऋभुः शिष्यं निदाघमवलोककः ॥ ८
स तस्य क्षेशदेवान्ने द्वारालोकनगोचरे ।
स्थितस्तेन गृह्येताभ्यां निजवेश्म प्रवेशितः ॥ ९
प्रक्षालिताङ्घ्रिपाणिं च कृतासनपरिग्रहम् ।
उवाच स द्विजश्रेष्ठो भुज्यतामिति सादरम् ॥ १०

ऋभुरुवाच

धो विप्रवर्यं भोक्तव्यं यदन्नं भवतो गृहे ।
तत्कथ्यतां कदन्नेषु न प्रीतिः सततं मम ॥ ११

निदाघ उवाच

सक्तुषावकवाटशानामपूपानां च मे गृहे ।
यद्रोक्षते द्विजश्रेष्ठ तत्त्वं भुङ्क्ष्व यथेच्छया ॥ १२

ऋभुरुवाच

कदन्नानि द्विजैतानि मृष्टमन्नं प्रयच्छ मे ।
संथावपायसादीनि द्रव्यफणितवन्नि च ॥ १३

श्रीपराशरजी बोले—हे मंत्रिय। ऐसा कहनेपर, राजाको धीन होकर मन-ही-मन सोच-विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत-सम्बन्धी कथा सुनाने लगे ॥ १ ॥

ब्राह्मण बोले—हे राजशार्दूल! पूर्वकालमें महर्षि ऋभुने महात्मा निदाघको उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुने ॥ २ ॥ हे भूपते! परमेष्ठी श्रीब्रह्माजीका ऋभु नामक एक पुत्र था, वह स्वभावसे ही परपार्थत्वबन्धे जाननेवाला था ॥ ३ ॥ पूर्वकालमें महर्षि पुलस्त्यका पुत्र निदाघ उन ऋभुका शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर सम्पूर्ण तत्त्वज्ञानत्र उपदेश दिया था ॥ ४ ॥ हे नरेश्वर। ऋभुने देखा कि सम्पूर्ण शास्त्रीका ज्ञान होने हुए भी निदाघकी अद्वैतमें निष्ठा नहीं है ॥ ५ ॥

उस समय देविकानदीके तीरपर पुलस्त्यजीका बसाया हुआ क्षीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि-सम्पन्न नगर था ॥ ६ ॥ हे गार्धिवीत्तम! रम्य उपवनसे सुशोभित उस पुरमें पूर्वकालमें ऋभुका शिष्य योग्येता निदाघ रहता था ॥ ७ ॥ महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघको देखनेके लिये एक सहस्र दिव्यवर्ष बीतनेपर उस नगरमें गये ॥ ८ ॥ जिस समय निदाघ अलिखितदेवके अनन्तर अपने द्वारपर [अतिथियोंकी] प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वारपर पहुँच अव्यदानपूर्वक अपने घरमें ले गया ॥ ९ ॥ उस द्विजश्रेष्ठने उनके साथ-पैर धुलाने और फिर आसनपर बिठाकर आदरपूर्वक कहा—'भोजन कीजिये' ॥ १० ॥

ऋभु बोले—हे विप्रवर! आपके यहाँ क्या-क्या अन्न भोजन करना होगा—यह बताइये, क्योंकि कुत्सित अन्नमें मेरी रुचि नहीं है ॥ ११ ॥

निदाघने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ! मेरे घरमें सप्प, जीकी लप्सी, कन्द-मूल-फलादि तथा पूष वने हैं। आपकी इत्तमेंसे जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिये ॥ १२ ॥

ऋभु बोले—हे द्विज। ये तो सभी कुत्सित अन्न हैं, मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मद्य और खाँड़से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ ॥ १३ ॥

निदाम उवाच

हे हे शालिनि मद्दोहे यत्किञ्चिदतिशोभनम् ।
भक्ष्योपसाधनं मृष्टं तेनास्यान् प्रसाधय ॥ १४

ब्राह्मण उवाच

इत्युक्त्वा तेन सा पत्नी मृष्टमन्नं द्विजस्य यत् ।
प्रसाधितवती तद्वै भर्तुर्बचनगौरवात् ॥ १५
तं भुक्तवन्तमिच्छातो मृष्टमन्नं महामुनिम् ।
निदाघः प्राह भूपाल प्रक्षयावनतः स्थितः ॥ १६

निदाघ उवाच

अपि ते परमा तृप्तिरुत्पन्ना तुष्टिरेव च ।
अपि ते मानसं स्वस्थमाहारेण कृतं द्विज ॥ १७
एव निवासो भवात्प्रियवक्ष्ये च गन्तुं समुद्यतः ।
आगम्यते च भवता यतस्तच्च द्विजोच्यताम् ॥ १८

ऋभुःकथय

क्षुद्यस्य तस्य भुक्तेऽग्ने तृप्तिर्ब्राह्मण जायते ।
न मे क्षुन्नाभवत्तृप्तिः कस्मान्मां परिपृच्छसि ॥ १९
शालिना पार्थिवे धातो क्षपिते क्षुत्समुद्भवः ।
भवत्यम्भसि च क्षीणे नृणां तृडपि जायते ॥ २०
क्षुपृष्णे देहधर्माच्छ्रे न ममैते यतो द्विज ।
ततः क्षुत्सम्भवाभावात्तृप्तिरस्त्येव ये सदा ॥ २१
मनसः स्वस्थता तुष्टिश्चित्तधर्माविर्षा द्विज ।
घेतसो यस्य तत्पृच्छ मुमानेभिर्न युज्यते ॥ २२
एव निवासस्तत्प्रेत्युक्तं एव गन्तसि च यत्त्वया ।
कुतश्चागम्यते तत्र श्रितयेऽपि निबोध मे ॥ २३
मुमान्सर्वगतो व्यापी आकाशवदयं यतः ।
कुतः कुत्र एव गन्तासीत्येतदप्यर्थवत्कथम् ॥ २४
सोऽहं गन्ता न घागन्ता वैकदेशनिकेतनः ।
त्वं चान्ये च न ए त्वं च नान्ये नैवाह्मण्यहम् ॥ २५
मृष्टं न मृष्टमप्येषा जिज्ञासा मे कृता तव ।
किं वक्ष्यसीति तत्रापि श्रूयतां द्विजसत्तम ॥ २६
किमस्वाद्व्यथ वा मृष्टं भुञ्जतोऽस्ति द्विजोत्तम ।
मृष्टमेव यदा मृष्टं तदेवोद्वेगकारकम् ॥ २७

तव निदाघने [अपनी रखीसे] कह्य—हे गृहदेवि! हमारे घरमें जो अच्छों-से-अच्छों वस्तु हो उसीसे इनके लिये आति स्वादिष्ट भोजन बनओ ॥ १४ ॥

ब्राह्मण (जडभरत)-ने कहा—उभके ऐसा कहनेपर उसको पत्नीने अपने पतिको आज्ञासे उन विप्रवले लिये आति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया ॥ १५ ॥

हे राजन्! ऋभुके यथेच्छ भोजन कर चुकनेपर निदाघने अति विनीत होकर उन ब्रह्ममुनिसे कहा ॥ १६ ॥

निदाघ बोले—हे द्विज! कहिये भोजन कबके आपका चित्त स्वस्थ हुआ न? आप पूर्णतया तृप्त और सन्तुष्ट हो गये न? ॥ १७ ॥ हे विप्रवर! कहिये अब कहीं रहनेवाले हैं? कहीं जानिकी तैयारीमें हैं? और कहींसे मधुर हैं? ॥ १८ ॥

ऋभु बोले—हे ब्राह्मण! जिसको क्षुधा लगती है उसकी तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्तिके विषयमें तुम क्या पूछो हो? ॥ १९ ॥ बटरामनिके द्वारा पार्थिव (वेस) घातुआकि क्षीण हो जानेसे मनुष्यको शूद्राको प्रतीति होती है और जलके क्षीण होनेसे तृणाका अनुभव होता है ॥ २० ॥ हे द्विज! ये क्षुधा और तृणा तो देखके ही धर्म हैं, मेरे नहीं; अतः कभी क्षुधित न होनेके कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ ॥ २१ ॥ स्वस्थता और तृप्ति भी मनहीमें होते हैं, अतः वे मनहीके धर्म हैं; पुरुष (आत्मा)-से इतका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये हे द्विज। ये जिसके धर्म हैं उसीसे इनके विषयमें पूछें ॥ २२ ॥ और तुमने जो पूछा कि 'आप कहीं रहनेवाले हैं? कहीं जा रहे हैं? क्या कहाँसे आये हैं?' सो इन तीनोंके विषयमें मेरा या तुनां— ॥ २३ ॥ आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाशके समान व्यापक है; अतः 'कहाँसे आये हो, कहीं रहते हो और कहीं जाओगे?' यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? ॥ २४ ॥ मैं तो न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक स्थानपर रहता हूँ। [तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहादिके कारण जैसे पृथक्-पृथक् दिखायी देते हैं वास्तवमें वेसे नहीं हैं] वस्तुतः तू तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं मैं नहीं हूँ ॥ २५ ॥

वास्तवमें मधुर पधुर है भी नहीं; देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्नको याचना की थी उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि 'तुम क्या कहते हो?' हे द्विजश्रेष्ठ! भोजन करनेवालेके लिये स्वादु और अस्वादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ हो जब समयानुसारे अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है ॥ २६-२७ ॥

अमृष्टं जायते मृष्टं मृष्टाद्दुद्धिजते जनः ।
 आदिमध्यावसानेषु किमनं रुचिकारकम् ॥ २८
 मृण्मयं हि गृहं यद्वन्मृदा लिप्तं स्थिरं भवेत् ।
 पार्थिवोऽयं तथा देहः पार्थिवैः परमाणुभिः ॥ २९
 यवगोधूममुद्गादि घृतं तैलं पयो दधि ।
 गुडं फलादीनि तथा पार्थिवाः परमाणवः ॥ ३०
 तदेतद्धवता ज्ञात्वा मृष्टामृष्टविचारि यत् ।
 तन्मनस्समतालम्बि कार्यं साम्यं हि मुक्तये ॥ ३१

ब्राह्मण उवाच

इत्याकर्ण्य वचस्तस्य परमार्थाश्रितं नृप ।
 प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यमब्रवीत् ॥ ३२
 प्रसीद भद्रिदार्थाय कथ्यतां चत्त्वमागतः ।
 नष्टो मोहस्तवाकर्ण्य वचांस्पेतानि मे द्विज ॥ ३३

ऋभुरव्यय

ऋभुरस्मि तवाचार्यः प्रज्ञादानाय ते द्विज ।
 इहागतोऽहं यास्यामि परमार्थस्तवोदितः ॥ ३४
 एवमेकमिदं विद्धि न भेदि सकलं जगत् ।
 वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्मनः ॥ ३५

ब्राह्मण उवाच

तथेत्युक्त्वा निदाघेन प्रणिपातपुरःसरम् ।
 पूजितः परया भक्त्या इच्छातः प्रययावृभुः ॥ ३६

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयोऽंशे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

सोलहवाँ अध्याय

ऋभुकी आज्ञासे निदाघका अपने घरको लौटना

ब्राह्मण उवाच

ऋभुर्बर्षसहस्रे तु समतीते नरेश्वर ।
 निदाघज्ञानदानाय तदेव नगरं ययौ ॥ १
 नगरस्य बहिः सोऽथ निदाघं ददृशे मुनिः ।
 महाबलपरीवारे पुरं विशति पार्थिवे ॥ २

इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थोंसे मनुष्यको उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन-सा है जो आदि, मध्य और अन्त तीनों कालमें रुचिकर ही हो ? ॥ २८ ॥ किस प्रकार पिट्टीका घर मिट्टीसे लीपने-पोतनेसे दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्तके परमाणुओंसे पुष्ट हो जाता है ॥ २९ ॥ जी, गेहूँ, धूप, घृत, तैल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। [इन्मेंसे किसको ख्याद कहें और किसको अस्याद ?] ॥ ३० ॥ अतः ऐसा जगनकर तुम्हें इस स्वादु-अस्यादुका विचार करनेवाले चित्तको समदर्शी बनाना चाहिये, क्योंकि मोक्षका एकमात्र उपाय समता ही है ॥ ३१ ॥

ब्राह्मण बोले—हे राजन्! उनके ऐसे परमार्थमय जवन सुनकर महाभाग निदाघने उन्हें प्रणाम करके कहा— ॥ ३२ ॥ "प्रभो! आप प्रसन्न होइये। कृपया कृपयाहिये, मेरे कल्याणकी कापनासे आये हुए आप कौन हैं ? हे द्विज! आपके इन वचनोंको सुनकर मेरा सम्पूर्ण मोह नष्ट हो गया है" ॥ ३३ ॥

ऋभु बोले—हे द्विज! मैं तेरा गुरु ऋभु हूँ, तुझको सदसद्विवेकिनी युद्ध प्रदान करनेके लिये मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ; जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह ही दिया है ॥ ३४ ॥ इस परमार्थतत्त्वका विचार करते हुए तू इस सम्पूर्ण जगत्को एक वासुदेव परमब्रह्माणुका स्वरूप जान; इसमें भेद-भाव शिलकुल नहीं है ॥ ३५ ॥

ब्राह्मण बोले—तदनन्तर निदाघने 'बहुत अच्छा' कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्तिपूर्वक पूजित हो ऋभु स्नेच्छानुसार चले गये ॥ ३६ ॥

ब्राह्मण बोले—हे नरेश्वर! तदनन्तर सहस्र वर्ष व्यतीत होनेपर महर्षि ऋभु निदाघको ज्ञानोपदेश करनेके लिये फिर उसी नगरको गये ॥ १ ॥ वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि वहाँका राजा बहुत-सी सेना आदिके साथ बड़ी घूम-घावसे नगरमें प्रवेश कर

दूरे स्थितं महाभागं जनसम्मर्दवर्जकम् ।
शुक्लामकण्ठमायान्तरण्यात्सप्तमित्कुशम् ॥ ३

दृष्ट्वा निदाघं स ऋभुरुपगम्याभिवाद्य च ।
उवाच कस्मादेकान्तो स्थीयते भवता द्विज ॥ ४

निदाघ उवाच

भो विप्र जनसम्मर्दो महाप्रेष परेश्वरः ।
प्रविशिक्षुः पुरं रथं तेनात्र स्थीयते मया ॥ ५

ऋभुरुवाच

नराधिपोऽत्र कतपः कतमश्चेतरो जनः ।
कथ्यतां मे द्विजश्रेष्ठ त्वमभिज्ञो मतो मम ॥ ६

निदाघ उवाच

योऽयं गजेन्द्रमुन्मत्तमद्रिशृंगसमुच्चितम् ।
अधिरूढो नरेन्द्रोऽयं परिलोकस्तथेतरः ॥ ७

ऋभुरुवाच

एतो हि गजराजानो युगपदर्शितो मम ।
भवता न विशेषेण पृथक्चिह्नोपलक्षणां ॥ ८
तत्कथ्यतां महाभाग विशेषो भवतानयोः ।
ज्ञातुमिच्छाम्यहं कोऽत्र गजः को वा नराधिपः ॥ ९

निदाघ उवाच

गजो योऽयमथो ब्रह्मन्पुपयस्यैष भूपतिः ।
वाह्यवाहकसम्बन्धं को न जानाति वै द्विज ॥ १०

ऋभुरुवाच

जानाम्यहं यथा ब्रह्मास्तथा मामवबोधय ।
अधःशब्दनिगद्यं हि किं शीर्ष्वमभिधीयते ॥ ११

ब्राह्मण उवाच

इत्युक्तः सहसाराह्य निदाघः प्राह तपुभूम् ।
श्रूयतां कथयाम्येष यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ १२
उपर्यहं यथा राजा स्वमथः कुञ्जरो यथा ।
अवबोधय ते ब्रह्मन्दृष्टान्तो दर्शितो मया ॥ १३

ऋभुरुवाच

त्वं राजेव द्विजश्रेष्ठ स्थितोऽहं गजवद्यदि ।
तदेतत्त्वं समाचक्ष्व कतमस्तत्त्वमहं तथा ॥ १४

रहा हैं और वनसे कुशा तथा समिध लेकर आया हुआ महाभाग निदाघ जगसमूहसे हटकर भूखा-प्यासी दूर खड़ा है ॥ २-३ ॥

निदाघको देखकर ऋभु उसके निकट गये और उसका अभिवादन करके बोले—'हे द्विज! यहाँ एकलतमें आप कैसे खड़े हैं' ॥ ४ ॥

निदाघ बोले—हे विप्रवर! आज इस आदि २५वीं तक नगरमें राजा जाना चाहता है, सो भागमें बड़ी पीड़ हो रही है; इसलिये मैं यहाँ खड़ा हूँ ॥ ५ ॥

ऋभु बोले—हे द्विजश्रेष्ठ! मासूम होता है आप यहाँको सब बातें जानते हैं। अतः कहिये इसमें राजा कौन है? और अन्य पुरुष कौन है? ॥ ६ ॥

निदाघ बोले—४४ जो पर्वतके समान ऊँचे मत गजराजपर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा इसके लीग परिलेन है ॥ ७ ॥

ऋभु बोले—आपने राजा और गज, दोनों एक साथ ही दिखाये, किंतु इन दोनोंके पृथक्-पृथक् विशेष चिह्न अथवा लक्षण नहीं बतलाये ॥ ८ ॥ अतः हे महाभाग! इन दोनोंमें क्या क्या विशेषताएँ हैं, यह बतलाइये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है? ॥ ९ ॥

निदाघ बोले—इतनी जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज! इन दोनोंका बाह्य-वाहक-सम्बन्ध है—इस बातको कौन नहीं जानता? ॥ १० ॥

ऋभु बोले—[ठीक है, किन्तु] हे ब्रह्मन्! मुझे इस प्रकार स्पष्टाइये, जिससे मैं यह जान सकूँ कि 'नीचे' इतने शब्दका वाच्य क्या है? और 'ऊपर' किससे कहते हैं? ॥ ११ ॥

ब्राह्मणने कहा—ऋभुके ऐसा कहनेपर निदाघने एकस्मात् उनके ऊपर चढ़कर कहा—'सुनिये, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ— ॥ १२ ॥ इस समय राजाकी भाँति मैं तो ऊपर हूँ और गजकी भाँति आप नीचे हैं। हे ब्रह्मन्! आपको समझानेके लिये ही मैंने यह दृष्टान्त दिखाया है' ॥ १३ ॥

ऋभु बोले—हे द्विजश्रेष्ठ! यदि आप राजाके समान हैं और मैं गजके समान हूँ तो यह ब्रह्मवे कि आप कौन हैं? और मैं कौन हूँ? ॥ १४ ॥

ब्राह्मण उवाच

इत्युक्तः सत्वरं तस्य प्रगृह्य चरणानुभौ ।
निदाघस्त्वाह भगवानाचार्यस्त्वभुभुर्धुवम् ॥ १५ ॥
चान्यस्याद्वैतसंस्कारसंस्कृतं मानसं तथा ।
यथाचार्यस्य तेन त्वां मन्ये प्राप्तमहं गुरुम् ॥ १६ ॥

ऋभु उवाच

तवोपदेशदानाय पूर्वशुश्रूषणादतः ।
गुरुस्नेहादुभुनाम निदाघ समुपागतः ॥ १७ ॥
तदेतदुपदिष्टं ते सद्भूषणेण महापते ।
परमार्थसारभूतं यत्तदद्वैतमशेषतः ॥ १८ ॥

ब्राह्मण उवाच

एवमुक्त्वा ययौ विद्वान्निदाघं स ऋभुर्गुरुः ।
निदाघोऽप्युपदेशेन तेनाद्वैतपरोऽभवत् ॥ १९ ॥
सर्वभूतान्यभेदेन ददृशे स तदात्मनः ।
यथा ब्रह्मपरो मुक्तिमवाप परमा द्विजः ॥ २० ॥
तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुल्यात्मरिपुखान्धसः ।
भव सर्वगतं जानन्नात्मानमवनीपते ॥ २१ ॥
सितनीलादिभेदेन यथैकं दृश्यते नभः ।
भ्रान्तिदृष्टिभिरात्मापि तथैकः सन्पृथक्पृथक् ॥ २२ ॥
एकः समस्तं यदिद्व्यस्ति किञ्चि-

तदद्भ्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् ।

सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेत-
दात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम् ॥ २३ ॥

श्रीपराशर उवाच

इतीरितस्नेन स राजवर्च-
स्तत्याज भेदं परमार्थदृष्टिः ।
स चापि जातिस्मरणाप्तबोध-
स्तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप ॥ २४ ॥
इति भरतनरेन्द्रसारवृत्तं
कथयति यश्च भृणोति भक्तियुक्तः ।
स विमलमतिरेति नात्ममोहं
भवति च संसरणेषु मुक्तियोग्यः ॥ २५ ॥

ब्राह्मणने कहा—ऋभुके ऐसा कहनेपर निदाघने
तुरन्त ही उनके दोनों तरफ धकड़ लिये और कहा—
'निश्चय ही अल्प आचार्यचरण पदार्थे ऋभु हैं ॥ १५ ॥
हमारे आचार्यजीके समान अद्वैत-संस्कारयुक्त चित्त और
किसीका नहीं है; अतः मेरा विचार है कि आप हमारे
गुरुजी ही आकर उपस्थित हुए हैं' ॥ १६ ॥

ऋभु बोले—हे निदाघ! पहले तुमने सेवा-शुश्रूषा
करके मेरा बहुत आदर किया था अतः तुम्हारे स्नेहयश में
ऋभु नामका तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देनेके लिये
आया है ॥ १७ ॥ हे महापते! 'समस्त पदार्थोंमें अद्वैत-
आत्म-बुद्धि रखना' यही परमार्थका सार है जो मैंने तुम्हें
संक्षेपमें उपदेश कर दिया ॥ १८ ॥

ब्राह्मण बोले—निदाघसे ऐसा कह परम विद्वान्
गुरुवर भगवान् ऋभु चले गये और उनके उपदेशसे निदाघ भी
अद्वैत-चिन्तनमें तत्पर हो गया ॥ १९ ॥ और समस्त प्राणियोंको
अपनेसे अभिन्न देखने लगा हे भर्माज्ञ! हे भूमिजीपते! जिस
प्रकार उस ब्रह्मपरमपण ब्राह्मणने परम मोक्षपद प्राप्त किया, उसी
प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्रादिमें समान भाव रखकर
अपनेको सर्वगत जानना हुआ मुक्ति लाभ कर ॥ २०-२१ ॥
जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत-नील आदि भेदोंवाला
दिखायी देता है, उसी प्रकार भ्रान्तदृष्टियोंको एक ही आत्मा
पृथक्-पृथक् दृष्टता है ॥ २२ ॥ इस संसारमें जो कुछ है
वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है; मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप
ही हैं। अतः भेद-ज्ञानरूप मोहको छोड़ ॥ २३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—उनके ऐसा कहनेपर
सौवीरराजने परमार्थदृष्टिका आश्रय लेकर भेद-बुद्धिको
छोड़ दिया और वे जातिस्मर ब्राह्मणश्रेष्ठ भी बोधयुक्त
होनेसे उसी जन्ममें मुक्त हो गये ॥ २४ ॥ इस प्रकार
महाराज भरतके इतिहासके इस सदृश भूषणवाक्यो जो
पुरुष भक्तिपूर्व कहता या सुनता है उसको बुद्धि
निर्मल हो जाती है, उसे ऋभी आत्म-विस्मृति नहीं
होती और वह जन्म-जन्मान्तरमें मुक्तिकी योग्यता
प्राप्त कर लेता है ॥ २५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयोऽसे पौंड्रोऽध्यायः ॥ १६ ॥

इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपुराणनिर्णायके

श्रीयति विष्णुमहापुराणे द्वितीयोऽंशः समाप्तः ॥



श्रीविष्णुपुराण

तृतीय अंश

पहला अध्याय

पहले सात मन्वन्तरोंके मनु, इन्द्र, देवता, सप्तर्षि और मनुपुत्रोंका वर्णन

श्रीमंत्रेय उवाच

कथिता गुरुणा सप्त्यम्भूसमुद्रादिसंस्थितिः ।
सूर्यादीनां च संस्थानं ज्योतिषां चातिकिस्तरात् ॥ १
देवादीनां तथा सृष्टिर्ऋषीणां चापि वर्णिता ।
घातुर्वर्ण्यस्य चोत्पत्तिस्तिर्यग्योनिगतस्य च ॥ २
ध्रुवप्रह्लादचरितं विस्तराच्च त्वयोदितम् ।
मन्वन्तराण्यश्लेषाणि श्रोतुमिच्छाम्यनुक्रमात् ॥ ३
मन्वन्तराधिपांश्चैव शक्रदेवपुरोगमान् ।
भवता कथितानेताञ्छ्रोतुमिच्छाम्यहं गुरो ॥ ४

श्रीपराशर उवाच

अतीतानागतानीह यानि मन्वन्तराणि वै ।
तान्यहं भवतः सम्यक्कथयामि यथाक्रमम् ॥ ५
स्वायम्भुवो मनुः पूर्व परः स्वारोचिषस्तथा ।
उत्तमस्तामसश्चैव रैवतश्चाक्षुषस्तथा ॥ ६
षडेते मनवोऽतीतास्साम्प्रतं तु रवेस्सुतः ।
वैवस्वतोऽयं थस्यैतत्सप्तमं वर्ततेऽन्तरम् ॥ ७
स्वायम्भुवं तु कथितं कल्पदावन्तरे मया ।
देवास्सप्तर्षयश्चैव यथावत्कथिता मया ॥ ८
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मनोस्वारोचिषस्य तु ।
मन्वन्तराधिपान्सप्त्यग्देवर्षीस्तत्सुतांस्तथा ॥ ९
पारावतास्सतुषिता देवास्स्वारोचिषेऽन्तरे ।
विपश्चित्तत्र देवेन्द्रो मैत्रेयासीन्महाबलः ॥ १०
ऊर्ध्वः स्तम्भस्तथा प्राणो वातोऽथ पृषभस्तथा ।
निरयश्च परीवांश्च तत्र सप्तर्षयोऽभवन् ॥ ११
चैत्रकिम्पुरुषाद्याश्च सुतास्स्वारोचिषस्य तु ।
द्वितीयमेतद्व्याख्यातमन्तरं शृणु चोत्तमम् ॥ १२

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे गुरुदेव! आपने पृथिवी और समुद्र आदिकी स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगणके संस्थानका मुझसे भली प्रकार अति विस्तरपूर्वक वर्णन किया ॥ १ ॥ आपने देवता आदि और ऋषिगणोंकी सृष्टि तथा घातुर्वर्ण्य एवं तिर्यक्-योनित्त जोर्वोंकी उत्पत्तिका भी वर्णन किया ॥ २ ॥ ध्रुव और प्रह्लादके चरित्रोंको भी आपने विस्तरपूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरो! अब मैं आपके पुष्टारविन्दसे सम्पूर्ण मन्वन्तर तथा इन्द्र और देवताओंके सहित मन्वन्तरोंके अधिपति समस्त मनुओंका वर्णन सुनना चाहता हूँ [आप वर्णन कीजिये] ॥ ३-४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—भूतकालमें जितने मन्वन्तर हुए हैं तथा आगे भी जो-जो होंगे, उन सबका मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ ॥ ५ ॥ प्रथम मनु स्वायम्भुव थे। उनके अनन्तर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए ॥ ६ ॥ ये छः मनु पूर्वकालमें हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका यह सातवां मन्वन्तर वर्तमान है ॥ ७ ॥

कल्पके आदिमें जिस स्वायम्भुव-मन्वन्तरके विषयमें मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तर्षियोंका तो मैं पहले ही यथावत् वर्णन कर चुका हूँ ॥ ८ ॥ अब आगे मैं स्वारोचिष मनुके मन्वन्तराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रोंका स्पष्टतया वर्णन करूँगा ॥ ९ ॥ हे मैत्रेय! स्वारोचिषमन्वन्तरमें पारावत और दुषितगण देवता थे, महाबली विपश्चित् देवराज इन्द्र थे ॥ १० ॥ ऊर्ध्व, स्तम्भ, प्राण, वात, पृषभ, निरय और परीवान्—ये उस समय सप्तर्षि थे ॥ ११ ॥ तथा चैत्र और किम्पुरुष आदि स्वारोचिषमनुके पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन कर दिया। अब उत्तम-मन्वन्तरका विवरण सुनो ॥ १२ ॥

तृतीयेऽप्यन्तरे ब्रह्मन्नुत्तमो नाम यो मनुः ।
सुशान्तिर्नाम देवेन्द्रो मैत्रेयासीत्सुरेश्वरः ॥ १३
सुधामानस्तथा सत्या जपाश्चाथ प्रतर्दनाः ।
सप्तवर्तिमश्च पञ्चैते गणा द्वादशकास्मृताः ॥ १४
वसिष्ठतनया ह्येते सप्त सप्तर्षयोऽभवन् ।
अजः परशुदीप्ताद्यास्तथोत्तममनोःसृताः ॥ १५

तामसस्यान्तरे देवास्सुपारा हरयस्तथा ।
सत्याश्च सुधियश्चैव सप्तविंशतिका गणाः ॥ १६
शिबिरिन्द्रस्तथा चासीच्छतवज्रोपलक्षणाः ।
सप्तर्षयश्च ये तेषां तेषां नामानि मे शृणु ॥ १७
ज्योतिर्धामा पृथुः काव्यश्चन्द्रोऽग्निर्धनकस्तथा ।
पीवरश्चर्षयो ह्येते सप्त तत्रापि चान्तरे ॥ १८
नरः स्यातिः केतुरूपी जानुजह्लादयस्तथा ।
पुत्रास्तु तामसस्यासन् राजानस्सुमहाबलाः ॥ १९

पञ्चमे वापि मैत्रेय रैवतो नाम नामतः ।
मनुर्विभुश्च तत्रेन्द्रो देवाश्चाप्रान्तरे शृणु ॥ २०
अमिताभा भूतरया वैकुण्ठास्ससुमेधसः ।
एते देवगणास्तत्र चतुर्दश चतुर्दश ॥ २१
हिरण्यरोमा वेदश्रीरूर्ध्वबाहुस्तथापरः ।
वेदबाहुस्सुधामा च पर्जन्यश्च महापुनिः ।
एते सप्तर्षयो विप्र तत्रासन् रैवतेऽन्तरे ॥ २२
बलबन्धुश्च सम्भाव्यस्सत्यश्चाश्च तत्सुताः ।
नरेन्द्राश्च महावीर्या बभूवुर्मुनिसत्तम ॥ २३

स्वारोधिपश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा ।
प्रियव्रतान्वया ह्येते चत्वारो मनवस्सृताः ॥ २४
विष्णुयाराध्य तपसा स राजर्षिः प्रियव्रतः ।
मन्वन्तराधियानेतोत्सब्धवानात्सर्वशजान् ॥ २५

षष्ठे मन्वन्तरे चासीच्छाक्षुषाख्यस्तथा मनुः ।
मनोजबस्तथैवेन्द्रो देवानपि निबोध मे ॥ २६
आप्यः प्रसूता भव्याश्च पृथुकाश्च दिर्बोकसः ।
यहनुभावा लेखाश्च पञ्चैते हाष्टका गणाः ॥ २७

हे ब्रह्मन्! तोसरे मन्वन्तरमें उत्तम नामक मनु
और सुशान्ति नामक देवाधिपति इन्द्र थे ॥ १३ ॥ उस
समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वशवर्ता—ये
पाँच बारह-बारह देवताओंके गण थे ॥ १४ ॥ तथा
वसिष्ठजीके सात पुत्र सप्तर्षिगण और अज, परशु
एवं दीप्त आदि उत्तममनुके पुत्र थे ॥ १५ ॥

तामस-मन्वन्तरमें सुवार, हरि, मत्स्य और सुधि—
ये चार देवताओंके वर्ग द्वादश और इनमेंसे प्रत्येक वर्गमें
सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे ॥ १६ ॥ सी अश्वमेधयज्ञवाच
राजा शिवि इन्द्र था, तथा उस समय जो सप्तर्षिगण
थे उनके नाम मूढ़से सुनो— ॥ १७ ॥ ज्योतिर्धामा,
पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर—ये उस
मन्वन्तरके सप्तर्षि थे ॥ १८ ॥ तथा नर, स्याति, केतुरूप
और जानुजंघ आदि तामसमनुके महाबली पुत्र ही
उस समय राज्याधिकारी थे ॥ १९ ॥

हे मैत्रेय! पाँचवें मन्वन्तरमें रैवत नामक मनु
और विभु नामक इन्द्र हुए तथा उस समय जो
देवगण हुए उनके नाम सुनो— ॥ २० ॥ इस मन्वन्तरमें
चौदह-चौदह देवताओंके अर्षिताथ, भूतरय, वैकुण्ठ
और सुमेधा नामक गण थे ॥ २१ ॥ हे विप्र! इस
रैवत-मन्वन्तरमें हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु,
सुधामा, पर्जन्य और महापुनि—ये सात सप्तर्षिगण
थे ॥ २२ ॥ हे मुनिसत्तम! उस समय रैवतमनुके
महावीरशाली पुत्र बलबन्धु, सम्भाव्य और सत्यकी
आदि राजा थे ॥ २३ ॥

हे मैत्रेय! स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत—
ये चार मनु, राजा प्रियव्रतके वंशधर कहे जाते
हैं ॥ २४ ॥ राजर्षि प्रियव्रतने तपस्याद्वारा भगवान् विष्णुको
आराधना करके अपने वंशमें उत्पन्न हुए इन चार
मन्वन्तराधिपोंको प्राप्त किया था ॥ २५ ॥

छठे मन्वन्तरमें चाक्षुष नामक मनु और मनोजब
नामक इन्द्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम
सुनो— ॥ २६ ॥ उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक
और लेख—ये पाँच प्रकारके यहनुभावा देवगण वर्तमान
थे और इनमेंसे प्रत्येक गणमें आठ-आठ देवता
थे ॥ २७ ॥

सुमेधा विरजाश्चैव हविष्मानुत्तमो मधुः ।
 अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तासन्निति चर्षयः ॥ २८
 ऊरुः पूरुशशतद्युम्नप्रमुखास्सुमहाबलाः ।
 चाक्षुषस्य मनोः पुत्राः पृथिवीपतयोऽभवन् ॥ २९
 विवस्वतस्सुतो विप्र श्राद्धदेवो महाद्युतिः ।
 मनुस्संवर्तते धीमान् साम्प्रतं सप्तमेऽन्तरे ॥ ३०
 आदित्यवसुरुद्राद्या देवाश्चात्र महामुने ।
 पुरन्दरस्तथैवात्र मैत्रेय त्रिदशेश्वरः ॥ ३१
 यसिष्ठः काश्यपोऽथात्रिजमदग्निस्सर्गात्मः ।
 विश्वामित्रभरद्वाजी सप्त सप्तर्षयोऽभवन् ॥ ३२
 इक्ष्वाकुश्च नृगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च ।
 परिष्यन्तश्च विख्यातो नाभगोऽरिष्ट एव च ॥ ३३
 कस्तुभश्च पुष्यश्च सुमहोऽस्लोकविश्रुतः ।
 मनोर्वैवस्वतस्यैते नव पुत्राः सुधार्मिकाः ॥ ३४
 विष्णुशक्तिरनीपम्यन्न सन्जोक्तित्त स्थित्वा स्थित्वा ।
 मन्वन्तरेष्वशेषेषु देवत्वेनाधितिष्ठति ॥ ३५
 अंशेन तस्या जज्ञेऽसौ यज्ञस्स्वायम्भुवेऽन्तरे ।
 आकृत्यां मानसो देव उत्पन्नः प्रथमेऽन्तरे ॥ ३६
 ततः पुनः स वै देवः प्राप्ते स्वरोधिषेऽन्तरे ।
 तुषितायां समुत्पन्नो ह्यजितस्तुषितैः सह ॥ ३७
 औत्तमेऽप्यन्तरे देवस्तुषितास्तु पुनस्स वै ।
 सत्यायामभवत्सत्यः सत्यैस्सह सुरोत्तमैः ॥ ३८
 तामसस्थान्तरे चैव सम्प्राप्ते पुनरेव हि ।
 हर्यायां हरिभिस्सार्धं हरिरेव चभूव ह ॥ ३९
 रैवतेऽप्यन्तरे देवस्सम्भृत्यां मानसो हरिः ।
 सम्भृतो रैवतैस्सार्धं देवैर्देववरो हरिः ॥ ४०
 चाक्षुषे चान्तरे देवो वैकुण्ठः पुरुषोत्तमः ।
 विकुण्ठायापसौ जज्ञे वैकुण्ठैर्देवतैः सह ॥ ४१
 मन्वन्तरेऽत्र सम्प्राप्ते तथा वैवस्वते द्विज ।
 वामनः कश्यपाद्विष्णुरदित्यां सम्बभूव ह ॥ ४२
 त्रिभिः क्रमैरिमाँल्लोकान्जित्वा येन मष्ट्यत्मन ।
 पुरन्दराय त्रैलोक्यं दत्तं निहतकण्ठकम् ॥ ४३

उस मन्वन्तरमें सुमेधा, विरजा, हविष्मान्, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु—ये सात सप्तर्षि थे ॥ २८ ॥ तथा चाक्षुषके अति बलवान् पुत्र ऊरु, पूरु और शतद्युम्न आदि राण्याधिकारी थे ॥ २९ ॥

हे विप्र! इस समय इस सातवें मन्वन्तरमें सूर्यके पुत्र महाशेखरी और बुद्धिमान् ब्राह्मदेवजी भनु हैं ॥ ३० ॥ हे महामुने! इस मन्वन्तरमें आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरन्दर नामक इन्द्र हैं ॥ ३१ ॥ इस समय यसिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज—ये सात ऋषि हैं ॥ ३२ ॥ तथा वैवस्वत मनुके इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, परिष्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, कस्तुभ और पुष्य—ये अत्यन्त लोकप्रसिद्ध और धर्मात्मा नौ पुत्र हैं ॥ ३३-३४ ॥

समस्त मन्वन्तरोंमें देवरूपसे स्थित भगवान् विष्णुजी अनुपम और सत्वप्रधाना शक्ति ही संसारकी स्थितिमें उसकी अभिष्टात्री होती है ॥ ३५ ॥ सबसे पहले स्वायम्भुव-मन्वन्तरमें मानसदेव यज्ञपुरुष उस विष्णुशक्तिके अंशसे ही आफूविके गर्भसे उत्पन्न हुए थे ॥ ३६ ॥ फिर स्वरोधिष-मन्वन्तरके उपस्थित होनेपर वे मानसदेव श्रौअजित ही तुषित नामक देवगणोंके साथ तुषितासे उत्पन्न हुए ॥ ३७ ॥ फिर तामस-मन्वन्तरमें वे तुषितदेव ही देवश्रेष्ठ सत्यगणके सहित सत्यरूपसे सत्याके उदरसे प्रकट हुए ॥ ३८ ॥ तामस-मन्वन्तरके प्राप्त होनेपर वे हरि-नाम देवगणके सहित हरिरूपसे इर्याके गर्भसे उत्पन्न हुए ॥ ३९ ॥ तत्परचात् वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत-मन्वन्तरमें तत्कालीन देवगणके सहित सम्भृतिके उदरसे प्रकट होकर मानस नामसे विख्यात हुए ॥ ४० ॥ तथा चाक्षुष-मन्वन्तरमें वे पुरुषोत्तम भगवान् वैकुण्ठ नामक देवगणोंके सहित विकुण्ठसे उत्पन्न होकर वैकुण्ठ कहलाये ॥ ४१ ॥ और हे द्विज! इस वैवस्वत-मन्वन्तरके शान्त होनेपर भगवान् विष्णु कश्यपजीद्वारा अदितिके गर्भसे वामनरूप होकर प्रकट हुए ॥ ४२ ॥ उन महत्त्वा वामनजीने अपनी तीन ङाँसे सम्पूर्ण लोकोंको जीतकर यह निष्कण्ठक जित्वाकी इन्द्रको दे दी थी ॥ ४३ ॥

इत्येतास्तनवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेषु वै ।
सप्तस्वेवाभवन्विप्रधाभिः संवर्द्धिताः प्रजाः ॥ ४४
यस्माद्द्विष्टमिदं विश्वं तस्य शकत्वा महात्मनः ।
तस्मात्प्र प्रोच्यते विष्णुर्विशेषार्थितोः प्रवेशनात् ॥ ४५
सर्वे च देवा मनवस्समस्ता-

स्सप्तर्षयो वे मनुसूनवश्च ।

इन्द्रश्च योऽयं त्रिदशेशभूतो

विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ताः ॥ ४६

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंद्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय

सावर्णिमनुकी उत्पत्ति तथा आगामी सात मन्वन्तरोंके मनु, मनुपुत्र,
देवता, इन्द्र और सप्तर्षियोंका वर्णन

श्रीमंत्रेय उवाच

प्रीक्तान्येतरानि भवता सप्तमन्वन्तराणि वै ।
श्वविष्णायपि विप्रर्षे ममाख्यातुं त्वमर्हसि ॥ १

श्रीमन्मन्त्रेय उवाच

सूर्यस्य यत्नी संज्ञाभूतनया विश्वकर्मायाः ।
मनुर्ग्रामो यमी श्व तदपत्यानि वै मुने ॥ २
असहन्ती तु सा भर्तुस्तेजश्छायां युयोज वै ।
भर्तुंशुश्रूषणेऽरण्ये स्वयं च तपसे ययी ॥ ३
संज्ञेयमित्यधार्कश्च छायायामात्मजव्रतम् ।
शनैश्चरं मनुं चान्यं तपतीं चाप्यजीजनत् ॥ ४

छायासंज्ञा हृदी शायं यमाय कुपिता यदा ।
तदान्येयमसौ बुद्धिरित्वासीद्यमसूर्ययोः ॥ ५

ततो विवस्वानाख्याते तयैवारण्यसंस्थिताम् ।
समाधिदृष्ट्य तदुक्ते तापशक्ती तपसि स्थिताम् ॥ ६

त्राविरूपधरः सोऽथ तस्मा देवावधाश्रिन्वी ।
जनयामास रेवन्तं रेतसोऽन्ते च भास्करः ॥ ७

आग्निन्ये च पुनः संज्ञां स्वस्थानं भगवान् रविः ।
तेजसश्शमनं चास्य विश्वकर्मा चकार ह ॥ ८

हे विप्र। इस प्रकार सातों मन्वन्तरोंमें भगवान्की ये सात मूर्तियाँ प्रकट हुईं, जिनमें (भविष्यमें) सम्पूर्ण प्रजाकी वृद्धि हुई ॥ ४४ ॥ यह सम्पूर्ण विश्व उन परमात्माकी ही शक्तिसे व्याप्त है; अतः वे 'विष्णु' कहलाते हैं, क्योंकि 'विष्' धातुका अर्थ प्रवेश करना है ॥ ४५ ॥ सप्तसत् देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओंके अधिपति इन्द्राणा—ये सब पाण्डु विश्वकी ही विभूतियाँ हैं ॥ ४६ ॥

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे विप्रर्षे! आपने यह सात अतीत मन्वन्तरोंकी कथा कही, अब आप पुत्रमें आगामी मन्वन्तरोंका भी वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

श्रीमन्मन्त्रेयजी बोले—हे मुने! विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा सूर्यकी भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी—तीन सन्तानें हुईं ॥ २ ॥ कालान्तरमें पतिका ऐव सहन न कर सकनेके कारण संज्ञा छायाको पतिकी सेवामें नियुक्त कर स्वयं तपस्याके लिये वनकी चली गयी ॥ ३ ॥ सूर्यदेवने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छायासे शनैश्चर, एक और मनु तथा तपती—ये तीन सन्तानें उत्पन्न कीं ॥ ४ ॥

एक दिन जब छायाश्रिणी संज्ञाने क्रोधित होकर [अपने पुत्रके पक्षपातसे] पपको शाप दिया, तब सूर्य और यमको विदित हुआ कि यह तो कोई और है ॥ ५ ॥ तब छायाके दाय ही सारा रहस्य खुल जानेपर सूर्यदेवने समाधिमें स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ीका रूप धारण कर वनमें तपस्या कर रही है ॥ ६ ॥ अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे दो अश्विनीकुमार और रेतःसाजके अवन्तर ही रेवन्तको उत्पन्न किया ॥ ७ ॥

फिर भगवान् सूर्य संज्ञाको अपने स्थानपर ले आये तथा विश्वकर्माने उनके तैवको ज्ञान कर दिया ॥ ८ ॥

भ्रममारोप्य सूर्यं नु तस्य सेजोनिशातनम् ।
 कृतवानष्टमं भागं स व्यशातयदव्ययम् ॥ १
 यत्नस्माद्गुण्यं तेजशशातितं विश्वकर्माणा ।
 जाञ्चल्यमानमपतत्तद्भूमौ मुनिसत्तम ॥ १०
 त्वद्वैद्य तेजसा तेन विष्णोश्चक्रमकल्पयत् ।
 त्रिशूलं शैष शर्वस्य शिबिकां धनदस्य च ॥ ११
 शक्तिं गृहस्य देवानामन्येषां च यदायुधम् ।
 तत्सर्वं तेजसा तेन विश्वकर्मा व्यवर्धयत् ॥ १२
 ह्ययासंज्ञासुतो योऽसौ द्वितीयः कथितो मनुः ।
 पूर्वजस्य सवर्णोऽसौ सार्वर्णस्तेन कथ्यते ॥ १३
 तस्य मन्वन्तरं ह्योतत्सार्वर्णिकमथाष्टमम् ।
 तच्छृणुष्व महाभाग भविष्यत्कथयामि ते ॥ १४
 सार्वर्णस्तु मनुयोऽसौ मैत्रेय भविता ततः ।
 सुतपाश्चात्मिताभाश्च मुक्छाश्चापि तथा सुराः ॥ १५
 तेषां गणाश्च देवानामेकैको विंशकः स्मृतः ।
 सप्तर्षीनपि वक्ष्यामि भविष्यान्मुनिसत्तम ॥ १६
 दीप्तिमान् गल्गो रामः कृपो र्त्रिणितथा परः ।
 मरुपुत्रश्च तथा व्यास प्रथ्यभृङ्गश्च सप्तमः ॥ १७
 जिष्णुप्रसादादनघः पातालान्तरगोचरः ।
 विरोचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥ १८
 विरजाश्चोर्वरीवांश्च निर्मोकाद्यास्तथापरे ।
 सावर्णस्तु मनोः पुत्रा भविष्यन्ति नरेश्वराः ॥ १९
 नक्षभो दक्षसार्वर्णिर्भविष्यति मुने मनुः ॥ २०
 पारा मरीचिगर्भाश्च सुधर्मापास्तथा त्रिधा ।
 भविष्यन्ति तथा देवा होकैको द्वादशो गणः ॥ २१
 तेषामिन्द्रो महावीर्यो भविष्यत्यद्भुतो द्विज ॥ २२
 सवनो द्युतिमान् भव्यो असुर्मैथातिथिस्तथा ।
 ज्योतिष्मान् सप्तमः सत्यस्तत्रैते च महर्षयः ॥ २३
 धृतकेतुर्दीप्तिकेतुः पञ्चहस्तनिरामयौ ।
 पृथुश्रवाद्याश्च तथा दक्षसार्वर्णिकात्मजाः ॥ २४
 दशमो ब्रह्मसार्वर्णिर्भविष्यति मुने मनुः ।
 सुधामानो विशुद्धाश्च शतसंख्यास्तथा सुराः ॥ २५

उन्होंने सूर्यको भ्रमियन्त्र (ज्ञान)-पर चढ़ाकर
 उनका तेज छाँटा, किन्तु ये उस अक्षुण्ण तेजका केवल
 अष्टमांश ही शीघ्र कर सके ॥ ९ ॥ हे मुनिसत्तम! सूर्यके
 जिस जाम्बल्यमान वैष्णव-तेजको विश्वकर्माने छाँटा था
 वह पृथिवीपर गिरा ॥ १० ॥ उस पृथिवीपर गिरे हुए सूर्य-
 तेजसे ही विश्वकर्माने विष्णुभगवान्का चक्र, शंकरका
 त्रिशूल, कुबेरका विमान, कार्तिकेयकी शक्ति बनायी तथा
 अन्य देवताओंके भी जो-जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट
 किया ॥ ११-१२ ॥ जिस छायासंज्ञाके पुत्र दूसरे मनुका ऊपर
 वर्णन कर चुके हैं वह अपने अप्रज मनुका सवर्ण होनेसे
 सार्वर्ण कहलाया ॥ १३ ॥

हे महाभाग! सुते, अब मैं उनके इस सार्वर्णिकनाम
 आठवें मन्वन्तरका, जो आगे होनेवाला है, वर्णन
 करता हूँ ॥ १४ ॥ हे मैत्रेय! यह सार्वर्ण ही उस समय
 मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्यगण देवता
 होंगे ॥ १५ ॥ उन देवताओंका प्रत्येक गण बीस-बीसका
 सप्पह कहा जाता है। हे मुनिसत्तम! अब मैं अभी
 होनेवाले सप्तर्षी भी बतलाता हूँ ॥ १६ ॥ उस समय
 दीप्तिमान्, गालव, राम, कृप, द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा,
 मेरे पुत्र व्यास और सातवें ऋष्यशृंग—ये सप्तर्षि
 होंगे ॥ १७ ॥ तथा पाताल-लोकवासो विरोचनके पुत्र
 बलि श्रीविष्णुभगवान्को कृपासे तत्कालीन इन्द्र और
 सार्वर्णमनुके पुत्र विरजा, उर्वरीवान् एवं निर्मोक आदि
 तत्कालीन राजा होंगे ॥ १८-१९ ॥

हे मुने! नवें मनु दक्षसार्वर्णि होंगे। उनके समय
 पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक तीन देववर्ग होंगे,
 जिनमेंसे प्रत्येक वर्गमें बारह-बारह देवता होंगे; तथा
 हे द्विज! उनका नामक महापृथ्वी अद्भुत नामक
 इन्द्र होंगे ॥ २०-२२ ॥ सवन, द्युतिमान्, भव्य, यमु,
 मेधास्त्रिधि, ज्योतिष्मान् और सातवें सत्य—ये उस
 समयके सप्तर्षि होंगे तथा धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त,
 निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्षसार्वर्णमनुके पुत्र
 होंगे ॥ २३-२४ ॥

हे मुने! दसवें मनु ब्रह्मसार्वर्णि होंगे। उनके समय
 सुधाया और विशुद्ध नामक सौ-सौ देवताओंके
 दो गण होंगे ॥ २५ ॥

तेषामिन्द्रश्च भविता शान्तिर्नाम महाबलः ।
 सप्तर्षयो भविष्यन्ति ये तथा ताञ्जृणुष्व ह ॥ २६
 हविष्मान्सुकृतस्सत्यस्तपोमूर्तिस्तथापरः ।
 नाभागोऽप्रतिमौजाश्च सत्यकेतुस्तथैव च ॥ २७
 सुक्षेत्रश्चोत्तमौजाश्च भूरिषेणादयो दश ।
 ब्रह्मसावर्णिगुत्रास्तु रक्षिष्यन्ति वसुधराम् ॥ २८
 एकादशाश्च भविता धर्मसावर्णिको मनुः ॥ २९
 विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरतयस्तथा ।
 गणास्त्वेते तदा मुख्या देवानां च भविष्यताम् ।
 एकैकस्त्रिंशदस्तेषां गणश्चेन्द्रश्च वै वृषः ॥ ३०
 निःस्वश्चाग्नितेजाश्च अपुष्मानृषिगरुणिः ।
 हविष्माननघश्चैव भाव्याः सप्तर्षयस्तथा ॥ ३१
 सर्वत्रगस्सुधर्मा च देवानीकादयस्तथा ।
 भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनयाः पृथिवीश्वराः ॥ ३२
 रुद्रपुत्रस्तु सावर्णिर्भविता द्वादशो मनुः ।
 प्रहृषामा च तत्रेन्द्रो भविता शृणु मे सुरान् ॥ ३३
 हरिता रोहिता देवास्तथा सुभनसो द्विव्र ।
 सुकर्माणः सुरापाश्च दशक्ताः पञ्च वै गणाः ॥ ३४
 तपस्वी सुतपाश्चैव तपोमूर्तिस्तपोरतिः ।
 तपोधृतिर्धृतिश्चान्यः सप्तमस्तु तपोधनः ।
 सप्तर्षयस्त्रिंशदे तस्य पुत्रानपि निबोध मे ॥ ३५
 देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयस्तथा ।
 मनोस्तस्य महावीर्या भविष्यन्ति महानृपाः ॥ ३६
 त्रयोदशो रुचिर्नामा भविष्यति मुने मनुः ॥ ३७
 सुवामाणः सुकर्माणः सुधर्माणस्तथामराः ।
 त्रयस्त्रिंशद्विभेदास्ते देवानां वत्र वै गणाः ॥ ३८
 दिवस्पतिर्महावीर्यस्तेषामिन्द्रो भविष्यति ॥ ३९
 निर्मोहस्तत्त्वदर्शी च निष्प्रकम्प्यो निरुत्सुकः ।
 धृतिमानव्ययश्चान्यस्सप्तमस्तुतपो मुनिः ।
 सप्तर्षयस्त्वमी तस्य पुत्रानपि निबोध मे ॥ ४०
 चित्रसेनश्चित्राद्या भविष्यन्ति महीक्षितः ॥ ४१

महाबलवान् शान्ति उन्कर इन्द्र होगा तथा उस
 समय जो रूपाधिगण होंगे उनके नाम सुनो— ॥ २६ ॥
 उनके नाम हविष्मान्, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग,
 अप्रतिमौजा और सत्यकेतु हैं ॥ २७ ॥ उस समय
 ब्रह्मसावर्णिगमनुके सुक्षेत्र, उत्तमौजा और भूरिषेण आदि
 दस पुत्र पृथिवीको रक्षा करेंगे ॥ २८ ॥

ग्यारहवाँ मनु धर्मसावर्णि होगा। उस समय
 होनेवासे देवताओंके विहंगम, कामगम और निर्वाण
 नामक मुख्य गण होंगे—इनमेंसे प्रत्येकमें तीस-तीस
 देवता रहेंगे और वृष नामक इन्द्र होंगा ॥ २९-३० ॥
 उस समय होनेवाले सप्तर्षियोंके नाम निःस्वर, अग्नित्रेज,
 वपुष्मान्, मुनि, आरुणि, हविष्मान् और अरघ है।
 तथा भर्षसावर्णि मनुके सर्वत्रग, सुधर्मा और देवनीक
 आदि पुत्र उस समयके राज्याधिकारी पृथिवीपति
 होंगे ॥ ३१-३२ ॥

रुद्रपुत्र सावर्णि बारहवाँ मनु होगा। उसके समय
 ऋतुभाषा नामक इन्द्र होगा तथा ऋत्वालीन देवताओंके
 नाम ये हैं सुनो— ॥ ३३ ॥ हे द्विव्र! उस समय दस-
 दस देवताओंके हरित, रोहित, सुभन, सुकर्मा और
 सुराप नामक पाँच गण होंगे ॥ ३४ ॥ तपस्वी, सुतप,
 तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोधृति तथा
 तपोधन—ये सात सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रोंके नाम
 सुनो— ॥ ३५ ॥ उस समय उस मनुके देववान्, उपदेव
 और देवश्रेष्ठ आदि महावीर्यशाली पुत्र तत्कालीन
 सम्राट् होंगे ॥ ३६ ॥

हे मुने! तेरहवाँ रुचि नामक मनु होगा। इस
 मन्वन्तरमें सुवामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवाण
 होंगे इनमेंसे प्रत्येकमें तीस-तीस देवता रहेंगे; तथा
 महाबलवान् दिवस्पति उनका इन्द्र होगा ॥ ३७-३९ ॥
 निर्मोह, तत्त्वदर्शी, निष्प्रकम्प, निरुत्सुक, धृतिमान्,
 अव्यय और सुतप—ये तत्कालीन सप्तर्षि होंगे। अब
 मनुपुत्रोंके नाम भी सुनो ॥ ४० ॥ उस मन्वन्तरमें चित्रसे
 और चित्रा आदि मनुपुत्र राजा होंगे ॥ ४१ ॥

भीमश्चतुर्दशश्चात्र मैत्रेय भविता मनुः ।
 शुचिरिन्द्रः सुरगणास्तत्र पञ्च शृणुष्व तान् ॥ ४२
 साधुषश्च पवित्राश्च कनिष्ठा ध्वजिकास्तथा ।
 याद्याद्यद्वाश्च वै देवास्सप्तर्षीर्नपि मे शृणु ॥ ४३
 अग्निबाहुः शुचिः शुक्रो मागधोऽग्निध एव च ।
 युक्तस्तथा जितश्चान्यो मनुपुत्रानतः शृणु ॥ ४४
 ऊरुगम्भीरबुद्ध्याद्या मनोस्तस्य सुता नृषाः ।
 कथिता मुनिशार्दूल पालयिष्यन्ति ये महीम् ॥ ४५
 चतुर्युगान्ते यैदानां जायते किल विप्लवः ।
 प्रवर्तयन्ति तानेत्य भुखं सप्तर्षयो दिवः ॥ ४६
 कृते कृते स्मृतेर्विप्र प्रणेता जायते मनुः ।
 देवा यज्ञभुजस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु सत् ॥ ४७
 भवन्ति ये मनोः पुत्रा यावन्मन्वन्तरं तु तैः ।
 तदन्ययोद्भूतैश्चैव तावद्भुः परिपाल्यते ॥ ४८
 मनुस्सप्तर्षयो देवा भूपालाश्च मनोः सुताः ।
 मन्वन्तरे भवन्त्येते शक्रश्चैवाधिकारिणः ॥ ४९
 चतुर्दशभिरेतैस्तु गतैर्मन्वन्तरैर्द्विज ।
 सहस्रयुगपर्यन्तः कल्पो निश्शेष उच्यते ॥ ५०
 सायत्प्रमाणा च निशा ततो भवति सप्तम ।
 ब्रह्मरूपधरश्शेते शेषाहासम्बुसम्प्लसै ॥ ५१
 त्रैलोक्यमखिलं प्रस्त्वा भगवानादिकृद्भिभुः ।
 स्वमायासंस्थितो विप्र सर्वभूतो जनार्दनः ॥ ५२
 ततः प्रबुद्धो भगवान् यथा पूर्वं तथा पुनः ।
 सृष्टिं करोत्यव्ययात्मा कल्पे कल्पे रजोगुणः ॥ ५३
 मनसो भूभुजस्मेन्द्रा देवास्सप्तर्षयस्तथा ।
 सात्त्विकोऽशः स्थितिकरो जगतो द्विजसत्तम ॥ ५४
 चतुर्युगेऽप्यसौ विष्णुः स्थितिक्षापरसक्षणः ।
 युगव्यवस्थां कुरुते यथा मैत्रेय तच्छृणु ॥ ५५
 कृते युगे परं ज्ञानं कपिलादिस्वरूपधृक् ।
 ददाति सर्वभूतात्मा सर्वभूतहिते रतः ॥ ५६
 चक्रवर्तिस्वरूपेण त्रेतायामपि स प्रभुः ।
 दुष्टानां निग्रहं कुर्वन्परिपाति जगत्प्रथम् ॥ ५७

हे मैत्रेय! चौदहवें मनु भीम होगा। उस समय
 शुचि नामक इन्द्र और पॉन देवगण होंगे; उनके नाम
 सुनो—ये साधुष, पवित्र, कनिष्ठ, ध्वजिक और याचाबुद्ध
 नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तर्षियोंके नाम
 भी सुनो ॥ ४२-४३ ॥ उस समय अग्निबाहु, शुचि,
 शुक्र, मागध, अग्निध, युक्त और जित—ये सप्तर्षि
 होंगे। अब मनुप्रदोके विषयमें सुनो ॥ ४४ ॥ हे मुनिशार्दूल!
 कहते हैं, उस मनुके ऊरु और गम्भीरबुद्धि आदि पुत्र
 होंगे जो राव्याधिकारी होकर पृथिवीका पालन
 करेंगे ॥ ४५ ॥

प्रत्येक चतुर्युगके अन्तमें वेदोंका लोप हो जाता है,
 उस समय सप्तर्षिगण ही स्वर्गलोकसे पृथिवीमें अवतीर्ण
 होकर उनका प्रसार करते हैं ॥ ४६ ॥ प्रत्येक सत्ययुगके
 आदिमें [मनुष्योंकी धर्म-मर्यादा स्थापित करनेके लिये]
 स्मृति-शास्त्रके रचयिता मनुका प्रादुर्भाव होता है; और
 उस मन्वन्तरके अन्त पर्यन्त तत्कालीन देवगण यज्ञ-भागोंको
 श्रंगते हैं तथा मनुके पुत्र और उनके वंशधर मन्वन्तरके
 अन्ततक पृथिवीका पालन करते रहते हैं ॥ ४७-४८ ॥ इस
 प्रकार मनु सप्तर्षि, देवता, इन्द्र तथा मनु-पुत्र राजागण—
 ये प्रत्येक मन्वन्तरके अधिकारी होते हैं ॥ ४९ ॥

हे द्विज! इन चौदह मन्वन्तरोंके बीच जानेपर एक
 सहस्र युग रहनेवाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है ॥ ५० ॥
 हे साधुश्रेष्ठ! फिर इतने ही समयकी रात्रि होती है। उस
 समय ब्रह्मरूपधारी श्रीविष्णुभगवान् प्रलायकासीन जलके
 ऊपर शेष-शय्यापर शयन करते हैं ॥ ५१ ॥ हे विप्र! तब
 आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान् जनार्दन संपूर्ण
 त्रिलोकीका प्रास कर अपनी मायामें स्थित रहते हैं ॥ ५२ ॥
 फिर [प्रलाय-रात्रिसत्र अन्त होनेपर] प्रत्येक कल्पके आदिमें
 अब्भवात्मा भगवान् जाग्रत होकर रजोगुणका आश्रय कर
 सृष्टिकी रचना करते हैं ॥ ५३ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ! मनु, मनु-
 पुत्र राजागण, इन्द्र देवता तथा सप्तर्षि—ये सब जगत्का
 पालन करनेवाले भगवान्के सात्त्विक अंश हैं ॥ ५४ ॥

हे मैत्रेय! स्थितिकारक भगवान् विष्णु चारों युगोंमें
 जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं, सो सुनो— ॥ ५५ ॥ सप्तस
 प्राणियोंके कल्पगणमें उत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्ययुगमें
 कपिल आदिरूप धारणकर परम ज्ञानका उपदेश करते
 हैं ॥ ५६ ॥ त्रेतायुगमें वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल
 होकर दुष्टोंका दमन करके त्रिलोकीकी रक्षा करते हैं ॥ ५७ ॥

वेदमेकं चतुर्भेदं कृत्वा शाखाशतैर्विभुः ।
 करोति बहूनां भूयो वेदव्यासस्वरूपधृक् ॥ ५८
 वेदांस्तु द्वापरे व्यस्य कलैरन्ते पुनर्हीरिः ।
 कल्किस्वरूपी दुर्वृत्तान्मार्गं स्थापयति प्रभुः ॥ ५९
 एवमेतज्जगत्सर्वं शश्वत्प्राप्तिं करोति च ।
 ह्येति चानेष्वनन्तात्मा नास्यस्माद्व्यतिरेकि यत् ॥ ६०
 भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वभूतान्महात्मनः ।
 तद्वान्यत्र वा विप्र सद्भावः कथितस्तव ॥ ६१
 मन्वन्तराण्यशेषाणि कथितानि मया तव ।
 मन्वन्तराधिपांश्चैव किमन्यत्कथयामि ते ॥ ६२

इति श्रीविष्णुपुराणे वृत्तयोंऽंशे द्वितीयाऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

ब्रह्मसृष्टानुसारं भिन्न भिन्न व्यासोंके

श्रीमंत्रेय उवाच

ज्ञातमेतन्मया त्वत्तो यथा सर्वमिदं जगत् ।
 विष्णुर्विष्णौ विष्णुतश्च न परं विद्यते ततः ॥ १
 एतत्तु श्रोतुमिच्छामि व्यस्ता वेदा महात्मना ।
 वेदव्यासस्वरूपेण तथा तेन युगे युगे ॥ २
 अस्मिन्यास्मिन्युगे व्यासो यो य आसीन्महामुने ।
 तं समाचक्ष्व भगवज्जाखाभेदांश्च मे वद ॥ ३

श्रीपराशर उवाच

वेदद्वयस्य मैत्रेय शाखाभेदास्सहस्रशः ।
 न शक्ते विस्तराद्ब्रह्मं सद्दक्षेपेण शृणुष्व तम् ॥ ४
 द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपी महामुने ।
 वेदमेकं सुबहुधा कुरुते जगतो हितः ॥ ५
 वीर्यं तेजो बलं चारूपं मनुष्याणामवेश्य च ।
 हिताय सर्वभूतानां वेदभेदात्करोति सः ॥ ६
 ययासी कुरुते सत्या वेदमेकं पृथक् प्रभुः ।
 वेदव्यासाभिधाना तु सा च मूर्तिर्मधुद्विषः ॥ ७

तदनन्तरं द्वापरयुगमें वेदव्यासरूप धारणकर एक
 वेदके चार विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओंमें भेदकर
 उसका बहुत विस्तार कर देते हैं ॥ ५८ ॥ इस प्रकार द्वापरमें
 वेदोंका विस्तार कर कलियुगके अन्तमें भगवान् कल्किरूप
 धारणकर द्वापराचारों लोगोंको सन्मार्गमें प्रवृत्त करते हैं ॥ ५९ ॥
 इसी प्रकार अनन्तान्ता प्रभु निरन्तर इस सम्पूर्ण जगत्के
 उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसारमें ऐसी
 कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो ॥ ६० ॥ हे विप्र!
 हललोक और परलोकमें भूत, भविष्यत् और वर्तमान
 जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान् विष्णुसे हैं
 उत्पन्न हुए हैं—यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ ॥ ६१ ॥
 मैंने तुमसे सम्पूर्ण मन्वन्तरों और मन्वन्तराधिकारियोंके
 वर्णन कर दिया। कहाँ, अब और क्या सुनाऊँ? ॥ ६२ ॥

नाम तथा ब्रह्मज्ञानके माह्यत्वका वर्णन

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे भगवन्! आपके कथनसे

मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्
 विष्णुरूप है, विष्णुमें ही स्थित है, विष्णुसे ही उत्पन्न
 हुआ है तथा विष्णुसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं
 है ॥ १ ॥ अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाव्यपुत्रे
 वेदव्यासरूपसे युग-युगमें किस प्रकार वेदोंका विभाग
 किया ॥ २ ॥ हे महापुत्रे! हे भगवन्! जिस-जिस युगमें
 जो-जो वेदव्यास हुए उनका तथा वेदोंके सम्पूर्ण
 शाखा-भेदोंका आप मुझसे वर्णन कौजिये ॥ ३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय। वेदरूप पृथक्के

सहस्रों शाखा भेद हैं, उनका विस्तारसे वर्णन करनेमें
 तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेपसे सुनी ॥ ४ ॥
 हे महामुने ! प्रत्येक द्वापरयुगमें भगवान् विष्णु व्यासरूपसे
 अवतीर्ण होते हैं और संसारके कल्याणके लिये एक
 वेदके अनेक भेद कर देते हैं ॥ ५ ॥ मनुष्योंके बल,
 वीर्य और तेजको अल्प जानकर वे समस्त प्राणियोंके
 हितके लिये वेदोंका विभाग करते हैं ॥ ६ ॥ जिस
 शरीरके द्वारा वे प्रभु एक वेदके अनेक विभाग करते
 हैं भगवान् मधुसूदनको उस मूर्तिका नाम वेदव्यास
 है ॥ ७ ॥

धस्मिन्मन्त्रे व्यासा ये ये स्युस्तान्निबोध मे ।
 यथा च धेदुःशाखानां व्यासेन क्रियते मुने ॥ ८
 अष्टाविंशतिकृत्यो वै वेदो व्यस्तो महर्षिभिः ।
 वैसस्वतेऽन्तरे तस्मिन्द्वापरेषु पुनः पुनः ॥ ९
 वेदव्यासा व्यतीता ये द्वाष्टाविंशति सत्तम ।
 चतुर्धा वैः कृतो वेदो द्वापरेषु पुनः पुनः ॥ १०
 द्वापरे प्रथमे व्यस्तस्वयं वेदः स्वयम्भुवा ।
 द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यासः प्रजापतिः ॥ ११
 तृतीये चोशना व्यासश्चतुर्थे च बृहस्पतिः ।
 सविता पञ्चमे व्यासः षष्ठे भृगुस्मृतः प्रभुः ॥ १२
 सप्तमे च तथैवेन्द्रो षष्ठिष्ठश्चाष्टमे स्मृतः ।
 सारस्वतश्च नवमे त्रिधामा दशमे स्मृतः ॥ १३
 एकादशे तु त्रिशिखो भरद्वाजस्ततः परः ।
 त्रयोदशे चान्तरिक्षो वर्णा चापि चतुर्दशे ॥ १४
 प्रव्यारुणः पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जयः ।
 ऋतुञ्जयः सप्तदशे तदूर्ध्वं च जयस्मृतः ॥ १५
 ततो व्यासो भरद्वाजो भरद्वाजाच्च गौतमः ।
 गौतमादुत्तरी व्यासो हर्षात्मा धोऽभिधीयते ॥ १६
 अथ हर्षात्मनोऽन्ते च स्मृतो वाजश्रवा मुनिः ।
 सोमशुष्मायणस्तस्मात्तृणबिन्दुरिति स्मृतः ॥ १७
 ऋक्षोऽभूद्भार्गवस्तस्माद्दाल्मीकियोऽभिधीयते ।
 तस्मादस्मन्यिता शक्तिर्व्यासस्तस्मादहं मुने ॥ १८
 जातुकर्णोऽभवन्मत्तः कृष्णाह्वेपायनस्ततः ।
 अष्टाविंशतिरित्येते वेदव्यासाः पुरातनाः ॥ १९
 एको वेदश्चतुर्धा तु तैः कृतो द्वापरादिषु ॥ २०
 भविष्ये द्वापरे चापि त्रीणिर्वासा भविष्यति ।
 व्यतीते मम पुत्रेऽस्मिन् कृष्णाह्वेपायने मुने ॥ २१
 धुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितम् ।
 षूहृत्वाद्ब्रह्मत्वाच्च तद्ब्रह्मेत्यभिधीयते ॥ २२
 प्रणवावस्थितं नित्यं भूर्धुवस्वरितीयैते ।
 ऋग्यजुस्सामाथर्वाणो यत्तस्मै ब्रह्मणे नमः ॥ २३

हे मुने! जिस-जिस मन्त्रमें जो-जो व्यास होते हैं और वे जिस-जिस प्रकार साक्षात्कारा विभाग करते हैं—यह मुझे सुना ॥ ८ ॥ इस वैसस्वत-पञ्चत्वारके अत्यंत द्वापरयुगमें व्यास महर्षियोंने अबतक पुनः-पुनः अट्ठाईस बार वेदोंके विभाग किये हैं ॥ ९ ॥ हे साधुश्रेष्ठ! जिन्होंने पुनः-पुनः द्वापरयुगमें वेदोंके चार-चार विभाग किये हैं उन अट्ठाईस व्यासोंका विवरण सुना— ॥ १० ॥ पहले द्वापरमें स्वयं भगवान् ब्रह्माजीने वेदोंका विभाग किया था। दूसरे द्वापरके वेदव्यास प्रजापति हुए ॥ ११ ॥ तीसरे द्वापरमें सुक्राचार्यजी और चौथेमें बृहस्पतिजी व्यास हुए तथा पाँचवेंमें सूर्य और छठेंमें भगवान् भृगु व्यास कहलाये ॥ १२ ॥ सातवें द्वापरके वेदव्यास इन्द्र, आठवेंके षष्ठिष्ठ, नवके सरस्वत और दसवेंके त्रिधामा कहे जाते हैं ॥ १३ ॥ ग्यारहवेंमें त्रिशिख, बारहवेंमें भरद्वाज, तेरहवेंमें अन्तरिक्ष और चौदहवेंमें वर्णा नामक व्यास हुए ॥ १४ ॥ पन्द्रहवेंमें प्रव्यारुण, सोलहवेंमें धनञ्जय, सत्रहवेंमें ऋतुञ्जय और तदनन्तर अठारहवेंमें जय नामक व्यास हुए ॥ १५ ॥ फिर उन्नीसवें व्यास भरद्वाज हुए, भरद्वाजके पीछे गौतम हुए और गौतमके पीछे जो व्यास हुए वे हर्षात्मा कहे जाते हैं ॥ १६ ॥ हर्षात्माके अनन्तर वाजश्रामुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात् सोमशुष्मवंशी तृणबिन्दु (तेहंसवें) वेदव्यास कहलाये ॥ १७ ॥ उनके पीछे भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो दाल्मीक कहलाये, तदनन्तर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ ॥ १८ ॥ मेरे अनन्तर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्णाह्वेपायन—इस प्रकार ये अट्ठाईस व्यास प्राचीन हैं; इन्होंने द्वापरादि युगोंमें एक ही वेदके चार-चार विभाग किये हैं ॥ १९-२० ॥ हे मुने! मेरे पुत्र कृष्णाह्वेपायनके अनन्तर आगामी द्वापरयुगमें प्रौण-पुत्र अस्वत्थामा वेदव्यास होंगे ॥ २१ ॥

ॐ यह अविनाशी एकाक्षर हो ब्रह्म है। यह बृहत् और व्यापक है; इसलिये 'ब्रह्म' कहलाता है ॥ २२ ॥ भूर्लोक, भुवलोक और स्वर्लोक—ये तीनों प्रणवरूप ब्रह्ममें ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक्ष, यजुः, साम और अथर्वरूप है; अथः उस आँकाररूप ब्रह्मको नमस्कार है ॥ २३ ॥

जगतः प्रलयोत्पत्त्योर्यत्तत्कारणसंज्ञितम् ।
 महतः परमं गुह्यं तस्मै सुब्रह्मणो नमः ॥ २४
 अगाधापारमक्षय्यं जगत्सम्प्लोहनालयम् ।
 स्वप्रकाशप्रवृत्तिभ्यां पुरुषार्थप्रयोजनम् ॥ २५
 सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिशमदमात्मनाम् ।
 यत्तदव्यक्तममृतं प्रवृत्तिब्रह्म शश्वतम् ॥ २६
 प्रधानमात्मयोनिश्च गुह्यसैस्थं च शब्दयते ।
 अविभागं तथा शुक्तमक्षयं बहुधात्मकम् ॥ २७
 परमब्रह्मणो तस्मै नित्यमेव नमो नमः ।
 यद्वृषं चासुदेवस्य परमात्मस्वरूपिणः ॥ २८
 एतद्ब्रह्म त्रिधा भेदमभेदमपि स प्रभुः ।
 सर्वभेदेष्वभेदोऽसौ भिद्यते भिन्नबुद्धिभिः ॥ २९
 स ऋद्ध्यस्यसाममयः सर्वात्मा स यजुर्मयः ।
 ब्रह्मयजुस्सामसारात्मा स एवात्मा शरीरिणाम् ॥ ३०
 स भिद्यते वेदमयस्त्ववेदं
 करोति भेदैर्बहुभिस्सशाखा-
 शाखाप्रणेता स समस्तशाखा-
 ज्ञानस्वरूपो भगवानसङ्गः ॥ ३१

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयोऽंशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय

ऋग्वेदकीं शाखाओंका विस्तार

श्रीपराशर उवाच

आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसम्मितः ।
 ततो दशगुणः कृत्स्नो यज्ञोऽयं सर्वकामद्युक् ॥ १
 ततोऽत्र मत्सुतो व्यासो अष्टाविंशतिमेजन्तरे ।
 वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभक्तप्रभुः ॥ २
 यथा च तेन वै व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता ।
 वेदास्तथा समस्तैस्त्रैस्त्रैस्ता व्यस्तैस्तथा मया ॥ ३
 तदनेनैव वेदानां शाखाभेदान्द्रिजोत्तमः ।
 चतुर्गुणेषु पठितान्नामस्तेष्ववधारय ॥ ४

जो संसारके उत्पत्ति और प्रलयका कारण कहलाता है तथा महत्त्वसे भी परम गुह्य (सूक्ष्म) है उस ओंकाररूप ब्रह्मको नमस्कार है ॥ २४ ॥ जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसारको मोहित करनेवाले तमोगुणका आश्रय है, तथा प्रकाशमय सत्त्वगुण और प्रनृतिरूप त्मोगुणके द्वारा पुरुषोंके भोग और भोक्षरूप परमपुरुषार्थका हेतु है ॥ २५ ॥ जो सांख्यज्ञानियोंकी परमनिष्ठा है, शम दमशांतियोंका गन्तव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहनेवाला है ॥ २६ ॥ जो स्वयम्भू, प्रधान और अन्तर्गामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीपितान्, अक्षय और अनेक रूप है ॥ २७ ॥ और जो परमात्मस्वरूप भगवान् चासुदेवका ही रूप (प्रतीक) है, उस ओंकाररूप परब्रह्मको सर्वदा वारम्बार नमस्कार है ॥ २८ ॥ यह ओंकाररूप बड़ा अभिन्न होकर भी [अकार, तकार और मकार(रूपसे) तीन भेदोंवाला है। यह समस्त भेदोंमें अभिन्नरूपसे स्थित है तथापि वेदबुद्धिसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है ॥ २९ ॥ वह सर्वात्मा ऋद्ध्यम, साममय और यजुर्मय है तथा ऋग्यजुः-सामका साररूप वह ओंकार ही सय शरीरधारियोंका आत्मा है ॥ ३० ॥ वह वेदमय है, वही ऋग्वेदादिरूपसे भिन्न हो जाता है और वहने अपने वेदरूपको नाना शाखाओंमें विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान् ही समस्त शाखाओंका स्वयिता और उनका ज्ञानस्वरूप है ॥ ३१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—सृष्टिके आदिमें ईश्वरसे आविर्भूत वेद ऋक्-यजुः आदि चार पादोंसे पुक्त और एक लक्ष मन्त्रवाला था। उसीसे समस्त काभनाओंके देवैश्वर्यसे अग्निहोत्रादि दस प्रकारके यज्ञोंके प्रचार हुआ ॥ १ ॥ तदनन्तर अद्वाइसवें द्वारपरयुगमें मेरे पुत्र कृष्णदेवपावनने इस चतुष्पादयुक्त एक ही वेदके चार भाग किये ॥ २ ॥ परम बुद्धिमान् वेदव्यासने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य वेदव्यासोंने तथा मैंने भी पहले किया था ॥ ३ ॥ अतः हे द्विज! समस्त चतुर्गुणोंमें इन्हीं शाखाभेदोंसे वेदका षाठ होता है—ऐसा जानो ॥ ४ ॥

कृष्णार्द्रपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम् ।
 को ह्यन्यो भुवि मैत्रेय महाभारतकृद्भवेत् ॥ ५
 तेन व्यस्ता यथा वेदा मत्पुत्रेण महात्मना ।
 द्वापरे ह्यत्र मैत्रेय तस्मिञ्कृष्ण यथातथम् ॥ ६
 ब्रह्मणा चोदितो व्यासो वेदान्वयस्तु प्रचक्रमे ।
 अथ शिष्यान्प्रजग्राह चतुरो वेदपारगान् ॥ ७
 ऋग्वेदपाठकं पौलं जग्राह स महामुनिः ।
 वैशम्पायननामानं यजुर्वेदस्य चाग्रहीत् ॥ ८
 जैमिनि सामवेदस्य तथैवाथर्ववेदयित् ।
 सुमन्तुस्तस्य शिष्योऽभृद्देवव्यासस्य धीमतः ॥ ९
 रोमहर्षणनामानं महाबुद्धिं महामुनिः ।
 सूतं जग्राह शिष्यं स इतिहासपुराणयोः ॥ १०
 एक आसीद्यजुर्वेदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत् ।
 चातुर्होत्रमभुत्स्मिन्स्तेन यज्ञमथाकरोत् ॥ ११
 आथर्वर्वचं यजुर्भिस्तु ऋग्भिर्होत्रं तथा मुनिः ।
 औद्गात्रं सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः ॥ १२
 ततस्स ऋष उदधृत्य ऋग्वेदं कृतवान्मुनिः ।
 यक्षुषि च यजुर्वेदं सामवेदं च सामभिः ॥ १३
 राज्ञां चाथर्ववेदेन सर्वकर्माणि च प्रभुः ।
 कारयामास मैत्रेय ब्रह्मत्वं च यथास्थिति ॥ १४
 सोऽयमेको यथा वेदस्तस्मिन् पृथक्कृतः ।
 चतुर्थाथ ततो जातं वेदपादपकाननम् ॥ १५
 विभेदं प्रथमं विप्र पौलो ऋग्वेदपादपम् ।
 इन्द्रप्रमितये प्रादाद्वाष्कलाय च संहिते ॥ १६
 चतुर्था स विभेदाथ वाष्कलोऽपि च संहिताम् ।
 बोध्यादिभ्यो हृदौ ताश्च शिष्येभ्यस्स महामुनिः ॥ १७
 बोध्याग्निपाठकौ तद्दद्यान्नवल्क्यपराशरौ ।
 प्रतिशाखास्तु शाखायास्तस्यास्ते जगृह्मुने ॥ १८
 इन्द्रप्रमितरेका तु संहिता स्वसुतं ततः ।
 भाण्डुकेयं महात्मानं मैत्रेयाध्यापयत्तदा ॥ १९
 तस्य शिष्यप्रशिष्येभ्यः पुत्रशिष्यक्रमाद्यौ ॥ २०

भगवान् कृष्णार्द्रपायनको तुम साक्षात् नारायण ही
 समझा, क्योंकि हे मैत्रेय। सौरभं नारायणके अतिरिक्त
 और कौन भगवांरतका रचयिता हो सकता है? ॥ ५ ॥

हे मैत्रेय! द्वापरयुगमें मेरे पुत्र महात्मा कृष्णार्द्रपायनने
 जिस प्रकार वेदोंका विभाग किया था वह यथावत्
 सुना ॥ ६ ॥ जब ब्रह्मणोको प्रेरणासे व्यासजीने वेदोंका
 विभाग करनेका उपक्रम किया, तो उन्होंने वेदका
 अन्तक अभ्ययन करनेमें सपर्यं चार शिष्योंको
 शिष्य बनया ॥ ७ ॥ उनमेंसे उन महामुनिने पैतको
 ऋग्वेद, वैशम्पायनको यजुर्वेद और जैमिनिको सामवेद
 पढ़या तथा उन मतिमान् व्यासजीका सुमन्तु नामक शिष्य
 अथर्ववेदका ज्ञाता हुआ ॥ ८-९ ॥ इनके लिए सुतशातीय
 पशुहृदिमान् रोमहर्षणको महामुनि व्यासजीने अपने
 इतिहास और पुराणके विद्यार्थीरूपमें ग्रहण किया ॥ १० ॥

पूर्वकालमें यजुर्वेद एक ही था। उसके इन्होंने
 चार विभाग किये, अतः उसके चातुर्होत्रकी प्रकृति हुई
 और इस चातुर्होत्र-विधिसे ही उन्होंने यज्ञानुष्ठानकी
 व्यवस्था की ॥ ११ ॥ व्यासजीने यजुःसे अभ्यर्चक, ऋक्षसे
 होशक, सामसे उद्गाताके तथा अथर्ववेदमें ब्रह्मके
 कर्मकी स्थापना की ॥ १२ ॥ तदनन्तर उन्होंने ऋक्
 तथा यजुःश्रुतियोंका उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेदकी
 और सामश्रुतियोंसे सामवेदकी रचना की ॥ १३ ॥ हे
 मैत्रेय! अथर्ववेदके द्वारा भगवान् व्यासजीने सम्पूर्ण
 राज-कर्म और ब्राह्मणकी यथावत् व्यवस्था की ॥ १४ ॥
 इस प्रकार व्यासजीने वेदरूप एक वृक्षके चार विभाग
 कर दिये फिर विभक्त हुए उन चारोंसे वेदरूपी
 यज्ञोंका यत्न उत्पन्न हुआ ॥ १५ ॥

हे विप्र! पहले पौलने ऋग्वेदरूप वृक्षके दो
 विभाग किये और उन दोनों शाखाओंको अपने
 शिष्य इन्द्रप्रमिति और वाष्कलको पढ़ाया ॥ १६ ॥ फिर
 वाष्कलने भी अपनी शाखाके चार भाग किये और
 उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्योंको दिया ॥ १७ ॥ हे
 मुने। वाष्कलकी शाखाकी उन चारों प्रतिशाखाओंकी
 उनके शिष्य बोध्य, आग्निपाठक, याज्ञवल्क्य और
 पराशरने ग्रहण किया ॥ १८ ॥ हे मैत्रेयजी! इन्द्रप्रमितने
 अपनी प्रतिशाखाको अपने पुत्र महात्मा भाण्डुकेयको
 पढ़ाया ॥ १९ ॥ इस प्रकार शिष्य-प्रशिष्य-क्रमसे उस
 शाखाका उनके पुत्र और शिष्योंमें प्रचार हुआ। इस

वेदमित्रस्तु शाकल्यः संहितां तामधीतवान् ।
 चकार संहिताः पञ्च शिष्येभ्यः प्रददौ च ताः ॥ २१ ॥
 तस्य शिष्यास्तु ये पञ्च तेषां नामानि मे शृणु ।
 मुद्गालो गोमुखश्चैव वात्स्यश्शालीय एव च ।
 शरीरः पञ्चमश्चासीन्मैत्रेय सुमहामतिः ॥ २२ ॥
 संहितात्रितयं चक्रे शाकपूर्णस्तथेतरे ।
 निरुक्तमकरोत्तद्वच्चतुर्थं मुनिसत्तम ॥ २३ ॥
 अत्रैज्यो वीतालिकस्तद्द्वहलाकश्च महापुनिः ।
 निरुक्तकृष्यतुर्थोऽभूद्देवैदाङ्गपारगः ॥ २४ ॥
 इत्येताः प्रतिशाखाभ्यो ह्यनुशाखा द्विजोत्तम ।
 बाष्कलश्चापरास्तिस्मसंहिताः कृतधान्द्रिज ।
 शिष्यः कर्लावनिर्गार्ग्यस्तुतीवश्च कथाज्वः ॥ २५ ॥
 इत्येते ऋतृचाः प्रोक्ताः संहिता यैः प्रवर्तिताः ॥ २६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽंशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अध्याय

शुक्लयजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजुःशाखाओंका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

यजुर्वेदतरोश्शाखास्सप्तविंशन्महामुनिः ।
 वैशम्पायननामासी व्यासशिष्यश्चकार वै ॥ १ ॥
 शिष्येभ्यः प्रददौ ताश्च जगद्गुह्येऽप्यनुक्रमात् ॥ २ ॥
 याज्ञवल्क्यस्तु तत्राभूद्ब्रह्मरातसुतो द्विज ।
 शिष्यः परमधर्मज्ञो गुरुवृत्तिपरस्सदा ॥ ३ ॥
 ऋषिर्षोऽह्य महामेरोः समाजे नागमिष्यति ।
 तस्य वै सप्तरात्रान्तु ब्रह्महत्या भविष्यति ॥ ४ ॥
 पूर्वमेवं मुनिगणैस्समयो यः कृतो द्विज ।
 वैशम्पायन एकस्तु तं व्यतिक्रान्तवीस्तदा ॥ ५ ॥
 स्वस्वीयं बालकं सोऽथ पदा स्पृष्टमघातयत् ॥ ६ ॥
 शिष्यानाह स भो शिष्या ब्रह्महत्यापहं व्रतम् ।
 अरध्वं मत्कृते सर्वे न विचार्यमिदं तथा ॥ ७ ॥

शिष्य-परम्परासे ही शाकल्य वेदमित्रने उस संहिताओं
 पढ़ा और उसका पाँच अनुशाखाओंमें विभक्त कर
 अपने पाँच शिष्योंको पढ़ाया ॥ २०-२१ ॥ उसके जो
 पाँच शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय! वे
 मुद्गाल, गोमुख, वात्स्य और शालीय तथा पाँचवें
 महापति शरीर थे ॥ २२ ॥ हे मुनिसत्तम! उनके एक
 दूसरे शिष्य शाकपूर्णने तीन वेदसंहिताओंकी क्या
 जोधे एक निरुक्त-ग्रन्थकी रचना की ॥ २३ ॥ [उन
 संहिताओंका अध्ययन करनेवाले उनके शिष्य] ऋतृचि
 क्रौंच, वीतालिक और बलाक थे तथा [निरुक्तकी
 अध्ययन करनेवाले] एक नौधे शिष्य वेद-वेदांगके
 गायामी निरुक्तकार हुए ॥ २४ ॥ इस प्रकार वेदरूप ब्रह्मकी
 प्रतिशाखाओंसे अनुशाखाओंकी उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम!
 बाष्कलने और भी तीन संहिताओंकी रचना की।
 उनके [उन संहिताओंकी पढ़नेवाले] शिष्य कालामिनि,
 गार्ग्य तथा कथाज्व थे: इस प्रकार जिनोंने संहिताओंकी
 रचना की वे नरभृश कहलायेंगे ॥ २५-२६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे महामुने! व्यासजीके शिष्य
 वैशम्पायनने यजुर्वेदरूपी बुध्दके सनाईस शाखाओंकी रचन
 की; और उन्हें अपने शिष्योंको पढ़ाया तथा शिष्योंने भी
 क्रमशः ग्रहण किया ॥ १-२ ॥ हे द्विज! उनका एक परम
 धार्मिक और सदैव गुरुसेवापेक्षे तत्पर रहनेवाला शिष्य
 ब्रह्मरातक पुत्र याज्ञवल्क्य था ॥ ३ ॥ [एक समय समस्त
 ऋषियगणने मिलकर यह निमग किया कि] जो कोई
 महापेरुपर स्थित हमारे इस समाजमें सम्मिलित न होना
 उसको सात रात्रियोंके भीतर ही ब्रह्महत्या लगेगी ॥ ४ ॥
 हे द्विज। इस प्रकार भूमिमेंने पहले जिस समष्टिसे
 नियत किया था उसका केवल एक वैशम्पायनने ही
 अतिक्रमण कर दिया ५ ॥ इसके पश्चात् उन्होंने
 [प्रमत्तदृश] परसे झूट झूट अपने भानवोंको हत्या कर
 डाली; तब उन्होंने अपने शिष्योंसे कहा—'हे शिष्यगण।
 तुम सब लोग किसी प्रकारका विचार न करके मेरे
 शिष्ये ब्रह्महत्याको दूर करनेवाला व्रत करो' ॥ ६-७ ॥

अथाह याज्ञवल्क्यस्तु किमेभिर्भगवन्दिजैः ।
 क्लेशितैरल्पतेजोभिश्चरिष्वेऽहमिदं व्रतम् ॥ ८
 ततः क्रुद्धो गुरुः प्राह याज्ञवल्क्यं मह्यमुनिम् ।
 मुच्यतां यत्त्वयाधीतं मत्तो विप्रावमानक ॥ ९
 निस्तेजसो वदस्येनान्यत्त्वं ब्राह्मणपुङ्गवान् ।
 तेन शिष्येण नाधोऽस्ति ममाज्ञाभङ्गकारिणा ॥ १०
 याज्ञवल्क्यस्ततः प्राह भक्त्यैतत्तमेयोदितम् ।
 ममाप्यलं त्वयाधीतं यन्मया तदिदं द्विज ॥ ११

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तो रुधिराक्तानि सरूपाणि यजूंषि सः ।
 छर्दचित्वा ददौ तस्मै यद्यौ स स्वेच्छया मुनिः ॥ १२
 यजूंष्यथ विसृष्टानि याज्ञवल्क्येन वै द्विज ।
 जगद्दृष्टित्तिरा भूत्वा तैत्तिरीयास्तु ते ततः ॥ १३
 बह्वहस्याघ्नं चीर्णं गुरुणा घोदितैस्तु यैः ।
 घरकाध्वर्व्यवस्ते तु चरणान्मुनिसप्तम ॥ १४
 याज्ञवल्क्योऽपि मैत्रेय प्राणायामपरायणः ।
 तुष्टाव प्रयतस्सूर्यं यजूंष्यभिलषंस्ततः ॥ १५

याज्ञवल्क्य उवाच

नमस्सक्त्रे द्वाराय मुक्तेरभिततेजसे ।
 ऋषय्जुस्सामभूताय त्रयीधाम्ने च ते नमः ॥ १६
 नमोऽग्नीषोमभूताय जगतः कारणात्मने ।
 भास्कराय परं तेजस्सीषुन्नरुचिबिभ्रते ॥ १७
 कलाकाष्ठानिमेधादिकालज्ञानात्मरूपिणे ।
 ध्वेयाय विष्णुरूपाय परमाक्षररूपिणे ॥ १८
 विभक्तिं वस्सुरगणानाध्यायेन्दुं स्वर्शिमभिः ।
 स्वधामृतेन च पितृस्तस्मै तृप्त्यात्मने नमः ॥ १९
 हिमाम्बुघर्मसृष्टीनां कर्ता भर्ता च यः प्रभुः ।
 तस्मै त्रिकालरूपाय नमस्सूर्याय वेधसे ॥ २०
 अपहन्ति तमो यश्च जगतोऽस्य जगत्पतिः ।
 सत्त्वधामधरो देशो नमस्तस्मै विवस्वते ॥ २१
 सत्कर्मव्योद्यो न जनो मैवापः शुद्धिकारणम् ।
 यस्मिन्ननुदिते तस्मै नमो देवाय भास्वते ॥ २२

तब याज्ञवल्क्य बोले—“ भगवन्! ये सब ब्राह्मण
 अल्पत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देनेकी क्या आवश्यकता
 है? मैं अकेला ही इस व्रतका अनुष्ठान करूँगा” ॥ ८ ॥
 इससे गुरु वैशम्पायनजीने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्यसे
 कहा—“अरे ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले! तूने मुझसे
 जो कुछ कहा है, वह सब त्याग दे” ॥ ९ ॥ तू इन सभस्त
 द्विजश्रेष्ठोंको निस्तेज बताता है, मुझे तुझ-जैसे आज्ञा-
 भंगकारी शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है” ॥ १० ॥ याज्ञवल्क्यने
 कहा—“हे द्विज! मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था,
 मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है; लौजिये, मैंने आपसे
 जो कुछ कहा है वह यह मौखिक है” ॥ ११ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा कह महामुनि
 याज्ञवल्क्यजीने रुधिरों भरा हुआ मूर्तिमान् यजूर्वेद
 खन करके उन्हें दे दिया, और स्वच्छानुसार चले गये ॥ १२ ॥
 हे द्विज! याज्ञवल्क्यद्वारा खन की हुई उन यजुःश्रुतियोंको
 अन्य शिष्योंने नित्तिर (तीतर) होकर ग्रहण कर लिया,
 इसलिये वे सब तैत्तिरीय कहलाये ॥ १३ ॥ हे मुनिसत्तम! जिन
 विप्रगणने गुरुस्त्री प्रेरणासे ब्रह्महत्या विनाशकव्रतका अनुष्ठान
 किया था, वे सब व्रताचरणके कारण यजुःशाखाध्यायी
 चरकाध्वर्यु हुए ॥ १४ ॥ तदनन्तर याज्ञवल्क्यने भी
 यजूर्वेदकी श्रुतियोंको हृच्छासे प्राणोंका संयम कर संयतचित्तसे
 सूर्यभगवान्की स्तुति की ॥ १५ ॥

याज्ञवल्क्यजी बोले—अतुलित तेजस्वी, मुक्तिके
 इन्द्रस्वरूप उधा वेदयज्यम तेजसे सम्पन्न एवं ऋक्, यजुः तथा
 सामस्वरूप सविशोदेवको नमस्कार है ॥ १६ ॥ जो अग्निऔर
 चन्द्रमारूप, बगत्के कारण और ध्रुवने नामके परमतेजको
 धारण करनेवाले हैं, उन भगवान् भास्करको नमस्कार है ॥ १७ ॥
 कला, काष्ठा, निमेष आदि कालज्ञानके कारण तथा ध्यान
 करनेयोग्य परब्रह्मस्वरूप विष्णुमय श्रीसूर्यदेवको नमस्कार
 है ॥ १८ ॥ जो अपनी किरणोंसे अन्द्रमाको पोषित करते
 हुए देवताओंको तथा स्वधारूप अमृतसे पितृगणको तृप्त
 करते हैं, उन तृप्तिरूप सूर्यदेवको नमस्कार है ॥ १९ ॥ जो
 हिम, जल और उष्णताके कर्ता [अर्थात् शीत, गर्म और
 ग्रीष्म आदि ऋतुओंके कारण] हैं और [जगत्का]
 पोषण करनेवाले हैं, उन त्रिकालवृत्ति विधाता भगवान्
 सूर्यको नमस्कार है ॥ २० ॥ जो जगत्पति इस सम्पूर्ण
 जगत्के अन्धकारको दूर करते हैं, उन सत्यमूर्तिधारी-
 विवस्वान्को नमस्कार है ॥ २१ ॥ जिनके उद्दिष्ट हुए विना
 मनुष्य सत्कर्ममें प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धिका
 कारण नहीं हो सकता, उन भास्वान्देवको नमस्कार है ॥ २२ ॥

स्पृष्टो यदंशुभिलोकः क्रियायोग्यो हि जायते ।
 पवित्रताकारणाय तस्मै शुद्धात्मने नमः ॥ २३
 नमः सवित्रे सूर्याय भास्कराय विवस्वते ।
 आदित्याद्यादिभूताय देवादीनां नमो नमः ॥ २४
 हिरण्यसं रथं यस्य केतवोऽमृतवाजिनः ।
 घटन्ति भुवनालोकिकक्षुर्षं ते नमाम्यहम् ॥ २५

श्रीपराशर उवाच

इत्येवमादिभिस्तेन स्तूयमानस्त वै रविः ।
 वाजिरूपधरः प्राह त्रियतामिति वाञ्छितम् ॥ २६
 याज्ञवल्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम् ।
 यजूंषि तानि मे देहि वानि सन्ति न मे गुरो ॥ २७
 एवमुक्तो ददौ तस्मै यजूंषि भगवान् रविः ।
 अयातयामसंज्ञानि वानि वेत्ति न तद्गुरुः ॥ २८
 यजूंषि यैरग्नीतानि तानि विप्रैर्द्विजोत्तम ।
 वाचिनस्ते समाख्याताः सूयोऽप्यख्योऽभ्यहृतः ॥ २९
 शाखाभेदास्तु तेषां वै दश पञ्च च वाजिनम् ।
 काण्वान्नास्तुमहाभाग याज्ञवल्क्यसः प्रकीर्तिताः ॥ ३०

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽंशे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

छठा अध्याय

सामवेदकी शाखा, अठारह पुराण और चौदह विद्याओंके विभागका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

सामवेदतरोऽष्टारखा व्यासशिष्यस्य जैमिनिः ।
 क्रमेण येन मंत्रेण विभेदं शृणु तन्मम ॥ १
 सुमन्तुस्तस्य पुत्रोऽभूत्सुकर्मास्याप्यभूत्सुतः ।
 अधीतवन्तौ चैकैकां संहितां तौ महामती ॥ २
 सहस्रसंहिताभेदं सुकर्मा तत्सुतस्ततः ।
 चकार तं च तच्छिष्यो जगृह्यते महश्शतौ ॥ ३
 द्विष्यनाभः त्रैसत्यः पौषिडिश्च द्विजोत्तम ।
 उदीच्यस्सामगाः शिष्यास्तस्य पञ्चशतं सृजाः ॥ ४

जिनके किरण-समूहका स्पर्श होनेपर लोक-कर्मानुष्ठानके योग्य होता है, उन पवित्रताके कारण, शुद्धस्वरूप सूर्यदेवको नमस्कार है ॥ २३ ॥ भगवान् सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्वानको नमस्कार है; देवता आदि समस्त भूतोंके आदिभूत आदित्यदेवकी बरम्बार नमस्कार है ॥ २४ ॥ जिनका तेजोमय रथ है, [प्रज्ञारूप] भ्रजार्ण है, जिन्हें [छन्दोमय] अमर अस्त्रगण बहुर करते हैं तथा जो त्रिभुवनकी प्रकाशित करनेवाली नेत्ररूप हैं, उन सूर्यदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २५ ॥

श्रीपराशरजी बोले— उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् सूर्य अस्त्ररूपसे प्रकट होकर बोले— 'तुम अपना अपाँष्ट वर माँगो' ॥ २६ ॥ तब याज्ञवल्क्यजीने उन्हें प्रणाम करके कहा— 'आप मुझे उन यजुः-श्रुतियोंका उपदेश कीजिये जिन्हें मेरे गुरुजी भी न जानते हों' ॥ २७ ॥ उनके ऐसा कहनेपर भगवान् सूर्यने उन्हें अयातयाम नमक यजुः-श्रुतियोंका उपदेश दिया जिन्हें उनके गुरु वैशम्पायनजी भी नहीं जानते थे ॥ २८ ॥ हे द्विजोत्तम! उन श्रुतियोंको जिन ब्राह्मणोंने पढ़ा था वे वाची नामसे विख्यात हुए क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गये थे ॥ २९ ॥ हे महाभाग! उन वाञ्छितश्रुतियोंकी काण्व आदि नद्रह शाखाएँ हैं; ये सब शाखाएँ महर्षि याज्ञवल्क्यकी प्रवृत्त की हुई कही जाती हैं ॥ ३० ॥

श्रीपराशरजी बोले— हे मंत्रेय! जिस क्रमसे व्यासजीके शिष्य जैमिनिने सामवेदकी शाखाओंका विभाग किया था, वह पुझसे सुनो ॥ १ ॥ जैमिनिक पुत्र सुमन्तु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामति पुत्र-पौत्रोंने सामवेदकी एक-एक श्रद्धाका अध्ययन किया ॥ २ ॥ तदनन्तर सुमन्तुके पुत्र सुकर्माने अपनी सामवेदसंहिताके एक सहस्र शाखाभेद किये और हे द्विजोत्तम! उन्हें उसके कौसल्य हिरण्यनाभ तथा पौषिडि नामक दो महाशत शिष्योंने ग्रहण किया। हिरण्यनाभके पाँच सौ शिष्य थे जो उदीच्य नामक कहलाये ॥ ३-४ ॥

हिरण्यनाभात्तावत्संहिता वैद्विजोत्तमैः ।
 गृहीतास्तेऽपि चोच्चते पण्डितैः प्राच्यसामगाः ॥ ५
 लोकाक्षिणीयमिश्रैश्च कक्षांर्वात्साङ्गलिस्तथा ।
 पीण्डिक्रिशिष्यास्तद्भेदैःसंहिता बहुनीकृताः ॥ ६
 हिरण्यनाभशिष्यस्तु चतुर्विंशतिसंहिताः ।
 प्रोवाच कृतिनामासौ शिष्येभ्यश्च महामुनिः ॥ ७
 तैश्चापि सामवेदोऽसौ शाखाभिर्बहुलीकृतः ।
 अथर्वणामशौ यद्व्ये संहितानां समुच्चयम् ॥ ८
 अधर्ववेदं स मुनिस्सुमन्तुर्मिततृप्तिः ।
 शिष्यमथ्यापयामास कबन्धं सोऽपि तं द्विधा ।
 कृत्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान् ॥ ९
 देवदर्शस्य शिष्यास्तु मेथोब्रह्मबलिस्तथा ।
 शौल्कायनिः पिप्पलादस्तथान्यो द्विजसत्तम ॥ १०
 पथ्यस्यापि त्रयश्शिष्याः कृता वैद्विजसंहिताः ।
 जाबालिः कुमुदादिश्च तृतीयश्रीनको द्विज ॥ ११
 शौनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकां तु बभ्रुवे ।
 द्वितीयां संहितां प्रादात्सैन्धवाय च संज्ञिने ॥ १२
 सैन्धवान्मुञ्जिकेशश्च द्वेषाभिन्नास्त्रिधा पुनः ।
 नक्षत्रकल्पो वेदानां संहितानां तथैव च ॥ १३
 चतुर्थस्मर्यादांगिरसश्शान्तिकल्पश्च पथ्यमः ।
 श्रेष्ठास्त्यर्थवर्णामेते संहितानां विकल्पकाः ॥ १४
 आख्यानैश्चाप्युप्राख्यानैर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः ।
 पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ॥ १५
 प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत्सूतो वै रोमहर्षणः ।
 पुराणसंहितां तस्मै ददौ व्यासो भद्रमतिः ॥ १६
 सुमतिश्चाग्निवर्चाश्च मित्रायुश्शांसपायनः ।
 अकृतव्रणसावर्णो घट्ट शिष्यास्तस्य चाभवन् ॥ १७
 काश्यपः संहिताकर्ता सावर्णिशांसपायनः ।
 रोमहर्षणिका चान्या तिसृणां मूलसंहिता ॥ १८
 चतुष्टयेन भेदेन संहितानामिदं मुने ॥ १९
 आद्यं सर्वपुराणानां पुराणं ब्राह्ममुच्यते ।
 अष्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः प्रब्रह्मते ॥ २०

इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमोंने हतनी जो संहिताएँ हिरण्यनाभसे और ग्रहण कीं उन्हें पण्डितजन प्राच्य सामग कहते हैं ॥ ५ ॥ पीण्डिकके शिष्य लोकाक्षि, नीधमि, कशांवान् और लांगलि थे। उनके शिष्य-प्रशिष्योंने अपनी-अपनी संहिताओंके विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया ॥ ६ ॥ महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभके एक और शिष्यने अपने शिष्योंको सामवेदकी चौबीस संहिताएँ पढ़ायीं ॥ ७ ॥ फिर उन्होंने भी इस सामवेदका शाखाओंद्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अधर्ववेदकी संहिताओंके समुच्चयका वर्णन करता हूँ ॥ ८ ॥

अथर्ववेदको सर्वप्रथम अमिततेजोमय सुमन्तु मुनिने अपने शिष्य कबन्धको पढ़ाया था, फिर कबन्धने उसके दो भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्योंको दिया ॥ ९ ॥ हे द्विजसत्तम! देवदर्शके शिष्य मेध, ब्रह्मबलि, शौल्कायनि और पिप्पलाद थे ॥ १० ॥ हे द्विज। पथ्यके भी आबालि, कुमुदादि और शौनक नामक तीन शिष्य थे, जिन्होंने संहिताओंका विभाग किया ॥ ११ ॥ शौनकने भी अपनी संहिताके दो विभाग करके उनमेंसे एक बभ्रुको तथा दूसरी सैन्धव नामक अपने शिष्यको दी ॥ १२ ॥ सैन्धवसे पढ़कर मुजिकेशने अपनी संहिताके पहले दो और फिर तीन [इस प्रकार पाँच] विभाग किये। नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, अंगिरसकल्प और शान्तिकल्प—उनके रचे हुए ये पाँच विकल्प अथर्ववेद-संहिताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ १३-१४ ॥

तदनन्तर पुराणार्थविशारद व्यासजीने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धिके सहित पुराणसंहिताकी रचना की ॥ १५ ॥ रोमहर्षण सूत व्यासजीके प्रशिष्य शिष्य थे। महामति व्यासजीने उन्हें पुराणसंहिताका अध्ययन कराया ॥ १६ ॥ उन सूतजीके सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांसपायन, अकृतव्रण और सावर्णि—ये छः शिष्य थे ॥ १७ ॥ काश्यपजीभीम अकृतव्रण, सावर्णि और शांसपायन—ये तीनों संहिताकर्ता हैं। उन तीनों संहिताओंके आधार एक रोमहर्षणजीकी संहिता है। हे मुने। इन चारों संहिताओंको सारभूत धरने यह विष्णुपुराणसंहिता जाननी है ॥ १८-१९ ॥ पुराणत्रय पुरुष कुल अत्यरुह पुराण बतलाते हैं; उन सबमें प्राचीनतम ब्रह्मपुराण है ॥ २० ॥

ब्राह्मं पात्रं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा ।
 तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् ॥ २१ ॥
 आग्नेयमष्टमं शैवं भविष्यन्नवमं स्मृतम् ।
 दशमं ब्रह्मवैवर्तं लिंगमेकादशं स्मृतम् ॥ २२ ॥
 वाराहं द्वादशं चैव स्कान्दं चात्र त्रयोदशम् ।
 चतुर्दशं वामनं च कौर्मं पञ्चदशं तथा ॥ २३ ॥
 मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम् ।
 महापुराणान्येतानि द्वाष्टादश महामुने ॥ २४ ॥
 तथा चोपपुराणानि मुनिभिः कथितानि च ।
 सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च ।
 सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत् ॥ २५ ॥
 यदेतत्तत्र मैत्रेय पुराणं कथ्यते मया ।
 एतद्वैष्णवसंज्ञं शै पात्रास्य समनन्तरम् ॥ २६ ॥
 सर्गं च प्रतिसर्गं च वंशमन्वन्तरादिषु ।
 कथ्यते भगवान्विष्णुरशेषेष्वेव सत्तम ॥ २७ ॥
 अङ्गानि षेदाश्चत्वारो भीमांसा न्यायविस्तरः ।
 पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥ २८ ॥
 आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः ।
 अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या द्वाष्टादशैव ताः ॥ २९ ॥
 ज्ञेया ब्रह्मर्षयः पूर्वं तेभ्यो देवर्षयः पुनः ।
 राजर्षयः पुनस्तेभ्य ऋषिप्रकृतयस्त्रयः ॥ ३० ॥
 इति शास्त्रास्समाख्याताशाखाभेदास्तथैव च ।
 कर्तारश्चैव शाखानां भेदहेतुस्तथोदितः ॥ ३१ ॥
 सर्वमन्वन्तरेष्वेवं शाखाभेदास्समाः स्मृताः ।
 प्राजापत्या श्रुतिर्नित्या तद्विकल्पस्त्वमे द्विज ॥ ३२ ॥
 एतत्ते कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ।
 मैत्रेय श्वेतसम्बन्धः किमन्यत्कथयामि ते ॥ ३३ ॥

प्रथम पुराण ब्राह्म है, दूसरा भाय, तीसरा वैष्णव,
 चौथा शैव, पाँचवाँ भागवत, छठा नारदीय और सातवाँ
 मार्कण्डेय है ॥ २१ ॥ इसी प्रकार आठवाँ आग्नेय, नवाँ
 भविष्यत्, दसवाँ ब्रह्मवैवर्त और ग्यारहवाँ पुराण लिंग
 कहा जाता है ॥ २२ ॥ तथा बारहवाँ वाराह, तेरहवाँ
 स्कान्द, चौदहवाँ वामन, पन्द्रहवाँ कौर्म, तथा इनके
 पश्चात् मात्स्य, गारुड और ब्रह्माण्डपुराण हैं। हे महामुने।
 ये ही अष्टादश महापुराण हैं ॥ २३-२४ ॥ इनके अतिरिक्त
 मुनिद्वन्द्वोने और भी अनेक उपपुराण बतलाये हैं। इन
 सभीमें लुन्दि, प्रलय, देवता आदिकोके वंश, मन्वन्तर
 और भिन्न-भिन्न राजवंशोंके चरित्रोंका वर्णन किया
 गया है ॥ २५ ॥

हे मैत्रेय! जिस पुराणको मैं तुम्हें सुना रहा
 हूँ वह पात्रपुराणके अनन्तर कहा हुआ वैष्णव
 नामक महामुराण है ॥ २६ ॥ हे साधुश्रेष्ठ! इसमें सर्ग,
 प्रतिसर्ग, वंश और मन्वन्तरादिका वर्णन करते हुए
 सर्वत्र केवल विष्णुगणनाका ही वर्णन किया गया
 है ॥ २७ ॥

छः वेदांग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण
 और धर्मशास्त्र—ये ही चौदह विद्याएँ हैं ॥ २८ ॥
 इन्हींमें आयुर्वेद, धनुर्वेद और गान्धर्व इन तीनोंको
 तथा चौथे अर्थशास्त्रको मिला लेंगे तो कुल अठारह
 विद्याएँ हो जाती हैं। ऋषियोंके तीन भेद हैं—प्रथम
 ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और फिर राजर्षि ॥ २९-३० ॥
 इस प्रकार मैंने तुमसे वेदोंकी शाखा, शाखाओंके
 भेद, उनके रचयिता तथा शाखाभेदके कारणोंका भी
 वर्णन कर दिया ॥ ३१ ॥ इसी प्रकार समस्त मन्वन्तारोंमें
 एक-से शाखाभेद रहते हैं; हे द्विज! प्रजापती
 ब्रह्मावीसे प्रकट होनेवाली श्रुति तो नित्य है, ये
 तो उसके विकल्पमात्र हैं ॥ ३२ ॥ हे मैत्रेय! केके
 सम्बन्धमें तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने
 सुना दिया; अब और क्या कहूँ? ॥ ३३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽशे षष्ठीऽध्यायः ॥ ६ ॥

सातवाँ अध्याय

यमगीता

श्रीमंत्र उवाच

यथावत्कथितं सर्वं यत्पुष्टोऽसि मया गुरो ।
 श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वेकं तद्भवान्प्रब्रवीतु मे ॥ १
 सप्त द्वीपानि पातालविभ्रंशश्च महामुने ।
 सप्तलोकैश्च येऽन्तःस्था ब्रह्माण्डस्यास्य सर्वतः ॥ २
 स्थूलैः सूक्ष्मैस्तथा सूक्ष्मसूक्ष्मात्सूक्ष्मतरैस्तथा ।
 स्थूलात्स्थूलतरैश्चैव सर्वं प्राणिभिरावृतम् ॥ ३
 अंगुलस्याष्टभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिसत्तम ।
 न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्धनिबन्धनाः ॥ ४
 सर्वे चैते घशं यान्ति यमस्य भगवन् किल ।
 आयुषोऽन्ते तथा यान्ति यातनास्तत्रजोदिताः ॥ ५
 यातनाभ्यः परिभ्रष्टा देवाद्यास्वध योनिषु ।
 जन्तवः परिवर्तन्ते शास्त्रापामेष निर्णयः ॥ ६
 सोऽहमिच्छामि तच्छ्रोतुं यमस्य वशावर्तिनः ।
 न भवन्ति नरा येन तत्कर्म कथयस्व मे ॥ ७

श्रीपराशर उवाच

अयमेव मुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना ।
 पुष्टः पितामहः प्राह भीष्मो यत्तच्छृणुष्व मे ॥ ८

भीष्म उवाच

पुरा ममागतो वत्स सखा कालिङ्गको द्विजः ।
 स मामुवाच पृष्टो वै मया जातिस्मरो मुनिः ॥ ९
 तेनाख्यातमिदं सर्वमित्थं चैतद्भविष्यति ।
 तथा च तदभूद्भूत्स यथोक्तं तेन धीमता ॥ १०
 स पृष्टश्च मया भूयः श्रद्धधानेन वै द्विजः ।
 यद्यदाह न तद्गृह्णन्मन्यथा हि मया क्वचित् ॥ ११
 एकदा तु मया पृष्टमेतद्बद्धवत्तोदितम् ।
 प्राह कालिङ्गको विप्रस्मृत्वा तस्य मुनेर्वचः ॥ १२
 जातिस्मरेण कथितो रहस्यः परमो मम ।
 यमकिङ्करयोर्व्योऽभूत्संवादस्तं ब्रवीमि ते ॥ १३

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे गुरो! मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत् वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिये ॥ १ ॥ हे महामुने! सप्तों द्वीप, सातों पताल और सातों लोक—ये सभी स्थान जो इस ब्रह्माण्डके अन्तर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवोंसे भरे हुए हैं ॥ २-३ ॥ हे मुनिसत्तम! एक अंगुलका आठवाँ भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म-बन्धनसे बंधे हुए जीव न रहते हों ॥ ४ ॥ किंतु हे भगवन्! आयुके समाप्त होनेपर ये सभी यमराजके वशोभूत हो जाते हैं और उन्हींके आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकारकी यातनाएँ भागते हैं ॥ ५ ॥ तदनन्तर पाप-भोगके समाप्त होनेपर वे देवादि योनियोंमें घूमते रहते हैं—सकल शारंगोका ऐसा ही मत है ॥ ६ ॥ अतः आप मुझे वह कर्म बताइये जिसे करनेसे भनुष्य यमराजके वशोभूत नहीं होता; मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मुने! यहाँ प्रश्न महात्मा नकुलने पितामह भीष्मसे पूछा था। उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो ॥ ८ ॥

भीष्मजीने कहा—हे वत्स! पूर्वकालमें मेरे पास एक कालिङ्गदेशीय ब्राह्मण-मित्र आया और मुझसे बोला—'मेरे पूछनेपर एक जातिस्मर पुनिले बतलाया था कि ये सब बातें अमुक-अमुक प्रकार ही होंगी।' हे वत्स! उस बुद्धिमान्ने जो-जो बातें जिस-जिस प्रकार होनेको कही थीं वे सब ज्यों-की-त्यों हुईं ॥ ९-१० ॥ इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जानेसे मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किये और उनके उत्तरमें उस द्विजशेखरने जो-जो बातें बतलायीं उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा ॥ ११ ॥ एक दिन, जो बात तुम मुझसे पूछी हो वही मैंने उस कालिङ्ग ब्राह्मणसे पूछी। उस समय उसने उस मुनिके वचनोंको याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मणने, यम और उनके दूतोंके बीचमें जो संवाद हुआ था, वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ ॥ १२-१३ ॥

कालिङ्ग उवाच

स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं

वदति यमः किल तस्य कर्णमूले ।

परिहर मधुसूदनप्रपन्नान्-

प्रभुरहमन्यनृणामवैष्णवानाम् ॥ १४

अहममरवराचितेन धात्रा

यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः ।

हरिगुरुवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः

प्रभवति संवमने ममापि विष्णुः ॥ १५

कटकमुकुटकर्णिकादिभेदैः

कनकमभेदमपीष्यते यथैकम् ।

सुरपशुमनुजादिकल्पनाभि-

र्हरिखिलाभिरुदीर्यते तथैकः ॥ १६

क्षितितलपरमाणवोऽनिलान्ते

पुनरुपयान्ति यथैकतां धरिष्याः ।

सुरपशुमनुजाद्यस्तधान्ते

गुणकलुषेण सनातनेन तेन ॥ १७

हरिममरवराचिताङ्गप्रपन्नं

प्रणमति यः परमार्थतो हि मर्त्यः ।

तत्रपगतक्षमस्तपापबन्धं

व्रज परिहृत्य अथाग्निमाच्यसिक्तम् ॥ १८

इति यमवचनं निशम्य पाश्री

यमपुरुषस्तमुवाच धर्मराजम् ।

कथय मम विभो समस्तघातु-

र्भवति हेः खलु चादृशोऽस्य भक्तः ॥ १९

यम उवाच

न चलति निजवर्णधर्मतो यः

समप्रतिरात्मसुहृद्विपक्षपक्षे ।

न हरति न च हन्ति किञ्चिद्दुष्कृतैः

सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥ २०

कलिकलुषमलेन यस्य नात्मा

विमलमतेर्मलिनीकृतस्तमेनम् ।

यनसि कृतजनार्दनं मनुष्यं

सततमवेहि हरेरतीवभक्तम् ॥ २१

कालिङ्ग बोला—अपने अनुचरकी त्रासमें

पाश लिये देखकर यमराजने उसके कानमें कहा—

‘भगवान् मधुसूदनके शरणागत व्यक्तियोंकी छोड़

देना, क्योंकि मैं वैष्णवोंसे अतिरिक्त और सब मनुष्योंका

हैं स्वामी हूँ ॥ १४ ॥ देव-पुण्य विधातने पुझे

‘यम’ नामसे लोगोंके पाप-पुण्यका विचार

करनेके लिये नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्रीहर्षिके

परतीभूत हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ। भगवान् विष्णु मेरा

भी निदन्त्रण करनेमें समर्थ हैं ॥ १५ ॥ जिस प्रकार

सुवर्ण भेदरहित और एक होकर भी कटक,

मुकुट तथा कर्णिका आदिके भेदसे नानारूप

प्रतीत होता है उसी प्रकार एक ही हरिक

देवता, मनुष्य और पशु आदि नाना-विध कल्पनाओंसे

निर्देश किया जाता है ॥ १६ ॥

जिस प्रकार चायुके शान्त होनेपर उसमें

ठंडते हुए परमाणु पृथिवीसे मिलकर एक ही वस्तु

हैं उसी प्रकार गुण-क्षोभसे उत्पन्न हुए समस्त

देवता, मनुष्य और पशु आदि [उसका अन्त

हो जानेपर] उस सनातन परमात्मासे लीन हो

जाते हैं ॥ १७ ॥ जो भगवान्के सुरवरचन्दित चरण-

कमलोंको परमार्थ-बुद्धिसे चन्दन करता है,

घृताहुतिसे प्रज्वलित अग्निके समान सपस्त पप-

बन्धनसे मुक्त हुए उस पुरुषको तुम दूरधरिसे

छोड़कर निकल जानो ॥ १८ ॥

यमराजके ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त

यमदूतने उनसे पूछा—‘प्रभा! इसके विधाता भगवान्

हरिकका भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे

कहिये’ ॥ १९ ॥

यमराज बोले—जो पुरुष अपने वर्ण-

धर्मसे विचलित नहीं होता, अपने सुहृद् और

विपक्षियोंके प्रति समान भाव रखता है, किसीपक्ष

द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीवकी हिंसा

नहीं करता उस अल्पन्त रागादि-शून्य और निर्मलचित्त

व्यक्तिको भगवान् विष्णुका भक्त जानो ॥ २० ॥

जिस निर्मलचित्तिका चित्त कलि-कल्पकरूप

मलसे मलिन नहीं दूषित और जिसके अपने

हृदयमें श्रीजनार्दनको यसाया हुआ है उस

मनुष्यको भगवान्का अतीव भक्त समझो ॥ २१ ॥

कनकमपि रहस्यवेक्ष्य बुद्ध्या
 नृणांभिव यस्समर्थेति च परस्वम् ।
 भवति च भगवत्यनन्यचेताः
 पुरुषवर्षं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥ २२
 स्मटिकगिरिशिलामलः क्व विष्णु-
 र्मनसि नृणां क्व च पत्सरादिदोषः ।
 न हि तुहिनमधुखरश्विभुञ्जे
 भवति हुताशनदीप्तिजः प्रतापः ॥ २३
 विपलमतिरमत्सरः प्रशान्ति-
 श्शुचिसरितोऽखिलसत्यमिप्रभूतः ।
 प्रियद्वितवचनोऽस्तपानमाधो
 वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः ॥ २४
 वसति हृदि सनातने च तस्मिन्
 भवति पुमाञ्जगतोऽस्य सौम्यरूपः ।
 क्षितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः
 कथयति चारुतयैव शालपोतः ॥ २५
 यमनियमविधूतकल्पषाणा-
 मनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम् ।
 अपगतमदमानमत्सराणां
 त्यज भट दूरतरेण मानवानाम् ॥ २६
 हृदि यदि भगवाननादिरास्ते
 हरिरसिशङ्खगदाधरोऽब्जयात्मा ।
 तदधमघविघातकर्तृभिन्नं
 भवति कथं सति चान्धकारमर्के ॥ २७
 हरति परधनं निहन्ति जनून्
 वदति तथाऽनुतनिष्ठुराणि चक्षुः ।
 अशुभजनितदुर्मदस्य पुंसः
 कलुषमतेर्हृदि तस्य नास्त्यवन्तः ॥ २८
 न सठति परसम्पदं विनिन्दां
 कलुषमतिः कुरुते भतामसाधुः ।
 न यजति न ददाति यश्च सन्तं
 मनसि न तस्य जनार्दनोऽधमस्य ॥ २९

जो एकन्तमें पड़े हुए दूसरेके होनेकी देखकर भी उसे अपनी बुद्धिद्वारा तुमके समान समझता है और निरन्तर भगवान्का अनन्यभावसे चिन्तन करता है उस परश्वेत्की विष्णुभक्त भक्त जानो ॥ २२ ॥ कहाँ तो स्मटिकगिरि-शिलाके समान अति निर्मल भगवान् विष्णु और कहीं मनुष्योंके चित्तमें रहनेवाले राग-द्वेषादि दोष? [इन दोनोंका संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता] हिमकर (चन्द्रमा)-के किरण जालमें अग्नि-तेजको उष्णता कभी नहीं रह सकती है ॥ २३ ॥ जो व्यक्ति निर्मल-शुद्ध, भास्वरहित, प्रशान्त, शूद्र-चरित्र, सपस्त जीवोंका सुहृद्, प्रिय और द्वेषवादी तथा अभिमान एवं मायासे रहित होता है उसके हृदयमें भगवान् वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं ॥ २४ ॥ उन सनातन भगवान्के हृदयमें विराजमान होनेपर पुरुष इस जगत्में सौम्यगुणी हो जाता है, जिस प्रकार नवीन शालवृक्ष अपने सौन्दर्यसे ही भीतर भर हुए अति सुन्दर पाथिव रसको बतला देता है ॥ २५ ॥

हे दूत! यम और नियमके द्वारा जिनकी पापराशि दूर हो गयी है, जिनका हृदय निरन्तर श्रोत्रच्युतमें ही आसक्त रहता है, तथा जिनमें गर्भ, अभिमान और भास्वर्यका लेश भी नहीं रहा है; उन मनुष्योंको तुम दूरहीसे त्याग देना ॥ २६ ॥ यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अश्वयात्मा भगवान् हरि हृदयमें विराजमान हैं तो उन पापनाशक भगवान्के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यके रहते हुए भला अन्धकार कैसे ढर सकता है? ॥ २७ ॥ जो पुरुष दूसरोंका धन हरण करता है, जीवोंकी हिंसा करता है, तथा मिथ्या और कटुभाषण करता है उस अशुभ कर्मोन्वत दुष्टबुद्धिके हृदयमें भगवान् अनन्त नहीं टिक सकते ॥ २८ ॥ जो कुमति दूसरोंके वैभवको नहीं देख सकता, जो दूसरोंकी निन्दा करता है, साधुजनका अपकार करता है तथा [सम्पन्न होकर भी] न तो श्रीविष्णुभगवान्को पूजा ही करता है और न [उनके भक्तोंको] दान ही देता है; उस अधमके हृदयमें श्रोत्रार्दनाका निवास कभी नहीं हो सकता ॥ २९ ॥

परमसुहृदि बान्धवे कसत्रे
 सुततनवापितुमान्भृत्यवरौ ।
 शठमतिरुपवाति योऽर्थतृष्णां
 तमधमचैष्टमवेद्दि नास्य भक्तम् ॥ ३०
 अशुभमतिरसत्प्रवृत्तिसक्त-
 स्सततमनार्थकुशीलसंगमत्तः ।

अनुदिनकृतपापबन्धयुक्तः
 पुरुषपशुर्न हि वासुदेवभक्तः ॥ ३१
 सकलमिदमहं च वासुदेवः
 परमपुमान्परमेश्वरस्स एकः ।
 इति मतिरचला भवत्यनन्ते
 हृदयगते ब्रज तान्निह्यद्य दूरान् ॥ ३२
 कमलनयन वासुदेव विष्णो
 धरणिधराच्युत शङ्खचक्रपाणे ।
 भव शरणमितीरयन्ति ये वै
 त्यज भट दूस्तरेण तानपापान् ॥ ३३
 वसति मनसि चस्य सोऽव्ययात्मा
 पुरुषवरस्य न तस्य दृष्टिपाते ।
 तस्य गतिरथ वा ममास्ति चक्र-
 प्रतिहृतवीर्यबलस्य सोऽन्यत्नोक्त्यः ॥ ३४

कालिङ्ग उवाच

इति निजभटशासनाय देवो
 रवितनयस्स किलाह धर्मराजः ।
 मम कथितमिदं च तेन तुभ्यं
 कुरुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम् ॥ ३५

श्रीभीष्म उवाच

मकुलैस्तन्मयाख्यातं पूर्वं तेन द्विजन्यना ।
 कलिङ्गदेशादभ्येत्य प्रीतेन सुमहात्मना ॥ ३६
 मयाध्येतव्याधान्यायं सम्यग्वत्स तवोदितम् ।
 यथा विष्णुमृते बान्धवत्राणं संसारसागरे ॥ ३७
 किंकराः पाशदण्डश्च न यमो न च यातनाः ।
 सम्पर्शस्तस्य यस्यात्मा केशवात्मबन्धनसदा ॥ ३८

जो दृष्टबुद्धि अपने परम बुद्ध, बन्धु-
 बान्धव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता तथा भृत्यवर्गों
 प्रति अर्थतृष्णा प्रकट करता है उस पापात्मीके
 भगवान्का भक्त मत सभझो ॥ ३० ॥ जो दुर्बुद्धि
 पुरुष असत्कर्मोंमें लगा रहता है, नीच पूर्वजों
 आधार और ठन्हीके संगमें उन्मत्त रहता है वही
 नित्यप्रति पापमय कर्मबन्धनमें ही बँधता जाग है
 वह मनुष्यरूप गशु ही है; वह भगवान् दासुदेवका
 भक्त नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥ यह सकल प्रपंच
 और मैं एक परमपुरुष परमेश्वर वासुदेव ही
 हूँ, हृदयमें भगवान् अन्तके स्थित होनेसे जिनका
 ऐसी स्थिर बुद्धि हो गयी हो, उन्हें तुम दूरसे
 छोड़कर चले जाना ॥ ३२ ॥ 'हे कमलनयन! हे
 वासुदेव! हे विष्णो! हे धरणिधर! हे अच्युत! हे
 शंख-चक्र-पाणे! आप हमें शरण दीजिये'—जो
 लोग इस प्रकार पुकारते हैं उन निष्प
 प्यक्तियोंको तुम दूरसे ही त्याग देना ॥ ३३ ॥

जिस पुरुषश्रेष्ठके अन्तःकरणमें वे
 अव्ययात्मा भगवान् विराजते हैं, उसका चरित्र
 दृष्टिपात होता है वहाँतक भगवान्के चरित्रके
 प्रभावसे अपने बल-वीर्य नष्ट हो जानेके
 कारण गुफारी अवस्था में ही गति नहीं हो सकती।
 वह (महापुरुष) तो अन्य (वैकुण्ठादि) लोकोंका
 पात्र है ॥ ३४ ॥

कालिङ्ग बोला—हे कुरुवर! अपने दूतको किल्ला
 देनेके लिये सूर्यपुत्र धर्मराजने उससे इस प्रकार
 कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जातिस्मर मुनिने कहा भी
 और मैंने यह सम्पूर्ण कथा तुमको सुना दी है ॥ ३५ ॥

श्रीभीष्मजी बोले—हे नकुल! पूर्वकालमें
 कालिङ्गदेशसे आये हुए उस महात्मा ब्राह्मणने
 प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था ॥ ३६ ॥
 हे बत्स! वही सम्पूर्ण वृत्तान्त, जिस प्रकार कि
 इस संसार-सागरमें एक विष्णुभगवान्को छोड़कर
 जीवका और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने श्रे-
 का-न्वों तुम्हें सुना दिया ॥ ३७ ॥ जिसका हृदय
 निरन्तर भगवत्पराधन रहता है उसका यह
 यमदूत, यमपाश, यमदण्ड अथवा यम-सर्प
 कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ॥ ३८ ॥

श्रीपराशर उवाच

एतन्मुने समाख्यातं गीतं यैवस्वतेन यत् ।
त्वत्प्रश्नानुगतं सम्यक्कमन्वच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ ३९

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयोऽंशे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

आठवाँ अध्याय

विष्णुभगवान्की आराधना और चातुर्वर्ण्य-धर्मका वर्णन

श्रीमंत्रेण उवाच

भगवन्भगवान्देवः संसारविजिगीषुभिः ।
समाख्याहि जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा ॥ १
आराधिताञ्च गोविन्दादाराधनपरिणैः ।
यत्प्राप्यते फलं श्रोतुं तच्चेच्छामि महामुने ॥ २

श्रीपराशर उवाच

यत्पृच्छति भवानेतत्सगरेण महात्मना ।
और्वः प्राह यथा पृष्टस्तन्मे निगदतश्शृणु ॥ ३
सगरः प्रणिपत्यैनमीर्वं यत्प्रच्छ भार्गवम् ।
विष्णोरााराधनोपायसम्बन्धं मुनिसत्तम ॥ ४
फलं चाराधिते विष्णौ यत्पुंसामभिजायते ।
स चाह पृष्टो यत्नेन तस्मै तन्मेऽखिलं शृणु ॥ ५

और्व उवाच

भौमं मनोरथं स्वर्गं स्वर्गं रम्यं च यत्पदम् ।
प्राप्नोत्वाराधिते विष्णौ निर्वाणामपि चोत्तमम् ॥ ६
यद्यदिच्छति यावच्च फलमाराधितेऽच्युते ।
तत्तदाप्नोति राजेन्द्र भूरि स्वल्पमश्नापि वा ॥ ७
यत्तु पृच्छसि भूपाल कथमाराध्यते हरिः ।
तदहं सकलं तुभ्यं कथयामि निबोध मे ॥ ८
वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् ।
विष्णुराराध्यते यन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ ९
यजन्वज्जान्यजत्येनं जपत्येनं जपन्नुप ।
निघ्नन्नन्यान्निघ्नस्त्येनं सर्वभूतो यतो हरिः ॥ १०

श्रीपराशरजी बोले—हे मुने! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार जो कुछ यमने कहा था, वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ३९ ॥

श्रीमंत्रेणजी बोले—हे भगवन्! जो लोग संसारकी जीतना चाहते हैं, वे जिस प्रकार जगत्पति भगवान् विष्णुकी उपासना करते हैं, वह वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ और हे महामुने! उन गोविन्दकी आराधना करनेपर आराधनपरायण पुरुषोंको जो फल मिलता है, वह भी मैं सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मंत्रेय! तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महत्पण सगरने और्यसे पूछी थी। उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥ ३ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! सगरने भृगुवंशी पढ़ाकर और्यको प्रणाम करके उनसे भगवान् विष्णुकी आराधनाके उपाय और विष्णुकी उपासना करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता है उसके विषयमें पूछा था। उनके पृष्ठनेपर और्यने यत्नपूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो ॥ ४-५ ॥

और्व बोले—भगवान् विष्णुकी आराधना करनेसे मनुष्य भूमण्डल-सम्बन्धी समस्त मनोरथ, स्वर्ग, स्वर्गसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मपद और परम निर्दोष-पद भी प्राप्त कर लेता है ॥ ६ ॥ हे राजेन्द्र! वह जिस-जिस फलकी जितनी-जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, वही अच्युतकी आराधनासे निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है ॥ ७ ॥ और हे भूपाल! तुमने जो पूछा कि हरिकी आराधना किस प्रकार की जाय, सो सब मैं तुमसे कहता हूँ, साधन होकर सुनो ॥ ८ ॥ जो पुरुष वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवाला है वही परमपुरुष विष्णुकी आराधना कर सकता है; उनको सन्तुष्ट करनेका और कोई मार्ग नहीं है ॥ ९ ॥ हे तुम! यहीका यजन करनेवाला पुरुष उन (विष्णु) हीका यजन करता है, जप करनेवाला उन्हींका जप करता है और दूसरोंकी हिंसा करनेवाला उन्हींकी हिंसा करता है; क्योंकि भगवान् हरि सर्वभूतमय हैं ॥ १० ॥

तस्मात्सदाधारवता पुरुषेण जनार्दनः ।
 आराध्यते स्वक्षिणोक्तधर्मानुष्ठानकारिणा ॥ ११
 ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्च पृथिवीपते ।
 स्वधर्मतत्परो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥ १२
 पराशवाद् वैशुन्यमनृतं च न भाषते ।
 अन्योद्देशकरं चापि तोष्यते तेन केशवः ॥ १३
 परदारपरद्रव्यपरहिंसासु यो रतिम् ।
 न करोति पुमान्भूप तोष्यते तेन केशवः ॥ १४
 न ताडयति नो हन्ति प्राणिनोऽन्यांश्च देहिनः ।
 यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः ॥ १५
 देवद्विजगुरुणां च शुश्रूषासु सदोद्यतः ।
 तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वर ॥ १६
 यथात्मनि च पुत्रे च सत्यभूतेषु यस्तथा ।
 हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम् ॥ १७
 यस्य रागादिदोषेण च दुष्टं नृप मानसम् ।
 विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा ॥ १८
 वर्णाश्रमेषु ये धर्मांशशास्त्रोक्ता नृपसत्तम ।
 तेषु तिष्ठन्नरो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥ १९

सगर उवाच

तदहं श्रोतुमिच्छामि वर्णधर्मानशेषतः ।
 तथैवाश्रमधर्मांश्च द्विस्रवर्षं ब्रवीहि तान् ॥ २०

और्व उवाच

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च यथाक्रमम् ।
 त्वमेकाग्रमतिभूत्वा शृणु धर्मान्मयोदितान् ॥ २१
 दानं दद्याद्यजेहेवान्यज्ञैस्स्वाध्यायतत्परः ।
 नित्योदकौ भवेद्विप्रः कुर्याच्च्वाग्निपरिग्रहम् ॥ २२
 वृत्त्यर्थं याजयेच्चान्यानन्यान्ध्यापयेत्तथा ।
 कुर्यात्प्रतिग्रहादानं शुक्लार्धान्यायतो द्विजः ॥ २३
 सर्वभूतहितं कुर्यान्नाहितं कस्यचिद् द्विजः ।
 यैत्री सम्भस्तभूतेषु ब्राह्मणस्योत्तमं धनम् ॥ २४
 ग्राहिण रत्ने च पारक्ये समबुद्धिर्भवेद् द्विजः ।
 ज्ञप्तावभिगमः पत्न्यां शस्यते चास्य पार्थिव ॥ २५

अतः रुदानारयुक्त पत्न्य अपने वर्णके लिये विहित धर्मका आचरण करते हुए श्रीजनार्दनहीको उपासना करती है ॥ ११ ॥ हे पृथिवीपते! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने-अपने धर्मके पालन करते हुए ही विष्णुको आराधना करते हैं, अन्य प्रकारसे नहीं ॥ १२ ॥

जो पुरुष दूसरीकी निन्दा, युगलो अथवा मिथ्याभाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरोंको भेद हो, उससे निश्चय ही भगवान् केशव प्रसन्न रहते हैं ॥ १३ ॥ हे राजन्! जो पुरुष दूसरीकी स्त्री, धन और हिंसामें रुचि नहीं करता; उससे सर्वदा ही भगवान् केशव सन्तुष्ट रहते हैं ॥ १४ ॥ हे नरेन्द्र! जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा [बुद्धि] अन्य देहधारियोंको पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता उससे श्रीकेशव सन्तुष्ट रहते हैं ॥ १५ ॥ जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुवर्गोंको सेवामें सदा तत्पर रहता है, है नरेश्वर! उससे गोविन्द सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ १६ ॥ जो व्यक्ति स्वयं अपने शरीर अपने पुत्रोंके समान ही समस्त प्राणियोंका भी हित चिन्तक होता है वह सुगमतासे ही श्रीहरिको प्रसन्न कर लेता है ॥ १७ ॥ हे नृप! जिसका चित्त रागादि दोषोंसे दूषित नहीं है उस विशुद्ध-चित्त पुरुषसे भगवान् विष्णु सदा सन्तुष्ट रहते हैं ॥ १८ ॥ हे नृपश्रेष्ठ! शास्त्रोंमें जो-जो वर्णाश्रम-धर्म कहे हैं उन-उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णुकी आराधना कर सकता है; और किसी प्रकार नहीं ॥ १९ ॥

सगर बोले—हे द्विजश्रेष्ठ! अब मैं सम्पूर्ण वर्णधर्म और आश्रमधर्मोंको सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिये ॥ २० ॥

और्व बोले—जिनका मैं वर्णन करता हूँ, उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके धर्मोंका तुम एकाग्रचित्त होकर क्रमशः श्रवण करो ॥ २१ ॥ ब्राह्मणका कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञोंद्वारा देवताओंका यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान-तपस्य करे और अन्याथापन आदि कर्म करता रहे ॥ २२ ॥ ब्राह्मणको उचित है कि धृतिके लिये दूसरोंसे यज्ञ करावे, औरोंको पढ़ावे और न्यायोपाहित शूद्र धनमेंसे न्यायानुसृत द्रव्य संग्रह करे ॥ २३ ॥ ब्राह्मणको कभी किसीका अहित नहीं करना चाहिये और सर्वदा समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहना चाहिये। सम्पूर्ण प्राणियोंमें यैत्री रखना ही ब्राह्मणको परम धन है ॥ २४ ॥ पत्थरमें और पराये रत्नमें ब्राह्मणको संपन्न बुद्धि रखनी चाहिये। हे राजन्! पत्नीके विषयमें अतुंगामी होना ही ब्राह्मणके लिये प्रशंसनीय कर्म है ॥ २५ ॥

दानानि दद्याद्विष्णोः द्विजेभ्यः क्षत्रियोऽपि च ।
 यजेच्च विविधैर्ब्रह्मधीयते च पार्श्विषः ॥ २६
 शास्त्राजीवो महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका ।
 तत्रापि प्रथमः कल्पः पृथिवीपरिपालनम् ॥ २७
 धरित्रीपालनेनैव कृतकृत्या नराधिपाः ।
 भवन्ति नृपतेरंशा यतो यज्ञादिकर्मणाम् ॥ २८
 दुष्टानां शासनादराजा शिष्टानां परिपालनात् ।
 प्राप्नोत्यभिम्सांस्लोकप्रवर्णसंस्थां करोति यः ॥ २९
 पाशुपालनं च वाणिज्यं कृषिं च मनुजेश्वरः ।
 वैश्याय जीविकां ब्रह्मा ददौ लोकपितामहः ॥ ३०
 तस्याप्यध्वयनं यज्ञो दानं धर्मश्च शश्वले ।
 नित्यनैमित्तिकादीनामनुष्ठानं च कर्मणाम् ॥ ३१
 द्विजातिसंश्रितं कर्म तादृश्यं तेन पोषणम् ।
 ऋयविक्रयजैर्वापि धनैः कारुद्धवेन वा ॥ ३२
 शूद्रस्य सन्नतिशुश्रूषां च सेवा स्वामिन्यमायया ।
 अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेर्षं सत्सङ्गो विप्ररक्षणम् ॥ ३३
 दानं च दद्याच्छूरोऽपि पाकवर्जैर्यजेत च ।
 पित्र्यादिकं च तत्सर्वं शूद्रः कुर्वीत तेन वै ॥ ३४
 भृत्यादिभरणार्थाय सर्वेषां च परिग्रहः ।
 ऋतुकालेऽभिगमनं स्वदारेषु महीपते ॥ ३५
 दया समस्तभूतेषु नितिक्षा नातिमाप्तिता ।
 सत्यं शौचमनायासो मंगलं प्रियवादिता ॥ ३६
 मैत्र्यस्पृहा तथा महदकार्पणं नरेश्वर ।
 अनसूया च सामान्यवर्णानां कथिता गुणाः ॥ ३७
 आश्रमाणां च सर्वेषामेते सामान्यलक्षणानि ।
 गुणांस्तथापह्नुमांश्च विप्रादीनामिमाञ्छुणु ॥ ३८
 क्षात्रं कर्म द्विजस्योक्तं वैश्यं कर्म तथाऽपदि ।
 राजन्यस्य च वैश्योक्तं शूद्रकर्म न चैतयोः ॥ ३९

क्षत्रियको उचित है कि ब्राह्मणोंको सर्वेच्छ दान दे, विविध यज्ञोंका अनुष्ठान करे और अध्ययन करे ॥ २६ ॥ शास्त्र धारण करना और पृथिवीको रक्षा करना ही क्षत्रियकी उत्तम आजीविका है; इनमें भी पृथिवी-पालन ही उत्कृष्टतर है ॥ २७ ॥ पृथिवी-पालनसे ही राजालोग कुतकुत्स हो जाते हैं, क्योंकि पृथिवीमें होनेवाले यज्ञादि कर्मोंका अंश राजाको मिलता है ॥ २८ ॥ जो राजा अपने वर्षधर्मको स्थिर रखता है वह दुष्टोंको दण्ड देने और साधुजनोंका पालन करनेसे अपने अधीष्ट लोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥ २९ ॥

हे नरनाथ! लोकपितामह ब्रह्माजीने वैश्योंको पशु-पालन, वाणिज्य और कृषि—ये जीविकारूपसे दिये हैं ॥ ३० ॥ अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य-नैमित्तिकादि कर्मोंका अनुष्ठान—ये कर्म उसके लिये भी विहित हैं ॥ ३१ ॥

शूद्रका कर्तव्य यही है कि द्विजातियोंकी प्रयोजन-सिद्धिके लिये कर्म करे और उसीसे अपना पालन-पोषण करे, अथवा [आपत्कालमें, जब दण्ड उपायसे जीविका-निर्वाह न हो सके तो] वस्तुओंके लेने-बेचने अथवा कारीगरोंके कामोंसे निर्वाह करे ॥ ३२ ॥ अति नम्रता, शौच, निष्कपट स्वाभि-सेवा, मन्त्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और ब्राह्मणकी रक्षा करना—ये शूद्रके प्रधान कर्म हैं ॥ ३३ ॥ हे राजन्! शूद्रकी भी उश्रित है कि दान दे, बलिर्वैश्वदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञोंका अनुष्ठान करे, पितृश्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुम्बियोंके भरण-पोषणके लिये सकल वर्षोंसे द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकालमें अपनी ही स्त्रीसे प्रसंग करे ॥ ३४-३५ ॥ हे नरेश्वर! इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियोंपर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसीके दोष न देखना—ये समस्त वर्णोंके सामान्य गुण हैं ॥ ३६-३७ ॥

सब वर्णोंके सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। जब इन ब्राह्मणोंपर चारों वर्णोंके आपद्धर्म और गुणोंका भक्षण कष्ट ॥ ३८ ॥ आपत्तिके समय ब्राह्मणको क्षत्रिय और वैश्य-वर्णोंकी वृत्तिका अवलम्बन करना चाहिये तथा क्षत्रियको केवल वैश्यवृत्तिका ही आश्रय लेना चाहिये। ये दोनों शूद्रका कर्म (सेवा आदि) कभी न करें ॥ ३९ ॥

सामर्थ्यं सति तत्त्याज्यमुभाभ्यामपि पाश्चिम् ।
तदेवापदि कर्तव्यं न कुर्यात्कर्मसङ्करम् ॥ ४०
इत्येते कथिता राजन्वर्णधर्मा मया तव ।
धर्मानाश्रमिणां सम्यग्बुवतो मे निशामय ॥ ४१

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽंशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवाँ अध्याय

ब्रह्मचर्यं आदि आश्रमोक्ता वर्णव्य

और्वं उवाच

ब्राह्मणः कृतोपनयनो वेदाहरणतत्परः ।
गुरुगृहे ससेद्भूष ब्रह्मचारी समाहितः ॥ १
शौचाचारव्रतं तत्र कार्यं शुश्रूषणं गुरोः ।
व्रतानि चरता ग्राह्यो वेदश्च कृतबुद्धिना ॥ २
उभे सन्ध्ये रक्षिं भूष तथैवाग्निं समाहितः ।
उपतिष्ठेन्नदा कुर्याद्गुरोरप्यभिवादनम् ॥ ३
स्थिते तिष्ठेद्भजेद्वाते नीचैरासीत चासति ।
शिष्यो गुरोर्नृपश्रेष्ठ प्रतिकूलं न सञ्चरेत् ॥ ४
तेभ्योक्तं पठेद्देवं नान्वक्षितः पुरस्स्थितः ।
अनुज्ञातश्च भिक्षान्नमश्नीयाद्गुरुणा ततः ॥ ५
अवगाहेदपः पूर्यपाषाणैणावगाहिताः ।
समिञ्जलादिकं चास्य कल्पे कल्पमुपापयेत् ॥ ६
गृहीतग्राह्यवेदश्च सतोऽनुज्ञामवाप्य च ।
गार्हस्थ्यमाविशेत्प्राज्ञो निष्यन्नगुरुनिष्कृतिः ॥ ७
विधिनावाप्तदारस्तु धनं प्राप्य स्वकर्मणा ।
गृहस्थकार्यमित्थलं कुर्याद्भूपाल शक्तितः ॥ ८
निषापेन पितृनर्चन्वर्द्धैर्द्वैवांस्तथातिथीन् ।
अनीर्मुनींश्च स्वाध्यायैरपत्येन प्रजापतिम् ॥ ९
भूतानि बलिभिश्चैव सात्सत्येनाखिलं जगत् ।
प्राप्नोति लोकान्पुरुषो निजकर्मसमाहितान् ॥ १०

हे राजन्! इन उपरोक्त वृत्तियोंको भी सामर्थ्य होनेपर
त्याग दे; केवल आपत्कालमें ही इनका आश्रय ले, कर्म
संकरता (कर्मोंका मेल) न करे ॥ ४० ॥ हे राजन्! इस प्रबन्ध
वर्णधर्मोंका वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया; अब आश्रम-
धर्मोंका नित्यपत्र और कर्ता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ४१ ॥

और्वं बोले—हे भूपते! बालकको चाहिये कि
उपनयन-संस्कारके अनन्तर वेदाध्ययनमें तत्पर होकर
ब्रह्मचर्यका अवलम्बन करे। साधनातापूर्वक गुरुगृहमें निवस
करे ॥ १ ॥ यहाँ रहकर उसमें शौच और आचार-व्रतका
पालन करते हुए गुरुको सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये तथा
व्रतादिका आचरण करते हुए स्थिर-बुद्धिसे वेदाध्ययन
करना चाहिये ॥ २ ॥ हे राजन्! [प्रातःकाल और सायंकाल]
दोनों सन्ध्याओंमें एकाग्र होकर सूर्य और अग्निको उपासना
करे तथा गुरुका अभिवादन करे ॥ ३ ॥ गुरुके खड़े होनेपर
खड़ा हो जाय, चलनेपर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ
जानेपर नचे बैठ जाय। हे नृपश्रेष्ठ! इस प्रकार कर्म
गुरुके विरुद्ध कोई आचरण न करे ॥ ४ ॥ गुरुजीके कहनेपर
ही उनके सामने बैठकर एकाग्रचित्तसे वेदाध्ययन करे
और उनकी आज्ञा होनेपर ही मिष्टान्न भोजन करे ॥ ५ ॥
जलमें प्रथम आचार्यके स्नान कर चुकनेपर फिर स्वयं
स्नान करे तथा प्रतिदिन प्रातःकाल गुरुजीके लिये सभिधा,
जल, फल और पुष्पादि लाकर बुटा दे ॥ ६ ॥

इस प्रकार अपना अधिपत वेदपाठ संभरण कर
चुकनेपर बुद्धिमान् शिष्य गुरुजीको आज्ञासे उन्हें
गुरु-दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे ॥ ७ ॥ हे
राजन्! फिर विधिपूर्वक पाणिग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल
वृत्तिसे द्रव्योपाजनं करता हुआ सामर्थ्यानुसार सपत्न्य
गृहकार्य करता रहे ॥ ८ ॥ पिण्ड-दापदिसे पितृगणकी,
यज्ञादिसे देवताओंकी, अन्नदानसे अतिथियोंकी,
स्वाध्यायसे ऋषियोंकी, पुत्रोत्पत्तिसे प्रजापतिकी,
बलियों (अन्नभाग)-से भूतगणकी तथा वास्तव्यभावसे
सम्पूर्ण जगत्की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मोद्देश्य मिले
हुए उत्तमोत्तम लोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ९-१० ॥

भिक्षाभुजश्च ये केचित्परित्याज्यह्यचारिणः ।
 तेष्वप्यत्रैव प्रतिष्ठन्ते गार्हस्थ्यं तेन वै परम् ॥ ११
 वेदाहरणकार्याय सौर्धस्नानाय च प्रभो ।
 अटन्ति यस्तुर्धा विप्राः पृथिवीदर्शनाय च ॥ १२
 अनिकेता ह्यनाहारा यत्र सायंगृह्यश्च ये ।
 तेषां गृहस्थः सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥ १३
 तेषां स्थागतदानादि सक्तस्य मधुरं नृप ।
 गृह्यगतानां दद्याच्च शयनासनभोजनम् ॥ १४
 अतिधिर्यस्य भग्नाशो गृह्यत्प्रतिनिवर्तते ।
 स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ १५
 अवज्ञानमर्हकारो दम्भश्चैव गृहे सतः ।
 परितापोपघाती च पारुष्यं च न शस्यते ॥ १६
 यस्तु सप्यबकरोत्वेवं गृहस्थः परमं विक्षिम् ।
 सर्वबन्धविनिर्मुक्तो लोकानाम्नोत्यनुत्तमान् ॥ १७
 वयःपरिणतो राजन्कनकृत्यो गृहाश्रमी ।
 पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ १८
 पर्णमूलफलहारः केशश्मश्रुजटाधरः ।
 भूमिशायी भक्षेत्रत्र मुनिस्सर्वातिथिर्नृप ॥ १९
 चर्मकाशकुरौः कुर्यात्परिधानोत्तरीयके ।
 तद्भूत्रिषवर्षां स्नानं शस्तमस्य नरेश्वर ॥ २०
 देयताभ्यर्चनं ह्येवमस्सर्वाभ्यागतपूजनम् ।
 भिक्षा च्छलिप्रदानं च शस्तमस्य नरेश्वर ॥ २१
 वन्यस्नेहेन गात्राणामभ्यंगश्चास्य शस्यते ।
 तपश्च तस्य राजेन्द्र शीतोष्णादिसहिष्णुता ॥ २२
 यस्त्वेतां नियतश्चर्यां वानप्रस्थश्चरेन्नृनिः ।
 स दहत्यग्निक्षद्वेषाब्जयेल्लोकाश्च शश्वतान् ॥ २३
 चतुर्शश्चाश्रमो भिक्षोः प्रोच्यते यो यन्त्रीविधिः ।
 तस्य स्वरूपं गदतो मम श्रोतुं नृपार्हसि ॥ २४
 पुत्रद्रव्यकलत्रेषु त्यक्तस्नेहो नराधिप ।
 घतुर्धमाश्रमस्थानं गच्छेन्निर्धूतमत्सरः ॥ २५

जो केवल भिक्षावृत्तिसे हो रहनेवाले परित्राजक
 और ब्रह्मचारी आदि हैं उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही
 है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है ॥ ११ ॥ हे राजन्! विप्राण
 वेदाध्ययन, तीर्थस्नान और देश-दर्शान्के लिये पृथिवी-
 पर्यटन किया करते हैं ॥ १२ ॥ ठामेंसे विनका कोई निश्चिन्ता
 गृह अथवा भोजन प्रबन्ध नहीं होता और जो जहाँ सार्यकाल
 हो जाता है वहाँ उठर जाते हैं, उन सबका आधार और
 मूल गृहस्थाश्रम ही है ॥ १३ ॥ हे राजन्! ऐसे लोग जब
 घर आवें तो उनका कुशल-प्रश्न और मधुर वचनोंसे
 स्वागत करे तथा शाय्या, आसन और भोजनके द्वारा उनका
 यथाशक्ति सत्कार करे ॥ १४ ॥ जिसके घरसे अतिथि
 निराश होकर लौट जाता है उसे अपने समस्त दुष्कर्म
 देकर वह (अतिथि) उसके पुण्यकर्मोंको स्वयं ले जाता
 है ॥ १५ ॥ गृहस्थके लिये अतिथिके प्रति अपमान, अर्हकार
 और दम्पका आचरण करना, उसे देकर परत्राना, उसपर
 प्रहार करना अथवा उससे कटुभाषण करना उचित नहीं
 है ॥ १६ ॥ इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्मका
 पूर्णतया पालन करता है वह समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर
 अत्युत्तम लोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥ १७ ॥

हे राजन्! इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते-
 करते जिसको अवस्था बल गयी हो उस गृहस्थको उचित
 है कि स्त्रीको पुत्रोंके प्रति सौंपकर अथवा अपने साथ
 लेकर वनको चला जाय ॥ १८ ॥ यहाँ पत्र, मूल, फल
 आदिका आहार करता हुआ, लोम, हमश्रु (दाढ़ी-मूँछ)
 और जटाओंको धारण कर पृथिवीपर शयन करे और
 मुनिवृत्तिका अवलम्बन कर सब प्रकार अतिथिकी सेवा
 करे ॥ १९ ॥ उसे चर्म, काश और कुराओंसे अपना बिछौना
 तथा ओढ़नेका वस्त्र बनाना चाहिये । हे नरेश्वर! उस
 मुनिके लिये त्रिकाल-स्नानका विधान है ॥ २० ॥ इसी प्रकार
 देवपूजन, होम, सब अतिथियोंका सत्कार, भिक्षा और
 बलिदेवैश्वदेव भी उसके विहित कर्म हैं ॥ २१ ॥ हे राजेन्द्र!
 यन्त्र वैलादिको शरीरमें मलना और शीतोष्णका सहन
 कर्तें हुए तपस्यामें लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म हैं ॥ २२ ॥
 जो वानप्रस्थ पुनि इन नियत कर्मोंका आचरण करता है
 वह अपने समस्त दोषोंको अग्निके समान भस्म कर
 देता है और नित्य-लोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥ २३ ॥

हे नृप! पण्डितगण जिस चतुर्थ आश्रमको भिक्षु-
 आश्रम कहते हैं अब मैं उसके स्वरूपका वर्णन करता
 हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ हे नेन्द्र! तृतीय आश्रमके
 अनन्तर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदिके स्नेहको सर्वथा त्यागकर
 तथा मात्सर्यको छोड़कर चतुर्थ आश्रममें प्रवेश करे ॥ २५ ॥

त्रैवर्गिकांस्त्यजेत्सर्वानारम्भानवनीपते ।
 मित्रादिषु समो मैत्रसप्तमस्तेष्वेव जन्तुषु ॥ २६ ॥
 जरायुजाण्डजादीनां वाङ्मनःकायकर्मभिः ।
 युक्तः कुर्वीत न द्रोहं सर्वसङ्गांश्च वर्जयेत् ॥ २७ ॥
 एकरात्रस्थितिर्ग्रामे पञ्चरात्रस्थितिः पुरे ।
 तथा तिष्ठेद्यथाप्रीतिर्दुष्टेषु वा नास्य जायते ॥ २८ ॥
 प्राणयात्रानिमित्तं च व्यंगारे भुक्तवर्जने ।
 काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षार्थं पर्वटेद् गृह्यन् ॥ २९ ॥
 कामः क्रोधस्तथा दर्पमोहलोभादयश्च ये ।
 तांस्तु सर्वान्यस्तित्यग्य परिहाड् निर्मयो भवेत् ॥ ३० ॥
 अभयं सर्वभूतेभ्यो सत्त्वा यश्चरते मुनिः ।
 तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं विद्यते क्वचित् ॥ ३१ ॥
 कृत्वाग्निहोत्रं स्वशरीरसंस्थं
 शारीरमग्निं स्वपुत्रे जुहोति ।
 विप्रस्तु भैक्ष्योपहितैर्हीविधि-
 षिचताग्निकानां व्रजति स्म लोकात् ॥ ३२ ॥
 मोक्षाश्रमं यश्चरते यद्योक्तं
 शुचिस्सुखं कल्पितबुद्धियुक्तः ।
 अनिन्द्यं ष्योतिरिव प्रशान्तः
 स ब्रह्मलोकं श्रयते द्विजातिः ॥ ३३ ॥
 इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽंशे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

हे पुण्ड्रिणीपते! विशुको उचित है कि अर्थ, भयं और कामरूप त्रिवर्गसम्बन्धी सप्तम कर्मोंको छोड़ दे, शत्रु-मित्रादिमें समान भाव रखे और सभी जीवोंका सुख हो ॥ २६ ॥ निरन्तर समाहित रहकर जरायुज, अण्डज और स्वदेज आदि समस्त जीवोंसे मन, वाणी अथवा कर्मद्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकारकी आसक्तियोंको त्याग दे ॥ २७ ॥ ग्राममें एक रात्र और पुरमें पाँच रात्रितक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसीसे प्रेम अथवा द्वेष न हो ॥ २८ ॥ जिस समय शरीरमें अग्नि शान्त हो जाय और लोग भोजन कर चुके उस समय प्राणतन्त्राके लिये उत्तम वर्णोंमें भिक्षाके लिये जाय ॥ २९ ॥ परित्राजकको चाहिये कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणोंको छोड़कर ममताशून्य होकर रहे ॥ ३० ॥ जो मुनि समस्त प्राणियोंको अभयदान देकर विचरता है; उसको भी किसीसे कभी कोई भय नहीं होता ॥ ३१ ॥ जो ब्राह्मण चतुर्षु आश्रममें अपने शरीरमें स्थित प्राणादिशुद्धित जटयग्निके उद्देश्यसे अपने मुखमें भिक्षान्तरूप हविसे इत्यन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियोंके लोकोंको प्राप्त हो जाता है ॥ ३२ ॥ जो ब्राह्मण [ब्रह्मसे भिन्न सभी मिथ्या हैं, सम्पूर्ण जगत् अज्ञानका ही संकल्प है—ऐसे] बुद्धियोगसे मुक्त होकर, यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रमका पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण करता है, वह निरिन्द्य अग्निके समान शान्त होता है और अन्तमें ब्रह्मलोक प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥

दसवाँ अध्याय

जातकर्म, नामकरण और विवाह-संस्कारकी विधि

सगर उवाच

कथितं चातुराश्रम्यं चातुर्वर्ण्यक्रियास्तथा ।
 पुंसः क्रियामाहं श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तम ॥ १ ॥
 नित्यनैमित्तिकाः काम्याः क्रियाः पुंसामशेषतः ।
 समारब्धाहि भृगुश्रेष्ठ सर्वज्ञो हासि मे मतः ॥ २ ॥
 अर्च्य उवाच
 यदेतद्भुक्तं भवता नित्यनैमित्तिकाश्रयम् ।
 तदहं कथयिष्यामि शृणुष्वैकमना मम ॥ ३ ॥

सगर बोले—हे द्विजश्रेष्ठ! आपने चारों आश्रम और चारों वर्णोंके कर्मोंका वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्योंके (षोडश संस्काररूप) कर्मोंको सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ हे भृगुश्रेष्ठ! मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं। अतएव आप मनुष्योंके नित्य-नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकारके कर्मोंका निरूपण कीजिये ॥ २ ॥

अर्च्य बोले—हे राजन्! आपने जो नित्य-नैमित्तिक आदि क्रियाकलापके विषयमें पूछा सो मैं सबका वर्णन करता हूँ, एकप्रसन्न होकर सुनो ॥ ३ ॥

जातस्य जातकर्मादिक्रियाकाण्डमशेषतः ।
 पुत्रस्य कुर्वात पिता श्राद्धं चाभ्युदयात्मकम् ॥ ४
 युग्मांस्तु प्राङ्मुखान्विप्रान्भोजयेन्मनुजेश्वर ।
 यथा वृत्तिस्तथा कुर्वादेवं पितृवं द्विजन्मनाम् ॥ ५
 दक्ष्णा यवैः सबद्रीमिश्रान्पिण्डान्मुदा युतः ।
 नान्दीमुखेभ्यस्तीर्थेन दद्याद्द्वैवेन पार्श्विष ॥ ६
 प्राजापत्येन वा सर्वमुपचारे प्रदक्षिणम् ।
 कुर्वात तत्तथाशेषवृद्धिकालेषु भूपते ॥ ७
 ततश्च नाम कुर्वात पितृव्य दशमेऽहनि ।
 देवपूर्वं नराख्यं हि शर्मवर्षादिसंयुतम् ॥ ८
 शर्मेति ब्राह्मणस्योक्तं वर्मेति क्षत्रसंश्रयम् ।
 गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्रयोः ॥ ९
 नार्थहीनं न चाशस्तं नापशब्दयुतं तथा ।
 नार्पगल्यं जुगुप्स्यं वा नाम कुर्यात्समाक्षरम् ॥ १०
 नातिदीर्घं नातिह्रस्वं नातिगुर्वक्षरान्वितम् ।
 सुखोच्चार्यं तु तन्नाम कुर्याद्यत्प्रवणाक्षरम् ॥ ११
 ततोऽनन्तरसंस्कारसंस्कृतो गुरुवेशमनिः ।
 यथोक्तविधिमाश्रित्य कुर्याद्विद्यापरिग्रहम् ॥ १२
 गृहीतविद्यो गुरुवे दत्त्वा च गुरुदक्षिणाम् ।
 गार्हस्थ्यमिच्छन्भूपाल कुर्याद्द्वारपरिग्रहम् ॥ १३
 ब्रह्मचर्येण वा कालं कुर्यात्संकल्पपूर्वकम् ।
 गुरोश्शुश्रूषणं कुर्यात्तत्पुत्रादेरथापि वा ॥ १४
 वैखानसो वापि भवेत्परिव्राज्य वेच्छया ।
 पूर्वसंकल्पितं यादृक् तादृक्कुर्यान्नराधिप ॥ १५
 वर्षैरेकगुणां भार्यामुद्गृहेत्त्रिगुणास्त्वयम् ।
 नातिकेशामकेशां वा नातिकृष्णां न पिंगलाम् ॥ १६
 निसर्गतोऽधिकार्गी वा न्यूनांगीमपि नोद्गृहेत् ।
 नाविशुद्धां सरोमां वाकुलजां वापि रोगिणीम् ॥ १७
 न दुष्टां दुष्टवाक्यां वा ह्यंगिनीं पितृयातुतः ।
 न श्मश्रुव्यञ्जनवतीं न चैव पुरुषाकृतिम् ॥ १८

पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिताको चाहिये कि उसके जातकर्म आदि सकल क्रियाकाण्ड और अभ्युदयिक श्राद्ध करे ॥ ४ ॥ हे नरेश्वर ! पूर्वाभिमुख विवाकर युग्म ब्राह्मणोंको भोजन करावे तथा द्विजातियोंके ध्यवहारके अनुसार देण और पितृपक्षकी तुष्टिके लिये श्राद्ध करे ॥ ५ ॥ और हे राजन् ! प्रसन्नतापूर्वक दैवतीर्थ (अंगुलियोंके अप्रभाग) - द्वारा नान्दीमुख पितृगणको दही, जी और बदरीफल मिलाकर बनाये हुए पिण्ड दे ॥ ६ ॥ अथवा प्राजापत्यतीर्थ (कनिष्ठिकाके मूल) - द्वारा सम्पूर्ण उपचारद्रव्योंका दान करे । इसी प्रकार [कन्या अथवा पुत्रोंके विवाह आदि] समस्त वृद्धिकालोंमें भी करे ॥ ७ ॥

तदनन्तर पुत्रोत्पत्तिके दसवें दिन पिता नामकरण-संस्कार करे । पुरुषका नाम पुरुषवाचक होना चाहिये । उसके पूर्वमें देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिये ॥ ८ ॥ ब्राह्मणके नामके अन्तमें शर्मा, क्षत्रियके अन्तमें वर्मा तथा वैश्य और शूद्रोंके नामान्तमें क्रमशः गुप्त और दास शब्दोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ९ ॥ नाम अर्धलौन, अविद्रित, अपशब्दयुक्त, अमौगलिक और निन्दनीय न होना चाहिये तथा उसके अक्षर समान होने चाहिये ॥ १० ॥ अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरोंसे युक्त नाम न रखे । जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछेके वर्ण लघु हों ऐसे नामका प्रचहार करे ॥ ११ ॥

तदनन्तर उपनयन-संस्कार हो जानेपर गुरुग्रहमें रहकर विधिपूर्वक विद्याध्ययन करे ॥ १२ ॥ हे भूपाल ! फिर शिक्षाध्ययन कर चुकनेपर गुरुको दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छा हो तो विवाह कर ले ॥ १३ ॥ या दृढ संकल्पपूर्वक वैदिक ब्रह्मचर्य ग्रहणकर गुरु अथवा गुरुपुत्रोंकी सेवा-शुश्रूषा करता रहे ॥ १४ ॥ अथवा अपनी हृष्टानुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले । हे राजन् ! पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे ॥ १५ ॥

[यदि विवाह करना हो तो] अपनेसे तुल्योपांश अवस्थावाली कन्यासे विवाह करे तथा अधिक या अल्प केशवाली अथवा अति सौलली या पाण्डुवर्णा (धूर रंगकी) स्त्रीसे सम्बन्ध न करे ॥ १६ ॥ जिसके जन्मसे ही अधिक या न्यून अंग हों, जो अपवित्र, रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो उस स्त्रीसे पाणिग्रहण न करे ॥ १७ ॥ बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि जो दुष्ट स्वभाववाली हो, ऋतुभाषिणी हो, परता अथवा पितृके

न घर्घरस्वरां क्षामां तथा काकस्वरां न च ।
 नाभिवन्द्येक्षणानां तद्बद्धत्तार्क्षीं चोद्बहेदबुधः ॥ १९
 यस्याश्च रोमशे जङ्घे गुल्फौ यस्यास्तयोन्नतौ ।
 गण्डयोः कूपरी यस्या इमन्त्यास्तां न चोद्बहेत् ॥ २०
 चातिरूक्षच्छक्तिं पाण्डुककरजामरुणेक्षणाम् ।
 आपीनहस्तपादां च न कन्यामुद्बहेद् बुधः ॥ २१
 न वामनां चातिदीर्घां चोद्बहेत्संरुतभुजम् ।
 न चातिच्छिद्रदशनां न करालमुखीं नरः ॥ २२
 पञ्चमीं मातृपक्षाच्च पितृपक्षाच्च सप्तमीम् ।
 गृहस्थश्चोद्बहेत्कन्यां न्यायेन विधिना नृप ॥ २३
 आहो देवस्तथैवार्धैः प्राजापत्यस्तथासुरैः ।
 गान्धर्वराक्षसीं चान्यीं पेशाचश्चाष्टमो मतः ॥ २४
 एतेषां यस्य यो धर्मो सर्गस्थोक्तो महर्षिभिः ।
 कुर्वीत दारग्रहणं तेनान्यं परिवर्जयेत् ॥ २५
 सधर्मचारिणीं प्राप्य गार्हस्थ्यं सहितस्तथा ।
 समुद्बहेद्ददात्येतत्सम्बन्धं महाफलम् ॥ २६

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंद्रे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

ग्यारहवाँ अध्याय

गृहस्थसम्बन्धी सदाचारका वर्णन

सगर उवाच

गृहस्थस्य सदाचारे श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने ।
 लोकादस्मात्परस्माच्च यनातिष्ठन्न हीयते ॥ १

औष उवाच

श्रुतां पृथिवीपाल सदाचारस्य संक्षणम् ।
 सदाचारवता पुंसां जित्वा लोकायुभाजपि ॥ २
 साधवः क्षीणदोषस्तु सच्छब्दः साधुवाचकः ।
 तेषामाचरणं यत्तु सदाचारस्य वक्ष्यते ॥ ३
 सप्तर्षयोऽथ मनवः प्रजानां पतयस्तथा ।
 सदाचारस्य वक्तारः कर्तारश्च महीपते ॥ ४

अनुसार अंगहीना हों, जिसके श्मश्रु (भूँड़ोंके) चित्त हों, जो पुरुषके—से अकारवाली हो अथवा घर्घर शब्द करनेवाले अति बन्द या कौंके समान (कर्णकट्ट) स्वरवाली हो तथा पक्ष्मशून्या या गोल नेत्रोंवाली हो उस लीसे विवाह न करे ॥ १९ २० ॥ जिसकी जंघाओंपर रोम हों, जिसके गुल्फ (टखने) ऊँचे हों तथा इससे समय जिसके कपोलोंमें गठ्ठे पड़ें हों उस कन्यासे विवाह न करे ॥ २० ॥ जिसकी कानि अरुणता उदासीन न हो, नख पाण्डुवर्ण हों, नेत्र लाल हों तथा हाथ पैर कुछ भारी हों, लुब्धिकाएँ पुरुष उस कन्यासे सम्बन्ध न करे ॥ २१ ॥ जो अति वामन (चाटी) अथवा अति दीर्घ (लम्बी) हो, जिसकी भुक्तियाँ जुड़ी हुई हों, जिसके धौंठोंमें अधिक अन्तर हो तथा जो दन्तुर (आगेको दाँत निकले हुए) मुखवाली हो उस लीसे कभी विवाह न करे ॥ २२ ॥ हे गजन् ! मातृपक्षसे पौंचमीं पीढ़ीयक और पितृपक्षसे सातवीं पीढ़ीयक जिस कन्याका सम्बन्ध न हो, गृहस्थ पुरुषको नियमानुसार उसीसे विवाह करना चाहिये ॥ २३ ॥ आह, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पेशाच—ये आठ प्रकारके विवाह हैं ॥ २४ ॥ इनमेंसे जिस विवाहको जिस वर्णके लिये महर्षियोंने धर्ममूलक कहें उसीके द्वारा ही—पाँखे करे, अन्य विधियोंको छोड़ दे ॥ २५ ॥ इस प्रकार सधर्मिणोको प्रपत्कर उसके साथ गार्हस्थ्यधर्मका पालन करे, क्योंकि उसका पालन करनेपर वह महान् फल देनेवाला होता है ॥ २६ ॥

सगर बोले—हे मुने! मैं गृहस्थके सदाचारोंको सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करनेसे वह इलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता ॥ १ ॥

औष बोले—हे पृथिवीपाल! तुम सदाचारके संक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इलोक और परलोक दोनोंहीको जीत लेता है ॥ २ ॥ 'सत्' शब्दका अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोषरहित हो। उस साधु पुरुषका जो आचरण होता है उसीको सदाचार कहते हैं ॥ ३ ॥ हे गजन्! इस सदाचारके वक्ता और कर्ता सप्तर्षिगण, मनु एवं प्रजापति हैं ॥ ४ ॥

ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय मनसा यतिमानुष ।
 प्रबुद्धश्चिन्तयेद्धर्मपर्यं चाप्यविरोधिनम् ॥ ५
 अपीडया तयोः काममुभयोरपि चिन्तयेत् ।
 दृष्टाद्दृष्टविनाशाच्च त्रिवर्गे समदर्शिता ॥ ६
 परित्यजेदर्थकामौ धर्मपीडाकरौ नृप ।
 धर्ममप्यसुखोदार्कं लोकविद्विष्टमेव च ॥ ७
 ततः कल्पं समुत्थाय कुर्यान्मूत्रं नरेश्वर ॥ ८
 नैर्ऋत्याग्निषु निक्षेपमतीत्याभ्यधिकं भुवः ।
 दूरादावसथान्मूत्रं पुरीषं च विसर्जयेत् ॥ ९
 पादावनेजनोच्छिष्टे प्रक्षिपेन्न गृहांगणे ॥ १०
 आत्मच्छायां तरुच्छायां गोसूर्याम्यनिलांस्थिता ।
 गुरुद्विजादींस्तु बुधो नाधिमेहेत्कदाचन ॥ ११
 न कुष्ठे सस्यमध्ये वा गोत्रजे जनसंसदि ।
 न वर्त्मनि न नद्यादितीर्थेषु पुरुषर्षभ ॥ १२
 नाप्सु नैवाम्भसस्तीरे श्मशाने न समाचरेत् ।
 उत्सर्गं वै पुरीषस्य मूत्रस्य च विसर्जनम् ॥ १३
 उदङ्मुखो दिवा मूत्रं विपरीतमुखो निशि ।
 कुर्वीतानापदि प्राज्ञो मूत्रोत्सर्गं च पार्श्वि ॥ १४
 तृणैरास्तीर्य अमुर्धा वस्त्रप्रावृत्तमस्तकः ।
 तिष्ठेन्नातिचिरं तत्र नैव किञ्चिदुदीरयेत् ॥ १५
 यत्पीठकूपीकोद्धृतां मूदं नान्तर्जलां तथा ।
 शीचाद्यशिष्टां गेह्नाद्य नादद्याल्लेपसाम्भ्रवाम् ॥ १६
 अणुप्राण्युपपर्णां च हस्तोत्खातां च पार्श्वि ॥
 परित्यजेन्मृदो ह्येतास्सकलाश्शौचकर्मणि ॥ १७
 एका लिंगे गुदे तिष्ठो दश घामकरे मृप ।
 हस्तहृदये च सप्त स्युर्मृदशशौचोपपादिकाः ॥ १८
 अच्छेनागन्धलेपेन जलेनाबुद्बुदेन च ।
 आचामेच्छ मूदं भूयस्तथादद्यात्समाहितः ॥ १९
 निष्पादिताङ्क्षिणौचस्तु पादावभ्युक्ष्य तैः पुनः ।
 त्रिःपिबेत्सालिलं तेन तथा द्विः परिमार्जयेत् ॥ २०
 शीर्षपद्मानि ततः खनि मूर्द्धानं च समालभेत् ।
 द्याहू नाभिं च तोयेन हृदयं चापि संस्पृशेत् ॥ २१

हे नृप! बुद्धिमान् पुरुष स्वस्थ चित्तसे ब्राह्ममुहूर्तमें
 जगकर अपने धर्म और धर्माविरोधी अर्थका चिन्तन
 करे ॥ ५ ॥ तथा जिसमें धर्म और अर्थकी क्षति न हो
 ऐसे कामका भी चिन्तन करे। इस प्रकार दृष्ट और
 अदृष्ट अनिष्टकी नियुक्तिके लिये धर्म, अर्थ और
 काम इस त्रिवर्गके प्रति समान भाव रखना चाहिये ॥ ६ ॥
 हे नृप! धर्मविरुद्ध अर्थ और काम दोनोंका त्याग कर
 दे तथा ऐसे धर्मका भी अपहरण न करे जो उत्तरकालमें
 दुःखमय अथवा समाज-विरुद्ध हो ॥ ७ ॥

हे नरेश्वर! तदनन्तर ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर प्रथम मूत्रत्याग
 करे। ग्रामसे नैर्ऋत्यकोणमें नितनी दूर बाण जा सकता है
 उससे आगे बढ़कर अपना अपने निवास स्थानसे दूर जाकर
 पल-मूत्र त्याग करे। पैर धोया हुआ और जूटा जल अपने
 घरके आँगनमें न डाले ॥ ८-१० ॥ अपनी या वृक्षकी छायाके
 ऊपर तथा गी, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुषके
 सामने बुद्धिमान् पुरुष कभी मल-मूत्र त्याग न करे ॥ ११ ॥
 इसी प्रकार हे पुरुषधर्म। जूते हुए खेतमें, सस्यसम्पन्न भूमिमें,
 पीठके भोष्टमें, अन्न-समालमें, मार्गके बीचमें, नदी आदि
 तीर्थस्थानोंमें, जल अथवा जलाशयके तटपर और श्मशानमें
 भी कभी मल-मूत्रका त्याग न करे ॥ १२-१३ ॥ हे राजन्!
 कोई विशेष आपत्ति न हो तो प्राज्ञ पुरुषको चाहिये कि दिनके
 समय उत्तर-मुख और रात्रिके समय दक्षिण-मुख होकर
 मूत्रत्याग करे ॥ १४ ॥ मल त्यागके समय पृथिवीको
 चिनकोसे और सिरको वस्त्रसे ढीप ले तथा उस स्थानपर
 अधिक समयतक न रहे और न कुछ भोले ही ॥ १५ ॥

हे राजन्! बाँबोको, चुहोंद्वारा विलसे निकाली
 हुई, जलके पीतरकी, शीशकर्मसे बची हुई, घरके लीपनकी,
 चोटो आदि छोटे-छोटे जोंबोंद्वारा निकाली हुई और
 हलसे उखाड़ी हुई—इन सब प्रकारकी मुत्तिकाओंका शौच
 कर्ममें उपयोग न करे ॥ १६-१७ ॥ हे नृप! लिंगमें
 एक बार, गुदामें तीन बार, घाँव हाथमें दस बार और
 दोनों झरोमें सात बार मूत्तिका लगानेसे शौच सम्पन्न होता
 है ॥ १८ ॥ तदनन्तर गन्ध और फेनरहित स्वच्छ बलसे
 आचमन करे। तथा फिर सावधानतापूर्वक बहुत-सी मूत्तिका
 से ॥ १९ ॥ उससे चरण-शुद्धि करनेके अनन्तर फिर
 पैर धोकर तीन बार कुल्ला करे और दो बार मुख धोये ॥ २० ॥
 सरपश्चात् जल लेकर शिरोदेशमें स्थित इन्द्रियगन्ध,
 मूर्द्धा, बाहु, नाभि और हृदयको स्पर्श करे ॥ २१ ॥

स्वाध्यान्तस्तु ततः कुर्यात्पुमान्केशप्रसाधनम् ।
 आदर्शाञ्जनमांगल्यं दूर्वाद्यालम्भनानि च ॥ २२
 ततस्स्ववर्षाधर्मेण वृत्त्यर्क्षं च धनार्जनम् ।
 कुर्वीत श्रद्धासम्पन्नो यजेच्च पृथिवीपते ॥ २३
 सोमसंस्था हविस्संस्थाः पाकसंस्थास्तु संश्रिताः ।
 धने यतो मनुष्याणां यतेतातो धनार्जने ॥ २४
 नदीनदतटाकेषु देवखातजलेषु च ।
 नित्यक्रियार्थं स्नायीत गिरिप्रस्त्रवणेषु च ॥ २५
 कूपेषूद्धृततोयेन स्नानं कुर्यात् वा भुवि ।
 गृहेषूद्धृततोयेन ह्यधवा भुव्यसम्भवे ॥ २६
 शुचिवस्त्रधरः स्नातो देवर्षिपितृतर्पणम् ।
 तेषामेव हि तीर्थेन कुर्वीत सुसमाहितः ॥ २७
 त्रिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपस्वर्जयेत् ।
 ऋषीणां च यथान्यायं सकृच्छ्रापि प्रकापतेः ॥ २८
 पितृणां प्रीणनार्थाय त्रिरपः पृथिवीपते ।
 पितामहेभ्यश्च तथा प्रीणयेत्प्रितामहान् ॥ २९
 मातामहय तत्पित्रे तत्पित्रे च समाहितः ।
 दद्यात्पैत्रेण तीर्थेन काव्यं चान्यच्छृणुष्व मे ॥ ३०
 यात्रे प्रयात्रे तन्मात्रे गुरुपत्न्यं तथा नृप ।
 गुरुणां मातुलानां च स्निग्धमित्राय भूभुजे ॥ ३१
 हृदं चापि जपेदम्बु दद्यादात्पेच्छया नृप ।
 उपकाराय भूतानां कृतदेवादितर्पणम् ॥ ३२
 देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्धर्वराक्षसाः ।
 पिशाच गृह्यकस्मिद्भ्यः कूष्माण्डः पल्लवः खगाः ॥ ३३
 जलेचरा भूतिलया वाय्वाहाराश्च जन्तवः ।
 तृप्तिमेतेन यान्वाशु महत्तेनाम्बुनारिखलाः ॥ ३४

फिर भली प्रकार स्नान करनेके अनन्तर केश सँवारे और दर्पण, अञ्जन तथा दूर्वा आदि मांगलिक द्रव्योंका यथाविधि व्यवहार करे ॥ २२ ॥ तदन्तर हे पृथिवीपते! अपने वर्णधर्मके अनुसार आञ्जोविकाके लिये धनोपार्जन करे और श्रद्धापूर्वक यज्ञानुष्ठान करे ॥ २३ ॥ सोमसंस्था, हविस्संस्था और पाकसंस्था—इन सब धर्म-कर्मोंका आचार धर्म ही है।* अतः मनुष्योंको धनोपार्जनका ध्यान करना चाहिये ॥ २४ ॥ नित्यकर्मोंके सम्पादनके लिये नदी, नद, तटभाग, देवालयांकी बगइँची और पर्वतीय झरनोंमें स्नान करना चाहिये ॥ २५ ॥ अथवा कुएँसे जल खींचकर उसके पासको भूमिपर स्नान करे और यदि वहाँ भूमिपर स्नान करना सम्भव न हो तो कुएँसे खींचकर लाये हुए जलसे भरलीमें नहा ले ॥ २६ ॥

स्नान करनेके अनन्तर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगणका उन्होंके तीर्थोंसे तर्पण करे ॥ २७ ॥ देवता और ऋषियोंके तर्पणके लिये तीन-तीन बार तथा प्रजापतिके लिये एक बार जल छोड़े ॥ २८ ॥ हे पृथिवीपते! पितृगण और पितामहोंकी प्रसन्नताके लिये तीन बार जल छोड़े तथा इसी प्रकार प्रपितामहोंको भी सन्तुष्ट करे एवं मातामह (नाना) और उनके पिता तथा उनके पिताको भी सावधानतापूर्वक पितृ-तीर्थसे जलदान करे। अब काव्य तर्पणका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो ॥ २९-३० ॥

'यह जल पिताके लिये हो, यह प्रपिताके लिये हो, यह प्रपितामहके लिये हो, यह गुरुपत्नीको, यह गुरुको, यह मामाको, यह प्रिय मित्रको तथा यह राजाको प्राप्त हो—हे राजन्! यह जपता हुआ समस्त भूतोंके हितके लिये देवादि तर्पण करके अपनी इच्छानुसार अपिलक्षित सम्बन्धोंके लिये जलदान करे' ॥ ३१-३२ ॥ [देवादि तर्पणके समय इस प्रकार कहे—] 'देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गृह्यक, सिद्ध, कूष्माण्ड, यम्बु, पक्षी, नल्लव, स्थलचर और वायु-भक्षक आदि सभी प्रकारके जीवोंमें दिये हुए इस जलसे तुपा हो ॥ ३३-३४ ॥

* गौतमस्मृतिके अष्टम अध्यायमें कहा है—

'अग्निपासनमष्टका फर्मषष्टशब्दः आयणपाण्ड्यायणी चञ्ज्याश्वयुजीति सप्त पाण्यतसंस्मरः । अग्न्याधेयमग्निहोत्रं दूर्वापूर्वमाहा-
 च्छवर्षं चातुर्मासानि निरुद्धयन्मुष्यन्स्त्रीःत्रयमगोति यत्र इतिर्द्विसंस्मरः । अग्निपदोपौऽप्यग्निपद्येन उच्यते योऽसौ वाजपेयोऽतिगवत्पौर्ण्यं
 इति सप्त सोमसंस्थाः ।'

अग्निपासन, अष्टका श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध तथा त्रावण, अग्रहायण, चैत्र और भाद्रपद पासकी पूर्णिमाएँ—ये सप्त 'पक्वश्र-
 संस्था' हैं। अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, वर्ष-पूर्वपास, आग्रहायण, चातुर्मास्य, यज्ञयजुस्संस्मर और सौंठ्यायणी—ये सात 'हविर्व्यक्तसंस्था' हैं, यथा अग्निपदोय, अग्निपद्योय, उच्यते, योऽसौ, वाजपेय, अतिगवत् और भासोर्षासि—ये सात 'सोमयज्ञसंस्था' हैं।

नरकेषु समस्तेषु घातनासु च ये स्थिताः ।
 तेषामाप्यायनाथैतद्दीयते सलिलं मया ॥ ३५ ॥
 ये बान्धावाबान्धावा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवः ।
 ते तृप्तिमश्नुन्ना यान्तु ये चास्मत्तोयकर्षिणः ॥ ३६ ॥
 यत्र क्लृप्तचनसंस्थानां क्षुत्तृष्णोपहृतात्मनाम् ।
 इदमाप्यायनायास्तु मया दत्तं तिलोदकम् ॥ ३७ ॥
 काम्योदकप्रदानं ते मयैतत्कथितं नृप ।
 यदत्त्वा प्रीणयत्येतन्मनुष्यस्सकलं जगत् ।
 जगदाप्यायनोद्भूतं पुण्यमाप्नोति चानघ ॥ ३८ ॥
 दत्त्वा काम्योदकं सम्यगेतेभ्यः श्रद्धयान्वितः ।
 आचम्य च ततो दद्यात्सुर्ध्वं स्वस्तिनाञ्जलिम् ॥ ३९ ॥
 नमो विवस्वते ब्रह्मभास्वते विष्णुतेजसे ।
 जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मसाक्षिणे ॥ ४० ॥
 ततो गृहार्चनं कुर्यादभीष्टसुरपूजनम् ।
 जलाभिषेकैः पुष्यैश्च धूपद्वैश्च निवेदनम् ॥ ४१ ॥
 अपूर्वमग्निहोत्रं च कुर्यात्प्राग्ब्रह्मणे नृप ॥ ४२ ॥
 प्रजापतिं समुद्दिश्य दद्यादाहुतिमादरात् ।
 गुह्येभ्यः काश्यपायाथ ततोऽनुमतये क्रमात् ॥ ४३ ॥
 तच्छेषं भणिके पृथ्वीपर्जन्येभ्यः क्षिपेत्ततः ।
 द्वारे धातुर्विधातुश्च मध्ये च ब्रह्मणे क्षिपेत् ॥ ४४ ॥
 गृहस्य पुरुषव्याघ्र दिग्देवानपि ये शृणु ॥ ४५ ॥
 इन्द्राय धर्मराजाय वरुणाय तथेन्द्रवे ।
 प्राच्यादिषु बुधो दद्याद्सुतशेषात्मकं बलिम् ॥ ४६ ॥
 प्रागुत्तरे च दिग्भागे धन्वन्तरिबलिं बुधः ।
 निर्वपेद्वैश्वदेवं च कर्म कुर्यादतः परम् ॥ ४७ ॥
 सायव्यां सायधे दिक्षु स्यस्तासु यथादिशम् ।
 ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय भागवे च क्षिपेद्बलिम् ॥ ४८ ॥

जो प्राणी संपूर्ण नरकोमें नाना प्रकारकी घातनाई भोग रहे हैं उनकी तृप्तिके लिये मैं यह जलदान करता हूँ ॥ ३५ ॥ जो घरे बन्धु अथवा अबन्धु हैं, तथा जो अन्य जन्मोंमें मेरे बन्धु थे एवं और भी जो-जो पुत्रसे जलकी इच्छा रखनेवाले हैं वे सब मेरे दिने हुए जलसे परितुष्ट हों ॥ ३६ ॥ भूधा और तृष्णामे व्याकुल जीव कहीं भी क्यों न हों पेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनके तृप्ति प्रदान करे ॥ ३७ ॥ हे नृप । इस प्रकार मैं तुमसे यह काम्य-तर्पणका निरूपण किया, जिसके करनेसे मनुष्य सकल संसारको तृप्त कर देता है और हे अनघ ! इससे उसे जगत्को तृप्तिसे होनेवाला पुण्य प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥

इस प्रकार उपरोक्त जीवोंको ब्रह्मपूर्वक काम्यजल दान करनेके अनन्तर आचमन करे और फिर सूर्यदेवको जलाञ्जलि दे ॥ ३९ ॥ [उस समय इस प्रकार कहे—] ' भगवान् विवस्वतको नमस्कार है जो वेद वेदा और विष्णुके तेजस्वरूप हैं तथा जगत्को उत्पन्न करनेवाले, अति पवित्र एवं कर्मके साक्षी हैं' ॥ ४० ॥

तदनन्तर जलाभिषेक और पुष्प तथा धूपदि निवेदन करता हुआ गृहदेव और इष्टदेवका पूजन करे ॥ ४१ ॥ हे नृप । फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे, उसमें पहले ब्रह्मणको और तदनन्तर क्रमशः प्रजापति, गुह्य, काश्यप और अनुमतिको आदरपूर्वक आहुतिर्पा दे ॥ ४२-४३ ॥ उससे बचे हुए हव्यको पृथिवी और मेघके उद्देश्यसे उदकावापमें,* घाता और विधाताके उद्देश्यसे द्वारके दोनों ओर तथा ब्रह्मणके उद्देश्यसे घरके मध्यमें छोड़ दे । हे पुरुषव्याघ्र ! अब मैं दिक्पालगणको पूजाका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो ॥ ४४-४५ ॥

बुद्धिमत् पुरुषको चाहिये कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण और धन्वनाके लिये द्वादिशाम् सामग्रीसे बलि प्रदान करे ॥ ४६ ॥ पूर्व और उत्तर-दिशाओंमें धन्वन्तरिके लिये बलि दे तथा इसके अनन्तर बलिर्वैश्वदेव-कर्म करे ॥ ४७ ॥ बलिर्वैश्वदेवके समय वायव्यकोणमें धायुको तथा अन्य समस्त दिशाओंमें धायु एवं उन दिशाओंको बलि दे, इसी प्रकार ब्रह्म, अन्तरिक्ष और सूर्यको भी उनको दिशाओंके अनुसार [अर्थात् मध्यमें] बलि प्रदान करे ॥ ४८ ॥

* यह जल भरा पत्र जो अग्निहोत्र करते समय समोष्ण रूप भाग छोड़ा जाता है ।

व्य लिया जाता है और जिसमें 'इंद्रं न मय' कर्मकर अह्नविका

विश्वेदेखान्निश्चभूतानथ विश्वपतीन्पितॄन् ।
यक्षाणां च समुद्दिश्य बलिं दद्यान्नरेश्वर ॥ ४९
ततोऽन्यदन्नमादाय भूमिभगो शुक्रौ बुधः ।
दद्यादशेषभूतेभ्यस्त्वेच्छया सुसमाहितः ॥ ५०
देखा मनुष्याः पशवो वयांसि

सिद्धास्सयक्षोरगदैत्यसङ्गाः ।

प्रेताः पिशाचास्तस्वस्समस्ता
ये चान्मिच्छन्ति मयात्र दत्तम् ॥ ५१
पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या
दुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः ।

प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयानं
सेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥ ५२
वेषां न माता न पिता न बन्धु-
नैवान्मसिद्धिर्न तथानमस्ति ।

तत्तृप्तयेऽन्नं भुवि दत्तमेतत्
ते यान्तु तृप्तिं मुदिता भवन्तु ॥ ५३
भूतानि सर्वाणि तथानमेत-
दहं च विष्णुर्न ततोऽन्यदस्ति ।

तस्मादहं भूतनिकायभूत-
मन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम् ॥ ५४
चतुर्दशो भूतगणो य एष
तत्र स्थिता येऽखिलभूतसङ्गाः ।

तृप्त्यर्थमन्नं हि मया विसृष्टं
तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ ५५
इत्युच्चार्य नरो दद्यादन्नं श्रद्धासमन्वितः ।
भुवि सर्वोपकाराय गृही सर्वश्रेयो यतः ॥ ५६
श्वचाण्डालविहङ्गानां भुवि दद्यान्नरेश्वरः ।
ये चान्ये पतिताःकेचिदपुत्राः सन्ति मानवाः ॥ ५७

ततो गोदोहमात्रं वै कालं तिष्ठेद् गृहाङ्गणो ।
अतिश्रिग्रहणार्थाय तदूर्ध्वं तु यश्चेच्छया ॥ ५८

फिर हे नरेश्वर! विश्वेदेवों, विश्वभूतों,
विश्वपतियों, पितरों और यक्षोंके उद्देश्यसे
[यथास्थानः] बलि प्रदान करे ॥ ४९ ॥

तदनन्तर बुद्धिमान् व्यक्ति और अन्न लेकर
पवित्र पृथिवीपर समर्पित नितसे शेटकर स्नेच्छानुसार
समस्त प्राणियोंको बलि प्रदान करे ॥ ५० ॥

[उस समय इस प्रकार कहे—] 'देवता, मनुष्य,
पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच,
वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट-पतंग जो
अपने कर्मबन्धनसे बंधे हुए सुभाग्य होकर भरे विये
हुए अन्नको इच्छा करते हैं, उन सबके लिये मैं यह
अन्न दान करता हूँ। वे इससे परितृप्त और आनन्दित
हों ॥ ५१-५२ ॥ जिनके माता, पिता अथवा कोई
और बन्धु नहीं हैं तथा अन्न प्रस्तुत करनेका साधन
और अन्न भी नहीं है उनको तृप्तिके लिये
पृथिवीपर मैंने यह अन्न रखा है; वे इससे तृप्त होकर
आनन्दित हों ॥ ५३ ॥ सम्पूर्ण प्राणी, यह अन्न और
मैं—सभी विष्णु हैं; क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ
है ही नहीं। अतः मैं सनस्त भूतोंका शरीररूप यह
अन्न उनके पोषणके लिये दान करता हूँ ॥ ५४ ॥ यह
जो चौदह प्रकारका* भूतसमुदाय है उसमें जितने
भी प्राणिगण अवस्थित हैं उन सबकी तृप्तिके लिये
मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है; वे इससे प्रसन्न
हों ॥ ५५ ॥ इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ
पुरुष श्रद्धापूर्वक समस्त जीवोंके उपकारके लिये
पृथिवीमें अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका
आश्रय है ॥ ५६ ॥ हे नरेश्वर! तदनन्तर कुत्ता,
चाण्डाल, पक्षिगण तथा और भी जो कोई पतित एवं
पुत्रहीन पुरुष हों उनकी तृप्तिके लिये पृथिवीमें
बलिभाग रखे ॥ ५७ ॥

फिर गो-दोहनकालपर्यन्त अथवा इच्छानुसार इससे
भी कुछ अधिक देर अतिश्रिग्रहण करनेके लिये
घरके आँगनमें रहे ॥ ५८ ॥

* चौदह भूतसमुदायोंका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

अष्टविधं देवत्वं त्रियम्योन्वयश्च पञ्चधा भवेति । मानुष्यं चैकविधं भस्मसतो भीतिकः सर्गः ॥

अर्थात् आठ प्रकारका देवसाम्यन्त्री, पाँच प्रकारका त्रियम्योन्वयसाम्यन्त्री और एक प्रकारका मानुष्योन्वयसाम्यन्त्री—यह संश्लेषे
भीतिक सर्ग कहलाता है। इनका पृथक्-पृथक् विवरण इस प्रकार है—

सिद्धगुणकर्मण्ययक्षयक्षसपत्नयः । विद्याभयः पिशाचाश्च निर्दिष्टा देवयोनयः ॥

अतिथिं तत्र सम्प्राप्तं पूजयेत्स्वागतादिना ।
 तद्यासनप्रदानेन पादप्रक्षालनेन च ॥ ५९ ॥
 श्रद्धया चान्दानेन प्रियप्रश्नोत्तरेण च ।
 गच्छतश्चानुयानेन प्रीतिमुत्पादयेद् गृही ॥ ६० ॥
 अज्ञातकुलनामानमन्यदेशादुपागतम् ।
 पूजयेदतिथिं सम्यङ् भैक्षग्रामनिवासिनम् ॥ ६१ ॥
 अकिञ्चनमसम्बन्धमज्ञातकुलशीलिनम् ।
 असम्पूज्यातिथिं भुक्त्वा भेक्षुक्त्वां व्रजत्यथः ॥ ६२ ॥
 स्वाध्यायगोवाचरणामपृष्ट्वा च तथा कुलम् ।
 हिरण्यगर्भबुद्ध्या तं मन्येताभ्यागतं गृह्ये ॥ ६३ ॥
 पित्रर्थं चापरं विप्रमेकमप्याशयेन्नृप ।
 तद्देश्यं विदिताचारसम्भूतिं पाञ्चवयजिकम् ॥ ६४ ॥
 अन्नाग्रज्व समुद्भूत्य इन्तकारोपकल्पितम् ।
 निर्वापभूतं भूपाल श्रोत्रियायोपमादयेत् ॥ ६५ ॥
 द्रुत्वा च भिक्षात्रितयं परित्राङ्गहाचारिणाम् ।
 इच्छ्या च बुधो दद्याद्विभवे सत्यवारितम् ॥ ६६ ॥
 इत्येतेऽतिथयः प्रोक्ताः प्रागुक्ता भिक्षवश्च ये ।
 चतुरः पूजयित्स्वैतान् नृप पापात्प्रमुच्यते ॥ ६७ ॥
 अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृह्यत्प्रतिनिवर्तते ।
 स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ६८ ॥
 घाता प्रजापतिः शक्रो वह्निर्वसुगणोऽयं मा ।
 प्रविश्यातिथियेते वै भुञ्जन्तेऽन्नं नरेश्वर ॥ ६९ ॥
 तस्मादतिथिपूजायां यतेत सततं नरः ।
 स केवलमर्घं भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते ह्यतिथिं विना ॥ ७० ॥
 ततः स्ववासिनीदुःखिणार्थिणीकुलजालकान् ।
 भोजयेत्संस्कृतान्नेन प्रथमं चरमं गृही ॥ ७१ ॥

यदि अतिथि आ जाय तो उसका स्वागतादिसे तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे ॥ ५९ ॥ फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणीसे प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जानेके समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे ॥ ६० ॥ जिसके कुल और नामका कोई पता न हो तथा अन्य देशसे आया हो उसी अतिथिका सत्कार करे, अपने ही गाँवमें रहनेवाले पुरुषकी अतिथिरूपसे पूजा करनी उचित नहीं है ॥ ६१ ॥ जिसके पास कोई सामग्री न हो, जिससे कोई सम्बन्ध न हो, जिसके कुल-शीलका कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता हो उस अतिथिका सत्कार किये बिना भोजन करनेसे मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि आये हुए अतिथिके अभ्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदिके विषयमें कुछ भी न पूछकर हिरण्यगर्भ-बुद्धिसे उसको पूजा करे ॥ ६३ ॥ हे नृप ! अतिथि-सत्कारके अनन्तर अपने ही देशके एक और पंचयज्ञिक ब्राह्मणको जिसके आधार और कुल आदिका ज्ञान हो पितृगणके लिये भोजन करावे ॥ ६४ ॥ हे भूपाल । [मनुष्यकाको विधिसे 'मनुष्येभ्यो हन' इत्यादि पञ्चोच्चारणपूर्वक] पहले ही निष्कलकर अलग रखे हुए, रुत्तकर नामक अन्नसे उस श्रोत्रिय ब्राह्मणको भोजन करावे ॥ ६५ ॥ इस प्रकार [देवता, अतिथि और ब्राह्मणको] ये तीन भिक्षाएं देकर, यदि सामर्थ्य हो तो धर्मस्नानक और ब्रह्मचारियोंको भी बिना लीटयै हुए इच्छानुसार भिक्षा दे ॥ ६६ ॥ तीन पहले तथा भिक्षुगण—ये चारों अतिथि कहलाते हैं । हे राजन् ! इन चारोंका पूजन करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ६७ ॥ जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभकर्मोंको ले जाता है ॥ ६८ ॥ हे नरेश्वर ! आता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, असुगण और अर्यमा—ये समस्त देवगण अतिथिमें प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं ॥ ६९ ॥ अतः मनुष्यको अतिथि-पूजाके लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । जो पुरुष अतिथिके बिना भोजन करता है वह तो केवल पाप ही भोग करता है ॥ ७० ॥ तदनन्तर गृहस्थ पुरुष पितृगणमें रहनेवाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा बुद्ध और घातकोंको संस्कृत अन्नसे भोजन कराकर अन्तमें स्वयं भोजन करे ॥ ७१ ॥

अपौरुषा वाजराश्च पक्षयो मृगार्थक्षनः । तिर्यश्च प्रति कल्पन्ते पन्चत्राः प्राणिजातयः ॥

शिड, गुराक, गन्धर्व, यक्ष, रक्षस, सर्प, विद्याधर और पित्रव—ये आठ देवयोगिन्हीं मानो गयी हैं तथा सटीस्य, वावर, पशु, मृग, (जंगली प्राणी) और पक्षी—ये पाँच तिर्यक् योनियों कहो गयी हैं ।

अभुक्त्वत्सु चैतेषु भुञ्जन्भुङ्क्ते स दुष्कृतम् ।
 मृतश्च गत्वा नरकं श्लेष्मभुग्जायते नरः ॥ ७२

अस्नाताशी पलं भुङ्क्ते ह्यजपी पूषशोणितम् ।
 असंस्कृतान्नभुङ्मूत्रं बालादिप्रथमं शकृत् ॥ ७३

अहोमी च कृन्मीन्भुङ्क्ते अदत्त्वा विषमश्नुते ॥ ७४

तस्माच्छृणुष्व राजेन्द्र यथा भुञ्जीत वै गृही ।
 भुञ्जतश्च यथा पुंसः पापबन्धो न जायते ॥ ७५

इह चारोग्यविपुलं बलबुद्धिस्तथा नृप ।
 भवत्यरिष्टशान्तिश्च वैरिपक्षाभिचारिका ॥ ७६

स्नातो यथावत्कृत्वा च देवर्षिभितृतर्पणाम् ।
 प्रशस्तस्त्वपाणिस्तु भुञ्जीत प्रयतो गृही ॥ ७७

कृते जये हृते वह्नीं शुद्धवस्त्रधरो नृप ।
 दत्त्वातिथिभ्यो विप्रेभ्यो गुरुभ्यस्संभिताय च ।
 पुण्यगन्धश्शस्तमात्यधारी चैव नरेश्वर ॥ ७८

एकवस्त्रधरोऽथार्द्रपाणिपादो महीपते ।
 विशुद्धवदनः प्रीतो भुञ्जीत न विदिङ्मुखः ॥ ७९

प्राङ्मुखोदक्षमुखो वापि न जैवान्यमना नरः ।
 अन्नं प्रशस्तं पर्य्यं च प्रोक्षितं प्रोक्षणोदकैः ॥ ८०

न कुत्सिताहृतं नैव जुगुप्सावदसंस्कृतम् ।
 दत्त्वा तु भक्तं शिष्येभ्यः ह्युधितेभ्यस्तथा गृही ॥ ८१

प्रशस्तशुद्धपात्रे तु भुञ्जीताकुपितो द्विजः ॥ ८२

नासन्दिसंस्थिते पात्रे नादेशे च नरेश्वर ।
 नाकाले नातिसंकीर्णं दत्त्वाग्रं च नरोऽग्नये ॥ ८३

मन्वाभिमन्त्रितं शस्तं न च पर्युषितं नृप ।
 अन्यत्र फलमूलेभ्यश्शुष्कशाखादिकास्तथा ॥ ८४

इन सबको भोजन कराने बिना जो स्वयं भोजन करता है वह पापपत्र भोजन करता है और अन्तमें भरकर नरकमें श्लेष्मभोजी कीटा होता है ॥ ७२ ॥ जो व्यक्ति स्नान किये बिना भोजन करता है वह पल भक्षण करता है, जप किये बिना भोजन करनेवाला रक्त और पूष पान करता है, संस्कारहीन अन्न खानेवाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक-वृद्ध आदिसं पल्ले आहार करता है वह विष्ठाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किये भोजन करनेवाला पानो कौड़ोको खाता है और बिना दान किये खानेवाला विष-भोजी है ॥ ७३-७४ ॥

अतः हे राजेन्द्र! गृहस्थको जिस प्रकार भोजन करना चाहिये—जिस प्रकार भोजन करनेसे पुरुषको पाप-बन्धन नहीं होता तथा इहलोकमें अत्यन्त आरोग्य, बल, बुद्धिकी प्राप्ति और अरिष्टोंकी शान्ति होती है और जो शत्रुपक्षका ह्रास करनेवाली है—वह भोजनविधि सुनो ॥ ७५-७६ ॥ गृहस्थको चाहिये कि स्नान करनेके अनन्तर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगणका तर्पण करके हाथमें उत्तम रत्न धारण किये षड्विज्रतापूर्वक भोजन करे ॥ ७७ ॥ हे नृप! जप तथा अग्निहोत्रके अनन्तर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित (बालक एवं वृद्धों)—को भोजन करा सुन्दर सुगन्धयुक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही उच्च घातण किये हाथ-पाँव और मुँह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन करे। हे राजन्! भोजनके समय इधर-उधर न देखे ॥ ७८-७९ ॥ मनुष्यको चाहिये कि पूर्व आश्ला उतरकी ओर मुख करके, अन्ममना न होकर उत्तम और पथ्य अन्नको प्रोक्षणके लिये रखे हुए मन्त्रपूत गलसे छिड़क कर भोजन करे ॥ ८० ॥ जो अन्न दुराचारी व्यक्तिको शायी हुवा हो, घृणाजनक हो अथवा बलिर्वस्त्रदेव आदि संस्कारशून्य हो उसको ग्रहण न करे। हे द्विज! गृहस्थ पुरुष अपने खाद्यमेंसे कुछ अन्न अपने शिष्य तथा अन्य भूखे-प्यासोंको देकर उसमें और शुद्ध पात्रमें शान्तचित्तसे भोजन करे ॥ ८१-८२ ॥ हे नरेश्वर! किसी बेत आदिके आसन (कुसीं आदि)—पर रखे हुए पात्रमें, अयोग्य स्थानमें, असमय (सन्ध्या आदि काल)—में अथवा अत्यन्त संकुचित स्थानमें कभी भोजन न करे। मनुष्यको चाहिये कि [परोसे हुए भोजनका] अग्र-भाग अग्निको देकर भोजन करे ॥ ८३ ॥ हे नृप! जो अन्न मन्त्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी न हो उसीको भोजन करे। परंतु फल, मूल और सूखी शाखाओंको तथा बिना पकाने हुए ऐल (चटनी) आदि और गुह्यके फस्योके

तद्द्वारातीतकेभ्यश्च गुह्यभक्ष्येभ्य एव च ।
 भुञ्जीतोद्भूतसाराणि न कदापि नरेश्वर ॥ ८५
 नाशेषं पुरुषोऽश्नीयादन्वश्च जगतीपते ।
 मध्वन्बुधिसर्पिभ्यस्सत्तुभ्यश्च विवेकवान् ॥ ८६
 अश्नीवात्तन्मयो भूत्वा पूर्वं तु मधुरं रसम् ।
 लवणाग्नौ तथा मध्ये कटुतिक्तादिकर्मस्ततः ॥ ८७
 प्राग्द्रव्यं पुरुषोऽश्नीयान्मध्ये कठिनभोजनः ।
 अन्ते पुनर्द्रवाणी तु बलारोग्ये न मुञ्चति ॥ ८८
 अनिन्द्र्यं भक्षयेदित्यं वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन् ।
 पञ्चप्रासं महाभीमं प्राणाद्याप्यायनं हि तत् ॥ ८९
 भुक्त्वा सम्यग्गन्धम्यं प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽपि वा ।
 यथावत्पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य मूलतः ॥ ९०
 स्वस्थः प्रशान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः ।
 अभीष्टदेवतानां तु कुर्वीत स्मरणं नरः ॥ ९१
 अग्निराप्यावयेद्भ्रातुं पार्थिवं पवनैरितः ।
 दत्तावकाशं नभसा जरयत्वस्तु मे सुखम् ॥ ९२
 अन्नं खलाय मे भूमेरपामन्यानिलस्य च ।
 भवत्येतत्परिणतं भभास्त्वव्याहृतं सुखम् ॥ ९३
 प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा ।
 अन्नं पुष्टिकरं चास्तु ममाप्यव्याहृतं सुखम् ॥ ९४
 अगस्तिरग्निर्बडवानलश्च
 भुक्तं मयान्नं जरयत्वशेषम् ।
 सुखं च मे तत्परिणामसम्भवं
 यच्छन्त्वरोगो मम चास्तु देहे ॥ ९५
 विष्णुस्समस्तेन्द्रियदेहदेही
 प्रधानभूतो भगवान्यथैकः ।
 सत्येन तेनात्तमशेषमन्न-
 मारोग्यदे मे परिणाममेतु ॥ ९६
 विष्णुरत्ता तथैवान्नं परिणामश्च वै तथा ।
 सत्येन तेन मद्भुक्तं जीर्यत्वन्नमिदं तथा ॥ ९७
 इत्युच्चार्य स्वहस्तेन परिमृष्य तथोदरम् ।
 अनायासप्रदावीनि कुर्यात्कर्मार्णवतन्द्रितः ॥ ९८

लिये ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर। सारहीन पदार्थोंको कभी न खाय ॥ ८४-८५ ॥ हे पृथिवीपते! विषेकां पुरुष भधु, जल, दही, घी और सत्तूके सिवा और किसी पदार्थको पूरा न खाय ॥ ८६ ॥

भोजन एकाग्रचित्त होकर करे तथा प्रथम मधुररस, फिर लवण और अम्ल (खट्टा)-रस तथा अन्तमें कटु और तीखे पदार्थोंको खाय ॥ ८७ ॥ जो पुरुष पहले द्रव पदार्थोंको, बीचमें कठिन वस्तुओंको तथा अन्तमें फिर द्रव पदार्थोंको ही खाता है वह कभी बल तथा आरोग्यसे हीन नहीं होता ॥ ८८ ॥ इस प्रकार प्राणोंका संयम करके अनिच्छिन्न अन्न भोजन करे। अन्नको निन्दा न करे। प्रथम पौष घ्रास अत्यन्त मीन होकर ग्रहण करे, उनसे पंचप्राणोंकी तृप्ति होती है ॥ ८९ ॥ भोजनके अनन्तर भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके हाथोंको उनके मूलदेशतक धोकर विधिपूर्वक आचमन करे ॥ ९० ॥

उदानन्तर स्वस्थ और शान्त-चिन्तसे आसनपर बैठकर अपने इष्टदेवोंका चिन्तन करे ॥ ९१ ॥ [और इस प्रकार कहे—] "[प्राणरूप] पवनसे प्रज्वलित हुआ जतराग्निक आकाशके द्वारा अवकाशयुक्त अन्नका परिपाक करे और [फिर अन्नरससे] मेरे शरीरके पार्थिव भक्षुओंको पुष्ट करे जिससे मुझे सुख प्राप्त हो ॥ ९२ ॥ यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथिवी, जल, अग्नि और वायुके बल बट्टनेवाला हो और इन चारों तत्त्वोंके रूपमें परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे निरन्तर सुख देनेवाला हो ॥ ९३ ॥ यह अन्न मेरे प्राण, अपान, सपान, उदान और व्यानकी पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुखकी प्राप्ति हो ॥ ९४ ॥ मेरे खाये हुए सम्पूर्ण अन्नका अगस्ति नामक अग्नि और बडवानल परिपाक करें, मुझे उसके परिणामसे होनेवाला सुख प्रदान करें और उससे मेरे शरीरको आरोग्यता प्राप्त हो ॥ ९५ ॥ 'देह और इन्द्रियादिके अधिष्ठाता एकमात्र भगवान् विष्णु ही प्रधान हैं'— इस सत्यके बलसे मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे ॥ ९६ ॥ 'भोजन करनेवाला, भोज्य अन्न और उसके परिपाक—ये सब विष्णु ही हैं'—इस सत्य भावनाके बलसे मेरा खाया हुआ यह अन्न पक्व जाय ॥ ९७ ॥ ऐसा कहकर अपने उदरपर हथ फेरें और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करनेवाले कार्योंमें लग जाय ॥ ९८ ॥

सख्यस्रादिविनोदेन सन्मार्गाद्विरोधिना ।
दिनं नयेत्तत्सन्ध्यामुपतिष्ठेत्समाहितः ॥ १९
दिनान्तसन्ध्यां सूर्येण पूर्वाभक्षैर्घृतां बुधः ।
उपतिष्ठेद्द्वान्याख्यं सम्यगाद्यम्य पार्श्वे ॥ १००
सर्वकालमुपस्थानं सन्ध्यायोः पार्श्वेष्वपते ।
अन्यत्र सूतकाशौचविभ्रमातुरभीतितः ॥ १०१
सूर्येणाभ्युदितो यश्च त्यक्तः सूर्येण वा स्वपन् ।
अन्यत्रातुरभावात्तु प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ १०२
तस्मादनुदिते सूर्ये समुत्थाय महीपते ।
उपतिष्ठेन्नरस्सन्ध्यामस्वर्षश्च दिनान्तजाम् ॥ १०३
उपतिष्ठन्ति धे सन्ध्यां ये न पूर्वां न पश्चिमाम् ।
ब्रजन्ति ते दुरात्मानस्तामिस्रं नरकं नृप ॥ १०४
पुनः पाकमुषादाय सायमप्यवनीपते ।
षैश्वदेवनिमित्तं वै पत्न्यमन्त्रं बलिं हरेत् ॥ १०५
तत्रापि श्वपद्यादिभ्यस्तथैवान्नविसर्जनम् ॥ १०६
अतिथिं चागतं तत्र स्वशक्त्या पूजयेद्बुधः ।
पादशीचासनप्रह्वस्वागतोक्त्या च पूजनम् ।
ततश्चान्नप्रदानेन शयनेन च पार्श्वे ॥ १०७
दिवातिथीं तु विमुखे गते यत्पातकं नृप ।
तदेवाष्टगुणां पुंसस्सूर्योदिते विमुखे गते ॥ १०८
तस्मात्स्वशक्त्या राजेन्द्र सूर्योदयतिथिं नरः ।
पूजयेत्पूजिते तस्मिन्पूजितास्सर्वदेवताः ॥ १०९
अन्नावाकांक्षुदानेन स्वशक्त्या पूजयेत्पुमान् ।
शयनप्रस्तरमहीप्रदानैरथवापि तम् ॥ ११०
कृतपादादिशौचस्तु भुक्त्वा सायं ततो गुह्री ।
गच्छेच्छय्यामस्फुटितामपि दारुमयीं नृप ॥ १११
नक्षिणालो न वै भन्त्रं नरस्यो मलिनं न च ।
न च जन्तुमयीं शक्यामधितिष्ठेदनास्तृताम् ॥ ११२

सच्चास्त्रीका अवलोकन आदि सन्मार्गके अविरोधी विनोदोंसे शेष दिनको व्यतीत करे और फिर सायंकालके समय सावधानतापूर्वक सन्ध्यापासन करे ॥ १९ ॥

हे राजन्! बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि सायंकालके समय सूर्यके रहते हार और प्रातःकाल तद्योग्यके समयके हुए ही भली प्रकार आचमनादि करके विधिपूर्वक सन्ध्यापासन करे ॥ १०० ॥ हे पार्श्वे! पुरुष (पुत्र-जन्मादिसे होनेवाली अशुचिता), अशौच (मृत्युसे होनेवाली अशुचिता), जन्माद, रोग और भय अदि भेदों बाधा न हो तो प्रतिदिन जो सन्ध्यापासन करना चाहिये ॥ १०१ ॥ जो पुरुष रूपावस्थाको छोड़कर और कभी सूर्यके उदय अथवा अस्तके समय सोता है वह प्रयश्चित्तका भागी होता है ॥ १०२ ॥ अतः हे महीपते! गृहस्थ पुरुष सूर्योदयसे पूर्व ही उठकर प्रातःसन्ध्या करे और सायंकालमें भी तात्कालीन सन्ध्यापासन करे; सोये नहीं ॥ १०३ ॥ हे नृप! जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन सन्ध्यापासन नहीं करते वे दुरात्मा अन्धार्तापिस नरकमें पड़ते हैं ॥ १०४ ॥

तदनन्तर हे पृथिवीपते! सायंकालके समय सिद्ध किमे हुए अन्तसे गृहपती मन्त्रहीन बलिवैश्वदेव करे; उस समय भी उसी प्रकार श्वपच आदिके लिये अन्नदान किया जाता है ॥ १०५-१०६ ॥ बुद्धिमान् पुरुष उस समय आये हुए अतिथिका भी सामर्थ्यानुसार सत्कार करे। हे राजन्! प्रथम पौव धुलाने, आसन देने और स्वागतसूचक दिनप्र यचन कहनेसे तथा फिर भोजन कराने और शयन करानेसे अतिथिका सत्कार किया जाता है ॥ १०७ ॥ हे नृप! दिनके समय अतिथिके लौट आनेसे बिलना पाप लगता है उससे आठगुना पाप सूर्यास्तके समय लौटनेसे होता है ॥ १०८ ॥ अतः हे राजेन्द्र! सूर्यास्तके समय आये हुए अतिथिका गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्यानुसार अवश्य सत्कार करे क्योंकि उसका पूजन करनेसे ही समस्त देवताओंका पूजन हो जाता है ॥ १०९ ॥ मनुष्यको चाहिये कि अपनी शक्तिके अनुसार उसे भोजनके लिये अन्न, शाक या जल देकर तथा सोनेके लिये शय्य या चास-फूसका बिछौना अथवा पुथिवी ही देकर उसका सत्कार करे ॥ ११० ॥

हे नृप! तदनन्तर गृहस्थ पुरुष सायंकालका भोजन करके तथा हाथ-पाँव धोकर छिद्रादिहीन कच्छमय शय्यापर लेट जाय ॥ १११ ॥ जो काफी बड़ी न हो, सूटी हुई हो, कैंची-नीचो हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हों या जिसपर कुछ बिछा हुआ न हो उस शय्यापर न सोये ॥ ११२ ॥

प्राच्यां दिशि शिखरंस्तं याम्यायामथ वा नृप ।
 सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतं तु रोगदम् ॥ ११३ ॥
 ऋताकुपगमशशास्तस्वपत्क्षामवनीपते ।
 पुनामर्हो शुभे काले ज्येष्ठाद्युग्मासु रात्रिषु ॥ ११४ ॥
 नाद्युनां तु स्वियं गच्छेन्नातुरां न रजस्वलाम् ।
 नानियं न प्रकृपितां न व्रतां न च गर्भिणीम् ॥ ११५ ॥
 नदक्षिणां नान्यक्रमां नावक्रमां नान्यप्रेषितम् ।
 क्षुब्धामां नातिभुक्तं वा स्वयं चैर्भर्गुर्पर्युतः ॥ ११६ ॥
 स्नातस्त्रगन्धधृच्छीते नाघ्नातः क्षुधितोऽपि च ।
 सकामस्सानुरागश्च स्वस्वयं पुरुषो व्रजेत् ॥ ११७ ॥
 स्रतुर्दृश्यष्टमी चैव तथापि चाथ पूर्णिमा ।
 पर्वाण्येताभि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥ ११८ ॥
 तैलस्त्रीमांससम्भोगी सर्वेष्वेतेषु वै पुमान् ।
 विष्णुभोजनं नाम प्रयाति नरकं मृतः ॥ ११९ ॥
 अशेषपर्वस्वेतेषु तस्मात्संबन्धिभिर्बुधैः ।
 भाव्यं सच्छास्त्रदेवेभ्योऽध्यायजप्यपैर्नरैः ॥ १२० ॥
 नान्यधोनावधोनीं वा नोपयुक्तौषधस्तथा ।
 द्विजदेवगुरूणां च व्यवायी नाश्रमे भवेत् ॥ १२१ ॥
 चैत्यचत्वरतीर्थेषु नैव गोष्ठे चतुष्पथे ।
 नैव श्मशानोपवने सलिलेषु पङ्क्तिपते ॥ १२२ ॥
 प्रोक्तपर्वस्वशेषेषु नैव भूपाल सन्ध्ययोः ।
 गच्छेद्भ्रमार्थं मतिमान् मूत्रोच्चारपीडितः ॥ १२३ ॥
 पर्वस्वभिगमोऽध्वन्यो दिवा पापप्रदो नृप ।
 भुवि रोगावहो नृणामप्रशस्तो जलाशये ॥ १२४ ॥
 परदारान् गच्छेच्च मनसापि कथञ्चन ।
 किमु वाचास्थिवस्रोऽपि भस्ति तेषु व्यवायिनाम् ॥ १२५ ॥

हे नृप! सोनेके समय सदा पूर्व अथवा दक्षिणकी ओर सिर रखना चाहिये। इनके विपरीत दिशाओंकी ओर सिर रखनेसे रोगोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ११३ ॥

हे पृथ्वीपते! ऋतुकालमें अपनी ही स्त्रीसे संग करना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्रमें युग्म और उनमें भी पीछेकी रात्रियोंमें शुभ समयमें स्त्रीप्रसंग करे ॥ ११४ ॥ किन्तु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, निर्भिलाधिणी, क्रोडिता, दुःखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग न करे ॥ ११५ ॥ जो सोधे स्वभावकी वृत्ति, पराभिलाधिणी अथवा निर्भिलाधिणी हो, क्षुधाती हो, अधिक भोजन किये हुए हो अथवा परस्त्री हो उसके पास न जाय; और यदि अपनेमें ये दोष हों तो भी स्त्रीगमन न करे ॥ ११६ ॥ पुरुषको उचित है कि स्नान करनेके अनन्तर माला और गन्ध धारण कर काम और अनुरागयुक्त होकर स्त्रीगमन करे। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो उस समय उसमें प्रवृत्त न हो ॥ ११७ ॥

हे राजेन्द्र! चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और सूर्यकी संक्रान्ति—ये सब पर्वदिन हैं ॥ ११८ ॥ इन पर्वदिनोंमें तैल, स्त्री अथवा मांसका भोग करनेवाला पुरुष मरनेपर विद्या और मूत्रसे भर नरकमें पड़ता है ॥ ११९ ॥ संयमो और बुद्धिमान् पुरुषोंको इन समस्त पर्वदिनोंमें सच्छास्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञातुष्टान्, ध्यान और जप आदिमें लगे रहना चाहिये ॥ १२० ॥ गौ-छाग आदि अन्य धोनीयोंसे, अयोनीयोंसे, औषध-प्रयोगसे अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरूके आश्रमोंमें कभी मैथुन न करे ॥ १२१ ॥ हे पृथिवीपते! चैत्यवृत्तके नीचे, आँगनमें, तीर्थमें, पशुशालामें, चौराहेयर, श्मशानमें, उपवनमें अथवा जलमें भी मैथुन करना उचित नहीं है ॥ १२२ ॥ हे राजन्! पूर्वोक्त समस्त पर्वदिनोंमें प्रातःकाल और सायंकालमें तथा मूल-मूत्रके वेगके समय बुद्धिमन् पुरुष मैथुनमें प्रवृत्त न हो ॥ १२३ ॥

हे नृप! पर्वदिनोंमें स्त्रीगमन करनेसे धनकी हानि होती है; दिनमें करनेसे पाप होता है, पूर्णिमापर करनेसे रोग होते हैं और जलाशयमें स्त्रीप्रसंग करनेसे अमंगल होता है ॥ १२४ ॥ परस्त्रीसे ही वाणीसे क्या, मनसे भी प्रसंग न करे, क्योंकि उनसे मैथुन करनेवालोंको अस्थि-वन्धन भी नहीं होता [अश्वत्थुं उन्धे अस्थिशून्य कीटादि होना पड़ता है] ॥ १२५ ॥

मृतो नरकमध्येति श्रियतेऽत्रापि चायुषः ।

परदाररतिः पुंसामिह चामुत्र भीतिदा ॥ १२६

इति मत्वा स्वदारेषु ऋतुमस्तु बुधो व्रजेत् ।

यथोक्तदोषहीनेषु सकामेष्वनृतावपि ॥ १२७

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽंशे एकादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

बारहवाँ अध्याय

गृहस्थसम्बन्धी सहाधारका वर्णन

और्वं उवाच

देवगोब्राह्मणान्सिद्धान्ब्रह्मचार्यास्तथाचयेत् ।
द्विकालं च नभेत्सन्ध्यामग्नीनुपचरेत्तथा ॥ १

सदाऽनुपहते वस्त्रे प्रशास्ताश्च महीषधीः ।
गारुडानि च रत्नानि विभूयात्प्रयतो नरः ॥ २

प्रस्निग्धामलकेशश्च सुगन्धश्चारुवेषश्चकृत् ।
सितास्सुमनसो हृद्या विभूयाच्च नरस्तदा ॥ ३

किञ्चित्परस्व न हरेन्नाल्पमप्यप्रियं सदेत् ।
प्रियं च नानृतं सूयान्नात्यलोधानुदीरयेत् ॥ ४

नान्यस्त्रियं तथा खैरं रोद्यचेत्पुरुषवर्षध ।
न दुष्टं यानमारोहेत्कूलच्छायां न संग्रयेत् ॥ ५

विद्विष्टपतितोन्मत्तस्यहृत्पैरदिकीटकैः ।
बन्धकी बन्धकीभर्तुः क्षुभ्रानृतकधीस्तसह ॥ ६

तथातिव्ययशीलैश्च परिव्यादरतैश्शठैः ।
बुधो मैत्रीं न कुर्वीत पैकः पन्थानमाश्रयेत् ॥ ७

नावगाहेज्जलीघस्यं वेगमग्रे नरेश्वर ।
प्रदीपं चेश्म न विशेषेन्नारोहेच्छिखरं तरौः ॥ ८

न कुर्याद्दन्तसङ्घर्षं कुष्णीयाच्च न त्रसिकाम् ।
न संवृतमुखो जृम्भेस्ववासकासी विसर्जयेत् ॥ ९

नोच्चैर्हस्तेत्सशर्षं च न मुञ्चेत्पवनं बुधः ।
नखान् खादयेच्छिखान् तृणं न मर्षीं लिखेत् ॥ १०

परस्त्रीको आर्षांतं पुरुषको हस्तोक और परलोक दोनों अगह भय देनेवाला है; इहलोकमें उसकी आयु श्रृंग हो जाती है और मरनेपर बड़ नरकमें जाता है ॥ १२६ ॥ ऐसा जानकर बुद्धिमान् पुरुष उपरोक्त दोषोंसे रहित अपनी स्त्रीसे ही ऋतुकालमें प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषी हो तो बिना ऋतुकालके भी गमन करे ॥ १२७ ॥

और्वं बोले—गृहस्थ पुरुषको नित्यप्रति देवता, गौं, ब्राह्मण, सिद्धाण, वयोगृह्य तथा आचार्यकी पूजा करनी चाहिये और दोनों समय सन्ध्यावन्दन तथा अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिये ॥ १ ॥ गृहस्थ पुरुष सदा ही संयमपूर्ण रहकर बिना कहींसे कटे हुए दो वस्त्र, उत्तम ओषधियों और गारुड (मरकत आदि विष नष्ट करनेवाले) रत्न धारण करे ॥ २ ॥ वह केशोंको स्वच्छ और तिकना रखे तथा सर्वदा सुगन्धयुक्त सुन्दर वेष और मनोहर श्वेतपुष्प धारण करे ॥ ३ ॥ किसीका धोड़ा-सा धो धन हरण न करे और थोड़ा-सा भी अग्रिय ॥ ४ ॥ धन न कभी मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले और न कभी दूसरोंके दोषोंको ही कहे ॥ ४ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ! दूसरोंकी स्त्री अभवा दूसरोंके साथ वैर करनेमें कभी रजिब न करे, निन्दित सवादेमें कभी न चढ़े और नदीतीरकी छायाका कभी आश्रय न ले ॥ ५ ॥ बुद्धिमान् पुरुष लोकाविद्विष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत-से शत्रु हों ऐसे परपोडक पुरुषोंके साथ तथा कुलटा, कुलटाके स्वामी, क्षुद्र, मिथ्यावादी अति प्ययसौल, निन्दापद्यमण और दुष्ट पुरुषोंके साथ कभी मित्रता न करे और न कभी मार्गमें अकेला चले ॥ ६-७ ॥ हे परेश्वर! जलप्रवाहके वेगमें सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घरमें प्रवेश न करे और वृक्षको चोटपर न चढ़े ॥ ८ ॥ दाँतोंको परस्पर न घिसे, नाकको न कुदेदे तथा मुखको बन्द किये हुए अमुहाई न ले और न बन्द मुखसे खाँसे या श्वास छोड़े ॥ ९ ॥ बुद्धिमान् पुरुष जोरसे न हँसे और सम्ब करके हुए अधोवायु न छोड़े; तथा नखोंको न चबाने, तिनका न तोड़े और पृथिवीपर धी न लिखे ॥ १० ॥

न श्मश्रु भक्षयेल्लोष्टं न मुदनीयाद्विघ्नक्षणाः ।
 ज्योतींघ्नमेघ्यशस्तानि नाभिर्वीक्षेत च प्रभो ॥ ११
 नग्नां परस्त्रियं चैव सूर्यं धारस्तमयोदये ।
 न हुंकुर्वाञ्छ्र्वं गन्धं शवगन्धो हि सोमजः ॥ १२
 चतुष्पथं धैत्यतक्तं श्मशानोपवनानि च ।
 दुष्टस्त्रीसन्निकर्षं च वर्जयेन्निशि सर्वदा ॥ १३
 पूज्यदेवद्विजज्योतिशलायां नातिक्रमेद् बुधः ।
 नैकशशून्याटवीं गच्छेत्तथा शून्यगृहे वसेत् ॥ १४
 केशाशिकण्ठकामेध्याबलिभस्मतुर्थास्तथा ।
 स्नानार्द्रधरणीं चैव दूरतः परिवर्जयेत् ॥ १५
 नानार्यानांश्रयेत्कांश्चिन्न जिह्वां रोचयेद् बुधः ।
 उपसर्पेन वै व्यालं चिरं तिष्ठेन्न चोत्थितः ॥ १६
 अतीव जागरस्वप्ने तद्भ्रतानासने बुधः ।
 न सेवेत तथा शय्यां व्यायामं च नरेश्वर ॥ १७
 दंष्ट्रिणाः शृंगिणाश्चैव प्राज्ञो दूरेण वर्जयेत् ।
 अवश्यायं च राजेन्द्र पुरोवातातपौ तथा ॥ १८
 न स्नाद्यान् स्वपेनग्नो न सौवोपस्पृशेद् बुधः ।
 मुक्तकेशश्च नाचामेहेवाद्यर्थां च वर्जयेत् ॥ १९
 होमदेवार्चनाद्यासु क्रियास्त्राचमने तथा ।
 नैकवस्त्रः प्रवर्तेत द्विजवाचनिके जपे ॥ २०
 नासमञ्जसशीलैस्तु सहासीत कथञ्चन ।
 सद्वृत्तसन्निकर्षो हि क्षणार्द्धमपि शस्यते ॥ २१
 विरोधं नोत्तमैर्गच्छेन्नाधमैश्च सदा बुधः ।
 विवाहश्च विवादश्च तुल्यशीलैर्नृपेभ्यते ॥ २२
 नारभेत कस्मिं प्राज्ञशशुष्कवैरं च वर्जयेत् ।
 अप्यल्पहानिस्तौळव्या वैरिणाश्चागमं त्वजेत् ॥ २३
 स्नात्ते नांगानि सम्प्राज्वेत्नान्नाप्याद्या न षण्णिना ।
 न च निर्धूनयेत्केशान्नाद्यामेध्वैव चोत्थितः ॥ २४
 पादेन नाक्रमेत्पार्दं न पूज्याभिमुखं नयेत् ।
 नोच्चासनं गुरोरयो भजेताचिनयान्वितः ॥ २५
 अपसव्यं न गच्छेच्च देवागारचतुष्पथान् ।
 मांगल्यपूज्यांश्च तथा विपरीतान् दक्षिणाम् ॥ २६

हे प्रभो। विचक्षण पुरुष मूँळ-दाढीके बालोंको न
 चत्राले, दो डेलोंको परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं
 निन्दित नशत्रोंको न देखे ॥ ११ ॥ नग्न परस्त्रीको और
 ददय अथवा अस्त होते हुए सूर्यको न देखे तथा शव और
 शव-गन्धसे घृणा न करे, क्योंकि शव-गन्ध सोमका अंश
 है ॥ १२ ॥ शौराहा, चैत्यवृक्ष, श्मशान, उपवन और दुष्ट
 स्त्रीको सभोषता—इन सबका रात्रिके समय सर्वदा त्याग
 करे ॥ १३ ॥ बुद्धिमान् पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण
 और तेजोमय पदार्थोंको छायाको कभी न लौंचे तथा शून्य
 वनखण्डी और शून्य घरमें कभी अकेला न रहे ॥ १४ ॥
 केश, अरिष्य, कण्ठक, अपवित्र नखु, बलि, भस्म, गुण
 तथा स्नानके कारण भोगी हुई पृथिवीका दूरहीसे त्याग
 करे ॥ १५ ॥ प्राज्ञ पुरुषको चाहिये कि अनार्य व्यक्तिक
 संग न करे, कुटिल पुरुषमें आसक्त न हो, सर्पके पास न
 जाय और जग पड़नेपर अधिक देरतक लेट न रहे ॥ १६ ॥
 हे नरेश्वर! बुद्धिमान् पुरुष जगाने, सोने, स्नान करने,
 बैठने, शय्यासेवन करने और व्यायाम करनेमें अधिक
 समय न लगावे ॥ १७ ॥ है राजेन्द्र! प्राज्ञ पुरुष दौत और
 सौगवाले पशुओंको, ओसको तथा सामनेकी वायु और
 धूपका सर्वदा परित्याग करे ॥ १८ ॥ नग्न होकर स्नान,
 शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन
 और देव-पूजन न करे ॥ १९ ॥ होम तथा देवार्चन आदि
 क्रियाओंमें, आचमनमें, पुण्याहवाचनमें और जपमें एक
 वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो ॥ २० ॥ संज्ञयकौल व्यक्तियोंके
 साथ कभी न रहे। सदाशरी पुरुषोंका तो आधे क्षणका
 संग भी अति शरंसनीय होता है ॥ २१ ॥ बुद्धिमान् पुरुष
 उत्तम अथवा अधम व्यक्तियोंसे विरोध न करे। हे राजन्!
 विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तिसे ही होना
 चाहिये ॥ २२ ॥ प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैरका
 भी त्याग करे। थोड़ी-सी हानि सह ले, किन्तु वैरसे कुछ लाभ
 होता हो तो उसे भी छोड़ दे ॥ २३ ॥ स्नान करनेके अनन्तर
 स्नानसे भोगी हुई धोती अथवा हाथोंसे शरीरको न पीछे तथा
 छत्रे-छत्रे केशोंको न झाड़े और आचमन भी न करे ॥ २४ ॥
 पैरके ऊपर पैर न रखे, गुरुजनोंके सामने पैर न फैलावे और
 धृष्टतापूर्वक इनके सामने कभी उच्चासनपर न बैठे ॥ २५ ॥
 देवालया, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य
 व्यक्ति—इन सबको बायीं ओर रखकर न निकले तथा
 इनके विपरीत वस्तुओंको दायीं ओर रखकर न जाय ॥ २६ ॥

सोमाकर्तृगन्धर्वायूनां पूज्यानां च न सम्मुखम् ।
 कुर्यान्निष्ठीवविष्णुमूत्रसमुत्सर्गं च पण्डितः ॥ २७
 तिष्ठन्न मूत्रयेत्तद्वत्पिष्णुपि न मूत्रयेत् ।
 श्लेष्मविष्णुमूत्ररक्तानि सर्वदेव न लङ्घयेत् ॥ २८
 श्लेष्मशिङ्गाणिकोत्सर्गो नान्काले प्रशस्यते ।
 बलिर्भंगलजप्यादौ न ह्येमे न महाजने ॥ २९
 योषितो नाधमन्येत न चासां विश्वमेद् बुधः ।
 न चैवेष्वा भवेत्तासु न शिवेऽर्वात्कदाचन ॥ ३०
 भंगलजप्युत्सर्गान्यपूज्याननभिवान्न च ।
 न निष्कमेद् गृहात्प्राज्ञस्सदाचारपरो नरः ॥ ३१
 चतुष्पञ्चानमस्कुर्यात्काले होमपरो भवेत् ।
 दीनापभ्युद्धरेत्साधून्पासीत बहुश्रुतान् ॥ ३२
 देवर्षिपूजकस्सम्यक्पितृपिण्डोदकप्रदः ।
 सत्कर्ता चातिथीनां यः स लोकानुत्तमान्जनेत् ॥ ३३
 हितं भितं प्रियं काले वक्ष्यात्मा योऽभिभाषते ।
 स याति लोकानाह्लादहेतुभूतान्पाप्मानान् ॥ ३४
 धीमान्हीमान्प्रमायुक्त्रे ह्यस्तिक्त्रे विन्यान्वितः ।
 विद्याभिजनवृद्धानां याति लोकाननुत्तमान् ॥ ३५
 अकालगजितादौ च पर्यस्याशीसकादिषु ।
 अनव्यायं बुधः कुर्यादुपरागादिके तथा ॥ ३६
 शर्मं नयति यः कृद्धान्सर्वैश्चभूरमत्सरी ।
 भीताश्वसनकृत्स्नसुस्वर्गस्तस्याल्पकं फलम् ॥ ३७
 वर्षातपादिषु च्छत्री दण्डी राज्यटवीषु च ।
 शरीरत्राणकामो वै सोपानत्करस्सदा व्रजेत् ॥ ३८
 मोर्ध्वं न तिर्यग्दूरं वा न पश्यन्वर्षटेद् बुधः ।
 युगमात्रं महीपृष्ठं नरो गच्छेद्विलोकयन् ॥ ३९
 दोषहेतून्शेषांश्च वक्ष्यात्मा यो निरस्यति ।
 तस्य भ्रमार्थकामानां ह्यनिर्नास्त्रापि जायते ॥ ४०
 सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः ।
 यापेऽप्ययापः परुषे ह्यभिघ्नते प्रियाणि यः ।
 यैत्रीद्रवान्तःकरणास्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥ ४१

चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी व्यक्तियोंके सम्मुख पण्डित पुरुष पत्न-मूत्र-त्याग न करे और न भूके ही ॥ २७ ॥ खड़े खड़े अथवा पार्श्वमें मूत्र-त्याग न करे तथा श्लेष्मा (धूक), विष्ठा, मूत्र और रक्तकी कर्षा न लीं ॥ २८ ॥ भोजन, देव-पूजा, मांगलिक काम और जप-होमादिके समय तथा महापुरुषके रामने धूकना और छींकना उचित नहीं है ॥ २९ ॥ बुद्धिमान् पुरुष विष्णोका अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनमें ईर्ष्या और उनका निस्कार भी कभी न करे ॥ ३० ॥ सदाचार-परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियोंका अगिषादत्त किये बिना कभी अपने घरमें न निकले ॥ ३१ ॥ चौराहोंको नमस्कार करे, ब्यासस्य अग्निहोत्र करे, दोन-दुःखियोंका उद्धार करे और बहुश्रुत रामपु पुरुषोका सत्संग करे ॥ ३२ ॥

जो पुरुष देवता और ऋषियोंकी पूजा करता है, पितृभण्डको पिण्डोदक देता है और अतिथिको सत्कार करता है वह पुण्यलोकोंको जाना है ॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर समयानुसार हित, भित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन्! वह आनन्दके हेतुभूत अष्टय लोकोंको प्राप्य होता है ॥ ३४ ॥ बुद्धिमान्, सज्जायान्, क्षमाशील, आस्तिक और विनयो पुरुष विद्वान् और कुलीन पुरुषोंके योग्य उद्यम लोकोंमें जाता है ॥ ३५ ॥ अकाल मेषगर्जनके समय, पर्व-दिनोंपर, अशौच कालों तथा चन्द्र और सूर्यग्रहणके समय बुद्धिमान् पुरुष अध्ययन न करे ॥ ३६ ॥ जो व्यक्ति क्रोधितको शान्त करता है, सबका बन्धु है, मत्सरशून्य है, भयभीतको मानवना देनेवाला है और साधु-स्वभाव है उसके लिये स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है ॥ ३७ ॥ जिसे शरीर-रक्षाकी इच्छा हो वह पुरुष वर्षा और भूषमें छाती लेकर निकले, रात्रिके समय और यन्में दण्ड लेकर जाय तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाय ॥ ३८ ॥ बुद्धिमान् पुरुषको ऊपरकी ओर, इधर-उधर अथवा दूरके पदाथोंको देखते हुए नहीं चलना चाहिये, केवल युगमात्र (चार हाथ) पृथिवीको देखना हुआ चले ॥ ३९ ॥

जो जितेन्द्रिय दोषके समस्त हेतुओंको त्याग देता है उसके भर्म, अर्ध और कामकी थोड़ी-सी भी हानि नहीं होती ॥ ४० ॥ जो विद्या-दिनय-सम्पन्न, सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, बुद्धिमान् पुरुषोंसे प्रिय भाषण करता है तथा निस्स्व अन्तःकल्प मैत्रीसे स्वीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्टीमें रहती है ॥ ४१ ॥

ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे ।
 सदाचारस्थितास्तेषामनुभावैर्धृता मही ॥ ४२ ॥
 तस्मात्सत्यं वदेत्प्राज्ञो यत्परप्रीतिकारणम् ।
 सत्यं यत्परदुःखाय तदा मीनपरो भवेत् ॥ ४३ ॥
 प्रियपुत्रं हितं नैतदिति मत्वा न तद्भवेत् ।
 श्रेयस्तत्र हितं वाच्यं यद्यप्यत्यन्तमप्रियम् ॥ ४४ ॥
 प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परत्र च ।
 कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्भजेत् ॥ ४५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेशो द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

तेरहवाँ अध्याय

आभ्युदयिक श्राद्ध, प्रेतकर्म तथा श्राद्धादिका विचार

और्ध्व तथाच

सञ्चैलस्य पितुः स्नानं जाते पुत्रे विधीयते ।
 जातकर्म तदा कुर्याच्चश्राद्धमभ्युदये च यत् ॥ १ ॥
 पुमान्देवैश्च पित्राञ्च सम्यक्सम्पन्नमाद् द्विजन् ।
 पूजयेद्भोजयेच्चैव तन्मना नान्यमानसः ॥ २ ॥
 दध्यक्षतैस्सर्दरैः प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽपि वा ।
 देयतीर्थेन वै पिण्डान्दद्यात्स्वायेन वा नृप ॥ ३ ॥
 नान्दीमुखः पितृगणस्तेन श्राद्धेन पार्श्विवा ।
 प्रीयते तत्तु कर्तव्यं पुरुषैस्सर्ववृद्धिषु ॥ ४ ॥
 कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशेषु च वैश्वनरः ।
 नामकर्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा ॥ ५ ॥
 सौमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने ।
 नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत्प्रयतो गृही ॥ ६ ॥
 पितृपूजाक्रमः प्रोक्तो वृद्धावेश सनातनः ।
 श्रूयतामवनीपाल प्रेतकर्मक्रियाविधिः ॥ ७ ॥
 प्रेतदेहं शुभैः स्नानैस्स्नापितं स्मृतिवभूषितम् ।
 दग्ध्वा ऋमाद्दृष्टिः स्नात्वा सञ्चैलस्सक्तिलाशये ॥ ८ ॥

जो वीतरागमहापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादिके लक्ष्मीभूत नहीं होवे तथा सर्वदा सदाचारमें स्थित रहते हैं उनके प्रभावसे ही पृथिवी टिकी हुई है ॥ ४२ ॥ अतः प्राज्ञ पुरुषको वहाँ सत्य कहना चाहिये जो दूसरोंकी प्रसन्नताका कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्यके कहनेसे दूसरोंको दुःख होता जाने तो भीन रहे ॥ ४३ ॥ यदि प्रिय वाक्यको भी अहितकर समझे तो उसे न कहे; उस अवस्थामें तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यन्त अप्रिय क्यों न हो ॥ ४४ ॥ जो कार्य इष्टलोक और परलोकमें प्राणियोंके हितका साधक हो भतिमान् पुरुष मन, वचन और कर्मासे उसीका आचरण करे ॥ ४५ ॥

और्ध्व बोले—पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिताको सञ्चल (वस्त्रोसहित) स्नान करना चाहिये। उसके पश्चात् जातकर्म—संस्कार और आभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिये ॥ १ ॥ फिर तन्मनःभावसे अनन्यचित्त होकर शैशवा और पितृगणके लिये क्रमशः दायों और बायीं ओर विठाकर दो-दो ब्राह्मणोंका पूजन करे और उन्हें भोजन करावे ॥ २ ॥ हे राजन्! पूर्व अथवा उत्तरकी ओर मुख करके दधि, अक्षत और बदरीफलसे बने हुए पिण्डोंको देयतीर्थ^१ या प्रजापतितीर्थसे^२ दान करे ॥ ३ ॥ हे पृथिवीनाथ! इस आभ्युदयिक श्राद्धसे नान्दीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं, अतः सब प्रकारकी अभिवृद्धिके समय पुरुषोंको इस्का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४ ॥ कन्या और पुत्रके विवाहमें, गृहप्रवेशमें, बालकोंके नामकरण तथा चूडाकर्म आदि संस्कारोंमें, सौमन्तोन्नयन—संस्कारमें और पुत्र आदिके मुख देखनेके समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्तसे नान्दीमुख नामक पितागणका पूजन करे ॥ ५-६ ॥ हे पृथिवीपाल! आभ्युदयिक श्राद्धमें पितृपूजाका यह सनातन क्रम तुमको सुनाया, अब प्रेतक्रियाकी विधि सुनो ॥ ७ ॥

बन्धु-बान्धवोंकी चाहिये कि भली प्रकार स्नान करानेके अनन्तर पुण्य-मालाओंसे विभूषित ऋषिका गाँवके

यत्र तत्र स्थितार्थतदमुक्तायेति वादिनः ।
 दक्षिणाभिमुखं दक्षुर्वाग्निवास्सलिनाञ्जलीन् ॥ १
 प्रविष्टाश्च समं गोभिर्ग्रामं नक्षत्रदर्शने ।
 कटकर्म ततः कुरुर्भूमिं प्रस्तरशायिनः ॥ १०
 दातव्योऽनुदिनं पिण्डः प्रेताय भुवि पार्थिव ।
 दिवा च भक्तं भोक्तव्यममांसं मनुजर्षभ ॥ ११
 दिनानि तानि चेच्छ्रातः कर्तव्यं विप्रभोजनम् ।
 प्रेता यान्ति तथा सृष्टिं बन्धुवर्गेण भुञ्जता ॥ १२
 प्रथमेऽह्नि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा ।
 अस्त्रत्यागबहिस्त्वाने कृत्वा दद्यात्तिलोदकम् ॥ १३
 षतुर्थेऽह्नि च कर्तव्यं तस्यास्थिचयनं नृप ।
 तदूर्ध्वमंगसंस्पर्शस्सपिण्डानामपीष्यते ॥ १४
 योग्यास्सर्व्वीक्रियाणां तु समानसलिलास्तथा ।
 अनुलेपनपुष्यादिभोगादन्यत्र पार्थिव ॥ १५
 शय्यासनोपभोगश्च सपिण्डानामपीष्यते ।
 भस्मास्थिचयनादूर्ध्वं संयोगो न तु योषिताम् ॥ १६
 बाले देशान्तरस्थे च पतिते च मुनीं मुते ।
 सद्यश्शौचं तयोच्छ्रुतो जलाग्न्युद्गन्धनादिषु ॥ १७
 मृतबन्धोर्दशाह्नि कुलस्यान्नं न भुज्यते ।
 दानं प्रतिग्रहो ह्येवः स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥ १८
 विप्रस्यैतद् द्वादशाहं राजन्यस्वाप्यशौचकम् ।
 अर्धमासं तु वैश्यस्य मासं शूद्रस्य शुद्धये ॥ १९

बाह्य दाह करें और फिर जलाशयमें वस्त्रसहित स्नान कर दक्षिण-मुख होकर 'यत्र तत्र स्थितार्थतदमुक्ताय'^१ आदि पावकका उच्चारण करते हुए जलाञ्जलि दें ॥ ८-९ ॥

तदनन्तर गोधूलिके समय तारा-मण्डलके देखने लगनेपर ग्राममें प्रवेश करें और कटकर्म (अशौच कृत्व) सम्पन्न करके पृथिवीपर तृणादिकी शय्यपर सवन करें ॥ १० ॥ हे पृथिवीपते! मृत पुरुषके लिये नित्यप्रति पृथिवीपर पिण्डदान करना चाहिये और हे पुरुषश्रेष्ठ! केवल दिनके समय मांसहीन भोजन खाना चाहिये ॥ ११ ॥ अशौच कालमें, यदि ब्राह्मणोंको इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिये, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बन्धुवर्गके भोजन करनेसे मृत जीवकी तृप्ति होती है ॥ १२ ॥ अशौचके पहले, तीसरे, सातवें अथवा नवें दिन वस्त्र त्यागकर और बहिर्देशमें स्नान करके तिलोदक दे ॥ १३ ॥

हे नृप! अशौचके चौथे दिन अस्थिचयन करना चाहिये; उसके अनन्तर अपने सपिण्ड बन्धुवर्गोंका औसर्पशं किया जा सकता है ॥ १४ ॥ हे राजन्! उस सम्पत्के समानोदक^२ पुरुष चन्दन और पुष्पधारण आदि क्रियाओंके सिवा [पंचयज्ञादि] और सब कर्म कर सकते हैं ॥ १५ ॥ भस्म और अस्थिचयनके अनन्तर सपिण्ड पुरुषोंद्वारा शय्या और आसनका उपयोग तो किया जा सकता है, किन्तु स्त्री-सर्पार्थ नहीं किया जा सकता ॥ १६ ॥ बालक, देशान्तरस्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वीके मरनेपर तथा जल, अग्नि और उद्गन्धन (फाँसी लगाने) आदिद्वारा आत्मघात करनेपर शौच ही अशौचकी निवृत्ति हो जाती है^३ ॥ १७ ॥ मृतकके कुटुम्बका अन्न दस दिनतक न खाना चाहिये तथा अशौच कालमें दान, परिग्रह, होष और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिये ॥ १८ ॥ यह [दस दिनका] अशौच ब्राह्मणका है; क्षत्रियका अशौच बारह दिन और वैश्यका पन्द्रह दिन रहता है तथा शूद्रकी अशौच-शुद्धि एक मासमें होती है ॥ १९ ॥

१- अर्थात् इमलोग अपुत्र नाम-गोनबाले प्रेतके निमित्त, वे दहाँ नहीं भी हों, वह जल देते हैं।

२- समानोदक (सर्पणादिमें समान जलधिकासी अर्थात् सर्पोत्र) और सपिण्ड (पिण्डदीर्घकारी)-को व्याख्या भूमिपुराणमें इस प्रकार की है—

'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। समानोदकभावेस्तु बन्धुगणान्तरैरेव ॥

अर्थात् सातवीं पीढ़ीमें पुरुषकी सपिण्डता निवृत्त हो जाती है, किन्तु समानोदकभाव उसके जन्म और मृतकका पता न होनेपर दूर होना है।

३- परन्तु पाठ-पित्तके विषयमें यह निश्चय नहीं है; वेसा कि कहा है—

पित्तं चन्मृती स्वर्णां दूरस्थोऽपि हि पुञ्जः। कृत्वा तदिनमारभ्य दद्यात् स्नाको भवेत् ॥

अयुजो भोजवेत्कामं द्विजानन्ते ततो दिने ।
 दद्याद्वर्षेषु पिण्डं च प्रेतायोच्छिष्टसन्निधौ ॥ २०
 वार्यायुधप्रतोदास्तु दण्डश्च द्विजभोजनात् ।
 स्पष्टव्योऽनन्तरं वर्षीः शुद्धैरन्ते ततः क्रमान् ॥ २१
 तसस्ववर्षार्धर्षा ये विप्रादीनामुदाहृताः ।
 तान्कुर्वीत पुष्याञ्जीवेनिजधर्माज्जनिस्तथा ॥ २२
 मृताहनि च कर्तव्यमेकोद्दिष्टमतः परम् ।
 आह्वनादिक्रियादैवनियोगरहितं हि तत् ॥ २३
 एकोऽर्ध्वस्तत्र दातव्यस्तथैवैकपवित्रकम् ।
 प्रेताय पिण्डो दातव्यो भुक्तवत्सु द्विजातिषु ॥ २४
 प्रश्नश्च तत्राभिरतिर्यजमानैर्द्विजम्यनाम् ।
 अर्ध्वमममुकस्येति चकव्यं विस्तौ तथा ॥ २५
 एकोद्दिष्टमयो धर्म इत्थमावत्सरात्समृतः ।
 सपिण्डीकरणं तस्मिन्काले राजेन्द्र तच्छृणु ॥ २६
 एकोद्दिष्टविधानेन कार्यं तदपि पार्थिव ।
 संवत्सरेऽथ षष्ठे वा भासे वा द्वादशेऽह्नि तत् ॥ २७
 तिलगन्धोदकैर्युक्तं तत्र पात्रसप्तुष्टयम् ॥ २८
 पात्रं प्रेतस्य तत्रैकं पैत्रं पात्रत्रयं तथा ।
 सत्रयेत्पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं ततस्त्रिषु ॥ २९
 ततः पितृत्वमापन्ने तस्मिन्प्रेते महीपते ।
 श्राद्धधर्मैरशेषैस्तु तत्पूर्वार्णवेत्पितृन् ॥ ३०
 पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा धाता वा भ्रातृसन्ततिः ।
 सपिण्डसन्ततिर्वापि क्रियाहो नृप जायते ॥ ३१
 तेषामभावे सर्वेषां सप्तानोदकसन्ततिः ।
 मातृपक्षसपिण्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा ॥ ३२
 कुलद्वयेऽपि चोच्छिन्ने स्वीभिः कार्याः क्रिया नृप ॥ ३३
 सङ्घातान्तर्गतापि कार्याः प्रेतस्य च क्रियाः ।
 उत्सन्नवन्धुरिस्थाद्वा कारयेद्वनीपतिः ॥ ३४

अर्शाचके अन्तर्गच्छानुसार अयुग्म (तौन, पाँच, सात, नौ आदि) ब्राह्मणोंको भोजन करावे तथा उनकी उच्छिष्ट (जूटन) -के निकट प्रेतकी तुष्टिके लिये कुशापर पिण्डदान करे ॥ २० ॥ वर्षार्ध-शुद्धि हो जानेपर ब्रह्मभोजके अनन्तर ब्राह्मण आदि चारो वर्णोंको क्रमशः जल, शस्व, प्रतोद (कोड़ा) और लाठीका स्पर्श करना चाहिये ॥ २१ ॥

तदनन्तर ब्राह्मण आदि वर्णोंके जो-जो जातीय धर्म बतलाये गये हैं उनका आश्रय करे; और स्वधर्मानुसार उपाजित जीविकासे निर्वाह करे ॥ २२ ॥ फिर प्रतिमास मृत्युतिथिपर एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे जो आवाहनादि क्रिया और विश्वेदेवसम्बन्धी ब्राह्मणके आमन्त्रण आदिसे रहित होने चाहिये ॥ २३ ॥ उस समय एक अर्ध और एक पवित्रक देना चाहिये, तथा बहुत-से ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर भी मृतकके लिये एक ही पिण्डदान करना चाहिये ॥ २४ ॥ तदनन्तर यजमानके 'अभिरम्पताम्' ऐसा कहनेपर ब्राह्मणगण 'अभिरताः स्मः' ऐसा कहें और फिर पिण्डदान समाप्त होनेपर 'अपुक्तस्य अर्धव्यभित्तमुषतिष्ठताम्' इस वाक्यका उच्चारण करें ॥ २५ ॥ इस प्रकार एक वर्षतक प्रतिमास एकोद्दिष्टकर्म करनेका विधान है। हे राजेन्द्र। वर्षके सप्तम्य होनेपर सपिण्डीकरण करे; उसकी विधि सुनो ॥ २६ ॥

हे पार्थिव! इस सपिण्डीकरण कर्मको भी एक वर्ष, छः मास अथवा बरह दिनके अनन्तर एकोद्दिष्टश्राद्धकी विधिसे ही करना चाहिये ॥ २७ ॥ इसमें तिल, गन्ध और जलसे युक्त चार पात्र रखे। इनमेंसे एक पात्र मृत-पुरुषका श्वेत है तथा तीन पितृगणके होते हैं। फिर मृत-पुरुषके पात्रस्थित जलादिसे पितृगणके पात्रोंका सिंचन करे ॥ २८-२९ ॥ इस प्रकार मृत-पुरुषको पितृत्व प्राप्त हो जानेपर सम्पूर्ण श्राद्धधर्मोंके द्वारा उस मृत-पुरुषसे ही आरम्भ कर पितृगणका पूजन करे ॥ ३० ॥ हे राजन्। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिण्ड सन्ततिमें उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करनेका अधिकारी होता है ॥ ३१ ॥ यदि इन सबका अभाव हो तो सप्तानोदककी सन्तति अथवा मातृपक्षके सपिण्ड अथवा सप्तानोदकको इसका अधिकार है ॥ ३२ ॥ हे राजन्! मातृकुल और पितृकुल दोनोंके नष्ट हो जानेपर स्त्री ही इस क्रियाको करे; अथवा (यदि स्त्री भी न हो तो) साधियोंमेंसे ही कोई करे या बान्धवहीन मृतकके भनसे राजा ही उसके सम्पूर्ण प्रेत-कर्म करे ॥ ३३-३४ ॥

पूर्वाः क्रिया मध्यमाश्च तथा सैवोत्तराः क्रियाः ।
 त्रिप्रकाराः क्रियाः सर्वास्तासां भेदं शृणुष्व मे ॥ ३५
 आदाह्वार्यायुधादिस्यर्शाद्यन्तास्तु याः क्रियाः ।
 ताः पूर्वा मध्यमा मासि मास्येकोद्दिष्टसंज्ञिताः ॥ ३६
 प्रेते पितृत्वभाषने सपिण्डीकरणादिनु ।
 क्रियन्ते याः क्रियाः पितृयाः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तराः ॥ ३७
 पितृमातृसपिण्डैस्तु समानसलिलैस्तथा ।
 सद्भातान्तर्गतैर्वर्षि राज्ञा तद्धनहारिणा ॥ ३८
 पूर्वाः क्रियाश्च कर्तव्याः पुत्रार्थैव चोत्तराः ।
 दीहितैर्वा नृपश्रेष्ठ कार्यास्तत्तनयैस्तथा ॥ ३९
 मृताहनि च कर्तव्याः स्वीणामप्युत्तराः क्रियाः ।
 प्रतिसंबत्सरं राजनेकोद्दिष्टविधानतः ॥ ४०
 तस्मादुत्तरसंज्ञायाः क्रियास्ताः शृणु पार्थिव ।
 यथा यथा च कर्तव्या विधिना येन चानघ ॥ ४१

सम्पूर्ण प्रेत कर्म तीन प्रकारके हैं—पूर्वकर्म, मध्यमकर्म तथा उत्तरकर्म। इनके पृथक्-पृथक् लक्षण सुनो ॥ ३५ ॥ दाहसे लेकर जल और शस्त्र आदिके स्पर्शपर्यन्त जितने कर्म हैं उनको पूर्वकर्म कहते हैं तथा प्रत्येक मासमें जो एकोद्दिष्ट श्राद्ध क्रिया जाता है यह मध्यमकर्म कहलाता है ॥ ३६ ॥ और हे नृप! सपिण्डीकरणके पश्चात् मृतक व्यक्तिके पितृत्वको प्राप्त हो जानेपर जो पितृकर्म किये जाते हैं वे उत्तरकर्म कहलाते हैं ॥ ३७ ॥ माता, पिता, सपिण्ड, समानोदक, समूहके लोग अथवा उसके धनका अधिकारी राजा पूर्वकर्म कर सकते हैं; किंतु उत्तरकर्म केवल पुत्र, दीहित आदि अथवा उनकी सन्तानको ही करना चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ हे राजन्! प्रतिवर्ष मरण-दिनपर स्त्रियोंका भी उत्तरकर्म एकोद्दिष्ट श्राद्धको विधिसे अवश्य करना चाहिये ॥ ४० ॥ अतः हे जनप! उन उत्तरक्रियाओंको बिस-बिसको बिस-बिस विधिसे करना चाहिये, वह सुनो ॥ ४१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयोऽंशे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चौदहवाँ अध्याय

श्राद्ध-प्रशंसन, श्राद्धमें पात्रापात्रका विचार

और्व उवाच

ब्रह्मेन्द्ररुद्रनासत्यसूर्याग्निवसुमारुतान् ।
 विश्वेदेवान्पितृगणान्वयांसि मनुजान्पशून् ॥ १
 सरीसृपान्निगणान्यच्चान्यद्भूतसंज्ञितम् ।
 श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन्प्राणयत्खिलं जगत् ॥ २
 मासि मास्यसिते पक्षे पञ्चदश्यां नरेश्वर ।
 तथाष्टकासु कुर्वीत काम्याकालाच्छृणुष्व मे ॥ ३
 श्राद्धार्हमागतं द्रव्यं विशिष्टमथ वा द्विजम् ।
 श्राद्धं कुर्वीत विज्ञाय व्यतीपातेऽयने तथा ॥ ४
 विषुवे चापि सम्प्राप्ते ग्रहणे शशिसूर्ययोः ।
 सप्तस्तोष्वेव भूपाल राशिष्वर्के च गच्छति ॥ ५
 नक्षत्रग्रहपीडासु दुष्टस्वप्नावलोकने ।
 इच्छाश्राद्धानि कुर्वीत नवसस्यागमे तथा ॥ ६

और्व बोले—हे राजन्! ब्रह्मसंहित श्राद्धकर्म करनेसे मनुष्य ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुद्गण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि सम्पूर्ण जगत्को प्रसन्न कर देता है ॥ १-२ ॥ हे नरेश्वर! प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी पंचदशी (अमावास्या) और अष्टका (हेमन्त और शिशिर ऋतुओंके चार महीनोंकी शुक्लार्धमियों)- पर श्राद्ध करे। [यह नित्यश्राद्धकाल है] अथ काम्यश्राद्धका काल धरलाता हूँ, श्रवण करो ॥ ३ ॥ इस समय श्राद्धयोग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मणको घरमें आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या धक्षिणायनका आरम्भ या स्थतीपात हो तब काम्य-श्राद्धको अनुष्ठान करे ॥ ४ ॥ विषुवसंक्रान्तिपर, सूर्य और चन्द्रग्रहणपर, सूर्यके प्रत्येक राक्षिमें प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रहकी पीडा होनेपर, दुःस्वप्न देखनेपर और घरमें नवीन अन्न आनेपर भी काम्यश्राद्ध करे ॥ ५-६ ॥

अमावास्या चदा मैत्रविशान्खास्वतियोगिनी ।
 श्राद्धैः पितृगणस्तृप्तिं तक्षाणोत्पष्टवार्धिकीम् ॥ ७
 अमावास्या चदा पुष्ये रौद्रे चर्क्षे पुनर्वसौ ।
 द्वादशशब्दं तदा तृप्तिं प्रयान्ति पितरोऽर्चिताः ॥ ८
 घासवाजैकपादक्षेपितृणां तृप्तिमिच्छताम् ।
 वारुणे वाप्यमासास्या देयानामपि दुर्लभा ॥ ९
 नक्षत्रक्षेपमावास्या यदैतेष्ववनीपते ।
 तदा हि तृप्तिदं श्राद्धं पितृणां भृणु चापरम् ॥ १०
 गीतं सनत्कुमारेण यथैलाव मह्यत्नने ।
 पृच्छते पितृभक्त्या प्रश्रयाक्षिन्ताव च ॥ ११

श्रीसनत्कुमार उवाच

वैशाखमासस्य च या तृतीया
 नवम्यसौ कार्तिकशुक्लपक्षे ।
 नभस्य मासस्य च कृष्णपक्ष
 त्रयोदशी पञ्चदशी च माघे ॥ १२
 एता युगाद्याः कथिताः पुराणे-
 ध्वनन्तपुण्यास्तिथयश्चतस्रः ।
 उपप्लवे चन्द्रमसो रवेश्च
 त्रिष्वष्टकास्वप्यचनद्दये च ॥ १३
 पानीयमप्यत्र तिलैर्विभिन्नं
 दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः ।
 श्राद्धं कृतं तेन समासहस्रं
 रहस्यमेतत्पितरो वदन्ति ॥ १४

माघेऽसिते पञ्चदशी कदाचि-
 दुपैति योगे यदि वारुणेन ।
 श्रद्धेण कालस्य परः पितृणां
 न ह्यल्पपुण्यैर्नृप लभ्यतेऽसौ ॥ १५
 काले धनिष्ठा यदि नाम तस्मि-
 न्भवेत्तु भूपाल तदा पितृभ्यः ।
 दत्तं जलान्नं प्रददाति तृप्तिं
 सर्वायुतं तत्कुलजैर्मनुष्यैः ॥ १६
 तत्रैव चेद्भद्रपक्षा नु पूर्वा
 काले यथावत्क्रियते पितृभ्यः ।

जो अमावास्या अनुवाहा, विशाखा या स्वातिनक्षत्रयुक्ता हो उसमें श्राद्ध करनेसे पितृगण आठ वर्षतक तृप्त रहते हैं ॥ ७ ॥ तथा जो अमावास्या पुष्य, अर्द्धा या पुनर्वसु नक्षत्रयुक्ता हो उसमें पूजित होनेसे पितृगण आठ वर्षतक तृप्त रहते हैं ॥ ८ ॥

जो पुरुष पितृगण और देवगणको तृप्त करना चाहते हैं उनके लिये धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा अथवा शतभिषानक्षत्रयुक्त अमावास्या अति दुर्लभ है ॥ ९ ॥ हे पृथिवीपते! जब अमावास्या इन नौ नक्षत्रोंसे युक्त होती है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगणको अत्यन्त तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलायुत्र महात्मा पुरूरवाके अति विनीत भावसे पूछनेपर श्रीसनत्कुमारजीने जिनका वर्णन किया था वे अन्य तिथियाँ भी सुनो ॥ १०-११ ॥

श्रीसनत्कुमारजी बोले— वैशाखमासकी शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तथा माघमासकी अमावास्या—इन चार तिथियोंको पुराणोंमें 'युगाद्या' कहा है। ये चारों तिथियाँ अनन्त पुण्यदायिनी हैं। चन्द्रमा या सूर्यके ग्रहणके समय, तीन अष्टकजर्मों अथवा उत्तरायण या दक्षिणायनके आरम्भमें जो पुरुष एकाग्रचित्तसे पितृगणको तिलसहित जल भी दान करता है वह मानो एक सहस्र वर्षके लिये श्राद्ध कर देता है—यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं ॥ १२-१४ ॥

यदि कदाचित् माघकी अमावास्याका शतभिषानक्षत्रसे योग हो जाय तो पितृगणकी तृप्तिके लिये यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे शत्रु! अल्प पुण्यवान् पुरुषोंको ऐसा समय नहीं मिलता ॥ १५ ॥ और यदि उस समय (माघकी अमावास्यामें) धनिष्ठानक्षत्रका योग हो तब तो अपने ही कुत्तमें उरपन्न हुए पुरुषद्वारा दिये हुए अनौदकसे पितृगणकी दस सहस्र वर्षतक तृप्ति रहती है ॥ १६ ॥ तथा यदि उसके साथ पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रका योग हो और उस समय पितृगणके लिये श्राद्ध किया जाय तो उन्हें

आर्द्धं परां तृप्तिमुपेत्य तेन
 युगं सदस्त्रं पितरस्वपन्ति ॥ १७
 गंगां शतद्वं यमुनां विपाशां
 सरस्वतीं नैमिषगोमतीं सा ।
 तत्रावगाह्यार्चनमादेरेण
 कृत्वा पितृणां दुरितानि हन्ति ॥ १८
 गायन्ति चैतत्पितरः कदानु
 वर्षामिघातृप्तिमवाप्य भूयः ।
 माघासितान्ते शुभतीर्थतोयै-
 र्वास्थाम तृप्तिं तनयादिदत्तैः ॥ १९
 क्षिप्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं
 शस्तार्ष्य कालः कथितो विभिश्च ।
 पात्रं यथोक्तं परमा च भक्ति-
 नृणां प्रवच्छन्त्यभित्वाञ्छितानि ॥ २०
 पितृगीतानार्थैवात्र श्लोकांस्ताञ्छणु पार्थिव ।
 श्रुत्वा तक्षैव भवता भाव्यं तत्रादृतात्मना ॥ २१
 अपि धन्यः कुले जायादस्माकं प्रतिमान्नरः ।
 अकुर्वन्वित्तशास्त्रं यः पिण्डानो निर्दोषिष्यति ॥ २२
 रत्नं वस्त्रं महायानं सर्वभोगादिकं वसु ।
 विभवे स्तति विप्रैर्यो योऽस्मानुद्दिश्य दास्यति ॥ २३
 अन्नेन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन्भक्तिनक्षत्रेः ।
 भोजयिष्यति विप्रप्रदायांस्तन्मात्रविभवो नरः ॥ २४
 असमर्थोऽन्नदानस्य धान्यमामं स्वशक्तितः ।
 प्रदास्यति द्विजब्रह्मेभ्यः स्वरूपात्पुत्रं वापि दक्षिणम् ॥ २५
 तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करग्राग्रस्थितांस्तितान् ।
 प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद्द्रूप दास्यति ॥ २६
 तिलैस्सपाष्टभिर्वापि समयेन जलाञ्जलिम् ।
 भक्तिप्रदस्समुद्दिश्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति ॥ २७
 वतः कुतश्चित्सम्राण्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् ।
 अथवा प्रीणयन्नस्माञ्चूद्दायुक्तः प्रदास्यति ॥ २८
 सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः ।
 सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैर्वदिष्यति ॥ २९

५२५ तृप्ति प्राप्त होती है और वे एक सहस्र युगका
 शयन करते रहते हैं ॥ १७ ॥ गंगा, शतद्व, यमुना,
 विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्यस्थिता गोमतीमें स्नान
 करके पितृणांका आदरपूर्वक अर्चन करनेसे यमुष्य
 समस्त पापोंको नष्ट कर देता है ॥ १८ ॥ पितृगण
 सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षाकाल (भाद्रपद
 शुक्ला त्रयोदशी) के मघानक्षत्रमें तृप्त होकर पितृ
 माघकी अमावास्याको अपने पुत्र पौत्रादिद्वारा दो गधी
 पुण्यतीर्थोंको जलानलिसे द्रुम कच तृप्ति लाभ
 करेंगे ॥ १९ ॥ विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल,
 उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति—ये सब
 मनुष्यको इच्छित फल देते हैं ॥ २० ॥

हे पार्थिव! अन्न तुम पितृगणके गाने हुए कुछ
 श्लोकोंका श्रवण करो, उन्हें श्रुतकर तुम्हें आदरपूर्वक
 सेवा ही आचरण करना चाहिये ॥ २१ ॥ [पितृगण
 कहते हैं—] 'हमारे कुलमें क्या कोई ऐसा मतिमान्
 धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो विचलोलुपताको छोड़कर
 हमें पिण्डदान देगा ॥ २२ ॥ जो सम्पत्ति होनेपर हमारे
 उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको रत्न, वस्त्र, यान और सम्पूर्ण
 भोगसामग्री देगा ॥ २३ ॥ अथवा अन्न-वस्त्र मात्र
 वैभव होनेसे जो ब्राह्मणकालमें भक्ति-विनम्र चित्तसे
 उत्तम ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति अन्न ही भोजन
 करायेगा ॥ २४ ॥ या अन्नदानमें भी असमर्थ होनेपर
 जो ब्राह्मणक्षेत्रोंको कच्चा धान्य और शोड़ी-सो
 दक्षिणा ही देगा ॥ २५ ॥ और यदि हस्तमें भी असमर्थ
 होगा तो किन्हीं द्विजक्षेत्रोंको प्रणाम कर एक मुट्ठी
 तिल ही देगा ॥ २६ ॥ अथवा हमारे उद्देश्यसे पृथिवीपर
 भक्ति-विनम्र चित्तसे सात-आठ तिलोंसे मुक्त जलार्जलि
 ही देगा ॥ २७ ॥ और यदि इसका भी अभाव होगा
 तो कहीं-न-कहींसे एक दित्का घारा छाकर प्रीति
 और श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्यसे गौको खिलायेगा ॥ २८ ॥
 तथा इन सभी वस्तुओंका अभाव होनेपर जो वनमें
 जाकर अपने कक्षमूल (नगल) को दिखाता हुआ
 सूर्य आदि दिक्पालोंसे उच्च स्वरसे यह कहेगा ॥ २९ ॥

न येऽस्ति जितं न धनं च नान्य-

च्छ्राद्धोपयोग्यं स्वपितृन्ततोऽस्मि ।

तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मघैती

कृती भुजौ जर्तनि मारुतस्य ॥ २०

और्व उवाच

इत्येतत्पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनम् ।

यः करोति कृतं तेन श्राद्धं भवति पार्थिव ॥ २१

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽंशे सतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पन्द्रहवाँ अध्याय

श्राद्ध-विधि

और्व उवाच

ब्राह्मणान्भोजयेच्छ्राद्धे यद्गुणोस्तान्निबोध मे ॥ १

त्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिसुपर्णष्वङ्गवित् ।

वेदविच्छ्रोत्रियो योगी तथा वै ज्येष्ठसामगः ॥ २

ऋत्विक्स्वध्वेयदोहित्रजामातृश्वशुरास्तथा ।

मातुलोऽथ तपोनिष्ठः पञ्चान्यभिरतस्तथा ।

शिष्यास्सम्बन्धिनश्चैव मातापितुरत्तश्च यः ॥ ३

एतान्भोजयेच्छ्राद्धे पूर्वोक्तान्प्रथमे नृप ।

ब्राह्मणान्पितृतृष्ट्यर्धमनुकल्पेष्वनन्तरान् ॥ ४

मित्रधुक्कुनखी क्लीबश्श्याकदन्तस्तथा द्विजः ।

कन्यादूषयिता बह्विषेदोऽङ्गस्तोषधिक्रयी ॥ ५

अभिशास्तस्तथा स्तेनः पिशुनो ग्रामयाजकः ।

भृतकाध्यापकस्तद्भृतकाध्यापितश्च यः ॥ ६

परपूर्सापतिश्चैव मातापित्रोस्तथोऽङ्गकः ।

घृषलीसूतिपोष्टा च वृषलीपतिरेव च ॥ ७

तथा देवलकश्चैव श्राद्धे नार्हति केतनम् ॥ ८

‘मैं पास श्राद्धकर्मके योग्य न वित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगणको नमस्कार करता हूँ, ये मेरी भक्तिसे ही तुम्हा खाए करे। मैंने अपनी दोनों भुजाएँ आकाशमें उठा रखी हैं’ ॥ ३० ॥

और्व बोले—हे राजन्! धनके होने अथवा न होनेपर पितृगणने किस प्रकार बतलाया है वैसे ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचारसे विधिपूर्वक श्राद्ध ही कर देता है ॥ ३१ ॥

और्व बोले—हे राजन्! श्राद्धकालमें जैसे गुणशील ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये वह बतलाता है, सुतो! त्रिणाचिकेत^१, त्रिमधुर, त्रिसुपर्ण, छहों वेदोंमेंके जाननेवाले, वेदवेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठसामग तथा ऋत्विक्, भानजे, दोहित्र, जामाता, स्वशुर, मामा, तपस्वी, पंचामि तपनेवाले, शिष्य, सम्बन्धी और माता-पिताके प्रेमी इन ब्राह्मणोंको श्राद्धकर्ममें नियुक्त करे। इनमेंसे [त्रिणाचिकेत आदि] पहले कहे हुआको पूर्वकालमें नियुक्त करे और [ऋत्विक् आदि] पीछे बतलाये हुआको पितरोंकी इतिके लिये उत्तरकर्ममें भोजन करावे ॥ १-४ ॥ मित्रघाती, स्वभावसे ही विकृत नहोवाला, नपुंसक, काले दाँतोंवाला, कन्यागामी, अग्नि और वेदका त्याग करनेवाला, सोमरस बेचनेवाला, लोकनिन्दित, चोर, चुगलखोर, ग्रामपुरोहित, वेतन लेकर पढ़ानेवाला अथवा पढ़नेवाला, पुनर्विवाहवाका पति, माता-पिताका त्याग करनेवाला, शूद्रकी सन्तानका पालन करनेवाला, शूद्रका पति तथा देशीपत्नीकी ब्राह्मण श्राद्धमें निमन्त्रण देनेयोग्य नहीं है ॥ ५-८ ॥

१-द्वितीय कवके अनगत ‘अथ यत् यः पठते’ इत्यादि तीन अनुक्तोंको ‘त्रिणाचिकेत’ कहते हैं, उसको पढ़नेवाला या उसका अनुष्ठान करनेवाला।

२-‘मधुयाजाः’ इत्यादि ऋत्विक् अथवा और पशुव्रतका आचरण करनेवाला।

३-‘बधमेतु माप्’ इत्यादि तीन अनुक्तोंको अथवा और तस्मिन्की सत कर देनेवाला।

प्रथमेऽह्नि बुधश्शस्ताऽस्त्रेऽत्रियादीनिमन्त्रयेत् ।
 कथयेत्स तथैवैषां पियोगान्पितृदैविकान् ॥ १
 ततः क्रोधव्यवायादीनायासं तैर्द्विजैस्सह ।
 यजमानो न कुर्वीत दोषस्तत्र महानयम् ॥ १०
 श्राद्धे नियुक्तो भुक्त्वा वा भोजयित्वा नियुक्तश्च ।
 स्ववाची रेतसो गर्तं मज्जयस्वात्मनः पितृन् ॥ ११
 तस्मात्प्रथममत्रोक्तं द्विजाग्रजाणां निमन्त्रणम् ।
 अनिमन्त्र्य द्विजानेवमागतान्भोजयेद्द्विजान् ॥ १२
 पादशौचादिना रोहमागतान्युजयेद् द्विजान् ॥ १३
 षड्विप्रपाणिराजान्तानासनेषूपसेऽयेत् ।
 पितृणामयुजो युग्माद्देवानामिच्छया द्विजान् ॥ १४
 देवानामेकमेकं वा पितृणां च नियोजयेत् ॥ १५
 तथा मातामहश्राद्धं वैश्वदेवसमन्वितम् ।
 कुर्वीत भक्तिमय्यनस्तत्रं वा वैश्वदैविकम् ॥ १६
 प्राङ्मुखान्भोजयेद्द्विप्रान्देवानामुभयात्मकान् ।
 पितृमातामहानां च भोजयेत्स्वाप्युदङ्मुखान् ॥ १७
 पृथक्तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं नृप ।
 एकत्रैकेन पाकेन चदन्यन्ये महर्षयः ॥ १८
 विष्टरार्थं कुशं दत्त्वा सम्पूज्यार्थं विधानतः ।
 कुर्यादावाहनं प्राज्ञो देवानां तदनुजया ॥ १९
 यथाम्बुना च देवानां दद्यादर्घ्यं विशानवित् ।
 रुग्णान्यधूपदीपांश्च तेभ्यो दद्याद्दधाधिधि ॥ २०
 पितृणांभयसख्यं तत्सर्वमेवोपकल्पयेत् ।
 अनुज्ञां च ततः प्राप्य दत्त्वा दर्भाद्विधाकृतान् ॥ २१
 मन्त्रपूर्वं पितृणां तु कुर्याच्चावाहनं बुधः ।
 तिलाम्बुना चापसख्यं दद्यादर्घ्यादिकं नृप ॥ २२
 काले तत्रातिथिं प्राप्तमन्नकामं नृषाध्वगम् ।
 श्राहणीरभ्यनुज्ञातः कामं तपदि भोजयेत् ॥ २३

श्राद्धके पहले दिन बुद्धिमान् पुरुष श्रोत्रिय यदि
 विहित श्राहणोंको निमन्त्रित करे और उनसे यह कह दे
 कि 'आपको पितृ-श्राद्धमें और आपको विश्वदेव-श्राद्धमें
 नियुक्त होना है' ॥ १ ॥ उन निमन्त्रित ब्राह्मणोंके सहित
 श्राद्ध करनेवाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्वीगम
 और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करनेमें यह
 महान् दोष माना गया है ॥ १० ॥ श्राद्धमें निमन्त्रित होकर
 या भोजन करके अथवा निमन्त्रण करके या भोजन
 करके जो पुरुष स्त्री-प्रसंग करता है वह अपने पितृगणको
 माने वीर्यके कुण्डमें डुबोला है ॥ ११ ॥ अतः श्राद्धके
 प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुणविशिष्ट द्विविश्रेष्ठोंको
 निमन्त्रित करे और यदि उस दिन कोई अनिमन्त्रित
 तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन कराये ॥ १२ ॥

घर आये हुए ब्राह्मणोंका पहले पाद-शुद्धि आदिसे
 सत्कार करे; फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन करानेके
 अनन्तर आसनपर बिठावे। अपनी सामर्थ्यानुसार पितृगणके
 लिये अयुग और देवगणके लिये युग ब्राह्मण नियुक्त
 करे अथवा दोनों पक्षोंके लिये एक-एक ब्राह्मणकी ही
 नियुक्ति करे। १३-१५ ॥ और इसी प्रकार वैश्वदेवके
 सन्नि मालामह-श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष और मातामह-
 पक्ष दोगोंके लिये भक्तिपूर्वक एक ही वैश्वदेव-श्राद्ध
 करे ॥ १६ ॥ देव-पक्षके ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख बिठाकर
 और पितृ-पक्ष तथा मातामह-पक्षके ब्राह्मणोंको उत्तर-
 मुख बिठाकर भोजन करावे ॥ १७ ॥ हे नृप! कोई भी
 पितृ-पक्ष और मातामह-पक्षके श्राद्धोंको अलग-अलग
 करनेके लिये कहते हैं और कोई महर्षि दोनोंका एक
 साथ एक पक्षमें ही अनुष्ठान करनेके पक्षमें हैं ॥ १८ ॥
 विद्व व्यक्ति प्रथम निमन्त्रित ब्राह्मणोंके बैठनेके लिये
 कुशा बिछाकर फिर अर्घ्यदान आदिसे विधिपूर्वक पूजा
 कर उनकी अनुमतिसे देवताओंका आवाहन करे ॥ १९ ॥
 तदनन्तर श्राद्धविधिकी जाननेवाला पुरुष बध-मिश्रित
 जलसे देवताओंको अर्घ्यदान करे और उन्हें शिभिपूर्वक
 धूप, दीप, गन्ध तथा माला आदि निवेदन करे ॥ २० ॥
 ये सभ्यता उपचार पितृगणके लिये अपसख्य भवसे
 निवेदन करे; और फिर ब्राह्मणोंकी अनुमतिसे दो भागोंमें
 बँटे हुए कुशाओंका दान करके मन्त्रोत्पारणपूर्वक
 पितृगणका आवाहन करे, तथा हे राजन्! अपसख्य-श्रवसे
 तिलोदकसे अर्घ्यादि दे ॥ २१-२२ ॥

हे नृप! उस समय यदि कोई भूखा अधिक अतिवि-
 रूपसे आ नाय तो निमन्त्रित ब्राह्मणोंकी आज्ञासे उसे भी
 यथेच्छ भोजन कराये ॥ २३ ॥

योगिनो विविधै रूपाैर्नराणामुपकारिणः ।
 भ्रमन्ति पृथिवीपेतामधिज्ञातस्वरूपिणः ॥ २४
 तस्माद्भ्यर्चयेत्प्राप्तं श्राद्धकालेऽतिथिं शुभः ।
 श्राद्धक्रियाफलं हन्ति नरेन्द्रापूजितोऽतिथिः ॥ २५
 जुहुयाद्स्वज्जनहारवर्जमर्नं ततोऽनले ।
 अपुजातो द्विजैस्तैस्तु त्रिकृत्वः पुरुषर्षभ ॥ २६
 अग्नये कृत्वावाहाय स्वाहेत्यादी नृपाहुतिः ।
 सोमाय च पितृमते दातव्या तदमन्तरम् ॥ २७
 वैवस्वताय चैवान्या तृतीया दीयते ततः ।
 हुतावशिष्टमल्पानं विप्रप्रात्रेषु निर्वपेत् ॥ २८
 ततोऽन्नं मृष्टमत्यर्धमधीष्टमतिसंस्कृतम् ।
 दन्वा जुषध्वमिच्छातो स्वाभ्यमेतदनिष्टुरम् ॥ २९
 भोक्तव्यं तैश्च तस्मिन्निधिस्सुमुहूर्तः सुखम् ।
 अकुन्द्यता चात्वरता देयं तेनापि भक्तितः ॥ ३०
 रक्षोघ्नमन्त्रपठनं भूमेरास्तरणं तिलैः ।
 कृत्वा ध्येयास्त्वपितरस्त एव द्विजसत्तमाः ॥ ३१
 पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ।
 मम तृप्तिं प्रयान्त्वद्य विप्रदेहेषु संस्थिताः ॥ ३२
 पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ।
 मम तृप्तिं प्रयान्त्वद्य हेमाप्यायितमूर्तयः ॥ ३३
 पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ।
 तृप्तिं प्रयान्तु पिण्डेन मया दत्तेन भूतले ॥ ३४
 पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ।
 तृप्तिं प्रयान्तु मे भक्त्या मयैतत्समुदाहृतम् ॥ ३५
 मातामहस्तृप्तिमुपेतु तस्य
 तथा पिता तस्य पिता ततोऽन्यः ।
 विश्वे च देवाः परमां प्रयान्तु
 तृप्तिं प्रणश्यन्तु च यानुधानाः ॥ ३६
 यज्ञेश्वरो ह्यव्यसमस्तकव्य-

भोक्ताव्ययात्मा हरिरीश्वरोऽत्र ।

अनेक अज्ञात-स्वरूप योगिण मनुष्योंके कल्याणको कामनासे नाना रूप धारणकर पृथिवीतलपर विचरते रहते हैं ॥ २४ ॥ अतः विज्ञ पुरुष श्राद्धकालमें आये हुए अतिथिका अक्षरय सत्कार करे । हे नरेन्द्र ! उस समय अतिथिका सत्कार न करनेसे वह श्राद्ध-क्रियाके सम्पूर्ण फलको नष्ट कर देता है ॥ २५ ॥

हे पुरुषश्रेष्ठ ! तदनन्तर उन ब्राह्मणोंकी आज्ञासे शाक और लवणहीन अन्नसे अग्निमें तीन बार आहुति दे ॥ २६ ॥ हे राजन् ! उनमेंसे 'अग्नये कृत्वावाहनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे पहली आहुति, 'सोमाय पितृमते स्वाहा' इससे दूसरी और 'वैवस्वताय स्वाहा' इस मन्त्रसे तीसरी आहुति दे । तदनन्तर आहुतियोंसे बचे हुए अन्नको थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणोंके पात्रोंमें परोस दे ॥ २७-२८ ॥

फिर रुचिके अनुकूल अति संस्कारयुक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुल चाणोंसे कटे कि 'आप भोजन कीजिये' ॥ २९ ॥ ब्राह्मणोंको भी तद्गतचित्त और मीन होकर प्रसन्नमुखसे सुखपूर्वक भोजन करना चाहिये तथा यजमानको क्रोध और उतावलेपनको छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिये ॥ ३० ॥ फिर 'रक्षोघ्न' मन्त्रका पाठ कर श्राद्धभूमिपर तिल छिड़के तथा अपने पितृरूपसे उन द्विजश्रेष्ठोंका ही ध्यान करे ॥ ३१ ॥ [और कहे कि] 'इन ब्राह्मणोंके शरीरोंमें स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें ॥ ३२ ॥ होमद्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें ॥ ३३ ॥ मैंने जो पृथिवीपर पिण्डदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें ॥ ३४ ॥ [श्राद्धरूपसे कुछ भी निवेदन न कर सकनेके कारण] मैंने भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्तिभावसे ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें ॥ ३५ ॥ मेरे मातामह (नाना), उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्वदेवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हों ॥ ३६ ॥ यहाँ सपस्त हव्य-कव्यके भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान् हरि विराजमान हैं,

* ३६ अपहता असुरा रक्षामि वेत्सिपदः इत्यदि ।

तत्सन्निधानादपथान्तु सद्यो
 रक्षांस्यशेषाण्यसुराश्च सर्वे ॥ ३७
 तृप्लेख्वेतेषु विकिरेदन्तं विप्रेषु भूतले ।
 दद्यादाद्यमनार्थाय तेभ्यो वारि सकृत्सकृत् ॥ ३८
 सुतृप्लैस्तैरनुज्ञातस्सर्वेणानेन भूतले ।
 सतिलेन ततः पिण्डान्सम्यग्दद्यात्समाहितः ॥ ३९
 पितृतीर्थेन सतिलं तथैव सतिलाञ्जलिम् ।
 मातामहैभ्यस्तेभैव पिण्डांस्तोर्थेन निर्वपेत् ॥ ४०
 दक्षिणाग्नेषु दर्भेषु पुष्यधूपदिपूजितम् ।
 स्वपित्रे प्रथमं पिण्डं दद्यादुच्छिष्टसन्निधी ॥ ४१
 पितामहय चैवान्यं तत्पित्रे च तथापरम् ।
 दर्भमूले लेपभुजः प्रीणयेत्स्लेपघर्षणीः ॥ ४२
 पिण्डैर्मातामहांस्तद्दग्न्धमाल्यादिसंयुतैः ।
 पूजयित्वा द्विजास्यशर्णां दद्याच्चराचमनं ततः ॥ ४३
 पितृभ्यः प्रथमं भक्त्या तन्मनस्को नरेश्वर ।
 सुस्वधेन्याश्रिता युक्तां दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम् ॥ ४४
 दत्त्वा च दक्षिणां तेभ्यो वाचयेद्दैवदेविकान् ।
 प्रीचन्तामिह ये विश्वेदेवास्तेन इतीरयेत् ॥ ४५
 तथेति चोक्ते तैर्विप्रेः प्रार्थनीयास्तथाशिशवः ।
 पश्चाद्द्विसर्जयेद्देवान्मूर्धं पिश्यान्महीपते ॥ ४६
 मातामहानामप्येवं सह देवैः क्रमः स्मृतः ।
 भोजने च स्वशक्त्या च दाने तद्द्विसर्जने ॥ ४७
 आपादशीलगतपूर्वं कुर्याद्द्विजन्मसु ।
 विसर्जनं तु प्रथमं पैत्रमातामहेषु वै ॥ ४८
 विसर्जयेत्प्रीतिवचस्सम्मान्याभ्यार्धितांस्ततः ।
 निवर्त्तताभ्यनुज्ञात आद्वारं ताननुप्रजेत् ॥ ४९
 तप्तस्तु वैश्वदेवास्त्र्यं कुर्यान्नित्यक्रियां शुभः ।
 भुञ्ज्याच्चैव समं पूज्यभृत्यबन्धुभिरात्मनः ॥ ५०
 एवं श्राद्धं शुभः कुर्यात्पित्र्यं मातामहं तथा ।
 श्राद्धैराप्यायित्वा दद्यात्सर्वांस्करमान्पितामहाः ॥ ५१

अतः उनकी सन्निधिके कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँसे तुरन्त भगा जायें' ॥ ३७ ॥

चदनन्तर ब्राह्मणोंके तृप्त हो जानेपर भोजन-सा अन्न पृथिवीपर डाले और आचमनके लिये उन्हें एक-एक बार और जल दे ॥ ३८ ॥ फिर भलीप्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणोंकी आज्ञा होनेपर समाहितचित्तसे पृथिवीपर अन्न और तिलके पिण्ड-दान करे ॥ ३९ ॥ और पितृतीर्थसे तिलयुक्त जलाञ्जलि दे तथा मातामह आदिको भी उस पितृतीर्थसे ही पिण्ड-दान करे ॥ ४० ॥ ब्राह्मणोंके उच्छिष्ट (चूल्न)-के निकट दक्षिणकी ओर अग्रभाग करके बिसरये हुए कुशाओंपर पहले अपने पिताके लिये पुष्य-धूपदिसे पूजित पिण्डदान करे ॥ ४१ ॥ तत्पश्चात् एक पिण्ड पितामहके लिये और एक प्रतिपापहृके लिये दे और फिर कुशाओंके मूलमें हृत्पत्रमें लगे अन्नकी पीलकर ['लेपभागभुजस्तुष्यन्तरम्' ऐसा उच्चारण करते हुए] लेपभाजी पितृगणको तृप्त करे ॥ ४२ ॥ इसी प्रकार गन्ध और मालादियुक्त पिण्डोंसे मातामह आदिका पूजन करे फिर द्विजश्रेष्ठोंको आचमन कराये ॥ ४३ ॥ और हे नरेश्वर! इसके पीछे भक्तिभावसे तन्मन्य होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणोंका 'सुस्वधा' मह आशीर्वाद प्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे ॥ ४४ ॥ फिर वैश्वदेविक ब्राह्मणोंके निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि 'इस दक्षिणासे विश्वेदेवगण प्रसन्न हों' ॥ ४५ ॥ उन ब्राह्मणोंके 'तवाम्नु' कहनेपर उनसे आशीर्वादके लिये प्रार्थना करे और फिर पहले पितृपक्षके और पीछे देवगणके ब्राह्मणोंको विदा करे ॥ ४६ ॥ विश्वेदेवगणके सहित मातामह आदिके श्राद्धमें भी ब्राह्मण-भोजन, दान और विसर्जन आदिकी यही विधि बतलायी गयी है ॥ ४७ ॥ पितृ और मातामह दोनों ही पक्षोंके श्राद्धोंमें पादशौच आदि सभी कर्म पहले देवपक्षके ब्राह्मणोंके करे; परन्तु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातामहपक्षीय ब्राह्मणोंकी ही करे ॥ ४८ ॥

चदनन्तर प्रीतिवचन और सम्मानपूर्वक ब्राह्मणोंको विदा करे और उनके जानेके समय द्वारतक उनके पीछे-पीछे जाय तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट आये ॥ ४९ ॥ फिर विश्वं पुरुष वैश्वदेव नामक नित्यकर्म करे और अपने पुष्य पुष्य, बन्धुजन तथा भृत्यगणके सहित स्वयं भोजन करे ॥ ५० ॥

शुद्धिमान् पुरुष इस प्रकार पैत्र्य और मातामह-श्राद्धको अनुष्ठान करे। श्राद्धसे तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं ॥ ५१ ॥

त्रीणि श्राद्धे पञ्चिवाणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः ।
 रजतस्य तथा दानं कथासंकीर्तनादिकम् ॥ ५२
 वन्यानि कुर्वता श्राद्धं क्रोधोऽध्वगमनं त्वरा ।
 भोक्तुरप्यत्र राजेन्द्र त्रयमेतन्न शस्यते ॥ ५३
 विश्वेदेवास्सपितरस्तथा मातामहा नृप ।
 कुलं चाप्यायते पुंसां सर्वं श्राद्धं प्रकुर्वताम् ॥ ५४
 सोमाधारः पितृगणो योगाधारश्च चन्द्रमाः ।
 श्राद्धे योगिनियोगस्तु तस्माद्भूपाल शस्यते ॥ ५५
 सद्ब्रह्मस्यापि विप्राणां योगी चेत्पुरतः स्थितः ।
 सर्वाभोक्तृस्तारयति यजमानं तथा नृप ॥ ५६

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽंशे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

सोलहवाँ अध्याय

श्राद्ध-कर्ममें विहित और अविहित वस्तुओंका विचार

और्य उवाच

हृदिष्यमत्स्यपांसैस्तु शशस्य नकुलस्य च ।
 सौंकरच्छागालीणैयरीरक्षैर्गवयेन च ॥ १
 और्यभगव्यैश्च तथा मासदृद्ध्या पितामहाः ।
 प्रयान्ति तृप्तिं मांसैस्तु नित्यं वाधीणसामिवैः ॥ २
 खड्गमांसमतीवात्र कालशाकं तथा मधु ।
 शस्तानि कर्मण्यत्यन्ततृप्तिदानि नरेश्वर ॥ ३

और्य बोले—इति, मत्स्य, शशाक (खरगोश),
 नकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग,
 गवय (वनगाय) और भेकके मांसोंसे तथा गव्य (गाँके
 दूध-घी आदि)—से पितृगण क्रमशः एक-एक मास
 अधिक तृप्ति प्राप्त करते हैं और वाधीणम पशुके
 मांससे सदा तृप्त रहते हैं ॥ १-२ ॥ हे नरेश्वर ! श्राद्धकर्ममें
 गंधैका मांस, कासराक और मधु अत्यन्त प्रशस्त और
 अत्यन्त तृप्तिदायक हैं ॥ ३ ॥

* इन तीन स्त्रियोंका कूलके अनुसार अनुवाद कर दिख गया है। समझमें नहीं आता, इस व्यवस्थाका क्या उद्देश्य है ?
 मत्स्य होता है, बुद्धि-स्मृतिमें जहाँ कहीं मत्स्यका विधान है, वह स्वाभाविक मांसभोजी यतुज्योंकी प्रवृत्तिको संकुचित और
 नियमित करनेके लिये ही है। सभी जगह उत्कृष्ट धर्म तो मांसपशुणका सर्वथा त्याग ही मान्य गया है। सनुस्मृति अ० ५ में
 मांसप्रकारणका उपसंहार करते हुए स्त्रीक ४५ से ५६ तक मांसभक्षणके निन्दा और निशेधिय आहारकी भृति-भृति प्रशंसा की
 गयी है। श्राद्धकर्ममें मांस किना निन्दनीय है, यह व्रीह्यदागमक सनातन ऋन्ध अध्याय १५ के इन श्लोकोंसे स्पष्ट हो जाता है—

न दद्यादासिधं श्राद्धे न चाश्रद्धंकारयित् । मुन्यनैः शक्यता प्रतिर्वया न पशुर्दिसया ॥ ७ ॥

नैतद्गृहः परे धर्मो नृणां सद्दर्शयिष्यथात् । न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायकथं च ॥ ८ ॥

द्रव्यधर्तैर्विधानं दृष्ट्वा भूतानि विभ्यति । एष मःऽकण्ठो हन्यादकण्ठो ह्यसुप्तं भ्रुवन् ॥ १० ॥

अर्थ-पशुके यशके सपन्ननेवाला पुरुष श्राद्धमें [उत्तरेके लिये] मांस न दे और च शक्य ही खाय, स्त्रीके पितृगणको
 तृप्ति जैसी मुनिजनोंके अज्ञाते ज्ञेयो है वैसी पशुर्दिसामे नहीं देनी ॥ ७ ॥ सद्दर्शकी इच्छावासे पुरुषोंके लिये 'सम्पूर्ण प्रतिशोधके
 प्रति मन, वाणी और शरीरसे दण्डका त्याग कर देना'—इसके समाप्त और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है ॥ ८ ॥ पुरुषको द्रव्यकाली
 पजन करते देखकर जोच ज्ञेयो है कि वह अपने ही शत्रुओंका पोषण करकेकता निर्वय अज्ञानी मुझे अकस्य पर डालेगा ॥ १० ॥

गवामुपेत्य यः श्राद्धं करोति पृथिवीपते ।
 सफलं तस्य तज्जन्म जायते पितृतृष्टिदम् ॥ ४
 प्रशान्तिकास्सनीवारश्यामाका द्विविधास्तथा ।
 सन्वीषधीप्रधानास्तु श्राद्धार्हाः पुरुषर्षभ ॥ ५
 यथाः प्रियंगवो मुद्गा गोधूमा त्रीह्वस्तिलाः ।
 निष्पावाः कोविदाश्च सर्वपापघ्नान् शोभनाः ॥ ६
 अकृताश्रयणं सच्च धान्यजातं नरेश्वर ।
 राजमाषानणुंश्चैव मसुरांश्च सिस्रजैवेत् ॥ ७
 अलाबुं गुब्जनं चैव पल्लवपुं पितृमूलकम् ।
 गान्धारककरम्थादिलसणान्नीषराणि च ॥ ८
 आरक्ताश्रयैव निर्यासाः प्रत्यक्षलक्षणानि च ।
 वर्णान्येतानि वै श्राद्धे च्छात्रा न शस्यते ॥ ९
 नक्ताहृतमनुच्छिन्नं नृप्यते न च यत्र गौः ।
 दुर्गन्धि फेनिले चाम्पु श्राद्धयोग्यं न पाथिव ॥ १०
 क्षीरमेकशफानां यदौष्टमाविकमेव च ।
 मार्गं च माहिषं चैव सर्जयेच्छ्राद्धकर्मणि ॥ ११
 षण्ढापविद्धचाण्डालपापिपाथिडरोगिभिः ।
 कृकवाकुश्वनग्नैश्च वानरग्रामसूकरैः ॥ १२
 उदक्यासूतकाशीषिमुतहरैश्च वीक्षिते ।
 श्राद्धे सुरा न पितरो भुञ्जते पुरुषर्षभ ॥ १३
 तस्मात्परिश्रिते कुर्याच्छ्राद्धं श्रद्धासमन्वितः ।
 उर्वा च तिलविक्षेपाद्यातुधानान्निवारयेत् ॥ १४
 नखादिना स्रोपपन्नं केशकीटादिभिर्गुप ।
 न सैवाभिवर्षैर्मिश्रमन्नं पर्युषितं तथा ॥ १५
 श्रद्धासमन्वितैर्दत्तं पितृभ्यो नामगोत्रतः ।
 यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारस्त्वमेति तत् ॥ १६
 भूयते ज्ञापि पितृभिर्गीता गार्था महीपते ।
 इक्ष्वाक्योर्मनुपुत्रस्य कलापोपवने पुरा ॥ १७
 अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सम्मार्गशीलिनः ।
 गवामुपेत्य ये पिण्डान्दास्यन्त्यस्माकमादरात् ॥ १८
 अपि नस्स कुले जग्वद्भ्यो नो दद्यात्प्रयोदशीम् ।
 पायसं मधुसर्पिभ्यां वर्षासु च भघासु च ॥ १९

हे पृथिवीपते! जो पुरुष गर्भमें जाकर श्राद्ध करता है, उसका पितृगणको तृप्ति देनेवाला वह जन्म सफल हो जाता है ॥ ४ ॥ हे पुरुषर्षभ! देवधान्य, नीवार और स्रग्म तथा श्वेत वर्णके श्यामाक (साखी) एवं प्रधान-प्रधान वनीषधियां श्राद्धके उपयुक्त द्रव्य हैं ॥ ५ ॥ बी, कौंगनो, मूँग, नेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसो-इन सबका श्राद्धमें होना अच्छा है ॥ ६ ॥

हे राजेश्वर! जिस अन्नसे नवान्न यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कदू, गाजर, प्याज, शलजम, गान्धारक (शांलाविशेष) बिना तुषके गिरे हुए धान्यका आटा, ऊसर भूमिमें उत्पन्न हुआ लवण, होंग आदि कुछ कुछ लाल रंगकी वस्तुएँ, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएँ जिन्का शास्त्रमें विधान नहीं है, श्राद्धकर्ममें त्याग्य हैं ॥ ७—९ ॥ हे राजन्! जो रात्रिके समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशयका हो, जिसमें गौं तृपा न हो सकती हो ऐसे गट्टेका अथवा दुर्गन्ध या फेनयुक्त जल श्राद्धके योग्य नहीं होता ॥ १० ॥ एक खुरवाकोका, लैटनीक, भेड़क, मुगीका तथा भैंसका दूध श्राद्धकर्ममें काममें न ले ॥ ११ ॥

हे पुरुषर्षभ! नपुंसक, अपविद्ध (सत्पुरुषोंद्वारा श्लिथित), चाण्डाल, पापी, पाण्डो, रोगी, कुण्कुट, स्वात्र, नन (वैदिक कर्मको त्याग देनेवाला पुरुष) वानर, शम्भूकर, रजस्वला स्त्री, जन्म अथवा मरणके अशुभसे युक्त शक्ति और श्रव ले जानेवाले पुरुष—इनमेंसे किसीको भी श्राद्धमें अपना भाग नहीं लेने ॥ १२—१३ ॥ अतः किसी विधे हुए स्थानमें श्रद्धापूर्वक श्राद्धकर्म करे तथा पृथिवीमें तिल छिड़काकर राक्षसोंको निवृत्त कर दे ॥ १४ ॥

हे राजन्! श्राद्धमें ऐसा अन्न न दे जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों या जो निचोड़कर निकाले हुए रससे युक्त हो या चासी हो ॥ १५ ॥ श्रद्धायुक्त व्यक्ति-योंद्वारा नाम और गोत्रके उच्चारणपूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगणको वे जैसे आहारके योग्य होते हैं वैसे ही होकर उन्हें मिलता है ॥ १६ ॥ हे राजन्! इस सम्बन्धमें एक गाथा सुनी जायी है जो पूर्वकालमें पनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकुके प्रति पितृगणने कलाप उपवनमें कही थी ॥ १७ ॥

'क्या हमारे कुलमें ऐसे सम्मार्ग-शील व्यक्ति होंगे जो गवामें जाकर हमारे लिये आदरपूर्वक पिण्डदान करेंगे? ॥ १८ ॥ क्या हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षाकालकी मघानक्षत्रयुक्त त्रयोदशीको हमारे उदैस्वसे मधु और घृतयुक्त पायस (खीर)-का दान करेगा? ॥ १९ ॥

गौरीं चाप्सुद्भेत्कन्यां नीलं सा वृषभुत्सुजेत् ।
यजेत वाश्वमेधेन विधिवद्भिक्षणावता ॥ २० ॥
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽंशे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

अथवा गौरी कन्यासे विवाह करेगा, नीला वृषभ छेड़ेगा
या दक्षिणासहित विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा ? ॥ २० ॥

सत्रहवीं अध्याय

नग्नविषमक प्रश्न, देवताओंका परराज्य, उनका भगवान्की शरणमें जाना और
भगवान्क्या पापानोइको प्रकट करना

श्रीपराशर उवाच

इत्याह भगवानोर्वस्मगराय महात्मने ।
सदाचारं पुरा सम्यङ् मैत्रेय परिपृच्छते ॥ १ ॥
पथाप्येतदशेषेण कथितं भवतो द्विज ।
समुल्लङ्घ्य सदाचारं कश्चिन्नाप्नोति शोभनम् ॥ २ ॥

श्रीमैत्रेय उवाच

षण्ढापनिब्धप्रमुखा निदिता भगवन्मया ।
उदक्याद्याश्व मे सम्यङ् नग्नमिच्छामि वेदितुम् ॥ ३ ॥
को नग्नः किं समाचारो नग्नसंज्ञां नरो लभेत् ।
नग्नस्वरूपमिच्छामि यथावत्कथितं त्वया ।
श्रोतुं धर्मभृतां श्रेष्ठं न ह्यस्त्यविदितं तव ॥ ४ ॥

श्रीपराशर उवाच

श्रग्यजुस्सामसंज्ञेयं त्रयी वर्णाश्रुतिर्द्विज ।
एतामुञ्जति यो मोह्यत्स नग्नः पातकी द्विजः ॥ ५ ॥
त्रयी समस्तवर्णानां द्विज संवरणं यतः ।
नग्नो भवत्युन्मितायाभतस्तस्यां न संशयः ॥ ६ ॥
इदं च श्रूयतामन्यद्यद्भीष्माय महात्मने ।
कथयामास धर्मज्ञो वसिष्ठोऽस्मत्पितामहः ॥ ७ ॥
पथापि तस्य गदतश्श्रुतमेतन्महात्मनः ।
नग्नसम्बन्धि मैत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ॥ ८ ॥
देवासुरभूषुब्धं दिव्यमब्धशतं पुरा ।
तस्मिन्पराजिता देवा दैत्यैर्ह्येदपुरोगमैः ॥ ९ ॥
क्षीरोदस्योत्तरं कूर्लं गत्वातप्यन्त वै तपः ।
विष्णोराराधनार्थाय जगुश्चेमं स्तव तदा ॥ १० ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! पूर्वकालमें महात्म
सगरसे उनके पूजनेपर भगवान् और्वने इस प्रकार
गृहस्थके सदाचारका निरूपण किया था ॥ १ ॥ हे द्विज!
मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई
भी पुरुष सदाचारका उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा
सकता ॥ २ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—भगवन्! नग्नसक, अपविष्ट
और रजस्यला आदिको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ
[किन्तु यह नहीं जानता कि 'नग्न' किसको कहते हैं] ।
अतः इस समय मैं नग्नके विषयमें जानना चाहता हूँ ॥ ३ ॥
नग्न कौन है? और किस प्रकारके आचरणवाला पुरुष
नग्न संज्ञा प्राप्त करता है? हे भर्षाभाओंमें श्रेष्ठ! मैं
आपके द्वारा नग्नके स्वरूपका यथावत् वर्णन सुनना चाहता
हूँ; क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है ॥ ४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज! ऋक्, साम और
यजुः यह वेदत्रयी वर्णोंका आवरणस्वरूप हैं। जो पुरुष
मोहसे इसका त्याग कर देता है वह पापी 'नग्न' कहलाता
है ॥ ५ ॥ हे ब्रह्मन्! समस्त वर्णोंका संवरण (ढँकनेवाला
वस्त्र) वेदत्रयी ही है; इसलिए उसका त्याग कर देनेपर
पुरुष 'नग्न' हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६ ॥
हमारे पितामह धर्मज्ञ वसिष्ठजीने इस विषयमें महात्मा
भीष्मजीसे जो कुछ कहा था वह श्रवण करो ॥ ७ ॥ हे
मैत्रेय! तुमने जो मुझसे नग्नके विषयमें पूछा है, इस सम्बन्धमें
भीष्मके प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वसिष्ठजीका
कथन सुना था ॥ ८ ॥

पूर्वकालमें किसी समय साँ दिव्यवर्षाक देवता
और असुरोंका परस्पर युद्ध हुआ। उसमें बाद प्रभृति देवोंद्वारा
देवगण पराजित हुए १५ अतः देवगणने क्षीरसागरके
उत्तरीय तटपर जाकर तपस्या की और भगवान् विष्णुकी
आराधनाके लिये उस समय इस स्तवका गान किया ॥ १० ॥

देवा ऊचुः

आराधनाय लोकानां विष्णोरीशस्य यां गिरम् ।
 वक्ष्यामो भगवानाहस्तथा विष्णुः प्रसीदतु ॥ ११ ॥
 वतो भूतान्यशेषाणि प्रसूतानि महात्मनः ।
 यस्मिंश्च लयमेष्वन्ति कस्तं स्तोतुमिहेश्वरः ॥ १२ ॥
 तथाप्यरातिविध्वंसध्वस्तवीर्याभयार्थिनः ।
 त्वां स्तोष्यामस्तसोत्तरीनां वाचास्यै नैव गोचरे ॥ १३ ॥
 त्वमुष्णीं सलिलं वह्निर्वायुराकाशमेव च ।
 समस्तमन्तःकरणं प्रधानं तत्परः पुमान् ॥ १४ ॥
 एकं तथैतद्भूतात्मन्मूर्तामूर्तमयं त्रयुः ।
 आसद्भूतात्मन्पर्यन्तं स्थानकालविभेदवत् ॥ १५ ॥
 तत्रेश तत्र यत्पूर्वं त्वन्नाधिकमलोद्भवम् ।
 रूपं विश्वोपकाराय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ १६ ॥
 शकार्करुद्रवस्वशिवमरुत्सोमादिभेदवत् ।
 वचमेकं स्वरूपं ते तस्मै देवात्मने नमः ॥ १७ ॥
 दम्भप्रायमसम्बोधि तितिक्षादमवर्जितम् ।
 यद्रूपं तत्र गोविन्द तस्मै दैव्यात्मने नमः ॥ १८ ॥
 पातिज्ञानलक्ष्य यस्मिन्नाड्यः स्तिमिततेजसि ।
 शब्दादिलोभि घत्तस्यै तुभ्यं यक्षात्मने नमः ॥ १९ ॥
 करीर्यमाचामयं घोरं यच्च रूपं तवासितम् ।
 निशाचरात्मने तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ २० ॥
 स्वर्गस्वर्धर्मसिद्धर्मफलोपकरणं तद्यः ।
 धर्माख्ये च तथा रूपं नमस्तस्मै जनार्दन ॥ २१ ॥
 हर्षप्रायमसंसर्गि गतिमद्गमनादिषु ।
 सिद्धारख्यं तव यद्रूपं तस्मै सिद्धात्मने नमः ॥ २२ ॥
 अतितिक्षायनं क्रूरमुषभोगसहं हरे ।
 द्विजिह्वं तव यद्रूपं तस्मै नागात्मने नमः ॥ २३ ॥
 अवबोधि च घञ्छान्तमदोषमपकल्मषम् ।
 ऋषिरूपात्मने तस्मै विष्णो रूपाय ते नमः ॥ २४ ॥
 भक्षयत्तद्य कल्याणे भूतानि यद्वारितम् ।
 त्वद्रूपं पुण्डरीकाक्ष तस्मै कालात्मने नमः ॥ २५ ॥

देवगण बोले— हमलोग लोकनाथ भगवान् विष्णुके आराधनाके लिये जिस वाणीका उच्चारण करते हैं, उसमें ये आद्य-पुरुष श्रीविष्णुभगवान् प्रसन्न हों ॥ ११ ॥ जिन परमात्मासे सम्पूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें ये सब अन्तमें लीन हो जायेंगे, संसारमें उनकी स्तुति करनेमें कौन समर्थ है? ॥ १२ ॥ हे प्रभो! यद्यपि आपका यद्यत् स्वरूप वाणीका विषय नहीं है तो भी शत्रुओंके ह्रायमें विध्यस्त होकर पराक्रमज्ञान हो जानेके कारण हम अभ्य-प्राप्तिके लिये आपकी स्तुति करते हैं ॥ १३ ॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, वाकाश, अन्तःकरण, मूर्त-प्रकृति और प्रकृतिसे परे पुरुष—ये सब आप ही हैं ॥ १४ ॥ हे सबभूतात्मन्! ब्रह्मासे लेकर स्तम्भपर्यन्त स्थान और कालादि भेदयुक्त यह भूतापूर्व पदार्थमय सम्पूर्ण जगत् आपकी शरीर है ॥ १५ ॥ आपके नाभि-कमलसे विश्वके उपकारार्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है, हे ईश्वर! उस ब्रह्मस्वरूपको नमस्कार है ॥ १६ ॥ इन्द्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अस्थिनीकुमार, मरुद्गण और सोम आदि भेदयुक्त हलोग भी आपकी एक रूप हैं; अतः आपके उस देवरूपको नमस्कार है ॥ १७ ॥ हे गोविन्द! जो दम्भपयी, अज्ञानपयी तथा तितिक्षा और दम्भसे शून्य है, आपको उस दैत्य-भूतिको नमस्कार है ॥ १८ ॥ जिस मन्दसत्य स्वरूपमें हृदयकी नाडियों अत्यन्त ज्ञानवाहिनियों नहीं होतीं तथा जो शब्दादि विषयोंका लोभी होता है, आपके उस यक्षरूपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ हे पुरुषोत्तम! आपका जो क्रूरता और मायासे युक्त घोर तमोमय रूप है, उस नाशाचररूपको नमस्कार है ॥ २० ॥ हे जनार्दन! जो स्वर्गमें रहनेवाले धार्मिक जनोंके यागादि सद्धर्मके फल (सुखादि)-की प्राप्ति करानेवाला आपका धर्म नामक रूप है उसे नमस्कार है ॥ २१ ॥ जो जल अग्नि आदि गमनोय स्थानोंमें जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नतामय रहता है वह सिद्ध नामक रूप आपकी है; ऐसे सिद्धस्वरूप आपको नमस्कार है ॥ २२ ॥ हे हरे! जो अक्षमाका आश्रय अत्यन्त क्रूर और कामोपभोगमें शपथ आपका द्विजिह्व (दो जीभवाला) रूप है, उन नागस्वरूप आपको नमस्कार है ॥ २३ ॥ हे विष्णो! जो ज्ञानमय, शाश्वत, दोषरहित और कल्पवलीन है, उस आपके पुनिष्य स्वरूपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ जो कल्याणार्थमें अनिवार्यरूपसे समस्त भूतोंका भक्षण कर जाता है, हे पुण्डरीकाक्ष! आपके उस कालस्वरूपको नमस्कार है ॥ २५ ॥

सम्भक्ष्य सर्वभूतानि देवादीन्यविशेषतः ।
 नृत्यत्पन्ते च यद्रूपं तस्मै रुद्रात्मने नमः ॥ २६ ॥
 प्रवृत्त्या रजसो यच्च कर्मणां करणात्मकम् ।
 जनार्दन नमस्तस्मै त्वद्रूपाय नरात्मने ॥ २७ ॥
 अष्टाविंशद्भोपेतं यद्रूपं तामसं तव ।
 उन्मार्गगामि सर्वात्मंस्तस्मै यश्यात्मने नमः ॥ २८ ॥
 यज्ञाङ्गभूतं यद्रूपं जगतः स्थितिसाधनम् ।
 वृक्षादिभेदेष्वङ्गभेदि तस्मै पुच्छात्मने नमः ॥ २९ ॥
 तिर्यङ्मनुष्यदेवादि व्योमशाब्दादिकं च यत् ।
 रूपं तवादेः सर्वस्य तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ ३० ॥
 प्रधानबुद्ध्यादिमयादशेषा-

वदन्यदस्मात्परमं परात्मन् ।

रूपं तवाद्यं वदन्यतुल्यं
 तस्मै नमः कारणाकारणाय ॥ ३१ ॥

शुक्लादिदीर्घादिघनादिहीन-

मगोचरं यच्च विशेषणानाम् ।

शुद्धातिशुद्धं परमर्षिदृश्यं
 रूपाय तस्मै भगवन्तताः स्मिः ॥ ३२ ॥
 यन्तः शरीरेषु वदन्यदेहे-
 घशेषवस्तुष्वजमक्षयं यत् ।

तस्माच्च चान्यद्व्यतिरिक्तमस्ति
 ब्रह्मास्वरूपाय नताः स्म तस्मै ॥ ३३ ॥

सकलमिदमजस्य यस्य रूपं
 परमपदात्मवतस्सनातनस्य ।

तपनिधनभशेषबीजभूतं
 प्रभुपमलं प्रणतास्स वासुदेवम् ॥ ३४ ॥

श्रीपराशर उवाच

स्तोत्रस्य चावसाने ते ददृशुः परमेश्वरम् ।
 शङ्खध्वजगदापाणिं गरुडस्थं सुरा हरिम् ॥ ३५ ॥

जो प्रलयकालमें देवता आदि समस्त प्राणियोंको
 सामान्य भावसे भक्षण करके नृत्य करता है आपके
 उस स्वरूपको नमस्कार है ॥ २६ ॥ खोजुष्की प्रवृत्तिके
 कारण जो कर्मोंका करणरूप है, हे जनार्दन! आपके
 उस मनुष्यात्मक स्वरूपको नमस्कार है ॥ २७ ॥ हे
 सर्वात्मन्! जो अष्टाविंश भू-युक्त* तपोमय और
 उन्मार्गगामी है आपके उस पशुरुष्की नमस्कार है ॥ २८ ॥
 जो जगत्की स्थितिका साधन और यज्ञका अंगभूत है
 तथा वृक्ष, लता, गुल्म, वीरुध, तृण और गिरि—इन
 छः भेदोंसे युक्त हैं उन पुच्छ (उद्भिद्)-रूप आपको
 नमस्कार है ॥ २९ ॥ तिर्यक्, मनुष्य तथा देवता आदि
 प्राणी, आकाशगदि पंचभूत और शब्दादि उनके गुण—
 ये सब, सबके आदिभूत आपहीके रूप हैं; अतः
 आप सर्वात्माको नमस्कार है ॥ ३० ॥

हे परमात्मन्! प्रधान और महत्त्वादिरूप इस
 सम्पूर्ण जगत्से जो परे है, सबके आदि कारण है
 तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके
 उस प्रकृति आदि कारणोंके भी कारण रूपको नमस्कार
 है ॥ ३१ ॥ हे भगवन्! जो शुक्लादि रूपसे, दीर्घता
 आदि परिमाणसे तथा घनता आदि गुणोंसे रहित है,
 इस प्रकार जो समस्त विशेषणोंका अविषय है, तथा
 परमर्षियोंका दर्शनीय एवं शुद्धातिशुद्ध है, आपके उस
 स्वरूपको हम नमस्कार करते हैं ॥ ३२ ॥ जो हमारे
 शरीरोंमें, अन्य प्राणियोंके शरीरोंमें तथा समस्त पशुओंमें
 वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है तथा जिससे
 अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्मस्वरूपको
 हम नमस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ परम पद ब्रह्म ही
 जिनका आत्मा है ऐसे जिस सनातन और अजन्मा
 भगवान्का यह सकल प्रपंच रूप है, उस सबके
 बीजभूत, अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेवको हम
 नमस्कार करते हैं ॥ ३४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! स्तोत्रके समाप्त
 हो जानेपर देवताओंने परमात्मा श्रीहरिको हाथमें शंख,
 चक्र और गदा लिये तथा गरुडपर आरुढ़ हुए अपने
 सम्मुख विराजमान देखा ॥ ३५ ॥

* ग्याह इन्द्रिय-बन्ध, नौ बुद्धि-बन्ध और आठ भिद्धि-बन्ध—ये कुल अष्टाविंश बन्ध हैं। इनका प्रधानतः पञ्चम्याय शलोक
 दसनी टिप्पणीमें विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

तमुचुस्सकला देवाः प्रणिपातपुरस्सरम् ।
 प्रसीद नाथ दैत्येभ्यस्त्राहि नशशरणाधिने ॥ ३६ ॥
 त्रैलोक्ययज्ञभागाश्च दैत्यैर्हृदिपुरोगमैः ।
 ह्यता नो ब्रह्मणोऽप्याज्ञामुत्प्लब्ध्य परमेश्वर ॥ ३७ ॥
 यद्वाप्यशेषभूतस्य यद्यं ते च तवांशजाः ।
 तथाप्यविद्याभेदेन भिन्नं पश्यामहे जगत् ॥ ३८ ॥
 स्ववर्णाधर्माभिरता वेदमार्गानुसारिणः ।
 न शक्यास्तेऽरयो हन्तुमस्माभिस्तपसावृताः ॥ ३९ ॥
 तमुपायमशेषात्मनस्माकं दातुमर्हसि ।
 येन तानसुरान्हन्तुं भवेम भगवन्क्षमाः ॥ ४० ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तो भगवांस्तेभ्यो मायामोहं शरीरतः ।
 समुत्पाद्य ददौ विष्णुः प्राह चेदं सुरोत्तमान् ॥ ४१ ॥
 मायामोहोऽयमग्निप्रलान्दैत्योस्तामोहविष्यति ।
 ततो वध्या भविष्यन्ति वेदमार्गाग्रहिष्कृताः ॥ ४२ ॥
 स्थितीं स्थितस्य मे वध्या ब्रह्मन्तः परिपन्थिनः ।
 ब्रह्मणो ह्यधिकारस्य देवदैत्यादिकाः सुराः ॥ ४३ ॥
 तद्गच्छन्त न भीः कर्त्र्या मायामोहोऽयमग्रतः ।
 गच्छन्त्योपकाराय भवतां भविता सुराः ॥ ४४ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्ताः प्रणिपत्यैर्न यद्युदैवा वधागतम् ।
 मायामोहोऽपि तैस्सार्द्धं वयी चप्र महासुराः ॥ ४५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयोऽंशे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अठारहवाँ अध्याय

मायामोह और असुरोंका संवाद तथा राजा शतधनुको कथन

श्रीपराशर उवाच

तपस्याभिरतान्तोऽथ मायामोहो महासुरान् ।
 मैत्रेय ददुशे गत्वा नर्मसातीरसंश्रितान् ॥ १ ॥
 सतो दिगम्बरो मृण्मो बर्हिषिच्छधरो द्विज ।
 मायामोहोऽसुरान् श्लक्ष्णमिदं वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

उन्हें देखकर समस्त देवताओंने प्रणाम करनेके अनन्तर उनसे कहे—“हे नाथ! प्रसन्न होइये और हम शरणागतोंकी दैत्यांसे रक्षः करोनिये ॥ ३६ ॥ हे परमेश्वर! हृदि प्रभृति दैत्यगणने ब्रह्माखीकी आज्ञाका भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकीके सबभागोंका अपहरण कर लिया है ॥ ३७ ॥ यद्यपि हम और ते सर्वभूत आपहीके अंशज हैं तथापि अविद्यावश हम जगत्की परस्पर भिन्न-भिन्न देखते हैं ॥ ३८ ॥ हमारे शत्रुगण अपने वर्णधर्मका पालन करनेवाले, वेदमार्गवल्की और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते ॥ ३९ ॥ अतः हे स्वर्वात्मन्! जिससे हम उन असुरोंका वध करनेमें समर्थ हों ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइये” ॥ ४० ॥

श्रीपराशरजी बोले—उनके ऐसा कहनेपर भगवान् विष्णुने अपने शरीरसे मायामोहको उत्पन्न किया और उसे देवताओंको देकर कहा— १. ४१ ॥ “हे मायामोह! उन सम्पूर्ण दैत्यगणको मोहित कर देगा, तब वे चेदमार्गका उल्लंघन करनेसे तुमलोगोंसे मारे जा सकेंगे ॥ ४२ ॥ हे देवगण! जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्माखीके कार्यमें बाधा डालते हैं वे सृष्टिकी रक्षामें तत्पर और वध्य होते हैं ॥ ४३ ॥ अतः हे देवगण! अब तुम जाओ, इयो मत। यह मायामोह आगेसे जाकर तुम्हारा उपकार करेगा” ॥ ४४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—भगवान्को ऐसी कृपा होनेपर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँसे आयें वे वहाँ चले गये, तथा उनके साथ मायामोह भी वहाँ उड़कराग्ये वहाँ गया ॥ ४५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! तदनन्तर मायामोहने [देवताओंके साथ] जाकर देखा कि असुरगण नर्मदाके तटपर तपस्यामें लगे हुए हैं ॥ १ ॥ तब उस मयूरपिच्छधारी दिगम्बर और मुण्डितकेश मायामोहने असुरोंसे अति मधुर वाणीमें इस प्रकार कहा ॥ २ ॥

मायामोह उवाच

हे दैत्यपतयो ब्रूत यदर्थं तप्यते तपः ।
ऐहिकं वाथ पारत्र्यं तपसः फलमिच्छथ ॥ ३

असुरा उचुः

पारत्र्यफललाभाय तपश्चर्था महामते ।
अस्माभिरियम्वारब्धा किं वा तेऽत्र विवक्षितम् ॥ ४

मायामोह उवाच

कुरुध्वं मम वाक्यानि यदि मुक्तिमभीप्सथ ।
अर्हस्वमेनं धर्मं च मुक्तिद्वारमसंश्रुतम् ॥ ५
धर्मो विमुक्तेरर्होऽयं नैतस्मादपरो वरः ।
अत्रैव संस्थिताः स्वर्गं विमुक्तिं वा गमिष्यथ ॥ ६
अर्हस्वन् धर्ममेतं च सर्वे यूयं महाबलाः ॥ ७

श्रीपराशर उवाच

एवंप्रकारैर्बहुभिर्युक्तिदर्शनचर्चितैः ।
मायामोहेन ते दैत्या वेदमार्गादपाकृताः ॥ ८
धर्मायैतदधर्माय सदेतन्न सदित्यपि ।
विमुक्तये त्विदं नैतद्विमुक्तिं सम्प्रयच्छति ॥ ९
परमार्थोऽयमत्यर्थं परमार्थो न श्लाघ्यम् ।
कार्यमेतदकार्यं च नैतदेवं स्फुटं त्विदम् ॥ १०
दिग्वाससामयं धर्मो धर्मोऽयं बहुवाससाम् ॥ ११
इत्यनेकान्तघातं च मायामोहेन नैकधा ।
तेन दर्शयता दैत्यास्स्वधर्मं त्याजिता द्विज ॥ १२
अर्हतेतं महाधर्मं मायामोहेन ते यतः ।
प्रोक्तास्तमाश्रिता धर्ममार्हास्तास्तेन तेऽभवन् ॥ १३
त्रयीधर्मसमुत्सर्गं मायामोहेन तेऽसुराः ।
कारितास्तन्मया ह्यासंस्ततोऽन्ये तत्राचोदिताः ॥ १४
तैरप्यन्ये परे तैश्च तैरप्यन्ये परे च तैः ।
अल्पैरहोभिस्सन्यक्ता तैर्दैतैः प्रायशस्वयी ॥ १५
पुनश्च रक्ताम्बरधृङ् मायामोहो जितेन्द्रियः ।
अन्यानाम्सुरान् गत्वा मृदुल्पमधुराक्षरम् ॥ १६
स्वर्गार्थं यदि वो वाञ्छा निर्वाणार्थमयासुगः ।
तदलं पशुघातादिदुष्टधर्मैर्निबोधत ॥ १७

मायामोह बोला—हे दैत्यपतिगण! कहिये, आपलोग किस उद्देश्यसे तपस्या कर रहे हैं, आपको किसी लौकिक फलकी इच्छा है या पारलौकिक की? ॥ ३ ॥

असुरगण बोले—हे महामते! हमलोगोंने पारलौकिक फलकी कामनासे तपस्या आरम्भ की है। इस विषयमें तुमको हमसे क्या कहना है? ॥ ४ ॥

मायामोह बोला—यदि आपलोगोंको मुक्तिकी इच्छा है तो वैसे में कहना हूँ वैसे करो। आपलोग मुक्तिके खूले द्वाररूप इस धर्मका आदर कीजिये ॥ ५ ॥ यह धर्म मुक्तियै परपोषधोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करनेसे आपलोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसको कामना करोगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान् हैं, अतः इस धर्मका आदर कीजिये ॥ ६-७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार नाना प्रकारकी युक्तियोंसे अतिरंजित वाक्योंद्वारा मायामोहने दैत्यगणको वैदिक मार्गसे भ्रष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ 'यह धर्मयुक्त है और यह धर्मविशुद्ध है, यह सत् है और यह असत् है, यह पुक्तिकारक है और इससे मुक्ति नहीं लेती, यह अत्यन्तिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है, यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है, यह दिग्मन्त्रोंका धर्म है और यह साम्बोंका धर्म है'—हे द्विज। ऐसे अनेक प्रकारके अनन्त बरदोंको दिखलाकर मायामोहने उन दैत्योंको स्वधर्मसे च्युत कर दिया ॥ ९-१२ ॥ मायामोहने दैत्योंसे कहा था कि आपलोग इस महाधर्मको 'अर्हत' अर्थात् इसका आदर कीजिये। अतः उस धर्मका अवलम्बन करनेसे वे 'अर्हत' कहलायें ॥ १३ ॥

मायामोहने असुरगणको त्रयीधर्मसे विमुख कर दिया और वे मोहप्रस्त हो गये; तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्योंको भी इसी धर्ममें प्रयुत किया ॥ १४ ॥ उन्होंने दूसरे दैत्योंको, दूसरोंने तीसरोंको, तीसरोंने चौथोंको तथा उन्होंने औरोंको इसी धर्ममें प्रयुत किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनोंमें दैत्यगणने वेदत्रयीका प्रायः त्याग कर दिया ॥ १५ ॥

उदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोहने रक्तयस्त्र धारणकर अन्यान्य असुरोंके पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दोंमें कहा— ॥ १६ ॥ "हे असुरगण! यदि तुमलोगोंको स्वर्ग अथवा मोक्षकी इच्छा है तो पशुविसा आदि दुष्टकर्मोंको त्यागकर बोध प्राप्त करो ॥ १७ ॥

सिद्धान्तमयमेवैतदशेषमवगच्छत ।
 बुध्यध्वं मे वचः सम्यग्बुधैरेवमिहोदितम् ॥ १८
 जगदेतदनाधारं धान्तिज्ञानार्थतत्परम् ।
 रागादिदुष्टमत्यर्थं भ्राम्यते भवसंकटे ॥ १९
 एषं बुध्यत बुध्यध्वं बुध्यतैवमितीरयन् ।
 मायामोहः स दैतेयान्धर्ममत्याजयन्निजम् ॥ २०
 नानाप्रकारवचनं स तेषां युक्तियोजितम् ।
 तथा तथा त्रयीधर्मं तत्त्वजुस्ते यथा यथा ॥ २१
 तेऽप्यन्येषां तथैवोचुरन्यैरन्ये तथोदिताः ।
 मंत्रेय तत्त्वजुर्धर्मं वैदस्मृत्युदितं परम् ॥ २२
 अन्यानप्यन्यपाषण्डप्रकारैर्बहुभिर्द्विज ॥
 दैतेयान्मोहव्यामास मायामोहोऽतिमोहकृत् ॥ २३
 स्वल्पेनैव हि कालेन मायामोहेन तेऽसुराः ।
 मोहितास्तत्त्वजुस्सर्वा त्रयीमार्गाश्रितां कश्चाम् ॥ २४
 केचिद्विनिन्दं वदानां देवानामपरे द्विज ।
 यज्ञकर्मकलापस्य तथान्ये च द्विजन्वभाम् ॥ २५
 नैतद्युक्तिसहं वाक्यं हिंसा धर्माय चेष्यते ।
 हवींष्यनलदग्धानि फलायेत्यर्भकोदितम् ॥ २६
 यज्ञैरनेकैर्देवत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते ।
 शम्यादि यदि चेत्कार्ष्णं तद्वरं पत्रभुक्पशुः ॥ २७
 मिहतस्य पशोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तिर्यदीष्यते ।
 स्वपिता यजमानेन किन्तु तस्मान् हन्यते ॥ २८
 नृमये जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेत्ततः ।
 कुर्याच्छ्राद्धं श्रमायानं न वहेयुः प्रवासिनः ॥ २९
 जनश्रद्धेयमित्येतदवगम्य ततोऽत्र सः ।
 उपेक्षा श्रेयसे वाक्यं रोषतां यन्मयेरितम् ॥ ३०
 न ह्याप्तवादा नभसो निपतन्ति महासुराः ।
 मुक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मयान्यैश्च भवद्विधैः ॥ ३१

यह सम्पूर्ण जगत् विज्ञानमय है—ऐसा जानो । मेरे
 वाक्योंपर पूर्णतया ध्यान दो । इस विषयमें बुद्धजनोंका
 ऐसा ही भवे कि यह संसार अनाधार है, प्रथम-व्य पदार्थोंके
 प्रतीतिपर ही स्थिर है तथा रागादि दोषोंसे दूषित है । इस
 संसारसंकटमें जोय अत्यन्त भटकता रहा है" ॥ १८ १९ ॥
 इस प्रकार 'बुध्यत (जानो), बुध्यध्वं (समझो), बुध्यत
 (जानो)' आदि शब्दोंसे बुद्धधर्मका निर्देश कर मयामोहने
 दैत्योंसे उनको निजधर्म छुड़ा दिया ॥ २० ॥ मायामोहने
 ऐसे नाना प्रकारके युक्तियुक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगणने
 त्रयीधर्मको त्याग दिया ॥ २१ ॥ उन दैत्यगणने अन्य दैत्योंसे
 तथा उनोंने अन्यान्यसे ऐसे ही वाक्य कहे । हे मंत्रेय ! इस
 प्रकार उन्होंने श्रुतिस्मृतिविहित अपने परम धर्मको त्याग
 दिया ॥ २२ ॥ हे द्विज ! मोहकारों मायामोहने और भी
 अनेकानेक दैत्योंको भिन्न-भिन्न प्रकारके विविध पाषण्डोंसे
 मोहित कर दिया ॥ २३ ॥ इस प्रकार थोड़े ही समयमें
 पायामोहके द्वारा मोहित होकर असुरगणने वैदिक धर्मकी
 बातचीत करना भी छोड़ दिया ॥ २४ ॥

हे द्विज ! उनमेंसे कोई खेदोंकी, कोई देवताओंकी,
 कोई याज्ञिक कर्म-कलायोंकी तथा कोई ब्राह्मणोंकी निन्दा
 करने लगे ॥ २५ ॥ [ये कहने लगे—] "हिंसाही भी धर्म
 होता है यह बात किसी प्रकार युक्तिरंगत नहीं है ।
 अग्निमें हवि बलानेसे फल होगा—यह भी बच्चोंकी-
 सी बात है ॥ २६ ॥ अनेको यज्ञोंके द्वारा देवत्व लाभ
 करके यदि इत्रके शमी आदि कष्टकला ही भोजन करना
 पड़ता है तो इससे तो पत्ते खानेजाला पशु ही अच्छा
 है ॥ २७ ॥ यदि यज्ञमें बलि किये गये यज्ञको स्वर्गके प्राप्ति
 देते हैं तो यजमान अपने पिताको ही क्यों नहीं मार
 डालता ? ॥ २८ ॥ यदि किसी अन्य पुरुषके भोजन करनेसे
 भी किसी पुरुषकी श्रुति हो सकती है तो निर्देशको
 यात्राके समय छात्रपदार्थ ले जानेका परिश्रम करनेको
 क्या आवश्यकता है; पुत्रगण भरपर ही श्राद्ध कर
 दिया करें ॥ २९ ॥ अतः यह समझकर कि 'यह (श्राद्धादि
 कर्मकाण्ड) लोगोंको अन्य-श्रद्ध ही है' इसके प्रति
 उपेक्षा करनी चाहिये और अपने श्रेयःसाधनके लिये
 जो कुछ मने कष्ट है उसमें रुचि करनी चाहिये ॥ ३० ॥
 हे असुरगण ! श्रुति आदि अष्टवाक्य कुछ आकाशसे
 नहीं गिर करती । हम, तुम और अन्य सबको भी युक्तियुक्त
 वाक्योंको ग्रहण कर लेना चाहिये" ॥ ३१ ॥

श्रीपराशर उवाच

मायामोहने ते दैत्याः प्रकारैर्बहुभिस्तथा ।
 व्युत्थापिता यथा भवान् त्रयी कश्चिददरोचयत् ॥ ३२
 इत्थमुन्मार्गधातेषु तेषु दैत्येषु तेऽमराः ।
 उद्योगं परमं कृत्वा युद्धाय समुपस्थिताः ॥ ३३
 ततो दैवासुरं युद्धं पुनरेवाभवद् द्विज ।
 हताश्च तेऽसुरा देवैः सन्मार्गपरिपन्थिनः ॥ ३४
 स्वधर्मकवचं तेषामभूद्यत्प्रथमं द्विज ।
 तेन रक्षाभवत्पूर्वं नेशुर्नष्टे च तत्र ते ॥ ३५
 ततो मैत्रेय तन्मार्गवर्तिनो येऽभवद्वज्राः ।
 नगनास्ते तैर्यतस्त्यक्तं त्रयीसंवरणं तत्र ॥ ३६
 ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थस्तथाश्रमी ।
 परिव्राड् वा अतुर्थोऽत्र पञ्चमो नोपपद्यते ॥ ३७
 यस्तु सन्ध्याय गार्हस्थ्यं चान्प्रस्थो न जायते ।
 परिव्राट् चापि मैत्रेय स नग्नः यापकन्नरः ॥ ३८
 नित्यानां कर्मणां विप्र तस्य ह्यनिरर्हनिशम् ।
 अकुर्वन्विहितं कर्म शक्तः पतति तद्दिने ॥ ३९
 प्रायश्चित्तेन महता शुद्धिमान्नोत्थनापदि ।
 पश्चं नित्यक्रियाहानेः कर्त्ता मैत्रेय मानवः ॥ ४०
 संवत्सरं क्रियाह्यभिर्यस्य पुंसोऽभिजायते ।
 तस्यावलोकनात्सूर्यो निरीक्ष्यस्माधुभिस्सदा ॥ ४१
 स्पृष्टे स्नानं सचैलस्य शुद्धेर्हेतुर्महामते ।
 पुंसो भवति तस्योक्ता न शुद्धिः पापकर्मणः ॥ ४२
 देवर्षिपितृभूतानि चस्य निःश्वस्य वेष्टमनि ।
 प्रयान्धनचिन्तान्ध्र लोके तस्मान्न पापकृत् ॥ ४३
 सम्भाषणानुप्रश्नादि सहास्यां चैव कुर्वतः ।
 जायते तुल्यता तस्य तेनैव द्विज वत्सरात् ॥ ४४
 देवादिनिःश्वासहतं शरीरं यस्य वेष्ट्य च ।
 न तेन संकरं कुर्याद् गृह्यासनपरिच्छदैः ॥ ४५
 अथ भुङ्क्ते गृहे तस्य करोत्यास्यां तथासने ।
 शेते चाप्येकशयने स सद्यस्तत्समी भवेत् ॥ ४६

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार अनेक युक्तियोंसे मायामोहने दैत्योंको विचलित कर दिया बिस्से डनमेंसे किसीकी भी वेदत्रयोंमें रुचि नहीं रही ॥ ३२ ॥ इस प्रकार दैत्योंके विपरीत मार्गमें प्रवृत्त हो जानेपर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्धके लिये उपस्थित हुए ॥ ३३ ॥ हे द्विज! तब देवता और असुरोंमें पुनः संग्राम लड़ा । उसमें सन्मार्गवर्तिनी दैत्यगण देवताओंद्वारा मारे गये ॥ ३४ ॥ हे द्विज! पहले दैत्योंके पास जो स्वधर्मरूप कवच था उसीसे उनको रक्षा हुई थी । अबकी बार उसके नष्ट हो जानेसे वे भी नष्ट हो गये ॥ ३५ ॥ हे मैत्रेय! उस समयसे जो लोग मायामोहद्वारा प्रवर्तित मार्गका अवलम्बन करनेवाले हुए; वे 'नग्न' कहलाये क्योंकि उन्होंने वेदत्रयीरूप वस्त्रको त्याग दिया था ॥ ३६ ॥

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी—ये चार ही आश्रमो हैं । इनके अतिरिक्त पाँचवाँ आश्रमी और कोई नहीं है ॥ ३७ ॥ हे मैत्रेय! जो पुरुष गृहस्थाश्रमको छोड़नेके अनन्तर वानप्रस्थ या संन्यासी नहीं होता वह पापी भी नग्न ही है ॥ ३८ ॥ हे विप्र! सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता वह उसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन-रातमें ही उसके सम्पूर्ण नित्यकर्मका क्षय हो जाता है ॥ ३९ ॥ हे मैत्रेय! आपत्तिकालको छोड़कर और किसी समय एक पक्षतक नित्यकर्मका त्याग करनेवाला पुरुष महान् प्रायश्चित्तसे ही शुद्ध हो सकता है ॥ ४० ॥ जो पुरुष एक वर्षतक नित्य-क्रिया नहीं करता उसपर दुष्टि पड़ जानेसे साधु पुरुषको सदा सूर्यका दर्शन करना चाहिये ॥ ४१ ॥ हे महामते! ऐसे पुरुषका स्पर्श होनेपर पलसहित स्नान करनेसे शुद्धि हो सकती है और उस पापात्माको शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥

बिस मनुष्यके घरसे देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निःश्वास छोड़ती अन्यत्र चले जाते हैं, लोकमें उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है ॥ ४३ ॥ हे द्विज! ऐसे पुरुषके साथ एक वर्षतक सम्भाषण, कुशलप्रश्न और टडने-बैठनेसे मनुष्य उसीके समान पापत्मा हो जाता है ॥ ४४ ॥ जिसका शरीर अथवा गृह देवता आदिके निःश्वाससे निरुद्ध है उसके साथ अपने गुरु, आसन और वस्त्र आदिको न मिलावे ॥ ४५ ॥ जो पुरुष उसके घरमें भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शय्यापर शयन करता है वह शीघ्र ही उसीके समान हो जाता है ॥ ४६ ॥

देवतापितृभूतानि तथानभ्यर्च्य योऽतिधीनु ।
 भुङ्क्ते स पातकं भुङ्क्ते निष्कृतिस्तस्य नेष्यते ॥ ४७
 ब्राह्मणाद्यास्तु ये वर्णास्सवर्णमर्मान्यतोमुखाः ।
 यान्ति ते नग्नसंज्ञां तु हीनकर्मस्ववस्थिताः ॥ ४८
 चतुर्णां यत्र वर्णानां मैत्रेयात्यन्तसंकरः ।
 तत्रास्या साधुवृत्तीनामुपघाताय जायते ॥ ४९
 अनभ्यर्च्य ऋषीन्देवान्पितृभूतातिथींस्तथा ।
 यो भुङ्क्ते तस्य संस्लापात्पतन्ति नरके नराः ॥ ५०
 तस्यादेतान्नरो नग्नांस्वयींसन्यागदूषितान् ।
 सर्वदा सर्जयेत्प्राज्ञ आलापस्पर्शनादिषु ॥ ५१
 श्रद्धावद्धिः कृतं यत्नदेवान्पितृपितामहान् ।
 न प्रीणयति तच्छ्रद्धं यद्येभिरवलोकितम् ॥ ५२
 श्रूयते च पुरा ख्यातो राजा शतधनुर्भुवि ।
 पत्नी च शीव्या तस्याभूदतिधर्मपरायणा ॥ ५३
 पतिव्रता मह्यभागा सत्यशौचदयान्विता ।
 सर्वलक्षणसम्पन्ना विनयेन नयेन च ॥ ५४
 स तु राजा तथा सार्द्धं देवदेवं जनार्दनम् ।
 आराधयामास विभुं परमेण समाधिना ॥ ५५
 होमैर्जपैस्तथा दानैरुपवासैश्च भक्तितः ।
 पूजाभिश्चानुदिवसं तन्मना नान्यमानसः ॥ ५६
 एकदा तु समं स्नाती तौ तु भार्यापती जले ।
 भार्गवरथ्यास्समुत्तीर्णौ कर्त्तिक्यं समुपोषितौ ।
 पाषण्डिनमपश्येतामायान्तं सम्मुखं द्विज ॥ ५७
 चापाचार्यस्व तस्यासी सखा राज्ञो महत्त्मनः ।
 अतस्तद्गौरवान्नेन सखाभाषमथाकरोत् ॥ ५८
 न तु सा वाग्यता देवी तस्य पत्नी पतिव्रता ।
 उपोषितास्मीति रथिं तस्मिन्दृष्टे ददर्श च ॥ ५९
 समागम्य यथान्यायं दम्पती तौ यथाविधि ।
 विष्णोः पूजादिकं सर्वं कृतवन्ती द्विजोत्तम ॥ ६०
 कालेन गच्छता राजा मथारासी सपत्नजित् ।
 अन्यारुरोह तं देवी चितास्थं भूपतिं प्रतिम् ॥ ६१

जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियोंका पूजन किये बिना स्वयं भोजन करता है वह पापमय भोजन करता है; उसकी शुभगति नहीं हो सकती ॥ ४७ ॥

जो ब्राह्मणादि वर्ण स्वधर्मको छोड़कर परधर्ममें प्रवृत्त होते हैं अथवा हीनवृत्तिका अवलम्बन करते हैं वे 'नग्न' कहलाते हैं ॥ ४८ ॥ हे मैत्रेय! जिस स्थानमें पातक वर्णोंका अत्यन्त मिश्रण हो उसमें रहनेसे पुरुषोंका साधुवृत्तियोंका क्षय हो जाता है ॥ ४९ ॥ जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथिगणका पूजन किये बिना भोजन करता है उससे सम्भाषण करनेसे भी लोग नरकमें पहुँचे हैं ॥ ५० ॥ अतः वेदत्रयीके त्यागसे दूषित इन नरनोंके साथ प्राज्ञपुरुष सर्वदा सम्भाषण और स्पर्श आदिका भी त्याग कर दे ॥ ५१ ॥ यदि इगर्की दृष्टि पड़ जाय तो श्रद्धावान् पुरुषोंका यत्नपूर्वक किया हुआ क्राह देवता अध्वनी ऋद्धि-पितामहगणकी वृत्ति नहीं करता ॥ ५२ ॥

सुन जाता है, पूर्वकालमें पृथिवीतलपर राष्ट्रभूत नामसे विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शीव्या अत्यन्त धर्मपरायणा थी ॥ ५३ ॥ वह महाभागा पतिव्रता, सत्य, शौच और दयासे युक्त तथा विनय और नीति आदि सम्पूर्ण सुलक्षणोंसे सम्पन्ना थी ॥ ५४ ॥ उस महाराजके साथ राजा शतधनुने परंप समाधिद्वारा सर्वव्यापक, देवदेव श्रीजानार्दनकी आराधना की ॥ ५५ ॥ वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्यभावेसे होम, वप, दान, उपवास और पूजन आदिद्वारा भगवान्की भक्तिपूर्वक आराधना करने लगे ॥ ५६ ॥ हे द्विज! एक दिन कार्तिकी पूर्णिमाको उपवास कर उन दोनों पति-पत्नियोंने श्रीगंगाजीमें एक साथ ही स्नान करनेके अनन्तर बाहर आनेपर एक पाण्डुकी सामने आता देखा ॥ ५७ ॥ वह ब्राह्मण उस महात्मा राजाके भनुर्येताचार्यका मित्र था; अतः आचार्यके गौरववश राजाने भी उससे मित्रवत् व्यवहार किया ॥ ५८ ॥ किन्तु उसकी पतिव्रता पत्नीने उसका कुछ भी आदर नहीं किया; वह मीन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषिता (उपवासयुक्त) हूँ ठहरे देखकर सूर्यका दर्शन किया ॥ ५९ ॥ हे द्विजोत्तम! फिर उन स्त्री-पुरुषोंने सयारीति आकर भगवान् विष्णुके पूजा आदिक सम्पूर्ण कर्म विधिपूर्वक किये ॥ ६० ॥

कालान्तरमें यह शत्रुजित् राजा मर गया। उस देवी शैव्याने भी चित्कारुह महाराजका अनुगमन किया ॥ ६१ ॥

स तु तेनापचारेण श्वा जज्ञे वसुधाधिपः ।
 उपोषितेन पाषण्डसैल्लापो यत्कृतोऽभखत् ॥ ६२
 सा तु जातिस्मरा जज्ञे काशीराजसुता शुभा ।
 सर्वविज्ञानसम्पूर्णा सर्वलक्षणपूजिता ॥ ६३
 तां पिता दातुकामोऽभूद्दराय विनिवारितः ।
 तथैव तन्व्या विरतो विवाहप्रभतो नृपः ॥ ६४
 तत्समा दिव्यया दृष्ट्या दृष्ट्वा श्वानं निजं पतिम् ।
 विदिशाख्यं पुरं गत्वा तदवस्थं ददर्श तम् ॥ ६५
 तं दृष्ट्वैव महाभागं श्वभूतं तु पतिं तदा ।
 ददौ तस्मै श्रावणं सत्कारप्रवणं शुभा ॥ ६६
 भुञ्जन्दत्तं तथा सोऽन्नपतिमृष्टमभीक्षितम् ।
 स्वजातिललितं कुर्वन्बहु चाटु चकार वै ॥ ६७
 अतीव व्रीडिता बाला कुर्वता चाटु तेन सा ।
 प्रणामपूर्वमाहेदं ददितं तं कुयोनिभम् ॥ ६८
 स्मर्यतां तन्महाराजं क्षाक्षिण्यललितं त्वया ।
 येन श्वयोनिमापन्नो मम चाटुकरो भवान् ॥ ६९
 पाषण्डिनं समाभाष्य तीर्थस्नानादनन्तरम् ।
 प्राप्नोऽसि कुत्सित्वा योनिं किन् स्मरसि तत्रभो ॥ ७०
 श्रीपराशर उवाच
 तथैवं स्मारिते तस्मिन्पूर्वजातिकृते तदा ।
 दृष्ट्वा चिरमश्वावाप निर्वेदमतिदुर्लभम् ॥ ७१
 निर्विण्णाचित्तस्य ततो निर्गम्य नगराद्बहिः ।
 भरुत्प्रपतनं कृत्वा शार्गालीं योनिमागतः ॥ ७२
 सापि द्वितीये सम्प्राप्ते वीक्ष्य दिव्येन चक्षुषा ।
 ज्ञात्वा शृगालं तं ब्रह्मं ययौ क्सेलाह्वनं गिरिम् ॥ ७३
 तत्रापि दृष्ट्वा तं प्राह शार्गालीं योनिमागतम् ।
 भर्तारमपि चार्थगी तनया पृथिवीक्षितः ॥ ७४
 अपि स्मरसि राजेन्द्र श्वयोनिस्थस्य वनमया ।
 प्रोक्तं ते पूर्वचरितं पाषण्डालापसंश्रयम् ॥ ७५
 पुनस्तयोक्तं स ज्ञात्वा सत्यं सत्यवतां वरः ।
 कानने स निराहारस्तत्याजं स्व्यं कलेवरम् ॥ ७६

राजा शतधनुने उपवास-अवस्थामें पाषण्डीसे
 धर्तालाप किया था। अतः उस पाषण्डे कारण उसने
 कुत्तेका जन्म लिया ॥ ६२ ॥ तथा वह सुपलक्षणा
 काशीनरेशकी कन्या हुई, जो सब प्रकारके विज्ञानसे
 युक्त, सर्वलक्षणसम्पन्ना और चातिस्मरा (पूर्वजन्मका
 वृत्तान्त जाननेवाली) थी ॥ ६३ ॥ राजाने उसे किसी
 वरको देनेकी इच्छा की, किन्तु उस सुन्दरीके ही
 श्रेष्ठ देनेपर वह उसके विवाहदिसे उपरत हो गये ॥ ६४ ॥

तब उसने दिव्य दृष्टिसे अपने पतिको स्वान
 हुआ जान विदिशा नामक नगरमें बाकर उसे वहाँ
 कुत्तेको अवस्थामें देखा ॥ ६५ ॥ अपने मत्स्यभाग पतिकी
 श्वानरूपमें देखकर उस सुन्दरीने उसे सत्कारपूर्वक
 अति उत्तम भोजन कराया ॥ ६६ ॥ उसके लिये हुए
 उस अति मधुर और इच्छित अन्नको खाकर वह
 अपनी जातिके अनुकूल नाम प्रकाशकी चाटुता प्रदर्शित
 करने लगी ॥ ६७ ॥ उसके चाटुता करनेसे अत्यन्त
 संकुचित हो उस बालिकाने कुत्सित योनिमें उत्पन्न
 हुए उस अपने प्रियतमको प्रणाम कर उसके इस
 प्रकार कहा— ॥ ६८ ॥ "महाराज! आप अपनी उस
 उदारताका स्मरण कीजिये जिसके कारण आज आप
 श्वान-योनिको प्राप्त होकर मेरे आटुकार हुए हैं ॥ ६९ ॥
 हे प्रभो! क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि
 तीर्थस्नानके अनन्तर पाषण्डीसे धर्तालाप करनेके कारण
 ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है?" ॥ ७० ॥

श्रीपराशरजी बोले— काशिराजसुताद्वारा इस प्रकार
 स्मरण किये जानेपर उसने बहुत देरतक अपने पूर्वजन्मका
 चिन्तन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ ॥ ७१ ॥
 उसने अति उदास दिव्यसे नगरके बाहर आ प्रण त्याग
 दिये और फिर शृगाल-योनिमें जन्म लिया ॥ ७२ ॥ तब
 काशिराजकन्या दिव्य दृष्टिसे उसे दूसरे जन्ममें शृगाल
 हुआ जान उसे देखनेके लिये कोलाहल पर्वतपर गयी ॥ ७३ ॥
 वहाँ भी अपने पतिको शृगाल-योनिमें उत्पन्न हुआ देख
 यह सुन्दरी स्वकन्या उससे बोली— ॥ ७४ ॥ "हे राजेन्द्र!
 श्वान-योनिमें जन्म लेनेपर मैंने आपसे जो पाषण्डीसे
 धर्तालापविषयक पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहा था क्या वह
 आपको स्मरण है?" ॥ ७५ ॥ तब संत्यनिष्ठोंमें श्रेष्ठ राजा
 शतधनुने उसके इस प्रकार कहनेपर साथ सत्य वृत्तान्त
 जानकर निराहार रह वनमें अपना शरीर छोड़ दिया ॥ ७६ ॥

भूयस्ततो वृको जज्ञे गत्वा तं निर्जने वने ।
 स्मारयामास भर्तारं पूर्ववृत्तमनिन्दिता ॥ ७७
 न त्वं वृको महाभाग राजा शतधनुर्भषान् ।
 श्वा भूत्वा त्वी शृगालोऽभूर्जकत्वं साम्प्रतं गतः ॥ ७८
 स्मारितेन यदा त्यक्तस्तेनात्मा गृध्रतां गतः ।
 अघापा सा पुनश्चैवं बोधयामास भाषिनी ॥ ७९
 नरेन्द्र स्मर्यतामात्मा ह्यलं ते गृध्रचेष्टया ।
 पाषण्डालापजातोऽयं दोषो यद्गृध्रतां गतः ॥ ८०
 ततः काकत्वमापन्नं समनन्तरजन्मनि ।
 उवाच तन्वी भर्तारमुपलभ्यात्मयोगतः ॥ ८१
 अशेषभूतः पूर्वं वश्या यस्मै बलिं ददुः ।
 स त्वं काकत्वमापनो जातोऽद्य बलिभुक् प्रभो ॥ ८२
 एवमेव च काकत्वे स्मारितस्य पुरातनम् ।
 तत्याज भूपतिः प्राणान्मयूरत्वमवाप च ॥ ८३
 मयूरत्वे ततस्सा वै चकारानुगतं शुभा ।
 दत्तैः प्रतिक्षणं भोष्यैर्बाला तज्जातिभोजनैः ॥ ८४
 ततस्तु जनको राजा वाजिमैधं महाकृतम् ।
 चकार तस्वावभृथे स्नापयामास तं तदा ॥ ८५
 सस्त्री स्वयं च तन्वह्नी स्मरयामास चापि तम् ।
 यथासीं श्वभृगालादिद्योनिं जग्राह पार्थिवः ॥ ८६
 स्मृतजन्मकमस्सोऽथ तत्याज स्वकलेवरम् ।
 जज्ञे स जगत्स्यैव पुत्रोऽसीं सुमहत्तमनः ॥ ८७
 ततस्सा पितरं तन्वी विवाहार्थमचोदयत् ।
 स चापि कारयामास तस्या राजा स्वयंवरम् ॥ ८८
 स्वयंवरे कृते सा तं सम्प्राप्तं पतिमात्मनः ।
 करयामास भूयोऽपि भर्तृभावेन भाषिनी ॥ ८९
 बुभुजे च तथा सार्द्धं सम्भोगान्पुनन्दनः ।
 पितर्युपरते राज्यं विदेहेषु चकार सः ॥ ९०
 इयाजं यज्ञान्सुबहून्ददौ दानानि चार्थिनाम् ।
 पुत्रामृत्यादेयामास युयुधे च सहारिभिः ॥ ९१
 राज्यं भुक्त्वा यथान्यार्थं पालयित्वा वसुधराम् ।
 तत्याज स प्रिथ्वान्प्राणान्संग्रामे धर्मतो नृपः ॥ ९२

फिर वह एक भेड़िया हुआ; उस समय भी अनिन्दित
 राजकन्याने उस निर्जन वनमें जाकर अपने पतिको
 उसके पूर्वजन्मका वृत्तान्त स्मरण कराया ॥ ७७ ॥ [उसने
 कहा—] " हे महाभाग ! तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु
 हो । तुम [अपने पूर्वजन्ममें] क्रमशः कुक्कुर और शृगाल
 होकर अब भेड़िया हुए हो " ॥ ७८ ॥ इस प्रकार उसके स्मरण
 करानेपर राजाने जब भेड़ियेके शरीरको छोड़ तो गृध्र यौनिमें
 जन्म लिया । उस समय भी उसको निष्ठाप भाषिनि उसे
 फिर बोध करवा ॥ ७९ ॥ ' हे नरेन्द्र ! तुम अपने स्वरूपका
 स्मरण करो; इन गृध्र चेष्टाओंको छोड़ो । पाषण्डीके साथ
 वार्तालाप करनेके दोषसे ही तुम गृध्र हुए हो ' ॥ ८० ॥

फिर दूसरे जन्ममें काक-यौनिको प्राप्त होनेपर भी
 अपने पतिको योगबलसे पाकर उस सुन्दरीने कहा— ॥ ८१ ॥
 " हे प्रभो ! जबके वशीभूत होकर सम्पूर्ण सामन्तगण नाला
 प्रकाको वस्तुएँ भेंट करते थे वज्र आप आज काक-यौनिको
 प्राप्त होकर बलिभोजी हुए हैं " ॥ ८२ ॥ इसी प्रकार काक-
 यौनिके भी पूर्वजन्मका स्मरण कराये जानेपर राजाने अग्नि
 प्रण छोड़ दिये और फिर मयूर-यौनिमें जन्म लिया ॥ ८३ ॥
 मयूरत्वस्थामे भी काशिराजकी कन्या उसे क्षण-क्षणमें
 अति सुन्दर मयूरोक्ति आहार देती हुई उसको टहल करने
 लगी ॥ ८४ ॥ उस समय राजा जनकने अश्वमेध नामक
 मंशयज्ञका अनुष्ठान किया; उस यज्ञमें अवभृथ-स्नानके
 समय उस मयूरको स्नान कराया ॥ ८५ ॥ तब उस सुन्दरीने
 स्वयं भी स्नान कर राजाको यह स्मरण कराया कि किस
 प्रकार उसने स्नान और शृगाल आदि यौनियों ग्रहण की
 थीं ॥ ८६ ॥ अपनी जन्म-परम्पराका स्मरण होनेपर उसने
 अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा बभ्रुकवोके यहाँ
 ही पुत्ररूपसे जन्म लिया ॥ ८७ ॥

तब उस सुन्दरीने अपने पित्तको जिवाहके लिये प्रेरित
 किया । उसकी प्रेरणासे राजाने उसके स्वयंवरका आयोजन
 किया ॥ ८८ ॥ स्वयंवर होनेपर उस राजकन्याने स्वयंवरमें
 आये हुए अपने उस पतिको फिर पतिभक्तसे वरण कर
 लिया ॥ ८९ ॥ उस राजकुमारने काशिराजसुदाके साथ नाना
 प्रकारके भोग भोगे और फिर पित्तके परलोकवासी होनेपर
 विदेहनागरका राज्य किया ॥ ९० ॥ उसने बहुत-से यज्ञ किये,
 याचकोंको नाना प्रकारसे दान दिये, बहुत-से पुत्र उत्पन्न किये
 और राजुओंके साथ अनेकों युद्ध किये ॥ ९१ ॥ इस प्रकार उस
 राजाने पृथिवीका न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य-भोग
 किया और अन्तमें अपने प्रिय प्राणोंको धर्मयुद्धमें छोड़ा ॥ ९२ ॥

ततश्चितास्थं तं भूयो भर्तारं सा शुभेक्षणा ।
 अन्धकारोद्भूतं चिद्विषयाद्यापूर्वं मुदान्विता ॥ ९३
 ततोऽवाप तथा सार्द्धं राजपुत्र्या स पार्थिवः ।
 ऐश्वर्यतीत्य वै लोकेऽन्तलोकाग्रप तदाक्षयान् ॥ ९४
 स्वर्गाक्षयत्वमतुलं दाम्पत्यपत्तिर्बुलभम् ।
 प्राप्तं पुण्यफलं प्राप्य संशुद्धं तां द्विजोत्तम ॥ ९५
 एष पाषण्डसम्भाषाशेषः प्रोक्तो मया द्विज ।
 तथाऽश्चमेधावभृथस्नानमाहात्म्यमेव च ॥ ९६
 तस्मात्पाषण्डिभिः पार्थसालापस्पर्शनं त्यजेत् ।
 विलेपतः क्रियाकाले यज्ञादौ चापि दीक्षितः ॥ ९७
 क्रियाहानिर्गृही यस्य मासमेकं प्रजायते ।
 तस्याऽलोकनात्सूर्यं पश्येत मतिमान्नरः ॥ ९८
 किं पुनर्यस्तु सन्यक्ता त्रयी सर्वात्मना द्विज ।
 पाषण्डभोजिभिः पार्थैवेदवादविरोधिभिः ॥ ९९
 सहासापस्तु संसर्गः सहास्या जातिपापिनी ।
 पाषण्डिभिर्दुराचारैस्तस्मात्तान्परिचर्जयेत् ॥ १००
 पाषण्डिनो विकर्मस्थान्बैदालव्रतिकाश्छठान् ।
 हेतुकान्वकवृत्तींश्च बाहुमात्रेणापि नार्चयेत् ॥ १०१
 दूरतस्तैस्तु सम्पर्कस्त्यान्यश्चाप्यतिपापिभिः ।
 पाषण्डिभिर्दुराचारैस्तस्मात्तान्परिचर्जयेत् ॥ १०२
 एते ननास्तवाख्याता दूष्टाः श्राद्धोपवात्काः ।
 येषां सम्भाषणात्पुंसां दिनपुण्यं प्रणश्यति ॥ १०३
 एते पाषण्डिनः पापा न ह्येतानालपेद् बुधः ।
 पुण्यं नश्यति सम्भाषादेतेषां तद्दिनोद्भवम् ॥ १०४
 पुंसां जटाधरणापीण्ड्यवतां वृक्षैव
 मोघाग्निनामखिलशौचनिचकृतानाम् ।
 तोयप्रदानपितृपिण्डबहिष्कृतानां
 सम्भाषणादपि नरा नरकं प्रयान्ति ॥ १०५

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयोऽंशे अष्टत्रयोऽध्यायः ॥ १८ ॥

इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरमहर्षिणीयके

श्रीमते विष्णुमहापुराणे तृतीयोऽंशः समाप्तः ।

तब उस सुलोचनाने पहलेके समान फिर अपने
 चितारूढ़ एतिका विधिपूर्वक प्रसन-मनसे अनुगमन
 किया ॥ ९३ ॥ इससे यह राजा उस राजकन्याके सहित
 इन्द्रलोकसे भी उत्कृष्ट अक्षय लौकीको प्राप्त हुआ ॥ ९४ ॥
 हे द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार शूद्र हो जानेपर उसने
 अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने
 पूर्वोजित पुण्यका फल प्राप्त कर लिया ॥ ९५ ॥

हे द्विज । इस प्रकार मैंने तुमसे पाखण्डियोंसे सम्भाषण
 करनेका दोष और अश्वमेध-यज्ञमें स्नान करनेका माहात्म्य
 वर्णन कर दिया ॥ ९६ ॥ इसलिये पाखण्डी और
 पापाचारियोंसे कभी वार्तालाप और स्पर्श न करे; विशेषतः
 नित्य-नैमित्तिक कर्मोंके समय और जो यज्ञादि क्रियाओंके
 लिये दीक्षित हो उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यन्त
 आवश्यक है ॥ ९७ ॥ जिसके घरमें एक मासतक
 नित्यकर्मोंका अनुष्ठान न हुआ हो उसको देख लेनेपर
 बुद्धिमान् मनुष्य सूर्यका दर्शन करे ॥ ९८ ॥ फिर जिन्होंने
 वैदिकीका सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखण्डियोंका
 अन्त खाते और वैदिक मतका विरोध करते हैं उन
 पापात्माओंके दर्शनादि करनेपर तो कहना ही क्या
 है ? ॥ ९९ ॥ इन दुराचारी पाखण्डियोंके साथ वार्तालाप
 करने, सम्पर्क रखने और ठठने-वैठनेमें महान् पाप होता
 है; इसलिये इन सब बातोंका त्याग करे ॥ १०० ॥ पाखण्ड्यो,
 विकर्मी, विद्वाल-व्रतवाले, * दुष्ट, स्वार्थी और बगुला-
 भक्त लोगोंका वाणीसे भी आदर न करे ॥ १०१ ॥ इन
 पाखण्ड्यो, दुष्टचारी और अति पापियोंका संसर्ग दूरहोसे
 एताने योग्य है । इसलिये इनका सर्वथा त्याग करे ॥ १०२ ॥

इस प्रकार मैंने तुमसे नर्कोंकी व्याख्या की, जिनके
 दर्शनमात्रसे श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ
 सम्भाषण करनेसे भगुण्याका एक दिनका पुण्य क्षीण हो
 जाता है ॥ १०३ ॥ ये पाखण्ड्यो बड़े पापी होते हैं, बुद्धिमान्
 पुरुष इनसे कभी सम्भाषण न करे । इनके साथ सम्भाषण
 करनेसे उस दिनका पुण्य नष्ट हो जाता है ॥ १०४ ॥ जो
 बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मूँह मुहुरते हैं,
 देवता, अतिथि आदिको भोजन कराने बिना स्वयं ही
 भोजन कर लेते हैं, सब प्रकारसे लीचहोन हैं तथा जल-
 दान और पितृ-पिण्ड आदिसे भी बहिष्कृत हैं, उन लोगोंसे
 वार्तालाप करनेसे भी लोग नरकमें जाते हैं ॥ १०५ ॥

* 'प्रच्छन्नानि च पापानि वैदालं नाम तद्वत् पुं'

अर्थात् पिपे-रिपे पाप करना वैदाल भाग्यकृत है । जो वैरा करने हैं 'दे विद्वाल-व्रतवाले' कहलाते हैं ।



श्रीविष्णुपुराण

चतुर्थ अंश

पहला अध्याय

वैवस्वतमनुके वंशका विवरण

श्रीमंत्रेय उवाच

भगवन्वन्नरैः कार्यं साधुकर्मपथवस्थितैः ।
तन्महां गुरुणारुह्यतं नित्यभैमिषित्काल्पकम् ॥ १ ॥
वर्णाधर्मास्तद्याख्याता धर्मा ये चाश्रमेषु च ।
श्रोतुमिच्छाम्याहं वंशं राज्ञां तद् ब्रूहि मे गुरो ॥ २ ॥

श्रीपराशर उवाच

मैत्रेय श्रूयतामयमनेकयज्वशूरवीरधीर-
भूपालालंकृतो ब्रह्मादिर्मानवो वंशः ॥ ३ ॥ तदस्य
वंशस्थानुपूर्वमिशोवर्षशपापप्रणाशनाय मैत्रेयैतां
कथां शृणु ॥ ४ ॥

तद्यथा सकलजगतामादिरनादिभूतस्स
श्रम्यजुस्सामादिमयो भगवान् विष्णुस्तस्य
ब्रह्मणो मूर्त्तं रूपं हिरण्यगर्भो ब्रह्माण्डभूतो
ब्रह्मा भगवान् प्राग्बभूव ॥ ५ ॥ ब्रह्मणश्च
दक्षिणाङ्गुष्ठजन्मा दक्षप्रजापतिः दक्षस्याप्य-
दितिरदितेर्विष्वस्वान् विवस्वतो मनुः ॥ ६ ॥
मनोरिष्वक्नुगधृष्टशर्यातिरिष्यन्तप्रांशुनाभाग-
दिष्टकरूषपृषघ्राख्या दश पुत्रा बभूवुः ॥ ७ ॥

इष्टिं च मित्रावरुणयोर्मनुः
पुत्रकामश्चकार ॥ ८ ॥ तत्र तावदपह्नुते
होतुरपचारादित्वा नाम कन्या बभूव ॥ ९ ॥
सैवच मित्रावरुणयोः प्रसादात्सुष्टुमो नाम
पत्नीः पुत्रो मैत्रेय आसीत् ॥ १० ॥
पुनश्श्वेश्वरकोपास्त्री सती सा तु
सौमसुनोर्बुधस्याश्रमसमीपे बभाम ॥ ११ ॥

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे भगवन्! सत्कर्ममें प्रवृत्त
रहनेवाले पुरुषोंको जो करने चाहिये उन सम्पूर्ण
नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका आपने वर्णन कर दिया ॥ १ ॥
हे गुरो! आपने वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्मोंकी व्याख्या
भी कर दी। अब मुझे राजवंशोंका विवरण सुननेकी
इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! अब तुम अनेकों
यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालोंसे सुशोभित
इस मनुवंशका वर्णन सुनो जिसके आदिपुरुष श्रीब्रह्माजी
हैं ॥ ३ ॥ हे मैत्रेय! अपने वंशके सम्पूर्ण पापोंको नष्ट
करनेके लिये इस वंश-परम्पराकी कथाका क्रमशः
श्रवण करो ॥ ४ ॥

उसका विवरण इस प्रकार है—सकल संसारके
आधिकारण भगवान् विष्णु हैं। वे अनादि तथा ऋक्-
यजु-साधःस्वरूप हैं। उन ब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णुके
मूर्त्तरूप ब्रह्माण्डमय हिरण्यगर्भ भगवान् ब्रह्माजी सबसे
पहले प्रकट हुए ॥ ५ ॥ ब्रह्माजीके दायें अंगुठसे दक्षप्रजापति
हुए, दक्षसे अदिति हुई तथा अदितिसे विवस्वान् और
विष्वस्वान्से मनुका जन्म हुआ ॥ ६ ॥ मनुके इष्वक्नु, नृग,
धृष्ट, शर्याति, निष्यन्त, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करूष और
पृषध नामक दस पुत्र हुए ॥ ७ ॥

मनुके पुत्रकी इच्छासे मित्रावरुण नामक दो देवताओंके
यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥ विष्णु होता-है विपरीत संकल्पसे
यज्ञमें विपरीत हो जानेसे उनके 'इला' नामकी
कन्या हुई ॥ ९ ॥ हे मैत्रेय! मित्रावरुणकी कृपासे वह
इला ही मनुका 'सुष्टुम' नामक पुत्र हुई ॥ १० ॥ फिर
महादेवजीके कोप (कोपप्रयुक्त स्वप्न) से वह स्त्री श्वेकर
चन्द्रमणके पुत्र बुधके आश्रमके निकट घूमने लगी ॥ ११ ॥

सानुरागश्च तस्यां बुधःपुरूरवसमात्मज-
 फुपादयमास ॥ १२ ॥ जातेऽपि तस्मिन्मिततेजोभिः
 परमर्षिभिरिष्टिमय ऋद्धमवो यज्ञुर्धयस्साम-
 ययोऽथर्वणमयस्सर्ववेदमयो मनोमयो ज्ञानमयो
 न किञ्चिन्मयोऽन्मयो भगवान् यज्ञपुरुषस्वरूपी
 सुद्युम्नस्य पुंस्त्वमभिलषद्विर्यथावदिष्टस्तत्प्रसादा-
 दिला पुनरपि सुद्युम्नोऽभवत् ॥ १३ ॥ तस्याप्यु-
 त्कलगयविनतास्त्रयः पुत्रा अभूवुः ॥ १४ ॥
 सुद्युम्नस्तु स्त्रीपूर्वकत्वाद्गान्धभागं न लेभे ॥ १५ ॥
 तत्पित्रा तु वसिष्ठवचनात्प्रतिष्ठानं नाम नगरं
 सुद्युम्नाय दत्तं तच्चासौ पुरूरवसे प्रादात् ॥ १६ ॥

तदन्वयाश्च क्षत्रियास्सर्वे दिक्ष्वभवन् ।
 पृथक्स्तु मनुपुत्रो गुरुगोवधाच्छूद्रत्वमगमत् ॥ १७ ॥
 मनोः पुत्रः करुषः करुषात्कारुषाः क्षत्रिया
 महाबलपराक्रमा बभूवुः ॥ १८ ॥ दिष्टपुत्रस्तु
 नाभागो वैश्वतामगमत्तस्माद्बलन्धनः
 पुत्रोऽभवत् ॥ १९ ॥ बलन्धनाद्ब्रह्मप्रीतिरुदार-
 कीर्तिः ॥ २० ॥ ब्रह्मप्रीतेः प्रांशुरभवत् ॥ २१ ॥
 प्रजापतिश्च प्रांशोरकोऽभवत् ॥ २२ ॥
 ततश्च खनित्रः ॥ २३ ॥ तस्माच्चाक्षुषः ॥ २४ ॥
 चाक्षुषाच्चातिबलपराक्रमो विंशोऽभवत् ॥ २५ ॥
 ततो विविंशकः ॥ २६ ॥ तस्माच्च
 खनिनेत्रः ॥ २७ ॥ ततश्चाति-विभूतिः ॥ २८ ॥
 अतिविभूतेरतिबलपराक्रमः करन्धमः
 पुत्रोऽभवत् ॥ २९ ॥ तस्मादप्य-विक्षित् ॥ ३० ॥
 अविक्षितोऽप्यतिबलपराक्रमः पुत्रो मरुतो
 नामाभवत्; यस्येवावद्यापि श्लोकौ गीयेते ॥ ३१ ॥
 मरुत्तस्य यथा यज्ञस्तथा कस्याभवत्सुवि ।
 सर्वं हिरण्यमयं यस्य यज्ञवस्त्वतिशोभनम् ॥ ३२ ॥
 अमात्र-दिन्द्रस्रोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः ।
 मरुतः परिवेष्टारस्सदस्याश्च दिवोकसः ॥ ३३ ॥

स मरुत्तश्चक्रवर्ती नरिष्यन्तनामानं पुत्रम-
 व्यप ॥ ३४ ॥ तस्माच्च दमः ॥ ३५ ॥ दमस्य पुत्रो राज-
 वर्द्धनो जज्ञे ॥ ३६ ॥ राजवर्द्धनात्सुवृद्धिः ॥ ३७ ॥

बुधने अनुरक्त होकर उस स्त्रीसे पुरूरवा नामक
 पुत्र उत्पन्न किया ॥ १२ ॥ पुरूरवाके जन्मके अनन्तर
 भी परमर्षिगणने सुद्युम्नको पुरुषत्वलाभकी आकांक्षासे
 क्रतुमय ऋद्धयजुःसामाथर्वणय, सर्ववेदमय, मनोमय,
 ज्ञानमय, अन्मय और परमायतः अकिंचिन्मय भगवान्
 यज्ञपुरुषका यथायद् यजन किया। तब उनकी कृपासे
 इला फिर भी सुद्युम्न हो गयी ॥ १३ ॥ उस (सुद्युम्न)-
 के भी उत्कल, गय और विनत नामक तीन पुत्र
 हुए ॥ १४ ॥ पहले स्त्री होनेके कारण सुद्युम्नको रान्धविकर
 प्राप्त नहीं हुआ ॥ १५ ॥ वसिष्ठजीके कठनेसे उनके
 पित्राने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही
 उन्होंने पुरूरवाको दिया ॥ १६ ॥

पुरूरवाको सन्तान सम्पूर्ण दिशाओंमें फैले हुए
 क्षत्रियगण हुए। मनुका पृथक् नामक पुत्र गुरुकी गौत्र
 बध करनेके कारण शूद्र हो गया ॥ १७ ॥ मनुका पुत्र
 करुष था। करुषसे कारुष नामक महाबली और
 पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न हुए ॥ १८ ॥ दिष्टका पुत्र
 नभाग वैश्य हो गया था; उससे बलन्धन नामका पुत्र
 हुआ ॥ १९ ॥ बलन्धनसे मज्ञान् कीर्तिमान् यत्सप्रीति,
 यत्सप्रीतिसे प्रांशु और प्रांशुसे प्रजापति नामक इकलौता
 पुत्र हुआ ॥ २०—२१ ॥ प्रजापतिसे खनित्र, खनित्रसे
 चाक्षुष तथा चाक्षुषसे अति बल-पराक्रम-सम्पन्न विश
 हुआ ॥ २३—२५ ॥ विंशसे विविंशक, विविंशकसे खनिनेत्र,
 खनिनेत्रसे अतिविभूति और अतिविभूतिसे अति बलन्धन्
 और शूरवीर करन्धम नामक पुत्र हुआ ॥ २६—२९ ॥
 करन्धमसे अविक्षित हुआ और अविक्षितके मरुत
 नामक अति बल-पराक्रमयुक्त पुत्र हुआ, जिसके
 विषयमें आजकल भी ये दो श्लोक गाये जाते
 हैं ॥ ३०—३१ ॥

'मरुत्तका वैसा यज्ञ हुआ या वैसा इस पूर्वियोंपर
 और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएँ
 सुवर्णमय और अति सुन्दर थीं ॥ ३२ ॥ उस कठने
 हन्त्र स्रोपरस्त्रसे और आद्यपगण दक्षिणासे परितुल्य हो
 गये थे, तथा उसमें मरुद्गण परोसनेवाले और देवगण
 सदस्य थे' ॥ ३३ ॥

उस चक्रवर्ती मरुत्तके नरिष्यन्त नामक पुत्र हुआ
 तथा नरिष्यन्तके दम और दमके राजवर्द्धन नामक
 पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३४—३६ ॥ राजवर्द्धनसे सुवृद्धि

सुवृद्धेः केवलः ॥ ३८ ॥ केवलात्सुधृतिर-
भूत् ॥ ३९ ॥ ततश्च नरः ॥ ४० ॥ तस्मा-
च्चन्द्रः ॥ ४१ ॥ ततः केवलोऽभूत् ॥ ४२ ॥
केवलाद्दन्धुमान् ॥ ४३ ॥ धन्धुमतो वेगवान् ॥ ४४ ॥
वेगवतो बुधः ॥ ४५ ॥ ततश्च तृणबिन्दुः ॥ ४६ ॥
तस्याप्येका कन्या इलविला नाम ॥ ४७ ॥
ततश्चालम्बुषा नाम क्षराप्सरास्तृणबिन्दु
भजे ॥ ४८ ॥ तस्यामप्यस्य विशालो जज्ञे
यः पुरीं विशालां निर्ममे ॥ ४९ ॥

हेमचन्द्रश्च विशालस्य पुत्रोऽभवत् ॥ ५० ॥
ततश्चन्द्रः ॥ ५१ ॥ तत्तपयो धृष्टाक्षः ॥ ५२ ॥ तस्यापि
सृञ्जयोऽभूत् ॥ ५३ ॥ सृञ्जयात्सहदेवः ॥ ५४ ॥
ततश्च कृशाश्वो नाम पुत्रोऽभवत् ॥ ५५ ॥
सोमदत्तः कृशाश्वान्जज्ञे योऽश्वमेधानां
शतयाजहार ॥ ५६ ॥ तत्पुत्रो जनमेजयः ॥ ५७ ॥
जनमेजयात्सुमतिः ॥ ५८ ॥ एते वैशालिका
भूभृतः ॥ ५९ ॥ श्लोकोऽप्यत्र गीयते ॥ ६० ॥

तृणबिन्दोः प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः ।
दीर्घाबुधो महत्मानो वीर्यवन्तोऽतिधार्मिकाः ॥ ६१

शर्यतिः कन्या सुकन्या नामाभवत्,
यामुपयेमे च्यवनः ॥ ६२ ॥ आनर्त्तनामा परम-
धार्मिकश्शर्यातिपुत्रोऽभवत् ॥ ६३ ॥ आनर्त्तस्यापि
रैवतनामा पुत्रो यज्ञे योऽसावानर्त्तविषयं बुभुजे
पुरीं च कुशास्थलीमध्युवास ॥ ६४ ॥

रैवतस्यापि रैवतः पुत्रः ककुथिनामा धर्मात्मा
भ्रातृशतस्य ज्येष्ठोऽभवत् ॥ ६५ ॥ तस्य रैवती
नाम कन्याभवत् ॥ ६६ ॥ स तामादाय कस्केव-
मईतीति भगवन्तमब्जयोनिं प्रष्टुं ब्रह्मलोकं
जगाम ॥ ६७ ॥ तावच्च ब्रह्मणोऽनितिके
हाहाहूसंज्ञाभ्यां गन्धर्वाभ्यामसितानं नाम
दिव्यं गान्धर्वमगीयत् ॥ ६८ ॥ तच्च
त्रिमागंपरिसुत्तरमेकयुगपरिसुत्तिं तिष्ठन्पि
रैवतश्शृण्वन्मुहूर्त्तमिव मेने ॥ ६९ ॥

गीतावसाने च भगवन्तमब्जयोनिं प्रणम्य रैवतः

सुवृद्धिसे केवल और केवलसे सुवृत्तिका जन्म हुआ ॥ ३७—
३९ ॥ सुधृतिसे नर, नरसे चन्द्र और चन्द्रसे केवल
हुआ ॥ ४०—४२ ॥ केवलसे बन्धुमान्, बन्धुमान्से
वेगवान्, वेगवान्से बुध, बुधसे तृणबिन्दु तथा तृणबिन्दुसे
पङ्कले तो इलविला नामकी एक कन्या हुई थी, किन्तु पीछे
अलम्बुषा नामकी एक सुन्दरी अप्सरा उसपर अनुरक्त हो
गयी । उसी तृणबिन्दुके विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने
विशाला नामकी पुरी बसायी ॥ ४३—४९ ॥

विशालका पुत्र हेमचन्द्र हुआ, हेमचन्द्रका चन्द्र,
चन्द्रका धृष्टाक्ष, धृष्टाक्षका सृञ्जय, सृञ्जयका सहदेव और
सहदेवका पुत्र कृशाश्व हुआ ॥ ५०—५५ ॥ कृशाश्वके
सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने सौ अश्वमेध-यज्ञ
किये थे । उससे जनमेजय हुआ और जनमेजयसे
सुमतिका जन्म हुआ । ये सब विशालवंशीय राजा हुए ।
इनके विषयमें यह श्लोक प्रसिद्ध है ॥ ५६—६० ॥
'तृणबिन्दुके प्रसादसे विशालवंशीय समस्त राजालोग
वीर्यायु, महात्मा, वीर्यवान् और अति धर्मपरायण
हूए ॥ ६१ ॥

मनुपुत्र शर्यातिके सुकन्या नामवाली एक कन्या
हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषिके साथ हुआ ॥ ६२ ॥
शर्यातिके आनर्त्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र
हुआ । आनर्त्तके रैवत नामका पुत्र हुआ जिसने
कुशास्थली नामकी पुरीमें रहकर आनर्त्तदेशका राज्यभोग
किया ॥ ६३—६४ ॥

रैवतका भी रैवत ककुथी नामक एक अति
धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने सौ भाइयोंमें सबसे बड़ा
था ॥ ६५ ॥ उसके रैवती नामकी एक कन्या हुई ॥ ६६ ॥
मन्त्रराज रैवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मजीसे यह
पूछनेके लिये कि 'यह कन्ध किस दरके योग्य है'
ब्रह्मलोकको गये ॥ ६७ ॥ उस समय ब्रह्मजीके समीप
हाहा और हूहू नामक दो गन्धर्व अतितान नामक
दिव्य गान गा रहे थे ॥ ६८ ॥ वहाँ [गान-सम्बन्धी
शिवा, दक्षिणा और धात्री नामक] विमर्गिके परिवर्तनके
साथ उनका विलाक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगोंके
परिवर्तन-कालतक टहरनेपर भी रैवतजीको केवल
एक मुहूर्त्त ही बीता-सा घाल्य हुआ ॥ ६९ ॥

गान समाप्त हो जानेपर रैवतने भगवान् कन्धयोगिकी

कन्यायोग्यं वरमपृच्छत् ॥ ७० ॥ ततश्चासी
भगवानकथयत कथय चोऽभिमतस्ते वर
इति ॥ ७१ ॥ पुनश्च प्रणम्य भगवते तस्मै
यथाभिमतानात्पनस्स वरान् कथयामास ।
क एषां भगवतोऽभिमत इति यस्मै
कन्याभिषां प्रवच्छामीति ॥ ७२ ॥

ततः किञ्चिद्वनतशियस्स्वमितं भगवानब्ज-
योनिराह ॥ ७३ ॥ य एते भवतोऽभिमता
नैतेषां साम्प्रतं पुत्रपौत्रापत्यापत्यसन्ततिरस्त्य-
वनीतले ॥ ७४ ॥ बहूनि तवात्रैव गान्धर्व
शृण्वतश्चतुर्युगान्यतीतानि ॥ ७५ ॥ साम्प्रतं
महीतलेऽष्टाविंशतितमपनोश्चतुर्युगमतीतप्रायं
वर्तते ॥ ७६ ॥ आसन्नो हि कलिः ॥ ७७ ॥
अन्यस्मै कन्यास्त्वमिदं भवतैकाकिनाभिमताय
देयम् ॥ ७८ ॥ भवतोऽपि पुत्रमित्रकलत्रमन्त्रि
भृत्यबन्धुबलकोशादयस्समस्ताः काले-
नैतेनात्यन्तमतीताः ॥ ७९ ॥

ततः पुनरप्युत्पन्नसाध्वसो राजा भगवन्तं
प्रणम्य पप्रच्छ ॥ ८० ॥ भगवन्नेयमवस्थिते मयेवं
कस्मै देयेति ॥ ८१ ॥ ततस्स भगवान्
किञ्चिद्वनप्रकथारः कृताब्जलिर्भूत्वा
सर्वलोकगुरुस्भोजयोनिराह ॥ ८२ ॥

श्रीब्रह्मोवाच

न ह्यादिमध्यान्तमजस्य यस्य
विद्यो वयं सर्वमयस्य धातुः ।
न च स्वरूपं न परं स्वभावं
न चैव सारं परमेश्वरस्य ॥ ८३ ॥
कलामुहूर्तादिमयश्च कालो
न यद्विभूतेः परिणामहेतुः ।
अजन्मनाशस्य सदैकमूर्ते-
रनामरूपस्य सनातनस्य ॥ ८४ ॥
यस्य प्रसादादहमच्युतस्य
भूतः प्रजासृष्टिकरोऽन्तकारी ।
क्रोधाच्च रुद्रः स्थितिहेतुभूतो
यस्माच्च मध्ये पुरुषः परस्मात् ॥ ८५ ॥

प्रणाम कर उनसे अपनी कन्याके योग्य वर
पूछा ॥ ७० ॥ भगवान् बहाने कहा—“तुम्हें जो वर
अभिमत हों उन्हें बताओ” ॥ ७१ ॥ तब उन्होंने
भगवान् ब्रह्माजीको पुनः प्रणाम कर अपने समस्त
अभिमत वरोंका वर्णन किया और पूछा कि
‘इनमेंसे आपको कौन वर पसन्द है जिसे मैं यह
कन्या दूँ?’ ॥ ७२ ॥

इसपर भगवान् कमलचोनि कुछ सिर झुकाकर
पुसकते हुए बोले— ॥ ७३ ॥ “तुमको जो-जो वर
अभिमत हैं उनमेंसे तो अब पृथिवीपर किसीके पुत्र-
पौत्रादिकी सन्तान भी नहीं है ॥ ७४ ॥ क्योंकि यहाँ
गन्धर्वोंका गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीट चुके
हैं ॥ ७५ ॥ २४ समस पृथिवीरालपर बहार्द्धसर्वे मनुका
चतुर्युग प्रायः सम्पन्न हो चुका है ॥ ७६ ॥ तथा कलियुग
प्रारम्भ होनेवाला है ॥ ७७ ॥ अब तुम [अपने समान]
अकेले ही रह गये हो, अतः यह कन्या-रत्न किसी
और योग्य वरको दो। इतने समयमें तुम्हारे पुत्र,
मित्र, कलत्र, मन्त्रिवर्ग, भृत्यगण, बन्धुगण, सेना और
कोशादिका भी सर्वथा अभाव हो चुका है” ॥ ७८-
७९ ॥ तब तो राजा रैवतने अत्यन्त भयभीत हो
भगवान् ब्रह्माजीको पुनः प्रणाम कर पूछा— ॥ ८० ॥
‘भगवन्! ऐसी बात है, तो अब मैं इसे किसको
दूँ?’ ॥ ८१ ॥ तब सर्वलोकगुरु भगवान् कमलचोनि
कुछ सिर झुकाये हाथ जोड़कर बोले ॥ ८२ ॥

श्रीब्रह्माजीने कहा—जिस अजन्मा, सर्वमय,
विधाता परमेश्वरका अति, मध्य, अन्त, स्वरूप,
स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते ॥ ८३ ॥
कलामुहूर्तादिमय काल भी जिसकी विभूतिके
परिणामका कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म
और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वव्य-
एकरूप है तथा जो नाम और रूपसे रहित है ॥ ८४ ॥
जिस अच्युतकी कृपासे मैं ब्रह्माका उत्पत्तिकर्ता हूँ,
जिसके क्रोधसे उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टिकार अन्तकर्ता
है तथा जिस परमात्मसे मध्यमें जगत्स्थितिकारी
विष्णुरूप पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ है ॥ ८५ ॥

मद्रूपमास्थाय सृजत्यजो यः
 स्थितौ च योऽसौ पुरुषस्वरूपी ।
 रुद्रस्वरूपेण च योऽस्ति विश्वं
 धत्ते तथानन्तवपुस्समस्तम् ॥ ८६ ॥
 पाकाय योऽग्नित्वमुपैति लोका-
 न्विभर्ति पृथ्वीवपुर्व्ययात्मा ।
 शक्रादिरूपी परिपति विश्व-
 मकेंदुरूपपृथ्व तमो हिनस्ति ॥ ८७ ॥
 करोति चेष्टाश्चसनस्वरूपी
 लोकस्य तृप्तिं च जलानरूपी ।
 ददाति विश्वस्थितिसंस्थितस्तु
 सर्वावकाशं च नभस्वरूपी ॥ ८८ ॥
 यस्सृज्यते सर्गकृदात्मनैव
 यः पाल्यते पालयित्ता च देवः ।
 विश्वात्मकस्संहियतेऽन्तकारी
 पृथक् त्रयस्यास्य च योऽव्ययात्मा ॥ ८९ ॥
 यस्मिञ्जगद्यो जगदेतदाद्यो
 यश्चाभितोऽस्मिञ्जगति स्वयम्भूः ।
 ससर्वभूतप्रभवो धरित्र्यां
 स्वांशेन विष्णुर्नृपतेऽवतीर्णः ॥ ९० ॥
 कुशस्थली चा तव भूप रम्या
 पुरो पुराभूदमरावतीव ।
 स द्वारका सम्प्रति तत्र चास्ते
 स केशवांशो बलदेवनामा ॥ ९१ ॥
 तस्मै त्वमेनां तनयां नरेन्द्र
 प्रयच्छ मायामनुजाय जायाम् ।
 श्लाघ्यो वरोऽसौ तनया तवेयं
 स्त्रीरत्नभूता सदृशो हि योगः ॥ ९२ ॥
 श्रीपराशर उवाच
 इतीरितोऽसौ कमलोद्भवेन
 भुवं समासाद्य पतिः प्रजानाम् ।
 ददर्श ह्रस्वान् पुरुषान् विरूपा-
 नल्पौजसस्वरूपविवेकवीर्यान् ॥ ९३ ॥

जो अजन्मा मेरा रूप धारणकर संसारको रचना करता है, स्थितिके समय जो गुरुपरूप है तथा जो रुद्ररूपसे सम्पूर्ण विश्वका प्रास कर जाता है एवं अनन्तरूपसे सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है ॥ ८६ ॥ जो अव्ययात्मा पाकके लिये अग्निरूप हो जाता है, पृथिवीरूपसे सम्पूर्ण लोकोंको धारण करता है, इन्द्रादिरूपसे विश्वका पादन करता है और सूर्य तथा चन्द्ररूप होकर सम्पूर्ण अन्धकारका नाश करता है ॥ ८७ ॥ जो स्वास-प्रश्वासरूपसे जीवोंमें चेष्टा करता है, जल और अन्नरूपसे लोककी तृप्ति करता है तथा विश्वकी स्थितिमें संलग्न रहकर जो आकाशरूपसे सबको अवकाश देता है ॥ ८८ ॥ जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्वरूपसे आप ही अपना रचना करता है, जगत्को पालन करनेवाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संहृत होता है और जो इन तीनोंसे पृथक् इनका अविनाशो आत्मा है ॥ ८९ ॥ जिसमें यह जगत् स्थित है, जो आदिपुरुष जगत्-ध्वरूप है और इस जगत्के ही आश्रित तथा स्वयम्भू है, हे नृपते! सम्पूर्ण भूतोंका उद्धाररथान यह जिय्यु धरातलमें अपने अंशसे अवतीर्ण हुआ है ॥ ९० ॥

हे राजन्! पूर्वकालमें तुम्हारी जो अमरावतीके समान कुशस्थली नामकी पुरो थी वह अब द्वारकापुरी हो गयी है। वहीं वे बलदेव नामक भगवान् विष्णुके अंश विराजमान हैं ॥ ९१ ॥ हे नरेन्द्र! तूए यह कन्या तनू मायामानव श्रीबलदेवजीको पत्नीरूपसे दो। ये बलदेवजी संसारमें अति प्रसांसनीय हैं और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियोंमें रत्नस्वरूपा है, अतः इनकी योग शर्द्धा उपयुक्त है ॥ ९२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—भगवान् ब्रह्मरुकीके ऐसा कठनेपर प्रजापति रैवत पृथिवीतलपर आये तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे-छोटे, कुरूप, अल्पवेजीमय, अल्पवीर्य तथा विवेकहीन हो गये हैं ॥ ९३ ॥

कुशस्थलीं तां च पुरीमुपेत्य
 दृष्ट्वान्यरूपां प्रददां स कन्याम् ।
 सीरायुभाव स्फटिकास्तम्भ-
 वक्षःस्थलायात्तुलधीर्नरेन्द्रः ॥ १४ ॥
 उच्चप्रमाणामिति तामवेक्ष्य
 स्वलाङ्गलाग्रेण च तालकेतुः ।
 विनप्रयामास ततश्च सापि
 बभूव सद्यो वनिता यथान्या ॥ १५ ॥
 तां रेवतीं रेवतभूपकन्यां
 सीरायुधोऽसीं विधिनोपयेमे ।
 दत्त्वाथ कन्यां स नृपो जगाम
 हिमालयं वै तपसे धृतात्मा ॥ १६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थोऽंशे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय

ब्रह्माकुके वंशका घर्जन तथा सीभरिचरित्र

श्रीपराशर उवाच

घातञ्च ब्रह्मलोकस्स ककुम्भी रेवतो नाभ्येति
 तावत्पुण्यजनसंज्ञा गङ्गासास्तामस्य पुरीं कुशस्थलीं
 निजजुः ॥ १ ॥ तच्चास्य भ्रातृशतं पुण्यजन-
 प्रासाद्विशो भेजे ॥ २ ॥ तदन्वयाश्च क्षत्रिया-
 स्सर्पदिक्ष्वभवन् ॥ ३ ॥ धृष्टस्यापि धार्ष्टकं
 क्षत्रमभवत् ॥ ४ ॥ नाभागस्यात्मजो नाभाग-
 संज्ञोऽभवत् ॥ ५ ॥ तस्याप्यम्बरीषः ॥ ६ ॥
 अम्बरीषस्यापि विरूपोऽभवत् ॥ ७ ॥ विरूपा-
 त्युषदश्वो जज्ञे ॥ ८ ॥ ततश्च रथीतरः ॥ ९ ॥
 अत्रार्यं श्लोकः —

एते क्षत्रप्रभूता वै पुनश्चाङ्गिरसाः स्मृताः ।
 रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ १० ॥

श्रुतवतश्च मनोरिक्ष्वाकुः पुत्रो जज्ञे
 घ्राणतः ॥ ११ ॥ तस्य पुत्रशतप्रधाना विकुक्षि-
 निमिदण्डाख्याखयः पुत्रा बभूवुः ॥ १२ ॥ शकुनि-
 प्रमुखाः पञ्चाप्तपुत्रा उन्नतपथक्षित्तरो बभूवुः ॥ १३ ॥

अतुलबुद्धि महाराज रेवतने अपनी कुशस्थली
 नामकी पुरी और ही प्रकारकी देखी तथा स्फटिक-
 पर्वतके समान जिनका वक्षःस्थल है उन
 भगवान् स्वलायुधका अपनी कन्या दे दी ॥ १४ ॥
 भगवान् बलदेवजीने उसे बहुत ऊँची देखकर
 अपने हलके अग्रभागसे दबाकर नीची कर ली।
 तब देवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियोंके
 समान (छोटे शरीरकी) हो गयी ॥ १५ ॥
 तदनन्तर बलरामजीने महाराज रेवतकी कन्या
 रेवतीसे विधिपूर्वक विवाह किया तथा राजा
 भी कन्यादान करनेके अनन्तर एकाग्रचित्तसे
 तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले
 गये ॥ १६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—जिस समय रेवत
 ककुम्भी ब्रह्मलोकसे लौटकर नहीं आये थे उसी
 समय पुण्यजन नामक गङ्गासे उन्नी पुरी कुशस्थलीका
 घंस कर दिया ॥ १ ॥ उनके सौ भाई पुण्यजन गङ्गाके
 मुखसे दसों दिशाओंमें भाग गये ॥ २ ॥ उन्हींके वंशमें
 उत्पन्न हुए क्षत्रियगण समस्त दिशाओंमें फैले ॥ ३ ॥
 धृष्टके वंशमें धार्ष्टक नामक क्षत्रिय हुए ॥ ४ ॥

नाभागके नाभाग नामक पुत्र हुआ, नाभागका
 अम्बरीष और अम्बरीषका पुत्र विरूप हुआ। विरूपसे
 युषदश्वका जन्म हुआ तथा उससे रथीतर हुआ ॥ ५—९ ॥
 रथीतरके सम्बन्धमें यह श्लोक प्रसिद्ध है—‘रथीतरके
 वंशका क्षत्रिय सन्तान होते हुए भी आंगिरस कहलाये;
 अतः ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए’ ॥ १० ॥

छीकनेके समय यमुकी प्राणेंद्रियसे श्वकु
 नामक पुत्रका जन्म हुआ ॥ ११ ॥ उनके सौ पुत्रोंमें
 विकुक्षि, निमि और दण्ड नामक तीन पुत्र प्रधान हुए
 तथा उनके शकुनि आदि पञ्चस पुत्र उत्तरपथके और सौ

सत्वारिंशदष्टौ च दक्षिणापथभूयासाः ॥ १४ ॥
 स चेक्ष्वाकुरष्टकायाश्चाद्भुत्पाद्य आद्भुत्
 मांसमानयेति विकुक्षिमाज्ञापयामास ॥ १५ ॥
 स तथेति गृहीताज्ञो विधृतशरामनो वनमध्ये-
 त्यानेकशो मुगान् हत्वा श्रान्तोऽतिक्रुत्यरीतो
 विकुक्षिरेकं शशमभक्षयत् ॥ शेषं च मांसमानीय
 पित्रे निवेदयामास ॥ १६ ॥

इक्ष्वाकुकुलाचार्यो वसिष्ठस्तत्रोक्षणाय
 द्योदितः प्राह ॥ अलमनेनामेध्येनामिषेण दुरात्मना
 तत्र पुत्रेणैतन्मांसमुपहतं यतोऽनेन शशो
 भक्षितः ॥ १७ ॥ तत्रश्चासौ विकुक्षिर्गुरुणैवमुक्त-
 श्शशादसंज्ञामवाप पित्रा च परित्यक्तः ॥ १८ ॥
 पितर्युपरते चासावखिलामेतां पृथ्वीं धर्मत-
 श्शशास ॥ १९ ॥ शशादस्य तस्य पुरज्जयो नाम
 पुत्रोऽभवत् ॥ २० ॥

तस्मेदं चान्यत् ॥ २१ ॥ पुरा हि त्रेतायां
 देवासुरबुद्धमतिभीषणमभवत् ॥ २२ ॥ तत्र
 चातिबलिभिरसुरैरमराः पराजितास्ते भगवन्तं
 विष्णुमाराधयान्वक्तुः ॥ २३ ॥ प्रसन्नश्च
 देवानामनादिनिघ्नोऽखिलजगत्पराधणो नारायणः
 प्राह ॥ २४ ॥ ज्ञातमेतन्मया युष्माभिर्वदधिलपितं
 तदर्थमिदं श्रूयताम् ॥ २५ ॥ पुरज्जयो नाम
 राजर्षेशशादस्य तनयः क्षत्रियवरो यस्तस्य
 शरीरेऽहमंशेन स्वयमेवाचतीयं तानशेषा-
 नसुगान्निह्निष्यामि तद्भक्तद्विः पुरज्जयोऽसुरस्यार्थ-
 मुद्योगं कार्यतामिति ॥ २६ ॥

एतच्च श्रुत्वा प्रणम्य भगवन्तं विष्णुममराः
 पुरज्जयसकाशमाजगुरुचुश्चैनम् ॥ २७ ॥ भो
 भो क्षत्रियवरास्माभिरभ्यर्थितेन भवतास्माक-
 मरातिबधोद्यतानां कर्तव्यं साहाय्यमिच्छाम-
 स्तद्भवतास्माकमभ्यागतानां प्रणयभङ्गो न कार्य
 इत्युक्तः पुरज्जयः प्राह ॥ २८ ॥ त्रैलोक्यनाथो
 योऽयं युष्माकमिन्द्रः शतक्रतुरस्य यद्यहं
 स्कन्धाधिरुद्धो युष्माकमरातिभिस्तह योत्ये तदहं
 भवतां सहायः स्याम ॥ २९ ॥

अद्भुतालीस दक्षिणापथके शासक हुए ॥ १२-१४ ॥
 इक्ष्वाकुने अश्वकीश्राद्धका आरम्भ कर अपने पुत्र
 विकुक्षिको आज्ञा दी कि श्राद्धके योग्य मांस
 लक्ष्यो ॥ १५ ॥ उसने 'बहुत अच्छा' कह कर उनकी आज्ञाकी
 शिरोधार्य किया और धनुष-बाण लेकर वनमें आ
 अनेकों मुर्गोंका वध किया, किन्तु अति थका-मंदा
 और अत्यन्त भूखा होनेके कारण विकुक्षिने उनमेंसे
 एक शशाक (खरगोश) खा लिया और बचा हुआ
 मांस लाकर अपने पिताको निवेदन किया ॥ १६ ॥

उस मांसका प्रोक्षण करनेके लिये प्रार्थना किये
 जानेपर इक्ष्वाकुके कुल-पुरोहित वसिष्ठजीने कहा— "इस
 अपवित्र मांसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा
 पुत्रने इसे श्रुत कर दिया है, क्योंकि उसने इसमेंसे एक
 शशाक खा लिया है" ॥ १७ ॥ गुरुके ऐसा कहनेपर शशोसे
 विकुक्षिका नाम शशाद पड़ा और पिताने उसको त्याग
 दिया ॥ १८ ॥ पिताके परनेके अनन्तर उसने इस पृथिवीका
 धर्मनुसार शासन किया ॥ १९ ॥ उस शशादके पुरजय नामक
 पुत्र हुआ ॥ २० ॥

पुरजयका भी यह एक दूसरा नाम पड़ा— ॥ २१ ॥
 पूर्वकालमें त्रेतायुगमें एक बार अति भीषण देवासुरसंग्राम
 हुआ ॥ २२ ॥ उसमें महाबलवान् दैत्यगणसे पराजित हुए
 देवताओंने भगवान् विष्णुको आराधना की ॥ २३ ॥ तब
 आदि-अन्त-सून्य, अंशय जगत्प्रतिपालक, श्रीनाथवर्णने
 देवताओंसे प्रसन्न होकर कहा— ॥ २४ ॥ "अपलोगोंका
 जो कुछ अभीष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषयमें
 यह बात सुनिये— ॥ २५ ॥ राजर्षि शशादका जो पुरजय
 नामक पुत्र है उस क्षत्रियश्रेष्ठके शरीरमें मैं अंशमात्रसे
 स्वयं अवतर्ण होकर उन सम्पूर्ण दैत्योंका नाश करूँगा।
 अतः तुमलोग पुरजयको दैत्योंके यथके लिये तैयार
 करो" ॥ २६ ॥

यह सुनकर दैत्यताओंने विष्णुभगवान्को प्रणाम किया
 और पुरजयके पास आकर उससे कहा— ॥ २७ ॥ "हे
 क्षत्रियश्रेष्ठ! हमलोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओंके अधमें
 प्रवृत्त हमलोगोंको आप सहायता करें। हम अभ्यागत
 खनोंका आप मानभंग न करें।" यह सुनकर पुरजयने
 कहा— ॥ २८ ॥ "ये जो त्रैलोक्यनाथ शतक्रतु आपलोगोंके
 इन्द्र हैं यदि मैं इनके कन्धेपर चढ़कर आपके शत्रुओंसे
 युद्ध कर सकूँ तो आपलोगोंका सहायक हो सकता हूँ" ॥ २९ ॥

इत्याकण्ड्यं समस्तदेवैरिन्द्रेण च ब्राह्मिण्येवं
समन्वीप्सितम् ॥ ३० ॥ ततश्च शतक्रतोर्युष्करूप-
धारिणः ककुद्दि स्थितोऽतिरोषसमन्वितो भगवत-
श्चराचरगुरोरच्युतस्य तेजसाप्यायितो देवासुर-
सङ्ग्रामे समस्तानेवासुरान्निजघान ॥ ३१ ॥
यतश्च वृषभककुदि स्थितेन राज्ञा दैतेष्वलं
निषूदितमतश्चासौ ककुत्स्थसंज्ञामवाप ॥ ३२ ॥
ककुत्स्थस्याप्यनेनाः पुत्रोऽभवत् ॥ ३३ ॥
पृथुरनेनसः ॥ ३४ ॥ पृथोर्विष्टराश्वः ॥ ३५ ॥
तस्यापि चान्द्रो युवनाश्वः ॥ ३६ ॥ चान्द्रस्य
तस्य युवनाश्वस्य शावस्तः यः पुरीं शावस्तीं
भिवेश्यामास ॥ ३७ ॥ शावस्तस्य बृहदश्वः ॥ ३८ ॥
तस्यापि कुवलयाश्वः ॥ ३९ ॥ योऽसासुदकस्य
महर्षेरपकारिणं धुन्धुनामानमसुरं वैष्णावेन
तेजसाप्यायितः पुत्रसहस्रैकविंशद्विः परिचृतो
जघान धुन्धुमारसंज्ञामवाप ॥ ४० ॥ तस्य च
तनयास्समस्ता एव धुन्धुमुखनिःश्वासाग्निना
विप्लुष्टा विनेशुः ॥ ४१ ॥ दृढाश्वचन्द्राश्व-
कपिलाशवाश्च त्रयः केवलं शेषिताः ॥ ४२ ॥
दृढाश्वान्द्वयैश्वः ॥ ४३ ॥ तस्माच्च निकुम्भः
॥ ४४ ॥ निकुम्भस्यामिताश्वः ॥ ४५ ॥ ततश्च
कृशाश्वः ॥ ४६ ॥ तस्माच्च प्रसेनजित् ॥ ४७ ॥
प्रसेनजितो युवनाश्वोऽभवत् ॥ ४८ ॥ तस्य
चापुत्रस्यातिनिर्येदान्मुनीनामाश्रममण्डले निवसतो
दयालुभिर्मुनिभिरपत्योत्पादनायेष्टिः कृता ॥ ४९ ॥
तस्यां च मध्यरात्रीं निवृत्तायां मन्त्रपूतजल-
पूर्णं कलशं वेदिमध्ये निवेश्य ते मुनयः
सुषुप्तुः ॥ ५० ॥ सुप्तेषु तेषु अतीव तृट्परीतस्स
भूपालस्तमाश्रमं विवेश ॥ ५१ ॥ सुप्ताश्व
तान्मूर्धनौद्योत्थापयामास ॥ ५२ ॥ तच्च कलश-
मपरिमेषमाहात्म्यमन्त्रपूतं पर्या ॥ ५३ ॥ प्रबुद्धाश्च
ऋषयः पप्रच्छुः केनैतमन्त्रपूतं वारि
पीतम् ॥ ५४ ॥ अत्र हि राज्ञो युवनाश्वस्य पत्नी
महाबलपराक्रम्यं पुत्रं जनयिष्यति । इत्याकण्ड्यं
स राज्ञा अजानतां मया पीतमित्याह ॥ ५५ ॥

यह सुनकर समस्त देवगण और इन्द्रने 'बहुता
अच्छा'—ऐसी कहकर उनका कथन स्वीकार कर
लिया ॥ ३० ॥ फिर वृषभ-रूपधारी इन्द्रको पीटकर
चढ़कर चरभिरगुरु भगवान् अच्युतके तेजसे परिपुर्ण
होकर राजा पुरंजयने रांपूर्वक सभी दैत्योंको पाट
झाला ॥ ३१ ॥ उस राजाने ब्रैलके ककुद् (कन्धे)-पर
बैठकर दैत्यसैनाका वध किया था, अतः उसका नाम
ककुत्स्थ पड़ा ॥ ३२ ॥ ककुत्स्थके अनेना नामक पुत्र
हुआ ॥ ३३ ॥ अनेनाके पृथु, पृथुके विष्टराश्व, उनके चाद
युवनाश्व तथा उस चाद्रे युवनाश्वके शावस्त नामक पुत्र
हुआ जिसने शावस्ती पुरी बसायी थी ॥ ३४—३७ ॥
शावस्ताके बृहदश्व तथा बृहदश्वके कुवलयाश्वका
जन्म हुआ, जिसने सैष्णवतरोजसे पूर्णता लाभ कर
अपने इक्कीस सहस्र पुत्रोंके साथ मिलकर महर्षि
उदकके अपकारी धुन्धु नामक दैत्यको मारा था;
अतः 'धुन्धु' नाम धुन्धुमार हुआ ॥ ३८—४० ॥ उनके
सभी पुत्र धुन्धुके मुखसे निकले हुए निःश्वासाग्निदे
जलकर मर गये ॥ ४१ ॥ उनमेंसे केवल दृढाश्व, चन्द्राश्व
और कपिलाश्व—ये तीन ही बचे थे ॥ ४२ ॥

दृढाश्वसे हर्यश्व, द्वयैश्वसे निकुम्भ, निकुम्भसे
अमिताश्व, अमिताश्वसे कृशाश्व, कृशाश्वसे प्रसेनविद्
और प्रसेनवित्से युवनाश्वका जन्म हुआ ॥ ४३—४८ ॥
युवनाश्व निःसन्तान होनेके कारण खिन चित्तसे
मुनीश्वरोंके आश्रमोंमें रहा करतः था; उसके दुःखदे
ईश्वीभूत होकर दयालु मुनिबानोंने उसके पुत्र उत्पन्न
होनेके लिये यज्ञानुष्ठान किया ॥ ४९ ॥ आधी रातके
समय उस यज्ञके समाप्त होनेपर मुनिजन मन्त्रपूत
जलका कलश वेदीमें रखकर सो गये ॥ ५० ॥ उनके
सो जानेपर अत्यन्त पिपासाकुल होकर राजाने ठस
स्थानमें प्रवेश किया । और सोये होनेके कारण उन
ऋषियोंको उन्होंने नहीं जगाया ॥ ५१—५२ ॥ तथा उस
अपरिपित्त माहात्म्यशाली कलशके मन्त्रपूत जलको
पी लिया ॥ ५३ ॥ जागनेपर ऋषियोंने पूछा—'इस मन्त्रपूत
जलको किसने पिया है?' ॥ ५४ ॥ इसका पान करनेपर
हो युवनाश्वकी पत्नी महाबलविक्रमशील पुत्र उत्पन्न
करेगी।' यह सुनकर राजाने कहा—'मैंने ही बिना
जाने यह जल पी लिया है' ॥ ५५ ॥

गर्भश्च युवनाश्वस्योदरे अभवत् क्रमेण च
वसुधे ॥ ५६ ॥ प्राप्तसमयश्च दक्षिणां कुक्षिमन्-
निपतेर्निधिद्य निश्चक्राम ॥ ५७ ॥ न चासौ राजा
ममार ॥ ५८ ॥

जातो नामैष कं धास्यतीति ते पुनयः
प्रोचुः ॥ ५९ ॥ अथागत्य देवराजोऽब्रवीत्
मामवं धास्यतीति ॥ ६० ॥ ततो मान्धातुनामा
सोऽभवत् । ववने चास्य प्रदेशिनी देवेन्द्रेण न्यस्ता
तां पयो ॥ ६१ ॥ तां चामृतस्त्राविणीमास्वाध्वाह्वैस्य
स स्ववर्द्धत ॥ ६२ ॥ ततस्तु मान्धाता चक्रवर्ती
सप्तद्वीपां भर्ता सुभुजे ॥ ६३ ॥ तत्रायं
श्लोकः ॥ ६४ ॥

यावत्सूर्य उदेत्यस्तं यावच्च प्रतिष्ठति ।

सर्वं तद्दीविनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुष्यते ॥ ६५

मान्धाता शतविन्दोर्दुहितरं विन्दुमती-
मुपयेमे ॥ ६६ ॥ पुरुकुत्समम्बरीषं मुत्सुकुन्दं च
तस्यां पुत्रत्रयमुत्पादयामास ॥ ६७ ॥ पञ्चाशद्-
दुहितरस्तस्यामेव तस्य नृपतेर्बभूवुः ॥ ६८ ॥

तस्मिन्नन्तरे बह्वृचश्च सौभरिर्नाम
महर्षिरन्तर्जले द्वादशार्ध कालमुवास ॥ ६९ ॥
तत्र चान्तर्जले सम्पदो नामातिबहुप्रजोऽति-
मात्रप्रमाणो मीनाधिपतिरासीत् ॥ ७० ॥ तस्य
च पुत्रपौत्रदौहित्राः पृष्ठतोऽग्रतः पार्श्वयोः
पक्षपुच्छशिरसां चोपरि भ्रमन्तस्तेनैव
सदाहर्निशमतिनिर्वृता रेभिरे ॥ ७१ ॥ स
चापत्यस्पर्शोपचीयमानप्रहर्षप्रकर्षो बहुप्रकारं
तस्य ऋधेः पश्यतस्तीरात्मजपुत्रपौत्रदौहित्रादिभिः
सहानुदिनं सुतरां रेमे ॥ ७२ ॥
अथान्तर्जलावस्थितस्सौभरिरेकाग्रतस्समाधिम-
पह्वयानुदिनं तस्य मत्स्यस्यात्मजपुत्रपौत्रदौहित्रा-
दिभिस्सहतिरमणीयतामवेक्ष्याच्चिन्तयत् ॥ ७३ ॥
अहो धन्योऽयमीदृशमणभिमत्तं योन्यन्तर-
मवाप्यैभिरात्मजपुत्रपौत्रदौहित्रादिभिस्सह
रममाणोऽतीवास्माकं स्पृहामुत्पादयति ॥ ७४ ॥

अतः युवनाश्वके उदरमें गर्भ स्थापित हो गया
और क्रमशः बढ़ने लगा ॥ ५६ ॥ यथासमय बालक
राजाकी दायीं कोख फाड़कर निकल आया ॥ ५७ ॥
किन्तु इससे राजाकी मृत्यु नहीं हुई ॥ ५८ ॥

उसके जन्म लेनेपर मुनियोंने कहा—“यह बालक
क्या पान करके जीवित रहेगा ?” ॥ ५९ ॥ उसी समय
देवराज इन्द्रे ने आकर कहा—“यह मेरे आश्रय-जीवित
रहेगा” ॥ ६० ॥ अतः उसका नाम मान्धाता हुआ। देवेन्द्रे ने
उसके मुखमें अपनी तर्जनी (अँगूठेके पासकी) अँगुली
दे दी और वह उस घेने लगा। उस अमृतमयी
अँगुलीका आस्वादन करनेसे वह एक ही दिनमें बड़
गया ॥ ६१-६२ ॥ तभीसे चक्रवर्ती मान्धाता सप्तद्वीपा
पृथिवीका राज्य भोगने लगा ॥ ६३ ॥ इसके विषयमें
यह श्लोक कहा जाता है ॥ ६४ ॥

‘जहाँसे सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त
होता है वह सभी क्षेत्र मुक्तिराश्वके पुत्र मान्धाताका
है’ ॥ ६५ ॥

मान्धाताने शतविन्दुकी पुत्री विन्दुमतीसे विवाह
किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीष और मुत्सुकुन्द
नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये तथा उसी (विन्दुमती)-
से उनके पचास कन्याएँ हुई ॥ ६६-६८ ॥

उसो समय बह्वृच सौभरि नामक महर्षिने बारह
वर्षतक जलमें निवास किया ॥ ६९ ॥ उस जलमें सम्पद
नामक एक बहुत-सो सन्तानवाला और अति दीर्घकाय
मत्स्यराज था ॥ ७० ॥ उसके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि
उसके आगे-पीछे तथा इधर-उधर पक्ष, पुच्छ और सिरके
ऊपर घूमते हुए अति आनन्दित होकर रात-दिन उसीके
साथ क्रीडा करते रहते थे ॥ ७१ ॥ तथा वह भी अपनी
सन्तानके सुकोमल स्पर्शसे अत्यन्त हर्षयुक्त होकर उन
मुनिराजके देखते-देखते अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र
आदिके साथ अहर्निश क्रीडा करता रहता था ॥ ७२ ॥

इस प्रकार जलमें स्थित सौभरि ऋषिने एकाग्रतारूप
समाधिको छोड़कर रात-दिन उस मत्स्यराजकी अपने
पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके साथ अति रमणीय क्रीडाओंको
देखकर विचार किया— ॥ ७३ ॥ ‘अहो! यह धन्य है,
जो ऐसी अनिष्ट भोगिनेमें उत्पन्न होकर भी अपने इन
पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके साथ निरन्तर रमण
करता हुआ हमारे इन्द्रियमें ब्रह्म उत्पन्न करता है ॥ ७४ ॥

अयमप्येवं पुत्रादिभिस्सह ललितं रस्यामहे
इत्येवमभिकाङ्क्षन् स तस्मादनर्जलान्निष्काम्य
सन्तानाय निवेष्टुकामः कन्यार्थं मान्धातारं
राजानमगच्छत् ॥ ७५ ॥

आगमनश्चवर्षासमनन्तरं चोत्थाय तेन राज्ञा
सम्यग्ध्यादिना सम्पूजितः कृतासनपरिग्रहः
सौभरिरुवाच राजानम् ॥ ७६ ॥

सौभरिरुवाच

निवेष्टुकामोऽस्मि नरेन्द्र कन्यां

प्रयच्छ मे मा प्रणयं विभाङ्क्षीः ।

न हार्थिनः कार्यवशादुपेताः

ककुत्स्थवंशे विमुखाः प्रयान्ति ॥ ७७ ॥

अन्येऽपि सन्येष नृपाः पृथिव्यां

मान्धातरेषां तनयाः प्रसूताः ।

किं त्वर्थिनामर्शितदानदीक्षा-

कृतवतं श्लाघ्यमिदं कुलं ते ॥ ७८ ॥

एतार्थसंख्यास्तव सन्ति कन्या-

स्तासां यदैकां नृपते प्रयच्छ ।

यत्प्रार्थनाभङ्गभयाद्भिभेमि

तस्मादहं राजवरातिदुःखात् ॥ ७९ ॥

श्रीपराशर उवाच

इति ऋषियज्ञमपाकर्ण्य स राजा जराजर्जरित
देहमृधिमालोक्य प्रत्याख्यानकातरस्तस्माच्च
ज्ञापभीतो विभ्यत्किञ्चिदधोमुखश्चिरं दध्या
च ॥ ८० ॥

सौभरिरुवाच

नरेन्द्र कस्मात्समुपैषि चिन्ता-

मसहामुर्त्ता न मयात्र किञ्चित् ।

यावश्यदेया तनया तयैव

कृतार्थता नो यदि किं न लब्धा ॥ ८१ ॥

श्रीपराशर उवाच

अद्य तस्य भगवतश्ज्ञापभीतस्सहस्रव्यस्तमुवा-
चासी राजा ॥ ८२ ॥

हम भी इसी प्रकार अपने पुत्रादिके साथ प्रति
ललित क्रीडाएँ करेंगे।' ऐसी अभिलाषा करते हुए वे
उस जलके भीतरसे निकल आये और सन्तानार्थ
गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेकी कामनासे कन्या ग्रहण
करनेके लिये राजा मान्धाताके पास आये ॥७५ ॥

मुनिवरका आगमन सुन राजाने उठकर
अर्घ्यदानादिसे उनका भली प्रकार पूजन किया।
तदनन्तर सौभरि मुनिने व्यासन ग्रहण करके राजासे
कहा ॥७६ ॥

सौभरिजी बोले—हे राजन्! मैं कन्या-परिग्रहका
अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो;
मेरा प्रणय भंग मत करो; ककुत्स्थवंशमें कार्यवश
आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली
हाथ नहीं लौटता ॥७७ ॥ हे मान्धाता! पृथिवीवस्तुमें
और भी अनेक राजालोक हैं और उनके
भी कन्याएँ उत्पन्न हुई हैं; किंतु याचकोंकी
माँगि हुई वस्तु दान देनेके नियममें दृढ़प्रवृत्त तो
यह तुम्हारा प्रसंसनीय कुल तो है ॥७८ ॥ हे
राजन्! तुम्हारे पचास कन्याएँ हैं, उनमेंसे तुम
मुझे केवल एक ही दे दो। हे नृपश्रेष्ठ! मैं इस
समय प्रार्थनार्थगर्की क्षाशाकासे उत्पन्न अतिसय
दुःखसे भयभीत हो रहा हूँ ॥७९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऋषिके ऐसे व्रजन
सुनकर राजा उनके जराजीर्ण देहको देखकर
ज्ञापके भयसे अस्वीकार करनेमें कातर हो
उनसे डरते हुए कुछ नीचेकी मुख करके मन-
हो-मन चिन्ता करने लगे ॥८० ॥

सौभरिजी बोले—हे नरेन्द्र! तुम चिन्तित
क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असह्य बात तो
कही नहीं है; जो कन्या एक दिन तुम्हें अधश्य
देनी ही है उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सकें
तो तुम क्या नहीं श्राप कर सकते हो? ॥८१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—राज भगवान् सौभरिके
शापसे भयभीत हो राजा मान्धाताने नम्रतापूर्वक
उनसे कहा ॥८२ ॥

राजोक्त

भगवन् अस्मत्कुलस्थितिरेवं य एष कन्याभि-
रुचितोऽभिजनवान्वरस्तस्मै कन्यां प्रदीयते
भगवद्वाच्या चास्मन्मनोरथानामप्यतिगोचर-
वर्तिनी कथमप्येषा सञ्जाता तदेवमुपरिस्थिते न विद्यः
किं कुर्म इत्येतन्मया चिन्त्यत इत्यभिहिते च
तेन भूभुजा मुनिरचिन्तयत् ॥ ८३ ॥ अयमन्योऽ-
स्मत्प्रत्याख्यानोपायो वृद्धोऽयमनभिमतः स्त्रीणां
किमुत कन्यकानामित्यमुना सञ्चिन्त्यैतदभिहित-
मेकमस्तु तथा करिव्यापीति सञ्चिन्त्य मान्धाता-
मुवाच ॥ ८४ ॥ यद्येष तदादिश्यतापस्माकं
प्रवेशाय कन्यान्तःपुरवर्षवरो यदि कन्यैव
काचिन्मामभिलषति तदाहं दारसङ्ग्रहं करिव्यामि
अन्यथा चेत्तदलमस्माकमेतेनातीतकालारम्भणे-
नेत्युक्त्वा विरराम ॥ ८५ ॥

ततश्च मान्धात्रा मुनिशापशङ्किनेन
कन्यान्तःपुरवर्षवरस्समाज्ञप्तः ॥ ८६ ॥ तेन
सह कन्यान्तःपुरं प्रविशन्नेव भगवानखिलसिद्ध-
गन्धर्वैभ्योऽतिशयेन कमनीयं रूपमकरोत् ॥ ८७ ॥
प्रवेश्य च तमृषिमन्तःपुरे वर्षवरस्ताः कन्याः
प्राह ॥ ८८ ॥ भवतीनां जनयिता महाराज-
स्समाज्ञापयति ॥ ८९ ॥ अयमस्मान् ब्रह्मर्षिः
कन्यार्थं समभ्यागतः ॥ ९० ॥ मया चास्य
प्रतिज्ञातं यद्यस्मत्कन्या या काचिद्भगवन्तं
धरवति तत्कन्यायाश्छन्दे नाहं परिपन्थानं
करिष्यमीत्याकर्ष्य सर्वा एव ताः कन्याः
सानुरागाः सप्रमदाः करेणव इवेभ्युत्थपतिं
तमृषिमहमहमिकचा वरयाम्बभूवुरुचुश्च ॥ ९१ ॥

अलं भगिन्योऽहमिमं वृषोमि
वृषोम्यहं नैध तवानुरुपः ।
ममैव भर्ता विधिर्नैव सुष्ट-
स्सुष्टाहमस्योपशमं प्रयाहि ॥ ९२ ॥
वृतो मयायं प्रथमं मयायं
गृहं विशान्नेव विहन्वसे किम् ।

राजा बोले—भगवन्! हमारे कुलकी यह रीति
है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वरको कन्या पसन्द करती
है वह उसीकी दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे
धनोरथोंसे भी परे है। न जाने, किस प्रकार यह
उत्पन्न हुई है? ऐसी अवस्थामें मैं नहीं जानता कि
क्या करें? बस, मुझे यही चिन्ता है। महाराज मान्धाताके
ऐसा कहनेपर मुनिवर सौभरिने विचार किया— ॥ ८३ ॥
'मुझको डाल देनेका यह एक और ही उपाय है।
'यह बूढ़ा है, प्रौढ़ स्त्रियां भी इसे पसन्द नहीं कर
सकतीं, फिर कन्याओंको तो बात ही क्या है?' ऐसा
सोचकर ज्ञे राजाने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही
सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूँगा।' यह सब
सोचकर उन्होंने मान्धातासे कहा— ॥ ८४ ॥ "यदि ऐसी बात
है तो कन्याओंके अन्तःपुर-रक्षक नपुंसकको वहाँ मेरा
प्रवेश करानेके लिये आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही
मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्वी-ग्रहण करूँगा नहीं तो
इस ढलती अवस्थामें मुझे इस व्यर्थ उद्योगका कोई
प्रयोजन नहीं है।" ऐसा कहकर वे मौन हो गये ॥ ८५ ॥

तब मुनिके शापकी आशंकासे मान्धाताने कन्याओंके
अन्तःपुर-रक्षकको आज्ञा दे दी ॥ ८६ ॥ उसके साथ
अन्तःपुरमें प्रवेश करते हुए भगवान् सौभरिने अपना रूप
सकल सिद्ध और गन्धर्वगणसे भी अतिशय मनोहर बना
लिया ॥ ८७ ॥ उन ऋषिवरको अन्तःपुरमें ले जाकर अन्तःपुर-
रक्षकने उन कन्याओंसे कहा— ॥ ८८ ॥ "तुम्हारे पिता
महाराज मान्धाताकी आज्ञा है कि ये ब्रह्मर्षि हमारे पास
एक कन्याके लिये पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की
है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान्को वरण करेगी उसकी
स्वच्छन्दतामें मैं किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालूँगा।"
यह सुनकर उन सभी कन्याओंने युधपति गजराजका वरण
करनेवस्ती हृदिनिर्घोषे सपान अनुराग और आनन्दपूर्वक
'अकेली मैं हूँ—अकेली मैं ही वरण करती हूँ' ऐसा
कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कहने
लगीं— ॥ ८९—९१ ॥ 'अरे बहिनो! व्यर्थ चेष्टा क्यों करती
हो? मैं इनका वरण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप हैं
भी नहीं। विधाताने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे
इनकी भार्या बनाया है। अतः तुम शान्त हो जाओ ॥ ९२ ॥
अन्तःपुरमें आते ही सबसे पहली मैंने ही इन्हें वरण
किया था, तुम क्यों मेरी जाती हो?' इस प्रकार 'मैंने

मया मयेति क्षितिपात्मजानां
तदर्थमत्वर्थकलिर्षभूव ॥ ९३

यदा मुनिस्ताभिरतीवहादाद-
वृत्तस्त कन्याभिरनिन्द्यकीर्तिः ।

तदा स कन्याधिकृतो नृपाय
यथावदाचष्ट विनम्रमूर्तिः ॥ ९४
श्रीपराशर उवाच

तदवगमात्किङ्कमेतत्कथमेतत्किं किं
करोमि किं मयाभिहितमित्याकुलमतिरनिच्छन्नपि
कथमपि राजानुमेने ॥ ९५ ॥ कृतानुरूप-
धिवाहश्च महर्षिस्सकला एव ताः कन्यास्व-
माश्रममनयत् ॥ ९६ ॥

तत्र चाशेषशिल्पस्वरूपप्रणेताः धातारमिषान्यं
विश्वकर्माणमाहूय सकलकन्यानामेकैकस्याः
प्रोत्फुल्लपङ्कजाः कूजत्कलहंसकारपडवादि-
क्लिङ्गभाभिरमञ्जलाशयास्सोपधानाः सावकाशा-
स्साद्युशय्यापरिच्छदाः प्रासादाः क्रियन्ता-
मित्यादिदेशः ॥ ९७ ॥

तच्च तथैवानुष्ठितमशेषशिल्पविशेषाचार्य-
स्त्वष्टा दर्शितवान् ॥ ९८ ॥ ततः परमर्षिणा
सौभरिणाज्ञपत्सेषु गृहेष्वनिवार्यामन्दनामा
महानिधिरासाञ्चक्रे ॥ ९९ ॥ ततोऽनवरतेन
भक्ष्यभोज्यलेह्याद्युपभोगैरागतानुगतभृत्यादीन-
हर्मिशमशेवगृहेषु ताः क्षितीशदुहितरो
भोज्यामासुः ॥ १०० ॥

एकदा तु दुहितृस्नेहाकृष्टहृदयस्स
महोपतिरतिदुःखितास्ता उत सुखिता वा इति
विचिन्त्य तस्य महर्षेराश्रमसमीपमुपेत्य
स्फुरदंशुमालाललामां स्फटिकमयप्रासाद-
मालामतिरम्योपवनजलाशयां ददर्श ॥ १०१ ॥

प्रविश्य चैकं प्रासादमात्मजां परिष्वभ्य
कृतासनपरिश्रमः प्रवृन्दस्नेहनयनाम्बुगर्भनवनो-
ऽन्नवीत् ॥ १०२ ॥ अप्यत्र वस्ते भवत्याः सुखमुत
किञ्चिदसुखमपि ते महर्षिस्नेहवाणुत न,

वरण क्रिया है—पहले मैं वरण किया है' ऐसा कह-कहकर
उन राजकन्याओंमें उनके लिये बहुत कलह भन गया ॥ ९३ ॥

जब उन समस्त कन्याओंने अतिशय अनुरागवश
उन अनिन्द्यकीर्ति मुनिवरको वरण कर लिया तो कन्या-
रक्षकने नम्रतापूर्वक राजासे सम्पूर्ण वृत्तान्त व्यो-का-
त्यो कह सुनाया ॥ ९४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—यह जानकर राजाने 'यह क्या
कहता है?' यह कैसे हुआ?' में क्या करूँ?' 'मैंने क्यों
उन्हें [अन्दर जानेके लिये] कहा था?' इस प्रकार सोचते
हुए अत्यन्त व्याकुल चित्तसे इच्छा न होते हुए भी जैसे-
तैसे अपने उचनका पालन किया और अपने अनुरूप
विवाह-संस्कारके समाप्त होनेपर महर्षि सौभरि उन
समस्त कन्याओंको अपने आश्रमपर ले गये ॥ ९५-९६ ॥

यहाँ आकर उन्होंने दूसरे विधाताके सपान अशेष-
शिल्प-कल्प-प्रणेता विश्वकर्माको बुलाकर कहा कि इन
समस्त कन्याओंमेंसे प्रत्येकके लिये पृथक्-पृथक् महल
बनाओ, जिनमें छिरो हुए कमल और मृन्मते हुए
सुन्दर हंस तथा कारण्डव आदि जल-पक्षियोंसे सुशोभित
जलाशय हों, सुन्दर उपभान (भवन), शय्या और परिच्छद
(ओढ़नेके वस्त्र) हों तथा फर्शोंपर खूला हुआ स्क्कर हो ॥ ९७ ॥

तब सम्पूर्ण शिल्प-विधाके विशेष आचार्य विश्वकामि
भी उनकी आज्ञानुसार सब कुछ तैयार करके
उन्हें दिखलाया ॥ ९८ ॥ तदनन्तर महर्षि सौभरिकी
आज्ञासे उन महलोंमें अनिवार्यामन्द-नापकी भक्ष्यनिधि तिवस
करने लगी ॥ ९९ ॥ तत्र तो उन सम्पूर्ण महलोंमें
नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य और लेह्य आदि सामग्रियोंसे
वे राजकन्याएँ आये हुए अतिशियों और अपने
अनुगत भृत्यवर्गोंको तृप्त करने लगीं ॥ १०० ॥

एक दिन पुरीमेंके स्नेहसे आर्कषित होकर राजा मानवान
यह देखनेके लिये किं भे अल्पता दुःखी है या सुखी?
महर्षि सौभरिके आश्रमके निकट आये, तो उन्होंने वहाँ
अति रमणीय उपवन और जलाशयोंसे युक्त स्फटिक-
शिल्पके महलोंकी पंक्ति देखी जो फैलती हुई मसूख-
पालाओंसे अत्यन्त मनोहर मालूम पड़ती थीं ॥ १०१ ॥

तदनन्तर वे एक महलमें जाकर अपनी
कन्याका स्नेहपूर्वक आलिंगन कर आसनपर बैठे और
फिर बहते हुए प्रेमके कारण गयनोंमें जल भरकर
बोले— ॥ १०२ ॥ "बेटी! तुमलोग यहाँ सुखपूर्वक हो न?
तुम्हें किसी प्रकारका कष्ट तो नहीं है? महर्षि सौभरि

स्मर्यन्तेऽस्मद्गृहवास इत्युक्ता तं तनया
पितरमाह ॥ १०३ ॥ तातातिरमपतीयः

प्रासादोऽप्रातिमनोरूपपुष्यनमेते कलवाक्यविहङ्ग-
माभिरुताः प्रोत्फुल्लपद्मकरजलाशया

मनोऽनुकूलभक्ष्यभोज्यानुलेपनवस्त्रभूषणादि-
भोगो मृदूनि शयनासनानि सर्वसम्पत्समेतं मे

गार्हस्थ्यम् ॥ १०४ ॥ तथापि केन वा जन्मभूमिर्न
स्मर्यन्ते ॥ १०५ ॥ त्वत्प्रासादादिदमशेषमति-

शोभनम् ॥ १०६ ॥ किं त्वेकं ममैतद्दुःखकारणं
यदस्मद्गृहान्महर्विरयम्पद्मार्त्तं न निष्क्रामति ममैव

केवलमतिप्रीत्या समीपपरिवर्ती नान्यासाम-
स्पद्मगिनीनाम् ॥ १०७ ॥ एषे च मम सोदर्योऽति-

दुःखिता इत्येवमतिदुःखकारणमित्युक्तस्तथा
द्वितीयं प्रासादमुपेत्य स्वतनयां परिष्वज्योपविष्ट-

स्तथैव पृष्टवान् ॥ १०८ ॥ तथापि च
सर्वमेतत्तत्प्रासादाद्युपभोगसुखं भृशभास्वार्त्तं

ममैव केवलमतिप्रीत्या पार्श्वपरिवर्ती, नान्या-
सामस्पद्मगिनीनामित्येवमादि श्रुत्वा समस्त-

प्रासादेषु राजा प्रविशेश तनयां तनयां तथैवा-
पृच्छन् ॥ १०९ ॥ सर्वाभिश्च ताभिस्तथैवा-

भिहितः परितोषविस्मयनिर्भरविषयशब्दयो-
भगवन्तं सौभरियेकान्तावस्थितमुपेत्य

कृतपूजोऽञ्जवीत् ॥ ११० ॥ दृष्टस्ते भगवन्
सुमहानेष सिद्धिप्रभावो नैवंविधमन्यस्य कस्य-

चिदस्माभिर्यिभूतिभिर्विलासितमुपलक्षितं यदेत-
द्भगवतस्तपसः फलमित्यभिपूज्य तमृषिं तत्रैव

तेन ऋषिवर्येण सह किञ्चित्कालमभिमतोप-
भोगान् कुभुजे स्वपुरं च जगाम ॥ १११ ॥

कालेन गच्छन्ता तस्य तासु राजतनयासु
पुत्रशतं सार्धमभवत् ॥ ११२ ॥ अनुदिनानुलब्धस्नेह-

प्रसरश्च स तत्रातीव ममताकृष्टहृदयोऽभवत्
॥ ११३ ॥ अप्येतेऽस्मत्पुत्राः कलभाषिणः पदभ्यां

पच्छेयुः अप्येते यौवनिनो भवेयुः, अपि
कृतदारानेतान् पश्येयमप्येषां पुत्रा भवेयुः

तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घरकी भी
याद आती है?" पिताके ऐसा कहनेपर उस राजपुत्रीने

कहा— ॥ १०३ ॥ "पिताजी! यह महल अति रमणीय है,
ये उपवनादि भी अतिशय मनोरम हैं, खिले हुए कमलोंसे

भुक्त इन जलाशयोंमें जलपक्षिगण सुन्दर शोली शोलते
रहते हैं, भक्ष्य, भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उबटन

और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शय्यासनादि
सभी मनके अनुकूल हैं; इस प्रकार हमारा गार्हस्थ्य यद्यपि

सर्वसंपत्तिसम्पन्न है ॥ १०४ ॥ तथापि अपनी जन्मभूमिकी
याद भला किसको नहीं आती? ॥ १०५ ॥ आपकी कृपासे

यद्यपि सब कुछ मंगलमय है ॥ १०६ ॥ तथापि मुझे
एक बड़ा दुःख है कि हमारे पति मे महर्षि मेरे घरसे आकर

कभी नहीं जाते। अत्यन्त प्रीतिके कारण ये केवल मेरे
ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहनोंके पास ये जाते ही नहीं

हैं ॥ १०७ ॥ इस कारणसे मेरी बहिनें अति दुःखी होंगी।
मही मेरे अति दुःखका कारण है।" उसके ऐसा कहनेपर

राजाने दूसरे महलमें आकर अपनी कन्याका आलिंगन
किया और आसनपर बैठनेके अनन्तर उससे भी

इसी प्रकार पूछा ॥ १०८ ॥ उसने भी उसी प्रकार महल
आदि सम्पूर्ण उपभोगोंके सुखका वर्णन किया और कहा

कि अतिशय प्रीतिके कारण महर्षि केवल मेरे ही
पास रहते हैं और किसी बहिनके पास नहीं जाते। इस

प्रकार पूर्ववत् सुनकर राजा एक-एक करके प्रत्येक महलमें
गये और प्रत्येक कन्यासे इसी प्रकार पूछा ॥ १०९ ॥

और उन सबने भी वही उत्तर दिया। अन्तमें आनन्द
और विस्मयके भावसे विवशचित्त होकर उन्होंने एकान्तमें

स्थित भगवान् सौभरिकी पूजा करनेके अनन्तर उनसे
कहा— ॥ ११० ॥ "भगवन्! आपकी ही योगसिद्धिका यह

महान् प्रभाव देखा है। इस प्रकारके महान् वैभवके
साथ और किसीको भी विलास करते हुए इतने नहीं

देखा; सो यह सब आपकी तपस्याका ही फल है।"
इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ कालवक

उन मुनिवरके साथ ही अभिमत्त भोग भोगते रहे
और अन्तमें अपने नगरको चले आये ॥ १११ ॥
कालक्रमसे उन राजकन्याओंसे सौभरि मुनिके
हेट्टे सौ पुत्र हुए ॥ ११२ ॥ इस प्रकार दिन-दिन स्नेहका
प्रसार होनेसे उनका हृदय अतिशय ममतामय हो
गया ॥ ११३ ॥ वे सोचने लगे—'क्या मेरे मे पुत्र मधुर

अप्येतत्पुत्रान्पुत्रसमन्वितान्यश्यामीत्यादिमनोरथाननुदिनं
कालसम्पत्तिप्रबुद्धानु-

पेक्ष्यैतच्छ्विन्तयामास ॥ ११४ ॥ अहो मे
मोहस्यातिविस्तारः ॥ ११५ ॥

मनोरथानां न समाप्तिरस्ति
वर्षाद्युतेनापि तथाब्दलक्षैः ।

पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथाना-
मुत्पत्तयस्सन्ति पुनर्नवानाम् ॥ ११६ ॥

पद्भ्यां गता द्यौषनिनश्च जाता
दारैश्च संवोगमिताः प्रसूताः ।

दृष्ट्वाः सुतास्तत्तनयप्रसूतिं
द्रष्टुं पुनर्वाञ्छति मेऽन्तरात्मा ॥ ११७ ॥

इक्ष्यामि तेषामिति चेत्प्रसूतिं
मनोरथो मे भविता ततोऽन्यः ।

पूर्णेऽपि तत्राप्यपरस्य जन्म
निवार्यते केन मनोरथस्य ॥ ११८ ॥

आमृत्युतो नैत्र मनोरथाना-
मन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य ।

मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं
न जायते वै परमार्थसङ्गि ॥ ११९ ॥

स मे समाधिर्जलवासमित्र-
मत्स्यस्य सङ्गत्सहसैव नष्टः ।

परिग्रहस्सङ्गकृतो मयायं
परिग्रहोत्था च ममातिलिप्सा ॥ १२० ॥

दुःखं यदैवैकशरीरजन्म
शतार्द्धसंख्याकमिदं प्रसूतम् ।

परिग्रहेण क्षितिपात्मजानां
सुतैरनेकैर्बहुलीकृतं तत् ॥ १२१ ॥

सुतात्मजैस्तानयैश्च भूयो
भूयश्च तेषां च परिग्रहेण ।

विस्तारमेध्वत्यतिदुःखहेतुः
परिग्रहो वै ममताभिधानः ॥ १२२ ॥

बोलीसे बोलेंगे? अपने पाँवोंसे चलेंगे? क्या ये युवावस्थाको प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपलीक देख सकूँगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र-पौत्रोंके युक्त देखूँगा?' इस प्रकार कालक्रमसे दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथोंकी उमेदा कर वे सोचने लगे— ॥ ११४ ॥ 'अहो! मेरे मोहका कैसा विस्तार है ॥ ११५ ॥

इन मनोरथोंकी तो हजारों-लाखों वर्षोंमें भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमेंसे यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरथोंकी उत्पत्ति हो जाती है ॥ ११६ ॥ मेरे पुत्र पैरोंसे चलने लगे, फिर जे मुला हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके सन्ताने हुई—यह सब तो मैं देख चुका; किन्तु अब मेरा चित्त उन पौत्रोंके पुत्र-जन्मको भी देखना चाहता है ॥ ११७ ॥ यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्तमें दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथकी उत्पत्तिको ही कौन रोक सकता है? ॥ ११८ ॥

मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्युपर्यन्त मनोरथोंका अन्त तो होना नहीं है और जिस चित्तमें मनोरथोंकी आसक्ति होती है वह कभी परमार्थमें लग नहीं सकता ॥ ११९ ॥ अहो! मेरी वह समाधि जलवासीके साथी मत्स्यके संगसे अकस्मात् नष्ट हो गयी और उस संगके कारण ही मैंने स्त्री और धन आदिका परिग्रह किया तथा परिग्रहके कारण ही अब मेरी तुम्हा बह गयी है ॥ १२० ॥

एक शरीरका ग्रहण करना ही परम दुःख है और मैंने तो इन राजकन्याओंका परिग्रह करके उसे पचास गुना कर दिया है। तथा अनेक पुत्रोंके कारण अब वह बहुत ही बड़ गया है ॥ १२१ ॥ अब आगे भी पुत्रोंके पुत्र तथा उनके पुत्रोंके और उनका पुत्र-पुनः विवाह-सम्बन्ध करनेसे वह और भी बढ़ेगा। यह ममत्तारूप विवाहसम्बन्ध अवश्य बढ़े ही दुःखका कारण है ॥ १२२ ॥

चीर्णं तपो यत्तु जलाश्रयेण
तस्वर्दिदेषा तपसोऽन्तरायः ।
मत्स्यस्य सङ्गादभवच्च यो मे
सुतादिरागो मुषितोऽस्मि तेन ॥ १२३ ॥
निस्सङ्गता मुक्तिपदे यतीनां
सङ्गादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः ।
आरूढयोगो विनिपात्यतेऽध-
स्मद्भेन योगी किमुताल्पबुद्धिः ॥ १२४ ॥
अहं चरिष्यामि तदात्मनोऽर्थं
परिग्रहग्राहगृहीतबुद्धिः ।
यदा हि भूयः परिहीनदोषो
जनस्य दुःखैर्भीविता न दुःखी ॥ १२५ ॥
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-
मणोरणीयांसमतिप्रमाणम् ।
सितासितं चेश्वरमीश्वराणा-
पाराधयिष्ये तपसैव विष्णुम् ॥ १२६ ॥
तस्मिन्शेषधीजसि सर्वरूपि-
ण्यव्यक्तविस्पष्टसनावन्ते ।
ममाद्यत्नं धित्तमपेतदोषं
सदास्तु विष्णावभवाय भूयः ॥ १२७ ॥
समस्तभूतादमलादनन्ता-
त्सर्वेश्वरादन्यदनादिमध्यात् ।
धस्मान् किञ्चित्तमहं गुरुणां
परं गुरुं संश्रयमेमि विष्णुम् ॥ १२८ ॥
श्रीपराशर उवाच
इत्यात्मानमात्मनैवाधिधायसौ सौभरिपहाय
पुत्रगृहासनपरिच्छदादिकमशेषमर्थजाते सकल-
धार्म्यासमन्वितो धनं प्रविवेश ॥ १२९ ॥
तत्राप्यनुदिनं वैखानसनिष्पाद्यमशेषक्रियाकलार्प
निष्पाद्य क्षयितसकलपापः परिपक्वमनोवृत्ति-
रात्मन्यग्नीन्तरमारोप्य धिक्षुरभवत् ॥ १३० ॥
भगवत्यासक्त्याखिलं कर्मकलापे हित्वानन्तमज-
मनादिनिधनमधिकारमरणादिधर्ममवाप परमन्तं
परवतामच्युतं पदम् ॥ १३१ ॥

जलाशयमें रहकर यैने जो तपस्या की
थी उसको फलस्वरूपा यह सम्पत्ति तपस्याकी
बाधक है। मत्स्यके संगसे भरे चित्तमें जो पुत्र
आदिका राग उत्पन्न हुआ था उसीने मुझे
लग लिया ॥ १२३ ॥ निःसंगता ही यतियोंको
मुक्ति देनेवाली है, सम्पूर्ण दोष संगसे ही उत्पन्न
होते हैं। संगके कारण तो योगारूढ यति भी
पतित हो जाते हैं, फिर भन्दमति धनुष्योंकी जो
मात ही क्या है? ॥ १२४ ॥

परिग्रहरूपी ग्रहने मेरी बुद्धिको पकड़ा हुआ
है। इस समय मैं ऐसा टपाय करूँगा जिससे
दोषोंसे मुक्त होकर फिर अपने कुटुम्बियोंके दुःखसे
दुःखी न होऊँ ॥ १२५ ॥ अब मैं सबके विधाता,
अचिन्त्यरूप, अणुसे भी अणु और सबसे महान्
सत्त्व एवं तमःस्वरूप तथा ईश्वरोंके भी ईश्वर
भगवान् विष्णुकी तपस्या करके आराधना
करूँगा ॥ १२६ ॥ उन सम्पूर्ण तेजोमय, सर्वस्वरूप,
अव्यक्त, विस्पष्टशरीर, अनन्त श्रीविष्णुभगवान्में
मेरा दोषरहित चित्त सदा निश्चल रहे जिससे
मुझे फिर जन्म न लेना पड़े ॥ १२७ ॥ जिस सर्वरूप,
अमल, अनन्त, सर्वेश्वर और आदि पध्य-
शून्यसे पृथक् और कुछ भी नहीं है उस
गुरुजनोंके भी परम गुरु भगवान् विष्णुकी ई
शरण लेता हूँ ॥ १२८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार मन-ही-मन
सोचकर सौभरि मुनि पुत्र, गृह, आसन,
परिच्छद आदि सम्पूर्ण पदार्थोंको छोड़कर
अपनी समस्त स्त्रियोंके सहित वनमें चले
गये ॥ १२९ ॥ वहाँ पानप्रस्थोंके योग्य समस्त
क्रियाकलापका अनुष्ठान करते हुए सम्पूर्ण पापोंका
क्षय हो जानेपर तथा मनोवृत्तिके राग-द्वेषहीन हो
जानेपर, आह्वनीयादि अग्निर्षोंको अपनेमें
स्थापित कर स्नानासी हो गये ॥ १३० ॥ फिर भगवान्में
आसक्त हो सम्पूर्ण कर्मकलापका त्याग कर
परमहृत्परायण पुरुषोंके अच्युतपद (बोध)-को
प्राप्त किया, जो अजन्मा, अनादि, अविनाशी,
विकार और मरणादि धर्मोंसे रहित, इन्द्रियादिसे
अतीत तथा अनन्त है ॥ १३१ ॥

इत्येतन्मान्धातुद्विहिसम्बन्धादाख्यातम् ॥ १३२ ॥
 यश्चैतत्सौभरिचरितमनुस्मरति पठति
 पाठयति शृणोति श्रावयति धरत्यवधारयति
 लिखति लेखयति शिक्षयत्यध्यापयत्युपदिशति
 वा तस्य षड् जन्मानि दुस्सन्ततिरसद्भर्मा
 वाद्भ्रमनस्योरसन्नार्गाचरणमशेषहेतुषु वा
 ममत्वं न भवति ॥ १३३ ॥

इस प्रकार मान्धाताकी कन्याओंके सम्बन्धमें देने इस चरित्रका वर्णन किया है। जो कोई इस सौभरि-चरित्रका स्मरण करता है, अथवा पढ़ता-पढ़ाता, सुनता-सुनाता, धारण करता-कराता, लिखी-लिखवाता तथा सीखता-सिखता अथवा उपदेश करता है उसके छः जन्मोंक दुःसन्तति, असद्भर्म और वाणी अथवा मनकी कुमार्गमें प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थमें ममता नहीं होती ॥ १३२-१३३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे द्वितीयेऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

मान्धाताकी सन्तति, त्रिशंकुका स्वर्गरोहण तथा सगरकी उत्पत्ति और विजय

अतश्च मान्धातुः पुत्रसन्ततिरभिधीयते ॥ १ ॥

अम्बरीषस्य मान्धातुजनयस्य युवनाश्वः
 पुत्रोऽभूत् ॥ २ ॥ तस्यान्दारीतः, यतोऽङ्गिरसो
 शरीताः ॥ ३ ॥ रसातले मौनेया नाम गन्धर्वा
 बभूवुष्व्कोटिसंख्यातास्तैरशेषाणिनागकुलान्य-
 पङ्क्तप्रधानरत्नाधिपत्यान्यक्रियन्त ॥ ४ ॥ तैश्च
 गन्धर्ववीर्यासभूतिरुरगेश्वरैः स्तूयमानो
 भगवानशेषदेवेशः स्तवच्छ्रवणोन्मीलितोन्निद्र-
 पुण्डरीकनयनो जलशायनो निद्रावसानान्
 प्रबुद्धः प्रणिपत्याभिहितः । भगवन्नस्माकमेतेभ्यो
 गन्धर्वेभ्यो भयमुत्पन्ने कथमुपशमयेष्यतीति ॥ ५ ॥
 आह स भगवाननादिनिधनपुरुषोत्तमो योऽसौ
 यौवनाश्वस्य मान्धातुः पुरुकुत्सनामा पुत्रस्त-
 महमनुप्रविश्य तानशेषान् दुष्टगन्धर्वानुपशमं
 नयिष्यामीति ॥ ६ ॥ तदाकर्ण्य भगवते
 जलशायिने कृतप्रणामाः पुनर्नागस्योकमागताः
 पन्नगाधिपतयो नर्मदां च पुरुकुत्सानयनाय
 चोदयामासुः ॥ ७ ॥ सा चैनं रसातलं
 नीतवती ॥ ८ ॥

रसातलगतश्चासौ भगवत्तेजसाप्याधितात्म-

अब हम मान्धाताके पुत्रोंको सन्तानका वर्णन करते हैं ॥ १ ॥ मान्धाताके पुत्र अम्बरीषके युवनाश्व नामक पुत्र हुआ ॥ २ ॥ उससे हायेत बुभ जिससे अंगिरा-गोत्रीय शरीतगण हुए ॥ ३ ॥ पूर्वकालमें रसातलमें मौनेय नामक छः करोड़ गन्धर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलोंके प्रधान-प्रधान सन और अधिकांश सैन लिये थे ॥ ४ ॥ गन्धर्वोंके पराक्रमसे अपमानित उन नागेश्वरोंद्वारा स्तुति किये जानेपर उसके श्रवण करनेसे जिनकी विकसित कमलसदृश आँखें खुल गयी हैं निद्राके अन्तमें जगें हुए उन जलशायी भगवान् सर्वदेवेश्वरको प्रणाम कर उनसे नागगणने कहा—“भगवन्! इन गन्धर्वोंके उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शान्त होगा?” ॥ ५ ॥ तब आदि अन्तरहित भगवान् पुरुषोत्तमने कहा—‘युवनाश्वके पुत्र मान्धाताका जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन सम्पूर्ण दुष्ट गन्धर्वोंका नाश कर दूँगा’ ॥ ६ ॥ यह सुनकर भगवान् जलशायीको प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागलोकमें लौट आये और पुरुकुत्सको लगनेके लिये [अपनी पत्नी एवं पुरुकुत्सकी भार्या] नर्मदाको प्रेरित किया ॥ ७ ॥ तदनन्तर नर्मदा पुरुकुत्सको रसातलमें ले आयी ॥ ८ ॥

रसातलमें पहुँचनेपर पुरुकुत्सने भगवान्के नेत्रों

धीर्यस्सकलगन्धर्वीनिजघान ॥ ९ ॥ पुनश्च
स्वपुरमाजगाम ॥ १० ॥ सकलपन्नगाधि-
पतयश्च नर्मदायै वरं ददुः । यस्तेऽनुस्मरणसम्भवेत्
नामग्रहणं करिष्यति न तस्य सर्पविषभयं भविष्य-
तीति ॥ ११ ॥ अत्र च श्लोकः ॥ १२ ॥

नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि ।
नमोऽस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः ॥ १३ ॥
इत्युच्चार्याहर्निशपन्धकारप्रवेशे वा सर्पैर्न
दृश्यते न चापि कृतानुस्मरणभुजो विषमपि
भुक्तमुपघाताय भवति ॥ १४ ॥ पुरुकुत्साय
सन्ततिविच्छेदो न भविष्यतीत्युरगपतयो वरं
ददुः ॥ १५ ॥

पुरुकुत्से नर्मदायां व्रसद्दस्युमजीजन्त् ॥ १६ ॥
व्रसद्दस्युतस्सम्भूतोऽनरप्यः, यं रावणो दिग्बिजये
जघान ॥ १७ ॥ अनरप्यस्य पृषदश्वः पृषदश्वस्य
हर्षश्वः पुत्रोऽभवत् ॥ १८ ॥ तस्य च हस्तः
पुत्रोऽभवत् ॥ १९ ॥ ततश्च सुमनास्तस्वापि
त्रिधन्वा त्रिधन्वनस्वरुष्यारुणिः ॥ २० ॥ त्रय्यारुणो-
स्सत्यव्रतः, योऽसौ त्रिशङ्कुसंज्ञामवाध ॥ २१ ॥

स चाण्डालतामुपगतश्च ॥ २२ ॥
हृदशार्धार्धिक्यामनामृष्ट्यां विश्वामित्र-
कलत्रापत्यपोषणार्थं चाण्डालप्रतिग्रहपरिहरणाय
च जाह्नवीतीरन्यग्रोधे मृगमांसमनुदिनं
वबन्ध ॥ २३ ॥ स तु परितुष्टेन विश्वामित्रेण
सशरीरस्स्वर्गमारोपितः ॥ २४ ॥

त्रिशङ्कुर्हरिश्चन्द्रस्तस्माच्च रोहिताश्वस्ततश्च
हरितो हरितस्य चन्द्रश्चन्द्रोर्विजयवसुदेवौ रुरुकरो
विजवाद्रुरुकस्य वृकः ॥ २५ ॥ ततो वृकस्य
बाहुर्व्योऽसौ ह्य्यतालजङ्घादिभिः पराजितोऽन्तर्वन्त्या
पहिष्या सह वनं प्रविशेश ॥ २६ ॥ तस्याश्च
सपत्या गर्भस्तम्भनाय गतो दत्तः ॥ २७ ॥
तेनास्या गर्भस्सप्तवर्षाणि जठर एव
तस्थी ॥ २८ ॥ स च बाहुर्वृद्धभावादीर्वाश्रम-
सपीपे ममार ॥ २९ ॥ सा तस्य धार्या चितां कृत्वा

अपने शरीरका बल बढ़ जानेसे सम्पूर्ण गन्धर्वोंको मार
डाला और फिर अपने नगरमें लौट आया ॥ ९-१० ॥
उस समय समस्त नागराजोंने नर्मदाको वर दिया कि
जो कोई तैरा स्मरण करते हुए शेष नाम लेगा उसको
सर्प-विषसे कोई भय न होगा ॥ ११ ॥ इस विषयमें यह
श्लोक भी है— ॥ १२ ॥

'नर्मदाको प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रिकालमें
भी नर्मदाको नमस्कार है। हे नर्मदे! तुमको बारम्बार
नमस्कार है, तुम मेरी विष और सर्पसे रक्षा करे' ॥ १३ ॥
हसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रिमें
किसी समय भी अन्धकारमें जानेसे सर्प नहीं काटता
तथा इसका स्मरण करके भोजन करनेवालेका खया
हूआ विष भी घातक नहीं होता ॥ १४ ॥ पुरुकुत्सको
नागपतियोंने यह वर दिया कि तुम्हारी सन्तानका
कभी अन्त न होगा ॥ १५ ॥

पुरुकुत्सने नर्मदासे व्रसद्दस्यु नामक पुत्र उत्पन्न
किया ॥ १६ ॥ व्रसद्दस्युसे अनरप्य हुआ, जिसे दिग्बिजयके
समय रावणने मारा था ॥ १७ ॥ अनरप्यके पृषदश्व,
पृषदश्वके हर्षश्व, हर्षश्वके हस्त, हस्तके सुमना,
सुमनाके त्रिधन्वा, त्रिधन्वाके त्रय्यारुणि और त्रय्यारुणिके
सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशङ्कु
कहेताया ॥ १८-२१ ॥

वर त्रिशङ्कु चाण्डाल हो गया था ॥ २२ ॥ एक बार
घारह वर्षतक अनाशुष्टि रही । उस समय विश्वामित्र मुनिके
स्त्री और बाल-बच्चोंके पोषणार्थ तथा अपनी चाण्डालताको
हृद्दानके लिये वर गंगाजीके तटपर एक बटके वृक्षपर
प्रतिदिन मृगका मांस बाँध जाता था ॥ २३ ॥ इससे प्रसन्न
होकर विश्वामित्रजीने उसे सदेह स्पर्श भेज दिया ॥ २४ ॥

त्रिशङ्कुसे हरिश्चन्द्र, हरिश्चन्द्रसे रोहितस्व, रोहितस्वसे
हरित, हरितसे चंचु, चंचुसे विजय और वसुदेव, विजयसे
रुरुक और रुरुकसे वृकका जन्म हुआ ॥ २५ ॥ वृकके
बाहु नामक पुत्र हुआ जो हैहय और तालजंभ आदि खत्रियोंसे
पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानीके सहित वनमें
चला गया था ॥ २६ ॥ पटरानीकी स्तनने उसका गर्भ रोकनेकी
इच्छासे उसे विष छिड़ा दिया ॥ २७ ॥ उसके प्रभावसे
उसका गर्भ सात वर्षतक गर्भाशयहीमें रहा ॥ २८ ॥ अन्तमें,
बाहु वृद्धावस्थाके कारण और्व मुनिके आश्रमके समीप
पर गया ॥ २९ ॥ तब उसकी पटरानीने चिता बनाकर

तमारोप्यानुमरणकृतनिश्चयाऽभूत् ॥ ३० ॥

अथैतामसीतानागतवर्तमानकालत्रयवेदी
भगवान्नीर्वस्वाश्रमानिर्गत्याजवीत् ॥ ३१ ॥

अलमलमनेनासद्ग्राहेणाखिलभूमण्डलपतिरति-
वीर्यपराक्रमो नैकयज्ञकृदरातिपक्षक्षयकर्ता
तसोदरे चक्रवर्ती तिष्ठति ॥ ३२ ॥ नैवपति-
साहसाध्यवसायिनी भवती भवत्सित्युक्ता सा
तस्माद्गुमरणनिर्बन्धाद्विरराम ॥ ३३ ॥ तेनैव च
भगवता स्वाश्रमपानीता ॥ ३४ ॥

तत्र कतिपयदिनाभ्यन्तरे च सहस्र तेन गरेणाति
तेजस्वी बालको जज्ञे ॥ ३५ ॥ तस्यौषो
जातकर्मादिक्रिया निष्पाद्य सगर इति नाम
चकार ॥ ३६ ॥ कृतोपनयनं चैनपौषो वेदशास्त्रा-
प्यस्य चाग्नेयं भार्गवास्त्रयध्यापयामास ॥ ३७ ॥

उत्पन्नशुद्धिश्च भातरमन्नवीत् ॥ ३८ ॥
अथ कथमत्र त्वयं त्वं वा तातोऽस्माकमित्येव-
मादिपृच्छन्ते माता सर्वमेवावोचत् ॥ ३९ ॥ ततश्च
पितुराभ्यापहरणादमर्षितो हैहयतालजङ्घादि-
श्रथाय प्रतिज्ञामकरोत् ॥ ४० ॥ प्रायशाश्व
हैहयतालजङ्घाञ्जधान ॥ ४१ ॥ शक्ययव-
काम्बोजपत्स्यपह्लावाः ह्य्यमानास्तत्कुलनगुक्तं वसिष्ठे
शरणं जग्मुः ॥ ४२ ॥ अथैतान्वसिष्ठो
जीवन्मृतकान् कृत्वा सगरमाह ॥ ४३ ॥

अत्सालयेधिजीवन्मृतकैरनुसृतैः ॥ ४४ ॥ एते च
भयैव त्वत्प्रतिज्ञापरिपालनाय निजधर्मद्विजसंग-
परित्यागं कारिताः ॥ ४५ ॥ तथेति तद्गुरुवचन-
मभिगच्छ तेषां वेषान्वत्वमकारयत् ॥ ४६ ॥
यवनान्पि इतशिरसोऽर्द्धमुण्डिताच्छकान्
प्रलम्बकेशान् पारदान् पह्लावाश्चमश्रुधरान्
निस्स्वाध्यायवषट्कारानेतानन्याश्च क्षत्रिया-
श्चकार ॥ ४७ ॥ एते चात्मधर्मपरित्यागात्ब्राह्मणैः
परित्यक्ता स्नेच्छतां ययुः ॥ ४८ ॥ सगरोऽपि
स्वयधिष्ठानभागम्यासन्नलितचक्रस्सप्तद्वीपवती-
मिनामूर्त्तिं प्रशशास ॥ ४९ ॥

उत्पन्न पतिता शत्रु स्थापित कर उसके साथ सती होनेका
निश्चय किया ॥ ३० ॥ उसी समय भूत भविष्यत् और कल्प
तीनों कालके जाननेवाले भगवान् औरोंने अपने आश्रमसे
निकलाकर त्वयसे कहा— ॥ ३१ ॥ 'अथि साध्वि' इस व्यर्थ
दुराग्रहको छोड़। तरे नदरमें सम्पूर्ण भूमण्डलका स्वामी,
अत्यन्त जल-परश्रमशाल, अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान
करनेवाला और शत्रुओंका नाश करनेवाला चक्रवर्ती राजा
है ॥ ३२ ॥ तू ऐसे दुस्साहसका उद्योग न कर।' ऐसा कहे
जानेपर वह अनुमरण (सती होने) के आग्रहसे निरत हो
गयी ॥ ३३ ॥ और भगवान् औरों उसे अपने आश्रमपर ले
आये ॥ ३४ ॥

वहाँ कुछ ही दिनोंमें, उसके उस गर (विष) के साथ ही
एक उरगि तेजस्वी बालकने जन्म लिया ॥ ३५ ॥ भगवान् औरोंने
उसके जातकर्म आदि संस्कार कर उसका नाम 'सगर' रखा
तथा उसका उपनयनसंस्कार होनेपर औरोंने ही उसे वेद, शास्त्र
एवं भार्गव नामक आग्नेय शस्त्रोंकी शिक्षा दी ॥ ३६-३७ ॥

शुद्धिका विकास होनेपर उस बालकने अपनी श्मशानसे
कहा— ॥ ३८ ॥ 'मौ! यह तो क्या, इस तपोवनमें हम क्यों
रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं?' इसी प्रकारके और भी
प्रश्न पृच्छनेपर माताने उससे सम्पूर्ण वृत्तान्त कह दिया ॥ ३९ ॥
तब तो पिताके राज्यापहरणको सटन न कर सकनेके कारण
वसने हैहम और तालजंघ आदि क्षत्रियोंको मार डालनेकी
प्रतिज्ञा की और प्रायः सभी हैहय एवं तालजंघवंशीय राजाओंको
नष्ट कर दिया ॥ ४०-४१ ॥ उनके परचात् शक, यवन,
काम्बोज, पारद और पह्लावण भी हताहत होकर सगरेके
कुलगुरु वसिष्ठजीकी शरणमें गये ॥ ४२ ॥ वसिष्ठजीने उन्हें
जीवन्मृत (जोते हुए ही मरेके समान) करके सगरेसे कहा—
'बेटा! इन जीते-जो मरे हुएोंका पीछा करनेसे क्या लाभ
है?' ॥ ४४ ॥ देख, तेरी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये मैंने
ही इनसे स्वधर्म और द्विजातियोंके संसर्गसे वंचित कर दिया
है' ॥ ४५ ॥ राजाने 'जो आज्ञा' कहकर गुरुजीके कथनका
अनुमोदन किया और उनके वेष बदलवा दिये ॥ ४६ ॥ उसने
यवनोंके सिर मुड़वा दिये, शकोंको अर्द्धमुण्डित कर दिया,
पारदोंके लम्बे-लम्बे केश रखा दिये, पह्लावोंके भूँड़-यही
रखा दी तथा इनको और इनके समान अन्यत्त्व क्षत्रियोंको
भी स्थाभ्याय और वषट्कारदिसे बहिष्कृत कर दिया ॥ ४७ ॥
अपने धर्मको छोड़ देनेके कारण ब्राह्मणोंने भी इनका परित्याग
कर दिया; अतः ये स्नेच्छ हो गये ॥ ४८ ॥ सदनन्तर महाराज
सगर अपनी राजधानीमें आकर अप्रतिहत सैन्यसे युक्त ही
इस सम्पूर्ण राजद्वीपवती पृथिवीका शासन करने लगे ॥ ४९ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे कृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय

सगर, सीदास, खड्वांग और भगवान् रामके चरित्रका वर्णन

श्रीरामक उवाच

काश्यपदुहिता सुमतिर्विदभंशजतनया केशिनी
स ह्ये भार्ये सगरस्यास्ताम् ॥ १ ॥ ताभ्यां
त्रापत्यार्थमौर्वः परमेण समाभिनाराभितो
वरमदात् ॥ २ ॥ एका वंशकरमेकं पुत्रमपरा
षष्टिं पुत्रसहस्राणां जनयिष्यतीति यस्या
यदभिमतं तदिच्छया गृह्यतामित्युक्ते केशि-
न्येकं धरयामास ॥ ३ ॥ सुमतिः पुत्रसहस्राणि षष्टिं
वस्रे ॥ ४ ॥

तक्षेत्युक्ते अल्पैरहोभिः केशिनी पुत्रमेक-
मसमञ्जसनामानं वंशकरमसूत ॥ ५ ॥ काश्यप-
तनयायास्तु सुमत्याः षष्टिःपुत्रसहस्राण्यभवन् ॥ ६ ॥
तस्मादसमञ्जसादर्शुमान्नाम कुमारो जज्ञे ॥ ७ ॥
स त्वसमञ्जसो बालो खाल्यादेवा-
सद्वृत्तोऽभूत् ॥ ८ ॥ पिता चास्याचिन्तयद्य-
मतीतबाल्यः सुबुद्धिमान् भविष्यतीति ॥ ९ ॥
अथ तत्रापि च वयस्यतीते असच्चरितमेतं पिता
तत्याज ॥ १० ॥ तान्यपि षष्टिः पुत्रसहस्रा-
ण्यसमञ्जसचरितमेवानुचक्रुः ॥ ११ ॥

ततश्चासमञ्जसचरितानुकारिभिस्सागरैरप-
थस्तथाज्ञादिसन्मार्गे जगति देवास्सकलविद्या-
मयमसंस्पृष्टमशेषदोषैर्भगवतः पुरुषोत्तमस्यांश-
भूते कपिलं प्रणम्य तदर्शमूचुः ॥ १२ ॥
भगवन्मेऽभिस्सगरतनयैरसमञ्जसचरितमनु-
गम्यते ॥ १३ ॥ कथमेभिरसद्वृत्तमनुसरद्भि-
र्जगद्भविष्यतीति ॥ १४ ॥ अत्यार्तजगत्प्रविश्राणाय
च भगवतोऽत्र शरीरग्रहणमित्याकर्ण्य भगवाना-
हार्त्परैव दिनैर्विनश्यन्तीति ॥ १५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—काश्यपसूता सुमति और
विदर्पयज-कन्या केशिनी ये राजा सगरको दो
स्त्रियाँ थीं ॥ १ ॥ उनसे सन्तानोत्पत्तिके लिये परम
समाधिद्वारा आराधना किये जानेपर भगवान् और्वने
यह वर दिया ॥ २ ॥ 'एकसे वंशकी वृद्धि करनेवाला
एक पुत्र तथा दूसरीसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न होंगे,
इनमेंसे जिसको जो अभीष्ट हो वह इच्छापूर्वक
उसको प्रहण कर सकती है।' उनके ऐसा कहनेपर
केशिनीने एक तथा सुमतिने साठ हजार पुत्रोंका वर
माँगा ॥ ३-४ ॥

महाधिके 'तथास्तु' कहनेपर कुछ ही दिनोंमें
केशिनीने वंशको बढ़ानेवाले असमंजस नामक
एक पुत्रको जन्म दिया और काश्यपकुमारी सुमतिसे
साठ सहस्र पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ५-६ ॥ राजकुमार
असमंजसके अंशभूत् नामक पुत्र हुआ ॥ ७ ॥ यह
असमंजस बाल्यावस्थासे ही बड़ा दुर्गमर्षी था ॥ ८ ॥
पिताने सोचा कि बाल्यावस्थाके वीत जानेपर यह
बहुत समझदार होगा ॥ ९ ॥ किन्तु बाल्यके शीघ्र जानेपर
भी जब उसका आचरण न सुधरा तो पिताने उसे
त्याग दिया ॥ १० ॥ उनके साठ हजार पुत्रोंने भी
असमंजसके चरित्रका ही अनुकरण किया ॥ ११ ॥

जब असमंजसके चरित्रका अनुकरण
करनेवाले उन सगरपुत्रोंद्वारा संसारमें यज्ञादि
धर्मार्थका ठच्छेद हो जानेपर सकल-विद्यानिधान,
अशेषदोषहीन, भगवान् पुरुषोत्तमके अंशभूत
श्रीकपिलदेवसे देवताओंने प्रणाम करनेके अनन्तर उनके
विषयमें कहा— ॥ १२ ॥ "भगवन्! राजा सगरके
ये सभी पुत्र असमंजसके चरित्रका ही अनुसरण
कर रहे हैं ॥ १३ ॥ इन सबके अधर्मागर्भे प्रवृत्त
रहनेसे संसारको क्या दशा होगी? ॥ १४ ॥ प्रभो!
संसारमें दीनजनोंकी रक्षाके लिये ही आपने यह
शरीर ग्रहण किया है [अतः इस घोर अपराधसे
संसारको रक्षा कीजिये] ॥" यह सुनकर भगवान्
कपिलने कहा— "ये सब थोड़े ही दिनोंमें
नष्ट हो जायेंगे" ॥ १५ ॥

अत्रान्तरे च सगरो ह्यमेधमारभत ॥ १६ ॥

तस्य च पुत्रैरधिष्ठितमस्याश्वं कोऽप्यपह्वय भुवो
विलं प्रविवेश ॥ १७ ॥ ततस्तत्तनयश्चाश्वकुश्रुगति-
निर्वन्धेनाखनीमेकैको योजनं चक्षुः ॥ १८ ॥
पाताले चाश्वं परिभ्रमन्तं तमवनीपतितनयास्ते
ददृशुः ॥ १९ ॥ नातिदूरेऽवस्थितं च भगवन्तपपवने
शरत्कालेऽर्कमिव तेजोभिरनवरतमूर्ध्वमधश्चाशेष
दिशश्चोद्द्रामयमानं ह्यहर्तारं
कपिलार्धिमपश्यन् ॥ २० ॥

ततश्चोद्द्रातायुष्मा दुरात्मनोऽयमस्मदपकारी
यज्ञविघ्नकारी हन्यतां ह्यहर्तां हन्यतामित्यबोच-
न्भयघावंश्च ॥ २१ ॥ ततस्तेनापि भगवता
किञ्चिदीश्वरिर्वात्तितलीचनेनावलोकित्वास्व-
शरीरसमुत्थेनाऽग्निना दृश्यामाना विनेशुः ॥ २२ ॥

सगरोऽप्यवगम्याश्वानुसारि तत्पुत्रबलमशेषं
परमर्षिणा कपिलेन तेजसा दग्धं ततोऽशुमन्त-
मसमञ्जसपुत्रमश्वानयनाय युयोज ॥ २३ ॥ स
तु सगरसमयत्रातमार्गेण कपिलमुपगम्य
भक्तिमग्नस्तदा तुष्टाश्च ॥ २४ ॥ अथैनं
भगवानाह ॥ २५ ॥ गच्छैनं पितामहायाश्वं प्रापय
वरं कृणीष्व स पुत्रक पीत्रश्च ते स्वर्गाद्गङ्गां
भुवमानेष्वत इति ॥ २६ ॥ अथांशुमानपि
स्वर्ग्यातानां ब्रह्मदण्डज्ञानाभस्मत्पितृणांभस्वर्ग-
योग्यानां स्वर्गप्राप्तिकरं वरमस्माकं प्रयच्छेति
प्रत्याह ॥ २७ ॥ तदाकर्ण्य तं च भगवानाह
उक्तमेवैतन्मयाद्य पीत्रस्ते त्रिदिसाद्गङ्गां
भुवमानेष्वतीति ॥ २८ ॥ तदम्भसा स संस्पृष्टेष्व-
स्थिभस्मसु एते च स्वर्गमारोक्ष्यन्ति ॥ २९ ॥
भगवद्विष्णुपादांगुष्ठनिर्गतस्य हि
जलस्यैतन्माहात्म्यम् ॥ ३० ॥ यन्न केवलमधि-
सन्धिपूर्वकं स्नानाद्युपभोगेषूपकारकमनधि-
संहितमप्यपेतप्राणस्यास्थिचर्मस्नायुकेऽशाद्युपस्पृष्टं
शरीरजम्पि पतितं सद्यश्शरीरिणं स्वर्गं
न्यतीत्युक्तः प्रणम्य भगवतेऽश्वमादाय पितामह-

इसी समय सगरने अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ
किया ॥ १६ ॥ उसमें उसके पुत्रोंद्वारा सुरक्षित घोड़ेकी कोई
व्यक्ति सुराकर पुत्रिलीमें घुस गया ॥ १७ ॥ तब उस घोड़ेके
खुरोंके चिह्नोंका अनुसरण करते हुए उनके पुत्रोंमेंसे प्रत्येकने
एक-एक योजन पृथिवी खोद डाली ॥ १८ ॥ तथा पातालमें
पहुँचकर ३२ राजकुमारोंने अपने घोड़ेको मिरता हुआ
देखा ॥ १९ ॥ पासद्वेमें मेघावरणहोन शरत्कालके सूयके
समान अपने तंजमें सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते
हुए घोड़ेको घुरानेवाले परमधि कपिलको सिर झुकलै
बैठे देखा ॥ २० ॥

तब तो वे दुरात्मा अपने अस्व-शश्वोंको उठाकर
'यही हमारा अपकारी और यज्ञमें बिगड़ डालनेवाला है,
इस घोड़ेको पुशनेआलेको पारो, पारो' ऐसा चिल्लाते हुए
उनकी ओर दौड़े ॥ २१ ॥ तब भगवान् कपिलदेवके कुछ
आँख बदलकर देखते ही वे सब अपने ही शरीरसे उठ्यन
हुए आँगनमें बलकर लपट हो गये ॥ २२ ॥

महात्मा सगरको जब मालूम हुआ कि घोड़ेका अनुसरण
करनेवाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिलके तेजसे दग्ध
हो गये हैं तो उन्होंने असमंजसके पुत्र अंशुमानको बोधते
आनेके लिये नियुक्त किया ॥ २३ ॥ वह सगर-पुत्रोंद्वारा
खोदे हुए मार्गसे कपिलजोंके पास पहुँचा और भक्तिमग्न
होकर उनकी स्तुति की ॥ २४ ॥ तब भगवान् कपिलने
उससे कहा—'वेता! जा, इस घोड़ेको ले जम्कर अपने
दादाको दे और तेरी जो हृच्छ हो वही वर माँग ले। तेरा
पीत्र गंगाजीको स्वर्गसे पृथिवीपर लायेगा ॥' २५-२६ ॥
इसपर अंशुमानने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिये जो
ब्रह्मदण्डसे आहत होकर मरे हुए गेरे अस्वर्ग्य पितृगणसे
स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला हो ॥ २७ ॥ यह सुनकर भगवान्ने
कहा—'मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पीत्र
गंगाजीको स्वर्गसे पृथिवीपर लायेगा ॥ २८ ॥ उनके बलसे
इनकी आस्थियोंकी भस्मका स्पर्श होते ही वे सब स्वर्गको बल
प्राप्ये ॥ २९ ॥ भगवान् विष्णुके चरणनखसे निकले हुए उस
जलका ऐसा माहात्म्य है कि यह कामनापूर्वक केवल स्नानदि
कार्योंमें ही उपयोगी हो—सही नहीं, अपितु, बिना कामके
मृतके पुरुषके अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदिक
स्पर्श हो जानेसे या उसके शरीरका कोई अंग गिरनेसे भी
वह देहधारीको तुल्य स्वर्गमें ले जाता है ॥' भगवान् कपिलके
ऐसा कहनेपर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़ेकी लोक

यज्ञमाजगाम ॥ ३१ ॥ सगरौऽप्यश्वमासाद्य तं यज्ञं
समापयामास ॥ ३२ ॥ सागरं चात्मजप्रीत्या पुत्रत्वे
कल्पितवान् ॥ ३३ ॥ तस्यांशुमतो दिलीपः
पुत्रोऽभवत् ॥ ३४ ॥ दिलीपस्य भगीरथः योऽसौ
गङ्गां स्वर्गादिहानीय भगीरथीसर्ज्जं चक्रत् ॥ ३५ ॥

भगीरथात्सुहोत्रस्सुहोत्राच्छ्रुतः, तस्यापि
नाभागः ततोऽम्बरीषः, तत्पुत्रस्सिन्धुद्वीपः
सिन्धुद्वीपाद्युतायुः ॥ ३६ ॥ तत्पुत्रश्च ऋतुपर्णाः,
योऽसौ नलसह्योऽक्षहृदयज्ञोऽभूत् ॥ ३७ ॥

ऋतुपर्णापुत्रस्सर्वकामः ॥ ३८ ॥ तत्पुत्रश्च
सुदासः ॥ ३९ ॥ सुदासात्सौदासो मित्र-
सहनामा ॥ ४० ॥ स चाटव्यां मृगयाधीं पर्यटन्
व्याघ्रद्वयमपश्यत् ॥ ४१ ॥ ताभ्यां तद्वनमपमृगं
कृतं मत्सैकं तयोर्बाणेन जघान ॥ ४२ ॥
प्रियमाणश्चासावतिभीषणाकृतिरतिकरालवदनो
राक्षसोऽभूत् ॥ ४३ ॥ द्वितीयोऽपि प्रतिक्रियां ते
करिष्यामीत्युक्तवान्तर्धानं जगाम ॥ ४४ ॥

कालेन गच्छता सौदासो यज्ञमयजत् ॥ ४५ ॥
परिनिष्ठितयज्ञे आचार्यं वसिष्ठे निष्कान्ते तद्रक्षो
वसिष्ठरूपमास्थाय यज्ञावसाने मम नरमांसभोजनं
देयमिति तत्संस्क्रियतां क्षणादागमिष्यामी-
त्युक्त्वा निष्कान्तः ॥ ४६ ॥ भूयश्च सूदवेधं
कृत्वा राजाज्ञया मानुषं मांसं संस्कृत्य राज्ञे
न्यवेदयत् ॥ ४७ ॥ असावपि हिरण्यपात्रे
मांसमादाय वसिष्ठगमनप्रतीक्षकोऽभवत् ॥ ४८ ॥
आगताय वसिष्ठाय निवेदितवान् ॥ ४९ ॥

स चाप्यचिन्तयदहो अस्य राज्ञो दीर्घशील्यं
येनैतन्मांसमस्माकं प्रयच्छति किमेतद्रव्य-
जातमिति ध्यानपरोऽभवत् ॥ ५० ॥ अपश्यच्च
तन्मांसं मानुषम् ॥ ५१ ॥ अतः क्रोधकलुषी-
कृतचेता राजनि शापमुत्ससर्ज ॥ ५२ ॥
यस्माद्भोऽन्यमेतद्दस्मद्विधानां तपस्विनामव-
गच्छन्पि भवान्मह्यं ददाति तस्मात्तथैवात्र
लोलुपता भविष्यतीति ॥ ५३ ॥

अपने पितामहकी यज्ञशालामें आया ॥ ३०-३१ ॥ राजा
सगरने भी भोसैके मिल जानेपर अपना यज्ञ समाप्त
किया और [अपने पुत्रोंके खोदे हुए] सागरको ही
अपत्य-स्नेहसे अपना पुत्र माना ॥ ३२-३३ ॥ उस
अंशुमानके दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीपके
भगीरथ हुआ जिसने गंगाखीको स्नानसे पृथिवीपर
लाकर उनका नाम भगीरथी कर दिया ॥ ३४-३५ ॥

भगीरथसे सुहोत्र, सुहोत्रसे श्रुति, श्रुतिसे नाभाग,
नाभागसे अम्बरीष, अम्बरीषसे सिन्धुद्वीप, सिन्धुद्वीपसे अयुतायु
और अयुतायुसे ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ जो राजा नलका
सहायक और घुत्रक्रीडाका पारदर्शी था ॥ ३६-३७ ॥

ऋतुपर्णका पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदस और
सुदासका पुत्र सौदास मित्रसह हुआ ॥ ३८-४० ॥ एक
दिन मृगमाके लिये वनमें घूमते-घूमते उसने दो व्याघ्र
देखे ॥ ४१ ॥ इन्होंने सम्पूर्ण वनको मृगहीन कर दिया है—
ऐसा समझकर उसने उनमेंसे एकको बाणसे मार डाला ॥ ४२ ॥
मरते समय यह अति भयंकररूप क्रूर-वदन राक्षस हो
गया ॥ ४३ ॥ तथा दूसरा भी 'मैं इसका बदला लूँगा' ऐसा
कहकर अन्तर्धान हो गया ॥ ४४ ॥

कालान्तरमें सौदासने एक यज्ञ किया ॥ ४५ ॥ यज्ञ
समाप्त हो जानेपर जब आचार्य वसिष्ठ बाहर चले गये
तब यह राक्षस वसिष्ठजीका रूप बनाकर बोला—'यज्ञके
पूर्ण होनेपर मुझे नर-मांसयुक्त भोजन कथना चाहिये; अतः
तुम ऐसा अन्न तैयार कथओ, मैं अभी आता हूँ' ऐसा
कहकर यह बाहर चला गया ॥ ४६ ॥ फिर रसोइयेका वेप
बनाकर राजाको आज्ञासे उसने धनुष्यका मांस पकाकर
उसे निवेदन किया ॥ ४७ ॥ राजा भी उसे सुवर्णपात्रमें
रखकर वसिष्ठजीके आनेकी प्रतीक्षा करने लगा और
उनके आते ही यह मांस निवेदन कर दिया ॥ ४८-४९ ॥

वसिष्ठजीने सोचा—'अहो! इस राजाको कुटिलता
तो देखो जो यह जान-बूझकर भी मुझे खानेके लिये यह
मांस देता है; फिर यह जाननेके लिये कि यह किसका है
ये ध्यानस्थ हो गये ॥ ५० ॥ व्यानावस्थामें उन्होंने देखा कि
वह तो नरमांस है ॥ ५१ ॥ तब तो क्रोधके कारण क्षुब्धचित्त
होकर उन्होंने राजाको यह शाप दिया ॥ ५२ ॥ 'क्योंकि
तूने जान-बूझकर भी हमारे-जैसे तपस्विनोंके लिये अत्यन्त
अभक्ष्य यह नरमांस मुझे खानेको दिया है इसलिये तेरी
इसीमें लोलुपता होगी [अर्थात् तू राक्षस हो जायगा] ॥ ५३ ॥

अनन्तरं च तेनापि भगवतैवाभिहितोऽस्मीत्युक्ते किं किं मयाभिहितमिति मुनिः पुनरपि समाधीं तस्मै ॥ ५४ ॥ समाधिविज्ञानावगतार्थश्चानुग्रहं तस्मै शक्यं नित्यं नित्यमेतद्ब्रह्मदशाब्दं तव भोजनं भविष्यतीति ॥ ५५ ॥ असावपि प्रतिगृह्योदकाब्जलिं मुनिशापप्रदानायोद्यतो भगवन्वयमस्मद्गुरुसर्वाहस्येन कुलदेयताभूतमाचार्यशपत्तुमिति भद्रेण स्वपत्न्या स्वपत्न्या प्रसादितस्सस्वाम्बुदक्षपार्थं तच्छापाय्यु नोभ्यां न चाकाशे त्रिक्षेप किं तु तेनैव स्वपदौ सिषेच ॥ ५६ ॥ तेन च क्रोधाश्रितेनाम्बुना दग्धचक्रयौ तत्पादौ कल्पयन्तान्मुपगतौ ततस्स कल्पावपादसंज्ञामवाप ॥ ५७ ॥ वसिष्ठशापाच्च षष्टे षष्टे काले राक्षसस्वभावमेत्याटव्यां पर्यटननेकशो मानुषानभक्षयत् ॥ ५८ ॥

एकदा तु कञ्चिन्मुनिमृतुकाले भार्यासंगतं ददर्श ॥ ५९ ॥ तयोश्च तमतिभीषणं राक्षसस्वरूपमघनोक्त्यं त्रासाहृम्यत्योः प्रधायितयोर्ब्राह्मणं जग्राह ॥ ६० ॥ ततस्सा ब्राह्मणी बहुशस्तमभियारचितवती ॥ ६१ ॥ प्रसीदेश्वाकु-कुलतिलकभूतस्त्वं महाराजो मित्रसहो न राक्षसः ॥ ६२ ॥ नाहंसि स्त्रीधर्मसुखाभिज्ञो मध्यकृतार्थायामस्मद्भर्तारं हन्तुमित्येवं बहुप्रकारं तस्यां विलपन्त्यां व्याघ्रः पशुमित्यारण्येऽधिपतं तं ब्राह्मणमभक्षयत् ॥ ६३ ॥

ततश्चातिक्रोपसमन्विता ब्राह्मणी तं राजानं शशाप ॥ ६४ ॥ यस्मादेवं मय्यतृप्तायां त्वयायं प्रत्यतिभीक्षितः तस्यान्वमपि कामोपभोगप्रवृत्तौ-जन्तं प्राप्यसीति ॥ ६५ ॥ शपत्वा चैवं साग्निं प्रविवेश ॥ ६६ ॥

ततस्तस्य द्वादशाब्दपर्यये विमुक्तशापस्य स्त्री-विषयाभिलाषिणी मद्यनी तं स्मारयामास ॥ ६७ ॥

तदनन्तर राजाके यह कहनेपर कि 'भगवन्! आपहीने ऐसी आज्ञा की थी, 'वसिष्ठजी यह कहते हुए कि 'क्या मैंने ही ऐसा वक्ता था ?' फिर समाधिस्थ हो गये ॥ ५४ ॥ समाधिद्वय यथार्थ थात जानकर उन्होंने राजापर अनुग्रह करते हुए कहा— 'तू अधिक दिन नरमांस भोजन न करेगा, केवल बारह वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा' ॥ ५५ ॥ वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर राजा सीदास भी अपनी अंजलिमें जल लेकर मुनीश्वरको शाप देनेके लिये उद्यत हुआ। किन्तु अपनी पत्नी मद्यनीद्वारा 'भगवन्! ये हमारे कुलगुरु हैं, उन कुलदेवरूप आचार्यको शाप देना उचित नहीं है'—ऐसा कहते जानेसे ज्ञान हो गया तथा अन्न और मेषको रक्षाके कारण उस शाप-बलको पृथिवी या आकाशमें नहीं फेंका, बल्कि दरसे अपने पैरोंको ही भिगो लिया ॥ ५६ ॥ उस क्रोधयुक्त जलसे उसके पैर झूलसकर कल्पावर्षण (चितकबरे) हो गये। तभीसे उनका नाम कल्पावर्षण हुआ ॥ ५७ ॥ तब वसिष्ठजीके शापके प्रभावसे छठे कालमें अर्थात् तीसरे दिनके अन्तिम भागमें वह राक्षस-स्वभाव धारणकर वनमें घूमते हुए अनेकों मनुष्योंको खाने लगा ॥ ५८ ॥

एक दिन उसने एक मुनीश्वरको ऋतुकालके समय अपनी भार्यासे संगत करते देखा ॥ ५९ ॥ उस अति भीषण राक्षस-रूपको देखकर भयसे भागते हुए उन दम्पतियोंमेंसे उसने ब्राह्मणको पकड़ लिया ॥ ६० ॥ तब ब्राह्मणीने उससे नाना प्रकारसे प्रार्थना की और कहा— 'हे राजन्! प्रसन्न होइये। आप राक्षस नहीं हैं बल्कि इश्वकुकुलतिलक मठाराज मित्रसह हैं ॥ ६१-६२ ॥ आप स्त्री संयोगके सुखको जाननेवाले हैं; मैं अतृप्त हूँ, मेरे पतिको मारना आपको उचित नहीं है।' इस प्रकार उसके नाना प्रकारसे विलाप करनेपर भी उसने उस ब्राह्मणको इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे दाढ़ अपने अधिपत पशुको वनमें पकड़कर खा जाता है ॥ ६३ ॥

तब ब्राह्मणीने अत्यन्त क्रोधित होकर राजाको शाप दिया— ॥ ६४ ॥ 'अरे! तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पतिको खा लिया, इसलिये कामोपभोगमें प्रवृत्त होते ही तेरा अन्त हो जायगा' ॥ ६५ ॥ इस प्रकार शाप देकर वह अग्निमें प्रविष्ट हो गयी ॥ ६६ ॥

तदनन्तर बारह वर्षके अन्तमें शापमुक्त हो जानेपर एक दिन विषय-कामनामें प्रवृत्त होनेपर रानी मद्यनीने उसे ब्राह्मणीके शापका स्मरण करा दिया ॥ ६७ ॥

ततः परमसौ स्त्रीभोगं तत्त्वाज ॥ ६८ ॥ वसिष्ठ-
श्चापुत्रेण यज्ञा पुत्रार्थमभ्यर्चित्ते मद्यन्तयो गर्भधानं
चकार ॥ ६९ ॥ यदा च सप्तवर्षाण्यसी गर्भो न
जज्ञे ततस्तं गर्भमश्मना सा देवी जघान ॥ ७० ॥
पुत्रश्चाजायत ॥ ७१ ॥ तस्य अश्रमक इत्येष
नामाभवत् ॥ ७२ ॥ अश्रमकस्य मूलको नाम
पुत्रोऽभवत् ॥ ७३ ॥ योऽसौ निःक्षत्रे
क्ष्मातलेऽस्मिन् क्रियमाणे स्त्रीभिर्द्विस्राभिः
परिवार्यं रक्षितस्ततस्तं नारीकवचमुदाहरति ॥ ७४ ॥

मूलकाद्विद्वान्मत्स्यस्तस्मादिलिविलस्ततश्चविश्व-
सहः ॥ ७५ ॥ तस्माच्च खट्वाङ्गो योऽसौ देवासु-
सङ्ग्रामे देवैरभ्यर्चितोऽसुराञ्जघान ॥ ७६ ॥
स्वर्गे च कृतप्रियैर्देवैर्वरग्रहणाय चोदितः
प्राह ॥ ७७ ॥ यद्यवश्यं वरो ग्राह्यस्तन्ममायुः
कथ्यतामिति ॥ ७८ ॥ अनन्तरं च तैरुक्तं
एकमुहूर्त्तप्रमाणं तवायुरित्युक्तोऽथास्त्रलित-
गतिना विमानेन लघिमगुणो मर्त्यलोकमागम्ये-
दमाह ॥ ७९ ॥ यथा न ब्राह्मणेभ्यस्सकाशा-
दान्वापि मे प्रियतरो न च स्वधर्मोत्सङ्गं यथा
कदाचिदप्यनुष्ठितं न च सकलदेवमानुषपशुपक्षि-
पृक्षादिकेष्वच्युतव्यतिरेकवती दृष्टिर्ममाभूत् तथा
तमेव मुनिजनानुस्मृतं भगवन्तमस्त्रलितगतिः
प्रापयेयमित्यशेषदेवगुरौ भगवत्त्वनिर्देश्यवपुषि
सत्तामात्रात्मन्वात्मानं परमात्मनि वासुदेवाख्ये
युयोज तत्रैव च लयमयाप ॥ ८० ॥

अत्रापि श्रूयते श्लोको गीतस्सप्तर्षिभिः पुरा ।
खट्वाङ्गेन समो नायः कश्चित्सुहृदा भविष्यति ॥ ८१ ॥
येन स्वर्गादिह्रगम्य मुहूर्त्तं प्राप्य जीवितम् ।
त्रयोऽभिर्संहिता लोकात् कुट्टया सत्येन चैव हि ॥ ८२ ॥

खट्वाङ्गादीर्षबाहुः पुत्रोऽभवत् ॥ ८३ ॥ ततो
रघुरभवत् ॥ ८४ ॥ तस्मादप्यजः ॥ ८५ ॥
अजाद्विश्वः ॥ ८६ ॥ तस्यापि भगवान्भजनाभो
जगतः स्थित्यर्थमात्मांशेन रामलक्ष्मणभरत-
शत्रुघ्नरूपेण चतुर्धा पुत्रत्वमायासीत् ॥ ८७ ॥

तभीसे राजाने स्त्री-सम्भोग त्याग दिया ॥ ६८ ॥ पोत्रे
पुत्रहोन राजाके प्रार्थना करनेपर वसिष्ठजीने षडयन्तीके
गर्भधान किया ॥ ६९ ॥ जब उस गर्भने सात वर्ष स्वतीत
शेनेपर भी जन्म न लिया तो देवी मद्यन्तीने उसपर पत्थरसे
प्रहार किया ॥ ७० ॥ इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ
और उसका नाम अश्रमक हुआ ॥ ७१-७२ ॥ अश्रमकके
मूलक नामक पुत्र हुआ ॥ ७३ ॥ जब परशुरामजीद्वारा यह
पृथिवीतल क्षत्रियहीन किया जा रहा था उस समय उस
(मूलक)-की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियोंने घेरकर की थी,
इससे उसे नारीकवच भी कहते हैं ॥ ७४ ॥

मूलकके दशरथ, दशरथके इलिविल, इलिविलके
विश्वसह और विश्वसहके खट्वाङ्ग नामक पुत्र हुआ, जिसने
देवासुरसंग्राममें देवताओंके प्रार्थना करनेपर दैवीशक्ति बर
किया था ॥ ७५-७६ ॥ इस प्रकार स्वर्गमें देवताओंका प्रिय
करनेसे उनके द्वारा वर माँगनेके लिये प्रेरित किये जानेपर
उसने कहा— ॥ ७७ ॥ “यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो
आपलोग मेरी आयु बतलाइये” ॥ ७८ ॥ तब देवताओंके यह
कहनेपर कि तुम्हारी आयु केवल एक मुहूर्त्त और रही है वह
[देवताओंके दिने हुए] एक अनवरतगति विमानपर बैठकर
यही शीघ्रतासे मर्त्यलोकमें आया और कहने लगा— ॥ ७९ ॥
'यदि मुझे ब्राह्मणोंकी अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर
नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्मका उल्लंघन नहीं किया
और सम्पूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्षादिमें श्रीमञ्जुके
अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई तो मैं निर्दोषतापूर्वक
उन मुनिजनवन्दित प्रभुको प्राण छोड़ें।' ऐसा कहते हुए
राजा खट्वाङ्गेने सम्पूर्ण देवताओंके गुरु, अकथनीयस्वरूप,
सत्तामात्र-शरीर, परमात्मा भगवान् वासुदेवमें अपना चित्त
लगा दिया और उन्हींमें लीन हो गये ॥ ८० ॥

इस विषयमें भी पूर्वकालमें सप्तर्षियोंद्वारा कहा हुआ
श्लोक सुना जाया है। [उसमें कहा है—] 'खट्वाङ्गके
समान पृथिवीतलमें अन्य कोई भी राजा नहीं होगा, जिसने
एक मुहूर्त्तपत्र जीपनके रहते ही स्वर्गलोकसे भूमण्डलमें
आकर अपनी सुदृष्टिद्वारा तीनों लोकोंको सत्यस्वरूप भगवान्
वासुदेवमें देखा' ॥ ८१-८२ ॥

खट्वाङ्गसे दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घबाहुसे रघु,
रघुसे अज और अजसे दशरथने जन्म लिया ॥ ८३-८६ ॥
दशरथजीके भगवान् कमलनाभ जगन्मकी स्थितिके
लिये अपने अंशोंसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न-इन
चार रूपोंसे पुत्र-भावको प्राप्त हुए ॥ ८७ ॥

रामोऽपि बाल एव विश्वामित्रयागरक्षणाय
गच्छंस्ताटकां जघान ॥ ८८ ॥ यज्ञे च मारीच-
मिथुवाताहतं समुद्रे चिक्षेप ॥ ८९ ॥ सुबाहु-
प्रमुखांश्च क्षयमनयत् ॥ ९० ॥ दर्शनामत्रै-
णाहल्यामपार्यां चकार ॥ ९१ ॥ जनकगृहे च
माहेश्वरं चापमनायासेन बभञ्ज ॥ ९२ ॥
सीतामद्योनिजां जनकराजतनयां वीर्यशुल्कां
लेभे ॥ ९३ ॥ सकलक्षत्रियक्षयकारिणमशेष-
हृह्यकुलधूमकेतुभूतं च परशुराममपास्तवीर्य-
बलावलेपं चकार ॥ ९४ ॥

पितृवचनाच्छागणितराण्याभिलाषो भक्त-
भार्यासमेतो वनं प्रविवेश ॥ ९५ ॥ विराधखर-
दूषणादीन् कबन्धवासिनीं च निजघान ॥ ९६ ॥
बद्ध्वा चाम्भोनिधिपशेषराक्षसकुलक्षयं कृत्वा
दशाननापहृतां भार्यां तद्दद्यादपहृतऽकलंका-
मप्यनलप्रवेशशुद्धामशेषदेवसङ्घैः स्तूयमानशीलां
जनकराजकन्यामयोध्यामानिन्ये ॥ ९७ ॥ तत-
श्चाभिवेकपङ्कलं मैत्रेय वर्षशतेनापि सक्तुं न
शक्यते सङ्क्षेपेण श्रूयताम् ॥ ९८ ॥

लक्ष्मणभरतशत्रुघ्निविभीषणसुरीवाङ्गद-
जाम्बवद्धनुमत्प्रभृतिभिस्समुत्फुल्लवदनैश्छत्र-
चामरादियुतैः सेव्यमानो दशरथिर्ब्रह्मोन्द्राग्नि-
यमनिर्ऋतिवरुणावासुकुबेरेशानप्रभृतिभिस्सर्वा-
मरैर्वीसृष्ट्यामदेववासीकिमार्कण्डेयविश्वामित्र-
भरद्वाजागस्त्यप्रभृतिभिर्पुनिवैरैः ऋगजसुस्मानाथ-
र्वीभिस्सस्तूयमानो नृत्यगीतवाद्याद्यखिललोक-
पङ्कलघातैर्वीणावेणुमुदङ्गभेरीपटहशाङ्गकाहल-
गोमुखप्रभृतिभिस्सुपाईसमस्तभूभूतां मध्ये
सकललोकरक्षार्थं अथोचितमभिविक्तो
दाशरथिः कोसलेन्द्रो रघुकुलतिलको
जामकीप्रियो भ्रातृत्रयप्रियसिंहसुसुनगत
एकादशाब्दसहस्रं राज्यमकरोत् ॥ ९९ ॥

रामजीने वाल्यावस्थामें ही विश्वामित्रजीको यज्ञशक्के
लिये जते हुए मार्गमें ही ताटकः राक्षसीको मार, फिर
पङ्कशालामें पहुँचकर मारीचको आगलूपी नापुसे आहत
कर समुद्रमें फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसोंको नष्ट
कर डाला ॥ ८८—९० ॥ उन्होंने अपने दर्शनमात्रसे अहल्याको
निष्पाप किया, जनकजीके राजभवनमें विना श्रम ही
महादेवजीका धनुष तोड़ा और पुरुषार्थसे ही प्राप्त होनेवाली
अयोनिजा जनकराजान्दिनी श्रीसीताजीको परतरीरूपसे प्राप्त
किया ॥ ९१—९३ ॥ और तदनन्तर सम्पूर्ण क्षत्रियोंको नष्ट
करनेवाले, समस्त ईहयकुलके लिये अग्निस्वरूप
परशुरामजीके बल वीर्यका गर्व नष्ट किया ॥ ९४ ॥

फिर पितृके वचनसे राज्यलक्ष्मीको कुछ भी न
गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीताके ललित वनमें
गले गये ॥ ९५ ॥ वहाँ निरुध, खर, दूषण आदि राक्षस
तथा कबन्ध और वासीका जघ किया और समुद्रपर पुल
बँधकर सम्पूर्ण राक्षसकुलका विध्वंस किया तथा रावणद्वारा
हरी हुई और उसके अश्वसे कलंकहीना होनेपर भी अग्नि-
प्रवेशसे शुद्ध हुई समस्त देवगणोंसे प्रशंसित स्वभाववासी
अपनी भार्या जनकराजकन्या सीताको अयोध्यामें ले
आये ॥ ९६—९७ ॥ हे मैत्रेय! उस समय उनके राण्याभिवेक-
जैसा मंगल हुआ उसका तो सी वर्षमें भी वर्णन नहीं
किया जा सकता; तथापि संक्षेपसे सुनो ॥ ९८ ॥

दशरथवन्दन श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्नवदन लक्ष्मण,
भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान्
और हनुमान् आदिसे छत्र-चामरादिद्वारा सेवित हो,
ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, यम, निर्रति, यरुण, वायु, कुबेर
और ईशान आदि सम्पूर्ण देवगण, वसिष्ठ, वामदेव,
वाल्मीकि, मार्कण्डेय, विश्वामित्र, भरद्वाज और अगस्त्य
आदि गुनिजन तथा ऋक्ष, यजुः, साम और अथर्ववेदोंसे
स्तुति किये जते हुए तथा नृत्य, गीत, वाद्य आदि
सम्पूर्ण मंगलसामग्रियोंसहित वीणा, वेणु, मुद्ग,
भेरी, पटह, शंख, काहल और गोमुख आदि
बाजोंके घोषके साथ स्थूल राजाओंके मध्यमें सम्पूर्ण
लोकोंकी रक्षाके लिये विधिपूर्वक अभिविक्त
हुए। इस प्रकार दशरथकुमार कोसलाधिपति,
रघुकुलतिलक, जानकीवल्लभ, सीता भ्रातृज्योत्सवके
प्रिय श्रीरामचन्द्रजीने सिंहासनाकृद् होकर ग्यारह हजार
वर्ष राज्य-शासन किया ॥ ९९ ॥

भरतोऽपि गन्धर्वविषयसाधनाय गच्छन् संग्रामे
गन्धर्वकोटीस्तिस्रो जघान ॥ १०० ॥ शत्रुघ्ने-
नाप्यमितबलपराक्रमो मधुपुत्रो लवणो नाम
राक्षसो निहतो मथुरा च निवेशिता ॥ १०१ ॥
इत्येवमाद्यतिबलपराक्रमविक्रमपौरतिदुष्ट-
संहारिणोऽशेषस्य जगतो निष्पादितस्थितयो राम-
लक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः पुनरपि दिवमारूढाः ॥ १०२ ॥
येऽपि तेषु भगवदंशेष्वनुरागिणः कोसलनगर-
जानपदास्तेऽपि तन्मनसस्तसालोक्यतामवापुः ॥ १०३ ॥

अतिदुष्टसंहारिणो रामस्य कुशलवीं द्वौ पुत्रौ
लक्ष्मणस्याद्बदचन्द्रकेतू तक्षपुष्कलौ भरतस्य
सुबाहुशूरसेनौ शत्रुघ्नस्य ॥ १०४ ॥ कुशस्या-
तिधिरतिथेरपि निषधः पुत्रोऽभूत् ॥ १०५ ॥
निषधस्त्वाप्यनलस्तस्मादपि नभाः नभसः
पुण्डरीकस्तत्तनयः क्षेमधन्वा तस्य च
देवानीकस्तस्याप्यहीनकोऽहीनकस्यापि रुद्रस्तस्य
च पारियात्रकः पारियात्रकादेकलो देवलाद्बच्चलः,
तम्पाप्युत्कः, उत्काच्च वज्रनाभस्तस्माच्छत्रुणास्तस्मा-
द्दुधिताश्वस्ततश्च विश्वसहो जज्ञे ॥ १०६ ॥
तस्माद्दिरण्यनाभो यो महायोगीश्वरश्चैमिनेश्शिष्या-
द्याज्ञसत्स्वाद्योगमासाप ॥ १०७ ॥ हिरण्यनाभस्य
पुत्रः पुष्यस्तस्माद्भुवसन्धिस्ततस्सुदर्शनस्तस्मा-
दग्निवर्णास्ततश्शीघ्रगस्तस्मादपि भरुः
पुत्रोऽभवत् ॥ १०८ ॥ योऽसौ योगमास्थायाद्यापि
कलाप्रणाममाश्रित्य तिष्ठति ॥ १०९ ॥ आगामियुगे
सूर्यवंशक्षत्रप्रवर्त्तयिता भविष्यति ॥ ११० ॥
तस्यात्मजः प्रसुश्रुतस्तस्यापि सुसन्धिस्ततश्चाप्य-
मर्षस्तस्य च सहस्रान्ततश्च विश्वभक्तः ॥ १११ ॥
तस्य बृहद्भक्तः योऽर्जुनतनयेनाभिपन्थुना
भारतयुद्धे क्षयमनीयत ॥ ११२ ॥

एते इक्ष्वाकुभूपालाः प्राधान्येन मयेरिताः ।
एतेषां चरितं शृण्वन् सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ११३ ॥

भरतजीने भी गन्धर्वलोकको जीतनेके लिये
जाकर युद्धमें तीन करोड़ गन्धर्वोंका वध किया और
शत्रुघ्नजीने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी
मधुपुत्र लवण राक्षसका संहार किया और मधुघ नापक
नगरकी स्थापना की ॥ १००-१०१ ॥ इस प्रकार
अपने अतिशय बल पद्यक्रमसे महान् दुष्टोंको
नष्ट करनेवाले भगवान् राम, लक्ष्मण, भरत और
शत्रुघ्न सम्पूर्ण जातकी यथोचित व्यवस्था करनेके
अनन्तर फिर स्वर्गलोकको पथारे ॥ १०२ ॥ उनके
साथ ही जो अयोध्यानिवासी उन भगवदंशस्वरूपोंके
अतिशय अनुरागी थे वन्होंने भी तन्मय होनेके कारण
सालोक्य-मुक्ति प्राप्त की ॥ १०३ ॥

दुष्ट-दलन भगवान् रामके कुश और लव नामक
दो पुत्र हुए । इसी प्रकार लक्ष्मणजीके अंगद और चन्द्रकेतु,
भरतजीके तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्नजीके सुबाहु और
शूरसेन नामक पुत्र हुए ॥ १०४ ॥ कुशके अतिथि, अतिथिके
निषध, निषधके अनल, अनलके नभ, नभके पुण्डरीक,
पुण्डरीकके क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वाके देवानीक, देवानीकके
अहीनक, अहीनकके रुद्र, रुद्रके पारियात्रक, पारियात्रकके
देवल, देवलके बच्चल, बच्चलके उत्क, उत्कके वज्रनाभ,
वज्रनाभके संखण, संखणके सुधिताश्व और सुधिताश्वके
निरवसह नामक पुत्र हुआ ॥ १०५-१०६ ॥ विश्वसहके
हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ जिसने जैमिनिके शिष्य
महायोगीश्वर याज्ञवल्क्यजीसे योगसिद्धा प्राप्त की थी ॥ १०७ ॥
हिरण्यनाभका पुत्र पुष्य था, उसका पुत्रसन्धि, पुष्यसन्धिका
सुदर्शन, सुदर्शनका अग्निवर्ण, अग्निवर्णका शीघ्र तथा
शीघ्रका पुत्र भरु हुआ जो इस क्षयय भी योगाभ्यासमें
उत्पर हुआ कलाप्रणाममें स्थित है ॥ १०८-१०९ ॥ आगामी
युगमें यह सूर्यवंशीय क्षत्रियोंका प्रवर्त्तक होगा ॥ ११० ॥
मर्षका पुत्र प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुतका सुसन्धि, सुसन्धिका अमर्ष,
अमर्षका सहस्रान्, सहस्रान्का विश्वभक्त तथा विश्वभक्तका
पुत्र बृहद्भक्त हुआ जिसको भारत युद्धमें अर्जुनके पुत्र अभिमन्युने
मार्य था ॥ १११-११२ ॥

इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकुकुलके प्रधान-प्रधान
राजाओंका वर्णन किया । इनका चरित्र सुननेसे मनुष्य
सकल पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ११३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थोऽंशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अध्याय

निमि-घरित्र और निमिषंशका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

इक्ष्वाकुतनयो योऽसी निमिर्नाम सहस्रं वत्सरं
सत्रमारेभे ॥ १ ॥ वसिष्ठं च होतारं
वरयामास ॥ २ ॥ तमाह वसिष्ठोऽहमिन्द्रेण
पञ्चवर्षशतयागार्थं प्रथमं वृतः ॥ ३ ॥ तदनन्तरं
प्रतिपाल्यतामागतस्तवपि ऋत्विग्भविष्यामीत्युक्ते
स पृथिवीपतिर्न किञ्चिदुक्तवान् ॥ ४ ॥

वसिष्ठोऽयनेन समन्वीयितमित्थमरपते-
र्यागमकरोत् ॥ ५ ॥ सोऽपि तत्काल
एवान्यैर्गौतमादिभिर्यागमकरोत् ॥ ६ ॥

समाप्ते चामरपतेर्यगि त्वस्था वसिष्ठो निमिषं
करिष्यामीत्याक्षयाम ॥ ७ ॥ तत्कर्मकर्तुं च
गीतमस्य दृष्ट्वा स्वपते तस्मै राज्ञे मां
प्रत्याख्यायैतदनेन गौतमाय कर्मान्तरं
सम्पितं यस्मान्मादयं विदेहो भविष्यतीति
शापं ददौ ॥ ८ ॥ प्रबुद्धश्चासावन्नियतिरपि
प्राह ॥ ९ ॥ यस्मान्मामसम्भाष्याजानत एव
शयानस्य शापोत्सर्गमसी दृष्टगुरुश्चकार
तस्मात्तस्यापि देहः पतिष्यतीति शापं दत्त्वा
देहमत्यजत् ॥ १० ॥

तच्छ्रपाञ्च मित्रावरुणयोस्तेजसि वसिष्ठस्य
चेतः प्रविष्टम् ॥ ११ ॥ उर्वशीदर्शानादुद्धत-
शीजप्रपातयोस्तयोस्तकाशाह्वसिष्ठो देहमपरं
लेभे ॥ १२ ॥ नियेरपि तच्छरीरपतिमनोहर-
गन्धर्तलादिभिरुपसंस्क्रियमाणं नैव क्लेदादिकं
दोषमवाप सद्यो मृत इव तस्थौ ॥ १३ ॥

यज्ञसम्पत्ती भागग्रहणाय देवानागतानुत्विज
कस्युर्वजमानाय यरो वीर्यतामिति ॥ १४ ॥ देवैश्च
छन्दितोऽसी निमिराह ॥ १५ ॥ भगवन्तोऽखिल-
संसारदुःखहन्तारः ॥ १६ ॥ न ज्ञोताद्दृगन्यद्-
दुःखमस्ति यच्छरीरात्मनोर्विद्योगे भवति ॥ १७ ॥
सदहमिच्छामि सकललोकलोकजनेषु वस्तुं न
पुनश्शरीरग्रहणं कर्तुमिच्छेवमुक्तैर्देवैरसावशेष-

श्रीपराशरजी बोले— बुद्धवाकुकुका जो निमि नामक
पुत्र था उसने एक सहस्रवर्षमें समाप्त होनेवाले यज्ञका
आरम्भ किया ॥ १ ॥ उस यज्ञमें उसने वसिष्ठजीको होतार
वरण किया ॥ २ ॥ वसिष्ठजीने उससे कहा कि पाँच सौ
वर्षके यज्ञके लिये इन्द्रने मुझे पहले ही वरण कर लिया
है ॥ ३ ॥ अतः इतने समय तुम उठर जाओ, वहाँसे आनेपर
मैं हुन्हास भी ऋत्विक् हो जाऊँगा। उनके ऐसा कहनेपर
राजाने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया ॥ ४ ॥

वसिष्ठजीने यह सन्तुष्टकर कि राजाने उनका कथन
स्वीकार कर लिया है इन्द्रका यज्ञ आरम्भ कर दिया ॥ ५ ॥
किन्तु राजा निमि भी उसी समय गौतमादि अन्य होतारोंप्रा
अपना यज्ञ करने लगे ॥ ६ ॥

देवरज इन्द्रको यज्ञ समाप्त होने ही 'मुझे निमिका
यज्ञ कराना है' इस विचारसे वसिष्ठजी भी तुरंत ही आ
गये ॥ ७ ॥ उस यज्ञमें अपना [होतारका] कर्म गौतमको फलते
देख उन्होंने शीघ्र ही राजा निमिको यह शाप दिया कि 'इसने
मेरी अजज्ञा करके सम्पूर्ण कारिका भार गौतमको सौंपा है
इसलिये यह देहहीन हो जायगा' ॥ ८ ॥ सोकर उठनेपर राज
निमिने भी कहा— ॥ ९ ॥ "इस दृष्ट गुरुने मुझसे बिना
जातनीत किये अज्ञानतापूर्वक मुझ सोमे हुएको शाप दिया
है, इसलिये इसका देह भी नष्ट हो जायगा।" इस प्रकार
शाप देकर राजाने अपना शरीर छोड़ दिया ॥ १० ॥

राजा निमिके रूपसे वसिष्ठजीका लिंगदेह मित्रावरुणके
वीर्यमें प्रविष्ट हुआ ॥ ११ ॥ और उर्वशीके देखनेसे
उसका वीर्य सखलित होनेपर उसीसे उन्होंने दुसरा देह
धारण किया ॥ १२ ॥ निमिका शरीर भी अति मनोहर
गन्ध और तैल आदिसे सुरक्षित रहनेके कारण गला-सड़ा
नहीं, बरिष्क तत्काल परे हुए देहके समान ही रहा ॥ १३ ॥

यज्ञ समाप्त होनेपर जब देवगण अपना भाग ग्रहण
करनेके लिये आये तो उनसे ऋत्विक्गण बोले कि—
"यज्ञमानको वर दीजिये" ॥ १४ ॥ देवताओंद्वारा प्रेरणा
किये जानेपर राजा निमिने उनसे कहा— ॥ १५ ॥ "भगवन्।
आपलोग सम्पूर्ण संसार-दुःखको दूर करनेवाले हैं ॥ १६ ॥
मेरे विचारमें शरीर और आत्माके वियोग होनेमें नैसा
दुःख होता है वैसा और फोड़ दुःख नहीं है ॥ १७ ॥
इसलिये मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता,
समस्त लोगोंके नेत्रोंमें ही बास करना चाहता हूँ।"

भूतानां नेत्रेष्ववतारितः ॥ १८ ॥ ततो भूतान्यु-
न्मेषनिमेषं चक्रुः ॥ १९ ॥

अपुत्रस्य च भूभुजः शरीरमराजकभीरवो
मुनवोऽरण्यार मन्थ्युः ॥ २० ॥ तत्र च
कुमारो जज्ञे ॥ २१ ॥ जननाञ्जनकसंज्ञां
चावाप ॥ २२ ॥ अभृष्टिदेहोऽस्य पितेति वैदेहः,
मथवान्मिधिरिति ॥ २३ ॥ तस्योदावसुः
पुत्रोऽभवत् ॥ २४ ॥ उदावसोर्नन्दिवर्द्धनस्ततस्सुकेतुः
तस्माद्देवरात्-स्ततश्च बृहदुक्थः तस्य च
महावीर्यस्तस्यापि सुधृतिः ॥ २५ ॥ ततश्च
धृष्टकेतुरजायत ॥ २६ ॥ धृष्टकेतोर्हर्यश्वस्तस्य
च मनुर्मनोः प्रतीकः, तस्मात्कृतरथस्तस्य
देवमीढः, तस्य च विबुधो विबुधस्य
महाधृतिस्ततश्च कृतरातः, ततो महारोमा तस्य
सुवर्णरोमा तत्पुत्रो ह्रस्वरोमा ह्रस्वरोऽप्यास्सीर-
ध्वजोऽभवत् ॥ २७ ॥ तस्य पुत्रार्थं यजनभुखं
कृषतः सीर सीता दुहिता समुत्पन्ना ॥ २८ ॥

सीरध्वजस्य धाता सांकाश्याधिपतिः कुश-
ध्वजनामासीत् ॥ २९ ॥ सीरध्वजस्यापत्यं
भानुमान् भानुमतश्शतद्युम्नः तस्य तु शुचिः
तस्माच्च्योर्जनामा पुत्रो जज्ञे ॥ ३० ॥ तस्यापि
शतध्वजः, ततः कृतिः कृतेरञ्जनः, तत्पुत्रः कुरुजित्
ततोऽरिष्टनेमिः तस्माच्छुतायुः श्रुतायुषः
सुपार्श्वः तस्मात्सुञ्जयः, ततः क्षेमावी
क्षेमाविभोऽनेनाः तस्माद्धीमरथः, तस्य सत्परथः,
तस्मादुपगुरुपरगोरुपरगुप्तः, तत्पुत्रः स्वागतस्तस्य
च स्वानन्दः, तस्माच्च सुवर्चाः, तस्य च सुपार्श्वः,
तस्यापि सुभाषः, तस्य सुश्रुतः तस्मात्सुश्रुताञ्जयः
तस्य पुत्रो विजयो विजयस्य ऋतः, ऋतात्सुनयः
सुनयाद्धीत-ह्रस्वः तस्माद्धृतिधृतेर्बहुनाश्वः, तस्य
पुत्रः कृतिः ॥ ३१ ॥ कृती सन्तिष्ठतेऽयं
जनकवंशः ॥ ३२ ॥ इत्येते मैथिलाः ॥ ३३ ॥
प्रायेणैते आत्मविद्याश्रयिणो भूयान्ता भवन्ति ॥ ३४ ॥

रजाके ऐसा कहनेपर देवताओंमें इनको समस्त जीवोंके
नेत्रोंमें अवस्थित कर दिया ॥ १८ ॥ तभीसे प्राणी निषेधोन्मेष
(पलक खोलना-पूँदना) करने लगे हैं ॥ १९ ॥

तदनन्तर अराजकताके भयसे मुनिवनोंमें उस
पुत्रहीन राजाके शरीरको अण्डि (अमीदण्ड)-से मैथा ॥ २० ॥
उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो बन्म लेनेके कारण
'जनक' कहलाया ॥ २१-२२ ॥ इसके पिता विदेह थे
हसरिले यह 'वैदेह' कहलाता है और मन्थनसे उत्पन्न
होनेके कारण 'मिथि' भी कहा जाता है ॥ २३ ॥ उसके
उदावसु नामक पुत्र हुआ ॥ २४ ॥ उदावसुके नन्दिवर्द्धन,
नन्दिवर्द्धनके सुकेतु, सुकेतुके देवरात, देवरातके बृहदुक्थ,
बृहदुक्थके महावीर्य, महावीर्यके सुधृति, सुधृतिके धृष्टकेतु,
धृष्टकेतुके हर्यश्व, हर्यश्वके मनु, मनुके प्रतीक,
प्रतीकके कृतरथ, कृतरथके देवमीढ, देवमीढके विबुध,
विबुधके महाधृति, महाधृतिके कृतरात, कृतरातके महारोमा,
महारोमाके सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमाके ह्रस्वरोमा और
ह्रस्वरोमाके सीरध्वज नामक पुत्र हुआ ॥ २५-२७ ॥ वह
पुत्रकी कामनासे यज्ञभूमिकी जोत रखा था। इसी समय
इसके अग्र भागमें उसके सीता नामकी कन्या उत्पन्न
हुई ॥ २८ ॥

सीरध्वजका भाई सांकाश्यनेत्र कुशध्वज था ॥ २९ ॥
सीरध्वजके भानुमान् नामक पुत्र हुआ। भानुमान्के शतद्युम्न,
शतद्युम्नके शुचि, शुचिके ऊर्जनामा, ऊर्जनामाके शतध्वज,
शतध्वजके कृति, कृतिके अञ्जन, अञ्जनके कुरुजित्,
कुरुजित्के अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमिके श्रुतायु, श्रुतायुके
सुपार्श्व, सुपार्श्वके सुञ्जय, सुञ्जयके क्षेमावी, क्षेमावीके
अनेना, अनेनाके भीमरथ, भीमरथके सत्परथ, सत्परथके
उपगु, उपगुके उपगुप्त, उपगुप्तके स्वागत, स्वागतके स्वानन्द,
स्वानन्दके सुवर्चा, सुवर्चाके सुपार्श्व, सुपार्श्वके
सुभाष, सुभाषके सुश्रुत, सुश्रुतके जय, जयके विजय,
विजयके ऋत, ऋतके सुनय, सुनयके वीतह्रस्वके
धृति, धृतिके बहुलाश्व और बहुलाश्वके कृति
नामक पुत्र हुआ ॥ ३०-३२ ॥ कृतिमें ही इस जनकवंशकी
समाप्ति हो जाती है ॥ ३३ ॥ ये ही मैथिलभूपालराज
हैं ॥ ३४ ॥ प्रायः ये सभी राजालोग आत्मविद्याको आश्रय
देनेवाले होते हैं ॥ ३४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

छठा अध्याय

सोमवंशका वर्णन; चन्द्रमा, शुभ और पुरूरवाका चरित्र

श्रीभैरव उवाच

सूर्यस्य वंश्या भगवन्कथिता भवता मम ।
सोमस्याप्यखिलान्वश्याऽङ्गोतुमिच्छामि पार्श्विद्यम् ॥ १

क्रीर्त्यते स्थिरक्रीर्तानां येषामद्यापि सन्ततिः ।
प्रसादसमुच्छस्तान्मे ब्रह्मन्नाख्यातुमर्हसि ॥ २

श्रीपराशर उवाच

श्रूयतां मुनिशार्दूल वंशः प्रथिततेजसः ।
सोमस्थानुकमात्ख्याता यत्रोर्वीपतयोऽभवन् ॥ ३

अयं हि वंशोऽखिलपराक्रमद्युतिशीलचेष्टा-
वद्विरतिगुणान्वितैर्नहुषयथातिकार्तवीर्यार्जुनादि-
भिर्भूपालैरलङ्कृतस्तमहं कथयामि
श्रूयताम् ॥ ४ ॥

अखिलजगत्स्रष्टुर्भगवतो नारायणस्य
नाभिसरोजसमुद्भवाब्जयोनेर्ब्रह्मणः पुत्रो-
ऽत्रिः ॥ ५ ॥ अत्रेस्मोमः ॥ ६ ॥ तं च भगवानब्ज-
योनिः अशेषीषधित्विजनक्षत्राणामाधिपत्ये-
ऽध्येषेचयत् ॥ ७ ॥ स च राजसूयमकरोत् ॥ ८ ॥
तस्य भावात्सृष्ट्वाऽधिपत्याधिष्ठातृत्वाद्धैर्न मद
आधिवेशः ॥ ९ ॥ मदावलेपाच्च सकलदेवगुरो-
र्बृहस्पतेस्तारा नाम पत्नीं जहार ॥ १० ॥
बृहस्पतिश्च बृहस्पतिजोदितेन भगवता ब्रह्मणा
सोद्यमानः सकलैश्च देवर्षिर्धियाध्यमानोऽपि न
मुमोच ॥ ११ ॥

तस्य चन्द्रस्य च बृहस्पतेर्होवाद्गुणानां पार्श्वि-
ग्राहोऽभूत् ॥ १२ ॥ अङ्गिरसश्च सकाशादुप-
लब्धविद्यो भगवान्करो बृहस्पतेः साहाय्य-
मकरोत् ॥ १३ ॥

यत्तश्चोक्षना ततो जम्भकुम्भाद्याः समस्ता
एव दैत्यदानवनिषमया महान्तमुद्यमं चक्रुः ॥ १४ ॥

भैरवजी बोले—भगवन्। आपने सूर्यवंशीय
राजाओंका वर्णन तो कर दिया, अब मैं सम्पूर्ण
चन्द्रवंशीय भूपतियोंका वृत्तान्त भी सुनना चाहता हूँ।
जिन स्थिरक्रीर्ति महाराजोंकी सन्ततिका सुयश आज
भी गान किया जाता है, वे ब्रह्मन्। प्रसन्न-मुखसे अग
उन्हींका वर्णन गुह्यसे कीजिये ॥ १-२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मुनिशार्दूल! परम सैभस्वी
चन्द्रमाके वंशका क्रमशः श्रवण करो जिसमें अनेकों
विख्यात राजालोक हुए हैं ॥ ३ ॥

यह वंश नहुष, ययाति, कालंवीर्य और अर्जुन
आदि अनेकों अति बल-पराक्रमशील, कान्तिमान्,
क्रियमान् और सद्गुणसम्पन्न राजाओंसे अलंकृत
हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥

सम्पूर्ण जगत्के रचयिता भगवान् नारायणके
नाभि-कमलसे उत्पन्न हुए भगवान् ब्रह्माजीके
पुत्र अत्रि प्रजापति थे ॥ ५ ॥ इन अत्रिके पुत्र
चन्द्रमा हुए ॥ ६ ॥ कमल-योनि भगवान् ब्रह्माजीने
उन्हें सम्पूर्ण औषधि, द्विजजन और नक्षत्रगणके
आधिपत्यपर अधिष्ठाक कर दिया था ॥ ७ ॥ चन्द्रमाने
राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥ अपने प्रभाव
और अति उत्कृष्ट आधिपत्यके अधिकारी होनेसे
चन्द्रमापर राजमद सवार हुआ ॥ ९ ॥ तब मदोन्मत्त
हो जानेके कारण उसने समस्त देवताओंके गुरु
भगवान् बृहस्पतिजीकी भार्या ताराको हरण कर
लिया ॥ १० ॥ तथा बृहस्पतिजीकी प्रेरणासे भगवान्
ब्रह्माजीके बहुत कुछ कठने-सुनने और देवर्षियोंके
मौननेपर भी उसे न छोड़ा ॥ ११ ॥

बृहस्पतिजीसे द्वेष करनेके कारण शुक्रजी भी
चन्द्रमाके सहायक हो गये और अंगिरासे विद्या-लाभ
करनेके कारण भगवान् रुद्रने बृहस्पतिजीको सहायता की
[क्योंकि बृहस्पतिजी अंगिराके पुत्र हैं] ॥ १२-१३ ॥

जिस पक्षमें शुक्रजी थे उस ओरसे जम्ब
और क्रुम्ब आदि समस्त दैत्य-दानवादिने भी
[सहायता देनेमें] बड़ा उद्योग किया ॥ १४ ॥

बृहस्पतेरपि सकलदेवसैन्ययुतः सहायः शक्रो-
ऽभवत् ॥ १५ ॥ एवं च तद्योरतीवोप्रसंगाम-
स्तारानिमित्तस्तारकामयो नामाभूत् ॥ १६ ॥
ततश्च समस्तभस्वाप्यसुरेषु रुद्रपुरोगमा देवा देवेषु
चाशेषदानवा मुमुक्षुः ॥ १७ ॥ एवं देवासुराह्व-
संक्षोभक्षुब्धहृदयमशेषमेव जगद्गृहार्ण शरणं
जगाम ॥ १८ ॥ ततश्च भगवानब्जयो-
निरप्युशानसं शङ्करमसुरादेवांश्च निवार्य बृहस्पतये
तारामदापयत् ॥ १९ ॥ तां चान्तःप्रसवा-
मवलोक्य बृहस्पतिरप्याह ॥ २० ॥ नैव मम क्षेत्रे
भवत्यान्वस्य सुतो धार्यस्समुत्सुजैनमसमलमति-
धाष्टर्चनेति ॥ २१ ॥

सा च तेनैवमुक्तातिपतिवृता भर्तृवचनानन्तरं
तमिषीकास्तस्थे गर्भमुत्ससर्त्वा ॥ २२ ॥ स
चोत्सृष्टमात्र एवातितेजसा देवानां तेजास्या-
चिक्षेप ॥ २३ ॥ बृहस्पतिमिन्दुं च तस्य कुमार-
स्वातिचारुतया साभिलाषी दृष्ट्वा देव्यस्समुत्पन्न-
सन्देहस्तारां पप्रच्छ ॥ २४ ॥ सत्यं कथया-
स्माकमिति सुभगे सोमस्वाद्य वा बृहस्पतेरयं पुत्र
इति ॥ २५ ॥ एवं तैरुक्ता सा तारा ह्रिया
किञ्चिन्नोवाच ॥ २६ ॥ बहुशोऽप्यभिहिता
यदासीं देवभ्यो भाष्यच्छे ततस्स कुमारस्तां
शप्नुमुद्यतः प्राह ॥ २७ ॥ दुष्टेऽप्य कस्मान्मम तातं
नाख्यासि ॥ २८ ॥ अद्यैव ते व्यतीकलज्जा-
वत्यास्तथा शास्तिमहं करोमि ॥ २९ ॥ यथा च
नैवमद्याप्यतिमन्धरवचना भविष्यसीति ॥ ३० ॥

अथ भगवान् पितामहः तं कुमारं सन्निवार्य
स्वयमपृच्छतां ताराम् ॥ ३१ ॥ कथय वत्से
कस्यायमात्मजः सोमस्य वा बृहस्पतेर्वा
इत्युक्ता लज्जमानाह सोमस्येति ॥ ३२ ॥ ततः
प्रस्फुरदुच्च्वसितामलकपोलकान्तिर्भगवानुद्-
पतिः कुमारमालिङ्ग्य साधु साधु वत्सं प्राज्ञोऽसीति
बुध इति तस्य च नाम धके ॥ ३३ ॥

तथा सकल देव-सेनाके सहित इन्द्र बृहस्पतिजीके
सख्यक हुए ॥ १५ ॥ इस प्रकार ताराके लिये उनमें
तारकामय नामक अत्यन्त धीर युद्ध छिड़ गया ॥ १६ ॥
तब रुद्र आदि देवगण दानवोंके प्रति और दानवगण
देवताओंके प्रति नाना प्रकारके रुद्र खेड़ने लगे ॥ १७ ॥
इस प्रकार देवासुर-संग्रामसे क्षुब्ध-चित्त हो सम्पूर्ण
संसारने ब्रह्माजीकी शरण ली ॥ १८ ॥ तब भगवान्
कमल-भोनिने भी युद्ध, रुद्र, दानव और देवगणको
युद्धसे निवृत्त कर बृहस्पतिजीको तारा दिलवा ली ॥ १९ ॥
उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पतिजीने कहा— ॥ २० ॥
“मेरे क्षेत्रमें तुझको दूसरेका पुत्र धारण करना उचित
नहीं है; इसे दूर कर, अधिक धृष्टता करना ठीक
नहीं” ॥ २१ ॥

बृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर उस पतिव्रताने
पतिके वचनानुसार यह गर्भ इषीकास्तस्थ (सोँकको झाड़ी)-
में छोड़ दिया ॥ २२ ॥ उस जोड़े हुए गर्भने अपने
तेजसे समस्त देवताओंके तेजको मलिन कर दिया ॥ २३ ॥
तदनन्तर उस बालककी सुन्दरताके कारण बृहस्पति
और चन्द्रमा दोनोंको उसे लेनेके लिये उत्सुक देख देवताओंने
सन्देह हो जानेके कारण तारासे पूछा— ॥ २४ ॥ “ते
सुभगे! तू हमको सच-सच बता, यह पुत्र बृहस्पतिका है
या चन्द्रमाका?” ॥ २५ ॥ उनके ऐसा कहनेपर
ताराने लज्जावश कुछ भी न कहा ॥ २६ ॥ जब बहुत कुछ
कहनेपर भी वह देवताओंसे न बोली तो वह बालक
उसे ज्ञाप देनेके लिये उद्यत होकर बोला— ॥ २७ ॥ “अरी
दुष्टा माँ! तू मेरे पिताका नाम क्यों नहीं बतलाती?
तुझ व्यर्थ लज्जावतीकी मैं अभी ऐसी गति करूँगा
जिससे तू आजसे ही इस प्रकार अत्यन्त धीरे-धीरे
बोलना भूल जायगी” ॥ २८—३० ॥

तदनन्तर पितामह श्रीब्रह्माजीने उस बालकको
रोककर तारासे स्वयं ही पूछा— ॥ ३१ ॥ “बेटा! छीक-
छीक क्या यह पुत्र किसका है—बृहस्पतिक्र या चन्द्रमाका?”
इसपर उसने लज्जापूर्वक कहा—“चन्द्रमाका” ॥ ३२ ॥
तब तो नक्षत्रपति भगवान् चन्द्रने उस बालकको
हृदयसे लगाकर कहा—“बहुत छीक, बहुत ठीक,
बेटा! तुम बड़े बुद्धिमान हो;” और उनका नाम ‘बुध’
रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलोंकी कान्ति
उज्ज्वलित और देदीप्यमान हो रही थी ॥ ३३ ॥

तदाख्यातमेवैतत् स च यथेलायामात्मजं
 पुरुरवसमुत्पादयामास ॥ ३४ ॥ पुरुरवास्त्वति-
 दानशीलोऽतिव्यव्यातितेजस्वी । यं सत्यवादिन-
 मतिरूपवत्सं मगस्त्विषं मिश्रावरुणशापान्मानुषे
 स्तोके मया वस्तव्यमिति कृतमतिरुर्वशी
 ददर्श ॥ ३५ ॥ दृष्टमात्रे च तस्मिन्नपहाय
 मानमशेषमपास्य स्वर्गसुखाभिलाषं तन्मनस्का
 भूत्वा तमेवोपतस्थे ॥ ३६ ॥ सोऽपि च तामति-
 शयितसकललोकस्वीकान्तिसौकुमार्यलावण्य-
 गतिविलासहासादिगुणामवलोक्य तदाद्यत्त-
 चित्तवृत्तिर्बभूव ॥ ३७ ॥ उभयमपि तन्मनस्क-
 मनन्यदृष्टि परित्यक्तसमस्तान्यप्रयोजन-
 मभूत् ॥ ३८ ॥

राजा तु प्रागल्भ्यात्ताम्राह ॥ ३९ ॥ सुभु-
 त्वामहमभिकामोऽस्मि प्रसीदानुरागमुद्भेत्सुक्ता
 लज्जावक्रपिङ्गलमुर्वशी तं प्राह ॥ ४० ॥
 भवत्वेवं यदि मे समयपरिपालनं भवान्
 करोतीत्याख्याते पुनरपि ताम्राह ॥ ४१ ॥
 आख्याति मे समयमिति ॥ ४२ ॥ अथ पृष्ट्वा
 पुनरप्यब्रवीत् ॥ ४३ ॥ शयनसमीपे ममोरजाकङ्कषे
 पुत्रभूतं नापनेयम् ॥ ४४ ॥ भवांश्च मया न
 नग्नो द्रष्टव्यः ॥ ४५ ॥ घृतमात्रं च ममाहार
 इति ॥ ४६ ॥ एवमेवेति भूपतिरप्याह ॥ ४७ ॥

तथा सह स आर्क्षनिपतिरलकाक्षं चैत्रस्थादि-
 वनेष्वमलपराखण्डेषु मानसादिसरस्वतिरमणी-
 येषु रमणाः षष्टिर्धर्मसङ्ग्राण्यनुदिनप्रवर्द्धमान-
 प्रमोदोऽनघत् ॥ ४८ ॥ उर्वशी च तदुपभोगा-
 त्प्रतिदिनप्रवर्द्धमानानुरागा अमरलोकवासोऽपि न
 स्पृहां चकार ॥ ४९ ॥

बिना चोर्वश्या सुरलोकोऽप्सरसां सिद्ध-
 गन्धर्वाणां च नातिरमणीयोऽभवत् ॥ ५० ॥
 ततश्चोर्वशीपुरुरवसोस्समयविद्विश्वावसुर्गन्धर्व-
 समवेतो निशि शयनाभ्याशादेकमुरणाकं
 जह्य ॥ ५१ ॥ तस्याकाशे नीचमानस्योर्वशी

बुधने जिस प्रकार हस्तसे अपने पुत्र पुरुरवाको
 उत्पन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं ॥ ३४ ॥
 पुरुरवा अति दानशील, अति याज्ञिक और अति तेजस्वी
 था। "मित्रावरुणके शापसे मुझे मर्त्यलोकमें रहना पड़ेगा"
 ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सराको दृष्टि उस अति
 सत्यवादी, रूपके धर्मे और मतिमान् राजा पुरुरवापर
 पड़ी ॥ ३५ ॥ देखते ही वह सम्पूर्ण मान तथा स्वर्ग-सुखकी
 इच्छाको छोड़कर तन्मयभावसे उसीके पास आयी ॥ ३६ ॥
 राजा पुरुरवाका चित्त भी उसी रंशरस्त्री समस्त स्त्रियोंमें
 विशिष्ट तथा कान्ति-सुकुमारता, सुन्दरता, गतिविलास
 और मूसकान आदि गुणोंसे युक्त देखकर उसके वशीभूत
 हो गया ॥ ३७ ॥ इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और
 अनन्यचित्त होकर और सब कामोंको भूल गये ॥ ३८ ॥

निदान राजाने निःसंकौच होकर कहा— ॥ ३९ ॥ "हे
 सुभु! मैं तुम्हारा इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे
 प्रेम-दान दो?" राजाके ऐसा कहनेपर उर्वशीने भी लज्जावश
 रखलित स्वरमें कहा— ॥ ४० ॥ "यदि आप मेरी प्रतिज्ञाको
 निभा सकें तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है।" यह सुनकर
 राजाने कहा— ॥ ४१ ॥ अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे
 कहो ॥ ४२ ॥ इस प्रकार पुछनेपर वह फिर बोली— ॥ ४३ ॥
 "मेरे पुत्ररूप इन दो पेशों (पेटों) को आप कभी मेरी
 शण्यासे दूर न कर सकेंगे ॥ ४४ ॥ मैं कभी आपको नग्न
 न देखने पाऊँ ॥ ४५ ॥ और केवल मृत ही मेरा आहार
 होगा— [यही मेरी तीन प्रतिज्ञाएँ हैं]" ॥ ४६ ॥ तब राजाने
 कहा— "ऐसा ही होगा" ॥ ४७ ॥

तदनन्तर राजा पुरुरवाने दिन-दिन बढ़ते हुए आनन्दके
 साथ कभी अलकापुरीके अन्तर्गत शैत्ररथ आदि वनोंमें
 और कभी सुन्दर पराखण्डोंसे युक्त अति रमणीय मानस
 आदि सरोवरोंमें विहार करते हुए सात हजार वर्ष
 बिता दिये ॥ ४८ ॥ उसके उपभोगसुखसे प्रतिदिन
 अनुरागके बढ़ते रहनेसे उर्वशीको भी देवशोकमें रहनेकी
 इच्छा नहीं रही ॥ ४९ ॥

इधर उर्वशीके बिना अप्सराओं, सिद्धों और गन्धर्वोंको
 स्वर्गलोक अत्यन्त रमणीय नहीं मालूम होता था ॥ ५० ॥
 अतः उर्वशी और पुरुरवाकी प्रतिज्ञाके लान्घनेवाली
 विश्वावसुने एक दिन रात्रिके समय गन्धर्वोंके साथ
 जाकर उसके शयनगाराके पाससे एक घेघका हरण कर
 लिया ॥ ५१ ॥ उसे आकाशमें ले जाते समय उर्वशीने

शब्दमश्रुणोत् ॥ ५२ ॥ एवमुवाच च ममा-
नाथायाः पुत्रः केनापह्रियते कं शरणमुपया-
मीति ॥ ५३ ॥ तदाकर्ण्य राजा मां नग्नं देवी
वीक्ष्यतीति न ययी ॥ ५४ ॥ अध्यान्वमप्युरणक-
मादाय गन्धर्वा यसुः ॥ ५५ ॥ तस्वाप्यपह्रिय-
माणस्वाकर्ण्य शब्दमाकाशे पुनरप्यनाथा-
स्थहमभर्तुका कापुरुषाश्चयेत्यार्त्तराविणी
बभूव ॥ ५६ ॥

राजाप्यमर्षशाब्दकारणैरिति खड्गमादाय
दुष्ट दुष्ट ह्यौऽसीति व्याहरन्भयघावत् ॥ ५७ ॥
तावच्च गन्धर्वैरप्यतीवोञ्ज्वला विद्युन्जनिता
॥ ५८ ॥ तत्प्रभया चोर्वशी राजानमपगताम्बरं
दृष्ट्वापवृत्तसमया तत्क्षणादेवापक्रान्ता ॥ ५९ ॥
परित्यज्य तावप्युरणकी गन्धर्वास्पुर-
लोकमुपगताः ॥ ६० ॥ राजापि च तौ
मेधावादायातिदृष्टमनाः स्वशयनमायातौ
नोर्वशीं ददर्श ॥ ६१ ॥ तां चापश्यन् व्यमगताम्बरं
एवोन्मत्तरूपो बभ्राम ॥ ६२ ॥ कुरुक्षेत्रे
चाप्योजसरस्यन्वाभिश्चतसृभिरप्सरोभिस्सम-
वेतामूर्वशीं ददर्श ॥ ६३ ॥ ततश्चोन्मत्तरूपो जाये
हे तिष्ठ मनसि घोरे तिष्ठ वचसि कण्ठिके
तिष्ठेत्येवमनेकप्रकारं सूक्तमबोधत् ॥ ६४ ॥

आह चोर्वशी ॥ ६५ ॥ महाराजालमनेना-
शिवेकचेष्टितेन ॥ ६६ ॥ अन्तर्बलघहमब्दान्ते
भवतात्रागन्तव्यं कुमारस्ते भविष्यति एकां च
निशामहं त्वया सह वन्यामीत्युक्तः प्रहृष्टस्त्वपुरं
जगाम ॥ ६७ ॥

तासां आप्सरसामुर्वशी कश्च्यमास ॥ ६८ ॥
अयं स पुरुषोत्कृष्ट्ये येनाहमेतावन्तं कालमनुरागा-
कृष्टमानसा सहोषितेति ॥ ६९ ॥ एवमुक्तास्ता-
श्चाप्सरस कचुः ॥ ७० ॥ साधु साध्वस्य
रूपमप्यनेन सङ्गस्माकमपि सर्वकालमास्था
भवेदिति ॥ ७१ ॥

अद्वे च पूर्णे स राजा तत्राजगाम ॥ ७२ ॥

उसका शब्द सुना ॥ ५२ ॥ तब वह घोली—'मुझ अन्याये
पुत्रको कौन लिये जाता है, अब मैं किसकी शरण
जाऊँ?' ॥ ५३ ॥ किन्तु यह सुनकर भी इस भयसे कि
रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं डटा ॥ ५४ ॥ तदनन्तर
गन्धर्वगण दूसरा श्री मेघ लेकर चल दिये ॥ ५५ ॥ उसे ले
जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी 'हाय! मैं
अनाथा और भर्तृहीना हूँ तथा एक कपड़ेके अधीन हो
गयी हूँ।' इस प्रकार कहती हुई वह आर्त्तस्वरसे विलाप
करने लगी ॥ ५६ ॥

तब राजा यह सोचकर कि इस समय अन्धकार है
[अतः रानी मुझे नग्न न देख सकेगी], 'श्रीभर्तृक' अरे दुष्ट!
तू मारा गया' यह कहते हुए तलवार लेकर मोठे दौड़ा ॥ ५७ ॥
इसी समय गन्धर्वोंने अति उन्ज्वल विद्युत् प्रकट कर दी ॥ ५८ ॥
उसके प्रकाशमें राजाको परखहीन देखकर प्रतिज्ञा दूट
जानेसे उर्वशी घुरन्त ही वहाँसे चली गयी ॥ ५९ ॥ गन्धर्वगण
भी उन मेधांकी वहाँ डोढ़कर स्वर्गलोकमें चले गये ॥ ६० ॥
किन्तु जब राजा इन मेधांकी लिये हुए अति प्रसन्नचित्तसे
अपने शयनागारमें आया तो वहाँ उसने उर्वशीको न
देखा ॥ ६१ ॥ उसे न देखनेसे वह उस वयखहीन-अवस्थामें
ही पगलके समान घूमने लगा ॥ ६२ ॥ घूमते-घूमते उसने
एक दिन कुरुक्षेत्रके कमल-सरोवरमें अन्य चार अप्सराओंके
सहित उर्वशीको देखा ॥ ६३ ॥ उसे देखकर वह उन्मत्तके
समान 'हे जाये, उठर, अरी हृदयकी निष्ठुर! खड़ी हो
जा, अरी कपट रखनेवाली! चार्तालापके लिये तनिक
उठर जा'—ऐसे अनेक वचन कहने लगा ॥ ६४ ॥

उर्वशी बोली—'महाराज! इन अज्ञानियोंको-सो
चेष्टाओंसे कोई लाभ नहीं ॥ ६५-६६ ॥ इस समय मैं गर्भवती
हूँ। एक वर्ष उपरान्त आप यहीं आ जावें, उस समय
आपके एक पुत्र होगा और एक रात में भी आपके साथ
रहूँगी।' उर्वशीके ऐसा कहनेपर राजा पुरुषव्य प्रसन्न-
चित्तसे अपने नगरको चला गया ॥ ६७ ॥

तदनन्तर उर्वशीने अन्य अप्सराओंसे कहा— ॥ ६८ ॥
'ये सभी पुरुषश्रेष्ठ हैं जिनके साथ मैं इतने दिनोंतक
प्रेमाकृष्ट-चित्तसे भूषण्डलमें रही थी ॥ ६९ ॥ इसपर अन्य
अप्सरओंने कहा— ॥ ७० ॥ 'यह! चाह! सधमुच इनका
रूप बड़ा ही मनोहर है, इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी
सहवास हो' ॥ ७१ ॥

वर्ष समाप्त होनेपर राजा पुरुषव्य वर्र्ध अग्रे ॥ ७२ ॥

कुमारं चायुषमस्मै चोर्वशी ददी ॥ ७३ ॥
 दत्त्वा सैकां निशां तेन राज्ञा सहोषित्वा
 पञ्च पुत्रोत्पत्तये गर्भमवाप ॥ ७४ ॥ उवाचैनं
 राजानमस्मत्प्रीत्या महाराजाय सर्व एव गन्धर्वा
 वरदास्संयुक्ता श्रियतां च वर इति ॥ ७५ ॥

आह च राजा ॥ ७६ ॥ विजितसकलाराति-
 रविहतेन्द्रियसामर्थ्यो बन्धुमानभित्तबलकोशोऽस्मि,
 नान्यदस्याकमुर्वशीसालोक्यानाप्राप्तव्यमस्ति
 तदाहमनया सहोर्वश्या काले नेतुमभिनवामीत्युक्ते
 गन्धर्वा राज्ञेऽग्निस्थालीं ददुः ॥ ७७ ॥
 ऊचुश्चैनमग्निमान्नायानुसारी भूत्वा त्रिधा
 वृत्तोर्वशीसलोकतामनोरधपुद्गिशय सम्पश्यजेधोः
 ततोऽवश्यमभिलषितमवाप्स्यसौत्युक्तस्तामग्नि-
 स्थालीमादाय जगाम ॥ ७८ ॥

अन्तरदव्यामधिनयत्, अद्ये मेऽतीव मूढता
 किमहमकरवम् ॥ ७९ ॥ बहिःस्थाली मयैवानीता
 नोर्वशीति ॥ ८० ॥ अर्धेनामदव्यामेवाग्निस्थालीं
 तत्याज स्वपुरं च जगाम ॥ ८१ ॥ च्यतीतेऽङ्गरात्रे
 विनिद्रश्याधिनयत् ॥ ८२ ॥ ममोर्वशी-
 सालोक्यप्राप्त्यर्थमग्निस्थालीं गन्धर्वैर्दत्ता
 सा च मयादव्यां परित्यक्ता ॥ ८३ ॥ तदहं तत्र
 तदाहरणाय यास्यामीत्युत्थाय तत्राप्युपगतो
 नाग्निस्थालीमपश्यत् ॥ ८४ ॥ शमीगर्भ
 चाश्वत्थधर्मिणस्थालीस्थाने दृष्ट्वाधिनयत् ॥ ८५ ॥
 मयात्राग्निस्थालीं निक्षिप्त्वा सा
 चाश्वत्थशमीगर्भोऽभूत् ॥ ८६ ॥ तदेनमेवाह-
 मग्निरूपमादाय स्वपुरमभिगम्यारणीं कृत्वा
 तदुत्पन्नान्नेरुपास्तिं करिष्यामीति ॥ ८७ ॥

एवमेव स्वपुरमभिगम्यारणीं चकार ॥ ८८ ॥
 तत्प्रमाणं चाह्नुलैः कुर्वन् गायत्रीमपठत् ॥ ८९ ॥

उस समय उर्वशीने उन्हें 'आयु' नामक एक बालक
 दिया ॥ ७३ ॥ तथा उनके साथ एक रात रहकर पाँच
 पुत्र उत्पन्न करनेके लिये गर्भ धारण किया ॥ ७४ ॥
 और कहा 'हमारे पारस्परिक स्नेहके कारण सकल
 गन्धर्वगण महाराजको वरदान देना चाहते हैं अतः
 आप अभीष्ट वर माँगिये ॥ ७५ ॥

राजा बोले—'मैंने सबरत शत्रुओंको जीत लिया
 है, मेरे हृदयको सबार्थ नष्ट नहीं हुई है, मैं बन्धुजन,
 असंख्य सेना और कोशने भी सम्पन्न हूँ, इस समय
 उर्वशीके सहवासके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्तव्य
 नहीं है। अतः मैं इस उर्वशीके साथ ही काल-यापन
 करना चाहता हूँ।' राजाके ऐसा कहनेपर गन्धर्वोंने उन्हें
 एक अग्निस्थाली (अग्नियुक्त पात्र) दी और कहा—
 'इस अग्निके वैदिक विधिसे गार्हपत्य, आह्वनीय और
 दक्षिणाग्निरूप तीन भाग करके इसमें उर्वशीके सहवासके
 कामनासे भलीभाँति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना
 अभीष्ट प्राप्त कर लोगे।' गन्धर्वोंके ऐसा कहनेपर राजा
 उस अग्निस्थालीको लेकर चल दिये ॥ ७६—७८ ॥

[मगमें] वनके अन्दर उन्होंने सोचा—'अहो! मैं
 कैसा मूख हूँ? मैंने यह क्या किया जो इस अग्निस्थालीको
 तो ले आया और उर्वशीको नहीं लाया' ॥ ७९—८० ॥ ऐसा
 सोचकर उस अग्निस्थालीको वनमें ही छोड़कर वे अपने
 नगरमें चले आये ॥ ८१ ॥ आधीरात नीत जानेके बाद निद्रा
 दूढ़नेपर राजाने सोचा—'८२ ॥ उर्वशीकी सन्निधि प्राप्त
 करनेके लिये ही गन्धर्वोंने मुझे वह अग्निस्थाली दी थी
 और मैंने उसे वनमें ही छोड़ दिया ॥ ८३ ॥ अतः अब मुझे
 उसे लानेके लिये जाना चाहिये' ऐसा सोच ठठकर वे वहाँ
 गये, किन्तु उन्होंने उस स्थालीको वहाँ न देखा ॥ ८४ ॥
 अग्निस्थालीके स्थानपर राजा फुल्लवाने एक जमीगर्भ पीपलके
 वृक्षको देखकर सोचा—'८५ ॥ मैंने यहाँ तो वह
 अग्निस्थाली फेंकी थी। यह स्थाली ही शमीगर्भ पीपल हो
 गयी है ॥ ८६ ॥ अतः इस अग्निरूप अश्वत्थको ही अपने
 नगरमें ले जाकर इसकी अरणि बनाकर उससे उत्पन्न
 हुए अग्निको ही उपासना करूँ ॥ ८७ ॥

ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थको लेकर
 अपने नगरमें आये और उसकी अरणि बनायी ॥ ८८ ॥
 तदनन्तर उन्होंने उस काष्ठको एक-एक आँगुल करके
 गायत्री-मन्त्रका पाठ किया ॥ ८९ ॥

पठनञ्जाक्षरसंख्यान्वेद्याङ्गुलान्यरण्यभक्तम् ॥ ९० ॥
 तत्राग्निं निर्मथ्वानिजयमानाचानुसारी भूत्वा
 चुहाव ॥ ९१ ॥ उर्वशीसालोक्यं फलमभि-
 संहितवान् ॥ ९२ ॥ तेनैव आग्निविधिना
 अङ्गुलिधान् यज्ञानिष्ट्वा गान्धर्वलोक्त्रनैवाप्योर्वैश्या
 सहायियोगमवाप ॥ ९३ ॥ एकोऽग्निराद्यावभवत्
 एकेन तत्र मन्वन्तरे त्रेधा प्रवर्तिताः ॥ ९४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थोऽंशे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सातवाँ अध्याय

जन्तुका गंगामान तथा जमदग्नि और विश्वामित्रकी उत्पत्ति

श्रीपराशर उवाच

तस्याप्यायुधीमानमावसुर्विश्वावसुः श्रुतायु-
 र्शतायुरयुतायुरितिसंज्ञाः षट् पुत्रा अभवन् ॥ १ ॥
 तथामावसोर्भीमनाया पुत्रोऽभवत् ॥ २ ॥ भीमस्य
 काञ्चनः क्राञ्चनात्सुहोप्रस्तस्यापि जह्युः ॥ ३ ॥
 योऽसौ यज्ञवाटमखिलं गङ्गाम्भसा-
 प्लावितमवलोक्य क्रोधसंरक्तलोचनो भगवन्तं
 यज्ञपुरुषमात्मनि परमेण समाधिना
 समारोप्यारिखलामेव गङ्गायपिबत् ॥ ४ ॥ अथैनं
 देवर्षयः प्रसादयामासुः ॥ ५ ॥ बुहितृत्वे चास्य
 गङ्गामनयन् ॥ ६ ॥

जह्योश्च सुमन्तुर्नाम पुत्रोऽभवत् ॥ ७ ॥
 तस्याप्यजकस्ततो बलाकाश्चस्तस्मात्कुशास्तस्यापि
 कुशाम्बकुशानाभाधूर्तरजसो वसुश्चेति चत्वारः
 पुत्रा अभवुः ॥ ८ ॥ तेषां कुशाम्बः शक्रतुल्यो
 मे पुत्रो भवेदिति तपश्चकार ॥ ९ ॥ तं
 चोग्रतपसमवलोक्य मा भवत्वन्योऽस्मत्तुल्यदीर्घ
 इत्यात्मनैवात्येन्द्रः पुत्रत्वमगच्छत् ॥ १० ॥ स
 गाधिर्नाम पुत्रः कौशिकोऽभवत् ॥ ११ ॥

गाधिश्च सत्यवतीं कन्यामजयत् ॥ १२ ॥

उसके पाठसे गायत्रीकी अक्षर-संख्याके बराबर एक-
 एक अंगुलकी अरणिर्षो हो गयीं ॥ ९० ॥ उनके मन्वन्तसे
 तीनों प्रकारके अग्निर्षोको अत्यन्त कर उनमें वैदिक विधिसे
 हवन किया ॥ ९१ ॥ तथा उर्वशीके सहायारूप फलकी
 हल्का की ॥ ९२ ॥ तदनन्तर उसी अग्निसे नाना प्रकारके
 यज्ञोंका यजन करते हुए उन्होंने गन्धर्व-लोक प्राप्त किया
 और फिर उर्वशीसे उनका वियोग न हुआ ॥ ९३ ॥ पूर्वकालमें
 एक ही अग्नि था, उस एकहीसे इस मन्वन्तरमें तीन
 प्रकारके अग्निर्षोका प्रचार हुआ ॥ ९४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—एक पुरुषवाके परम युद्धिम्ब
 आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और
 अमुतायु नामक छः पुत्र हुए ॥ १ ॥ अमावसुके भीम,
 भीमके काञ्चन, काञ्चनके सुहोत्र और सुहोत्रके जह्नु
 नामक पुत्र हुआ जिसने अपनी सम्पूर्ण यज्ञशालाको
 गंगाजलसे आप्लावित देख क्रोधसे रक्तनयन हो भगवान्
 यज्ञपुरुषको परम समाधिके द्वारा अपनेमें स्थापित
 कर सम्पूर्ण गंगाजीको पी लिया था ॥ २—४ ॥ तब
 देवर्षियोंने इन्हें प्रसन्न किया और गंगाजीको इनकी
 पुत्रीरूपसे पाकर ले गये ॥ ५, ६ ॥

जह्नुके सुमन्तु नामक पुत्र हुआ ॥ ७ ॥ सुमन्तुके
 अजक, अजकके बलाकाश्व, बलाकाश्वके कुश
 और कुशके कुशाम्ब, कुशानाभ, अधूर्तरजा और वसु
 नामक चार पुत्र हुए ॥ ८ ॥ उनमेंसे कुशाम्बने
 इस इच्छासे कि मेरे इन्द्रके समान पुत्र हो, तपस्या
 की ॥ ९ ॥ उसके उग्र तपको देखकर 'बलमें कोई
 अन्य मेरे समान न हो जाय' इस भयसे इन्द्र स्वयं
 ही इनका पुत्र हो गया ॥ १० ॥ वह गाधि नामक पुत्र
 कौशिक कहलाया ॥ ११ ॥

गाधिने सत्यवती नामकी कन्याको जन्म दिया ॥ १२ ॥

तत्र च भार्गव ऋषीकरो वद्रे ॥ १३ ॥ गाधिरेष्यति-
शेषणाप्यतिक्रम्य ब्राह्मणाय दातुमनिच्छन्नेकतश्चाम-
कर्णानामिन्दुवर्चसामनिलरंहसामश्चानां सहस्रं
कन्याशुल्कमवाचत ॥ १४ ॥ तेनाप्युचिषा
वरुणासकाशाद्रुपलेभ्याश्चतीर्थोत्पन्नं तादृश-
मश्वसंहरं दत्तम् ॥ १५ ॥

ततस्तामृचीकः कन्यामुपयेमे ॥ १६ ॥

ऋचीकश्च तस्याश्चरुमपत्यार्थं चकार ॥ १७ ॥

तत्प्रसादितश्च तन्मात्रे क्षत्रवरपुत्रोत्पत्तये चरुमपरं
साधयामास ॥ १८ ॥ एष चरुर्भक्त्या

अन्नमपरश्चरुस्त्वन्मात्रा सम्यगुपयोज्य इत्युक्त्वा
वनं जगाम ॥ १९ ॥

उपयोगकाले च तां माता सत्यवतीमाह ॥ २० ॥

पुत्रि सर्व एवात्मपुत्रपतिगुणामभिलषति
नात्मजायाभातृगुणेष्वतीवाद्दुतो भवतीति ॥ २१ ॥

अन्तेऽहसि भयानीधं चरुं दातुं मदीयं चरुमात्मन्नेप-
योक्तुम् ॥ २२ ॥ मत्पुत्रेण हि सकलभूमण्डल-

परिपालनं कार्यं किंवद्वा ब्राह्मणस्य बलवीर्यं-
सम्पदेत्युक्त्वा सा स्वचरुं मात्रे दत्तवती ॥ २३ ॥

अथ वनादागत्य सत्यवतीमृषिरपश्यत् ॥ २४ ॥

आह चैनामतिषाये किमिदमकार्यं भवत्या
कृतमतिरीरं ते अपुर्लक्ष्यते ॥ २५ ॥ नूनं

त्वया त्वन्मातृसात्कृतश्चरुरुपयुक्तो न
युक्तमेतत् ॥ २६ ॥ मया हि तत्र चरी

सकलैश्वर्यवीर्यशौर्यबलसम्पदारोपिता त्वदीय-
चरावप्यखिलशान्तिज्ञानतितिक्षादिब्राह्मण-

गुणसम्पत् ॥ २७ ॥ तच्छ विपरीतं कुर्वत्या-
स्तवातिरीरास्वधारणपालननिष्ठः क्षत्रियाचारः

पुत्रो भविष्यति तस्याश्चोपशमरुचिर्ब्राह्मणाचार
इत्याकुर्यैव सा तस्य पादौ जग्राह ॥ २८ ॥

प्रणिपत्य चैनमाह ॥ २९ ॥ भगवन्भवैतदज्ञाना-
दनुष्ठितं प्रसादं मे कुरु मैधंविधः पुत्रो

भवतु काममेधंविधः पीत्रो भवत्वित्युक्ते
मुनिरप्याह ॥ ३० ॥ एवमस्त्विति ॥ ३१ ॥

उसे भृगुपुत्र ऋचीकने वरण किया ॥ १३ ॥ गाधिने अति
क्रोधी और अति बृद्ध ब्राह्मणको कन्या न देनेकी इच्छासे
ऋचीकरो कन्याके मूल्यमें जो चन्द्रपाके समान कान्तिमात्र
और पवनके तुल्य वेगवान् हों, ऐसी एक सहस्र श्यामकर्ण
घोड़े मींग ॥ १४ ॥ किन्तु महर्षि ऋचीकने अश्वजीर्यसे उत्पन्न
हुए जैसे एक सहस्र घोड़े उन्हें वरणसे लेकर दे दिये ॥ १५ ॥

तत्र ऋचीकने उस कन्यासे विवाह किया ॥ १६ ॥

[तदुपरान्त एक समय] इन्होंने सन्तानकी कामनासे
सत्यवतीके लिये चरु (यज्ञीय खीर) तैयार किया ॥ १७ ॥
और उसीके द्वारा प्रसन्न किये जानेपर एक क्षत्रियश्रेष्ठ
पुत्रकी उत्पत्तिके लिये एक और चरु उसकी माताके
लिये भी बनाया ॥ १८ ॥ और 'यह चरु तुम्हारे लिये है
तथा यह तुम्हारी माताके लिये—हनकत्र तुम मनोपिप्त उपयोग
करना'—ऐसा कहकर वे मनको थले गये ॥ १९ ॥

उनका उपयोग करते समय सत्यवतीकी माताने
उससे कहा— ॥ २० ॥ "बेटी! सभी लोग अपने ही लिये
सबसे अधिक गुणवान् पुत्र चाहते हैं, अपनी पत्नीके भाईके
गुणोंमें किसीकी भी विशेष रुचि नहीं होती ॥ २१ ॥ अतः
तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले; क्योंकि मेरे
पुत्रको तो सम्पूर्ण भूमण्डलका पालन करना होगा और
ब्राह्मणकुमारको तो बल, वीर्य तथा सम्पत्ति आदिसे लेना
ही क्या है।" ऐसा कहनेपर सत्यवतीने अपना चरु अपनी
माताको दे दिया ॥ २२-२३ ॥

वनसे लौटनेपर ऋषिने सत्यवतीको देखकर कहा—

"अरी पापिनि! तूने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे
तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है ॥ २४-२५ ॥ अवश्य
ही तूने अपनी माताके लिये तैयार किये चरुका उपयोग
किया है, सो ठीक नहीं है ॥ २६ ॥ मैंने उसमें सम्पूर्ण
ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरा और बलकी सम्पत्तिका आरोपण
किया था तथा तेरेमें शान्ति, ज्ञान, चित्तिक्षा आदि सम्पूर्ण
ब्राह्मणोचित गुणोंका समावेश किया था ॥ २७ ॥ उनका
विपरीत उपयोग करनेसे तेरे अति भयानक अस्त्र-शस्त्रधारी
पालन-कर्ममें उत्तर क्षत्रियके समान आचरणवाला पुत्र
होगा और उसके शान्तिप्रिय ब्राह्मणाचारयुक्त पुत्र होगा।"
यह सुनते ही सत्यवतीने उनके वरण पकड़ लिये और
प्रणाम करके कहा— ॥ २८-२९ ॥ "भगवन्! अज्ञानसे ही
मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइये और ऐसा फौजिये
जिससे मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पीत्र ऐसा हो जाय।"
इसपर मुनिने कहा—'ऐसा ही हो।' ॥ ३०-३१ ॥

अनन्तरं च सा जमदग्निमजीजनत् ॥ ३२ ॥
तन्माता च विश्वामित्रं जनयामास ॥ ३३ ॥
सत्यवत्यपि कौशिकी नाम नद्यभवत् ॥ ३४ ॥

जमदग्निरिक्ष्वाकुवंशोद्भवस्य रेणोस्तनयां
रेणुकामुपयेमे ॥ ३५ ॥ तस्यां चाशेषक्षत्रहन्तरं
परशुरामसंज्ञं भगवित्सकललोकगुरोर्नारायण-
स्यांशं जमदग्निरजीजनत् ॥ ३६ ॥ विश्वामित्र-
पुत्रस्तु भार्गव एव शुभशेषो देवैर्दत्तः
ततश्च देवरातनामाभवत् ॥ ३७ ॥ ततश्चान्ये
मधुच्छन्दोधनऋषयश्चतस्राष्टककच्छस्त्रीतकाश्चा
विश्वामित्रपुत्रा बभूवुः ॥ ३८ ॥ तेषां च
अहूनि कौशिकगोत्राणि ऋष्यन्तरेषु दिवाह्या-
न्यभवन् ॥ ३९ ॥

तदनन्तर उसने जमदग्निकी जन्म दिया और
उसकी माताने विश्वामित्रको उत्पन्न किया तथा सत्यवती
कौशिकी नामकी नदी से गयी ॥ ३२—३४ ॥

जमदग्नियने इक्ष्वाकुकुलोद्भूत रेणुकी कन्या
रेणुकाले विवाह किया ॥ ३५ ॥ उससे जमदग्निने
सम्पूर्ण क्षत्रियोंका ध्वंस करनेवाले भगवान् परशुरामकी
उत्पन्न हुए जो सकल लोक-गुरु भगवान्
नारायणके अंश थे ॥ ३६ ॥ देवताओंने विश्वामित्रकी
भृगुवंशीय शुभशेष पुत्ररूपसे दिया था। उसके
पौत्रे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और
फिर मधुच्छन्द, धन्वज्य, कृतदेव, अष्टक, कच्छप
एवं क्षीरतक नामक और भी पुत्र हुए ॥ ३७—३८ ॥ उनसे
अन्यान्य ऋषिवंशोंमें विवाहने योग्य बहुत-से
कौशिकगोत्रीय पुत्र-पौत्रादि हुए ॥ ३९ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे सप्तमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

आठवाँ अध्याय

काश्यवंशका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

पुरूरवस्ये ज्येष्ठः पुत्रो यस्त्वाकुर्नामा स रक्षो-
द्विहितरमुपयेमे ॥ १ ॥ तस्यां च पञ्च
पुत्रानुत्पादयामास ॥ २ ॥ ननुषक्षत्रवृद्धरम्भरजि-
संज्ञास्तथैवानेनाः पञ्चमः पुत्रोऽभूत् ॥ ३ ॥
क्षत्रवृद्धात्सुहोत्रः पुत्रोऽभवत् ॥ ४ ॥
काश्यकाशगृत्समदास्वयस्तस्य पुत्रा बभूवुः ॥ ५ ॥
गृत्समदस्य शौनकश्चातुर्वैर्ष्यप्रवर्तयिताभूत् ॥ ६ ॥
काश्यस्य क्रश्रेयः काशिराजः तस्माद्दराष्ट्र-
राष्ट्रस्य दीर्घतयाः पुत्रोऽभवत् ॥ ७ ॥ धन्वन्तरिस्तु
दीर्घतपसः पुत्रोऽभवत् ॥ ८ ॥ स हि संसिद्धकायै-
करणस्सकलसम्भूतिष्वशेषज्ञानविद् भगवता
नारायणेन चातीत्सम्भूतीं तस्मै यदो दत्तः ॥ ९ ॥
काशिराजगोत्रेऽवतीर्थं त्वमष्टधा सव्यगायुर्वेदं
करिष्यसि यज्ञभागभृग्भविष्यसीति ॥ १० ॥

श्रीपराशरजी बोले—अस्य नामक जो पुरूरवाका
ज्येष्ठ पुत्र था उसने रक्षुकी कन्यासे विवाह किया ॥ १ ॥
उससे उसके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः
ननुष, क्षत्रवृद्ध, रम्भ, रजि और अनेना थे ॥ २—३ ॥
क्षत्रवृद्धके सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और
सुहोत्रके काश्य, काश तथा गृत्समद नामक तीन
पुत्र हुए। गृत्समदका पुत्र शौनक चातुर्वैर्ष्यका
प्रवर्तक हुआ ॥ ४—६ ॥

काश्यका पुत्र काशिराज काश्येय हुआ।
उसके राष्ट्र, राष्ट्रके दीर्घतया और दीर्घतपके धन्वन्तरि
नामक पुत्र हुआ ॥ ७—८ ॥ इस धन्वन्तरिके राष्ट्रे
और इन्द्रियों जय आदि विकारोंसे रहित था—
तथा सभी जन्मोंमें यह सम्पूर्ण ज्ञास्त्रोंका जाननेवाला
था। पूर्वजन्ममें भगवान् नारायणने उसे यह वर
दिया था कि 'काशिराजके वंशमें उत्पन्न होकर
तुम सम्पूर्ण आयुर्वेदको आठ भागोंमें विभक्त
करोगे और यह-भागके भोक्ता होगे' ॥ ९—१० ॥

तस्य च धन्वन्तरेः पुत्रः केतुमान् केतुमतो
भीमरथस्तस्यापि दिवोदासस्तस्यापि
प्रतर्दनः ॥ ११ ॥ स च मद्रश्रेण्यवंशविनाश-
नादशेषशत्रवोऽनेन जिता इति
शत्रुजिदभवत् ॥ १२ ॥ तेन च प्रीतिमतात्मपुत्रो
वत्सवत्सेत्यभिहितो वत्सोऽभवत् ॥ १३ ॥
सत्यपरायणः ब्रह्मध्वजसंज्ञामवाप ॥ १४ ॥
ततश्च कुवलघनामानमश्वं लेभे ततः
कुवलयाश्व इत्यस्यां पृथिव्यां
प्रथितः ॥ १५ ॥ तस्य च वत्सस्य
पुत्रोऽलर्कनामाभवद् यस्याद्यमद्यापि श्लोको
गीयते ॥ १६ ॥

षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च ।
अलर्कादपरो नान्यो बुभुजे मेदिनीं युवा ॥ १७ ॥
तस्याप्यलर्कस्य सन्नतिनामाभव-
दात्मजः ॥ १८ ॥ सन्नतेः सुनीशस्तस्यापि
सुकेतुस्तस्माच्च धर्मकेतुर्जज्ञे ॥ १९ ॥ ततश्च
सत्यकेतुस्तस्माद्भिभुस्तत्तनयस्सुविभुस्ततश्च
सुकुमारस्तस्यापि धृष्टकेतुस्ततश्च
वीतिहोत्रस्तस्माद्भागो भार्गस्य
भार्गभूमिस्ततश्चातुर्वर्ण्यप्रवृत्तिरित्येते काश्य-
भूभृतः कथिताः ॥ २० ॥ रजेस्तु सन्नतिः
श्रूयताम् ॥ २१ ॥

धन्वन्तरिका पुत्र केतुमान्, केतुमान्का भीमरथ,
भीमरथका दिवोदास तथा दिवोदासका पुत्र प्रतर्दन
हुआ ॥ ११ ॥ उसने मद्रश्रेण्यवंशका नाश करके समस्त
शत्रुओंपर विजय प्राप्त की थी, इसलिये उसका नाम
'शत्रुजित्' हुआ ॥ १२ ॥ दिवोदासने अपने इस पुत्र
(प्रतर्दन)-से अत्यन्त प्रेमका 'वत्स, वत्स' कहा था,
इसलिये इसका नाम 'वत्स' हुआ ॥ १३ ॥ अत्यन्त
सत्यपरायण होनेके कारण इसका नाम 'ब्रह्मध्वज'
हुआ ॥ १४ ॥ तदनन्तर इतने कुवलघ नामक अपूर्व
अश्व प्राप्त किया। इसलिये यह इस पृथिवीतलपर
'कुवलयाश्व' नामसे विख्यात हुआ ॥ १५ ॥ इस वत्सके
अलर्क नामक पुत्र हुआ जिसके विषयमें यह श्लोक
आजतक गाया जाता है— ॥ १६ ॥

'पूर्वकालमें अलर्कके अतिरिक्त और किसीने
भी छछट सहस्र वर्षतक युवावस्थामें रहकर पृथिवीका
भोग नहीं किया' ॥ १७ ॥

उस अलर्कके भी सन्नति नामक पुत्र हुआ;
सन्नतिके सुनीश, सुनीशके सुकेतु, सुकेतुके धर्मकेतु,
धर्मकेतुके सत्यकेतु, सत्यकेतुके विभु, विभुके सुविभु,
सुविभुके सुकुमार, सुकुमारके धृष्टकेतु, धृष्टकेतुके
वीतिहोत्र, वीतिहोत्रके भार्ग और भार्गके भार्गभूमि
नामक पुत्र हुआ; भार्गभूमिसे चातुर्वर्ण्यका प्रचार हुआ।
इस प्रकार काश्यवर्षके राजाओंका वर्णन हो चुका
अब रजिकी सन्तानका विवरण सुनो ॥ १८—२१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवाँ अध्याय

महाराज रजि और उनके पुत्रोंका चरित्र

श्रीपरमेश्वर उवाच

रजेस्तु पञ्च पुत्रशप्तान्यतुलबल-
पराक्रमसाराण्यासन् ॥ १ ॥ देवासुरसंग्रामारम्भे
च परस्परवधेष्वथो देवाश्चासुराश्च
ब्रह्माणमुपेत्य यप्रच्छुः ॥ २ ॥ भगवन्नस्माकमत्र
विरोधे कतरः पक्षो जेता भविष्यतीति ॥ ३ ॥
अथाह भगवान् ॥ ४ ॥ येषामर्थे रजिराप्तायुधो
योस्त्यति तत्पक्षो जेततीति ॥ ५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—रजिके अतुलित बल-
पराक्रमशाली पाँच सौ पुत्र थे ॥ १ ॥ एक बार
देवासुर-संग्रामके आरम्भमें एक-दूसरेको मारनेकी
इच्छावाली देवता और दैत्योंने ब्रह्माजीके पास जाकर
पूछा—'भगवन्! हम दोनोंके पारस्परिक कलहमें
कौन-सा पक्ष जेतगा?' ॥ २-३ ॥ श्व भगवन्
ब्रह्माजी बोले—'जिस पक्षकी ओरसे राजा रजि
शस्त्र धारणकर युद्ध करेगा उसी पक्षकी
विजय होगी' ॥ ४-५ ॥

अथ दैत्यैरुपेत्य रजिरात्मसाहाय्यदाना-
याभ्यर्षितः प्राह ॥ ६ ॥ योत्स्येऽहं भवतामर्थे
यद्वाहमपरजयाद्भवतामिन्द्रो भविष्या-
पीत्याकर्ण्यैतत्तैरभिहितम् ॥ ७ ॥ न खममन्यथा
वद्विष्यामोऽन्यथा करिष्यामोऽस्माकमिन्द्रः प्रह्लाद-
स्तदर्थमेवायमुद्यम इत्युक्त्वा गतेष्वसुरेषु देवैरप्य-
साववनिपतिरेवमेवोक्तस्तेनापि च तथैवोक्ते
देवैरिन्द्रस्त्वं भविष्यसीति समन्वीषितम् ॥ ८ ॥

रजिनापि देवसैन्यसहायेनानैकैर्यद्वास्व-
स्तदशेषमहासुरबलं निषूदितम् ॥ ९ ॥ अथ
जितारिपक्षश्च देवेन्द्रो रजिचरणचुगलमात्पनः
शिरसा निपीड्याह ॥ १० ॥ भयत्राणादनदाना-
द्भवानस्मत्पिताऽशेषलोकानामुत्तमोत्तमो भवान्
यस्याहं पुत्रस्त्रिलोकेन्द्रः ॥ ११ ॥

स चापि राजा प्रहस्याह ॥ १२ ॥ एव-
मस्त्वेवमस्त्वनतिक्रमणीया हि वैरिपक्षादप्यनेक-
विधचाटुवाक्यगर्भा प्रगतिरित्युक्त्वा स्वपुरं
जगाम ॥ १३ ॥

शतक्रतुरपीन्द्रस्त्वं चकार ॥ १४ ॥ स्वर्चते तु
रजौ नारदर्विषोदिता रजिपुत्राश्शतक्रतुमात्मपितृपुत्रं
समाधाराद्गन्धं आक्षितवन्तः ॥ १५ ॥ अप्रदानेन च
विजित्येन्द्रमतिबलिनः स्वयमिन्द्रत्वं चक्रुः ॥ १६ ॥

ततश्च बहुमिथे काले ह्यतीते बृहस्पति-
मेकान्ते दृष्ट्वा अपहृत्रैलोक्ययज्ञभागः
शतक्रतुरुवाच ॥ १७ ॥ बदरीफलमात्रमप्यहंसि
ममाप्यायनाय पुरोडाशखण्डं दातुमित्युक्तो
बृहस्पतिरुवाच ॥ १८ ॥ यद्येवं त्वयार्हं
पूर्वमेव चोदितस्यां तन्मया त्वदर्थं
किमकर्तव्यमित्यत्परैरवाहोभिस्त्वां निजं यदं
प्रापचिष्यामीत्यभिधाव तेषामनुदिन-
माभिचारिकं बुद्धिमोहाय शक्रस्य
तेजोऽभिवृद्धये सुहाव ॥ १९ ॥

तब दैत्योंने जाकर रजिसे अपना सहायताके
लिये प्रार्थना की, इसपर रजि बोले— ॥ ६ ॥ 'यदि
देवताओंको जीतनेपर मैं आपलोगोंका इन्द्र हो सकूँ तो
आपके पक्षमें लड़ सकता हूँ ॥ ७ ॥ यह सुनकर दैत्योंने
कहा— 'हमलोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी
तरहका आचरण नहीं करते। हमारे इन्द्र तो प्रह्लादजी हैं
और उन्हींके लिये हमारा यह सम्पूर्ण उद्योग है', ऐसा
कहकर जब दैत्यगण चले गये तो देवताओंने भी अत्तर
राजासे उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी वचने
वही बात कही। तब देवताओंने यह कहकर कि 'आप
ही हमारे इन्द्र होंगे' उसको बात स्वीकार कर ली ॥ ८ ॥

अतः रजिने देव-सेनाकी सहायता करते हुए अनेक
मठान् अस्त्रोंसे दैत्योंकी सम्पूर्ण सेना नष्ट कर दी ॥ ९ ॥
तदनन्तर शत्रु-पक्षको जीत चुकनेपर देवराज इन्द्रने रजिके
दोनों चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर कहा— ॥ १० ॥
'भयसे रक्षा करने और अन्न-दान देनेके कारण आप
हमारे पिता हैं, आप सम्पूर्ण लोकोंमें सर्वोत्तम हैं; क्योंकि
मैं त्रिलोकेन्द्र आपका पुत्र हूँ ॥ ११ ॥

इसपर राजाने हँसकर कहा— 'अच्छा, ऐसा ही
सही। शत्रुपक्षकी भी नाना प्रकारकी चाटुनाख्ययुक्त
अनुनय-विनयका अतिक्रमण करना उचित नहीं होता।
[फिर स्वपक्षको तो बात ही क्या है]।' ऐसा कहकर
वे अपनी राजधानीको चले गये ॥ १२-१३ ॥

इस प्रकार शतक्रतु ही इन्द्र-पदपर स्थित हुआ।
पोंछे, रजिके स्वर्गवासी होनेपर देवर्षि नारदजीकी
प्रेरणासे रजिके पुत्रोंने अपने पिताके पुत्रभावको प्राप्त
हुए शतक्रतुसे व्यवहारके अनुसार अपने पिताका राज्य
माँगा ॥ १४-१५ ॥ किन्तु जब उसने न दिया, तो उन
महाबलवान् रजि-पुत्रोंने इन्द्रको जीतकर स्वयं ही इन्द्र-
पदका भोग किया ॥ १६ ॥

फिर बहुत-सा समय बीत जानेपर एक दिन
बृहस्पतिकीको एकान्तमें बैठे देख त्रिलोकीके यज्ञभागसे
वंचित हुए शतक्रतुने उनसे कहा— ॥ १७ ॥ क्या
'आप मेरी दृष्टिके लिये एक घेरके बरषपर भी पुरोडाशखण्ड
मुझे दे सकते हैं?' उनके ऐसा कहनेपर बृहस्पतिजी
बोले— ॥ १८ ॥ 'यदि ऐसा है, तो पहले ही तुम्हें
पुत्रसे क्या नहीं कहा? तुम्हारे लिये घला में क्या नहीं
कर सकता? अच्छा, अब थोड़े ही दिनोंमें मैं तुम्हें
अपने पदपर स्थित कर दूँगा।' ऐसा कह बृहस्पतिजी
रजि-पुत्रोंकी बुद्धिको मोहित करनेके लिये अभिचार और
इन्द्रकी तेजोबुद्धिके लिये हवन करने लगे ॥ १९ ॥

ते चापि तेन बुद्धिमोहेनाभिभूयमाना ब्रह्मद्विषो
धर्मत्यागिनो वेदवादपराङ्मुखा बभूवुः ॥ २० ॥

ततस्तानपेतधर्माचारानिन्द्रो जघान ॥ २१ ॥

पुरोहितप्यायिततेजाश्च शक्रो दिवमाक्रमत् ॥ २२ ॥

एतदिन्द्रस्य स्वपदच्यवनादारोहणं श्रुत्वा

पुरुषः स्वपदभ्रंशं दौरात्म्यं च नाजोति ॥ २३ ॥

रम्भस्त्वानपत्योऽभवत् ॥ २४ ॥ क्षत्रवृद्धसुतः

प्रतिक्षत्रोऽभवत् ॥ २५ ॥ तस्युत्रः सञ्जयस्तस्यापि

जयस्तस्त्रापि क्षिजयस्तस्माच्च जज्ञे कृत्वा ॥ २६ ॥

तस्य च हर्षधनो हर्षधनसुतस्सहदेवस्तस्माद्-

दीनस्तस्य जयत्सेनस्ततश्च संस्कृतिस्तत्पुत्रः

क्षत्रधर्मा इत्येते क्षत्रवृद्धस्य वंश्याः ॥ २७ ॥ ततो

नहुषवंशं प्रवक्ष्यामि ॥ २८ ॥

बुद्धिको मोहित करनेवाले उस अधिचार-कर्मसे अभिभूत हो जानेके कारण रश्मि-पुत्र ब्राह्मण-विरोधी, धर्म-त्यागी और वेद-विमुख हो गये ॥ २० ॥ तब भर्षाचारहीन हो जानेसे हन्त्रने उन्हें मार डाला ॥ २१ ॥ और पुरोहित-श्रीके द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्गपर अपना अधिकार भाषा लिया ॥ २२ ॥

इस प्रकार इन्द्रके अपने पदसे गिरकर उसपर फिर आरूढ़ होनेके इस प्रसंगको सुननेसे पुरुष अपने पदसे पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती ॥ २३ ॥

[आयुका दूसरा पुत्र] रम्भ सन्तानहीन हुआ ॥ २४ ॥

सजयवृद्धका पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ, प्रतिक्षत्रका संजय, संजयका जय, जयका विजय, विजयका कृत, कृतका हर्षधन, हर्षधनका सहदेव, सहदेवका अदीन, अदीनका जयत्सेन, जयत्सेनका संस्कृति और संस्कृतिका पुत्र क्षत्रधर्मा हुआ । ये रम्भ का वृद्धके वंशज हुए ॥ २५—२७ ॥ अब मैं नहुषवंशका वर्णन करूँगा ॥ २८ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

दसवाँ अध्याय

ययातिका चरित्र

श्रीपराशर उवाच

यतिययातिसंयात्यायातिवियातिकृतिसंज्ञा

नहुषस्य षट् पुत्रा महबलपराक्रमा बभूवुः ॥ १ ॥

यतिस्तु राज्यं नैच्छत् ॥ २ ॥ ययातिस्तु भूभृद्-

भवत् ॥ ३ ॥ वंशानसश्च दुहितरं देवयानीं

वार्षपर्वणीं च शर्मिष्ठापुप्लेये ॥ ४ ॥

अत्रानुर्वंशश्लोको भवति ॥ ५ ॥

यदुं च तुर्वंसुं चैव देवयानी व्यजायत ।

हृशुं जानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ६ ॥

काव्यशापाच्चाकालेनैव ययातिर्जराभवाप

॥ ७ ॥ प्रसन्नशुकं वचनाच्च स्वजरां

सङ्क्रामयितुं प्येष्टं पुत्रं यदुमुवाच ॥ ८ ॥ तस्य

त्वन्मतामहृशाप्रदिद्यमकालेनैव जरा समोपस्थिता

तामहं तस्यैवानुग्रहं द्रव्यतस्सञ्चारयामि ॥ ९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—नहुषके प्रति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक छः महबल-विक्रमशाली पुत्र हुए ॥ १ ॥ यतिने राज्यकी इच्छा नहीं की, इसलिये ययाति ही राजा हुआ ॥ २-३ ॥ ययातिने शुक्राचार्यजीकी पुत्री देवयानी और वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठसे विवाह किया था ॥ ४ ॥ उनके वंशके सम्बन्धमें यह श्लोक प्रसिद्ध है— ॥ ५ ॥

'देवयानीने यदु और तुर्वंसुको जन्म दिया तथा वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने हृशु, अनु और पूरुको उत्पन्न किया' ॥ ६ ॥

ययातिको शुक्राचार्यजीके शापसे असमर्थ हो वृद्धावस्थाने घेर लिया था ॥ ७ ॥ पीले शुक्रजीके प्रसन्न होकर कहनेपर उन्होंने अपनी वृद्धावस्थाकी ग्रहण करनेके लिये बड़े पुत्र यदुसे कहा— ॥ ८ ॥ 'वत्स! तुम्हारे नानाजीके शापसे मुझे असमर्थमें ही वृद्धावस्थाने घेर लिया है, अब उन्हींकी कृपासे मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ' ॥ ९ ॥

एकं वर्षसहस्रमत्पतोऽस्मि विषयेषु
त्वद्दयसा विषयानहं भोक्तुमिच्छामि ॥ १० ॥ नात्र
भवता प्रत्याख्यानं कर्तव्यमित्युक्तस्य यदुर्निच्छन्तो
जरायादात्तुम् ॥ ११ ॥ तं च पिता शशाप
त्वत्प्रसूतिर्न रान्याहर्षं भविष्यतीति ॥ १२ ॥

अनन्तरं च तुर्वसुं द्रुह्यमानुं च
पृथिवीपतिर्जराग्रहणार्थं स्वयौवनप्रदानाय
चाभ्यर्क्षयामास ॥ १३ ॥ तैरप्येकैकेन प्रत्याख्यात-
स्ताञ्छशाप ॥ १४ ॥ अथ शर्मिष्ठातनयमशेष-
कनीयासं पूरुं तथैवाह ॥ १५ ॥ स जातिप्रवणमतिः
सह्यमानं पितरं प्रणाम्य महाप्रसादोऽयम-
स्माकमित्युदारमभिधाव जरां जग्राह ॥ १६ ॥
स्वकीयं च यौवनं स्वपित्रे ददौ ॥ १७ ॥

सोऽपि पौरवं यौवनमासाद्य धर्माविरोधेन
यथाकामं यथाकालोपपन्नं यद्योत्साहं विषयाश्च-
चार ॥ १८ ॥ सम्यक् च प्रजापालनमकरोत् ॥ १९ ॥
विश्वाच्या देवयान्या च सहोपभोगं
भुक्त्वा कामान्तामनं प्राप्स्यामीत्यनुदिनं उन्मनस्को
बभूव ॥ २० ॥ अनुदिनं चोपभोगतः कामा-
नतिरभ्यान्मेने ॥ २१ ॥ ततश्चैवमगायत ॥ २२ ॥
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कुण्डलत्मेंस भूय एवाभिवर्द्धते ॥ २३ ॥
यत्पृथिव्यां स्त्रीहियषं हिरण्यं पशवः स्त्रियः ।
एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मानृष्णां परित्यजेत् ॥ २४ ॥
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम् ।
सपदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वास्सुखमया दिशः ॥ २५ ॥
या दुस्त्वजा दुर्मतिभिर्या न जीर्वति जीर्वतः ।
तां तृष्णां सन्वजेत्प्राज्ञस्सुखेनैवाभिपूर्यते ॥ २६ ॥
जीर्वन्ति जीर्वतः केशा दन्ता जीर्वन्ति जीर्वताः ।
घनाशा जीविताज्ञा च जीर्वतोऽपि न जीर्वतः ॥ २७ ॥
पूर्वं वर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः ।
तथाप्यनुदिनं तृष्णा मम तेषूपजायते ॥ २८ ॥

यें अभी विषय-भोगोंसे तृप्त नहीं हुआ हूँ,
इसलिये एक सहस्र वर्षातक मैं तुम्हारी युवावस्थासे
उन्हें भोगना चाहता हूँ ॥ १० ॥ इस विषयमें तुम्हें
किसी प्रकारकी आनाकानी नहीं करनी चाहिये ।
किन्तु पिताके ऐसा कहनेपर भी यदुर्न चूझकरव्याको
ग्रहण करना न चाहा ॥ ११ ॥ तब पिताने उसे शाप
दिया कि तेरी सन्तान रण्य-पदक योग्य न होगी ॥ १२ ॥

फिर राजा ययाजिने तुर्वसु, दुसु और अनुसे भी
अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करनेके लिये कष्ट;
तथा उनमेंसे प्रत्येकके अस्वीकार करनेपर उन्होंने उन
सभोंको शाप दे दिया ॥ १३-१४ ॥ अन्तमें सबसे छोटे
शर्मिष्ठाके पुत्र पूरुसे भी वहाँ बात कही तो उसने अति
नम्रता और आदरके साथ पिताको प्रणाम करके तदारापूर्वक
कहा—'बह तो हमारे ऊपर आपका महान् अनुग्रह है ।'
ऐसा कहकर पूरुने अपने पिताको वृद्धावस्था ग्रहण कर
उन्हें अपना यौवन दे दिया ॥ १५—१७ ॥

राजा ययाजिने पूरुका यौवन लेकर समयानुसार प्राप्त
हुए यथेच्छ विषयोंको अपने उत्सहके अनुसार धर्मपूर्वक भोगा
और अपनी प्रजाका भली प्रकार पालन किया ॥ १८-१९ ॥
फिर विश्वाची और देवयानीके साथ विविध भोगोंको भोगते
हुए 'मैं कामनाओंका अन्त कर दूँगा'—ऐसे सोचते-सोचते
मे प्रसिद्धि [भोगोंके लिये] उत्कण्ठित रहने लगे ॥ २० ॥
और निरन्तर भोगते रहनेसे उन कामनाओंको अत्यन्त प्रिय
मानने लगे; तदुपरान्त उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार
प्रकट किया ॥ २१-२२ ॥

'भोगोंको तृष्णा उनके भोगनेसे कभी शान्त नहीं होती,
वल्कि घृणाहृत्तिसे अग्निके सभान वह बढ़ती ही जाती है ॥ २३ ॥
सम्पूर्ण पृथिवीमें जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियाँ
हैं वे सब एक मनुष्यके लिये भी सन्तोषजनक नहीं हैं, इसलिये
तृष्णाको सर्वथा त्याग देना चाहिये ॥ २४ ॥ जिस समय कोई
पुरुष किसी भी प्राणीके लिये पापमयी भावना नहीं करता,
उस समय उस सपदृष्टीके लिये सभी दिसाएँ सुखमयी हो जाती
हैं ॥ २५ ॥ दुर्मतिवर्षोंके लिये जो अत्यन्त दुस्वयज है तथा
वृद्धावस्थामें भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान् पुरुष उस
तृष्णाको त्यागकर सुखसे परिपूर्ण हो जाता है ॥ २६ ॥ अथस्याके
जोष होनेपर केश और दाँत जो जीर्ण हो जाते हैं किन्तु जीवन
और धनकी आशाएँ उसके जीर्ण होनेपर भी नहीं जीर्ण
होती ॥ २७ ॥ विषयोंमें आसक्त रहते हुए मुझे एक सहस्र वर्ष
बीत गये, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है ॥ २८ ॥

तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम् ।
निर्द्वन्द्वो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि मृगैस्सह ॥ २९

श्रीपराशर उवाच

पूरोस्सकाशादादाय जरां दत्त्वा च यीवनम् ।
राज्येऽभिषिच्य पूर्वं च प्रययौ तपसे वनम् ॥ ३०
दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्वसुं च समादिशत् ।
प्रतीच्यां च तथा द्रुह्युं दक्षिणार्थां ततो यदुम् ॥ ३१
उदीच्यां च तथैवानु कृत्वा मण्डलिनो नृपान् ।
सर्वपृथ्वीपतिं पूरुं सोऽभिषिच्य वनं ययौ ॥ ३२

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

ग्यारहवाँ अध्याय

यदुवंशका वर्णन और सहस्रार्जुनका चरित्र

श्रीपराशर उवाच

अतः परं यथातेः प्रथमपुत्रस्य यदोर्वंशमहं
कथयामि ॥ १ ॥ यत्राशेषलोकनिवासो मनुष्य-
सिद्धगन्धर्वयक्षराक्षसगुह्यककिंपुरुषाप्सरडरग-
विहगदैत्यदानवादित्यरुद्रवस्वशिवमरुदेवर्षिभि-
र्मुंगुक्षुभिर्धर्माश्रकाममोक्षार्थिभिश्च तत्तत्फल-
लाभाय सदाभिष्टुतोऽपरिच्छेद्यमाहात्म्यांशेन
भगवान्नादिनिधनो विष्णुरवततार ॥ २ ॥
अत्र श्लोकः ॥ ३ ॥

यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परं ब्रह्म निराकृति ॥ ४

सहस्रजित्कोष्टुनलनक्षुसेंज्ञाश्चत्वारो यदुपवा
बभूवुः ॥ ५ ॥ सहस्रजित्पुत्रश्शतजित् ॥ ६ ॥ तस्य
हेहयहेहयवेणुहयास्त्रयः पुत्रा बभूवुः ॥ ७ ॥ हेहयपुत्रो
धर्मस्तस्यापि धर्मनेत्रस्ततः कुन्तिः कुन्तेः
सहजित् ॥ ८ ॥ तत्तनयो महिष्यान् योऽसौ माहिष्यती
पुरीं निवासयामास ॥ ९ ॥ तस्माद्भद्रश्रेण्यस्ततो
दुर्दमस्तस्माद्धनको धनकस्य कृतवीर्यकृतारिण

अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्तको
भगवान्में ही स्थिरकर निर्द्वन्द्व और निर्मम होकर
[वनमें] मृगोंके साथ विचरूँगा ॥ २९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर राजा यथातिने
पुरुषोंके अपनी छुड़ावस्था लेकर उसका यीवन
दे दिया और उसे राज्य पदपर अभिषिक्त
कर वनको चले गये ॥ ३० ॥ उन्होंने दक्षिण-
पूर्व दिशामें तुर्वसुको, पश्चिममें द्रुह्युको,
दक्षिणमें यदुको और उत्तरमें अनुको माण्डलिकपदपर
नियुक्त किया; तथा पूरुको सम्पूर्ण भूमण्डलके
राज्यपर अभिषिक्तकर स्वयं वनको चले
गये ॥ ३१-३२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—अब मैं यथातिके प्रथम
पुत्र यदुके वंशका वर्णन करता हूँ, जिसमें कि
मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, गुह्यक, किंपुरुष,
अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु,
अश्विनौकूपार, मरुद्गण, देवर्षि, पुपुषु तथा धर्म,
अर्थ, काम और मोक्षके अभिलाषी पुरुषोंद्वारा सर्वदा
स्तुति किये जानेवाले, अखिललोक-विश्राम आद्यन्तर्गिन
भगवान् विष्णुने अपने अपरिमित महत्त्वशाली अंशसे
अवतार लिया था। इस विषयमें यह श्लोक प्रसिद्ध
है— ॥ १-३ ॥

'जिसमें श्रीकृष्ण नामक निराकर परब्रह्मने अवतार
लिया था, उसे यदुवंशका प्रथम करनेसे मनुष्य
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है' ॥ ४ ॥

यदुके सहस्रजित्, क्रोष्टु, नल और नहुष नामक
चार पुत्र हुए। सहस्रजित्के शतजित् और ऋजित्के हेहय,
हेहय तथा वेणुहय नामक तीन पुत्र हुए ॥ ५-७ ॥
हेहयका पुत्र धर्म, धर्मका धर्मनेत्र, धर्मनेत्रका कुन्ति,
कुन्तिका सहजित् तथा सहजित्का पुत्र माहिष्यान् हुआ,
जिसने माहिष्यतीपुरीको बसाया ॥ ८-९ ॥ माहिष्यान्के
भद्रश्रेण्य, भद्रश्रेण्यके दुर्दम, दुर्दमके धनक तथा धनकके

कृतधर्मकृतीजसश्चत्वारः पुत्रा बभूवुः ॥ १० ॥

कृतवीर्यादर्जुनस्सप्तद्वीपाधिपतिर्बाहुसहस्रो
जज्ञे ॥ ११ ॥ योऽसौ भगवदंशमत्रिकुलप्रसूतं
दत्तात्रेयाख्यपाराध्यं बाहुसहस्रमधर्मसेवा-
निवारणं स्वधर्मसेवित्वं रणे पृथिवीजयं धर्मतश्चानु-
पालनमरातिभ्योऽपराजयमखिलजगत्प्रख्यात-
पुरुषाश्च मृत्युमित्येतान्वरानभिलषितवाँल्लेभे
च ॥ १२ ॥ तेनेवमशेषद्वीपवती पृथिवी सम्यक्-
परिपालिता ॥ १३ ॥ दशयज्ञसहस्रा-
ण्यसावयजत् ॥ १४ ॥ तस्य च श्लोकोऽद्यापि
गोयते ॥ १५ ॥

न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं वास्यन्ति पार्थिवाः ।

यज्ञैर्दानैस्तपोभिर्वा प्रश्रवणेण श्रुतेन च ॥ १६

अनष्टद्रव्यतां च तस्य राज्येऽभवत् ॥ १७ ॥

एवं च पञ्चाशीतिसर्वसहस्राण्यव्याहृतारोग्य-
श्रीखलपराक्रमो राज्यमकरोत् ॥ १८ ॥

माहिष्यतो दिग्विजयाध्यागतो नर्मदाजलासगाहन-
क्रीडातिपानमदाकुलेनायलेनैव तेनाशेषदेवदैत्य-
गन्धर्वैश्चाजयोद्धूतमदावलेपोऽपि रावणः पशुरिव
खड्ग्या स्वनगरैकान्ते स्थापितः ॥ १९ ॥

यश्च पञ्चाशीतिसर्वसहस्रोपलक्षणकालावसाने
भगवन्नारायणांशेन परशुरामेणोपसंहृतः ॥ २० ॥

तस्य च पुत्रश्चतप्रधानाः पञ्च पुत्रा बभूवुः
शूरशूरसेनवृषसेनमधुजयध्वजसंज्ञाः ॥ २१ ॥

जयध्वजात्तालजङ्घः पुत्रोऽभवत् ॥ २२ ॥

तालजङ्घस्य तालजङ्घाख्यं पुत्रशतमासीत् ॥ २३ ॥

एषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रस्तथान्यो भरतः ॥ २४ ॥

भरताद्वृषः ॥ २५ ॥ वृषस्य पुत्रो मधुरभवत् ॥ २६ ॥

तस्यापि वृष्णिप्रमुखं पुत्रशतमासीत् ॥ २७ ॥

यतो वृष्णिसंज्ञामेतद्गोत्रमवाप ॥ २८ ॥

मधुसंज्ञाहेतुश्च मधुरभवत् ॥ २९ ॥ यदवाश्च

यदुनामोपलक्षणादिति ॥ ३० ॥

कृतवीर्यं, कृताग्निं, कृतधर्मं और कृतीजा नामक चार
पुत्र हुए ॥ १० ॥

कृतवीर्यके सहस्र भुजाओंवाले सप्तद्वीपाधिपति
अर्जुनका जन्म हुआ ॥ ११ ॥ सहस्रार्जुनने अत्रिकुलमें उत्पन्न
भगवदंशरूप श्रीदत्तात्रेयजीकी उपासना कर 'सहस्र भुजाएँ,
अधर्मान्तरणका निवारण, स्वधर्मका खेवन, युद्धके द्वारा
सम्पूर्ण पृथिवीमण्डलका विजय, धर्मानुसार प्रजा-पालन,
शत्रुओंसे अपरजय तथा त्रिलोकप्रसिद्ध पुरुषसे मृत्यु'—
ऐसे कई वर माँगे और प्राप्त किये थे ॥ १२ ॥ अर्जुनने उस
सम्पूर्ण सप्तद्वीपवती पृथिवीका पालन तथा दस हजार
यज्ञोंका अनुष्ठान किया था ॥ १३-१४ ॥ उसके विषयमें
यह श्लोक आजतक कहल जाता है— ॥ १५ ॥

'यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्यामें कार्तवीर्य—
सहस्रार्जुनको समता कोई भी राजा नहीं कर सकता' ॥ १६ ॥

उसके राज्यमें कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता
था ॥ १७ ॥ इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और
सम्पत्तिको सर्वथा सुरक्षित रखते हुए पचासी हजार वर्ष
राज्य किया ॥ १८ ॥ एक दिन जब वह अतिसय मद्य-
पानसे व्याकुल हुआ नर्मदा नदीमें जल-क्रोडा कर रहा
था, उसकी राजधानी माहिष्यतीपुरीपर दिग्विजयके लिये
आये हुए सम्पूर्ण देव, दानव, गन्धर्व और राजाओंके
विजयपदसे उत्पन्न रावणने आक्रमण किया, उस समय
उसने अनायास ही रावणको पशुके समान बाँधकर
अपने नगरके एक निर्जन स्थानमें रख दिया ॥ १९ ॥ इस
सहस्रार्जुनका पचासी हजार वर्ष व्यतीत होनेपर भगवान्
नारायणके अंशावतार परशुरामजीने बंध किया था ॥ २० ॥
इसके सौ पुत्रोंमेंसे शूर, शूरसेन, वृषसेन, मधु और
जयध्वज—ये पाँच प्रधान थे ॥ २१ ॥

जयध्वजका पुत्र तालजंघ हुआ और तालजंघके
तालजंघ नामक सौ पुत्र हुए इनमें सबसे बड़ा
वीतिहोत्र तथा दूसरा भरत था ॥ २२-२४ ॥
भरतके वृष, वृषके मधु और मधुके वृष्णि आदि
सौ पुत्र हुए ॥ २५-२७ ॥ वृष्णिके कारण यह
वंश वृष्णि कहलगाया ॥ २८ ॥ मधुके कारण
इसकी मधु-संज्ञा हुई ॥ २९ ॥ और यदुके नामानुसार इस
वंशके लोग यदव कहलाये ॥ ३० ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे अर्जुनोऽंशे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

बारहवाँ अध्याय

यदुपुत्र क्रोष्टुका वंश

श्रीपराशर उवाच

क्रोष्टोस्तु यदुपुत्रस्यात्मजो ध्वजिनीवान् ॥ १ ॥

ततश्च स्वातिस्ततो रुशंकू रुशंको-
श्चित्ररथः ॥ २ ॥ तत्सनयश्शशिविन्दुश्चतु-
र्दशमहारत्नेशश्चक्रवर्त्यभवत् ॥ ३ ॥ तस्य च
शतसहस्रं पत्नीनामभवत् ॥ ४ ॥ दशलक्षसं-
ख्याश्च पुत्राः ॥ ५ ॥ तेषां च पृथुश्रवाः पृथुकर्मा
पृथुकीर्तिः पृथुयशाः पृथुजयः पृथुदानः
षट् पुत्राः प्रधानाः ॥ ६ ॥ पृथुश्रवसश्च पुत्रः
पृथुतमः ॥ ७ ॥ तस्मादुशाना यो वाजिमैधानां
शतसंज्ञहारो ॥ ८ ॥ तस्य च शितपुर्नाय
पुत्रोऽभवत् ॥ ९ ॥ तस्यापि रुक्मकवचस्ततः
परावृत् ॥ १० ॥ परावृत्तो रुक्मेषुपृथुन्याम-
धवलितहरितसंज्ञास्तस्य पञ्चात्मजा
बभूवुः ॥ ११ ॥ तस्यायमद्यापि ज्यामघस्य
श्लोको गीयते ॥ १२ ॥

भार्याश्रयास्तु ये केचिद्भस्त्रिव्यन्यथ वा पुतः ।

तेषां तु ज्यामघः श्रेष्ठश्शैव्यापतिरभून्पुः ॥ १३ ॥

अपुत्रा तस्य सा पत्नी शैव्या नाम तथाप्यसौ ।

अपत्यकामोऽपि भवानान्यां भार्यामथिन्दत ॥ १४ ॥

स त्वेकदा प्रभूतस्थितुरगजसम्मर्दितारुणे
मह्यह्वे युद्धमानः स्कलयेवारिचक्रमजयत् ॥ १५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—यदुपुत्र क्रोष्टुके ध्वजिनीवन्
नामक पुत्र हुआ ॥ १ ॥ उसके स्वाति, स्वातिके
रुशंकू, रुशंकूके चित्ररथ और चित्ररथके
शशिविन्दु नामक पुत्र हुआ जो चौदहों
पहरत्नोंका स्वामी तथा भद्रवर्ती सम्राट्
था ॥ २-३ ॥ शशिविन्दुके एक लाख स्त्रियाँ और
दस लाख पुत्र थे ॥ ४-५ ॥ उनमें पृथुश्रवा,
पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय और
पृथुदान—ये छः पुत्र प्रधान थे ॥ ६ ॥ पृथुश्रवाका
पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उशाना हुआ
जिसने सौ अश्वमेध यज्ञ किया था ॥ ७-८ ॥
उशानाके शितपु नामक पुत्र हुआ ॥ ९ ॥
शितपुके रुक्मकवच, रुक्मकवचके परावृत् तथा
परावृत्के रुक्मेषु, पृथु, ज्यामघ, वलित और
हरित नामक पाँच पुत्र हुए ॥ १०-११ ॥ इनमेंसे
ज्यामघके विषयमें अब भी यह श्लोक गाया
जाता है— ॥ १२ ॥

संसारमें स्त्रीके वशीभूत जो-जो लोग होंगे और
जो जो पहले हो चुके हैं उनमें शैव्याका पति राजा
ज्यामघ हो सर्वश्रेष्ठ है ॥ १३ ॥ उसकी स्त्री शैव्या
यद्यपि निःसन्तान थी तथापि सन्तानको इच्छा रखी
हुए भी उसने उसके भयसे दूसरी स्त्रीसे विवाह नहीं
किया ॥ १४ ॥

एक दिन बहुत-से रथ, घोड़े और हाथियोंके
संगठसे अत्यन्त भयानक महायुद्धमें लड़ते हुए
उसने अपने समस्त शत्रुओंको जीत लिया ॥ १५ ॥

* धर्मसंहितायें चँदक रत्नोंका उल्लेख इस प्रकार किया है—

‘षष्ठं श्वो मणिः खड्गवर्चसं रत्नं च पञ्चमम् । केतुर्निधिरच सर्पस्य प्राणहीनानि चक्षुः ॥

भार्यं पुत्रेतिरथैव सेनानी रथकुञ्जकः । पत्न्यशक्कलभास्त्रेण प्रविणः सद्यः कीर्तिवः ॥

चतुर्दशैति रत्नानि सर्वेषां चक्रवर्तिनम् ॥’

अर्थात् चक्र, रथ, मणि, खड्ग, नर्म (खड्ग), ध्वजा और निधि (खजाना)—ये सात प्राणहीन तथा स्त्री, पुत्रेति, सेनापति,
रथी, परकीर्ति, अस्त्रवाही और गजगोही—ये सात प्राणयुक्त इस प्रकार कुल खैरक रत्न सम चक्रवर्तियोंके यहाँ रहते हैं ।

तच्छारिषक्रमपास्तपुत्रकलप्रबन्धुवर्णकोशं स्व-
मधिष्ठानं परित्यज्य दिशः प्रति विद्रुतम् ॥ १६ ॥
तस्मिंश्च विद्रुतेऽतित्रासलोलाघतलोचनधुगलं
त्राहि त्राहि मां ताताम्भ भ्रातरित्याकुलविलाप-
विधुरं स राजकन्यारत्नमग्राक्षीत् ॥ १७ ॥ तद्-
दर्शनाच्च तस्यामनुरागामुगतान्तरात्मा स मृषो-
ऽचिन्तयत् ॥ १८ ॥ साधिवदं ममापत्यरहितस्य
वन्ध्याभर्तुः साम्प्रतं विधिनापत्यकारणं कन्यारत्न-
मुपपादितम् ॥ १९ ॥ तदेतत्समुद्गहापीति ॥ २० ॥
अथशैनां स्यन्दनमारोप्य स्वमधिष्ठानं
नयामि ॥ २१ ॥ तयैव देव्या शैव्याहमनुजात-
स्समुद्गहमीति ॥ २२ ॥

अर्थानां रथमारोप्य स्वनगरमगच्छत् ॥ २३ ॥

विजयिनं च राजानमशेषपौरभृत्यपरिजनामात्य-
समेता शैव्या द्रष्टुमधिष्ठानद्वारमागता ॥ २४ ॥
सा चावलोक्य राज्ञः सव्यपाश्वर्वर्तिनीं
कन्यापीथदुद्गतामर्षस्फुरदधरपल्लवा राजा-
नमवोचत् ॥ २५ ॥ अतिचपलविधात्र स्यन्दने
केयमारोपितेति ॥ २६ ॥ असावप्यनालोचितोत्तर-
वचनोऽतिभयात्तामाह स्नुषा ममेयमिति ॥ २७ ॥
अशैवं शैव्योवाच ॥ २८ ॥

नाहं प्रसूता पुत्रेण नान्या पत्यभवत्तव ।
स्नुषासम्बन्धता ह्येषा कतमेन सुतेन ते ॥ २९ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्वात्मेर्थाक्लोपकलुषितवचनमुमितविधेको
भयादुरुक्तपरिहारार्थमिदमवनीपतिराह ॥ ३० ॥
घस्ते जनिष्यत आत्मजस्तस्यैयमनागतस्यैव
भार्या निरूपितेत्याकपर्षोद्भूतपुत्रह्यसा
तथेत्याह ॥ ३१ ॥ प्रविवेश च राज्ञा
सहाधिष्ठानम् ॥ ३२ ॥

अनन्तरं सातिशुद्धलम्बेरांशकावधमौक्त-
कृतपुत्रजन्मलाभगुणाद्द्वयसः परिणाममुपगतापि

उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और
कोशादिले हीन होकर अपने-अपने स्थानोंको छोड़कर
दिशा विदिशाओंमें भाग गये ॥ १६ ॥ उनके भाग जानेपर
उसने एक राजकन्याको देखा जो अत्यन्त भयसे कातर
हुई विशाल आँखोंसे [देखती हुई] 'हे तात, हे माता, हे
भ्रातः । मेरी रक्षा करो, रक्षा करो' इस प्रकार व्याकुलतापूर्वक
विलाप कर रही थी ॥ १७ ॥ उसको देखते ही उसमें अनुरक्त-
चित्त हो जानेसे राजाने विचार किया ॥ १८ ॥ 'यह अच्छा
ही हुआ; मैं पुत्रहीन और वन्ध्याका पति हूँ; ऐसा मालूम
होता है कि मन्तानको कारणरूपी इस कन्यारत्नको विधत्ताने
ही इस समय यहाँ भेजा है ॥ १९ ॥ तो फिर मुझे इससे
विवाह कर लेना चाहिये ॥ २० ॥ अथवा इसे अपने रथपर
बैठाकर अपने निवासस्थानको लिये चलता हूँ, वहाँ
देवी शैव्याकी आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर
सूँगा' ॥ २१-२२ ॥

तदनन्तर वे उसे रथपर चढ़ाकर अपने नगरको ले
चले ॥ २३ ॥ वहाँ विजयी राजाके दर्शनके लिये सम्पूर्ण
पुत्रवासी, सेवक, कुटुम्बीजन और पत्निकर्षिके सहित मत्स्यनी
शैव्या नगरके द्वारपर आयी हुई थी ॥ २४ ॥ उसने राजाके
वामभागमें बैठे हुई राजकन्याको देखकर क्रोधके कारण
कुत्र कौपते ह्यु शैवीसे कथ्य— ॥ २५ ॥ 'हे अति चपलचित्त ।
तुमने रथमें यह किसे बैठा रखा है ?' ॥ २६ ॥ राजाको
भी जब कोई उत्तर न सुझा तो अश्वत्थिनो डरते डरते कहा—
'यह मेरी पुत्रजन्म है।' ॥ २७ ॥ तब शैव्या बोली— ॥ २८ ॥

'मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपके दूसरी
कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्रके कारण आपका
हससे पुत्रवधूका सम्बन्ध हुआ ?' ॥ २९ ॥

श्रीपराशरजी बोले— इस प्रकार शैव्याके ईर्ष्या और
क्रोध-कलुषित वचनोंसे विवेकहीन होकर भयके कारण
कही हुई असंबद्ध बातके सन्देहको दूर करनेके लिये
राजाने कहा— ॥ ३० ॥ 'तुम्हारे जो पुत्र होनेवाला है उस
भायो शिशुको मैंने यह पहलेसे ही भार्या निश्चित कर दी
है।' यह सुनकर राजाने मधुर मुसन्तानके साथ कहा—
'अच्छा, ऐसा ही हो' और राजाके साथ नगरमें प्रवेश
किया ॥ ३१-३२ ॥

तदनन्तर पुत्र-लाभके गुणोंसे युक्त उस अति
विशुद्ध लम्बे होरांशक अवयवके समय हुए पुत्रवन्धविषयक
वार्तालापके प्रभावसे गर्भधारणके योग्य अवस्था न

श्रीव्या स्वल्पैरवाहोभिर्गर्भमवाप ॥ ३३ ॥ कालेन
 च कुमारमजीजनत् ॥ ३४ ॥ तस्य च विदर्भ
 इति पिता नाम चक्रे ॥ ३५ ॥ स च तौ स्तुवा-
 मुपयेमे ॥ ३६ ॥ तस्यां चासी क्रथकैशिकसंज्ञी
 पुत्रावजनयत् ॥ ३७ ॥ पुनश्च तृतीयं रोमपादसंज्ञं
 पुत्रमजीजनद्यो नारदादक्षाप्तज्ञानवानभवत् ॥ ३८ ॥
 रोमपादाद्बभूवर्धभोर्धृतिर्धृतेः कैशिकः कैशिक-
 स्यापि चेदिः पुत्रोऽभवद् यस्य सन्तती
 चैद्या भूपालाः ॥ ३९ ॥

क्रथस्य स्तुवापुत्रस्य कुन्तिरभवत् ॥ ४० ॥
 कुन्तेर्धृष्टिर्धृष्टेर्निधृतिर्निधृतेर्दशाहंस्ततश्च ज्योमा
 तस्यापि जीमूतस्ततश्च विकृतिस्ततश्च भीमरथः,
 तस्मान्नवरथस्तस्यापि दशरथस्ततश्च शकुनिः,
 तत्तनयः करम्भिः करम्भेर्देवरातोऽभवत् ॥ ४१ ॥
 तस्माद्देवक्षत्रस्तस्यापि मधुपर्धोः कुमारवंशः
 कुमारवंशादनुनोः पुरुमित्रः पृथिवीपतिरभवत् ॥ ४२ ॥
 ततश्चांशुस्तस्माच्च सत्वतः ॥ ४३ ॥ सत्वतादेते
 सात्वताः ॥ ४४ ॥ इत्येतां ज्यामघस्य सन्ततिं
 सम्यक् श्रद्धासमन्वितः श्रुत्वा पुमान् मैत्रेय
 स्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

तेरहवाँ अध्याय

सत्वतकी सन्तिका वर्णन और स्वयन्तकमणिकी कथा

श्रीपरशर उवाच

भजनभजमानदिव्यान्धकदेवावुधमहाभोज-
 वृष्णिसंज्ञास्सत्वतस्य पुत्रा बभूवुः ॥ १ ॥
 भजयानस्य निमिकृकणवृष्णायस्तथान्ये
 द्विमात्राः शतजित्सहस्रजिदयुतजित्संज्ञास्वयः ॥ २ ॥
 देवावुधस्यापि बभुः पुत्रोऽभवत् ॥ ३ ॥ तपोश्चासं
 श्लोको गीयते ॥ ४ ॥

यश्चैव शृणुषो दूरात्सम्पश्यामस्तथान्तिकात् ।
 बभुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावुधस्समः ॥ ५ ॥
 पुरुषाः षट् च षष्टिश्च षट् सहस्राणि चाष्ट च ।
 तेऽमृतत्वयनुप्राप्ता बभोर्देवावुधादपि ॥ ६ ॥

रत्नेपर भी जोड़े ही दिनोंमें शक्याके गर्भ रह गया
 और यथासमय एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ पिताने
 उभका नाम विदर्भ रखा ॥ ३५ ॥ और इसीके साथ उस
 पुत्रबभूवका पाणिप्रदण हुआ ॥ ३६ ॥ उससे विदर्भने क्रथ
 और कैशिक नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३७ ॥ फिर
 रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्रको जन्म दिया जो नारदजीके
 उपदेशसे ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न हो गया था ॥ ३८ ॥ रोमपादके
 बभु, बभूवके धृति, धृतिके कैशिक और कैशिकके भेदि
 नामक पुत्र हुआ जिसकी सन्ततिमें चैद्य राजाओंने जन्म
 लिया ॥ ३९ ॥

ज्यामघकी पुत्रबभूवके पुत्र क्रथके कुन्ति नामक पुत्र
 हुआ ॥ ४० ॥ कुन्तिके धृष्टि, धृष्टिके निधृति, निधृतिके
 दशाहं, दशाहंके ज्योमा, ज्योमाके जीमूत, जीमूतके विकृति,
 विकृतिके भीमरथ, भीमरथके नवरथ, नवरथके दशरथ,
 दशरथके शकुनि, शकुनिके करम्भि, करम्भिके देवरात,
 देवरातके देवक्षत्र, देवक्षत्रके मधु, मधुके कुमारवंश,
 कुमारवंशके अनु, अनुके राजा पुरुमित्र, पुरुमित्रके अंशु
 और अंशुके सत्वत नामक पुत्र हुआ तथा सत्वतसे
 सात्वतवंशका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ४१—४४ ॥ हे मैत्रेय! इस
 प्रकार ज्यामघकी सन्तानका श्रद्धापूर्वक भली प्रकार श्रवण
 करनेसे मनुष्य अपने समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ४५ ॥

श्रीपरशरजी बोले—सत्वतके भजन, भजमान, दिव्य,
 अन्धक, देवावुध महःभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए ॥ १ ॥
 भजमानके निमि, कृकण और वृष्णि तथा इनके तीन सौतेले
 भाई शतजित्, सहस्रजित् और अयुतजित्—ये छः पुत्र
 हुए ॥ २ ॥ देवावुधके बभु नामक पुत्र हुआ ॥ ३ ॥ इन दोनों
 (पिता-पुत्रों) के विषयमें यह श्लोक प्रसिद्ध है— ॥ ४ ॥

'जैसा हमने दूरसे सुना था वैसा ही पास आकर भी
 देखा; वास्तवमें बभु मनुष्योंमें श्रेष्ठ है और देवावुध तो
 देवताओंके समान है ॥ ५ ॥ बभु और देवावुध [-के उपदेश
 किये हुए मार्गका अवलम्बन करने]—ये क्रमशः छः हजार
 चौदह (६,०७४) मनुष्योंने अमरपद प्राप्त किया था' ॥ ६ ॥

महाभोजस्त्वतिधर्मात्मा तस्यान्वये भोजा
पुत्तिकावरपुरनिवासिनो मार्त्तिकावरा
वभूवुः ॥ ७ ॥ वृष्योः सुमित्रो युधाजिच्च
पुत्रावभूताम् ॥ ८ ॥ ततश्चानमित्रस्तथान-
मित्रान्निजः ॥ ९ ॥ निजस्य प्रसेनसत्रा-
जितौ ॥ १० ॥

तस्य च सत्राजितो भगवानादित्यः सखा-
भवत् ॥ ११ ॥ एकदा त्वम्भोनिधितीरसंश्रयः सूर्य
सत्राजिपुष्टाय तन्मनस्कतया च भास्वानभिष्टूय-
मानोऽप्रतस्तस्थौ ॥ १२ ॥ ततस्त्यस्पष्टमूर्तिधरं
चैनमालोक्य सत्राजित्सूर्यमाह ॥ १३ ॥ यथैव
व्योमिन् वह्निपिण्डोपमं त्वामहमपश्यं तथैवाद्यायतो
गतमप्यत्र भगवता किञ्चिन्न प्रसादीकृतं
विशेषमुपलक्षयामीत्येवमुक्ते भगवता सूर्येण
निजकण्ठादनुबुध्य स्यमन्तकं नाम
महामणिवरमवतार्यैकान्ते न्यस्तम् ॥ १४ ॥

ततस्तमाताप्रोज्ज्वलं ह्रस्ववपुषमीषदापिंगल-
नवनपादित्यमद्भाक्षीत् ॥ १५ ॥ कृतप्रणिपात-
स्तवादिकं च सत्राजितमाह भगवानादित्यस्सहस्र-
दीधितिर्वरमस्मत्तोऽभिमत् वृणीष्वेति ॥ १६ ॥
स च तदेव मणिरत्नमवाचत ॥ १७ ॥ स चापि
तस्मै तद्वत्त्वा दीधितिपतिर्विषति स्वधिष्य-
पारुरोह ॥ १८ ॥

सत्राजिदप्यमलमणिरत्नसनाथकण्ठतया सूर्य
इव तेजोभिरशेषदिगन्तराण्युद्भासयन् द्वारकां
विवेश ॥ १९ ॥ द्वारकावासी जनस्तु तमायान्त-
मक्षेप्य भगवन्तमादिपुरुषं पुरुषोत्तममवनि-
भारावतरणायांशेन मानुषरूपधारिणं प्रणि-
पत्याह ॥ २० ॥ भगवन् भवन्तं द्रष्टुं नूनमय-
मादित्य आयातीत्युक्तो भगवानुवाच ॥ २१ ॥
भगवान्नायमादित्यः सत्राजिदयमादित्यदत्त-
स्यमन्तकाख्यं महामणिरत्नं विभद्रोप-
याति ॥ २२ ॥ तदेनं विभ्रब्धाः पश्यतेत्युक्तास्ते
तथैव ददुशुः ॥ २३ ॥

स च तं स्यमन्तकप्रणिपातनिवेशने चक्रे ॥ २४ ॥

महाभोज बड़ा धर्मात्मा था, उसकी सन्तानमें
भोजवंशी तथा पुत्तिकावरपुर निवासी भार्त्तिकावर नृपतिगण
हुए ॥ ७ ॥ वृषिके दो पुत्र सुमित्र और युधाजित् हुए,
उनमेंसे सुमित्रके अनमित्र, अनमित्रके निज तथा निजसे
प्रसेन और सत्राजित्का जन्म हुआ ॥ ८—१० ॥

उस सत्राजित्के पिय भगवान् आदित्य हुए ॥ ११ ॥
एक दिन समुद्र-तटपर बैठे हुए सत्राजित्ने सूर्यभगवान्को
स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करनेसे भगवान्
भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए ॥ १२ ॥ उस समय उनको
अस्पष्ट पूर्ति धारण किये हुए देखकर सत्राजित्ने सूर्यसे
कहा— ॥ १३ ॥ "आकाशमें अग्निपिण्डके समान आपकी
जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आनेपर भी देख रहा हूँ।
यहाँ आपकी प्रकाशरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दीखती।"
सत्राजित्के ऐसा कहनेपर भगवान् सूर्यने अपने गलेसे
स्यमन्तक नामको उत्तम महामणि उतारकर अलग रख
दी ॥ १४ ॥

तब सत्राजित्ने भगवान् सूर्यको देखा—उनका शरीर
किञ्चित् लाम्बवर्ण, अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके
नेत्र कुछ पिंगलवर्ण थे ॥ १५ ॥ तदनन्तर सत्राजित्के प्रणाम
तथा स्तुति आदि कर चुकनेपर सहस्रांशु भगवान् आदित्यने
उससे कहा— "तुम अपना अभीष्ट वर माँगो" ॥ १६ ॥
सत्राजित्ने उस स्यमन्तकमणिको ही माँगा ॥ १७ ॥ तब
भगवान् सूर्य उसे बट मणि देकर अन्तरिक्षमें अपने स्थानको
चले गये ॥ १८ ॥

फिर सत्राजित्ने उस निर्मल मणिरत्नसे अपना कण्ठ
सुशोभित होनेके कारण तेजसे सूर्यके समान सपस्त दिश्र्मओंको
प्रकाशित करते हुए द्वारकामें प्रवेश किया ॥ १९ ॥ द्वारकावासी
सोगोंने उसे आर्य देख, पृथिवीका धार उतारनेके लिये
अंशरूपसे अवतीर्ण हुए मनुष्यरूपधारी आदिपुरुष भगवान्
पुरुषोत्तमसे प्रणाम करके कहा— ॥ २० ॥ "भगवन्। आपके
दर्शनोंके लिये निश्चय ही ये भगवान् सूर्यदेव आ रहे हैं"
उनके ऐसा कहनेपर भगवान्ने उनसे कहा— ॥ २१ ॥ "ये
भगवान् सूर्य नहीं हैं, सत्राजित् है। यह सूर्यभगवान्से प्राप्त
हुई स्यमन्तक नामकी महामणिको धारणकर यहाँ आ रहा
है ॥ २२ ॥ तुमलोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो।"
भगवान्के ऐसा कहनेपर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार
देखने लगे ॥ २३ ॥

सत्राजित्ने वह स्यमन्तकमणि अपने घर्से रख दी ॥ २४ ॥

प्रतिदिने तन्मणिरत्नमष्टौ कनकभारान्-
स्ववति ॥ २५ ॥ तत्रप्रभावाच्च सकलस्यैव
राष्ट्रस्योपसर्गानावृष्टिष्वालाग्निचोरदुर्भिक्षादिभयं
न भवति ॥ २६ ॥ अष्ट्युतोऽपि तद्विष्ये रत्नमुग्रसेनस्य
भूपतेर्योग्यमेतदिति लिप्सां चक्रे ॥ २७ ॥
गोत्रभेदभयाच्छक्तोऽपि न जह्वर ॥ २८ ॥

सत्राजित्वाच्युतो मामेतद्याचयिष्यतीत्यवगम्य
रत्नलोभाद्भात्रे प्रसेनाय तद्दत्तमदात् ॥ २९ ॥
तच्च शुचिना धियमाणमशेषमेव सुजर्णस्तत्रादिकं
गुणाजातमुत्पादयति अन्यथा धारयन्तमेव हन्ती-
त्यजाननस्ववपि प्रसेनस्तेन कण्ठसक्तेन स्थमन्तके-
नाश्वमारुह्याटव्यां मृगधामगच्छत् ॥ ३० ॥ तत्र च
सिंहाद्वधमवाप ॥ ३१ ॥ साश्वं च तं निहत्य
सिंहेऽप्यमलमणिरत्नमास्याग्रेणादाय गन्तु-
मभ्युद्यतः, ऋक्षाधिपतिना जाम्बवता दृष्टो
घातितश्च ॥ ३२ ॥ जाम्बवानप्यमलमणिरत्न-
पादाय स्वबिले प्रविवेश ॥ ३३ ॥ सुकुमारसंज्ञाय
बालकाय च क्रीडनकमकरोत् ॥ ३४ ॥

अनागच्छति तस्मिन्प्रसेने कुम्भोः मणिरत्न-
मभिलाषितवान् स च प्राप्तवान् नूनमेतदस्य
कर्मत्वखिल एव यदुलोकः परस्परं कर्णाकर्ण्य-
कथयत् ॥ ३५ ॥

विदितलोकपवादलुत्तान्तश्च भगवान् सर्व-
यदुसैन्यपरिवारपरिवृतः प्रसेनाश्वपदवी-
मनुसम्बर ॥ ३६ ॥ ददर्श चाश्वसमवेतं प्रसेनं सिंहेन
विनिहतम् ॥ ३७ ॥ अखिलजनमध्ये
सिंहपददर्शनकृतपरिशुद्धिः सिंहपदम-
नुससार ॥ ३८ ॥ ऋक्षपतिनिहतं च सिंहमप्यल्पे
भूमिभागे दृष्ट्वा ततश्च तद्गल्गौरवादुक्षस्यापि
पदान्यनुययी ॥ ३९ ॥ गिरितटे च सकलमेव
तद्यदुसैन्यस्यस्थाप्य तत्पदानुसारी ऋक्षबिलं
प्रविवेश ॥ ४० ॥

अन्तःप्रविष्टश्च धात्र्याः सुकुमारक-
मुल्लालयन्त्या वाणीं शुभाव ॥ ४१ ॥

वह मणि प्रतिदिन आठ भार सेना देती थी ॥ २५ ॥
उसके रूपावसे सम्पूर्ण राष्ट्रमें रोग, अनाशुष्टि तथा
सर्प, अग्नि, चौर या दुर्भिक्ष आदिका भय नहीं रहता
था ॥ २६ ॥ भगवान् अञ्जुतको थी ऐसी इच्छा हुई कि
यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेनके योग्य है ॥ २७ ॥
किन्तु जातीय विद्रोहके भयसे सपथ होते हुए भी
उन्होंने उसे छीना नहीं ॥ २८ ॥

सत्राजित्को जब यह मालूम हुआ कि भगवान् मुझसे
यह रत्न माँगनेवाले हैं तो उसने लोभवश उसे अपने भाई
प्रसेनको दे दिया ॥ २९ ॥ किन्तु इस बातको न जानती हुए
कि गाँवज्जातपूर्वक धारण करनेसे तो यह मणि सुवर्ण-दाज
आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्धावस्थामें
धारण करनेसे घातक हो जाती है, प्रसेन उसे अपने गलेमें
बाँधे हुए घोंद्रेपर चढ़कर मृगयाके लिये वनको चला
गया ॥ ३० ॥ वहाँ उसे एक सिंहेने मार डाला ॥ ३१ ॥ जब
यह सिंह मोढ़ेके सहित उसे मारकर उस निर्मल मणिको
अपने पुँहमें रखकर चलनेको तैयार हुआ तो उसी समय
ऋक्षराज जाम्बवान्ने उसे देखकर मार डाला ॥ ३२ ॥ तदनन्तर
उस निर्मल मणिरत्नको लेकर जाम्बवान् अपनी गुफामें
आया ॥ ३३ ॥ और उसे सुकुमार नामक अपने बालकके
लिये खिलौना बना लिया ॥ ३४ ॥

प्रसेनके न सौटनेपर सब यादज्यों आपसमें यह
खानाफूसी होने लगी कि "कृष्ण इस मणिरत्नको
लेना चाहते थे, अवश्य ही इन्होंने उसे ले लिया है—
निश्चय यह इन्हींका काम है" ॥ ३५ ॥

इस लोकपवादका पता लगनेपर सम्पूर्ण यादजसोवके
सहित भगवान्ने प्रसेनके घोड़ेके चरण-चिह्नको अनुसरण
किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेनको घोड़ेसहित
सिंहेने मार डाला है ॥ ३६-३७ ॥ फिर सब लोगोंके बीच
शिंठके चरण-चिह्न देख लिये जानेसे अपनी सफाई हो
जानेपर भी भगवान्ने उन चिह्नोंका अनुसरण किया और
थोड़ी ही दूरीपर ऋक्षराजद्वारा मारे हुए सिंठको देखा; किन्तु
उस रत्नके महत्त्वके कारण उन्होंने जाम्बवान्के पर-
चिह्नोंका भी अनुसरण किया ॥ ३८-३९ ॥ और सम्पूर्ण
यादव-सेनाको पर्यन्तके तटपर जोड़कर ऋक्षराजके चरणोंका
अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफामें घुस गये ॥ ४० ॥

भीतर जानेपर भगवान्ने सुकुमारको बहलाती
हुई धात्रीको यह जापी सुनी— ॥ ४१ ॥

सिंहः प्रसेनमखधीत्सिंहो जाम्बवता हतः ।

सुकुमारक भा रोदीस्तव ह्येष स्वमन्तकः ॥ ४२

इत्याकण्योपलब्धस्वमन्तकोऽन्तः प्रविष्टः

कुमारक्रीडनक्रीकृतं च धात्र्या हस्ते तेजोभि-
जान्वल्यमाणं स्वमन्तकं ददर्श ॥ ४३ ॥ तं

च स्वमन्तकाभिलषितचक्षुषमपूर्वपुरुषमागतं
समवेक्ष्य धात्री त्राहि त्राहीति व्याजहार ॥ ४४ ॥

तदार्त्तरवभ्रवणानन्तरं चामर्षपूर्णहृदयः स
जाम्बवानाजगाम ॥ ४५ ॥ तयोश्च परस्पर-

भुद्धतामर्षयोर्युद्धमेकविंशतिदिनान्यभवत् ॥ ४६ ॥

ते च यदुसीनिकास्तत्र सप्ताष्टदिनानि तनिष्कान्ति-
मुदीक्षमाणास्तस्थुः ॥ ४७ ॥ अनिष्कमणे च

मधुरिपुरसाव्यवश्यमत्र विलेऽत्यन्तं नाशमवाप्तौ
भविष्यत्यन्यथा तस्य जीवतः कथमेतावन्ति

दिनानि शत्रुजघे आक्षेपो भविष्यतीति कृताध्य-
वसाया द्वारकामागम्य हतः कृष्ण इति

कथयामासुः ॥ ४८ ॥ तद्बान्धवाश्च तत्कालोचित-
मखिलमुत्तरक्रियाकंलापं चक्रुः ॥ ४९ ॥

ततश्चास्य युद्धयमानस्यातिश्रद्धादत्तविशि-
ष्टोपपात्रयुक्तान्तोद्यादिना श्रीकृष्णस्य बलप्राण-

पुष्टिरभूत् ॥ ५० ॥ इतरस्यानुदिनमतिगुरुपुरुष-
भेद्यमानस्य अतिनिष्ठुरप्रहारपातपीडितारिखला-

वयवस्य निराहारतया बलहानिरभूत् ॥ ५१ ॥
निर्जितश्च भगवता जाम्बवान्प्रणिपत्य

व्याजहार ॥ ५२ ॥ सुरासुरगन्धर्वयक्षराक्षसा-
दिभिरप्यखिलैर्भवान् जेतुं शक्यः किमुता-

वनिगोचरैरल्पवीर्यैर्निरावयवभूतैश्च तिर्यग्योन्य-
नुमृतिभिः किं पुनरस्मद्विधैरवश्यं भवताऽस्म-

त्स्वामिना रामेणैव नारायणस्य सकल-
जगत्परायणस्यांशेन भगवता भवितव्य-

मित्युक्तस्तस्मै भगवत्परिखलावनिभारवतरणार्थ-
मवतरणमाचचक्षे ॥ ५३ ॥ प्रीत्यभिव्यञ्जितकर-

तलस्पर्शनेन चैनमपगतयुद्धखेदं अकार ॥ ५४ ॥

सिंहने प्रसेनको मारा और सिंहको जाम्बवान्ने;
हं सुकुमार! तू रो मत यह स्वमन्तकमणि वेरी ही
है ॥ ४२ ॥

यह सुननेसे स्वमन्तकका पता लगनेपर भगवान्ने
भीतर झाकर देखा कि सुकुमारके लिये खिलौना बनी हुई
स्वमन्तकमणि धात्रीके हाथपर अपने तेजसे देदीप्यमान हो
रही है ॥ ४३ ॥ स्वमन्तकमणिको ओर अभिलाषापूर्ण दृष्टिसे
देखते हुए एक विलाक्षण पुरुषको वहाँ आया देख धात्री
'त्राहि-त्राहि' करके चिल्लाने लगी ॥ ४४ ॥

उसकी आर्त्त-आणीको सुनकर जाम्बवान् क्रोधपूर्ण
हृदयसे वहाँ आया ॥ ४५ ॥ फिर परस्पर रोष बढ़ जानेसे
उन दोनोंका इक्कोस दिनतक घोर युद्ध हुआ ॥ ४६ ॥
पर्वतके पास भगवान्की प्रतीक्षा करनेवाले यादव-सैनिक
सत-आठ दिनतक उनके गुफासे बाहर आनेकी बाट
देखते रहे ॥ ४७ ॥ किन्तु जब इतने दिनोंतक वे उसमेंसे न
निकले तो उन्होंने समझा कि 'अवश्य ही श्रीमधुसूदन इस
गुफामें पारे गये, नहीं तो जीवित रहनेपर शत्रुके जीतनेमें
उन्हें इतने दिन क्यों लगाते?' ऐसा निश्चय कर वे द्वारकामें
चले आये और वहाँ कठ दिया कि श्रीकृष्ण पारे गये ॥ ४८ ॥
उनके बन्धुओंने यह सुनकर सपसोचित सम्पूर्ण और्ध्वदृष्टिक
कर्म कर दिये ॥ ४९ ॥

इधर, अति श्रद्धापूर्वक दिये हुए त्रिशिष्ट पात्रोंसहित
हनुके अन्न और जलसे युद्ध करते समय श्रीकृष्णचक्रके
बल और प्राणको पुष्टि हो गयी ॥ ५० ॥ तथा अति महान्
पुरुषके द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यन्त निष्ठुर प्रहारोंके
आघातसे पीडित शरीरवाले जाम्बवान्का बल निरगार
रहनेसे क्षीण हो गया ॥ ५१ ॥ अन्तमें भगवान्से पराजित
होकर जाम्बवान्ने उन्हें प्रणाम करके कहा— ॥ ५२ ॥
'भगवन्! आपकी ही देवता, अक्षुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस
आदि कोई भी नहीं जीत सकते, फिर पृथिवीतलपर रहनेवाले
अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुष्योंके अवयवभूत रूप-जैसे
तिर्यक्-भोगित जीवोंको तो बात ही क्या है? अवश्य ही
आप ठमारे श्रुधु श्रीरामचन्द्रजीके समान सकल लोक-
प्रतिपालक भगवान् नारायणके ही अंशसे प्रकट हुए हैं।'
जाम्बवान्के ऐसा कहनेपर भगवान्ने पुष्पिणीकर भार उतरनेके
लिये अपने अवतार लेनेका सम्पूर्ण वृत्तान्त उससे कह
दिया और उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथसे छूकर युद्धके
बपसे रहित कर दिया ॥ ५३-५४ ॥

स च प्रणिपत्य पुनरप्येनं प्रसाद्य जाम्बवतीं
नाम कन्यां गृह्यतायार्घ्यभूतां ग्राह्यामास ॥ ५५ ॥
स्यमन्तकर्मणिरत्नमपि प्रणिपत्य तस्मै
प्रददौ ॥ ५६ ॥ अच्युतोऽप्यतिप्रणतात्तस्माद्-
ग्राह्यमपि तन्मणिरत्नमात्मसंशोधनाय जग्राह ॥ ५७ ॥
सह जाम्बवत्या स द्वारकापाजगाम ॥ ५८ ॥

भगवद्गामनोद्भूतहर्षोत्कर्षस्य द्वारकावासि-
जनस्य कृष्णावलोकनाक्षरक्षणमेवातिपरिणत-
वयसोऽपि नवयौवनमिवाभवत् ॥ ५९ ॥
दिष्ट्यादिष्ट्येति सकलयादवाः स्त्रियश्च
सभाजयामासुः ॥ ६० ॥ भगवानपि यश्चानुभूत-
मशेषं यादवसमाजे यथावदाचक्ष्वे ॥ ६१ ॥
स्यमन्तकं च सत्राजिते दत्त्वा मिथ्याभिज्ञानि-
परिशुद्धिमवाप ॥ ६२ ॥ जाम्बवतीं चान्सःपुरे
निवेशयामास ॥ ६३ ॥

सत्राजिदपि मयास्याभूतमलिनमाशेषितमिति
जातसन्नासात्स्वसुतां सत्यभार्मां भगवते भार्यार्थं
ददौ ॥ ६४ ॥ तां चाकूरकृतवर्माशतधन्वप्रमुखा
यादव्याः प्राग्धरव्याम्बभूवुः ॥ ६५ ॥ ततस्त-
त्प्रदानादवज्ञातमेवात्मानं मन्यमानाः सत्राजिति
वैरानुबन्धं चक्रुः ॥ ६६ ॥

अकूरकृतवर्मप्रमुखाश्च शतधन्वान-
भूवुः ॥ ६७ ॥ अचमतीव दुरात्या सत्राजिद्
योऽस्माभिर्भवता च प्राथितोऽप्यात्मजामस्मान्
भवन्तं चाविगणस्य कृष्णाय दत्तवान् ॥ ६८ ॥
तदलमनेन जीवता घातयित्वैनं तन्मह्यरत्नं
स्यमन्तकाख्यं त्वया किं न गृह्यते वयमभ्युप-
पत्स्यामो यद्यच्युतस्तत्रोपरि वैरानुबन्धं
करिष्यतीत्येवमुक्तस्तथेत्सवावप्याह ॥ ६९ ॥

जत्सुगृहदधानां पाण्डुतनयानां क्विदित-
परमार्थोऽपि भगवान् दुर्योधनप्रचलशोधित्य-
करणाद्यं कुत्स्यन्करणाच्च वारणासतं गतः ॥ ७० ॥

तदनन्तर जाम्बवान्ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न
किया और धरपर आये हुए भगवान्के लिये अर्घ्यस्वरूप
अपनी जाम्बवती नामकी कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम
करके मणिरत्न स्वमन्तक भी दे दिया ॥ ५५-५६ ॥ भगवान्
अच्युतने भी उस अति विनीतसे लंछेयोग्य न होनेपर भी
अपने कालक-शोधनके लिये वह मणिरत्न ले लिया और
जाम्बवतीके सहित द्वारकामें आये ॥ ५७-५८ ॥

उस समय भगवान् कृष्णचन्द्रके आगमनसे जिनके
हर्षका वेग अत्यन्त बढ़ गया है उन द्वारकावासियोंमेंसे
बहुत दली हुई अवस्थावालोंमें भी उनके दर्शनके
प्रभावसे तत्काल ही मनो नवयौवनका संचार हो
गया ॥ ५९ ॥ तथा सम्पूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियें
'अहोभाग्य! अहोभाग्य!!' ऐसा कहकर उनका अश्रुस्रवण
करने लगीं ॥ ६० ॥ भगवान्ने भी जो-जो बात जैसे
जैसे हुई थी वह ज्यों-की-त्यों यादव-समाजमें सुन
दी और सत्राजिक्को स्यमन्तकमणि देकर मिथ्या
फलकसे छूटकारा पा लिया। फिर जाम्बवतीको अपने
अन्तःपुरमें पहुँचा दिया ॥ ६१-६३ ॥

सत्राजिद्वी भी यह श्लेषकर कि मैंने ही कृष्णचन्द्रको
मिथ्या फलक लगाया था, डरते-डरते उन्हें पत्नीरूपसे
अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी ॥ ६४ ॥ उस कन्याको
अकूर, कृतवर्मा और शतधन्वा अर्थात् यादवोंने पहले
वरण किया था ॥ ६५ ॥ अतः श्रीकृष्णचन्द्रके साथ
उसे विवाह देनेसे उन्होंने अपना अपमान समझकर
सत्राजिद्वीसे वैर बाँध लिया ॥ ६६ ॥

तदनन्तर अकूर और कृतवर्मा आदिने शतधन्वासे
कहा— ॥ ६७ ॥ "यद्य सत्राजिद्वी बड़ा ही दुष्ट है, देखो,
इसने हमारे और आपके माँगनेपर भी हमलोगोंकी कुल
भी न समझकर अपनी कन्या कृष्णचन्द्रको दे दी ॥ ६८ ॥
अतः अब इसके जीवनका प्रयोजन ही क्या है; इसको
मारकर आप स्यमन्तक महामणि क्यों नहीं ले लेते हैं?
पीछे, यदि अच्युत आपसे किसी प्रकारका विरोध करेंगे
तो हमलोग भी आपका साथ देंगे।" उनके ऐसा कहनेपर
शतधन्वाने कहा— "बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे" ॥ ६९ ॥

इसी समय पाण्डुकी लक्ष्मणकुलमें चलनेपर,
यथार्थ बातको जानते हुए भी भगवान् कृष्णचन्द्र
दुर्योधनके प्रयत्नको शिथिल करनेके उद्देश्यसे कुलौकी
कर्म करनेके लिये वारणासत नगरको गये ॥ ७० ॥

गते च तस्मिन् सुप्तमेव सत्राजितं शतधन्वा
जघान मणिरत्नं चाददात् ॥ ७१ ॥ पितृवधामर्ष-
पूर्णां च सत्यभामा शीघ्रं स्यन्दनमारुह्य धारणाक्ते
गत्वा भगवतेऽहं प्रतिपादितेत्यक्षानिमत्ता
शतधन्वनास्मरिषता ध्यापादितस्तत्र स्थमन्तक-
मणिरत्नमपहृतं यस्याथभासनेनापहृततिमिरं
त्रैलोक्यं भविष्यति ॥ ७२ ॥ तदियं त्वदीयाप-
ह्यसना तदालोच्य यदत्र युक्तं तत्क्रियतामिति
कृष्णमाह ॥ ७३ ॥

तथा चैवमुक्तः परितुष्टान्तःकरणोऽपि कृष्णः
सत्यभामामर्षताम्रनयनः प्राह ॥ ७४ ॥ सत्ये
सत्यं ममैवैधापहासना नाहमेतां तस्य दुरात्मन-
स्सहिष्ये ॥ ७५ ॥ न ह्यनुत्लंघ्य वरपादपं तत्कृत-
नीद्व्यश्रयिणो विहङ्गमा नश्यन्ते तद्वलमभुनास्मत्पुरतः
शोकप्रेरितवाक्यपरिकरेपोत्सुक्त्वा द्वारका-
मध्येत्येकान्ते खलदेवं वासुदेवः प्राह ॥ ७६ ॥
मृगायागतं प्रसेनमटव्यां मृगपतिर्जघान ॥ ७७ ॥
सत्राजितद्वयधुना शतधन्वना निधनं
प्रापितः ॥ ७८ ॥ तदुभयधिनाशात्तन्मणि-
रत्नमाद्याभ्यां सामान्यं भविष्यति ॥ ७९ ॥

तदुत्तिष्ठारुह्यतां रथः शतधन्वनिधनाद्योद्यमं
कुर्वित्त्वभिहितस्तथेति समन्वीप्सितवान् ॥ ८० ॥

कृतोद्यमौ च तासुभासुपलभ्य शतधन्वा
कृतवर्माणमुपेत्य पार्ष्णिपूरणकर्षनिमित्तम-
चोदयत् ॥ ८१ ॥ आह चैनं कृतवर्मा ॥ ८२ ॥
नाहं बलदेव्यासुदेवाभ्यां सह विरोधापालमित्सु-
कृसाङ्गरमचोदयत् ॥ ८३ ॥ अस्त्वप्याह ॥ ८४ ॥
न हि कश्चिद्भगवता पादप्रहारपरिकम्पित-
जगत्त्रयेण सुररिपुबनितावैधव्यकारिणा प्रबल-
रिपुचक्राप्रतिहतचक्रेण चक्रिणा मदमुदितनय-
नावलोकित्वाखिलनिशातनेनातिगुरुवैरिवारणा-
पकर्षणाधिकृतमहिमोहसरीरेण सीरिणा च
सह सकलजगद्गन्धानाममरवराणामपि
योद्धुं समर्थः किमुताहम् ॥ ८५ ॥

उनके चले जानेपर शतधन्वाने संगे हुए सत्राजिष्को
धारकर वह मणिरत्न ले लिया ॥ ७१ ॥ पिताके लक्ष्मणे क्रोधित
हुई सत्यभामा तुरन्त ही रथपर चढ़कर वारणावत नगरमें
पहुँची और भगवान् कृष्णसे बोली—“भगवन्! पिताजीने
पुत्रे आपके करकर्मलोंमें छीप दिया—इस आतकको सहन
न कर सकनेके कारण शतधन्वाने मेरे पिताजीको मार
दिया है और उस स्थमन्तक नामक मणिरत्नको ले लिया
है जिसके प्रकाशसे सम्पूर्ण त्रिलोकी भी अन्धकारशून्य हो
जायगी ॥ ७२ ॥ इसमें अपहर्त्रीको हँसो है इसलिये सब
बातोंका विचार करके जैसा उचित समझें, करें” ॥ ७३ ॥

सत्यभामाके ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीकृष्णने मन-
हो-मन प्रसन्न होनेपर भी उनसे क्रोधसे ओंखें लाल करके
कहा— ॥ ७४ ॥ “सत्ये! अक्षय्य इत्यं मेरी ही हँसी है,
उस दुष्टत्वाके इस कुकर्मको मैं सहन नहीं कर सकता,
क्योंकि यदि ऊँचे वृक्षका उल्टेपन न किया जा सके तो
उसपर मौखला अनाकर रहनेवाले पक्षियोंको नहीं मार
दिया जाता। [अर्थात् बड़े आदमियोंसे पार न पानेपर उनके
आश्रितोंको नहीं दशात भाहिये।] इसलिये अब तुम्हें हमारे
सामने इन शोक-प्रेरित वाक्योंके कहनेकी और आवश्यकता
नहीं है। [तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार
बदला चुका दूँगा।]” सत्यभामामें इस प्रकार कह भगवान्
वासुदेवने द्वारकामें आकर श्रीबलदेवजीसे एकान्तमें
कहा— ॥ ७५-७६ ॥ “मैंने आखेटके लिये गये हुए प्रसेनको
तो सिंठने मार दिया था ॥ ७७ ॥ अब शतधन्वाने सत्राजिष्को
भी मार दिया है ॥ ७८ ॥ इस प्रकार उन दोनोंके मारे जानेपर
मणिरत्न स्थमन्तकपर हम दोनोंका समान अधिकार
होगा ॥ ७९ ॥ इसलिये उठिये और रथपर चढ़कर शतधन्वाके
मारनेका प्रयत्न कीजिये।” कृष्णान्द्रके ऐसा कहनेपर
बलदेवजीने भी “बहुत अच्छा” कह उसे स्वीकार किया ॥ ८० ॥

कृष्ण और बलदेवजी [अपने लक्ष्मणके लिये] उद्यत
जान शतधन्वाने कृतवर्माके पास जाकर सहायताके लिये
प्रार्थना की ॥ ८१ ॥ तब कृतवर्माने हससे कहा— ॥ ८२ ॥
“मैं बलदेव और वासुदेवसे विरोध करनेमें समर्थ नहीं
हूँ। उसके ऐसा कहनेपर शतधन्वाने अक्रूरसे सहायता
मांगी, जो अक्रूरने भी कहा— ॥ ८३-८४ ॥ “जो अपने
पाद-प्रहारसे त्रिलोकीको कम्पायमान कर देते हैं,
देवशत्रु असुराणकी स्त्रियोंको वैधव्यदान देते हैं तथा
अति प्रबल शत्रु-सेनासे भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता
है उन चक्रधारी भगवान् वासुदेवसे तथा जो अपने मवोन्यत
नयनोंकी चितवनसे सबका दमन करनेवाले और भयंकर
शत्रुसमूहके हाथियोंको खींचनेके लिये अखण्ड महिमाशक्त्ये
प्रचण्ड हल धारण करनेवाले हैं उन श्रीहलधरसे
युद्ध करनेमें तो निखिल-शोक-बन्दीय देवगणमें भी
कोई समर्थ नहीं है फिर मेरी तो बात ही क्या है ? ॥ ८५ ॥

तदन्यश्शरणमभिलष्यतामित्युक्तश्शतधनु-
रहः ॥ ८६ ॥ यद्यस्मत्परिवापासमर्थं
भवानात्मानमधिगच्छति तदयमस्मत्स्तोत्रम्भिः
संगृह्य रक्ष्यतामिति ॥ ८७ ॥ एवमुक्तः
सोऽप्याह ॥ ८८ ॥ यद्यन्त्यायामप्यवस्थायां न
कस्मैचिद्भवान् कश्चियिव्यति तदहमेतं
ग्रहीष्यामीति ॥ ८९ ॥ तथेत्युक्ते चाकूरस्तन्मणिरत्नं
जग्राह ॥ ९० ॥

शतधनुर्प्यतुल्यवेगां शतयोजनघातिनीं
बडवामारुह्यापक्रान्तः ॥ ९१ ॥ शैव्यसुग्रीव-
मेघपुष्यबलाहकाश्वत्थतुष्टययुक्तरथस्थितौ
बलदेव्यासुदेवौ तमनुप्रयातौ ॥ ९२ ॥ सा च बडवा
शतयोजनप्रमाणमार्गमतीता पुनरपि वाह्यमाना
मिथिलावनोदेशे प्राणानुत्सर्ज ॥ ९३ ॥
शतधनुषि तां परित्यज्य पदातिरेवात्रवन् ॥ ९४ ॥
कृष्णोऽपि बलभद्रमाह ॥ ९५ ॥ तावदत्र स्यन्दने
भवता स्थेयमहमेनमधमाचारं पदातिरेव
पदातिभनुगम्य यावद्घातयामि अत्र हि भूभागे
दृष्टदोषास्तभया अतो नैतेऽश्वा भवतेषां भूमि-
भागमुल्लङ्घनीयाः ॥ ९६ ॥ तथेत्युक्त्वा बलदेवो
रथ एव तस्थौ ॥ ९७ ॥

कृष्णोऽपि द्विक्रोशमात्रं भूमिभागमनुसृत्य
दूरस्थितस्वैव चक्रं क्षिप्त्वा शतधनुषश्शर-
क्षिप्यच्छेद ॥ ९८ ॥ तच्छरीराभ्यादिवु च बहुराकार-
मन्निच्छन्नपि स्यमन्तकमपि नवाप यदा तदोपगम्य
बलभद्रमाह ॥ ९९ ॥ कृष्यैवास्याभिः शतधनुर्वातितो
न प्राप्तमखिलजगत्सारभूतं तन्मह्यरत्नं
स्यमन्तकाख्यमित्थाकण्योद्भूतकोषो बलदेवो

इसलिये तुम दूसरेको करण लो' अकूरके ऐसा
कहनेपर शतधनुर्वने कहा— ॥ ८६ ॥ 'अच्छा, यदि
मेरी रक्षा करनेमें आप अपनेको सर्वथा असमर्थ
समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ इसे
लेकर इसीको रक्षा करीजिये' ॥ ८७ ॥ इसपर अकूरने
कहा— ॥ ८८ ॥ 'मैं इसे तभी ले सकता हूँ जब कि
अन्तकाल उपस्थित होनेपर भी तुम किसीसे भी यह
जात न कहो' ॥ ८९ ॥ शतधनुर्वने कहा 'ऐसा ही
होगा।' इसपर अकूरने वह मणिरत्न अपने पास रख
लिया ॥ ९० ॥

तदनन्तर शतधनुवा सौ योजनतक जानेवाली एक
अत्यन्त वेगवती घोड़ीपर चढ़कर भागा ॥ ९१ ॥ और
शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्य तथा बलाहक नामक चार
घोड़ोंवाले रथपर चढ़कर बलदेव और वासुदेवने भी
उसके पीछा किया ॥ ९२ ॥ सौ योजन मार्ग पर कर
जानेपर पुनः आगे ले जानेसे उस घोड़ीने मिथिला
देशके पलमें प्राण छोड़ दिये ॥ ९३ ॥ तब शतधनुवा
वसें छेड़कर पैदल ही भागा ॥ ९४ ॥ उस समय
श्रीकृष्णचन्द्रने बलभद्रजोसे कहा— ॥ ९५ ॥ 'आप अभी
रथमें ही रहिये मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारीको
पैदल जाकर ही पारं डालता हूँ। यहाँ [घोड़ीके मरने
आदि] दोषोको देखनेसे घोड़े मयभीत हो रहे हैं,
इसलिये आप इन्हें और आगे न बढ़ाइयेगा ॥ ९६ ॥
तब बलदेवजी 'अच्छा' ऐसा कहकर रथमें ही बैठे
रहे ॥ ९७ ॥

श्रीकृष्णचन्द्रने केवल दो ही कोसतक पीछाकर
अपना चक्र फेंक दूर होनेपर भी शतधनुवाक
सिर काट डाला ॥ ९८ ॥ किन्तु उसके शरीर
और यस्त्र आदिमें बहुत कुछ दूँदनेपर भी जब
स्यमन्तकमणिको न पाया तो बलभद्रजीके पास
जाकर उनसे कहा— ॥ ९९ ॥ 'हमने शतधनुवाको
प्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास सम्पूर्ण संसारकी
सारभूत स्यमन्तकमणि तो मिली ही नहीं।' यह सुनकर
बलदेवजीने [यह समझकर कि श्रीकृष्णचन्द्र उस
मणिको छिपानेके लिये ही ऐसी बातें बना रहे हैं]

वासुदेवमाह ॥ १०० ॥ धिक्त्वां यस्त्वमेवमर्थ-
लिप्सुरेतच्च ते भ्रातृत्वान्मया क्षान्तं तदयं
पक्षास्वेच्छया गम्यतो न मे ह्यरकया न त्वया न
चाशेषबन्धुभिः कार्यमलमलमेभिर्मपाग्रतो-
ऽरीकशपथैरित्याक्षिप्य तत्कर्था कथञ्चित्साद्य-
मानोऽपि न तस्थी ॥ १०१ ॥ स विदेहपुरीं
प्रविवेश ॥ १०२ ॥

जनकराजश्चार्यपूर्वकमेनं गृहं प्रवेश-
यामास ॥ १०३ ॥ स तत्रैव च तस्थी ॥ १०४ ॥
वासुदेवोऽपि द्वारकामाजगाम ॥ १०५ ॥ यावच्च
जनकराजगृहे बलभद्रोऽवतस्थे तावद्धार्म-
राष्ट्रो दुर्वोधनस्तत्सकाशाद्गदाशिक्षाम-
शिक्षयत् ॥ १०६ ॥ वर्षप्रयान्ते च
बभूवसेनप्रभृतिभिर्यादसैनं तत्रत्नं
कृष्णोनापहतमिति कृतावगतिविदेहनगरीं गत्वा
बलदेवस्सम्प्रत्याय्य द्वारकामानीतः ॥ १०७ ॥

अक्रूरोऽप्युत्तममणिसमुद्भूतसुवर्णेन
भगवद्दधानपरोऽनवरतं यज्ञानियाज ॥ १०८ ॥
सवनगतौ हि क्षत्रियवैश्यों निशन्बहाहा
भवतीत्येवम्प्रकारं दीक्षाकवचं प्रविष्टं
एव तस्थी ॥ १०९ ॥ द्विषष्टिवर्षाण्येवं
तन्मणिप्रभावात्तत्रोपसर्गर्तुर्भिक्षमारिकामरणादिकं
नाभूत् ॥ ११० ॥ अथाक्रूरपक्षीयैर्भोजैश्शत्रुघ्ने
सात्वतस्य प्रपीत्रे घ्यापादिते भोजैस्सहा-
क्रूरो द्वारकामपहायापक्रान्तः ॥ १११ ॥
तदपक्रान्तिदिनादारभ्य तत्रोपसर्गदुर्भिक्षव्या-
लानावृष्टिमारिकाद्युपद्रवा बभूवुः ॥ ११२ ॥

अथ यादवबलभद्रोग्रसेनसमवेतो मन्त्र-
मन्त्रयद् भगवापुरगारिकेतनः ॥ ११३ ॥
किमिदमेकदैव प्रसुरोपत्रवागमनमेतदालोच्यता-
मित्युक्तेऽन्धकनामा यदुद्धृदः प्राह ॥ ११४ ॥
अस्याक्रूरस्य पिता श्वफल्को यत्र यत्राभूत्तत्र
तत्र दुर्भिक्षमारिकानावृष्ट्यादिकं नाभूत् ॥ ११५ ॥
काशिराजस्य विषये त्वनावृष्ट्या च श्वफल्को

क्रोधपूर्वक भगवान् वासुदेवसे कह्य— ॥ १०० ॥ 'तुमको
धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो; भाई होनेके कारण
ही मैं तुम्हें क्षमा किये देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खूसा हुआ है,
शुभ खुशीसे जा सकते हो। अब मुझे तो डरकाले, तुमसे
अथवा और सब अगे-शपथियोंसे कोई काम नहीं है।
बस, मेरे आगे इन शोभी शपथीका अब कोई प्रयोजन
नहीं।' इस प्रकार उनको वास्तको काटकर बहुत कुछ
मनानेपर भी वे वहाँ न रुके और विदेहनगरको चले
गये ॥ १०१-१०२ ॥

विदेहनगरमें पहुँचनेपर राजा जनक उन्हें अर्घ्य
देकर अपने घर ले आये और ये वहाँ रहने
लगे ॥ १०३-१०४ ॥ इधर भगवान् वासुदेव द्वारकामें
चल आये ॥ १०५ ॥ जितने दिनोंतक बलदेवजी उवा
जनकके यहाँ रहे उतने दिनोंतक धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्वोधन
उनसे गदायुद्ध सीखता रहा ॥ १०६ ॥ अनन्तर शत्रु और
उग्रसेन आदि यादवोंके, जिन्हें यह डीक मालूम था कि
'कृष्णने स्वमन्त्रकमणि नहीं ली है', विदेहनगरमें जाकर
शपथपूर्वक विश्वास दिलानेपर बलदेवजी तीन वर्ष
परचात् द्वारकामें चले आये ॥ १०७ ॥

अक्रूरजी भी भगवद्दधान-परायण रहते हुए उस
मणिरत्नसे प्राप्त सुवर्णके द्वारा निरन्तर यज्ञानुष्ठान करने
लगे ॥ १०८ ॥ यज्ञ-दीक्षित क्षत्रिय और वैश्योंके मारनेसे
ब्रह्महत्या होती है, इसलिये अक्रूरजी सदा यज्ञदीक्षरूप
कवच धारण ही किये रहते थे ॥ १०९ ॥ उस मणिके प्रभावसे
वासुदेव वर्षतक द्वारकामें रोग, दुर्भिक्ष, महामारी वा मृत्यु
आदि नहीं हुए ॥ ११० ॥ फिर अक्रूर-पक्षीय भोजयंत्रियोंद्वारा
सात्वतके प्रपीत्र सत्रुघ्नके पारे जानेपर भोजोंके साथ अक्रूर
भी द्वारकाको छोड़कर चले गये ॥ १११ ॥ उनके जाते ही,
उसी दिनसे द्वारकामें रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और
मरी आदि उपद्रव होने लगे ॥ ११२ ॥

तब गुरुध्वज भगवान् कृष्ण बलभद्र और
उग्रसेन आदि यदुर्वशियोंके साथ मिलकर सलाह करने
लगे ॥ ११३ ॥ 'इसका क्या कारण है जो एक साथ ही
इतने उपद्रवोंका आगमन हुआ, इसपर विचार करना
चाहिये।' उनके ऐसा कहनेपर अन्धक नायक एक
वृद्ध यादवने कहा— ॥ ११४ ॥ 'अक्रूरके पिता श्वफल्क
जहाँ-जहाँ रहते थे वहाँ-वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और
अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे ॥ ११५ ॥
एक बार काशिराजके देरामें अनावृष्टि हुई थी। तब

नीतः ततश्च तत्क्षणादेवो चवर्ष ॥ ११६ ॥

काशिराजपत्न्याश्च गर्भे कन्यारत्नं
पूर्वमासीत् ॥ ११७ ॥ सा च कन्या पूर्णोऽपि
प्रसूतिकाले नैव निश्चक्राम ॥ ११८ ॥ एवं च
तस्य गर्भस्य द्वादशवर्षाण्यनिष्क्रामतो
वयुः ॥ ११९ ॥ काशिराजश्च तामात्मजां
गर्भस्थामाह ॥ १२० ॥ पुत्रि कस्मान् जायसे
निष्काम्यतामास्यं ते द्रष्टुमिच्छामि एतां च मातरं
किमिति चिरं क्लेशयसीत्युक्ता गर्भस्थैश्च
ध्याजहार ॥ १२१ ॥ तात यद्येकैकां गं दिने
दिने ब्राह्मणाय प्रयच्छसि
तदाहमन्यस्त्रिभिवर्षैरस्माद्गर्भात्तावदवश्यं
निष्कामिष्यामीत्येतद्ब्रुवन्माकर्ण्य राजा दिने दिने
ब्राह्मणाय गं प्रादात् ॥ १२२ ॥ सापि तावता
कालेन जाता ॥ १२३ ॥

ततस्तस्याः पिता गान्दिनीति नाम
शकार ॥ १२४ ॥ तां च गान्दिनीं कन्यां
श्वफल्काद्योपकारिणे गृहमागतायार्घ्यभृतां
प्रादात् ॥ १२५ ॥ तस्यामघमकूरः
श्वफल्काण्णजे ॥ १२६ ॥ तस्यैवंगुण-
मिश्रुनादुत्पत्तिः ॥ १२७ ॥ तत्कथमस्मिन्न-
पक्रान्तेऽत्र दुर्भिक्षमारिकाद्युपद्रवा न
भविष्यन्ति ॥ १२८ ॥ तदयमत्रानीयतामलमति-
गुणवत्पराधान्वेषणेनेति यदुद्धृष्टस्यान्धकस्यै-
तद्ब्रुवन्माकर्ण्य केशवोप्राप्तेनवलभद्रपुरोगामैर्दुर्भिः
कृतापराधतितिक्षुभिरभयं दत्त्वा श्वफल्कपुत्रः
स्वपुर्यानीतः ॥ १२९ ॥ तत्र चागतमात्र एव तस्य
स्यमन्तकमणेः प्रभावादानुष्टिमारिकादुर्भिक्ष-
व्यालाद्युपद्रवोपशमा खभूतुः ॥ १३० ॥

कृष्णाश्चिन्तयामास ॥ १३१ ॥ स्वल्पमेतत्-
कारणं यदयं गान्दिन्यां श्वफल्केनाकूरो
जनितः ॥ १३२ ॥ सुमहांश्चायमनावृष्टिदुर्भिक्ष-
मारिकाद्युपद्रवप्रतिषेधकारी प्रभावः ॥ १३३ ॥
तन्नूनमस्य सकाशे स महामणिः स्यमन्तकाख्य-
स्तिष्ठति ॥ १३४ ॥ तस्य होर्वविधाः प्रभावाः
श्रूयन्ते ॥ १३५ ॥ अयमपि च यज्ञादनन्तर-

श्वफल्कको जहाँ ले जाते ही तत्काल सर्पा होने
लगी ॥ ११६ ॥

उस समय काशिराजकी रानीके गर्भमें एक
कन्यारत्न थी ॥ ११७ ॥ वह कन्या प्रसूतिकालके समाप्त
होनेपर भी गर्भमें बाहर न आयी ॥ ११८ ॥ इस प्रकार
उस गर्भको प्रसव हुए बिना बारह वर्ष व्यतीत हो
गये ॥ ११९ ॥ तब काशिराजने अपनी उस गर्भस्थित
पुत्रीसे कहा— ॥ १२० ॥ 'बेटी! तू उत्पन्न क्यों नहीं
होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ ॥ १२१ ॥
अपनी इस माताको तू इतने दिनोंसे क्यों कष्ट दे रही
है?' राजाके ऐसा कहनेपर उसने गर्भमें रहते हुए ही
कहा—'पिताजी! यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मणको
दान देंगे तो अगले तीन वर्ष बीतनेपर मैं अवश्य गर्भसे
बाहर आ जाऊँगी।' इस बातको सुनकर राजा प्रतिदिन
ब्राह्मणको एक गौ देने लगे ॥ १२२ ॥ तब उतने सप्त्
(तीन वर्ष) बीतनेपर वह उत्पन्न हुई ॥ १२३ ॥

पिताने उसका नाम गान्दिनी रख ॥ १२४ ॥ और
उसे अपने उपकारके श्वफल्कको घर आनेपर अर्घ्यरूपसे
दे दिया ॥ १२५ ॥ उसीसे श्वफल्कके द्वारा इन अकूरजीकी
जन्म हुआ है ॥ १२६ ॥ इनकी ऐसी गुणवान् माता-
पितासे उत्पत्ति है तो फिर उनके चले चलनेसे यहाँ दुर्भिक्ष
और महामारी आदि उपद्रव क्यों होंगे? ॥ १२७-१२८ ॥
अतः उनको यहाँ ले आना चाहिये, अति गुणवान्के
अपराधको अधिक जाँच-पड़ताल करना ठीक नहीं है।
यादववृद्ध अभक्तके ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उपसेन
और शलभद्र आदि यादव श्वफल्कपुत्र अकूरके
अपराधको घुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगरमें
ले आये ॥ १२९ ॥ उनको जहाँ आते ही स्यमन्तकमणिके
प्रभावसे अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्पभ्र
आदि सभी उपद्रव शान्त हो गये ॥ १३० ॥

तब श्रीकृष्णचन्द्रने विचार किया ॥ १३१ ॥ 'अकूरकी
जन्म गान्दिनीसे श्वफल्कके द्वारा हुआ है यह तो बहुत
सामान्य कारण है ॥ १३२ ॥ किन्तु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी
आदि उपद्रवोंको शान्त कर देनेपाशा इसका प्रभाव तो
अति महान् है ॥ १३३ ॥ अवश्य ही इसके पास वह
स्यमन्तक नायक महामणि है ॥ १३४ ॥ उसीका ऐसा प्रभाव
सुना जाता है ॥ १३५ ॥ इसे भी हम देखते हैं कि एक
पक्षके पीछे दूसरा और दूसरेके पीछे तीसरा इस प्रकार

मन्यत्कत्वन्तरं तस्थानन्तरमन्यद्यज्ञान्तरं चाजस्र-
मविच्छिन्नं यजतीति ॥ १३६ ॥ अस्पृषोपादानं
चास्यासंशयमत्रासौ मणिवरस्तिष्ठतीति
कृताध्यवसायोऽन्यत्रयोजनमुद्दिश्य सकलयाद्य-
समाजमात्मगृह एवाचीकृतम् ॥ १३७ ॥

तत्र चोपविष्टेष्वखिलेषु यदुषु पूर्वं प्रयोजन-
पुपन्यस्य पर्यवसितं च तस्मिन् प्रसंगान्तरपरिहास-
कक्षामङ्ग्रेण कृत्वा जनार्दनस्तपकूरमाह ॥ १३८ ॥
दानपते जानीम एव वयं यथा शतधन्वना
तदिदमखिलजगत्सारभूतं स्वमन्तकं रत्नं भवतः
समर्पितं तदशेषराष्ट्रोपकारकं भवत्सकार्शे
तिष्ठति तिष्ठतु सर्व एव वयं
तत्रभावफलभुजः किं त्वेष बलभद्रोऽस्मा-
नाशङ्कितवांस्तदस्मत्प्रीतये दर्शयस्वेत्यभिधाय
जोषं स्थिते भगवति वासुदेवे सरलस्सो-
ऽचिन्तयत् ॥ १३९ ॥ किमत्रानुष्ठेयमन्यथा चेद्
श्रीवीर्यहं तत्केवलाम्बरतिरोधानमन्विष्यन्तो
रत्नमेते इक्ष्यन्ति अतिविरोधो न क्षेम
इति सञ्चिन्त्य तमखिलजगत्कारणभूतं
नारायणमाह्नकूरः ॥ १४० ॥ भगवन्मर्मत-
त्स्यमन्तकरत्नं शतधनुषा समर्पितमपगते च
तस्मिन्नाश्वः परश्वो वा भगवान्
याचधिष्यतीति कृतमतिरतिकृच्छ्रेणैतावन्तं काल-
भधारवम् ॥ १४१ ॥ तस्य च धारणव्यनेशेनाह-
मशेषोपभोगेष्वसङ्गिमानसो न वेद्यि स्वसुख-
कलामपि ॥ १४२ ॥ एताधन्मात्रमप्यशेष-
राष्ट्रोपकारि धारयितुं न शक्नोति भवान्मन्यत
इत्यात्मना न चोदितवान् ॥ १४३ ॥ तदिदं
स्यमन्तकरत्नं गृह्यतामिच्छत्या यस्याभिमत्तं तस्य
समर्प्यताम् ॥ १४४ ॥

ततः स्वोदरवस्त्रनिगोपितमतिलपुकनक-
समुद्गकगतं प्रकटीकृतवान् ॥ १४५ ॥ ततश्च
निष्काम्य स्वमन्तकमणिं तस्मिन्नुकुलसमाजे
मुपोच ॥ १४६ ॥ भुक्तमात्रे च तस्मिन्नति-
कान्त्या तदखिलमास्थानमुपोतितम् ॥ १४७ ॥

निरन्तर अल्पेण यद्गनुष्ठान करता रहता है ॥ १३६ ॥
और इसके पास उसके साथ [अन आदि] भी
बहुत कम हैं; इसलिये इसमें सन्देह नहीं कि इसके
पास स्वमन्तकमणि अवश्य है।' ऐसा निश्चयकर
किंसी और प्रयोजनके उद्देश्यसे उन्होंने सम्पूर्ण यादवीको
अपने महलमें एकत्रित किया ॥ १३७ ॥

समस्त यदुर्विशिष्टोंके जहाँ आकर बैठ जानेके बाद
प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होनेपर प्रसंगान्तरसे
अकूरके साथ परिहास करते हुए भगवान् कृष्णने उनसे
कहा— ॥ १३८ ॥ "हे दानपते! जिस प्रकार शतधन्वने
तुम्हें सम्पूर्ण संसारकी शारभूत यह स्वमन्तक नामकी महामणि
सीपी थी यह हमें सब मालूम है। यह सम्पूर्ण राष्ट्रका
उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रथमफल
फल तो हम सभी भोगते हैं, किन्तु ये बलभद्रजी हमारे
ऊपर सन्देह करते थे, इसलिये हमारी प्रसन्नताके लिये
आप एक बार उसे दिखला दीजिये।" भगवान् वासुदेवके
ऐसा कहकर चुप हो जानेपर रत्न साथ ही लिये रहनेके
कारण अकूरजी सोचने लगे— ॥ १३९ ॥ "अब मुझे क्या
करना चाहिये, यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल
वस्त्रोंके औटमें टटोलनेपर ये उसे देख ही लेंगे और
इन्से अत्यन्त क्रोध करनेमें हमारा कुशल नहीं है।"
ऐसा सोचकर निखिल संसारके कारणस्वरूप श्रीनारायणसे
अकूरजी बोले— ॥ १४० ॥ "भगवन्! शतधन्वने मुझे यह
मणि सीप दी थी। उसके पर जानेपर मैंने यह सोचते हुए
बड़ी ही कठिनतासे इसे इतने दिन अपने पास रखा है कि
भगवान् आज, कल या परसों इसे माँगेंगे ॥ १४१ ॥ इसकी
चौकसोंके क्लेशसे सम्पूर्ण धीर्गमोंमें अनासक्तचित्त होनेके
परम्य मुझे सुखका लेशमात्र भी नहीं मिला ॥ १४२ ॥ भगवान्
ये विचार करते कि, यह सम्पूर्ण राष्ट्रके उपकारक इतने-
से भारकी भी नहीं उठा सकता, इसलिये स्वयं मैंने
आपसे कहा नहीं ॥ १४३ ॥ अब, तीजिये आपकी
यह स्वमन्तकमणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो
उसी ही धूसे दे दीजिये।" ॥ १४४ ॥

तब अकूरजीने अपने कटि-वस्त्रमें छिपायी हुई
एक छेटी-सी सोनेकी फिट्टीमें स्थित यह स्वमन्तकमणि
प्रकट की और उस फिट्टीसे निकालकर यादवसमाजमें
रख दी ॥ १४५-१४६ ॥ उसके रखते ही यह सम्पूर्ण
स्थान उसकी तीव्र कान्तिसे देदीप्यमान होने लगा ॥ १४७ ॥

अथाहाकूरः स एष मणिः शतधन्वनास्माकं
समर्पितः यस्वायं स एनं गृह्णतु इति ॥ १४८ ॥

तमालोक्य सर्वयादवानां सायुसाधिवति
द्विसिमतमनसां वाचोऽश्रूयन्त ॥ १४९ ॥

तमालोक्यातीव बलभद्रो ममायमष्ट्युतेनैव
सामान्यस्समन्वीक्षित इति कृतस्पृहोऽ-

भूत् ॥ १५० ॥ ममैवायं पितृधनमित्यतीव च
सत्यभामापि स्पृहयाञ्चकार ॥ १५१ ॥ बल-

सत्यावलोकनात्कृष्णोऽप्यात्मानं गोचकान्तराव-

स्थितमिव मेने ॥ १५२ ॥ सकलयादवसमक्षं
चाकूरमाह ॥ १५३ ॥ एतद्धि मणिरत्नमात्म-

संशोधनाय एतेषां यदूनां मया दर्शितम् एतच्च मम
बलभद्रस्य च सामान्यं पितृधनं सैतत्सत्यभामाया

नान्यस्यैतत् ॥ १५४ ॥ एतच्च सर्वकालं शुचिना
ब्रह्मचर्यादिगुणवता धियमाणमशेषराष्ट्र-

स्योपकारकमशुचिना धियमाणमाधारमेव
हन्ति ॥ १५५ ॥ अतोऽहमस्य षोडशस्वीसहस्र-

परिग्रहादसमर्थो धारणे कथमेतत्सत्यभामा
स्वीकरोति ॥ १५६ ॥ आर्यबलभद्रेणापि

पदिसापानाद्देशोपभोगपरित्यागः कार्यः ॥ १५७ ॥
तदलं यदुलोकोऽयं बलभद्रः अहं च

सत्या च त्वां दानपते प्रार्थयामः ॥ १५८ ॥
तद्भवानेव धारयितुं समर्थः ॥ १५९ ॥ त्वद्भूतं

चास्य राष्ट्रस्योपकारकं तद्भवानशेषराष्ट्रनिमित्त-

मेतत्पूर्ववद्धारयत्सन्धनं चक्रव्यमित्युक्तो
दानवतिस्त्वेषाह जग्राह च तन्माहुरत्नम् ॥ १६० ॥

ततः प्रभृत्यकूरः प्रकटेनैव
तेपातिजाप्वल्यमानेनात्मकपडावसक्तेपादित्य

इवांशुमाली चक्षार ॥ १६१ ॥
इत्येतद्भगवतो मिथ्याभिश्शक्तिक्षालनं यः

स्मरति न तस्य कदापिदल्पापि मिथ्याभिश्शक्ति-
र्भवति अव्याह्वारिखलेन्द्रियश्चाखिलपापमोक्ष-

मवानोति ॥ १६२ ॥

तत्र अकूरजीने कहा—'मुझे यह मणि शतधन्वने दी
थी, यह जिसको हो वह ले ले ॥ १४८ ॥

उसको देखनेपर सागे यादलोंका विश्वयपूर्वक 'साधु,
साधु' यह वचन सुना गया ॥ १४९ ॥ उसे देखकर बलभद्रजीने

'अच्युतके ही समाग इसपर मेरा भी अधिकार है' इस प्रश्नपर
अपनी अधिक स्पृहा दिखलायी ॥ १५० ॥ तथा 'यह मेरी

ही पैतृक सम्पत्ति है' इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिये
अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की ॥ १५१ ॥ बलभद्र और

सत्यभामाको देखकर कृष्णचन्द्रने अपनेको बल और पहिचके
बोचमें पड़े हुए जीवके समान दोनों ओरसे संकटग्रस्त

देखा ॥ १५२ ॥ और समस्त यादवोंके सामने वे अकूरजीसे
बोले— ॥ १५३ ॥ 'इस मणिरत्नको मैंने अपनी सफ़ई देनेके

लिये ही इन यादवोंको दिखाया था ॥ इस मणिपर मेरा और
बलभद्रजीका तो समान अधिकार है और सत्यभामाको

यह पैतृक सम्पत्ति है; और किसीका हस्तर कोई अधिकार
नहीं है ॥ १५४ ॥ यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि

गुणयुक्त रहकर धारण करनेसे सम्पूर्ण राष्ट्रका हित करती
है और अशुद्धावस्थामें धारण करनेसे अपने अशुभपदाओंको

भी मार डालती है ॥ १५५ ॥ मेरे सोलह हजार स्त्रियाँ हैं,
इसलिये मैं इसके धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ, इसीलिये

सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है ? ॥ १५६ ॥
आर्य बलभद्रको भी इसके कारणसे भदिसापान आदि सम्पूर्ण

भोगोंको त्यागना पड़ेगा ॥ १५७ ॥ इसलिये हे दानपते! वे
यादवाण, बलभद्रजी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे

प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करनेमें आप ही समर्थ हैं ॥ १५८-
१५९ ॥ आपके धारण करनेसे यह सम्पूर्ण राष्ट्रका हित करेगी,

इसलिये सम्पूर्ण राष्ट्रके मंगलके लिये आप ही इसे पूर्ववत्
धारण कीजिये; इस विषयमें आप और कुछ भी न कहें ॥

भगवान्के ऐसा कहनेपर दानवति अकूरने 'जो आज्ञा' कह
वह मक्षरम ले लिया ॥ तबसे अकूरजी सबके सामने उस अवि-

द्वैदीप्यमान मणिको अपने गलेमें धारणकर सूर्यके समान
किरण-जालसे युक्त होकर विश्वने लगे ॥ १६०-१६१ ॥

भगवान्के मिथ्या-कलंक-शोधनरूप इस प्रसंगका
जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा-सा भी मिथ्या कलंक न लगेगा, उसकी समस्त इन्द्रियाँ सफ़ई
रहेंगी तथा वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ १६२ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे दतुर्थेऽंशे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चौदहवाँ अध्याय

अनमित्र और अन्धकके वंशका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

अनमित्रस्य पुत्रः शिनिर्नामाभवत् ॥ १ ॥
तस्यापि सत्यकः सत्वकात्सात्यकिर्युयुधानापर-
नामा ॥ २ ॥ तस्मादपि सञ्जयः तत्पुत्रश्च
कुणिः कुपोर्युगन्धरः ॥ ३ ॥ इत्येते शीनेयाः ॥ ४ ॥

अनमित्रस्यान्वये पृश्निस्तस्मात् श्वफल्कः
तत्रभावः कश्चित एव ॥ ५ ॥ श्वफल्कस्यान्वः
कनीयांश्चित्रको नाम भ्राता ॥ ६ ॥ श्वफल्का-
दकूरो गान्दिन्यामभवत् ॥ ७ ॥ तथोपमदगु-
मृतामृद्विश्वारिमेजयगिरिक्षत्रोपक्षत्रशतघारिर्मर्दन-
धर्मदृग्दृष्टधर्मगन्धमोजवाहप्रतिवाहाख्याः
पुत्राः ॥ ८ ॥ सुताराख्या कन्या च ॥ ९ ॥
देववानुपदेवश्चाकूरपुत्री ॥ १० ॥ पृथुषिपृथु-
प्रमुखाश्चित्रकस्य पुत्रा बहवो बभूवुः ॥ ११ ॥

कुकुरभजमानशुचिकम्बलबर्हिवाख्या-
स्तथान्धकस्य चत्वारः पुत्राः ॥ १२ ॥
कुकुरादृष्टः तस्माच्च कपोतरोमा ततश्च विलोमा
तस्मादपि तुम्बुरुसखोऽभवदनुसंज्ञश्च ॥ १३ ॥
अनोरानकदुन्दुभिः, ततश्चाभिजित् अभिजितः
पुनर्वसुः ॥ १४ ॥ तस्याप्याहुक आहुकी च
कन्या ॥ १५ ॥ आहुकस्य देवकोग्रसेनी द्वौ
पुत्री ॥ १६ ॥ देववानुपदेवः सहदेवो देवरक्षितश्च
देवकस्य चत्वारः पुत्राः ॥ १७ ॥ तेषां वृकदेवोपदेवो
देवरक्षिता श्रीदेवा शान्तिदेवा सहदेवा देवकी च
सप्त भगिन्यः ॥ १८ ॥ ताश्च सर्वा वसुदेव
उपयेमे ॥ १९ ॥ उग्रसेनस्यापि कंस-
न्यग्रोधसुनामानकाह्मशाङ्कुसुभूमिराष्टपालपुद्-
तुष्टिसुतुष्टिमत्संज्ञाः पुत्रा बभूवुः ॥ २० ॥
कंसाकंसवतीसुतनुराष्टपालिकाह्मश्चोग्रसेनस्य
तनूजाः कन्याः ॥ २१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—अनमित्रके शिनि नामक
पुत्र हुआ; शिनिके सत्यक और सत्यकसे सात्यकिका
जन्म हुआ जिसका दूसरा नाम युयुधान था ॥ १-२ ॥
तदनन्तर सात्यकिके संजय, संजयके कुणि और कुणिसे
सुगन्धरका जन्म हुआ। ये सब शीनेय नामसे विख्यात
हुए ॥ ३-४ ॥

अनमित्रके वंशमें ही पृश्निका जन्म हुआ और
पृश्निसे श्वफल्ककी उत्पत्ति हुई जिसका प्रभाव पहले
वर्णन कर चुके हैं। श्वफल्कका मित्रक नामक
एक छोटा भाई और था ॥ ५-६ ॥ श्वफल्कके गान्दिनीसे
अकूरका जन्म हुआ ॥ ७ ॥ तथा [एक दूसरी स्त्रीसे]
उपमदा, मृतामृद, विश्वारि, मेजय, गिरिक्षत्र, उपक्षत्र,
शतघ्न, अरिर्मर्दन, धर्मदृक्, दृष्टधर्म, गन्धमोज,
वाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतारानाम्नी कन्याका
जन्म हुआ ॥ ८-९ ॥ देववान् और उपदेव ये दो अकूरके
पुत्र थे ॥ १० ॥ पृथु मित्रकके पृथु, विपु आदि अनेक
पुत्र थे ॥ ११ ॥

कुकुर, भजमान, शुचिकम्बल और बर्हि-ये चार
अन्धकके पुत्र हुए ॥ १२ ॥ इनमेंसे कुकुरसे दृष्ट,
दृष्टसे कपोतरोमा, कपोतरोमासे विलोमा तथा विलोमासे
तुम्बुरुके मित्र अनुक जन्म हुआ ॥ १३ ॥ अनुसे
आनकदुन्दुभि, उससे अभिजित्, अभिजित्से पुनर्वसु
और पुनर्वसुसे आहुक नामक पुत्र और आहुकीनाम्नी
कन्याका जन्म हुआ ॥ १४-१५ ॥ आहुकके देवक और
उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए ॥ १६ ॥ उनमेंसे देवकके
देववान् उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक चार
पुत्र हुए ॥ १७ ॥ इन चारोंकी वृकदेवा, उपदेवा,
देवरक्षिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, सहदेवा और देवकी-ये
सात भगिनियाँ थीं ॥ १८ ॥ ये सब वसुदेवजीको
विवाही गयी थीं ॥ १९ ॥ उग्रसेनके भी कंस, न्यग्रोध,
सुनाम, आनकाङ्क, शंकु, सुभूमि, राष्टपाल, पुद्गुष्टि
और सुतुष्टिमान् नामक पुत्र तथा कंस, कंसवती, सुतनु
और राष्टपालिका नामकी कन्याएँ हुईं ॥ २०-२१ ॥

भजमानाञ्च विदूरथः पुत्रोऽभवत् ॥ २२ ॥
 विदूरथाच्छूः शूराक्षमी शमिनः प्रतिभ्रजः
 तस्मात्स्वयंभोजस्ततश्च हृदिकः ॥ २३ ॥ तस्यापि
 कृतवर्मशतधनुर्देवाहृदेवगर्भाद्याः पुत्रा
 बभूवुः ॥ २४ ॥ देवगर्भस्यापि शूरः ॥ २५ ॥
 शूरस्यापि मारिषा नाम पत्न्यभवत् ॥ २६ ॥ तस्यां
 चासी दशपुत्रानजनवद्वसुदेवपूरुजान् ॥ २७ ॥
 वसुदेवस्य जातमात्रस्यैव तद्गृहे
 भगवदंशाकतारमव्याहतदृष्ट्या पश्यन्निर्देवैर्दिव्या-
 नकदन्दुभयो वादिताः ॥ २८ ॥
 ततश्चासावानकदन्दुभिसंज्ञामवाप ॥ २९ ॥ तस्य
 च देवभागदेवश्रवोऽष्टकककुक्कुक्क वत्सधा-
 रकसृञ्जयश्यामशमिकगण्डूयसंज्ञा नव
 भ्रातरोऽभवन् ॥ ३० ॥ पृथा श्रुतदेवा श्रुतकीर्तिः
 श्रुतश्रवा राजाधिदेवी च वसुदेवादीनां पञ्च
 भगिन्योऽभवन् ॥ ३१ ॥

शूरस्य कुन्तिनाम सखाभवत् ॥ ३२ ॥
 तस्मै आपुत्राय पृथामात्मजां विधिना शूरो
 दत्तवान् ॥ ३३ ॥ तां च पाण्डुकथाह ॥ ३४ ॥
 तस्यां च धर्मानिलेन्द्रैर्युधिष्ठिरभीमसेनार्जुना-
 ख्यास्त्रयः पुत्रास्समुत्पादिताः ॥ ३५ ॥
 पूर्वमेवानूहाय्याञ्च भगवता भारस्वता कानानः
 कर्णो नाम पुत्रोऽजन्यत ॥ ३६ ॥ तस्याश्च सपत्नी
 माश्री नामाभूत् ॥ ३७ ॥ तस्यां च नासत्वदस्त्राभ्यां
 नकुलसहदेवी पाण्डोः पुत्रौ जनिता ॥ ३८ ॥
 श्रुतदेवा तु वृद्धधर्मा नाम कारुश
 उपयेमे ॥ ३९ ॥ तस्यां च दन्तवक्रो नाम महासुरो
 जज्ञे ॥ ४० ॥ श्रुतकीर्तिमपि केकयराज
 उपयेमे ॥ ४१ ॥ तस्यां च सन्तर्दनादयः कैकेयाः
 पञ्च पुत्रा बभूवुः ॥ ४२ ॥ राजाधिदेव्यामाघन्त्यी
 विन्दानुविन्दी अज्ञाते ॥ ४३ ॥ श्रुतश्रवसमपि
 चेदिराजो दमधोषनापोपयेमे ॥ ४४ ॥ तस्यां
 च शिशुपालमुत्पादयामास ॥ ४५ ॥ स
 वा पूर्वमप्युदारविक्रमो दैत्यानामादि-
 पुरुषो हिरण्यकशिपुर्भवत् ॥ ४६ ॥

भजमानका पुत्र विदूरथ हुआ: विदूरथके शूर,
 शूरके शमी, शमीके प्रतिभ्रज, प्रतिभ्रजके स्वयंभोज,
 स्वयंभोजके हृदिक तथा हृदिकके कृतवर्मा, शतधनु,
 देवाह और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भके पुत्र
 शूरसेन थे ॥ २२—२५ ॥ शूरसेनकी पारिषा नामकी
 पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि दस पुत्र
 उत्पन्न किये ॥ २६—२७ ॥ वसुदेवके जन्म लेते ही
 देवताओंने अपना अख्यात दृष्टिसे यह देखकर कि
 इनके घरमें भवान् अंशावतार लेंगे, आनक और
 दन्दुभि आदि जाने वजाये थे ॥ २८ ॥ इसीलिये इनकी
 नाम आनकदन्दुभि भी हुआ ॥ २९ ॥ इनके देवभाग,
 देवश्रवा, अष्टक, ककुक्कुक्क, वात्सधारक, सृजय, श्याम,
 शमिक और गण्डूय नामक नौ भाई थे ॥ ३० ॥ तथा
 इन वसुदेव आदि दस भाइयोंकी पृथा, श्रुतदेवा,
 श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी—ये पाँच बहनें
 थीं ॥ ३१ ॥

शूरसेनके कुन्ति नामक एक मित्र थे ॥ ३२ ॥
 वे विःसन्तान थे, अतः शूरसेनने दत्तक-विधिसे
 उन्हें अपनी पृथा नामकी कन्या दे दी थी ॥ ३३ ॥
 उसका राजा पाण्डुके साथ विवाह हुआ ॥ ३४ ॥
 उसके धर्म, वायु और इन्द्रके द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर,
 भीमसेन और अर्जुन नामक तीन पुत्र हुए ॥ ३५ ॥
 इनके पहले इसके अविनाशितावस्थाने ही भगवान्
 सूर्यके द्वारा कर्ण नामक एक कानान पुत्र और हुआ
 था ॥ ३६ ॥ इसकी माद्री नामकी एक सपत्नी थी ॥ ३७ ॥
 उसके अश्विनोकुमारोंद्वारा नकुल और सहदेव नामक
 पाण्डुके दो पुत्र हुए ॥ ३८ ॥

शूरसेनकी दूसरी कन्या श्रुतदेवाका कारुश-
 नेत्र वृद्धधर्मसे विवाह हुआ था ॥ ३९ ॥ उससे दन्तवक्र
 नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ ॥ ४० ॥ श्रुतकीर्तिके
 केकयराजने विवाहा था ॥ ४१ ॥ उससे केकय-नेत्रके
 सन्तर्दन आदि पाँच पुत्र हुए ॥ ४२ ॥ राजाधिदेवीसे
 अविन्देशीय विन्द और अनुविन्दका जन्म हुआ ॥ ४३ ॥
 श्रुतश्रवाका भी चेदिराज दमधोषने पाणिग्रहण
 किया ॥ ४४ ॥ उससे शिशुपालका जन्म हुआ ॥ ४५ ॥
 पूर्वजन्ममें यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक
 दैत्याका मूल पुरुष हुआ था जिसे सकल लौकिक

* अविनाशिता कन्याके गर्भसे हुए पुत्रको 'फनान्त' कहते हैं।

यश्च भगवता सकललोकगुरुणा नरसिंहेन
घातितः ॥ ४७ ॥ पुनरपि अक्षयवीर्यशौर्धसम्प-
त्पराक्रमगुणस्समाक्रान्तसकलत्रैलोक्येश्वरप्रभावो
दशाननो नामाभूत् ॥ ४८ ॥ बहुकालोपभुक्त-
भगवत्सकाशावाप्तशरीरपातोद्भवपुण्यफलो
भगवता राघवरूपिणा सोऽपि निधनमुप-
पादितः ॥ ४९ ॥ पुनश्चेदिराजस्य दमघोषस्यात्मज-
शिशुपालनामाभूत् ॥ ५० ॥ शिशुपाल-
त्वेऽपि भगवतो भूभारावतारणावावतीर्णाशस्य
पुण्डरीकनयनाख्यस्योपरि द्वेषानुबन्धमतितरा-
ज्यकार ॥ ५१ ॥ भगवता च स निधनमुपनीत-
स्तत्रैव परमात्मभूते मनस एकाग्रतया सायुज्य-
मवाप ॥ ५२ ॥ भगवान् यदि प्रसन्नो
यथाभिलाषितं ददाति तथा अप्रसन्नोऽपि निघ्नन्
दिव्यमनुपमं स्थानं प्रयच्छति ॥ ५३ ॥

भगवान् नृसिंहेने मार्य था ॥ ४७-४७ ॥ तदनन्तर
यह अक्षय, वीर्य, शौर्य, सम्पत्ति और पराक्रम
आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा समस्त त्रिभुवनके
स्वामी इन्द्रके भी प्रभावको दबानेवाला दशानन
हुआ ॥ ४८ ॥ स्वयं भगवान्के हाथसे ही मारे
जानेके पुण्यसे प्राप्त हुए नाना भोगोंको वह
बहुत समयतक भांगते हुए अन्तमें राघवरूपधारी
भगवान्के ही द्वारा मारा गया ॥ ४९ ॥ उसके पीछे
यह चेदिराज दमघोषको पुत्र शिशुपाल हुआ ॥ ५० ॥
शिशुपाल होनेपर भी यह भू-भार-हरणके लिये
अवतीर्ण हुए मगधदेशस्वरूप भगवान् पुण्डरीकाक्षमें
अत्यन्त द्वेषबुद्धि करने लगा ॥ ५१ ॥ अन्तमें भगवान्के
हाथसे ही मारे जानेपर उस परमात्मामें ही मन
लगने रहनेके कारण सायुज्य-मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५२ ॥
भगवान् यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच्छ
फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारनेपर भी
वे अनुपम दिव्यलोककी शक्ति कराते हैं ॥ ५३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थोऽंशे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पन्द्रहवाँ अध्याय

शिशुपालके पूर्व-जन्मान्तर्गता तथा वसुदेवजीकी सन्ततिका वर्णन

श्रीमंत्रेण उवाच

हिरण्यकशिपुत्वे च रावणत्वे च विष्णुना ।
अवाप निहतो भोगानप्राप्यानपरैरपि ॥ १ ॥
न लयं तत्र तेनैव निहतः स कथं पुनः ।
सम्प्राप्तः शिशुपालत्वे सायुज्यं शश्वते हरी ॥ २ ॥
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वथर्मभृतां वर ।
कौतूहलपरेणैतत्पृष्टो मे वक्तुमर्हसि ॥ ३ ॥

श्रीपराशर उवाच

दैत्येश्वरस्य संधायारिखललोकोत्पत्ति-
स्थितिनिनाशकारिणा पूर्व तनुग्रहणं कुर्वता
नृसिंहरूपमाविष्कृतम् ॥ ४ ॥ तत्र च हिरण्य-
कशिपोर्विष्णुरयमित्येतन्न मनस्यभूत् ॥ ५ ॥
निरतिशयपुण्यसमुद्भूतमेतत्सत्त्वजातमिति ॥ ६ ॥

श्रीमंत्रेणयजी बोले—भगवन्! पूर्वजन्मोंमें
हिरण्यकशिपु और रावण होनेपर इस शिशुपालने
भगवान् विष्णुके द्वारा मारे जानेसे देव-दुर्लभ भोगोंकी
तो प्राप्त किया, किन्तु यह उनमें लीन नहीं हुआ;
फिर इस जन्ममें ही उनके द्वारा मारे जानेपर इसने
सन्तान पुरुष श्रीहरिमें सायुज्य-मोक्ष कैसे प्राप्त
किया? ॥ १-२ ॥ हे समस्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मुनिवर!
यह बात सुननेकी मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने
अत्यन्त कुतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है,
कृपया इसका निरूपण कीजिये ॥ ३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—प्रथम जन्ममें दैत्यराज
हिरण्यकशिपुका वध करनेके लिये सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्ति,
स्थिति और नाश करनेवाले भगवान्ने शरीर ग्रहण करते
समय नृसिंहरूप प्रकट किया था ॥ ४ ॥ उस समय
हिरण्यकशिपुके चित्तमें यह भाव नहीं हुआ था कि ये
विष्णुभगवान् हैं ॥ ५ ॥ केवल इतना ही विचार हुआ कि
यह कोई निरतिशय पुण्य-समुद्भूत उद्वेग प्राणी है ॥ ६ ॥

रज अस्केप्रेरितैकाग्रमतिस्तद्भावनयोगासतोऽवाप्त-
वधहेतुकीं निरतिशयामेवाखिलश्रेयोख्याधिक्य-
धारिणीं दशाननत्वे भोगसम्पदमवाप ॥ ७ ॥ न तु
स तस्मिन्ननादिनिधने परब्रह्मभूते भगवत्यनालम्बिनि
कृते मगसस्तत्सत्यमवाप ॥ ८ ॥

एवं दशाननत्वेऽप्यनङ्गपराधीनतया जानकी-
समासक्तचेतसा भगवता दाशरथिरूपधारिणा
हतस्य तद्रूपदर्शनमेवासीत्, नायमच्युत इत्यासक्तिं-
र्विपद्यतोऽन्तःकरणे मानुषबुद्धिरेव केवल-
पस्याभूत् ॥ ९ ॥

पुनराच्युतविनिपातमात्रफलमखिलभूमिपञ्च-
श्लाघ्यचेदिराजकुले जन्म अव्याहृतैश्वर्यं
शिशुपालत्वेऽप्यवाप ॥ १० ॥ तत्र त्वखिलाना-
मेव स भगवन्नाम्नां त्वङ्गारकारणमभवत् ॥ ११ ॥
ततश्च तत्कालकृतानां तेषामशेषाणा-
मेवाच्युतनाम्नामनवरत्नमेकजन्मसु वर्द्धित-
विद्वेषनुबन्धिषितो विनिन्दनसन्तर्जनादिषुच्चारण-
मकरोत् ॥ १२ ॥ तच्च रूपमुत्फुल्लपद्यदलाम-
लाक्ष्मत्युज्वलपीतवस्त्रधार्यमलकिरीटकेयूरहस्त-
कटकदिशोभितमुदारचतुर्बाहुशङ्खचक्रगदाधर-
मतिप्रकृष्टवैरानुभावादटनभोजनस्नानासन-
शयनादिष्वशेषावस्थान्तेषु नान्यत्रोपययावस्य
चेतसः ॥ १३ ॥ ततस्तमेवाक्रोशेषुच्चारधंस्तमेव
हृदयेन धारयन्तामवधाय यावद्भगवद्भक्तचक्रांशु-
मालोज्ज्वलमक्षयतेजस्वरूपं ब्रह्मभूतमपगत-
द्वेषादिदोषं भगवन्तमद्रक्षीत् ॥ १४ ॥ तत्र च
भगवच्चक्रेणामुव्यापदितस्तत्स्मरणद्वधाखिलाव-
सञ्जयो भगवतात्ममुपनीतस्तस्मिन्नेव
लयमुपययी ॥ १५ ॥ एतत्तवाखिलं मयाभि-
हितम् ॥ १६ ॥ अयं हि भगवान् कीर्तितश्च संस्मृतश्च
द्वेषानुबन्धेनापि अखिलसुरासुरादिदुर्लभं फलं
प्रयच्छति किमुत सम्यग्भक्तिमतामिति ॥ १७ ॥

रजोगुणके उत्कर्षसे प्रेरित हो उसकी मति [उस विपद्येत
भायनाके अनुसार] दृढ़ हो गयी । अतः उसके पीछे
ईश्वरीय भावनाका योग न होनेसे भगवान् के द्वारा मारे
जानेके कारण ही रावणका जन्म लेनेपर उसने सम्पूर्ण
त्रिलोकमें सर्वाधिक भोग-सम्पत्ति प्राप्त की ॥ ७ ॥ उन
अनादि-निधन, परब्रह्मस्वरूप, निराधार भगवान् में चित्त
न लगानेके कारण वह उन्हींमें लीन नहीं हुआ ॥ ८ ॥

इसी प्रकार रावण होनेपर भी कामवश जानकीगोमें
चित्त रम जानेसे भगवान् दशरथनन्दन रामके द्वारा मारे
जानेपर केवल उनके रूपका ही दर्शन हुआ था; 'ये अच्युत
हैं' ऐसे आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके
अन्तःकरणमें केवल मनुष्यबुद्धि ही रही ॥ ९ ॥

फिर श्रीअच्युतके द्वारा मारे जानेके फलरथरूप उसने
सम्पूर्ण भूमिज्जलमें प्रशंसित चेदिराजके कुलमें शिशुपालरूपसे
जन्म लेकर भी अश्वय ऐश्वर्य प्राप्त किया ॥ १० ॥ उस
जन्ममें यह भगवान् के प्रत्येक नामोंमें तुच्छताकी भावना
करते लगा ॥ ११ ॥ उसका हृदय अनेक जन्मके द्वेषानुबन्धसे
सुक्त था, अतः वह उनकी निन्दा और निरस्कार आदि
करते हुए भगवान् के सम्पूर्ण समथानुसार लीलाकृत नामोंका
निरन्तर उच्चारण करता था ॥ १२ ॥ खिले हुए कमलदलके
समान जिसकी निर्मल आँखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर उधा
निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटकदि धारण किये हुए
हैं तथा जिसकी लम्बी-लम्बी चार भुजाएँ हैं और जो शंख,
चक्र, गदा और मया धारण किये हुए हैं, भगवान् का वह
दिव्य रूप अत्यन्त वैरानुबन्धके कारण श्रयण, भोजन,
स्नान, आसन और शयन आदि सम्पूर्ण अवस्थाओंमें कभी
उसके चित्तसे दूर न होता था ॥ १३ ॥ फिर गाली देते समय
उन्हींका नामोच्चारण करते हुए और हृदयमें भी उन्हींका
छान धरते हुए जिस समय वह अपने वरके लिये हाथमें
धारण किये चक्रके उज्ज्वल किरणजालसे सुशोभित, अक्षय
तेजस्वरूप द्वेषादि सम्पूर्ण दोषोंसे रहित ब्रह्मभूत भगवान् को
देख रहा था ॥ १४ ॥ उसी समय तुरन्त भगवच्चक्रसे माया
गया; भगवत्स्मरणके कारण सम्पूर्ण पापराशिके दास हो
जानेसे भगवान् के द्वारा उसका अन्त हुआ और वह उन्हींमें
लीन हो गया ॥ १५ ॥ इस प्रकार इस सम्पूर्ण रहस्यका रत्न
तुमसे वर्णन किया ॥ १६ ॥ अहो ! ये भगवान् तो द्वेषानुबन्धके
कारण भी कीर्तन और स्मरण करनेसे सम्पूर्ण देवता और
असुरोंको दुर्लभ परमफल देते हैं, फिर सम्यक् भक्तिसम्पन्न
पुरुषोंकी तो बात ही क्या है ? ॥ १७ ॥

वसुदेवस्य त्वानकदुन्दुभेः पौरुषीरोहिणी-
मदिराभद्रादेवकीप्रमुखा ब्रह्म्यः पत्न्यो-
ऽभवन् ॥ १८ ॥ बलभद्रशतसारणदुर्मदादीन्मुखा-
रोहिण्यामानकदुन्दुभिरुत्पादयामास ॥ १९ ॥
बलदेवोऽपि रैवत्यां विशाखेल्युक्तौ पुत्राव-
जनयत् ॥ २० ॥ सार्ष्टिमाष्टिशिशुसत्यधृतिप्रमुखाः
सारणात्मजाः ॥ २१ ॥ भद्राश्वभद्रबाहुदुर्मभूताद्या
रोहिण्याः कुलजाः ॥ २२ ॥ नन्दोपनन्द-
कृतकाद्या मदिरायास्तनवाः ॥ २३ ॥
भद्रायाश्चोपनिधिगदाद्याः ॥ २४ ॥ वैशाल्यां च
कौशिकमेकमेवाजनयत् ॥ २५ ॥

आनकदुन्दुभेर्देवक्यापि कीर्तिपत्सुषेणो-
दायुभद्रसेनब्रजुदासभद्रदेवाख्याः षट् पुत्रा
जज्ञिरे ॥ २६ ॥ तांश्च सर्वानेव कंसो
घातितवान् ॥ २७ ॥ अनन्तरं च सप्तमं गर्भमर्द्धरात्रे
भगवत्प्रहिता योगनिद्रा रोहिण्या जटरमाकृष्य
नीतवती ॥ २८ ॥ कर्षणाच्चसाक्षिपि संकर्षणाख्या-
मगमत् ॥ २९ ॥ ततश्च सकलजगन्मह-
तरुमूलभूतो भूतभविष्यदादिसकलसुरासुरमुनि-
जनमनसामप्यगोचरोऽब्जभवप्रमुखैरनलमुखैः
प्रणप्यावनिभारहरणाय प्रसादितो भगवाननादि-
मध्यनिधनो देवकीगर्भमवततार वासुदेवः ॥ ३० ॥
तत्प्रसादविबुद्धमानोरुमहिमा च योगनिद्रा
नन्दगोपपत्न्या यशोदाया गर्भ-
मधिष्ठितवती ॥ ३१ ॥ सुप्रसन्नादित्वचन्द्रादिग्रह-
मप्यालादिभयं स्वस्थमानसमखिलमे-
वैतज्जगत्पास्ताधर्ममभवत्तस्मिंश्च पुण्डरी-
कनयने जायमाने ॥ ३२ ॥ जातेन च तेनाखिल-
मेवैतस्सन्मार्गवर्षि जगदक्रियत् ॥ ३३ ॥

भगवतोऽप्यत्र मर्त्यलोकेऽवतीर्णस्य
षोडशसहस्राण्येकोत्तरशताधिकानि भार्याणाम-
भवन् ॥ ३४ ॥ तासां च रुक्मिणीसत्यभामाजाम्ब-
वतीचारुहासिनीप्रमुखा ह्याष्टी पत्न्यः प्रधाना
वभूवुः ॥ ३५ ॥ तासु चाष्टावयुतानि लक्षं च पुत्राणां

आनकदुन्दुभि वसुदेवजीके पौरवी, रोहिणी, मदिरा,
भद्रा और देवकी आदि बहुत-सी स्त्रियाँ थीं ॥ १८ ॥
उनमें रोहिणीसे वसुदेवजीने बलभद्र, शत, सारण
और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किये ॥ १९ ॥ तथा
बलभद्रजीके रैवतीसे विशाख और उष्णुक नामक दो
पुत्र हुए ॥ २० ॥ सार्ष्टि, माष्टि, सत्य और धृति आदि
सारणके पुत्र थे ॥ २१ ॥ इनके अतिरिक्त भद्राश्व,
भद्रबाहु, दुर्मद और भूत आदि भी रोहिणीजीकी
सन्तानमें थे ॥ २२ ॥ नन्द, उपनन्द और कृतक आदि
मदिराके तथा उपनिधि और गद आदि भद्राके पुत्र
थे ॥ २३-२४ ॥ वैशालीके गर्भसे कौशिक नामक केवल
एक ही पुत्र हुआ ॥ २५ ॥

आनकदुन्दुभिके देवकीसे कीर्तिमान्, सुषेण,
वदायु, भद्रसेन, ब्रजुदास तथा भद्रदेव नामक छः
पुत्र हुए ॥ २६ ॥ इन सबको कंसने मार डाल्य
था ॥ २७ ॥ पीछे भगवान्की प्रेरणासे योगप्रायाने
देवकीके सातवें गर्भको आधो रातके समय खींचकर
रोहिणीकी कुक्षिमें स्थापित कर दिया ॥ २८ ॥ आकर्षण
करनेसे इस गर्भका नाम संकर्षण हुआ ॥ २९ ॥
तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप महत्बुद्धके मूलस्वरूप
भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालीन सम्पूर्ण देव,
असुर और मुनिजन्की बुद्धिके अगम्य तथा ब्रह्म
और अग्नि आदि देवताओंद्वारा प्रणाम करके
पूजारहरणके लिये प्रसन्न किये गये आदि, मध्य
और अन्तहीन भगवान् वासुदेवने देवकीके गर्भसे
अवतार लिया तथा उन्हींकी कृपासे षष्ठी हुई
महिमावाली योगनिद्रा भी नन्दगोपकी पत्नी यशोदाके
गर्भमें स्थित हुई ॥ ३०-३१ ॥ उन कमलनयन
भगवान्के प्रकट होनेपर यह सम्पूर्ण जगत् प्रसन्न
हुए सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहोंसे सम्मन्न सर्पादिके भयसे
शून्य, अधर्मादिसे रहित तथा स्वस्थस्थित हो गया ॥ ३२ ॥
उन्हींने प्रकट होकर इस सम्पूर्ण संसारको सन्मार्गालम्बी
कर दिया ॥ ३३ ॥

इस मर्त्यलोकमें अवतीर्ण हुए भगवान्की सोलह
हजार एक सौ एक रानियाँ थीं ॥ ३४ ॥ उनमें रुक्मिणी,
सत्यभामा, जाम्बवती और चारुहासिनी आदि आठ मुख्य
थीं ॥ ३५ ॥ अनादि भगवान् अखिलमूर्तिने उनसे एक

भगवानस्त्रिलपूतिरनादिमानजनयत् ॥ ३६ ॥
 तेषां च प्रद्युम्नचारुदेष्वासाम्बादयस्त्रयोदश
 प्रधानाः ॥ ३७ ॥ प्रद्युम्नोऽपि रुक्मिणस्तनवां
 रुक्म्यवतीं नामोपयेमे ॥ ३८ ॥ तस्यामनिरुद्धो
 जज्ञे ॥ ३९ ॥ अनिरुद्धोऽपि रुक्मिण एव
 पौत्रीं सुभद्रां नामोपयेमे ॥ ४० ॥ तस्यामस्य वज्रो
 जज्ञे ॥ ४१ ॥ वज्रस्य प्रतिष्ठाहुस्तस्यापि
 सुचारुः ॥ ४२ ॥ एवमनेकशतसहस्रपुरुषसंख्यस्य
 यदुकुलस्य पुत्रसंख्या चर्षशतैरपि वक्तुं न
 शक्यते ॥ ४३ ॥ यतो हि श्लोकाविभासत्र
 चरितार्थी ॥ ४४ ॥

तिस्रः कोट्यस्सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च ।
 कुमारानां गुहाचार्याश्चापयोगेषु ये स्ताः ॥ ४५ ॥
 संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम् ।
 यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते सदाहुकः ॥ ४६ ॥
 देवासुरे इता ये तु दैतेयास्सुमहाबलाः ।
 उत्पन्नास्ते मनुष्येषु जनोपद्रवकारिणः ॥ ४७ ॥
 तेषामुत्सादनार्थाय भुवि देवा यदोः कुले ।
 अवतीर्णाः कुलशतं यत्रैकाभ्यधिकं द्विज ॥ ४८ ॥
 विष्णुस्तेषां प्रमाणे च प्रभुत्वे च व्यवस्थितः ।
 निदेशस्त्वायिनस्तस्य वसुधुस्सर्वयादवः ॥ ४९ ॥
 इति प्रसूतिं वृष्णीर्णा यः शृणोति नरः सदा ।
 स सर्वैः पातकैर्मुक्तो विष्णुलोकं प्रपद्यते ॥ ५० ॥

लाख अस्सी हजार पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३६ ॥
 उनमेंसे प्रद्युम्न, चारुदेष्वा और साम्बा आदि तेरह पुत्र प्रधान
 थे ॥ ३७ ॥ प्रद्युम्नने भी रुक्मीकी पुत्री स्वमयतीसे विवाह
 किया था ॥ ३८ ॥ उससे अनिरुद्धका जन्म हुआ ॥ ३९ ॥
 अनिरुद्धने भी रुक्मीकी पौत्री सुभद्रासे विवाह किया
 था ॥ ४० ॥ उससे वज्र उत्पन्न हुआ ॥ ४१ ॥ वज्रका पुत्र
 प्रतिष्ठाहु तथा प्रतिष्ठाहुका सुचारु था ॥ ४२ ॥ इस प्रकार
 सैकड़ों हजार पुरुषोंकी संख्यावाले यदुकुलकी सन्तानोंकी
 गणना सौ वर्षमें भी नहीं की जा सकती ॥ ४३ ॥
 क्योंकि इस विषयमें ये दो श्लोक चरितार्थ हैं— ॥ ४४ ॥

जो गुहाचार्य यादवकुमारोंको धनुर्विद्याकी शिक्षा
 देनेमें तत्पर रहते थे उनकी संख्या तीन करोड़ अठ्ठासी
 लाख थी, फिर उन महात्मा यादवोंकी गणना तो कर
 ही क्यों सकता है? जहाँ हजारों और लाखोंकी संख्यामें
 सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे ॥ ४५-४६ ॥

देवासुर-संशामर्षे जो महाबली दैत्यगण पारे
 ॥५०॥ ये वे मनुष्यालोकमें उपद्रव करनेवाले राजालोग
 होकर उत्पन्न हुए ॥ ४७ ॥ उनका नाश करनेके
 लिये देवताओंने यदुवंशमें जन्म लिया जिसमें कि
 एक सौ एक कुल थे ॥ ४८ ॥ उनका नियन्त्रण
 और स्वशक्तिव भगवान् विष्णुने ही किया। वे
 समस्त यादवगण उनकी आज्ञानुसार ही वृद्धिको
 प्राप्त हुए ॥ ४९ ॥ इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णिवंशकी
 उत्पत्तिके विवरणको श्रुता है वह सम्पूर्ण पापोंसे
 मुक्त होकर विष्णुलोककी प्राप्ति कर लेता है ॥ ५० ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थोऽशो पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

सोत्वहर्वाँ अध्याय

तुर्वसुके वंशका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

इत्येष समासतस्ते यद्वैर्वंशः कर्षितः ॥ १ ॥
अथ तुर्वसोर्वीशमवधारय ॥ २ ॥ तुर्वसोर्वीहृ-
रात्मजः, यह्नेर्भागी भागीद्भानुस्ततश्च
त्रयीसानुस्तस्माच्च करन्दमस्तस्यापि मरुतः ॥ ३ ॥
सोऽनपत्योऽभवत् ॥ ४ ॥ ततश्च पौरखं दुष्यन्तं
पुत्रमकल्पयत् ॥ ५ ॥ एवं ययातिशामात्तद्वंशः
पौरखमेव वर्णं समाश्रितवान् ॥ ६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार मैंने
तुमसे संक्षेपसे यदुके वंशका वर्णन किया ॥ १ ॥
अब तुर्वसुके वंशका वर्णन सुनो ॥ २ ॥ तुर्वसुका पुत्र
वस्ति था, वस्तिका भाग, भागका भानु, भानुका त्रयीसानु,
त्रयीसानुका करन्दम और करन्दमका पुत्र मरुत था ॥ ३ ॥
मरुत निस्सन्तान था ॥ ४ ॥ इसलिये उसने पुरुवंशीय
दुष्यन्तको पुत्ररूपसे स्वीकार कर लिया ॥ ५ ॥ इस
प्रकार ययातिके शापसे तुर्वसुके वंशने पुरुवंशका ही
आश्रय लिया ॥ ६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सत्रहर्वाँ अध्याय

दुह्युर्वंश

श्रीपराशर उवाच

दुह्योस्तु तनयो बभूवुः ॥ १ ॥ बभूवोस्सेतुः ॥ २ ॥
सेतुपुत्र आरब्धनामा ॥ ३ ॥ आरब्धस्यात्मजो
गान्धारो गान्धारस्य धर्मो धर्माद् घृतः घृताद्
दुर्दमस्ततः प्रचेताः ॥ ४ ॥ प्रचेतसः पुत्रश्शतधर्मो
बहुलानां म्लेच्छानाम्भुञ्जानामाधिपत्यमकरोत् ॥ ५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—दुह्युका पुत्र बभू
वु था, बभूवुका सेतु, सेतुका आरब्ध, आरब्धका
गान्धार, गान्धारका धर्म, धर्मका घृत, घृतका
दुर्दम, दुर्दमका प्रचेता तथा प्रचेताका पुत्र शतधर्म
था। इसने उत्तरवर्ती बहुत-से म्लेच्छोंका आधिपत्य
किया ॥ १—५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अठारहर्वाँ अध्याय

अनुवंश

श्रीपराशर उवाच

ययातेश्चतुर्थेऽपुत्रस्त्रयोस्सभानलचक्षुःपरमेधु-
संज्ञास्त्रयः पुत्राः बभूवुः ॥ १ ॥ सभानलपुत्रः
कालानलः ॥ २ ॥ कालानलात्सृञ्जयः ॥ ३ ॥
सृञ्जयात्पुरञ्जयः ॥ ४ ॥ पुरञ्जयात्जनमेजयः ॥ ५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ययातिके चौथे पुत्र
अनुके सभानल, चक्षु और परमेधु नामक तीन
पुत्र थे। सभानलका पुत्र कालानल हुआ तथा
कालानलके संजय, सृञ्जयके पुरंजय, पुरंजयके जनमेजय,

तस्मान्महाशालः ॥ ९ ॥ तस्माच्च महामनाः ॥ ७ ॥

तस्मात्तुशीनरतितिक्षु द्वौ पुत्राभूत्पत्नी ॥ ८ ॥

उशीनरस्यापि शिषिनृगनरकृमिवर्माख्याः

पञ्च पुत्रा अभूतः ॥ ९ ॥ पृथग्दग्धुवीरकेकधमद्रक-

श्चत्वारशिशिपुत्राः ॥ १० ॥ तितिक्षोरपि

रुशत्रुधः पुत्रोऽभूत् ॥ ११ ॥ तस्यापि हेमो

हेमस्यापि सुतापाः सुतापसश्च बलिः ॥ १२ ॥ यस्य

क्षेत्रे दीर्घतमसाङ्गवङ्गकलिङ्गसुहृषीण्ड्रख्यं चालेयं

क्षत्रमजन्यत ॥ १३ ॥ तन्नामसन्ततिसंज्ञाश्च

पञ्चविषया अभूतः ॥ १४ ॥ अङ्गादन्पानस्ततो

दिविरश्वस्तस्माद्धर्मरथः ॥ १५ ॥ ततश्चित्ररथो

रोमपादसंज्ञः ॥ १६ ॥ यस्य दशरथो मित्रं

जज्ञे ॥ १७ ॥ यस्याजपुत्रो दशरथश्शान्तां नाम

कन्यामनपत्यस्य दुहितृत्वे युवोज ॥ १८ ॥

रोमपादाच्चतुरङ्गस्तस्मात्पृथुलाक्षः ॥ १९ ॥

ततश्चम्प्यो यश्चम्पां निवेशयाप्रास ॥ २० ॥ चम्पस्य

हर्यज्ञे नामात्मजोऽभूत् ॥ २१ ॥ हर्यज्ञश्चन्द्ररथो

भद्रश्चाक्षुद्ररथो बृहत्क्षानुसुहृत्कर्मा बृहत्कर्माणश्च

बृहद्भानुस्तस्माच्च बृहन्मना बृहन्मनसो

जयद्रथः ॥ २२ ॥ जयद्रथो ब्रह्मक्षत्रान्तरालसम्भूत्यां

पत्यां विजयं नाम पुत्रमजीजनत् ॥ २३ ॥

विजयश्च धृतिं पुत्रमवाप ॥ २४ ॥ तस्यापि

धृतशतः पुत्रोऽभूत् ॥ २५ ॥ धृतव्रतात्सत्य-

कर्मा ॥ २६ ॥ सत्यकर्माणस्वतिरथः ॥ २७ ॥

यो गङ्गाङ्गतो मञ्जुभागतं पृथपविद्धं कर्णं

पुत्रमवाप ॥ २८ ॥ कर्णाद्बृषसेनः इत्येतदन्ता

अङ्गवंश्याः ॥ २९ ॥ अतश्च पुरुवंशं

श्रीतुयर्हसि ॥ ३० ॥

जनमेजयके महाशत्रु, महाशालके महामना और यक्षानाके उशीनर तथा तितिक्षु नामक दो पुत्र हुए ॥ १-८ ॥

उशीनरके शिषि, भृग, नर, कृमि और र्घ्य नामक पाँच पुत्र हुए ॥ ९ ॥ इनमेंसे शिषिके पृथग्दग्धुवीर, केकय और मद्रक—ये चार पुत्र थे ॥ १० ॥ तितिक्षुका पुत्र स्याद्रथ हुआ। उसके रथ, ठेकके सुवपा तथा सुतापाके अलि नामक पुत्र हुआ ॥ ११-१२ ॥ इस बलिके क्षेत्र (रानी)—में दीर्घतमसा नामक मुनिने अंग, रंग, कलिंग, सुहृ और पौण्ड्र नामक पाँच बालेय क्षत्रिय उत्पन्न किये ॥ १३ ॥ इन बलिपुत्रोंकी सन्तानिके नामानुसार पाँच देशोंके भी ये ही नाम पड़े ॥ १४ ॥ इनमेंसे अंगसे अनपान, अनपानसे दिविरथ, दिविरथसे धर्मरथ और धर्मरथसे चित्ररथका जन्म हुआ जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपादके मित्र दशरथजी थे, अजके पुत्र दशरथजीने रोमपादकी सन्तानहीन देखकर उन्हें पुत्रीरूपसे अपनी शान्ता नामकी कन्या गौद दे दी थी ॥ १५-१८ ॥

रोमपादका पुत्र चतुरंग था। चतुरंगके पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्षके चम्प नामक पुत्र हुआ जिसने चम्पा नामकी पुरी बसायी थी ॥ १९-२० ॥ चम्पके हर्यंग नामक पुत्र हुआ, हर्यंगसे भद्ररथ, भद्ररथसे बृहद्रथ, बृहद्रथसे बृहत्कर्मा बृहत्कर्मासे बृहद्भानु, बृहद्भानुसे बृहन्मना, बृहन्मनासे जयद्रथका जन्म हुआ ॥ २१-२२ ॥ जयद्रथकी ब्राह्मण और क्षत्रियके संसर्गसे उत्पन्न हुई पत्नीके गर्भसे विजय नामक पुत्रका जन्म हुआ ॥ २३ ॥ विजयके धृति नामक पुत्र हुआ, धृतिके धृतव्रत, धृतव्रतके सत्यकर्मा और सत्यकर्माके अतिरथका जन्म हुआ जिसने कि [स्नानके लिये] गंगाजीमें बानेपर पिटारीमें रखकर पृथाहरा बहाये हुए कर्णकी पुत्ररूपसे पाया था। इस कर्णका पुत्र बृषसेन था। उस, अंगवंस इतना ही है ॥ २४-२९ ॥ इसके आगे पुरुवंशका वर्णन सुनो ॥ ३० ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे अनुर्थेऽशो अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

उन्नीसवाँ अध्याय

पुरुषोक्ता

श्रीपराशर उवाच

पुरोर्जनमेजयस्तस्यापि प्रचिन्वान् प्रचिन्वतः
प्रवीरः प्रवीरान्मनस्युर्मनस्योश्चाभयदस्तस्यापि
सुद्युस्सुद्योर्बहुगतस्तस्यापि संयातिस्संयातेरहंयाति-
स्ततो रौद्राश्वः ॥ १ ॥

ऋतेषुकक्षेषुस्थण्डिलेषुकृतेषुजलेषुधर्मेषु-
धृतेषुस्थलेषुसन्तेषुवनेषुनामानो रौद्राश्वस्य
दश पुत्रा बभूवुः ॥ २ ॥ ऋतेषोरन्तिनारः
पुत्रोऽभूत् ॥ ३ ॥ सुमतिमप्रतिरथं शुवं
चाप्यन्तिनारः पुत्रानवाप ॥ ४ ॥ अप्रतिरथस्य
कण्वः पुत्रोऽभूत् ॥ ५ ॥ तस्यापि मेधातिथिः ॥ ६ ॥
यतः काण्वायना द्विजा बभूवुः ॥ ७ ॥
अप्रतिरथस्यापरः पुत्रोऽभूदेलीनः ॥ ८ ॥ ऐलीनस्य
दुष्यन्ताद्याश्चत्वारः पुत्रा बभूवुः ॥ ९ ॥
दुष्यन्ताच्यक्रवर्ती भरतोऽभूत् ॥ १० ॥
यन्नामहेतुर्देवैश्श्लोको गीघते ॥ ११ ॥
मता भस्वा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः ।
भरस्य पुत्रं दुष्यन्त भावमंस्थाशशकुन्तलाम् ॥ १२ ॥

रेतोधाः पुत्रो मयति नरदेव यमक्षयत् ।
त्वं चास्य धाता गर्भस्य मत्यमाह शकुन्तला ॥ १३ ॥

भरतस्य पत्नीप्रये नव पुत्रा बभूवुः ॥ १४ ॥
नैते ममानुरूपा इत्यभिहितास्तन्मातरः परित्याग-
भयात्तपुत्राञ्जघ्नुः ॥ १५ ॥ ततोऽस्य वितथे
पुत्रजन्मनि पुत्रार्थिनो मरुत्सोमव्यजिन्ने दीर्घतमसः
पाध्वर्यापास्ताद्बृहस्पतिवीर्याद्दुतश्वापत्न्यां ममतायां
समुत्पन्नो भरद्वाजाख्यः पुत्रो मरुद्भिर्दत्तः ॥ १६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—पुरुषा पुत्र जनमेजय भा ।
जनमेजयका प्रचिन्वान्, प्रचिन्वान्का प्रवीर, प्रवीरका
मनस्यु, मनस्युका अभयद, अभयदका सुद्यु, सुद्युका
बहुगत, बहुगतका संयाति, संयातिका अहंयाति तथा
अहंयातिका पुत्र रौद्राश्व था ॥ १ ॥

रौद्राश्वके ऋतेषु, कक्षेषु, स्थण्डिलेषु, कृतेषु,
जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्तेषु और वनेषु
नामक दस पुत्र थे ॥ २ ॥ ऋतेषुका पुत्र अन्तिनार हुआ
तथा अन्तिनारके सुमति, अप्रतिरथ और धृष नामक
तीन पुत्रोंने जन्म लिया ॥ ३-४ ॥ इनमेंसे अप्रतिरथका
पुत्र कण्व और कण्वका मेधातिथि हुआ जिसकी
सन्तान काण्वायन जासण हुए ॥ ५-७ ॥ अप्रतिरथका
दूसरा पुत्र ऐलीन था ॥ ८ ॥ इस ऐलीनके दुष्यन्त
आदि चार पुत्र हुए ॥ ९ ॥ दुष्यन्तके यहाँ चक्रवर्ती
समाद, भरतका जन्म हुआ जिसके नामके विषयमें
देवगणने इस श्लोकका गान किया था— ॥ १०-११ ॥

“माता तो केवल चमड़ेकी धौंकनीके समान है,
पुत्रपर अधिकार तो पिताका ही है, पुत्र जिसके द्वारा
जन्म ग्रहण करता है उसीका स्वरूप होता है। हे दुष्यन्त !
तू इस पुत्रका पालन-पोषण कर, शकुन्तलाका अपमान
न कर। हे नरदेव ! अपने ही जीर्णसे उत्पन्न हुआ पुत्र
अपने पिताको यमलोकसे [उद्धार कर स्वर्गलोकको]
ले जाता है। ‘इस पुत्रके आघात करनेवाले तुम्हीं ही’—
शकुन्तलाने यह बात ठोक ही कही है” ॥ १२-१३ ॥

भरतके तीन स्त्रियाँ भी जिनसे उनके नौ पुत्र
हुए ॥ १४ ॥ भरतके यह कहनेपर कि ‘ये धीरे अनुरूप
नहीं हैं’, उनकी माताओंने इस भयसे कि राजा
हमको त्याग न दें, उन पुत्रोंको पर डाला ॥ १५ ॥
इस प्रकार पुत्र-जन्मके विफल हो जानेसे भरतने
पुत्रकी कामनासे मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस
यज्ञके अन्तमें मरुद्गणने उन्हें भरद्वाज नामक एक
बालक पुत्ररूपसे दिया जो उदरव्यपत्नी ममताके गर्भमें
स्थित दीर्घतमा सुनिके पाद-प्रहारसे स्वस्थित हुए
बृहस्पतिजीके जीर्णसे उत्पन्न हुआ था ॥ १६ ॥

तस्यापि नामनिर्वचनश्लोकः पठ्यते ॥ १७ ॥

मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते ।

याती यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम् ॥ १८ ॥

भरद्वाजस्म वितथे पुत्रजन्मनि मरुद्भिर्दत्तस्ततो
वितथसंज्ञामवाप ॥ १९ ॥ वितथस्यापि मन्युः
पुत्रोऽभवत् ॥ २० ॥ बृहत्क्षत्रमहावीर्यभरगर्गा
अभवन्मन्युपुत्राः ॥ २१ ॥ नस्य सङ्कृतिस्सङ्कृते-
र्गुरुप्रीतिरन्तिदेवी ॥ २२ ॥ गर्गाच्छ्रिः,

ततश्च गर्गाश्शैः क्षत्रोपेता द्विजातयो
बभूवुः ॥ २३ ॥ महावीर्याश्च द्रुक्षयो नाम
पुत्रोऽभवत् ॥ २४ ॥ तस्य प्रव्यारुणिः पुष्करिण्यो
कपिश्च पुत्रत्रयमभूत् ॥ २५ ॥ तच्च पुत्रव्रित्तमपि
पश्चाद्द्विप्रतामुपजगाम ॥ २६ ॥ बृहत्क्षत्रस्य
सुहोत्रः ॥ २७ ॥ सुहोत्राद्दस्ती य इदं हस्तिनापुर-
मावासयामास ॥ २८ ॥

अजमीढद्विजमीढपुरुमीढास्त्रयो हस्तिनस्त-
नयाः ॥ २९ ॥ अजमीढात्कण्वः ॥ ३० ॥
कण्वान्मेधातिथिः ॥ ३१ ॥ यतः काण्वायना
द्विजाः ॥ ३२ ॥ अजमीढस्यान्वः पुत्रो
बृहदियुः ॥ ३३ ॥ बृहदियोर्युहदनुर्बृहदनुषश्च
बृहत्कर्मा ततश्च जयद्रश्चस्तस्मादपि
विश्वजित् ॥ ३४ ॥ ततश्च सेनजित् ॥ ३५ ॥
रुचिराश्वकाश्वदृढहनुवत्सहनुसंज्ञास्सेनजितः
पुत्राः ॥ ३६ ॥ रुचिराश्वपुत्रः पृथुसेनः
पृथुसेनात्पारः ॥ ३७ ॥ पारानीलः ॥ ३८ ॥
तस्यैकशतं पुत्राणाम् ॥ ३९ ॥ तेषां प्रधानः
काम्पित्याधिपतिस्समरः ॥ ४० ॥ समरस्यापि
पारसुपारसदशवास्त्रयः पुत्राः ॥ ४१ ॥ सुपारात्पृथुः
पृथोस्सुकृतिस्ततो विभाजः ॥ ४२ ॥
तस्माच्छ्राणुहः ॥ ४३ ॥ यश्शुकदुहितरं कीर्ति
नामोपयेमे ॥ ४४ ॥ अणुहदशहदत्तः ॥ ४५ ॥
ततश्च विष्वक्सेनस्तास्मादुदक्सेनः ॥ ४६ ॥
भल्लाभस्तस्य चात्मजः ॥ ४७ ॥

उसके नामकरणके विषयमें भी यह श्लोक कहा
जाता है— ॥ १७ ॥

“पुत्रोत्पत्तिके अनन्तर बृहस्पतिने ममतासे कहा—
'हे मूढे! यह पुत्र द्वाज (हम दोनोंसे उत्पन्न हुआ)
है तू इसका भरण कर।' तब ममताने भी कहा—
'हे बृहस्पते! यह पुत्र द्वाज (हम दोनोंसे उत्पन्न
हुआ) है अतः तू इसका भरण करो।' इस प्रकार
परस्पर विवाद करते हुए उसके माता-पिता चले गये,
इसलिये उसका नाम 'भरद्वाज' पड़ा" ॥ १८ ॥

पुत्र-जन्म वितथ (विपल) होनेपर मरुद्गणने राजा
भरतको भरद्वाज दिया था, इसलिये उसका नाम 'वितथ'
भी हुआ ॥ १९ ॥ वितथका पुत्र मन्यु हुआ और मन्युके
बृहत्क्षत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि कई पुत्र
हुए ॥ २०-२२ ॥ नरका पुत्र संकृति और संकृतिके गुरुप्रीति
एवं रन्दिदेव नामक दो पुत्र हुए ॥ २२ ॥ गर्गसे शिन्धिका
जन्म हुआ जिससे कि गर्ग्य और शैः नामसे विख्यात
क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए ॥ २३ ॥ महावीर्यका पुत्र दुख्य
हुआ ॥ २४ ॥ उसके प्रव्यारुणि, पुष्करिण्य और कपि नामक
तीन पुत्र हुए ॥ २५ ॥ ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण छे गये
ये ॥ २६ ॥ बृहत्क्षत्रका पुत्र सुहोत्र, सुहोत्रका पुत्र हस्ती था
जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था ॥ २७-२८ ॥

हस्तीके तीन पुत्र अजमीढ, द्विजमीढ और पुरुमीढ
थे। अजमीढके कण्व और कण्वके मेधातिथि नामक
पुत्र हुआ जिससे कि काण्वायन ब्राह्मण उत्पन्न
हुए ॥ २९-३२ ॥ अजमीढका दूसरा पुत्र बृहदियु था ॥ ३३ ॥
बृहदियुके बृहदनु, बृहदनुके बृहत्कर्मा, बृहत्कर्माके जयद्रथ,
जयद्रथके विश्वजित् तथा विश्वजित्के सेनजित्क जन्म
हुआ। सेनजित्के रुचिराश्व, काश्य, दृढहनु और वत्सहनु
नामक चार पुत्र हुए ॥ ३४-३६ ॥ रुचिराश्वके पृथुसेन,
पृथुसेनके पार और पारके नीलका जन्म हुआ। इस
नीलके सी पुत्र थे, जिनमें काम्पित्यनेश समर प्रधान
था ॥ ३७-४० ॥ समरके पार, सुपार और सदश्व नामक
तीन पुत्र थे ॥ ४१ ॥ सुपारके पृथु, पृथुके सुकृति, सुकृतिके
विभाज और विभाजके अणुह नामक पुत्र हुआ,
जिसने शुककन्या कीर्तिसे विवाह किया था ॥ ४२-४४ ॥
अणुहसे अणुहदत्तका जन्म हुआ। अणुहदत्तसे विष्वक्सेन,
विष्वक्सेनसे उदक्सेन तथा उदक्सेनसे भल्लाभ नामक
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४५-४७ ॥

द्विजमीढस्य तु यवीनरसंज्ञः पुत्रः ॥ ४८ ॥

तस्यापि धृतिमांस्तस्माच्च सत्यधृतिस्ततश्च
दृढनेमिस्तस्माच्च सुपाशर्वस्तस्मृमतिस्ततश्च
सन्नतिमान् ॥ ४९ ॥ सन्नतिभतः कृतः पुत्रो-
ऽभूत् ॥ ५० ॥ यं हिरण्यनाभो योगमध्यापया-
मास ॥ ५१ ॥ यश्चतुर्विंशतिं प्राच्यसामगानां
संहिताश्चकार ॥ ५२ ॥ कृताञ्जोग्रायुधः ॥ ५३ ॥
येन प्राशुर्वेण नीपक्षयः कृतः ॥ ५४ ॥
उश्यासुधाक्षेम्यः क्षेम्यास्सुधीरस्तस्मादरिपुञ्जय-
स्तस्माच्च बहुरथ इत्येते पौरवाः ॥ ५५ ॥

अजमीढस्य नलिनी नाम पत्नी तस्या
नीलसंज्ञः पुत्रोऽभवत् ॥ ५६ ॥ तस्मादपि शान्तिः
शान्तेस्सुशान्तिस्सुशान्तेः पुरञ्जयस्तस्माच्च
ऋक्षः ॥ ५७ ॥ ततश्च हर्यश्वः ॥ ५८ ॥
तस्मान्मुद्गालसृञ्जयबृहद्विधुयवीनरकापित्यसंज्ञः
पञ्चानामेव तेषां विधवाणां रक्षणायालमेते मत्पुत्रा
इति पित्राभिहिताः पाञ्चालाः ॥ ५९ ॥

मुद्गालाख्य मौद्गल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयो
ऋभुसुः ॥ ६० ॥ मुद्गालादबृहदश्वः ॥ ६१ ॥
बृहदश्वदिवोदासोऽहत्या च मिथुनमभूत् ॥ ६२ ॥
शरद्वृत्तश्चाहत्यायां शतानन्दोऽभवत् ॥ ६३ ॥
शतानन्दात्सत्यधृतिर्धनुर्वेदान्तगो जज्ञे ॥ ६४ ॥
सत्यधृतेर्वशाप्सरसपूर्वशीं दृष्ट्वा रेतस्कन्तं शरस्तम्बे
पपात ॥ ६५ ॥ तच्च द्विधागतमपत्यद्वयं कुमारः
कन्या साभवत् ॥ ६६ ॥ तौ च मृगया-
मुपयातश्शान्तनुर्दृष्ट्वा कृपया अग्राह ॥ ६७ ॥ ततः
कुमारः कृपः कन्या चाश्वत्थाम्नो जननी कृपी
द्रोणाचार्यस्य पत्यभवत् ॥ ६८ ॥

दिवोदासस्य पुत्रो मित्रायुः ॥ ६९ ॥
मित्रायोश्च्यवनो नाम राजा ॥ ७० ॥ च्यवना-
त्सुदासः सुदासात्सौदासः सौदासात्सहदेवस्तस्यापि
सोमकः ॥ ७१ ॥ सोमकाञ्जन्तुः पुत्रशतन्येष्टो-
ऽभवत् ॥ ७२ ॥ तेषां यवीयान् पृषतः पृषताद्-
द्वपदस्तस्माच्च धृष्टद्युम्नस्ततो धृष्टकेतुः ॥ ७३ ॥

द्विजमीढका पुत्र यवीनर था ॥ ४८ ॥ उसका
धृतिमान्, धृतिमान्का सत्यधृति, सत्यधृतिका दृढनेमि,
दृढनेमिका सुपाशर्व, सुपाशर्वका स्मृमति, स्मृमतिक
सन्नतिमान् तथा सन्नतिभान्का पुत्र कृत हुआ
जिसने हिरण्यनाभने योगविद्याकी शिक्षा दी थी
तथा जिसने शत्रु सामग श्रुतियोंको चौबीस संहिताएँ
रची थी ॥ ४९—५२ ॥ कृतका पुत्र उश्यासुध था
जिसने अनेकों नीपवंशीय क्षत्रियोंका नाश
किया ॥ ५३—५४ ॥ उश्यासुधके क्षेम्य, क्षेम्यके सुधीर,
सुधीरके रिपुञ्जय और रिपुञ्जयसे बहुरथने जन्म लिया।
ये सब पुरुवंशीय राजागण हुए ॥ ५५ ॥

अजमीढको नलिनीनामी एक भार्या थी।
उसके नील नामक एक पुत्र हुआ ॥ ५६ ॥ नीलके शान्ति,
शान्तिके सुशान्ति, सुशान्तिके पुरंजय, पुरंजयके ऋक्ष और
ऋक्षके हर्यश्व नामक पुत्र हुआ ॥ ५७—५८ ॥ हर्यश्वके मुद्गाल,
सृञ्जय, बृहद्विधु, यवीनर और कापित्य नामक पाँच पुत्र हुए।
पिताने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित
पाँचों देशोंको रक्षा करनेमें समर्थ हैं, इसलिये
वे पांचाल कहलाये ॥ ५९ ॥

मुद्गालसे मौद्गल्य नामक क्षत्रोपेता ब्राह्मणोंकी
उत्पत्ति हुई ॥ ६० ॥ मुद्गालसे बृहदश्व और बृहदश्वसे
दिवोदास नामक पुत्र एवं अहत्या नामकी एक कन्याका
जन्म हुआ ॥ ६१—६२ ॥ अहत्यासे महर्षि गौतमके द्वारा
शतानन्दका जन्म हुआ ॥ ६३ ॥ शतानन्दसे धनुर्वेदका
पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ ॥ ६४ ॥ एक बार
अप्सराओंमें श्रेष्ठ उर्वशीको देखनेसे सत्यधृतिका शीर्ष
स्पर्शित होकर शरस्तम्ब (सरकण्ठे) पर पड़ा ॥ ६५ ॥
उससे दो भागोंमें बँट जानेके कारण पुत्र और पुत्रीरूप
दो सन्तानें उत्पन्न हुईं ॥ ६६ ॥ उन्हें मृगयाके लिये गये
हुए राजा शान्तनु कृपावश ले आये ॥ ६७ ॥ तदनन्तर
पुत्रका नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामाकी
माता द्रोणाचार्यकी पत्नी कृपी हुई ॥ ६८ ॥

दिवोदासका पुत्र मित्रायु हुआ ॥ ६९ ॥ मित्रायुका
पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ, च्यवनका सुदास, सुदासका
सौदास, सौदासका सहदेव, सहदेवका सोमक और
सोमकके सौ पुत्र हुए जिनमें जन्तु सबसे बड़ा और पृषत
सबसे छोटा था। पृषतका पुत्र द्वपद, द्वपदका धृष्टद्युम्न
और धृष्टद्युम्नका पुत्र धृष्टकेतु था ॥ ७०—७३ ॥

अजमीढस्यान्य ऋक्षनाम्न पुत्रोऽभवत् ॥ ७४ ॥
 तस्य संवरणः ॥ ७५ ॥ संवरणात्कुरुः ॥ ७६ ॥
 य इदं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं चकार ॥ ७७ ॥
 सुधनुर्बलुपरीक्षितप्रमुखाः कुरोः पुत्रा
 बभूवुः ॥ ७८ ॥ सुधनुषः पुत्रस्सुहोत्रस्त-
 स्माच्छपवनश्च्यवनात् कृतकः ॥ ७९ ॥
 ततश्चोपरिचरो वसुः ॥ ८० ॥ बृहद्रथ-
 प्रत्यग्रकुशाम्बुकुचेलमात्स्यप्रमुखा वसोः
 पुत्रास्सप्तौजायन्ते ॥ ८१ ॥ बृहद्रथात्कुशाग्रः
 कुशाग्रदक्षुषभो वृषभात् पुष्यवान् तस्मात्सत्य-
 हितस्तास्मात्सुधन्वा तस्य च जतुः ॥ ८२ ॥
 बृहद्रथाच्चान्यश्शकलद्वयजन्वा जरवा संहितौ
 जरासन्धानामा ॥ ८३ ॥ तस्मात्सहदेव-
 स्साहदेवस्तोमपस्ततश्च क्षुतिश्रवाः ॥ ८४ ॥ हत्येते
 यथा मागधा भूपालाः कथिताः ॥ ८५ ॥

अजमीढनाम ऋक्ष नामक एक पुत्र और ७४ ॥
 उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरणका पुत्र कुरु
 था जिसने कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रकी स्थापना
 की ॥ ७५-७७ ॥ कुरुके पुत्र सुधनु, जसु और परीक्षित
 आदि हुए ॥ ७८ ॥ सुधनुका पुत्र सुहोत्र था, सुहोत्रका
 श्यवन, श्यवनका कृतक और कृतकका पुत्र उपरिचर
 वसु हुआ ॥ ७९-८० ॥ वसुके बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु,
 कुचेल और मात्स्य आदि सात पुत्र थे ॥ ८१ ॥ इनमेंसे
 बृहद्रथके कुशाग्र, कुशाग्रके वृषभ, वृषभके पुष्यवान्,
 पुष्यवान्के सत्याहित, सत्याहितके सुधन्वा और सुधन्वाके
 जतुका जन्म हुआ ॥ ८२ ॥ बृहद्रथके दो खण्डोंमें विभक्त
 एक पुत्र और हुआ था जो कि जराके द्वय जोड़
 दिये जानेपर जरासन्ध कहलाया ॥ ८३ ॥ उससे सहदेवका
 जन्म हुआ उक्त सहदेवसे तोमप और तोमपसे क्षुतिश्रवण
 उत्पत्ति हुई ॥ ८४ ॥ इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध
 भूपालोंका वर्णन कर दिया है ॥ ८५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

बीसवाँ अध्याय

कुरुके वंशका वर्णन

श्रीपरमेश्वर उवाच

परीक्षितो जनमेजयश्चतसेनोग्रसेन-
 भीमसेनाश्चत्वारः पुत्राः ॥ १ ॥ जह्नोस्तु सुरथो
 नामात्मजो बभूव ॥ २ ॥ तस्यापि विदूरथः ॥ ३ ॥
 तस्मात्सार्वभौमस्तार्वभौमाग्जयत्सेनस्तस्मादादा-
 धितस्ततश्चायुतायुतायोरक्रोधनः ॥ ४ ॥
 तस्माद्देवातिथिः ॥ ५ ॥ ततश्च ऋक्षोऽज्योऽभवत् ॥ ६ ॥
 ऋक्षद्वीभसेनस्ततश्च दिलीपः ॥ ७ ॥ दिलीपात्
 प्रतीपः ॥ ८ ॥

तस्यापि देवापिशान्तनुवाह्नीकसंज्ञास्त्रधः
 पुत्रा बभूवुः ॥ ९ ॥ देवापिर्बाल एवारण्यं
 विवेक्ष ॥ १० ॥ शान्तनुस्तु पहीपालोऽभूत् ॥ ११ ॥
 अयं च तस्य श्लोकः पृथिव्यां गीयते ॥ १२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—[कुरुपुत्र] परीक्षितके
 जनमेजय, चतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक चार
 पुत्र हुए, तथा जह्नुकके सुरथ नामक एक पुत्र
 हुआ ॥ १-२ ॥ सुरथके विदूरथका जन्म हुआ। विदूरथके
 सार्वभौम, सार्वभौमके जयत्सेन, जयत्सेनके आराधिष,
 आराधितके अयुतायु, अयुतायुके अक्रोधन, अक्रोधनके
 देवातिथि तथा देवातिथिके [अलमोढके पुत्र ऋक्षसे
 पिन्] दूसरे ऋक्षका जन्म हुआ ॥ ३-६ ॥ ऋक्षसे
 भीमसेन, भीमसेनसे दिलीप और दिलीपसे प्रतीप
 नामक पुत्र हुआ ॥ ७-८ ॥

प्रतीपके देवापि, शान्तनु और बाह्नीक नामक तीन
 पुत्र हुए ॥ ९ ॥ इनमेंसे देवापि नात्यावस्थामें ही वनमें चला
 गया था अतः शान्तनु ही राजा हुआ ॥ १०-११ ॥ उसके
 विषयमें पृथिवीदलपर यह श्लोक कहा जाता है— ॥ १२ ॥

यं यं कराभ्यां स्मृशति जीर्णं यौवनमेति सः ।
शान्तिं चप्नोति येनप्रयां कर्मणा तेन शान्तनुः ॥ १३

तस्य च शान्तनो राष्ट्रे द्वादशवर्षाणि देवो न
षड्वर्ष ॥ १४ ॥ ततश्चाशेषराष्ट्रविनाशमयेक्ष्यासी
राजा ब्राह्मणानपृच्छत् कस्मादस्याकं राष्ट्रे देवो
न वर्धति को ममापराध इति ॥ १५ ॥

ततश्च तमूद्युर्ब्राह्मणः ॥ १६ ॥ अग्रजस्य
ते हीयमवनिस्त्वया सम्भुज्यते अतः परिवेत्ता
त्वमित्युक्तस्य राजा घुनस्तानपृच्छत् ॥ १७ ॥ किं
मयात्र विधेयमिति ॥ १८ ॥

ततस्ते पुनरप्युद्युः ॥ १९ ॥ यावदेवापिर्न
पतनादिभिर्दीर्घैरभिभूयते तावदेतत्तस्यार्हं
राज्यम् ॥ २० ॥ तदलमस्तेन तु तस्मै दीयतामित्युक्ते
तस्य मन्त्रिप्रवरेणाश्रमसारिणा तत्रारण्ये तपस्विनो
वेदवाचविरोधवक्तारः प्रयुक्ताः ॥ २१ ॥
तैरस्याप्यतिऋजुमतेर्महीपतिपुत्रस्य बुद्धिर्वेद-
वाचविरोधमार्गानुसारिण्यक्रियत ॥ २२ ॥ राजा
च शान्तनुर्द्विजवचनोत्पन्नपरिदेवनशोकस्तान्
ब्राह्मणानग्रतः कृत्वाग्रजस्य प्रदानायारण्यं
जगाम ॥ २३ ॥

तदाश्रममुपगताश्च तमवनतमवनीपतिपुत्रं
देवापिमुपतस्थुः ॥ २४ ॥ ते ब्राह्मणा वेदवादानु-
बन्धीनि वचांसि राज्यमग्रजेन कर्त्तव्यमित्यर्थवन्ति
तमूद्युः ॥ २५ ॥ असावपि देवापिर्वेदवाचविरोध-
युक्तिदूषितमनेकप्रकारं तानाह ॥ २६ ॥ ततस्ते
ब्राह्मणाश्शान्तनुमुद्युः ॥ २७ ॥ आगच्छ हे
राजन्तमत्रातिनिर्वन्धेन प्रशान्त एवासावनापृष्टि-
दोषः पतितोऽद्यमनादिकालमहितवेदवचन-
दूषणोच्चारणात् ॥ २८ ॥ पतिते साग्रजे नैव ते
परिवेत्तृत्वं भवतीत्युक्तश्शान्तनुः स्वपुरमागम्य
राज्यमकरोत् ॥ २९ ॥ वेदवाचविरोधवचनेच्चारण-
दूषिते च तस्मिन्नेवापि तिव्यप्यपि ज्येष्ठभ्रातृर्द्विज-
सख्यनिष्पत्तये षड्वर्ष भगवान्यर्जन्व्यः ॥ ३० ॥

“ [राजा शान्तनु] जिसको-जिसको अपने हाथसे
स्पर्श कर देते थे वे वृद्ध पुरुष भी युवत्वस्था प्राप्त कर
लेते थे तथा उनके स्पर्शसे सम्पूर्ण जीव अत्युत्तम शान्तिलाभ
करते थे, इसलिये वे शान्तनु कहलाते थे ” ॥ १३ ॥

एक बार महाराज शान्तनुके राज्यमें बारह वर्षतक
वर्षा न हुई ॥ १४ ॥ उस समय सम्पूर्ण देशको बृष्ट
ठोठा देखकर राजाने ब्राह्मणोंसे पूछा—‘ हमारे राज्यमें
वर्षा क्यों नहीं हुई ? इसमें क्या अपराध है ? ’ ॥ १५ ॥

तब ब्राह्मणोंने उससे कहा—‘ यह राज्य तुम्हारे
बड़े भाईका है किन्तु इसे तुम भोग रहे हो; इसलिये
तुम परिवेत्ता हो । ’ उनके ऐसा कहनेपर राजा शान्तनुने
उन्से फिर पूछा—‘ तो इस सम्बन्धमें मुझे अब क्या
करना चाहिये ? ’ ॥ १६—१८ ॥

इसपर वे ब्राह्मण फिर बोले—‘ जबतक तुम्हारा बड़ा
भाई देवापि किसी प्रकार पतित न हो जबतक यह राज्य
उसीके योग्य है ॥ १९—२० ॥ अतः तुम इसे उसीको दे डालो,
तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं । ’ ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर
शान्तनुके मन्त्री अरण्यसारीने वेदवादके विरुद्ध बोलनेवाले
तपस्वियोंको वनमें नियुक्त किया ॥ २१ ॥ उन्होंने अतिशय
सरलमति राजकुमार देवापिकी बुद्धिको वेदवादके विरुद्ध
मार्गमें प्रवृत्त कर दिया ॥ २२ ॥ उधर राजा शान्तनु ब्राह्मणोंके
कथनानुसार दुःख और शोकयुक्त होकर ब्राह्मणोंको आगे
कर अपने बड़े भाईको राज्य देनेके लिये वनमें गये ॥ २३ ॥

वनमें पहुँचनेपर वे ब्राह्मण्यण परम विनीत राजकुमार
देवापिके आश्रमपर उपस्थित हुए; और उससे ‘ ज्येष्ठ
भ्राताको ही राज्य करना चाहिये ’—इस अर्थके समर्थक
अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे ॥ २४—२५ ॥ किन्तु उस
समय देवापिने वेदवादके विरुद्ध नाना प्रकारकी युक्तिबौसे
दूषित बातें कहीं ॥ २६ ॥ तब उन ब्राह्मणोंने शान्तनुसे
कहा— ॥ २७ ॥ ‘ हे राजन् ! चलो, अब यहाँ अधिक अग्रह
करनेकी आवश्यकता नहीं । अब अनावृष्टिके दोष भ्रान्त
हो गया । अनादिकालसे पूजित वेदवाक्योंमें दोष नकलानेके
कारण देवापि पतित हो गया है ॥ २८ ॥ ज्येष्ठ भ्रातृके पतित
हो जानेसे अब तुम परिवेत्ता नहीं रहे । ’ उनके ऐसा कहनेपर
शान्तनु अपनी उल्लासनीको चले आये और शय्यशासन करने
लगे ॥ २९ ॥ वेदवादके विरुद्ध वचन बोलनेके कारण देवापिके
पतित हो जानेसे, बड़े भाईके रहते हुए भी सम्पूर्ण धन्वीकी
वत्पत्तिके लिये पर्वन्वदेव (मेघ) बरसने लगे ॥ ३० ॥

बाह्लीकात्सोमदत्तः पुत्रोऽभूत् ॥ ३१ ॥
 सोमदत्तस्यापि भूरिभूरिभवःशल्यसंज्ञास्त्रयः पुत्रा
 बभूवुः ॥ ३२ ॥ शान्तनोरप्यमरनद्यां जाल्मव्या-
 सुदारकीर्तिरशेषशास्त्रार्थविद्भीष्मः पुत्रो-
 ऽभूत् ॥ ३३ ॥ सत्यवत्यां च चित्राङ्गदविचित्रवीर्यी
 द्वौ पुत्रावुत्पादयामास शान्तनुः ॥ ३४ ॥
 चित्राङ्गदस्तु काल एव क्षिप्राङ्गदेभ्य गन्धर्वेणाह्वये
 निहतः ॥ ३५ ॥ विचित्रवीर्योऽपि काशिसज्जनयै
 अम्बिकाम्बालिके उपयेमे ॥ ३६ ॥ तदुपभोगाति-
 खेदाच्च यक्षमणा गृहीतः स पञ्चत्वस-
 गमत् ॥ ३७ ॥ सत्यवतीनियोगाच्च मरुपुत्रः कृष्णा-
 द्वैपायनो मातुर्वचनमनतिक्रमणीयमिति कृत्वा
 विचित्रवीर्यश्रेत्रे भृतराष्ट्रपापहू तत्प्रहित-
 भुजिष्यायां विदुरं चोत्पादयामास ॥ ३८ ॥

भृतराष्ट्रोऽपि गान्धारीं दुर्योधनदुःशासनप्रधानं
 पुत्रशतमुत्पादयामास ॥ ३९ ॥ पाण्डुरप्यरपये
 मृगयाद्यामुषिशापोपहतप्रजाजननसामर्थ्यस्य धर्म-
 वायुशक्रेयुधिष्ठिरभीमसेनार्जुनाः कुन्त्यां
 नकुलसहदेवी चाश्विभ्यां माद्र्या पञ्चपुत्रा-
 स्समुत्पादिताः ॥ ४० ॥ तेषां च द्रौपद्यां पञ्चैव
 पुत्रा बभूवुः ॥ ४१ ॥ युधिष्ठिरात्प्रतिविन्ध्यः
 भीमसेनाच्छ्रुतसेनः श्रुतकीर्तिरर्जुनाच्छ्रुतामीकी
 नकुलाच्छ्रुतकर्मा सहदेवात् ॥ ४२ ॥

अन्ये च पाण्डवानामात्मजास्तद्व्या ॥ ४३ ॥
 यौधेयी युधिष्ठिराद्देवर्कं पुत्रमवाप ॥ ४४ ॥
 द्विद्विम्बा घटोत्कचं भीमसेनात्पुत्रं लेभे ॥ ४५ ॥
 काशी च भीमसेनदेव सर्वगं सुतमवाप ॥ ४६ ॥
 सहदेवाच्च विजया सहोत्रं पुत्रमवाप ॥ ४७ ॥
 रेणुमत्यां च नकुलोऽपि निरमित्रमर्जीजनत् ॥ ४८ ॥
 अर्जुनस्याप्युलूप्यां नागकन्धायामिरावान्नाम
 पुत्रोऽभवत् ॥ ४९ ॥ मणिपुरपतिपुत्र्यां पुत्रिका-
 धर्मण बभ्रुवाहनं नाम पुत्रमर्जुनोऽजनयत् ॥ ५० ॥
 सुभद्रायां चार्धकल्बेऽपि योऽस्तावतिबलपराक्रम-
 स्समस्तारातिरथजेता सोऽभिमन्युरजायत ॥ ५१ ॥

बाह्लीकके सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्तके
 भूरि, भूरिभवा और शल्य नामक तीन पुत्र
 हुए ॥ ३१-३२ ॥ शान्तनुके गंगाकीसे अतिशय कीर्तिमान्
 तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंका जाननेवाला भीष्म नामक पुत्र
 हुआ ॥ ३३ ॥ शान्तनुने सत्यवतीसे क्षिप्रांगद और विचित्रवीर्य
 नामक दो पुत्र और भी उत्पन्न किये ॥ ३४ ॥ उनमें
 चित्रांगदको तो बाल्यावस्थार्थे ही क्षिप्रांगद नामक ग्रन्थकी
 युद्धमें मार डाला ॥ ३५ ॥ विचित्रवीर्यने काशिराजकी
 पुत्री अम्बिका और अम्बालिकासे त्रिजाद किया ॥ ३६ ॥
 उनमें अत्यन्त भोगासक्त रहनेके कारण अतिशय खिन
 रहनेसे वह यक्षमाके यशोभूत होकर [अकालहीमें] भर
 गया ॥ ३७ ॥ तदनन्तर मरे पुत्र कृष्णाद्वैपायनने सत्यवतीके
 नियुक्त करनेसे नाताका वचन उरुना उचित न जान
 विचित्रवीर्यको पत्नियोंसे धृतराष्ट्र और पाण्डु नामक दो
 पुत्र उत्पन्न किये और उनकी भोजी हुई दासीसे विदुर
 नामक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३८ ॥

भृतराष्ट्रने भी गान्धारीसे दुर्योधन और दुःशासन
 आदि सौ पुत्रोंको जन्म दिया ॥ ३९ ॥ पाण्डु उनमें
 आखेट करते समय ऋषिके शापसे सन्तानोत्पादनमें
 असमर्थ हो गये थे अतः उनकी ह्यो कुन्तीसे धर्म,
 वायु और इन्द्रने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन
 नामक तीन पुत्र तथा माद्रोसे दोनों अश्विनीकुमारोंने
 नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न किये। इस
 प्रकार उनके पाँच पुत्र हुए ॥ ४० ॥ उन पाँचोंके द्रौपदीसे
 पाँच ही पुत्र हुए ॥ ४१ ॥ उनमेंसे युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य,
 भीमसेनसे श्रुतसेन, अर्जुनसे श्रुतकीर्ति, नकुलसे श्रुतार्क
 तथा सहदेवसे श्रुतकर्माका जन्म हुआ था ॥ ४२ ॥

इन्के अतिरिक्त पाण्डवोंके और भी कई पुत्र
 हुए ॥ ४३ ॥ जैसे—युधिष्ठिरसे यौधेयीके देवर्क नामक
 पुत्र हुआ, भीमसेनसे द्विद्विम्बाके घटोत्कच और काशीसे
 सर्वग नामक पुत्र हुआ, सहदेवसे विजयाके सहोत्रक
 जन्म हुआ, नकुलने रेणुमतीसे निरमित्रको उत्पन्न
 किया ॥ ४४-४८ ॥ अर्जुनके नगकन्धा उलूपीसे बभ्रुवन्
 नामक पुत्र हुआ ॥ ४९ ॥ मणिपुर नेशकी पुत्रीसे अर्जुनने
 पुत्रिका-धर्मानुसार बभ्रुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न
 किया ॥ ५० ॥ तथा उसके सुभद्रासे अधिमन्युका जन्म
 हुआ जो कि बाल्यावस्थार्थे ही बड़ा बल-पराक्रम-
 सम्पन्न तथा अपने सम्पूर्ण शत्रुओंके भीतनेवाला था ॥ ५१ ॥

अभिमन्योरुत्तरायां परिक्षीणेषु कुरुव्यश्वरधाम-
प्रयुक्तब्रह्मास्त्रेण गर्भ एव भस्मीकृतो भगवत-
स्सकलसुरासुरवन्दितचरणायुगलस्यात्मेच्छ्वा
कारणमानुषरूपधारिणोऽनुभावात्सुनर्जीवित-
मवाप्य परीक्षिञ्जज्ञे ॥ ५२ ॥ योऽयं साम्प्रतमेत-
द्धूमफलमखण्डितायतिभ्रमेण पालयतीति ॥ ५३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

इक्कीसवाँ अध्याय

भविष्यमें होनेवाले राजाओंका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

अतः परं भविष्यामहं भूपालान्वर्तयिष्यामि ॥ १ ॥
योऽयं साम्प्रतमवनीपतिः परीक्षितस्यापि
जनमेजयश्च्युतसेनोग्रसेनभीमसेनाश्चत्वारः पुत्रा
भविष्यन्ति ॥ २ ॥ जनमेजयस्यापि शतानीकौ
भविष्यति ॥ ३ ॥ योऽसौ याज्ञवल्क्याद्देवधीन्य
कृपादस्त्राण्यवाप्य विषमविषयविरक्तचित्त-
वृत्तिश्च शीनकरोपदेशादात्मज्ञानप्रवीणः परं निर्वाण-
मवाप्स्यति ॥ ४ ॥ शतापीकादश्वमेधदत्तो
भविता ॥ ५ ॥ तस्मादयमधिसीमकृष्णः ॥ ६ ॥
अधिसीमकृष्णान्निचक्रुः ॥ ७ ॥ यो गङ्गयापह्लो
हस्तिनापुरे कौशाम्ब्यां निवत्स्यति ॥ ८ ॥

तस्याप्युष्णाः पुत्रो भविता ॥ ९ ॥
उष्णाद्विचित्ररथः ॥ १० ॥ ततः शुचिरथः ॥ ११ ॥
तस्माद्वृष्णिमांस्ततस्सुषेणस्तस्यापि सुनीध-
स्सुनीधानृपचक्षुस्तस्मादपि सुखावलस्तस्य च
पारिप्लवस्तस्य च सुनयस्तस्यापि मेधावी ॥ १२ ॥
मेधाविनो रिपुञ्जयस्ततो मृदुस्तस्माच्च
तिग्मस्तस्माद्वृहद्रथो बृहद्रथाद्भुवानः ॥ १३ ॥
ततोऽपरशशतानीकः ॥ १४ ॥ तस्माच्चोदयन

तदनन्तर कुरुकुलके क्षीण हो जानेपर जो अश्वमेधायाके प्रश्न
किये हुए ब्रह्मास्त्रद्वारा गर्भमें ही भस्मीभूत हो चुका था किन्तु
फिर, जिन्होंने अपनी हृच्छसे ही माया-मानव-देह धारण
किया है उन सकल सुगसुरावन्दितचरणविन्द श्रीकृष्णचन्द्रके
प्रभावसे पुनः जीवित हो गया; उस परीक्षितने अभिमन्युके
द्वारा उत्तराके गर्भसे जन्म लिया जो कि इस समय इस प्रकार
धर्मपूर्वक सम्पूर्ण भूमण्डलका शासन कर रहा है कि जिससे
भविष्यमें भी उसकी सम्पत्ति क्षीण न हो ॥ ५२-५३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—अब मैं भविष्यमें होनेवाले
राजाओंका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ इस समय जो
परीक्षित नामक महाराज हैं उनके जनमेजय, च्युतसेन,
उग्रसेन और भीमसेन नामक चार पुत्र होंगे ॥ २ ॥
जनमेजयका पुत्र शतानीक होगा जो याज्ञवल्क्यसे
वेदाध्ययनकर, कृपसे शस्त्रविद्या प्राप्तकर विषम विषयोंसे
विरक्तचित्त हो महर्षि शौनकके उपदेशसे आत्मज्ञानमें
निपुण होकर परमनिर्वाण-पद प्राप्त करेगा ॥ ३-४ ॥
शतानीकका पुत्र अश्वमेधदत्त होगा ॥ ५ ॥ उसके
अधिसीमकृष्ण तथा अधिसीमकृष्णके निषक्नु नामक
पुत्र होंगे जो कि गंगाजीद्वारा हस्तिनापुरके बहल ले
जानेपर कौशाम्बीपुरीमें निवास करेगा ॥ ६-८ ॥

निचक्रुका पुत्र उष्ण होगा, उष्णका विचित्ररथ,
विचित्ररथका शुचिरथ, शुचिरथका वृष्णिमान्,
वृष्णिमान्का सुषेण, सुषेणका सुनीध, सुनीधका नृप,
नृपका षक्षु, षक्षुका सुखावल, सुखावलका
पारिप्लव, पारिप्लवका भुनय, भुनयका मेधावी,
मेधावीका रिपुञ्जय, रिपुञ्जयका मृदु, मृदुका
तिग्म, तिग्मका बृहद्रथ, बृहद्रथका भुवान्,
भुवान्का दुसरा शतानीक, शतानीकका उदयन,

उदधनादहीनरस्ततश्च दण्डपाणिस्ततो
निरमित्रः ॥ १५ ॥ तस्माच्च क्षेमकः ॥ १६ ॥
अत्रार्यं श्लोकः ॥ १७ ॥

ब्रह्मक्षत्रस्य यो योनिर्वंशो राजर्विसत्कृतः ।
क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थानं प्राप्यते कर्त्वी ॥ १८ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थोऽंशे एकविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

आईसर्वा अध्याय

भविष्यमें होनेवाले इक्ष्वाकुवंशीय राजाओंका वर्णन

श्रीमत्पार उवाच

अतश्चेक्ष्वाकवो भविष्याः पार्थिवाः
कल्पन्ते ॥ १ ॥ बृहद्बलस्य पुत्रो बृहदक्षणः ॥ २ ॥
तस्मादुरुक्षयस्तस्माच्च वत्सव्यूहस्ततश्च प्रति-
व्योमस्तस्यादपि दिवाकरः ॥ ३ ॥ तस्मात्सहदेवः
सहदेवाव्यूहदश्वस्तस्मिन्भूमिमुखस्तस्य च प्रतीता-
श्वस्तस्यापि सुप्रतीकस्ततश्च मरुदेवस्ततः
सुनक्षत्रस्तस्मात्किन्नरः ॥ ४ ॥ किन्नरादन्तरिक्ष-
स्तस्मात्सुपर्णस्ततश्चामित्रजित् ॥ ५ ॥ ततश्च
बृहद्राजस्तस्यापि धर्मी धर्मिणः कृतञ्जयः ॥ ६ ॥
कृतञ्जयाद्रणञ्जयः ॥ ७ ॥ रणञ्जयास्तञ्जय-
स्तस्माच्छाक्यश्शाक्याच्छुद्धोदनस्तस्माद्बहुल-
स्ततः प्रसेनजित् ॥ ८ ॥ ततश्च क्षुद्रकस्ततश्च
कुपण्डकस्तस्मादपि सुरथः ॥ ९ ॥ तत्पुत्रश्च
सुमित्रः ॥ १० ॥ इत्येते चेक्ष्वाकवो
बृहद्बलान्वयाः ॥ ११ ॥

अत्रानुवंशश्लोकः ॥ १२ ॥

इक्ष्वाकूणामयं वंशस्सुमित्रान्तो भविष्यति ।
यस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्यति वै कर्त्वी ॥ १३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थोऽंशे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

उदधनको अहीनर, अहीनरका दण्डपाणि, दण्डपाणिक
निरमित्र तथा निरमित्रका पुत्र क्षेमक होगा। इस विषयमें
यह श्लोक प्रसिद्ध है— ॥ १५—१७ ॥

‘जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी उत्पत्तिक
कारणरूप तथा नाना राजर्वियोंसे सभाजित है वह
कलियुगमें राजा क्षेमके उत्पन्न होनेपर समाप्त हो
जायगा’ ॥ १८ ॥

श्रीमत्पारजी बोले—अथ मैं भविष्यमें होनेवाले
इक्ष्वाकुवंशीय राजाओंका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥
बृहद्बलका पुत्र बृहदक्षण होगा, उसका उरुक्षय,
उरुक्षयका वत्सव्यूह, वत्सव्यूहका प्रतिव्योम,
प्रतिव्योमका दिवाकर, दिवाकरका सहदेव,
सहदेवका बृहदश्व, बृहदश्वका यतुरथ,
यतुरथका प्रतीताश्व, प्रतीताश्वका सुप्रतीक,
सुप्रतीकका मरुदेव, मरुदेवका सुनक्षत्र,
सुनक्षत्रका किन्नर, किन्नरका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षका
सुपर्ण, सुपर्णका अमित्रजित्, अमित्रजित्का बृहद्रथ,
बृहद्रथका धर्मी, धर्मीका कृतञ्जय, कृतञ्जयका
रणञ्जय, रणञ्जयका संजय, संजयका शाक्य,
शाक्यका शुद्धोदन, शुद्धोदनका बहुल, बहुलका
प्रसेनजित्, प्रसेनजित्का क्षुद्रक, क्षुद्रकका
कुपण्डक, कुपण्डकका सुरथ और सुरथका सुमित्र
नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकुके वंशमें
बृहद्बलकी सन्तान होंगे ॥ २—११ ॥

इस वंशके सम्बन्धमें यह श्लोक प्रसिद्ध
है— ॥ १२ ॥

‘यह इक्ष्वाकुवंश राजा सुमित्रतक रहेगा,
क्योंकि कलियुगमें राजा सुमित्रके होनेपर फिर
यह समाप्त हो जायगा’ ॥ १३ ॥

तेईसवाँ अध्याय

भगध्वंशका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

भागधानां बार्हद्रशानां भाविनामनुक्रमं
कशयिष्यामि ॥ १ ॥ अत्र हि वंशे महाबल-
पराक्रमा जरासन्धप्रधाना बभूवुः ॥ २ ॥

जरासन्धस्य पुत्रः सहदेवः ॥ ३ ॥ सहदेव-
त्सोमापिस्तस्य श्रुतश्रवास्तस्याप्ययुतायुस्ततश्च
निरमित्रस्तत्तनयस्सुनेत्रस्तस्मादपि बृहत्कर्मा ॥ ४ ॥
ततश्च सेनजित्ततश्च श्रुतञ्जयस्ततो विप्रस्तस्य
च पुत्रश्शुचिनामा भविष्यति ॥ ५ ॥ तस्यापि
श्लेम्यस्ततश्च सुव्रतस्सुव्रताद्धर्मस्तत-
स्सुश्रवाः ॥ ६ ॥ ततो दृढसेनः ॥ ७ ॥
तस्मात्सुबलः ॥ ८ ॥ सुबलात्सुनीतो भविता ॥ ९ ॥
ततस्सत्यजित् ॥ १० ॥ तस्माद्विश्वजित् ॥ ११ ॥
तस्यापि रिपुञ्जयः ॥ १२ ॥ इत्येते बार्हद्रथा
भूपतयो वर्षसहस्रमेकं भविष्यन्ति ॥ १३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽंशे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—अब मैं भगधदेशीय
बृहद्रथकी भावी सन्तानका अनुक्रमसे वर्णन करूँगा ॥ १ ॥
इस वंशमें महाबलवान् और पराक्रमी जरासन्ध आदि
रजरागण प्रधान थे ॥ २ ॥

जरासन्धका पुत्र सहदेव है ॥ ३ ॥ सहदेवके
सोमापि नामक पुत्र होंगे, सोमापिके श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवाके
अयुतायु, अयुतायुके निरमित्र, निरमित्रके सुनेत्र,
सुनेत्रके बृहत्कर्मा, बृहत्कर्माके सेनजित्, सेनजित्के
श्रुतञ्जय, श्रुतञ्जयके विप्र तथा विप्रके शुचि
नामक एक पुत्र होगा ॥ ४-५ ॥ शुचिके श्लेम्य,
श्लेम्यके सुव्रत, सुव्रतके धर्म, धर्मके सुश्रवा, सुश्रवाके
दृढसेन, दृढसेनके सुबल, सुबलके सुनीत,
सुनीतके सत्यजित्, सत्यजित्के विश्वजित् और
विश्वजित्के रिपुञ्जयका जन्म होगा ॥ ६-१२ ॥
इस प्रकारसे बृहद्रथवंशीय राजागण एक
सहस्र वर्षपर्यन्त भगधर्षे शासन करेंगे ॥ १३ ॥

चौबीसवाँ अध्याय

कलियुगी राजाओं और कलिधर्मोंका वर्णन तथा राजध्वंश-वर्णनका उपसंहार

श्रीपराशर उवाच

सोऽयं रिपुञ्जयो नाम
बार्हद्रथोऽन्वयस्तस्यामात्यो सुनिको नाम
भविष्यति ॥ १ ॥ स चैनं स्वामिने हत्वा स्वपुत्रं
प्रद्योतनाभानमभिवेक्ष्यति ॥ २ ॥ तस्यापि
बलाकनामा पुत्रो भविता ॥ ३ ॥ तसश्च
विशाखयूपः ॥ ४ ॥ तत्पुत्रो जनकः ॥ ५ ॥
तस्य च नन्दिबर्द्धनः ॥ ६ ॥ ततो नन्दी ॥ ७ ॥
इत्येतेऽष्टत्रिंशदुत्तरमब्दशतं पञ्च प्रद्योताः
पृथिवीं भोक्ष्यन्ति ॥ ८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—बृहद्रथवंशका रिपुञ्जय
नामक जो अन्तिम राजा होगा उसका सुनिक नामक
एक मन्त्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुञ्जयको
मारकर अपने पुत्र प्रद्योतकका राज्याभिषेक करेगा।
उसका पुत्र बलाक होगा, बलाकका विशाखयूप,
विशाखयूपका जनक, जनकका नन्दिबर्द्धन
तथा नन्दिबर्द्धनका पुत्र नन्दी होगा। ये पाँच
प्रद्योतवंशीय मृपतिगण एक ही अष्टतीस वर्ष पृथिवीका
पालन करेंगे ॥ १-८ ॥

ततश्च शिशुनाभः ॥ १ ॥ तत्पुत्रः काकवर्णी
भविता ॥ १० ॥ तस्य च पुत्रः क्षेमधर्मा ॥ ११ ॥
तस्यापि क्षतीजाः ॥ १२ ॥ तत्पुत्रो
विधिसारः ॥ १३ ॥ ततश्चाजातशत्रुः ॥ १४ ॥
तस्मादर्भकः ॥ १५ ॥ तस्माच्चोदयनः ॥ १६ ॥
तस्मादपि च्छन्दवर्द्धनः ॥ १७ ॥ ततो
महानन्दी ॥ १८ ॥ इत्येते शैशुनाभा भूपालास्त्रीणि
वर्षशतानि द्विविधवधिकानि भविष्यन्ति ॥ १९ ॥

महानन्दिनस्ततश्शुभ्रागर्भोद्भयोऽतिरुष्योऽति-
चलो महापद्मानामा चन्दः परशुराम इवापरो-
ऽखिलक्षत्रान्तकासे भविष्यति ॥ २० ॥ ततः प्रभृति
शुभ्रा भूपाला भविष्यन्ति ॥ २१ ॥ स
चैकच्छामनुल्लङ्घितशसिनो महापद्मः पृथिवीं
भोक्ष्यते ॥ २२ ॥ तस्याप्यष्टौ सुतास्सुमाल्याद्या
भवितारः ॥ २३ ॥ तस्य महापद्मस्यानु पृथिवीं
भोक्ष्यन्ति ॥ २४ ॥ महापद्मपुत्राश्चैकं
वर्षशतमचनीपतयो भविष्यन्ति ॥ २५ ॥ ततश्च
नव चैतानन्दान् कौटिल्यो द्वाहाणस्स-
मुद्गरिव्यति ॥ २६ ॥ तेषामभावे पौर्याः पृथिवीं
भोक्ष्यन्ति ॥ २७ ॥ कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तमुत्पन्नं
रान्येऽभिधेक्ष्यति ॥ २८ ॥

तस्यापि पुत्रो विन्दुसारो भविष्यति ॥ २९ ॥
तस्याप्यशोकवर्द्धनस्ततस्सुयशास्ततश्च दशरथ-
स्ततश्च संयुतस्ततश्शालिशूकस्तस्मात्सोमशर्मा
तस्यापि सोमशर्मणश्शतधन्वा ॥ ३० ॥ तस्यापि
बृहद्रथनामा भविता ॥ ३१ ॥ एवमेते
पौर्या दश भूपतयो भविष्यन्ति अर्धशतं
सप्तत्रिंशदुत्तरम् ॥ ३२ ॥ तेषामन्ते पृथिवीं
दश शुभ्रा भोक्ष्यन्ति ॥ ३३ ॥ पुष्यमित्रस्सेना-
पतिस्स्वामिनं हत्वा रान्ये करिष्यति
तस्यात्पञ्चोऽग्निमित्रः ॥ ३४ ॥ तस्मात्सु-
ष्येष्ठस्ततो वसुमित्रस्तस्मादप्युर्दकस्ततः
पुलिन्दकस्ततो घोषवसुस्तस्मादपि वज्रमित्रस्ततो

नन्दीका पुत्र शिशुनाभ होगा, शिशुनाम्ना काकवर्णी,
काकवर्णका क्षेमधर्मा, क्षेमधर्माका क्षतीजा, क्षतीजाका
विधिसार, विधिसारका अजातशत्रु, अजातशत्रुका अर्भक,
अर्भकका उदयन, उदयनका च्छन्दवर्द्धन और
च्छन्दवर्द्धनका पुत्र महानन्दी होगा; ये शिशुनाभवंशीय
नृपतिगण तीन सौ वर्षतक वर्ष पृथिवीका शासन
करेंगे ॥ १-१९ ॥

महानन्दीके शुभ्राके गर्भसे उत्पन्न महापद्म
नामक नन्द दूसरे परशुरामके समान सम्पूर्ण क्षत्रियोंका
नाश करनेवाला होगा। तबसे शुद्धजातीय राजा
राज्य करेंगे। राजा महापद्म सम्पूर्ण पृथिवीका एकत्र
और अनुल्लंघित रान्य-शासन करेगा। उसके
सुमाली आदि आठ पुत्र होंगे जो महापद्मके
पीछे पृथिवीका राज्य धोरेंगे ॥ २०-२४ ॥ महापद्म
और उसके पुत्र सौ वर्षतक पृथिवीका शासन
करेंगे। तदनन्तर इन नवों नन्दीकी कौटिल्य नामक
एक ब्राह्मण नष्ट करेगा, उनका अन्त होनेपर
मौर्य नृपतिगण पृथिवीकी धोरेंगे। कौटिल्य ही
[मुद्रा नामकी दासीसे चन्द्ररा] उत्पन्न हुए
चन्द्रगुप्तको रान्याभिषिक्त करेगा ॥ २५-२८ ॥

चन्द्रगुप्तका पुत्र विन्दुसार, विन्दुसारका अशोकवर्द्धन,
अशोकवर्द्धनका सुयशा, सुयशाका दशरथ,
दशरथका संयुत, संयुतका शालिशूक, शालिशूकका
सोमशर्मा, सोमशर्माका शतधन्वा तथा शतधन्वाका
पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार एक सौ तिहत्तर
वर्षतक ये दस पौर्यवंशी राजा राज्य
करेंगे ॥ २९-३२ ॥ इनके अनन्तर पृथिवीमें दस
शुंगवंशीय राजागण होंगे ॥ ३३ ॥ उनमें पहला
पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामीको
मारकर स्वयं राज्य करेगा, उसके पुत्र अग्निमित्र
होगा ॥ ३४ ॥ अग्निमित्रका पुत्र सुष्येष्ठ, सुष्येष्ठका
वसुमित्र, वसुमित्रका उर्दक, उर्दकका पुलिन्दक,
पुलिन्दकका घोषवसु, घोषवसुका वज्रमित्र, वज्रमित्रका

भागवतः ॥ ३५ ॥ तस्माद्देवभूतिः ॥ ३६ ॥
इत्येते शुङ्गा द्वादशोत्तरं वर्षशतं पृथिवीं
भोक्षन्ति ॥ ३७ ॥

ततः कण्वानेषा भूर्यास्थितिः ॥ ३८ ॥ देवभूतिं
तु शुङ्गराजानं व्यसनिनं तस्यैवामात्यः
काण्वो वसुदेवनामा तं निहत्य स्वयमवनीं
भोक्षयति ॥ ३९ ॥ तस्य पुत्रो भूमित्रस्तस्यापि
नारायणः ॥ ४० ॥ नारायणात्मजसुशर्मा ॥ ४१ ॥
एते काण्वायनाश्चत्वारः पञ्चचत्वारिंशद्वर्षाणि
भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ४२ ॥

सुशर्माणं तु काण्वं तद्भृत्यो बलिपुच्छकनामा
हन्वान्भजातीयो वसुधां भोक्षयति ॥ ४३ ॥ ततश्च
कृष्णनामा तद्भ्राता पृथिवीपतिर्भविष्यति ॥ ४४ ॥
तस्यापि पुत्रः शान्तकर्णिस्तस्यापि
पूर्णोत्सङ्गस्तपुत्रश्शातकर्णिस्तस्माच्चलम्बोदर-
स्तस्माच्च पिलकस्ततो मेघस्वातिस्ततः
पट्टमान् ॥ ४५ ॥ ततश्चारिष्टकर्मा ततो
हालाहलः ॥ ४६ ॥ हालाहलात्पललकस्ततः
पुलिन्दसेनस्ततः सुन्दरस्ततश्शातकर्णिस्तत-
श्शिबस्वातिस्ततश्च गोमतिपुत्रस्तपुत्रो-
जलिमान् ॥ ४७ ॥ तस्यापि शान्तकर्णिस्ततः
शिवश्रितस्ततश्च शिवस्कन्धस्तस्मादपि
यज्ञश्रीस्ततो द्वियज्ञस्तस्माच्चन्द्रश्रीः ॥ ४८ ॥
तस्मात्पुलोमाचिः ॥ ४९ ॥ एवमेते
त्रिंशच्चत्वार्यब्दशतानि षट्पञ्चाशदधिकानि
पृथिवीं भोक्षन्ति आन्ध्रभृत्याः ॥ ५० ॥
सप्ताभीरप्रभृतयो दश गर्दभिलाश्च भूपुत्रो
भविष्यन्ति ॥ ५१ ॥ ततश्चोद्दश शका भूपतयो
भवितारः ॥ ५२ ॥ ततश्चाष्टौ यवनाश्चतुर्दश
तुरुक्कारा मुण्डाश्च त्रयोदश एकादश मौना एते
द्वौ पृथिवीपतयः पृथिवीं दशवर्षशतानि
नवत्यधिकानि भोक्षन्ति ॥ ५३ ॥

ततश्च एकादश भूपतयोऽब्दशतानि त्रीणि
पृथिवीं भोक्षन्ति ॥ ५४ ॥ तेषूत्सनेषु कैङ्किला
यवना भूपतयो भविष्यन्त्यमूर्द्धाभिधित्ताः ॥ ५५ ॥

भागवत और भागवतका पुत्र देवभूति होगा ॥ ३५-३६ ॥
ये शुंगनरेश एक सौ बारह वर्ष पृथिवीका भोग
करेंगे ॥ ३७ ॥

इसके अनन्तर यह पृथिवी कण्व भूपालीके
अधिकारमें चली जायगी ॥ ३८ ॥ शुंगवंशीय अति
व्यसनशील राजा देवभूतिको कण्ववंशीय वसुदेव नामक
दसका गनी मारकर स्वयं राज्य भोगेगा ॥ ३९ ॥ उसका
पुत्र भूमित्र, भूमित्रको नाश्रयण तथा नारायणका पुत्र
सुशर्मा होगा ॥ ४०-४१ ॥ ये चार काण्व भूपतियण
पैतस्वीस वर्ष पृथिवीके अधिपति रहेंगे ॥ ४२ ॥

कण्ववंशीय सुशर्माको उसका बलिपुच्छक नामक
आन्ध्रजातीय सेवक मारकर स्वयं पृथिवीका भोग
करेगा ॥ ४३ ॥ उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथिवीका
स्वामी होगा ॥ ४४ ॥ उसका पुत्र शान्तकर्णि होगा।
शान्तकर्णिका पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संगका शातकर्णि,
शातकर्णिका लम्बोदर, लम्बोदरका पिलक, पिलकका
मेघस्वाति, मेघस्वातिका पट्टमान्, पट्टमान्का अरिष्टकर्मा,
अरिष्टकर्माका हालाहल, हालाहलका पललक, पललकका
पुलिन्दसेन, पुलिन्दसेनका सुन्दर, सुन्दरका शातकर्णि,
[दूसरा] शातकर्णिका शिवस्वाति, शिवस्वातिका गोमतिपुत्र,
गोमतिपुत्रका अलिमान्, अलिमान्का शान्तकर्णि [दूसरा],
शान्तकर्णिका शिवश्रित, शिवश्रितका शिवस्कन्ध,
शिवस्कन्धका यज्ञश्री, यज्ञश्रीका द्वियज्ञ, द्वियज्ञका चन्द्रश्री
तथा चन्द्रश्रीका पुत्र पुलोमाचि होगा ॥ ४५-४९ ॥ इस
प्रकार ये तीस आन्ध्रभृत्य खनागण चार सौ छपन वर्ष
पृथिवीको भोगेंगे ॥ ५० ॥ इनके पीछे सात आभीर और
दस गर्दभिल राजा होंगे ॥ ५१ ॥ फिर सोलह शक राजा
होंगे ॥ ५२ ॥ इनके पीछे आठ यवन, चौदह तुर्क, तेरह
मुण्ड (गुरुण्ड) और ग्यारह मौनजातीय राजाओंका एक
हजार नव्वे वर्ष पृथिवीका शासन करेंगे ॥ ५३ ॥

इनमेंसे भी ग्यारह मौन राजा पृथिवीको तीन सौ
वर्षतक भोगेंगे ॥ ५४ ॥ इनके उच्छिन्न होनेपर कैङ्किल
नामक यवनजातीय अधिपतिराज राजा होंगे ॥ ५५ ॥

सेवामपत्यं विन्ध्यशक्तिस्ततः पुरञ्जयस्तस्माद्-
रामचन्द्रस्तस्माद्धर्मवर्मा ततो बह्वस्ततोऽभुनन्दन-
स्ततस्सुनन्दी तद्भाता नन्दियशाशुक्रः प्रवीरपुते
वर्षशतं षड्वर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ५६ ॥
ततस्तत्पुत्रास्त्रयोदशीते बाह्लिकाश्च त्रयः ॥ ५७ ॥
ततः पुष्यमित्राः पटुमित्रास्त्रयोदशीकलाश्च
सप्तान्धाः ॥ ५८ ॥ ततश्च कोशलायां तु नव चैव
भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ५९ ॥ नैषघास्तु
त एव ॥ ६० ॥

मगधायां तु विश्वस्फटिकसंज्ञोऽन्यान्वर्णा-
न्करिष्यति ॥ ६१ ॥ कैवर्त्तवटुपुलिन्द-
ब्राह्मणान्वाये स्थापयिष्यति ॥ ६२ ॥
उत्साह्याखिलक्षत्रजातिं नव नागाः पद्मावत्यां नाम
पुर्यामनुगङ्गाप्रयागं गयायाञ्च मागधा गुप्ताश्च
भोक्ष्यन्ति ॥ ६३ ॥ कोशलाभ्रपुण्ड्रात्रलिप्त-
समुद्रतटपुरीं च देवरक्षितो रक्षिता ॥ ६४ ॥
कलिङ्गमाहिषमहेन्द्रभीमान् गुह्य भोक्ष्यन्ति ॥ ६५ ॥
नैषधनैमिषककालकोशकाञ्जनपदान्मणि-
धान्यकवशा भोक्ष्यन्ति ॥ ६६ ॥ त्रैराज्यमुषिक-
जनपदान्कनकाह्वयो भोक्ष्यति ॥ ६७ ॥
सौराष्ट्रावन्तिशूद्राभीरान्मर्मदापरुभूषिष्याश्च
सात्यह्विजाभीरशूद्राद्या भोक्ष्यन्ति ॥ ६८ ॥
सिन्धुतटदाबिकोर्वाचन्द्रभागाकाश्मीरविषयाश्च
सात्यम्लेच्छशूद्रादयो भोक्ष्यन्ति ॥ ६९ ॥

एते च तुल्यकालास्सर्वे पृथिव्या भूभुजो
भविष्यन्ति ॥ ७० ॥ अल्पप्रसादा बृहत्कोपा-
स्सर्वकालमनृताधर्मरुचयः स्त्रीबालगोवधकर्तारः
परस्वादानरुचयोऽल्पसारास्तमित्त्रप्राया उदिता-
स्तमित्तप्राया अल्पायुषो महेच्छा ह्यल्पधर्मा
लुब्धाश्च भविष्यन्ति ॥ ७१ ॥ तैश्च विमिश्रा
जनपदास्तच्छ्रीलानुवर्तिनो राजाश्रयशुधिणो
म्लेच्छाश्चायाश्च विपर्ययेण वर्त्तमानाः प्रजाः
क्षययिष्यन्ति ॥ ७२ ॥

उनका वंशधर विन्ध्यशक्ति होगा। विन्ध्यशक्तिका पुत्र पुंजय
होगा। पुरंजयका रामचन्द्र, रामचन्द्रका धर्मवर्मा, धर्मवर्माका
वंग, वंगका नन्दन तथा नन्दनका पुत्र सुनन्दी होगा।
सुनन्दीके नन्दियशा, शुक्र और प्रवीर ये तीन भाई होंगे।
ये सब एक ही छः वर्षे राज्य करेंगे ॥ ५६ ॥ इसके पीछे
तेरह इनके वंशके और तीन बाह्लिक राजा होंगे ॥ ५७ ॥
उनके बाद तेरह पुष्यमित्र और पटुमित्र आदि तथा सठ
आन्ध्र माण्डलिक भूपतिगण होंगे ॥ ५८ ॥ तथा नौ राजा
क्रमशः कोस्तदेशमें राज्य करेंगे ॥ ५९ ॥ निषधदेशके स्वामी
भी ये ही होंगे ॥ ६० ॥

मागधदेशमें विश्वस्फटिक नामक राजा अन्य
वर्णोंको प्रवृत्त करेगा ॥ ६१ ॥ वह कैवर्त्त, वटु, पुलिन्द
और ब्राह्मणोंको सज्यमें नियुक्त करेगा ॥ ६२ ॥ सम्पूर्ण
क्षत्रिय-जातिको उच्छिन्न कर पथावतीपुरीमें रागागण
तथा गंगाके निकटवर्ती प्रयाग और गयामें मागध और
गुप्त राजालोग राज्य भोग करेंगे ॥ ६३ ॥ कोसल, आन्ध्र,
पुण्ड्र, तात्रलिप्त और समुद्रतटवर्तिनो पुरीकी देशरक्षिण
नामक एक राजा रक्षा करेगा ॥ ६४ ॥ कलिङ्ग, माहिष,
महेन्द्र और भीम आदि देशोंको गुह्य नरेश भोगेंगे ॥ ६५ ॥
नैषध, नैमिषक और कालकोशक आदि जनपदोंकी
मणि-धान्यक-वंशीय राजा भोगेंगे ॥ ६६ ॥ त्रैराज्य और
मुषिक देशोंपर कनक नामक राजाका राज्य होगा ॥ ६७ ॥
सौराष्ट्र, अवन्ति, शूद्र, आभीर तथा नर्मदा-तटवर्ती
परुभूमिपर ब्राह्मण द्विज, आभीर और शूद्र आदिका
आधिपत्य रहेगा ॥ ६८ ॥ समुद्रतट, दाबिकोर्वा, चन्द्रभागा
और काश्मीर आदि देशोंका ब्राह्मण, म्लेच्छ और शूद्र
आदि राजागण भोग करेंगे ॥ ६९ ॥

ये सम्पूर्ण राजालोग पृथिवीमें एक ही समयमें
होंगे ॥ ७० ॥ ये भोली प्रसन्नतावाले, अत्यन्त क्रोधी, सर्वदा
अधर्म और मिथ्या भाषणमें रुचि रखनेवाले, स्त्री-बालकां
और गौओंकी हत्या करनेवाले, पर-धन-हरणमें रुचि
रखनेवाले, अल्पशक्ति तम-प्रधान उत्थानके साथ ही
पतनशील, अल्पायु, महती कामनावाले, अल्पपुण्य और
अल्पत शोभी होंगे ॥ ७१ ॥ ये सम्पूर्ण देशोंकी फरफर
मिला देंगे तथा उन राजाओंके आश्रयसे ही बलवान् और
उन्हींके स्वभावका अनुकरण करनेवाले म्लेच्छ तब
आर्यविपरीत आवरण करते हुए सारी प्रजाको नष्ट-प्रष्ट
कर देंगे ॥ ७२ ॥

ततश्चानुदिनमल्पस्य ह्यसम्बन्धे वाद्भर्माधयो-
 र्जागतस्संरक्षयो भविष्यति ॥ ७३ ॥
 ततश्चाध एवाभिजनहेतुः ॥ ७४ ॥
 बलमेवाशेषधर्महेतुः ॥ ७५ ॥ अभिरुचिरेव
 दाम्पत्यसम्बन्धहेतुः ॥ ७६ ॥ स्वीत्वमेवोपभोग-
 हेतुः ॥ ७७ ॥ अनृतमेव व्यवहारजयहेतुः ॥ ७८ ॥
 उन्नताम्बुतैव पृथिवीहेतुः ॥ ७९ ॥ ब्रह्मासुभ्रमेव
 विप्रव्यहेतुः ॥ ८० ॥ रत्नधातुतैव श्लाघ्यता-
 हेतुः ॥ ८१ ॥ लिङ्गधारणमेवाश्रमहेतुः ॥ ८२ ॥
 अन्याय एव वृत्तिहेतुः ॥ ८३ ॥ दौर्बल्यमेवावृत्ति-
 हेतुः ॥ ८४ ॥ अभयप्रगल्भोच्चरणमेव
 पाण्डित्यहेतुः ॥ ८५ ॥ अनाद्यतैव साधुत्व-
 हेतुः ॥ ८६ ॥ स्नानमेव प्रसाधनहेतुः ॥ ८७ ॥
 दानमेव धर्महेतुः ॥ ८८ ॥ स्वीकरणमेव
 विवाहहेतुः ॥ ८९ ॥ सद्देवधार्येव पात्रम् ॥ ९० ॥
 दुरायतनोदकमेव तीर्थहेतुः ॥ ९१ ॥
 कपटवेधधारणमेव महत्त्वहेतुः ॥ ९२ ॥
 इत्येवमनेकदोषोत्तरे तु भूमण्डले सर्ववर्णेष्वेव
 यो यो बलवान्स स भूपतिर्भविष्यति ॥ ९३ ॥

एवं चतिलुब्धकराजासहाश्रीलानापनार-
 द्रोणीः प्रजास्संश्रियन्ति ॥ ९४ ॥ मधुशाक-
 मूलफलपत्रपुष्पाद्याहाराश्च भविष्यन्ति ॥ ९५ ॥
 तरुवल्कलपर्णचीरप्रावरणाश्चातिबहुप्रजाश्री-
 तवातातपस्यसहाश्च भविष्यन्ति ॥ ९६ ॥ न च
 कश्चित्तपोविंशतिवर्षाणि जीविष्यति
 अनवरतं चात्र कलिपुगे क्षयमाया-
 त्वखिल एवैव जनः ॥ ९७ ॥ श्रौते स्मार्ते च धर्मं
 विप्लवमस्थन्तमुपगते क्षीणप्राये च कलावज्ञेय-
 जगत्त्रष्टुश्वराधरासुरादिमध्यान्तरहितस्य ब्रह्म-
 मयस्यात्मरूपिणो भगवतो वासुदेवस्यांश-
 शशम्बलप्राग्निप्रधानब्राह्मणस्य विष्णुयशसो
 रुद्रेश्टगुणादिस्मन्वितः कर्त्तिकरूपी जगत्पञ्चत्वीर्य-
 सकलम्लेष्यस्युदुष्टाचरणचेतसामशेषाणा-
 मपरिच्छिन्नाशक्तिमाहात्म्यः क्षयं करिष्यति

तत्र दिन-दिन धर्म और अर्थका भौड़ा-भौड़ा कृत
 तथा क्षय होनेके कारण संसारका क्षय हो जायगा ॥ ७३ ॥
 उस समय अर्थ ही कुलीनताका हेतु होगा; बल ही सम्पूर्ण
 धर्मका हेतु होगा; पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य-सम्बन्धकी हेतु
 होगी, स्त्रीत्व ही उपभोगका हेतु होगा [अर्थात् स्त्रीकी
 जाति-कुल आदिका विचार न होगा]; मिथ्या भावण ही
 स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका हेतु होगा; जलकी सुलभता
 और सुगमता ही पृथिवीकी स्वीकृतिका हेतु होगा [अर्थात्
 पुण्यक्षेत्रादिका कोई विचार न होगा। जहाँकी जलस्थायु उत्तम
 होगी वहाँ भूमि उत्तम मानी जायगी]; यज्ञोपवीत ही
 ब्राह्मणत्वका हेतु होगा; रत्नादि धारण करना ही प्रसंसाका हेतु
 होगा; आश्रम चित्त ही आश्रमोंके हेतु होंगे; अन्याय ही
 आजीविकाका हेतु होगा; दुर्बलता ही वैकारीका हेतु होगा;
 निर्भयतापूर्वक भृष्टताके साथ बोलना ही पाण्डित्यका हेतु
 होगा, निर्धनता ही साधुत्वका हेतु होगी; स्नान ही साधनका हेतु
 होगा; दान ही धर्मका हेतु होगा; स्वीकार कर लेना ही
 विवाहका हेतु होगा [अर्थात् संस्कार आदिको अपेक्षा न कर
 पारस्परिक स्नेहबन्धन ही दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित हो
 जायगा]; भली प्रकार बन-उत्पन्न रहनेका ही सुभ्रम समझा
 जायगा; दूरदेशका बल ही तीर्थोदकत्वका हेतु होगा तथा
 लक्ष्यवेश धारण ही गौरवका कारण होगा ॥ ७४—९२ ॥ इस
 प्रकार पृथिवीमण्डलमें विविध दोषोंके फैल जानेसे सभी
 वर्णोंमें जो-जो बलवान् होगा वही-वही राजा बन बैठेगा ॥ ९३ ॥

इस प्रकार अदिलोलुप राजाओंके कर-भारको सहन
 न कर सकनेके कारण प्रजा पर्वत-कन्दराओंका
 आश्रय लेगी तथा मधु, शक, मूल, फल, पत्र और पुष्प
 आदि खाकर दिन काटेगी ॥ ९४—९५ ॥ बुझोंके पत्र और
 वल्कल ही उनके पहनने तथा ओढ़नेके कपड़े होंगे। अधिक
 सन्तानें होंगी। सब लगे शीत, वातु, घाम और धर्या आदिके
 कष्ट सहेंगे ॥ ९६ ॥ कोई भी तेईस वर्षतक जीवित न
 रह सकेगा। इस प्रकार कलिपुगमें यह सम्पूर्ण जनसमुदाय
 निरन्तर शोण होवा रहेगा ॥ ९७ ॥ इस प्रकार श्रौत
 और स्मार्तधर्मका अस्तन्त इस ही जाने तथा कलिपुगके
 प्रायः शीत जानेपर शम्बल (सम्भल) ग्रामनिवासी
 ब्राह्मणश्रेष्ठ विष्णुयशसके कर सम्पूर्ण संसारके रचयिता,
 शराधर गुरु, आदिमध्यान्तरून्य, ब्राह्मण्य, आत्मस्वरूप
 भगवान् वासुदेव अपने अंशसे अष्टस्वरूपयुक्त कर्त्तिकरूपसे
 संसारमें अवतार लेकर असीम शक्ति और माहात्म्यसे

स्वधर्मेषु चाखिलमेव संस्थापयिष्यति ॥ १८ ॥
 अनन्तरं चाश्लेषकलेरवस्पन्ने गिलावसाने विबुद्धा-
 नामिव तेषामेव जपपदानाममलस्फटिकविशुद्धा-
 मतयो भविष्यन्ति ॥ १९ ॥ तेषां च
 खीञ्चभूतानामशेषमनुष्याणां परिणतानामपि
 तत्कालकृतापत्यप्रसूतिर्भविष्यति ॥ १०० ॥
 तानि च तदपत्यानि कृतयुगानुसारीपथेव
 भविष्यन्ति ॥ १०१ ॥

अत्रोच्यते

यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यो कुरुस्पतिः ।
 एकराशौ समेध्यन्ति तदा भवति वै कृतम् ॥ १०२ ॥
 अतीता वर्त्तमानाश्च तर्क्षयानागताश्च ये ।
 एते संशेषु भूपालाः कथिता मुनिसत्तम ॥ १०३ ॥
 यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिधेचनम् ।
 एतद्दर्वसहस्रं तु ज्ञेयं पाञ्चशतुत्तरम् ॥ १०४ ॥
 सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वी दृश्येते हृदिती दिवि ।
 तथोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्येते यत्समं निशि ॥ १०५ ॥
 तेन सप्तर्षयो युक्तास्तिष्ठन्त्यद्दशतं नृणाम् ।
 ते तु पारीक्षिते काले मन्वास्वासन्द्भिजोत्तम ॥ १०६ ॥
 तदा प्रवृत्तश्च कलिर्द्वादशाब्दशतात्मकः ॥ १०७ ॥
 अदैव भगवान्विष्णोरेणो यातो दिवं द्विज ।
 वसुदेवकुलोद्भूतस्तदैवाभ्रागतः कलिः ॥ १०८ ॥
 यावत्स पादपद्याभ्यां पस्पृशोमां वसुन्धराम् ।
 तावत्पृष्ठीपरिष्वङ्गे समर्थो नाभ्यस्तकलिः ॥ १०९ ॥
 गते सनातनस्यांशे विष्णोस्तत्र भुवो दिवम् ।
 तत्त्वज सानुजो राभ्यं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ११० ॥
 विपरीतानि दुष्टानि च निमित्तानि हि पाण्डवः ।
 याते कृष्णे चकारथ स्रोऽभिषेकं परीक्षितः ॥ १११ ॥
 प्रथास्यन्ति यदा धैते पूर्वाबाहा महर्षयः ।
 तदा नन्दात्प्रभृत्पथे गतिवृद्धिं गमिष्यति ॥ ११२ ॥

सम्पन्न हो सकल म्लेच्छ, दस्यु, दुष्टाचारी तथा दुष्ट
 शिर्षीकर क्षय करेंगे और समस्त प्रजाको अपने-अपने
 धर्ममें नियुक्त करेंगे ॥ १८ ॥ इसके पश्चात् समस्त कलियुगके
 समाप्त हो जानेपर रात्रिके अन्तमें जागे हुआके सप्त
 तत्कालीन लोगोंकी बुद्धि खूब, स्फटिकधर्मिके समान
 निर्मल हो जायगी ॥ १९ ॥ उन बीजभूत समस्त मनुष्योंसे
 उनकी अधिक अवस्था होनेपर भी उस समय सनातन
 उत्पन्न हो सकेंगे ॥ १०० ॥ उनकी ये सन्तानें सत्ययुगके
 ही धर्मोंका अनुसरण करनेवाली होंगी ॥ १०१ ॥

इस विषयमें ऐसा कहा जाता है कि—जिस
 समय चन्द्रमा, सूर्य और कृष्णति पुष्यनक्षत्रमें स्थित होकर
 एक राशिपर एक साथ आवेंगे उसी समय सत्ययुगका
 आरम्भ हो जायगा * ॥ १०२ ॥

हे मुनिश्रेष्ठ! तुमसे मैं यह समस्त वंशोंके भूत, भविष्य
 और वर्तमान सम्पूर्ण राजाओंका वर्णन कर दिया ॥ १०३ ॥

परीक्षितके जन्मसे नन्दके अभिषेकतक एक हजार
 पचास वर्षका समय जानना चाहिये ॥ १०४ ॥ सप्तर्षीर्षीमें
 दो [पुलस्त्य और क्रतु] दो नक्षत्र आकाशमें पहले
 दिखायी देते हैं, उनके बीचमें रात्रिके समय जो [दक्षिणोत्तर
 रेखापर] समदेशमें स्थित [अश्विनी आदि] नक्षत्र हैं,
 उनमेंसे प्रत्येक नक्षत्रपर सप्तर्षिगण एक-एक सी वर्ष
 रहते हैं। हे द्विजोत्तम! परीक्षितके समयमें वे सप्तर्षिगण
 पञ्चानक्षत्रपर थे। उसी समय बारह सौ वर्ष प्रमाणवत्ता
 कलियुग आरम्भ हुआ था ॥ १०५—१०७ ॥ हे द्विज!
 जिस समय भगवान् विष्णुके अंशावतार भगवान् वासुदेव
 निजभामके पधारे थे उसी समय पृथिवीपर कलियुगका
 आगमन हुआ था ॥ १०८ ॥ जबतक भगवान् अपने चरण-
 कमलोंसे इस पृथिवीका स्पर्श करते रहे, तबतक पृथिवीसे
 संसर्ग करनेकी कलियुगकी हिम्मत न पड़ी ॥ १०९ ॥

सनातन पुरुष भगवान् विष्णुके अंशावतार
 श्रीकृष्णचन्द्रके स्वर्गलोक पधारनेपर आर्योंके सहित
 धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिरने अपने राज्यको छोड़
 दिया ॥ ११० ॥ कृष्णचन्द्रके अन्तर्धान हो जानेपर
 विपरीत लक्षणोंको देखकर पाण्डवोंने परीक्षितके
 राज्यपर अधिकार कर दिया ॥ १११ ॥ जिस समय
 ये सप्तर्षिगण पूर्वाबाहानक्षत्रपर जायेंगे उसी समय राजा
 नन्दके समयसे कलियुगका प्रभाव बढ़ेगा ॥ ११२ ॥

* पद्यवि प्रति अक्षरमें वर्ष जय चन्द्रशक्ति कर्कशतपर जोते हैं जो अमावास्याधर्मिके पुष्यनक्षत्रपर इन तीनों ग्रहोंका योग होने
 है, तथापि 'समेध्यन्ति' पदसे एक साथ आनेपर सत्ययुगका आरम्भ कहा है; इच्छितये उक्त समयपर अतिव्यापारोच्यं यत् ॥

यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्त्रिस्मिन्नेव तदाहनि ।
 प्रतिपन्नं कलियुगं तस्य संख्यां निबोध मे ॥ ११३
 त्रीणि लक्षाणि वर्षाणां द्विज मानुष्यसंख्यया ।
 षष्टिशतैश्च सहस्राणि भविष्यत्येव वै कलिः ॥ ११४
 शतानि तानि दिव्यानां सप्त पञ्च च संख्यया ।
 निश्शेषेण गते तस्मिन् भविष्यति पुनः कृतम् ॥ ११५
 आह्वानाः क्षत्रिया वैश्याश्शूद्राश्च द्विजसत्तम ।
 युगे युगे महत्मानिनः समतीतास्सहस्रशः ॥ ११६
 बहुत्वान्नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले ।
 पौरुषवत्पुत्रैश्च स्रग्भ्याञ्च न मया परिवर्तितम् ॥ ११७
 देवापिः पौरवो राज्ञा पुरुषैश्चेक्ष्वाकुर्वंशजः ।
 महायोगबलोपेतौ कलापग्रामसंभ्रितौ ॥ ११८
 कृते युगे त्विहगाम्य क्षत्रप्रवर्तकौ हि तौ ।
 भविष्यतो मनोर्वंशबीजभूतौ व्यवस्थितौ ॥ ११९
 एतेन क्रमयोगेन मनुपुत्रैर्वसुन्धरा ।
 कृतत्रेताद्वापराणि युगानि त्रीणि भुञ्जते ॥ १२०
 कलौ ते बीजभूता वै केचित्तिष्ठन्ति वै मुने ।
 यथैव देवापिपुरू साम्प्रतं समधिष्ठितौ ॥ १२१
 एष तूद्देशतो वंशस्तद्योक्तो भूभुजा मया ।
 निखिलो गदितुं शक्यो नैव वर्षशतैरपि ॥ १२२
 एते चान्ये च भूपाला वैरत्र क्षितिमण्डले ।
 कृतं ममत्वं मोहान्धैर्नित्यं हेयकलेचरे ॥ १२३
 कथं ममेयमक्षला मत्पुत्रस्य कथं मही ।
 भद्रंशस्येति चिन्तार्ता जग्भुरन्तमिमे नृपाः ॥ १२४
 तेभ्यः पूर्वतराश्चान्ये तेभ्यस्तेभ्यस्तथा परे ।
 भविष्याश्चैव यास्यन्ति तेषामन्ये च येऽप्यनु ॥ १२५
 विलोक्यन्नात्मजयोद्योगं यात्राव्यग्रान्ताधिपान् ।
 पुष्यप्रहासिश्शरदि हसन्तीव वसुन्धरा ॥ १२६
 मैत्रेय पृथिवीगोत्रज्ज्वालोकंश्चत्र निबोध मे ।
 धानाह धर्मध्वजिने जनकरयासितो मुनिः ॥ १२७

जिस दिन भगवान् कृष्णचन्द्र परमधामको गये थे उसी दिन कलियुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलियुगकी वर्ष-संख्या सुनो— ॥ ११३ ॥

हे द्विज। मानवी वर्षगणनाके अनुसार कलियुग तीन लाख साठ हजार वर्ष रहेगा ॥ ११४ ॥ इसके पश्चात् बारह सौ दिव्य वर्षपर्यन्त कृतयुग रहेगा ॥ ११५ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ। प्रत्येक युगमें हजारों चाहरण, शत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मागण हो गये हैं ॥ ११६ ॥ उनके बहुत अधिक संख्यामें होनेसे तथा समानता होनेके कारण कुलोंमें पुनरुक्ति हो जानेके भयसे मैंने उन सबके नाम नहीं बतलाये हैं ॥ ११७ ॥

पुरुवंशीय राजा देवापि तथा इक्ष्वाकुकुलोत्पन्न राजा पुरु—ये दोनों अत्यन्त योगबलसम्पन्न हैं और कलापग्राममें रहते हैं ॥ ११८ ॥ सत्ययुगका आरम्भ होनेपर ये पुनः मर्त्यलोकमें आकर क्षत्रिय-कुलके प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मृत्युशके शीकरूप हैं ॥ ११९ ॥ सत्ययुग, वेदा और द्वापर इन तीनों युगोंमें इसी क्रमसे मनुपुत्र पृथिवीका भोग करते हैं ॥ १२० ॥ फिर कलियुगमें दुर्गमोंसे कोई-कोई आगापी मनुसन्तानके बीजरूपसे स्थित रहते हैं जिस प्रकार कि आजकल देवापि और पुरु हैं ॥ १२१ ॥

इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राजवंशोंका यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है, इनका पूर्णतया वर्णन तो सौ वर्षमें भी नहीं किया जा सकता ॥ १२२ ॥ इस हेतु शरीरके मोहसे अन्ये हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपतिगण हो गये हैं जिन्होंने इस पृथिवीमण्डलको अपना-अपना माना है ॥ १२३ ॥ 'यह पृथिवी किस प्रकार अवलभावसे मेरी, मेरे पुत्रकी अधिपति मेरे मन्त्रकी होगी?' इसी चिन्तामें व्यथित हुए इन सभी राजाओंका अन्त हो गया ॥ १२४ ॥ इसी चिन्तामें दूरे रहकर इन सम्पूर्ण राजाओंके पूर्व-पूर्वतरवर्ती राजालोग चले गये और इसीमें मग्न रहकर आग्रही भूपतिगण भी मृत्यु-मुखमें चले जायेंगे ॥ १२५ ॥ इस प्रकार अपनेको जीतनेके लिये राजाओंको अथक उद्योग करते देखकर मनुश्चर शरत्कालीन पुष्योंके रूपमें मानी हँस रही है ॥ १२६ ॥

हे मैत्रेय! अब तुम पृथिवीके कहे हुए कुछ श्लोकोंको सुनो। पूर्वकालमें इन्हें अस्मिन् मुनिने धर्मध्वजी राजा जनकको सुनाया था ॥ १२७ ॥

पृथिव्युवाच

कथमेव नरेन्द्राणां मोक्षे बुद्धिमतामपि ।

येन फेनसधर्माणोऽव्यतिविश्वस्तत्रैतसः ॥ १२८

पूर्वमात्मजयं कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मन्त्रिणः ।

ततो भूत्यांश्च पौंगंश्च जिगीषन्ते तथ्वा रिपून् ॥ १२९

क्रमेणानेन जेष्यामो खयं पृथ्वीं ससागराम् ।

इत्यासक्तधियो मृत्युं न पश्यन्त्यविदूरगम् ॥ १३०

समुद्रावरणं याति भूमण्डलमथो वशम् ।

कियदात्मजयस्यैतन्मुक्तिरात्मजये फलम् ॥ १३१

उत्सृज्य पूर्वजा याता वां नादाद्यगतः पिता ।

तां मामतीवपूढत्वान्भेतुमिच्छन्ति पार्थिवाः ॥ १३२

मत्कृते पितृमुद्राणां धानृणां चापि विग्रहः ।

जायतेऽत्यन्तमोहेन ममत्वाद्गतचेतसाम् ॥ १३३

पृथ्वी ममेयं सकला ममैषा

मदन्वयस्यापि च शाश्वतीयम् ।

यो यो मृतो ह्यत्र बभूव राजा

कुबुद्धिरासीदिति तस्य तस्य ॥ १३४

दृष्ट्वा ममत्वाद्गतचित्तमेकं

विग्रह्य मां मृत्युवशं व्रजन्तम् ।

तस्यापु वस्तस्य कथं ममत्वं

हृद्यास्पदं मत्प्रभवं करोति ॥ १३५

पृथ्वी ममैषाशु परित्वजिनां

वदन्ति ये दूतमुखैस्सवशत्रून् ।

नराधिपास्तेषु ममातिहासः

पुनश्च मूढेषु दयाभ्युपैति ॥ १३६

श्रीपराशर उवाच

इत्येते धरणीग्रीताश्लोका मैत्रेय वैश्वरुताः ।

ममत्वं विलयं याति तपत्यकं यथा हिमम् ॥ १३७

इत्येष कथितः सम्यग्मनोर्वीशो मया तव ।

यत्र स्थितिप्रकृतस्य विष्णोरेशांशका नृपाः ॥ १३८

भृणोति य इमं भक्त्या भनोर्वीशमनुक्रमात् ।

तस्य पापमोक्षं वै प्रणश्यत्यमलात्मनः ॥ १३९

पृथिवी कहती है—अहो! बुद्धिमान् होते हुए भी इन राजाओंको यह कैसा मोह हो रहा है जिसके कारण ये बुलबुलेके समान क्षणस्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरतामें इतना विश्वास रखते हैं ॥ १२८ ॥ वे लोग प्रथम अपनेको जीतते हैं और फिर अपने पन्द्रियोंको तथा इसके अनन्तर ये क्रमशः अपने भूत्व, पुरवासी एवं शत्रुओंको जीतना चाहते हैं ॥ १२९ ॥ 'इसी क्रमसे हम समुद्रपर्यन्त हस सम्पूर्ण पृथिवीको जीत लेंगे' ऐसी बुद्धिसे मोहित हुए ये लोग अपना निकटवर्तिनी मृत्युको नहीं देखते ॥ १३० ॥ यदि समुद्रसे घिरा हुआ यह सम्पूर्ण भूमण्डल अपने वशमें हो ही जाय तो भी मनाबयकी अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है? क्योंकि मोक्ष तो मनोजयमें ही प्राप्त होता है ॥ १३१ ॥ जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गये तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गये वसी मुझको अत्यन्त मूर्खताके कारण ये राजालोग जीतना चाहते हैं ॥ १३२ ॥ जिनका चित्त ममतामय है उन पिता-पुत्र और भाइयोंमें अत्यन्त मोहके कारण मेरे ही लिये परस्पर कलह होता है ॥ १३३ ॥ जो-जो राजालोग यहाँ हो चुके हैं उन सभीको ऐसी कुबुद्धि रही है कि वह सम्पूर्ण पृथिवी मेरी ही है और मेरे पीछे यह कदा मेरी सन्तानकी ही रहेगी ॥ १३४ ॥ इस प्रकार मेरेमें भ्रमता करनेवाले एक राजाको, मुझे छोड़कर मृत्युके मुखमें जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उल्टा उत्तराधिकारी अपने हृदयमें मेरे लिये ममताको स्थान देता है? ॥ १३५ ॥ जो राजालोग दूतोंके द्वारा अपने शत्रुओंसे इस प्रकार कहलाते हैं कि 'यह पृथिवी मेरी है, तुमलोग इसे तुरन्त छोड़कर चले जाओ' उनपर मुझे बड़ा हैसों आती है और फिर उन मूढ़ोंपर मुझे दया भी आ जाती है ॥ १३६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! पृथिवीके कई हुए इन श्लोकोंको जो पुरुष धुनेगा उसकी भ्रमता इसी प्रकार लीन हो जायगी जैसे सूर्यके तपते समय बर्फ पिघल जाता है ॥ १३७ ॥ इस प्रकार भी तुमसे भली प्रकार मनुके वंशका वर्णन कर दिया। जिस वंशके राजागण स्थितिकारक भगवान् विष्णुके अंशके अंश थे ॥ १३८ ॥ जो पुरुष हस मनुवंशका क्रमशः श्रवण करत्य है उस शुक्यात्माके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १३९ ॥

धनधान्यदिग्भित्तुलां प्राप्नोत्यस्याहतेन्द्रियः ।
 श्रुत्वैवमखिलं वंशं प्रशस्तं शशिसूर्ययोः ॥ १४०
 इक्ष्वाकुजन्तुमान्धातुसगराविक्षितानघ्नून् ।
 यथातिमद्वाद्यांश्च ज्ञात्वा निष्ठाभुपागतान् ॥ १४१
 महाबलान्महावीर्यानिनन्तधनसञ्चयान् ।
 कृतान्कालेन बलिना कथञ्चोषानराधिपान् ॥ १४२
 श्रुत्वा न पुत्रदारादीं गृहक्षेत्रादिके तथा ।
 इत्यादीं वा कृतप्रज्ञो ममत्वं कुरुते नरः ॥ १४३
 तप्तं तपो यैः पुरुषप्रवीर-

रुद्वाहुभिर्वर्षगणाननेकान् ।

इष्ट्वा सुयज्ञैर्व्यतिनोऽतिवीर्याः

कृता नु कालेन कथावशेषाः ॥ १४४

पृथुस्समस्तान्विचचारलोकान्-

नव्याहतो यो विजितारिचक्रः ।

स कालवाताभिहतः प्रणष्टः

क्षिप्तं यथा शास्त्रभलितूलमग्नी ॥ १४५

यः कार्तवीर्यो बुभुजे समस्ता-

न्दीपान्समाक्रम्य हतारिचक्रः ।

कथाप्रसङ्गेष्वभिधीयमान-

स्स एव सङ्कल्पविकल्पहेतुः ॥ १४६

दशाननाविक्षितराजवाणा-

मैश्वर्यमुद्भासितदिङ्मुखानाम् ।

भस्मापि शिष्टं न कश्च क्षणेन

भूभङ्गपातेन धिगन्तकस्य ॥ १४७

कथाशरीरत्समवाप यद्वै

मान्धातुनामा भुवि चक्रवर्ती ।

श्रुत्वापि तत्को हि करोति साधु-

र्ममत्वमात्मन्यपि मन्दचेताः ॥ १४८

भगीरथाद्यास्सगरः ककुत्स्थो

दशाननो राघवलक्ष्मणौ च ।

युधिष्ठिराद्याश्च बभूवुरेते

सत्यं न मिथ्या क्वचु ते न विद्याः ॥ १४९

जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर दूर्य और चन्द्रमालके
 इन प्रशंसनीय वंशोंका सम्पूर्ण वर्णन सुनवा है,
 वह अतुलित धन-धान्य और सम्पत्ति प्राप्त करता
 है ॥ १४० ॥ महाबलवान्, महावीर्यशाली, अनन्त धन
 संचय करनेवाले तथा परम निष्ठावान् इक्ष्वाकु, जन्तु,
 मान्धाता, सगर, अविक्षित, रघुवंशीय राजागण तथा
 नहुव और ययाति आदिके शरिर्त्रोंको सुनकर, जिन्हें
 कि कालने आज कथामात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान्
 मनुष्य पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र और धन आदिमें ममता
 न धरेगा ॥ १४१-१४३ ॥

जिन पुरुषश्रेष्ठोंने ऊर्ध्ववानु होकर अनेक वर्षपर्यन्त
 कठिन तपस्या की थी तथा विभिन्न प्रकारके यज्ञोंका
 अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान् और
 वीर्यशाली राजाओंको कालने केवल कथामात्र ही
 छोड़ दी है ॥ १४४ ॥ जो पृथु अपने शत्रुसमूहको
 जीतकर स्वच्छन्द-गतिसे समस्त लोकोंमें विचरता था
 आज वही काल-वायुकी प्रेरणाले अग्निमें फेंके हुए
 सेमरकी रूपके ढेरके समान नष्ट-धष्ट हो गया
 है ॥ १४५ ॥ जो कार्तवीर्य अपने शत्रु-मण्डलका संहारकर
 समस्त द्वीपोंको वशीभूतकर उन्हें भोगता था वही
 आज कथा-प्रसंगसे वर्णन करते समय टसटा संकल्प-
 विकल्पका हेतु होता है [अर्थात् उसका वर्णन करते
 समय यह मन्दह होता है कि वास्तवमें यह हुआ था
 या नहीं] ॥ १४६ ॥ समस्त दिशाओंको देदीप्यमान
 करनेवाले रावण, अविक्षित और रामचन्द्र आदिके
 [क्षणभंगुर] ऐश्वर्यको धिक्कार है। अन्यथा कालके
 क्षणिक कटाक्षमात्रके कारण आज उसका भस्ममात्र
 भी क्यों नहीं बच सका? ॥ १४७ ॥ जो मान्धाता
 सम्पूर्ण भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट् था आज उसका
 केवल कथामें ही पता चलता है! ऐसा कौन मन्दबुद्धि
 होगा जो यह सुनकर अपने शरीरमें भी ममत्त्व करेगा?
 [किर पृथिवी आदिमें ममता करनेकी तो बात ही
 क्या है?] ॥ १४८ ॥ भगीरथ, सगर, ककुत्स्थ, रावण,
 रामचन्द्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले के गये
 हैं यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या
 नहीं है; किन्तु अब वे कहीं हैं इसका हमें पता
 नहीं ॥ १४९ ॥

ये साम्प्रतं ये च नृपा भविष्याः
 प्रोक्ता मया विप्रवरोग्रहीर्याः ।
 एते तथाप्ये च तथाभिधेयाः
 सर्वे भविष्यन्ति यथैव पूर्वे ॥ १५० ॥
 एतद्विदित्वा न नरेण कार्यं
 ममत्वमात्मन्यपि पण्डितेन ।
 तिष्ठन्तु तावत्तनयात्मजाद्याः
 क्षेत्रादयो ये च शरीरिणोऽन्ये ॥ १५१ ॥

हे विप्रवर! वर्तमान और भविष्यत्कालीन विम-
 जिन महावीर्यशाली राजाओंका मैंने वर्णन किया है वे
 तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओंकी भाँति कथामत्र
 शेष रहेंगे ॥ १५० ॥

ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा
 अन्य प्राणी तो अलग रहें, बुद्धिमान् मनुष्यको अपने
 सरोरमें भी ममता नहीं करना चाहिये ॥ १५१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थोऽशौ चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरमहर्षिर्णायके श्रीमति
 विष्णुमहापुराणे चतुर्थोऽशः समाप्तः ।

श्रीविष्णुपुराण

पञ्चम अंश

पहला अध्याय

धसुदेव-देवकीका विवाह, भारपीडिता पृथिवीका देवताओंके सहित क्षीरसमुद्रधर जाना और भगवान्का प्रकट होकर उसे धैर्य बंधाना, कृष्णावतारका उपक्रम

श्रीमैत्रेय उवाच

नृपाणां कथितस्सर्वो भवता अंशविस्तरः ।
वंशानुचरितं चैव यथावत्तनुवर्णितम् ॥ १
अंशावतारो ब्रह्मर्षे योऽयं यदुकुलोद्भवः ।
विष्णोस्तं विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ २
चकार चानि कर्माणि भगवान्पुरुषोत्तमः ।
अंशांशेनावतीर्थोर्व्यां तत्र तामि मुने चक्षुः ॥ ३

श्रीपरस्मर उवाच

मैत्रेय श्रुत्वामेतच्छात्पुष्टोऽहमिह त्वया ।
विष्णोरंशांशसम्भूतिचरितं जगतो हितम् ॥ ४
देवकस्य सुतां पूर्वं वसुदेवो यद्वामुने ।
उषयेमे महाभागां देवकीं देवतोपमाप् ॥ ५
कंसस्तद्योर्वरशं चोदयामास सारथिः ।
वसुदेवस्य देवक्याः संयोगे भोजनन्दनः ॥ ६
अधान्तरिक्षे वागुज्ज्वैः कंसमाभाष्य सादरम् ।
मेघगम्भीरनिर्घोषं समाभाष्येदमब्रवीत् ॥ ७
यामेतां वहसे मूढ सह भर्त्रा रथे स्थिताम् ।
अस्यास्तवाष्टमो गर्भः प्राणानपहरिष्यति ॥ ८

श्रीपरस्मर उवाच

इत्याकर्ण्य समुत्पाद्य खड्गं कंसो मश्वलः ।
देवकीं हन्तुमारब्धो वसुदेवोऽब्रवीदिदम् ॥ ९

श्रीमैत्रेयजी बोले— भगवन् । अपने राजाओंके सम्पूर्ण वंशोंका विस्तार तथा उनके चरित्रोंका क्रमशः यथावत् वर्णन किया ॥ १ ॥ अब, हे ब्रह्मर्षे ! यदुकुलमें जो भगवान् विष्णुका अंशावतार हुआ था, उसे मैं तत्त्वतः और विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ हे मुने ! भगवान् पुरुषोत्तमने अपने अंशांशसे पृथिवीपर अवतारण होकर जो-जो कर्म किये थे, उम सबका आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥

श्रीपरशरजी बोले— हे मैत्रेय । मुझे मुझसे जो पूछा है वह संसारमें परम मंगलकारी भगवान् विष्णुके अंशावतारका चरित्र सुनो ॥ ४ ॥ हे महामुने । पूर्वकालमें देवकीकी महाभाग्यशालिनी पुत्री देवीस्वरूपा देवकीके साथ वसुदेवजीने विवाह किया ॥ ५ ॥ वसुदेव और देवकीके वैवाहिक सम्बन्ध होनेके अनन्तर [विदा होते समय] भोजनन्दन कंस सारथि बनकर उन दोनोंका शङ्कलक रथ हाँकने लगा ॥ ६ ॥ उसी समय मेघके समान गम्भीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंसकी ऊँचे स्वरसे सम्बोधन करने लगी— ॥ ७ ॥ "अरे मूढ़ ! पतिके साथ रथपर बैठी हुई जिस देवकीको तू लिसे जा रहा है इसका आठवाँ गर्भ तैरे प्राण हर लेगा" ॥ ८ ॥

श्रीपरशरजी बोले— यह सुनते ही महाबली कंस [म्यानसे] खड्ग निखलकर देवकीकी भद्रतैके लिये उलट हुआ । उम वसुदेवजी यों कहने लगे— ॥ ९ ॥

न हन्तास्या महाभाग देवकी भवतानघ ।
समर्पयिष्ये सकलान्यर्भानस्योदरोद्भवाम् ॥ १०

श्रीपराशर उवाच

तथैत्याह ततः कंसो वसुदेवं द्विजोत्तम ।
न घातयामास च तां देवकीं सत्यगौरवात् ॥ ११
एतस्मिन्नेव काले तु भूरिभारावपीडिता ।
जगाम धरणीं मेरीं समाजं त्रिदिवीकसाम् ॥ १२
सब्रह्मकान्सुरान्सर्वान्प्रणिपत्याथ मेदिनी ।
कथयामास तत्सर्वं खेदात्करुणभाषिणी ॥ १३

भूमिस्त्वाच

अग्निस्सुवर्णस्य गुरुर्गवां सूर्यः परो गुरुः ।
ममाप्यखिललोकानां गुरुर्नारायणो गुरुः ॥ १४
प्रजापतिपतिर्ब्रह्मा पूर्वेषामपि पूर्वजः ।
कृष्णकृष्णवर्णनिषेधात्मा कालश्चक्रव्यक्तपूर्तिमान् ॥ १५
तदंशभूतस्सर्वेषां समूहो वस्सुरोत्तमाः ॥ १६
आदित्य मरुतस्साध्या रुद्र यस्वशिवश्चनयः ।
पितरो ये च लोकानां स्रष्टारोऽग्निपुरोगमाः ॥ १७
एते तस्याप्रमेयस्य विष्णो रूपं महात्मनः ॥ १८
यक्षराक्षसदैतेयपिशाचोरगहानवाः ।
गन्धर्वाप्सरसश्चैव रूपं विष्णोर्महात्मनः ॥ १९
ग्रहर्क्षितारकाचित्रगगनाग्निजलानिलाः ।
अहं च विषयाहृद्यैव सर्वं विष्णुमयं जगत् ॥ २०
तथाप्यनेकरूपस्य तस्य रूपाण्यहर्निशम् ।
बाधयथाधकतां यान्ति कल्लोला इव सागरे ॥ २१
तत्साम्प्रतमयी दैत्याः कालनेमिपुरोगमाः ।
मर्त्यलोकां समाक्रम्य बाधन्तेऽहर्निशं प्रजाः ॥ २२
कालनेमिर्हृतो योऽसी विष्णुना प्रभविष्णुना ।
उग्रसेनसुतः कंसस्सम्भूतस्स महासुरः ॥ २३
अरिष्टो धेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा ।
सुन्धोऽसुरस्तथासुप्रे बाणश्चापि बलेस्सुतः ॥ २४
तथान्ये च महावीर्या नृपाणां भवनेषु ये ।
समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान् संख्यातुमुत्सहे ॥ २५

“हे महाभाग! हे अनघ! आप देवकीका वध न करें; मैं इसके गर्भसे उत्पन्न हुए सभी बालकों आपको ‘सौंप दूँगा’ ॥ १० ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विजोत्तम! तब सायंके गौरवसे कंसने वसुदेवजीसे ‘बहुत अच्छा’ कह देवकीका वध नहीं किया ॥ ११ ॥ इसी समय अत्यंत भारसे पीड़ित होकर पृथिवी [गौका रूप धारणकर] सुमेरुपर्वतपर देवताओंके दलमें गयी ॥ १२ ॥ वहाँ उसने ब्रह्मजीके सहित समस्त देवताओंके प्रणामकर खेदपूर्वक करुणस्वरसे योसती हुई अपना सारा वृत्तान्त कहा ॥ १३ ॥

पृथिवी बोली—जिस प्रकार अग्नि सुवर्णका तथा सूर्य गौ (किरण)—समुत्तका परमगुरु है, उर्ध्व प्रस्वर सम्पूर्ण लोकोंके गुरु श्रीनारायण मेरे गुरु हैं ॥ १४ ॥ वे प्रजापतियोंके पति और पूर्वजोंके पूर्वज ब्रह्मजी हैं तथा ये ही कला-काष्ठा-निषेध-स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान् काल हैं। हे देवश्रेष्ठगण! आप सब लोगोंका समूह भी उन्हाँके अंशस्वरूप है ॥ १५-१६ ॥ आदित्य, मत्स्यगण, साध्यगण, रुद्र, यसु, अग्नि, पितृगण और अग्नि आदि प्रजापतिगण—ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णुके ही रूप हैं ॥ १७-१८ ॥ यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गन्धर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णुके ही रूप हैं ॥ १९ ॥ ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणोंसे चिभ्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इन्द्रिके सम्पूर्ण विषय—यह सारा जगत् विष्णुमय ही है ॥ २० ॥ तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णुके ये रूप समूहकी करंगोंके समान रात-दिन एक-दूसरेके बाध्य-बाधक होते रहते हैं ॥ २१ ॥

इस समय कालनेमि आदि दैत्यगण पर्वतलोकपर अधिकार जमाकर अहर्निश जनताको क्लेशित कर रहे हैं ॥ २२ ॥ जिस कालनेमिकी सामर्थ्यवान् पाश्वर विष्णुने मारा था, इस समय वही उग्रसेनके पुत्र महान् असुर कंसके रूपमें उत्पन्न हुआ है ॥ २३ ॥ अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलम्ब, नरक, सुन्ध, बलिबल पुत्र आदि भयंकर बाणासुर तथा और भी जे महाबलवान् दुरात्मा राक्षस राजाओंके घरमें उत्पन्न हो गये हैं इनकी मैं गणना नहीं कर सकती ॥ २४-२५ ॥

अक्षीहिण्योऽत्र बहुला दिव्यमूर्तिधरास्मुराः ।
 पद्मबलानां दृप्तानां दैत्येन्द्राणां भयोपरि ॥ २६
 तद्भूरिभारपीडात्तां न शक्नोम्यमरेश्वराः ।
 विभर्तुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि यः ॥ २७
 क्रियतां तन्महाभागा भय भारावतारणम् ।
 यथा रसातलं नाहं गच्छेद्यमतिविह्वला ॥ २८
 इत्याकण्डर्व्य शराबाह्व्यमशेषैरिन्द्रदशेश्वरैः ।
 भुञ्जो भारवतारार्थं ब्रह्मा प्राह प्रचोदितः ॥ २९

ब्रह्मोवाच

यथाह वसुधा सर्वं सत्त्वमेव दिव्यीकसः ।
 अहं भवो भवन्तश्च सर्वे नारायणात्मकाः ॥ ३०
 विभूतयश्च यास्तस्य तामामेव परस्परम् ।
 आधिक्यं न्यूनता बाध्यबाधकत्वेन वर्तते ॥ ३१
 तदागच्छत गच्छाम क्षीराब्धेस्तटमुत्तमम् ।
 तत्राराध्य हरिं तस्मै सर्वं विज्ञापयाम वै ॥ ३२
 सर्वशैव जगत्स्यै स सर्वात्मा जगन्मयः ।
 सत्त्वाग्नेनावतीर्ष्वीर्ष्या धर्मस्य कुरुते स्थितिम् ॥ ३३

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा प्रथमौ तत्र सह देवैः पितामहः ।
 समाहितमनाश्चैवं तुष्टाव गरुडध्वजम् ॥ ३४

ब्रह्मोवाच

हे विद्यो त्वमनाम्नाय परा चैवापरा तथा ।
 त एव भवतो रूपे मूर्तामूर्तात्मिके प्रभो ॥ ३५
 हे ब्रह्मणी त्वणीयोऽतिस्थूलात्मसर्वं सर्ववित् ।
 शब्दब्रह्म परं शैव ब्रह्म ब्रह्ममयस्य यत् ॥ ३६
 ऋग्वेदसर्वं यजुर्वेदसामवेदस्यधर्वणः ।
 शिक्षा कल्पे निरुक्तं च चन्द्रे च्यौतिशमेव च ॥ ३७
 इतिहासपुराणे च तथा व्याकरणं प्रभो ।
 यीमांसा न्यायशास्त्रं च धर्मशास्त्राण्यधोक्ष्व ॥ ३८
 आत्मात्मदेहगुणवद्विचाराचारि च्छुभः ।
 तदप्याद्यपते नान्यदध्यात्मात्मस्वरूपवत् ॥ ३९

हे दिव्यमूर्तिधारी देवगण! इस समय मेरे ऊपर मल्लखलपान् और गर्भाले दैत्यराजोंकी अनेक अक्षीहिणी सेनाएँ हैं ॥ २६ ॥ हे अमरेश्वरो! मैं आपलोगोंको यह बतलाये देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यन्त भारसे पीड़ित होकर अपनेको धारण करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ ॥ २७ ॥ अतः हे महाभागगण! आपलोग मेरे भार उतारनेका अब कोई ऐसा उपाय कौञ्चिये जिससे मैं अत्यन्त व्याकुल होकर रसातलको न चली जाऊँ ॥ २८ ॥

पृथिवीके इन वान्धवोंको सुनकर उसके भार उतारनेके विषयमें समस्त देवताओंकी प्रेरणासे भगवान् ब्रह्मजीने कहना आरम्भ किया ॥ २९ ॥

ब्रह्मजी बोले—हे देवगण! पृथिवीने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य ही है, वास्तवमें मैं, शंकर और आप सब लोग नारायणस्वरूप ही हैं ॥ ३० ॥ उनकी जो-जो विभूतियाँ हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता से बाध्य तथा बाधकरूपसे रहा करती है ॥ ३१ ॥ इसलिये आज्यो, अब हमलोग क्षीरसागरके पवित्र तटपर चलें, वहाँ श्रीहरिकी आराधना कर यह सम्पूर्ण ब्रह्मानन्द उनसे निवेदन कर दें ॥ ३२ ॥ ये विश्वरूप सर्वात्मा सर्वथा संसारके हितके लिये ही अपने शूद्र सत्त्वांशसे अवतीर्ण होकर पृथिवीमें धर्मकी स्थापना करते हैं ॥ ३३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा कहकर देवताओंके सहित पितामह ब्रह्मजी वहाँ गये और एकाग्रचित्तसे श्रीगरुडध्वज भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ ३४ ॥

ब्रह्मजी बोले—हे वेदवाणीके अगोचर प्रभो! परा और अपरा—ये दोनों विद्याएँ आप ही हैं। हे नाथ! ये दोनों आपहीके पूर्व और अमूर्त रूप हैं ॥ ३५ ॥ हे अत्यन्त सूक्ष्म! हे विराट्स्वरूप! हे सर्व! हे सर्वज्ञ! ऋग्वेद और परब्रह्म—ये दोनों आप ब्रह्ममयके ही रूप हैं ॥ ३६ ॥ आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अधर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष्-शास्त्र हैं ॥ ३७ ॥ हे प्रभो! हे अधोक्ष्व! इतिहास, पुराण, व्याकरण, यीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र—ये सब भी आप ही हैं ॥ ३८ ॥

हे आद्यपते! जीवत्मा, परमात्मा, स्थूल-सूक्ष्म-देह तथा उनका धारण अय्यक्त—इन सबके विचारसे युक्त जो अन्धरात्र और परमात्माके स्वरूपका शोधक [तत्त्वमसि] वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है ॥ ३९ ॥

त्वमव्यक्तमनिर्देश्यमचिन्त्यामामवर्णवत् ।

अपाणिपादरूपं च शुद्धं नित्यं परात्मरम् ॥ ४०

शृणोष्वकर्णः परिपश्यसि त्व-

मचक्षुरेको बहुरूपरूपः ।

अपादहस्तो जघनो ग्रहीता

त्वं वेत्सि सर्वं न च सर्ववेद्यः ॥ ४१

अणोरणीयांसमसत्स्वरूपं

त्वां पश्यतोऽज्ञाननिवृत्तिरग्रथा ।

धीरस्य धीरस्य विभक्तिं नान्य-

द्वरेण्यरूपात्परतः परात्मन् ॥ ४२

त्वं विश्वनाभिर्भुवनस्य गोप्ता

सर्वाणि भूतानि त्वान्तराणि ।

यद्भूतभयं यदणोरणीयः

पुमांस्त्वमेकः प्रकृतेः परस्तात् ॥ ४३

एकश्चतुर्धा भगवान्दुताशो

वचोविभूतिं जगतो ददासि ।

त्वं विश्वतश्चक्षुस्नन्तमूर्ते

श्रेष्ठा पदं त्वं निदधासि धातः ॥ ४४

यथाग्निरेको बहुधा समिध्यते

विकारभेदैरविकाररूपः ।

तथा भवान्सर्वगतीकरूपी

रूपाण्यशेषाण्यनुपुष्यतीश ॥ ४५

एकं त्वमग्र्यं परमं पदं य-

त्पश्चान्तिं त्वां सूर्यो ज्ञानदृश्यम् ।

त्वन्तो नान्यत्किञ्चिदस्ति स्वरूपं

यद्वा भूतं यच्च भर्त्स्यं परात्मन् ॥ ४६

व्यक्तप्रव्यक्तस्वरूपस्त्वं समष्टिव्यष्टिरूपवान् ।

सर्वज्ञस्सर्वचित्सर्वशक्तिज्ञानबलद्विभान् ॥ ४७

अन्यूनश्चाध्यवृद्धिश्च स्वाधीनो नदिमान्स्त्री ।

कलमतन्द्राभयक्तोऽधकामादिभिरसंयुतः ॥ ४८

भिरवद्याः परः प्राप्तेर्निरधिष्ठोऽक्षरः क्रमः ।

सर्वेश्वरः पराधातो धाम्नां धामात्मकोऽक्षयः ॥ ४९

आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य, नाप-
वर्णसे रहित, ह्यध-पात्र तथा रूपसे हीन, मुक्त,
सनातन और परसे भी पर है ॥ ४० ॥ आप कर्णहीन
होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक
होकर भी अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं, हस्त-
पादादिसे रहित होकर भी बड़े लेगशाली और प्रभम
करनेवाले हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सबको
जाननेवाले हैं ॥ ४१ ॥ हे परात्मन्! जिस भीर पुरुषकी
बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूपसे पृथक् और कुछ भी
नहीं देखती, आपके अणुसे भी अणु और
पुत्र्य-स्वरूपको देखनेवाले उस पुरुषकी आत्यन्तिक
अज्ञाननिवृत्ति हो जाती है ॥ ४२ ॥ आप विश्वके
केन्द्र और त्रिभुवनके रक्षक हैं; सम्पूर्ण भूत आकाशमें
स्थित हैं तथा जो कुछ भूत, भविष्यत् और
अणुसे भी अणु है वह सब आप प्रकृतिसे परे
एकमात्र परमपुरुष ही हैं ॥ ४३ ॥ आप ही चा
प्रकारका अग्नि होकर संसारको तेज और विभूति
दान करते हैं। हे अनन्तमूर्ते! आपके नेत्र सब
ओर हैं। हे धातः! आप ही [त्रिविक्रमावतारमें]
तीनों लोकमें अपने तीन पग रखते हैं ॥ ४४ ॥ हे ईश!
जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विष्णु
होकर नाना प्रकारसे प्रखलित होता है, उसी प्रकार
सर्वगतरूप एक आप ही अनन्त रूप धारण कर
लेते हैं ॥ ४५ ॥ एकमात्र जो श्रेष्ठ परमपद है; वह
आप ही हैं, ज्ञानी पुरुष ज्ञानदृष्टिसे देखे जाने-
योग्य आपकी ही देखा करते हैं। हे परात्मन्!
भूत और भविष्यत् जो कुछ स्वरूप है वह आपसे
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ॥ ४६ ॥ व्य-
प्यक्त और अव्यक्तस्वरूप हैं, समष्टि और व्यष्टिरूप
हैं तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान्
एवं सम्पूर्ण ज्ञान, शक्त और ऐश्वर्यसे युक्त हैं ॥ ४७ ॥
आप स्वस और बुद्धिसे रहित, स्वाधीन, अन्धी
और जितेन्द्रिय हैं तथा आपके अन्दर श्रम, तन्दी,
भय, क्रोध और काम आदि नहीं हैं ॥ ४८ ॥
आप अनिन्द्र, अप्राप्य, निराधार और अव्याहत
गति हैं, आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादिके
आश्रय तथा सूर्यादि तैजोके तेज एवं अकिन्ध्र्य हैं ॥ ४९ ॥

सकलाक्षरणातीत निरालम्बनभावन ।
महाविभूतिसंस्थान नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ ५० ॥
वाकारणात्कारणाद्वा कारणाकारणान् च ।
शरीरग्रहणं चापि धर्मत्रापाय केवलम् ॥ ५१ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्येवं संस्तवं श्रुत्वा मनसा भगवान्जगः ।
ब्रह्माणमाह प्रीतेन विश्वरूपं प्रकाशयन् ॥ ५२ ॥

श्रीभगवानुवाच

भो भो ब्रह्मंस्त्वया मनस्सह देवैर्वदिष्यते ।
तदुच्चतामशेषं च सिद्धमेकावधार्यताम् ॥ ५३ ॥

श्रीपराशर उवाच

ततो ब्रह्मा हरेर्दिष्यं विश्वरूपमयेक्ष्य तत् ।
तुष्टाव भूयो देवेषु साधवसावनतात्मसु ॥ ५४ ॥

ब्रह्मोवाच

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः
सहस्रबाहो बहुवक्त्रपाद ।

नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति-
विनाशसंस्थानकराप्रमेय ॥ ५५ ॥

सूक्ष्मातिसूक्ष्मातिबृहत्प्रमाण
शरीयसामप्र्यतिगौरवात्मन् ।

प्रधानबुद्धीन्द्रियवत्प्रधान-
मूलात्परात्मन्भगवन्प्रसीद ॥ ५६ ॥

एषा मही देव महीप्रसूतै-
र्महासुरैः पीडितशीलाबन्धा ।

परायणां त्वां जगतामुपैति
भारावतारार्थमपारसार ॥ ५७ ॥

एते अथ वृत्ररिपुस्तथाव
नासत्यदंष्ट्रौ वरुणास्तथैव ।

इमे च रुद्रा वसवस्सूर्या-
स्समीरणाग्निप्रमुखास्तथान्ये ॥ ५८ ॥

सुरास्समस्तास्सुरनाथ कार्य-
मेभिर्मया यच्च तदीश सर्वम् ।

आज्ञापयान्तां परिपालयन्त-
स्तथैव तिष्ठाम सदास्तद्वोषाः ॥ ५९ ॥

आप समस्त आवरणशून्य, असहायिके शालक
और सम्पूर्ण महाविभूतियोंके आधार हैं, हे पुरुषोत्तम!
आपको नमस्कार है ॥ ५० ॥ आप किसी कारण, अकारण
अथवा कारणकारणसे शरीर-ग्रहण नहीं करते, बल्कि
केवल धर्म-रक्षाके लिये ही करते हैं ॥ ५१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार स्तुति सुनकर
भगवान् अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए
ब्रह्माजीसे प्रसन्नचित्तसे कहने लगे ॥ ५२ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे ब्रह्मन्! देवताओंके सङ्गित
शुभको भुङ्गसे जिस वस्तुकी इच्छा हो वह सब कहो
और उसे सिद्ध हुआ ही समझो ॥ ५३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब श्रीहरिके उस दिव्य
विश्वरूपको देखकर क्षणस्त देवताओंके भयसे विनीत
हो जानेपर ब्रह्माजी पुनः स्तुति करने लगे ॥ ५४ ॥

ब्रह्माजी बोले—हे सहस्रयाहो! हे अनन्तमुख
एवं चरणपालो! आपको हजारों बार नमस्कार हो।
हे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करनेवाले! हे
अप्रमेय! आपको शरणागार नमस्कार हो ॥ ५५ ॥
हे भगवन्! आप सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, गुरुसे भी गुरु
और अति बृहत् प्रमाण हैं, तथा प्रधान (प्रकृति)
महत्तत्त्व और अहंकारदिमें प्रधानभूत मूल पुरुषसे
भी परे हैं; हे भगवन्! आप हयपर प्रसन्न
होइये ॥ ५६ ॥ हे देव! इस पृथिवीके गर्गतस्वी
मूलबन्ध इसपर उत्पन्न हुए भवान् असुरोंके
उत्पन्नसे शिथिल हो गये हैं। अतः हे अपरिमितवीर्य!
यह संसारका भार उतारनेके लिये आपकी
शरणमें आमी है ॥ ५७ ॥ हे सुरनाथ! हम और यह
इन्द्र, अश्विनीकुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण,
जंबुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य
समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं, इन्हें अथवा मुझे
जो कुछ करना उचित हो उन सब बातोंके लिये
आज्ञा कीजिये। हे ईश! आपहीकी आज्ञाका
पालन करते हुए हम सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त हो
सकेंगे ॥ ५८-५९ ॥

श्रीपराशर उवाच

एवं संस्तुयमानस्तु भगवान्परमेश्वरः ।
 दग्धहारात्मनः केशी सितकृष्णी महामुने ॥ ६० ॥
 उवाच च सुरानेती मत्केशौ वसुधातले ।
 अवतीर्य भुङ्क्ते भारकलेशहानिं करिष्यतः ॥ ६१ ॥
 सुराश्च सकलास्त्वांशैरवतीर्य महोत्तले ।
 कुर्वन्तु युद्धमुन्मत्तैः पूर्वोत्पन्नैर्महासुरैः ॥ ६२ ॥
 ततः श्रयमशेषास्ते देतेषा धरणीतले ।
 प्रयास्यन्ति न सन्देहो मदद्वेषात्सिद्धिर्णिताः ॥ ६३ ॥
 वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा ।
 तत्रायमष्टमो गर्भो मत्केशो भविता सुराः ॥ ६४ ॥
 अवतीर्य च तत्रायं कंसं घातयिता भुवि ।
 कालनेमिं समुद्भूतमित्युक्त्वान्तर्दधे हरिः ॥ ६५ ॥
 अदृश्याय ततस्तस्मै प्रणिपत्य महामुने ।
 मेरुपृष्ठं सुरा जग्मुस्वतेरुश्च भूतले ॥ ६६ ॥
 कंसाय चाष्टमो गर्भो देवक्या धरणीधरः ।
 भविष्यतीत्याचचक्षे भगवान्भारदो मुनिः ॥ ६७ ॥
 कंसोऽपि तदुपश्रुत्य नारदात्कुपितस्ततः ।
 देवकीं वसुदेवं च गृहे गुप्तास्धारयत् ॥ ६८ ॥
 वसुदेवेन कंसाय तेनैवोक्तं यथा पुरा ।
 तथैव वसुदेवोऽपि पुत्रमपित्वान्दिव्यं ॥ ६९ ॥
 हिरण्यकशिपोः पुत्राण्यहर्गर्भा इति विश्रुताः ।
 विष्णुप्रसुक्तं तान्निग्न क्रमाद्गर्भानयोजयत् ॥ ७० ॥
 योगनिग्रा महामाया वैष्णवी पोहितं यथा ।
 अविद्याया जगत्सर्वं तामाह भगवान्हरिः ॥ ७१ ॥
 श्रीभगवानुवाच

निद्रे गच्छ ममादेशात्पातालतलसंश्रयान् ।
 एकैकत्वेन षड्गर्भान्देवकीजठरं नय ॥ ७२ ॥
 इतेषु तेषु कंसेन शेषाङ्घ्र्योऽशास्सतो मम ।
 अंशांशोनोदरे तस्यास्सप्तमः सम्भविष्यति ॥ ७३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे महामुने! इस प्रकार स्तुति किये जानेपर भगवान् परमेश्वरने अपने स्वाम और स्वत दो केश उखाड़े ॥ ६० ॥ और देवताओंसे बोले—'मेरे ये दोनों केश पृथिवीपर अवतर लेकर पृथिवीके शररूप कण्ठको दूर करेंगे ॥ ६१ ॥ सब देवाण अपने-अपने अंशोंसे पृथिवीपर अवतर लेकर अपने-अपने पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्योंके साथ युद्ध करें ॥ ६२ ॥ सब निःसन्देह पृथिवीतलपर सम्पूर्ण दैत्याण परें दुष्टियतसे दलित होकर क्षीण हो जायेंगे ॥ ६३ ॥ वसुदेवकीकी जो देवीके समान देवकी नामकी भार्या है उसके आठवें गर्भमें मेरे यह (श्याम) केश अवतर लेंगे ॥ ६४ ॥ और इस प्रकार भहों अवतार लेकर यह कालनेमिके अवतार कंसका अध करेगा।' ऐसा कहकर श्रोत्रि अन्तर्धान हो गये ॥ ६५ ॥ हे महामुने! भगवान्के अदृश्य हो जानेपर उन्हें प्रणाम करके देवताण सुषेत्पर्वतपर चले गये और फिर पृथिवीपर अवतीर्ण हुए ॥ ६६ ॥

इसी समय भगवान् नारदजीने कंससे आकर कहा कि देवकीके आठवें गर्भमें भगवान् धरणीधर जन्म लेंगे ॥ ६७ ॥ नारदजीसे यह समाचार पाकर कंसने कुपित होकर वसुदेव और देवकीको कत्तागृहमें बन्द कर दिया ॥ ६८ ॥ हे द्विज! वसुदेवजी भी, जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्रके कंसको सौंपते रहे ॥ ६९ ॥ ऐसा सुना जाता है कि पहले छः गर्भ हिरण्यकशिपुके पुत्र थे। भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे योगनिग्रा उन्हें क्रमशः गर्भमें स्थित करती रही * ॥ ७० ॥ जिस अविद्या-रूपिणीसे सम्पूर्ण जगत् मोहित हो रहा है, वह योगनिग्रा भगवान् विष्णुकी महामाया है उससे भगवान् श्रीहरिने कहा— ॥ ७१ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे निद्रे! जा, मेरी आरासे तू पातालमें स्थित छः गर्भोंको एक-एक करके देवकीकी कुक्षिमें स्थापित कर दे ॥ ७२ ॥ कंसद्वारा उन सबके मारे जानेपर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांशसे देवकीके सातवें गर्भमें स्थित होगा ॥ ७३ ॥

* ये कत्तक पूर्वजन्ममें हिरण्यकशिपुके भाई कालनेमिके पुत्र थे; इसीसे उन्हें उसका पुत्र कह गये हैं। इन कत्तकजीके हिरण्यकशिपुका अन्धकार छार भावनाही गतिक की थी; अतः उनमें कुपित होकर उन्हें शाप दिया कि तुमलोग अपने-अपने हाथसे ही मारे जाओगे। यह प्रसंग हरिवंशमें आया है।

गोकुले वसुदेवस्य भार्यान्या रोहिणी स्थिता ।
 तस्यास्स साभूतिसमं देवि नेयस्त्वयोदरम् ॥ ७४
 सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोधोपरोधतः ।
 देवक्याः पतितो गर्भं इति लोको वदिष्यति ॥ ७५
 गर्भसङ्कर्षणात्तोऽथ स्त्रोके सङ्कर्षणेति च ।
 संज्ञामवाप्स्यते वीरश्श्वेतात्रिशिखरोपमः ॥ ७६
 ततोऽहं सम्भविष्यामि देवकीजठरे शुभे ।
 गर्भं त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलम्बितम् ॥ ७७
 प्राकृतकाले च नभसि कृष्णाष्टय्यामहं निशि ।
 उत्पत्स्यामि नवम्यां तु प्रसूतिं त्वमवाप्स्यसि ॥ ७८
 यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते ।
 भर्त्स्यन्ति प्रेरितमतिर्वसुदेवो च विष्यति ॥ ७९
 कंसश्च त्वामुपादाय देवि शैलशिलातले ।
 प्रक्षेप्यत्यन्तरिक्षे च संस्थाने त्वमवाप्स्यसि ॥ ८०
 ततस्त्वां शतदृक्छक्रः प्रणम्य मम गौरवात् ।
 प्रणिपातानतशिरा भगिनीत्वे ग्रीहीष्यति ॥ ८१
 त्वं च शुम्भनिशुम्भादीन्हुत्वा दैत्यान्साहस्रशः ।
 स्थानैरनेकैः पृथिवीमशेषां मण्डयिष्यसि ॥ ८२
 त्वं भूतिः सन्नतिः क्षन्तिः कान्तिर्ह्यैः पृथिवी भूतिः ।
 सृज्या पुष्टिरुषा या तु काचिदन्या त्वमेव सा ॥ ८३
 ये त्वामार्षेति दुर्गेति वेदगर्भाश्चिकेति च ।
 भद्रेति भद्रकालीति क्षेमदा भाग्यदेति च ॥ ८४
 प्रातश्चैवापराह्णे च स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्ख्यः ।
 तेषां हि प्रार्थितं सर्वं मत्प्रसादाद्भविष्यति ॥ ८५
 सुरामांसोपहारैश्च भक्ष्यभोष्यैश्च पूजिता ।
 पूणामशेषकामांस्त्वं प्रसन्ना सम्प्रदास्यसि ॥ ८६
 ते सर्वे सर्वदा भद्रे मत्प्रसादादसंशयम् ।
 असन्दिग्धा भविष्यन्ति गच्छन्ति यथोदितम् ॥ ८७

हे देवि! गोकुलमें वसुदेवजीकी जो रोहिणी नामकी दूसरी भार्या रहती है उसके उदरमें उस सातवें गर्भको ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसीके जठरसे उत्पन्न हुएके समान जान पड़े ॥ ७४ ॥ उसके विषयमें संसार यही कहेगा कि कारणारमें वन्द होनेके कारण भीबराज कंसके भयसे देवकीका सातवीं गर्भ गिर गया ॥ ७५ ॥ वह श्वेत शैलशिखरके समान वीर पुरुष गर्भसे अल्कर्षण क्रिये जानेके कारण संसारमें 'संकर्षण' नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ७६ ॥

तदनन्तर, हे शुभे! देवकीके आठवें गर्भमें मैं स्थित होऊँगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदाके गर्भमें चली जाना ॥ ७७ ॥ वर्षा ऋतुमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको रात्रिके समय मैं जन्म लूँगा और तू नवमीको उत्पन्न होगी ॥ ७८ ॥ हे अनिन्दिते! उस समय मेरी शक्तिसे अपनी पति फिर जानेके कारण वसुदेवजी भुङ्गे तो यशोदाके और तुझे देवकीके शशङ्गुदरमें ले जायेंगे ॥ ७९ ॥ तब हे देवि! कंस तुझे पकड़कर पर्वत-शिलापर पटक देगा; उसके पटकते ही तू आकाशमें स्थित हो जायगी ॥ ८० ॥

उस समय मेरे गौरवसे सहस्रनमन हन्, सिर झुकाकर प्रणाम करनेके अनन्तर तुझे भगिनीरूपसे स्वीकार करेगा ॥ ८१ ॥ तू भी शुम्भ, निशुम्भ आदि सहस्रों दैत्यांको मारकर अपने अनेक स्थानोंसे समस्त पृथिवीको सुरोभित करेगी ॥ ८२ ॥ तू ही भूति, सन्नति, क्षान्ति और कान्ति है; तू ही आकाश, पृथिवी, भृति, सृजा, पुष्टि और उषा है; इनके अतिरिक्त संसारमें और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है ॥ ८३ ॥

जो लोग प्रातःकाल और सायंकालमें अत्यन्त नम्रतापूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तैरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएँ मेरी कृपासे पूर्ण हो जायेंगी ॥ ८४-८५ ॥ मदिरा और मांसकी भेंट चढ़ानेसे तथा भक्ष्य और भोष्य पदार्थोंद्वारा पूजा करनेसे प्रसन्न होकर तू मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण कर देगी ॥ ८६ ॥ तैरे द्वारा दी हुई जे समस्त कामनाएँ मेरी कृपासे निस्सन्देह पूर्ण होंगी। हे देवि! अब तू मेरे बतलाये हुए स्थानको जा ॥ ८७ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय

भगवान्कृता गर्भ-प्रवेश तथा देवगणद्वारा देवकीकी स्तुति

श्रीपराशर उवाच

यद्योक्तं सा जगद्धात्री देवदेवेन वै तथा ।
घट्याभंगर्भविन्यासे चक्रे चान्यस्य कर्षणम् ॥ १

सप्तमे रोहिणीं गर्भे प्राप्ते गर्भं ततो हरिः ।
लोकत्रयोपकाराय देवक्याः प्रविवेश ह ॥ २

योगनिद्रा यशोदायास्तस्मिन्नेव तथा दिने ।
सम्भूता जठरे तद्दृष्ट्वाद्योक्तं परमेष्ठिना ॥ ३

ततो प्रहृगणस्सम्यक्प्रचचार दिवि द्विज ।
विष्णोर्गंशे भुवं याते ऋतवश्चाब्धुश्शुभः ॥ ४

न सेहे देवकीं ब्रह्मु कश्चिदप्यतितेजसा ।
जान्स्वल्मनां तां दृष्ट्वा मनांसि क्षोभमाययुः ॥ ५

अदृष्टाः पुरुषैस्स्त्रीभिर्देवकीं देवतागणाः ।
विधाणां वपुषा विष्णुं तुष्टुवुस्तामहर्निशम् ॥ ६

देवता उचुः

प्रकृतिस्त्वं परा सूक्ष्मा ब्रह्मगर्भाभवः पुरा ।
तत्प्रे वाणीं जगद्धातुर्वेदगर्भांसि शोभने ॥ ७

सृज्यस्वरूपगर्भांसि सृष्टिभूता सनातने ।
बीजभूता तु सर्वस्य यज्ञभूताभवस्वयी ॥ ८

फलगर्भा त्वमेवेत्या वह्निरर्भा तथारणिः ।
अदितिर्देवगर्भा त्वं दैत्यगर्भा तथा दितिः ॥ ९

ज्येत्स्न वासरगर्भा त्वं ज्ञानगर्भांसि सन्ततिः ।
नयगर्भा परा नीतिलज्जा त्वं प्रश्नचोद्भव ॥ १०

कामगर्भा तथेच्छ त्वं तुष्टिः सन्तोषगर्भिणी ।
मेधा च बोधगर्भांसि धैर्यगर्भोद्भव घृतिः ॥ ११

ग्रहर्क्षतारकागर्भा द्यौरस्याखिलत्रैतुकी ।
एता विभूतयो देवि तथान्याश्च सहस्रशः ।
तथासंख्या जगद्धात्रि साम्प्रतं जठरे तव ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! देवदेव श्रीविष्णुभगवान्ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगद्धात्री योगपायाने छः गर्भोंको देवकीके उदरमें स्थित किया और सातवेंको उसमेंसे निकाल लिया ॥ १ ॥ इस प्रकार सातवें गर्भके रोहिणीके उदरमें पहुँच जानेपर श्रीहरिने तीनों लोकोंका उद्धार करनेकी इच्छासे देवकीके गर्भमें प्रवेश किया ॥ २ ॥ भगवान् परमेश्वरके आज्ञानुसार योगमाया भी उसी दिन यशोदाके गर्भमें स्थित हुई ॥ ३ ॥ हे द्विज! विष्णु-अंशके गृध्रिवीमें पधारनेपर आकाशमें ग्रहण लीक-लीक गतिसे चलने लगे और ऋगुगण भी मंगलम्प होकर शोभा माने लगे ॥ ४ ॥ उस समय अल्पन तेजसे देदीप्यमाना देवकीकीको कोई भी देख न सकता था। उन्हें देखकर [दर्शकोंके] चिच तर्कित हो जाते थे ॥ ५ ॥ तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियोंको दिखायी न देते हुए, अपने ज़रोरमें [गर्भरूपसे] भगवान् विष्णुको धारण करनेवाली देवकीकीकी अहर्निश स्तुति करने लगे ॥ ६ ॥

देवता बोले—हे शोभने! तू पहले ब्रह्म-प्रतिविम्बधारिणी मूलप्रकृति हुई थी और फिर जगद्विधताको वेदगर्भा वाणी हुई ॥ ७ ॥ हे सनातने! तू ही सृज्य पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाली और तू ही सृष्टिरूपा है; तू ही समकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेदमयी हुई है ॥ ८ ॥ तू ही फलमयी यज्ञक्रिया और अग्नि-मयी अरणि है तथा तू ही देवमाता अदिति और दैत्यमू दिति है ॥ ९ ॥ तू ही दिनकरि प्रभा और ज्ञानार्थ गुस्तुश्रूपा है तथा तू ही न्यायमयी परमनीति और विनयसम्पन्ना लज्जा है ॥ १० ॥ तू ही काममयी इच्छा, सन्तोषमयी तुष्टि, बोधगर्भा प्रज्ञा और धैर्यधारिणी घृति है ॥ ११ ॥ ग्रह, नक्षत्र और तारागणको धारण करनेवाला तथा [वृष्टि आदिके द्वारा इस अखिल विश्वका] कारणस्वरूप आकाश तू ही है। हे जगद्धात्री! हे देवि! ये सब तथा और भी सहस्रों और अमंख विभूतियाँ इस समय तेरे उदरमें स्थित हैं ॥ १२ ॥

समुद्राद्रिनदीहीपवनपत्तनभूषणा ।
 ग्रामखर्वटखेटाढ्या समस्ता पृथिवी शुभे ॥ १३
 समस्तवहनयोऽर्धांसि सकलाश्च समीरणाः ।
 ग्रहक्षीतारकाधिर्त्रं विमानशतसंकुलम् ॥ १४
 अवकाशमशेषस्य ब्रह्मदाति नभःस्थलम् ।
 भूर्लोकश्च भुवर्लोकस्वर्लोकोऽथ महर्जनः ॥ १५
 तपश्च ब्रह्मलोकश्च ब्रह्माण्डमखिलं शुभे ।
 तदन्तरे स्थिता देवा दैत्यगन्धर्वधारणाः ॥ १६
 महोरगास्तथा यक्षा राक्षसाः प्रेतगुह्यकाः ।
 मनुष्याः पशवश्चान्ये ये च जीवा यशस्विनि ॥ १७
 तैरन्तःस्थैरन्तोऽसीं सर्वगः सर्वभावनः ॥ १८
 रूपकर्मस्वरूपाणि न परिच्छेदगोचरे ।
 यस्याखिलप्रमाणानि स विष्णुर्गर्भगस्तव ॥ १९
 त्वं स्वाहा त्वं स्वधा विद्या सुधा त्वं न्योतिष्वरे ।
 त्वं सर्वलोकरक्षार्धमवतीर्णा महीतले ॥ २०
 प्रसीद देवि सर्वस्य जगतश्शं शुभे कुरु ।
 प्रीत्या तं धारयेशानं धृत् वेनाखिलं जगत् ॥ २१

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

भगवान्का आधिर्भाव तथा योगमायाद्वारा कंसकी वंचना

श्रीपराशर उवाच

एवं संस्तूयमाना सा देवैर्देवमधारयत् ।
 गर्भेण पुण्डरीकाक्षं जगतस्त्राणकारणम् ॥ १
 ततोऽखिलजगत्पद्मबोधायाध्युतभानुना ।
 देवकीपूर्वसन्ध्यायामाधिर्भूतं महत्तना ॥ २
 तज्जन्मदिनमत्यर्थमाद्वाह्यमलदिङ्मुखम् ।
 बभूव सर्वलोकस्य कौमुदी शशिना यथा ॥ ३
 सन्तस्सन्तोषमधिकं प्रशमं चण्डमारुताः ।
 प्रसादं निम्नगा याता जायमाने जनार्दने ॥ ४

हे शुभे! समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, वन और नगरोसे सुशोभित तथा ग्राम, खर्वट और खेटादिसे सम्पन्न समस्ता पृथिवी, सम्पूर्ण अग्नि और चन्द्र तथा समस्त वायु, ग्रह, नक्षत्र एवं तारागणोंसे चित्रित तथा सैकड़ों विमानोंसे पूर्ण सबको अवकाश देनेवाला आकाश, भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक तथा मह, जन, तप और ब्रह्मलोकपर्यन्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा उसके अन्तर्वर्ती देव, असुर, गन्धर्व, चारण, नाग, यक्ष, यक्षस, प्रेत, गुह्यक, मनुष्य, पशु और जो अन्यान्य जीव हैं, हे यशस्विनि! वे सभी अपने अन्तर्गत होनेके कारण जो श्रीअनन्त सर्वगामी और सर्वभावन हैं तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा [बालत्व महत्त्व आदि] समस्त परिमाण परिच्छेद (विचार)-के विषय नहीं हो सकते वे ही श्रीविष्णुभगवान् तैरे गर्भमें स्थित हैं ॥ १३—१९ ॥ तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और आकाशस्थिता ज्योति है! सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये ही तूने पृथिवीमें अवतर लिया है ॥ २० ॥ हे देवि! तू प्रसन्न हो। हे शुभे! तू सम्पूर्ण जगत्का कल्याण कर। जिसने इस सम्पूर्ण जगत्को धारण किया है उस प्रभुको तू प्रीतिपूर्वक अपने गर्भमें धारण कर ॥ २१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! देवताओंसे इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकीजीने संसारकी रक्षाके कारण भगवान् पुण्डरीकाक्षको गर्भमें धारण किया ॥ १ ॥ तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप कमलको विकसित करनेके लिये देवकीरूप पूर्व सन्ध्यामें महत्तमा अच्युतरूप सूर्यदेवका आधिर्भाव हुआ ॥ २ ॥ चन्द्रमाकी सौन्दर्यके समान भगवान्का जन्म-दिन सम्पूर्ण जगत्को आह्लादित करनेवाला हुआ और उस दिन सभी दिशाई अत्यन्त निर्मल हो गयीं ॥ ३ ॥

श्रीजनार्दनके जन्म लेनेपर सन्तजनोंको परम सन्तोष हुआ, प्रचण्ड वायु शान्त हो गया तथा नदियाँ अत्यन्त स्वच्छ हो गयीं ॥ ४ ॥

सिन्धवो निजशब्देन खाद्यं चक्षुर्मनोहरम् ।
जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ५
ससृजुः पुष्यवर्षाणि देवा भुष्यन्तरिक्षगाः ।
अप्यत्पुष्पाग्नयश्शान्ता जायमाने जनार्दने ॥ ६
मन्दं जगर्जुर्जलदाः पुष्यवृष्टिमुखो द्विज ।
अर्द्धरात्रेऽखिलाधारे जायमाने जनार्दने ॥ ७
फुल्लेन्दीवरपत्रार्थं सतुर्बाहुमुदीक्ष्य तम् ।
श्रीवत्सवक्षसं जातं तुष्टावानकदुन्दुभिः ॥ ८
अभिष्टूय च तं सारिभः प्रसन्नाभिर्महामतिः ।
विज्ञापयामास तदा कंसोद्धीतो द्विजोत्तम ॥ ९
वसुदेव उवाच
जातोऽसि देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधरम् ।
दिव्यरूपमिदं देव प्रसादेनोपसंहर ॥ १०
अष्टौष देह कंसोऽयं कुरुते मम घातनम् ।
अवतीर्ण इति ज्ञात्वा त्वमस्मिन्मम मन्दिरे ॥ ११
देवक्युवाच
योऽनन्तरूपोऽखिलाविश्वरूपो
गर्भेऽपि लोकान्वपुषा विभर्ति ।
प्रसीदतामेष स देवदेवो
यो माययाविष्कृतश्चालरूपः ॥ १२
उपसंहर सर्वात्मन् रूपमेतच्छतुर्भुजम् ।
जानातु मावतारं ते कंसोऽयं दित्तिजन्मजः ॥ १३
श्रीभगवानुवाच
स्तुतोऽहं यत्त्वया पूर्वं पुत्रार्थिन्या तदद्य ते ।
सफलं देवि सञ्जाने जातोऽहं यत्तत्रोदरात् ॥ १४
श्रीपराशर उवाच
इत्युक्त्वा भगवांस्तूर्णानि बभूव मुनिसत्तम ।
वसुदेवोऽपि तं रात्रावादाय प्रथमो ब्रूहिः ॥ १५
मोहिताश्चाभवंस्तत्र रक्षिणो योगनिद्रया ।
मधुराद्वारपालाश्च घञ्जत्पानकदुन्दुभी ॥ १६

समुद्रगण अपने घोषसे मनोहर जांबे बजाने लगे,
गन्धर्वराज गान करने लगे और अप्सरएँ नाचने
लगीं ॥ ५ ॥ श्रीजनार्दनके श्रकट होनेपर आकाशगामो
देवगण धूमिलीपर पुष्य बरसाने लगे तथा शान्त हुए
पञ्चानि फिर प्रज्वलित हो गये ॥ ६ ॥ हे द्विज ! अर्द्धरात्रिके
समय सर्वाधार भगवान् जनार्दनके आविर्भूत होनेपर
पुष्यवर्षा करते हुए मेघगण मन्द मन्द गर्जना करने
लगे ॥ ७ ॥

उन्हें मिलने हुए कमलदलको-सो आधायाले,
चतुर्भुज और वक्षःस्थलमें श्रीवत्स-चिह्नमसहित उत्पन्न
हुए देख आनकदुन्दुभि वसुदेवजी स्तुति करने लगे ॥ ८ ॥
हे द्विजोत्तम ! महामति वसुदेवजीने प्रसन्नयुक्त वचनोंसे
भगवान्को स्तुति कर कंससे भयभीत रहनेके कारण
इस प्रकार निवेदन किया ॥ ९ ॥

वसुदेवजी बोले—हे देवदेवेश्वर ! यद्यपि आप
[साक्षात् परमेश्वर] श्रकट हुए हैं, तथापि हे देव ! मुझपर
कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र-गदाधारी दिव्य
रूपका उपसंहार कीजिये : १० ॥ हे देव ! यह पता लगते
ही कि आप मेरे इस गृहमें अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी
समय मेरा सर्वनाश कर देगा ॥ ११ ॥

देवकीजी बोलीं—जो अनन्तरूप और अखिल-
विश्वस्वरूप हैं, जो गर्भमें स्थित होकर भी अपने शरीरसे
शुभ्युर्ण लोकोंको धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी मायासे
ही यालोक धारण किया है वे देवदेव हमपर प्रसन्न हैं ॥ १२ ॥
हे सर्वात्मन् : आप अपने इस चतुर्भुज रूपका उपसंहार
कीजिये । भगवन् ! यह राक्षसके अंशसे उत्पन्न कंस
आपके इस अवतारका वृत्तान्त न जानने पावे ॥ १३ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे देवि ! पूर्वजन्ममें तूने जो
पुत्रकी कामनासे मुझसे [पुत्ररूपसे उत्पन्न होनेके
लिये] प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भसे जन्म
लिया है—इससे तेरी यह कामना पूर्ण हो गयी ॥ १४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर
भगवान् मौन हो गये तथा वसुदेवजी भी उन्हें ठस राश्रिमें
ठी लेकर वाहर निकले ॥ १५ ॥ वसुदेवजीके बाहर जाते
समय कारागृहरक्षक और मधुराके द्वारपाल योगनिद्राके
प्रभावसे अचेत हो गये ॥ १६ ॥

“ हुपित नामक राक्षसने राजा वसुदेवका रूप धारण कर उनकी पत्नीसे संसर्ग किया था । उन्होंने कंसका जन्म बुझा ।
यह कथा इतिवृत्तमें आये है ।

वर्षतां जलदानां च तोषमत्युत्खणं निशि ।
 संवृत्यानुययौ शेषः फणीरानकदुन्दुभिम् ॥ १७
 यमुनां घालिगम्भीरां नानावर्त्तशताकुलाम् ।
 वसुदेवो वहन्विष्णुं जानुमात्रघर्हां ययौ ॥ १८
 कंसस्य करदानाय तत्रैवाभ्यागतांस्तटे ।
 नन्दादीन् गोपवृद्धांश्च यमुनाया ददर्श सः ॥ १९
 तस्मिन्काले यशोदापि मोहिता योगनिद्रया ।
 तामेव कन्यां मैत्रेय प्रसूता मोहते जने ॥ २०
 वसुदेवोऽपि विन्ध्यस्य बालमादाय दारिकाम् ।
 यशोदाशयनान्तूर्णमाजगामाभितद्युतिः ॥ २१
 ददृशे च प्रसुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम् ।
 नीलोत्पलदलश्यामं ततोऽत्यर्थं मुदं ययौ ॥ २२
 आदाय वसुदेवोऽपि दारिकां निजमन्दिरे ।
 देवकीशयने न्यस्य यथापूर्वमपि ॥ २३
 ततो बालश्रनिं श्रुत्वा रक्षिणास्सहस्रोत्थिताः ।
 कंसायावेदयामासुर्देवकीप्रसवं द्विज ॥ २४
 कंसस्तूर्णमुपेत्यैर्ना ततो जग्राह बालिकाम् ।
 पुञ्ज मुख्येति देवक्या सन्नकण्ठ्या निवारितः ॥ २५
 चिक्षेप च शिल्पापुटे सा क्षिप्ता स्थिति स्थित्वा ।
 अवाप रूपं सुमहत्सायुधाष्टमहाभुजम् ॥ २६
 प्रजहास तथैवोच्छैः कंसं च रुषिताग्रवीत् ।
 किं मय्य श्लिष्यता कंस जातो यस्त्वं वधिष्यसि ॥ २७
 सर्वस्वभूतो देवानामासीन्मृत्युः पुरा स ते ।
 तदेतत्सम्प्रधार्यांशु क्रियतां हितमात्मनः ॥ २८
 इत्युक्त्वा प्रययौ देवी दिव्यस्वगन्धभूषणा ।
 पश्यतो भोजराजस्य स्तुता सिद्धैर्विहायसा ॥ २९

उस रात्रिके सपन खर्षा करते हुए मेघोंके जलराशिको
 अपने फणोंसे रोककर शोशेवचो आनकदुन्दुभिके पीछे-
 पीछे चले ॥ १७ ॥ भगवान् विष्णुको ले जाते हुए वसुदेवकी
 नाना प्रकारके सैकड़ों भँवरोंसे भरी हुई आत्पत गम्भीर
 यमुनाकीको भूटनीतक रखकर ही पार कर गये ॥ १८ ॥
 उन्होंने जहाँ यमुनाकीके तटपर ही कंसको कर देनेके
 लिये आये हुए चन्द्र आदि वृद्ध गोपोंको भी देखा ॥ १९ ॥
 हे मैत्रेय ! इसी समय योगनिद्राके प्रभावसे सब मनुष्योंके
 मोहित हो जानेपर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्याको
 जन्म दिया ॥ २० ॥

तब अतिशय कान्तिमान् वसुदेवजी भी उस बालकको
 सुलाकर और कन्याको लेकर तुरन्त यशोदाके शयन-
 गृहसे चले आये ॥ २१ ॥ अब यशोदा ने जागनेपर देखा कि
 उसके एक नीलकमलदलके समस्त श्यामकर्ण पुत्र उत्पन्न
 हुआ है जो उसे अल्पत प्रसन्नता हुई ॥ २२ ॥ इधर, वसुदेवजीने
 कन्याको ले जाकर अपने महलमें देवकीके शयनगृहमें
 सुला दिया और पूर्ववत् स्थित हो गये ॥ २३ ॥

हे द्विज ! तदनन्तर बालकके रोनेका शब्द सुनकर
 काण्ठ रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकीके सन्तान
 उत्पन्न होनेका वृत्तान्त कंसको सुना दिया ॥ २४ ॥ यह
 सुनते ही कंसने क्रुद्धता जाकर देवकीके कंधे हुए कण्ठसे
 'छोड़, छोड़'—ऐसा कहकर रोकनेपर भी उस बालिकाको
 पकड़ लिया और उसे एक शिलापर पटक दिया । उसके
 पटकते ही यह आफतशर्म स्थित हो गयी और उसने शस्त्रयुक्त
 एक महान् अष्टभुजरूप धारण कर लिया ॥ २५-२६ ॥

तब उसने ऊँचे स्वरसे अट्टहास किया और कंससे
 रोषपूर्वक कहा—'अरे कंस ! मुझे पटकनेसे तेरा क्या प्रयोजन
 सिद्ध हुआ ? जो तेरा बध करेगा उसने तो [पहले ही]
 जन्म ले लिया है; देवताओंके सर्वस्व ये हरि हो चुम्कते
 [कालनेमिरूप] पूर्वजन्ममें भी काल थे । अतः ऐस्य जानकर
 तू शीघ्र ही अपने हितका उपाय कर' ॥ २७-२८ ॥ ऐस्य
 कह, वह दिव्य माला और चन्दनादिसे विभूषिता तथा
 सिद्धगणद्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंसके
 देखते-देखते आकाशमार्गसे चली गयी ॥ २९ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय

वसुदेव-देवकीका कारागारसे मोक्ष

श्रीपराशर उवाच

कंसस्तदोद्विग्नमनाः प्राह सर्वान्महासुरान् ।
प्रलम्बकेशिप्रमुखानाहूवासुरपुंगवान् ॥ १

कंस उवाच

हे प्रलम्ब महाबाहो केशिन् धेनुक पूतने ।
अरिष्टाद्यास्तथैवान्ये श्रूयतां वचनं मम ॥ २

मां हन्तुममरैर्यतः कृतः किल दुरात्मभिः ।
मद्दीर्यतापितान्वीरो न खेतान्गणयाम्यहम् ॥ ३

किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण किं हरेणैकचारिणा ।
हरिणा वापि किं साध्यं शिष्ट्रेष्वसुरघातिना ॥ ४

किमादित्यैः किं वसुभिस्त्ववीर्यैः किमग्निभिः ।
किं वान्दरमरैः सर्वैर्मद्बाहुबलनिर्जितैः ॥ ५

किं न दृष्टोऽमरपतिर्मद्या संयुगमेत्य सः ।
पृष्ठेनैव वहन्वापानपागच्छन् वक्षसा ॥ ६

मग्राष्ट्रे वारिता वृष्टिर्यदा शक्रेण किं तदा ।
यद्गणधिर्नैर्जलदैर्नापो मुक्ता यथेप्सिताः ॥ ७

किमुर्व्यामवनीपाला पद्माहुबलभीरवः ।
न सर्वे सन्नतिं याता जरासन्धमृते गुरुम् ॥ ८

अमरेषु मयावज्ञा जायते दैत्यपुंगवाः ।
ह्यस्य मे जायते वीरास्तेषु यत्नपरेष्वपि ॥ ९

तथापि खलु दुष्टानां तेषामप्यधिकं भयम् ।
अपकाराय दैत्येन्द्रा अतनीयं दुरात्मनाम् ॥ १०

तत्रो यशस्विनः केचित्पुथिष्व्यं ये च याजन्तः ।
कार्यं देवापकाराय तेषां सर्वात्मना वधः ॥ ११

श्रीपराशरजी बोले—तब कंसने छिन्नचित्तसे प्रलम्ब और केशी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरोंको मुलाकर कहा ॥ १ ॥

कंस बोला—हे प्रलम्ब! हे महाबाहो केशिन्! हे धेनुक! हे पूतने! तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुराण! मेरा वचन सुनो— ॥ २ ॥ यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओंसे मेरे पारनेके लिये कोई यत्न किया है; किन्तु मैं खीर पुरुष अपने बीरसे रूतासे हुए इन लोगोंके कुछ भी नहीं विव्रता हूँ ॥ ३ ॥ अल्पवीर्य इन्द्र, अनेकसे भूगनेवाले महादेव अथवा छिद्र (असावधानीका समय) डूँडकर दैत्योंका वध करनेवाले विष्णुसे उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? ॥ ४ ॥ मेरे बाहुबलसे दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्निगण अथवा अन्य समस्त देवताओंसे भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? ॥ ५ ॥

आपलोगोंने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्धभूमिमें आकर देवराज इन्द्र, वधःस्थलमें नहीं, अपनी पीठपर बाणोंकी बाँधर 'सह्या हुआ भाग गया था ॥ ६ ॥ जिस समय इन्द्रने मेरे राज्यमें वर्षाका होना बन्द कर दिया था उस समय क्या भेरीने मेरे बाणोंसे विंधकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? ॥ ७ ॥ हमारे गुरु (श्वशुर) जरासन्धको छोड़कर क्या पृथिवीके और सभी नृपतिगण मेरे बाहुबलसे भयभीत होकर मेरे सामने स्थिर नहीं लुकाते? ॥ ८ ॥

हे दैत्यश्रेष्ठगण! देवताओंके प्रति मेरे चित्रमें अवज्ञा होती है और हे वीरगण! उन्हें अपने (मेरे) वधका यत्न करते देखकर तो मुझे हँसी आती है ॥ ९ ॥ तथापि हे दैत्येन्द्रो! उन दुष्ट और दुरात्माओंके अपकारके लिये मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिये ॥ १० ॥ अतः पृथिवीमें जो कोई यशस्वी और यज्ञकर्ता हो उनका देवताओंके अपकारके लिये सर्वथा वध कर देना चाहिये ॥ ११ ॥

उत्पन्नश्चापि मे मृत्युर्भूतपूर्वस्स वै किल ।
इत्येतद्धारिका प्राह देवकीगर्भसम्भवा ॥ १२ ॥
तस्माद्भालेषु च परो यत्नः कार्यो महीतले ।
यत्रोत्रिंशत् बालं बाले स हन्तव्यः प्रयत्नतः ॥ १३ ॥
इत्याज्ञाप्यासुरान्कंसः प्रविश्याशु गृहं ततः ।
भुमोच्च वसुदेवं च देवकीं च निरोधतः ॥ १४ ॥
कंस उवाच

युवयोर्वातिता गर्भं वृक्षैवैते मयाधुना ।
कोऽप्यन्य एव नाज्ञाय बालो मम समुद्गतः ॥ १५ ॥
तदलं परितापेन चूर्णं तद्भ्रात्रिनो हि ते ।
अर्भका युवयोर्दोषाच्चापुषो यद्वियोजिताः ॥ १६ ॥
श्रीपराशर उवाच

इत्याश्वास्य विमुक्त्वा च कंसस्त्री परिशंकितः ।
अन्तर्गृहं द्विजश्रेष्ठ प्रविवेश ततः स्वकम् ॥ १७ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अध्याय

पुतना-वध

श्रीपराशर उवाच

विमुक्तो वसुदेवोऽपि नन्दस्य शकटं गतः ।
प्रहृष्टं दृष्टवान् नन्दं पुत्रो जातो ममेति वै ॥ १ ॥
वसुदेवोऽपि ते प्राह दिष्ट्या दिष्ट्येति सादरम् ।
बान्धुकेऽपि समुत्पन्नस्तनयोऽयं तवाधुना ॥ २ ॥
दत्तो हि वार्षिकस्सर्वां भवद्भिर्नृपतेः करः ।
यदर्धमागतास्तस्मान्नात्र स्थेयं महाधनैः ॥ ३ ॥
यदर्धमागताः कार्यं तन्निष्पन्नं किमास्यते ।
भवद्भिर्गम्यतां नन्द तच्चर्षिं निजगोकुलम् ॥ ४ ॥
ममापि बालकस्तत्र रोहिणीप्रभवो हि यः ।
स रक्षणायो भवता यथायं तनयो निजः ॥ ५ ॥
इत्युक्ताः प्रययुर्गोपा नन्दगोपपुरोगमाः ।
शकटारोपितैर्भाण्डैः करं दत्त्वा महाबलाः ॥ ६ ॥

देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुई बालिकाने यह भी कहा है कि, वह मेरा भूतपूर्व (प्रथम जन्मका) काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है ॥ १२ ॥ अब: आजकल धूमिलीपर उत्पन्न हुए बालकोंके विशेषमें विशेष सावधानी रखनी चाहिये और जिस बालकमें विशेष बलका उद्रेक हो उसे यत्नपूर्वक पार डालना चाहिये ॥ १३ ॥ असुरोंको इस प्रकार आज्ञा दे कंसने कारागृहमें जाकर तुरन्त ही वसुदेव और देवकीको बन्धनसे मुक्त कर दिया ॥ १४ ॥

कंस बोला—मैंने अबतक आप दोनोंके बालकोंकी तो वृक्षा ही हत्या की, मेरा नारा करनेके लिये तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है ॥ १५ ॥ परन्तु आपलोग इसका कुछ दुःख न मानें; क्योंकि उन्ध भासकोंकी होनहार ऐसी ही थी। आपलोगोंके प्रारब्धदोषसे ही उन बालकोंको अपने जीवनसे हथ धोना पड़ा है ॥ १६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—दे द्विजश्रेष्ठ! उन्हें इस प्रकार दौंस वैधा और बन्धनसे मुक्तकर कंसने शंकि-पितसे अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ १७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—बन्दीगृहसे सुते ही वसुदेवजी नन्दजीके छकड़ेके पास गये तो उन्हें इस समाचारसे अत्यन्त प्रसन्न देखा कि 'मेरे पुत्रका जन्म हुआ है' ॥ १ ॥ तब वसुदेवजीने भी उनसे आदरपूर्वक कहा—अब वृद्धावस्थामें भी आपने पुत्रका मुख देख लिया यह अद्भुत ही खीभाव्यधी बात है ॥ २ ॥ आपलोग जिसलिये यहाँ आये थे वह राजका साथ वार्षिक कर दे हो चुके हैं। यहाँ भनवान् पुरखोंको और अधिक न लहना चाहिये ॥ ३ ॥ आपलोग जिसलिये यहाँ आये थे वह कार्य पूरा हो चुका, अब और अधिक किसलिये उदरे हुए हैं? [यहाँ देरतक ठहरना ठीक नहीं है] अतः हे नन्दजी! आपलोग शीघ्र ही अपने गोकुलको आइये ॥ ४ ॥ यहाँपर रोहिणीसे उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजियेगा जैसे अपने इस बालककी ॥ ५ ॥

वसुदेवजीके ऐसा कहनेपर नन्द आदि महाबलवान् गोपगण छकड़ोंमें रखकर लाये हुए भाण्डोंसे कर चुकाकर चले गये ॥ ६ ॥

चसतां गोकुले तेषां पूतना बालघातिनी ।
सुप्तं कृष्णमुपादाय रात्रौ तस्मै स्ननं ददौ ॥ ७

यस्मै यस्मै स्ननं रात्रौ पूतना सम्प्रयच्छति ।
तस्य तस्य क्षणेनाङ्गं बालकस्योपहृत्यते ॥ ८

कृष्णस्तु तत्स्ननं गाढं कराभ्यामतिपीडितम् ।
गृहीत्वा प्राणसहितं पपी क्रोधसमन्वितः ॥ ९

सातिमुक्तमहारावा विच्छिन्नास्नाद्युबन्धना ।
पपात पूतना भूमीं प्रियमापातिभीषणा ॥ १०

तन्नादश्रुतिसन्वस्ताः प्रबुद्धास्ते ब्रजौकसः ।
ददुशुः पूतनोत्सङ्गे कृष्णं तां च निपातिताम् ॥ ११

आदाय कृष्णं सन्वस्ता यशोदापि द्विजोत्तम ।
गोपुच्छभ्रामणेनाथ बालदोषमपाकरोत् ॥ १२

गोपुरीषमुपादाय नन्दगोपोऽपि मस्तके ।
कृष्णस्य प्रददौ रक्षां कुर्वश्चैतदुदीरयन् ॥ १३

नन्दगोप उवाच

रक्षतु त्वामशेषाणां भूतानां प्रभवो हरिः ।
यस्य नाभिसमुद्भूतपङ्कजादभवज्जगत् ॥ १४

येन दंष्ट्राप्रविधृता धारयत्यवनिर्जगत् ।
बराहरूपधनुदेवस्य त्वां रक्षतु केशवः ॥ १५

नखाङ्कुरविनिर्भिन्नवैरिवक्षस्थलो विभुः ।
नृसिंहरूपो सर्वत्र रक्षतु त्वां जनार्दनः ॥ १६

वामनो रक्षतु सदा भवन्तं चः क्षणादभूत् ।
त्रिचिक्रमः क्रमाक्रान्तत्रिलोक्यः स्फुरदायुधः ॥ १७

शिरस्ते घातु गोविन्दः कण्ठं रक्षतु केशवः ।
गुह्यं च जठरं विष्णुर्जङ्घे पादौ जनार्दनः ॥ १८

मुखं बाहू प्रबाहू च मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।
रक्षत्वव्याहृतैश्वर्यस्तव नारायणोऽव्ययः ॥ १९

शाङ्गं चक्रगदापापोशशङ्खनादहताः क्षयम् ।
गच्छन्तु प्रेतकृष्णाण्डराक्षसा ये तवाहिताः ॥ २०

उनके गोकुलमें रहते समय बालघातिनी पूतना ने रात्रिके समय सोये हुए कृष्णको गोदमें लेकर उनके मुखमें अपना स्नान दे दिया ॥ ७ ॥ रात्रिके समय पूतना जिस-जिस बालकके मुखमें अपना स्नान दे देती थी उसीका शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था ॥ ८ ॥ कृष्णचन्दने क्रोधपूर्वक उसके स्नानको अपने हाथोंसे खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणोंके सहित पीने लगे ॥ ९ ॥ तब स्नायु-बन्धनोंके शिथिल हो जानेसे पूतना भोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारणकर पृथिवीपर गिर पड़ी ॥ १० ॥ उसके घोर नादको सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासীগण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतनाको गोदमें हैं और वह मारी गयी है ॥ ११ ॥

हे द्विजोत्तम! तब भयभीता यशोदाने कृष्णको गोदमें लेकर उन्हें गौकी रूँछसे झाड़कर बालकका ग्रह-दोष निवारण किया ॥ १२ ॥ न-दांशुने भी आगेके वाक्य कठकर विरिपूर्वक रक्षा करते हुए कृष्णके मस्तकपर गोबरका चूर्ण लगाया ॥ १३ ॥

नन्दगोप बोले—जिनको नाभिसे प्रकट हुए कमलसे सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है वे सम्पूर्ण भूतोंके आदिस्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करें ॥ १४ ॥ जिनकी दाढ़ीके अग्रभागपर स्थापित होकर भूमि सम्पूर्ण जगत्को धारण करती है, वे बराह-रूप-धारी श्रीकेशव तेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥ जिन विभुने अपने नखामुँसे शत्रुके वक्षःस्थलको विदोर्ण कर दिया था, वे नृसिंहरूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करें ॥ १६ ॥ जिन्होंने क्षणमात्रमें सशस्त्र त्रिचिक्रमरूप धारण करके अपने तीन पगोंसे त्रिलोकको नाप लिया था, वे वामनभगवान् तेरी सर्वदा रक्षा करें ॥ १७ ॥ गोविन्द तेरे सिरकी, केशव कण्ठकी, विष्णु गुह्यस्थान और जठरकी तथा जनार्दन जंभा और चरणोंकी रक्षा करें ॥ १८ ॥ तेरे मुख, बाहू, प्रबाहु, * मर और सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अखण्ड-ऐश्वर्यसे सम्पन्न अकिन्ताशी श्रीनारायण रक्षा करें ॥ १९ ॥ तेरे अनिष्ट करनेवाले जो प्रेत, कृष्णाण्ड और राक्षस हों वे शाङ्ग घनुष, चक्र और गदा धारण करनेवाले विष्णुभगवान्की शंख-भ्रामिसे नष्ट हो जायें ॥ २० ॥

त्वां पातु दिक्षु वैकुण्ठो सिदिक्षु मधुसूदनः ।
हृषीकेशोऽम्बरे भूमी रक्षतु त्वां महिधरः ॥ २१ ॥

श्रीपराशर उवाच

एवं कृतस्वस्त्ययनो नन्दगोपेन बालकः ।
शायितश्शकटस्वाधो बालपर्यङ्किक्रान्तसे ॥ २२ ॥
ते च गोपा महद्दुष्ट्वा पूतनायाः कलेवरम् ।
मृतायाः परमं त्रासं विस्मयं च तदा ययुः ॥ २३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽध्यायः पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

छठा अध्याय

शकटभंजन, यमलार्जुन-उद्धार, त्रजवासियोंका गोकुलसे वृन्दावनमें
जाना और सर्वा-वर्णन

श्रीपराशर उवाच

कदाचिच्छकटस्याधश्शायानो मधुसूदनः ।
चिक्षेप चरणवूर्ध्वं स्तन्यार्थी प्ररुरोद ह ॥ १ ॥
तस्य पादप्रहारेण शकटं परिवर्तितम् ।
विध्वस्तकुम्भभाण्डं तद्विपरीतं यपात वै ॥ २ ॥
ततो ह्यद्यकृतं सर्वो गोपगोपीजनो द्विज ।
आजगामाय ददृशे बालमुत्तानशायिनम् ॥ ३ ॥
गोपाः केनेति केनेदं शकटं परिवर्तितम् ।
तत्रैव बालकाः प्रोचुर्बालेनानेन पातितम् ॥ ४ ॥
रुदता दृष्टमस्माभिः पादविक्षेपपातितम् ।
शकटं परिवृत्तं वै नैतदन्यस्य चेष्टितम् ॥ ५ ॥
ततः पुनरतीवासनोपा विस्मयचेतसः ।
नन्दगोपोऽपि जग्राह बालमत्यन्तविस्मितः ॥ ६ ॥
पशोदा शकटारूढभनभाण्डकपालिकाः ।
शकटं चार्चयामास हृदिपुष्पफलाञ्जतैः ॥ ७ ॥
गर्गाश्च गोकुले तत्र वसुदेवप्रचोदितः ।
प्रच्छन्न एव गोपानां संस्कारानकरोत्तयोः ॥ ८ ॥
ज्येष्ठं च राममित्याह कृष्णं चैव तथावरम् ।
गर्गो भतिपर्ता श्रेष्ठो नाम कुर्बन्वद्गामतिः ॥ ९ ॥

भगवान् वैकुण्ठ दिशाओंमें, मधुसूदन विदिशाओं
(कोणों) में, हृषीकेश आकाशमें तथा पृथिवीको धारण
करनेवाले श्रीशेषजी पृथिवीपर तैरते रक्षा करें ॥ २१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार स्वस्तिवाचन
कर नन्दगोपने बालक कृष्णको छकड़ेके नीचे एक
खंथेलेपर सुला दिया ॥ २२ ॥ मरी हुई पूतनाके महान्
कलेवरको देखकर उन सभी गोपोंको अत्यन्त भय
और विस्मय हुआ ॥ २३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—एक दिन छकड़ेके नीचे
सोये हुए मधुसूदनने दूधके लिये रोते-रोते ऊपरको
लात मारी ॥ १ ॥ उनकी लात लगते ही वह छकड़ा
रोट गया, उसमें रखे हुए कुम्भ और भाण्ड आदि
फूट गये और वह उलटा जा पड़ा ॥ २ ॥ हे द्विज !
उस समय हाहाकार मच गया, समस्त गोप-गोपीगण
वहाँ आ पहुँचे और उस बालकको उतान सोये हुए
देखा ॥ ३ ॥ तब गोपगण पूछने लगे कि 'इस छकड़ेको
किसने उलट दिया, किसने उलट दिया?' जो वहाँपर
खेलते हुए बालकोंने कहा—'इस कृष्णने ही गिराया
है ॥ ४ ॥ हमने अपनी आँखोंसे देखा है कि रोते-रोते
इसकी लात लगनेसे ही यह छकड़ा गिरकर उलट
गया है। यह और किसीका काम नहीं है' ॥ ५ ॥

यह सुनकर गोपगणके दिशमें अत्यन्त विस्मय
हुआ तथा नन्दगोपने अत्यन्त चकित होकर बालकको
ठला लिया ॥ ६ ॥ फिर यशोदाने भी छकड़ेमें रखे हुए
फूटे भाण्डोंके टुकड़ोंकी और उस छकड़ेकी दही,
पुष्प, अक्षत और फल आदिसे पूजा की ॥ ७ ॥

इसी समय वसुदेवजीके कहनेसे गर्गाचार्यने
गोपोंसे छिपे-छिपे गोकुलमें आकर उन दोनों
बालकोंके (द्विजोक्ति) संस्कार किये ॥ ८ ॥ उन
दोनोंके नामकरण-संस्कार करते हुए महामति गर्गजीने
बड़ेका नाम राम और छोटेका कृष्ण बतलाया ॥ ९ ॥

स्वल्पेनैव तु कालेन रिङ्गिणीं ती तदा व्रजे ।
घृष्टञ्चानुकरीं विप्रं बभूवतुस्तथापि ॥ १०
करीषभस्मदिग्धाङ्गीं भ्रममाणामितस्ततः ।
न निवारयितुं शोके यशोदा ती न रोहिणी ॥ ११
गोवाटमध्ये क्रीडन्ती वत्सवाटं गतीं पुनः ।
तदहर्जातिगोवत्सपुच्छाकर्षणतत्परी ॥ १२
यदा यशोदा तीं बालावेकस्थानचरानुभूषीं ।
शशाकं नो धारयितुं क्रीडन्तावतिचञ्चलौ ॥ १३
दान्ता भ्रष्टे ततो बद्ध्वा बद्ध्वा तमुलूखले ।
कृष्णामक्लिष्टकर्माणमाह चेदमपरिता ॥ १४
यदि शक्नोथि गच्छ त्वमतिचञ्चलचेष्टित ।
इत्सुक्त्वाथ निजं कर्म सा चकार कुटुम्बिनी ॥ १५
व्यग्रायामथ तस्यां स कर्षमाणं उलूखलम् ।
यमलार्जुनमध्येन जगाम कर्मलेक्षणाः ॥ १६
कर्षता वृक्षयोर्मध्ये तिर्धगतमुलूखलम् ।
भगवानुपुङ्गुशाखाग्रीं तेन तीं यमलार्जुनी ॥ १७
ततः कटकटाशब्दसमाकर्णनतत्परः ।
आजगाम व्रजजने ददर्श च महाद्रुपौ ॥ १८
नयोद्गताल्पदन्तांशुसितहासं च बालकम् ।
तयोर्मध्यगतं दान्ता बद्धं गच्छं तयोदरे ॥ १९
ततश्च दामोदरतां स यथै दामबन्धनात् ॥ २०
गोपवृद्धास्ततः सर्वे नन्दगोपपुरोगमाः ।
मन्त्रयामासुरुद्विग्ना महोत्पातातिभीरवः ॥ २१
स्थानेनेह न नः कार्यं व्रजामोऽन्यन्महान्वनम् ।
उत्पाता बहवो ह्यत्र दृश्यन्ते नाशहेतवः ॥ २२
पूतनाया विनाशश्च शकटस्य विपर्ययः ।
विना क्वात्तादिदोषेण द्रुमयोः पतनं तथा ॥ २३
वृन्दाव्रजमित्तः स्थानात्समाद्गच्छन्नममाप्तिम् ।
यावद्भीममहोत्पातदोषो पाथिभवेद्ब्रजम् ॥ २४
इति कृत्वा यतिं सर्वे गमने ते ब्रजैकसः ।
ऊचुस्त्वं स्वं कुलं शीघ्रं गच्छतो मा क्लिबन्ध ॥ २५

हे विप्र ! वे दोनों बालक थोड़े ही दिनोंमें गोओंके गोष्ठमें रंगते-रंगते हाथ और घुटनोंके बल चलनेवाले हो गये ॥ १० ॥ गोवर और राख-भंग शरीरसे इधर-उधर झूमते हुए उन बालकोंको यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थीं ॥ ११ ॥ कभी वे गोओंके घोषमें खेलते और कभी बछड़ोंके मध्यमें चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ोंको पूँछ पकड़कर खींचने लगते ॥ १२ ॥

एक दिन जब यशोदा, सदा एक ही स्थानपर साध-साध खेलनेवाले उन दोनों अत्यन्त चंचल बालकोंको न रोक सकी तं उसने अनायास ही सब कर्म करनेवाले कृष्णको रस्सीसे कटिभागमें कसकर ऊखलमें बाँध दिया और दीपपूर्वक इस प्रकार करने लगी— ॥ १३-१४ ॥ "अरे चंचल ! अब तुझमें सामर्थ्य ही तो भला जा" ऐसा कहकर कुटुम्बिनी यशोदा अपने घरके भन्धेमें लग गयी ॥ १५ ॥

इसके गुरुकर्ममें व्यग्र हो जानेपर कमलानयन कृष्ण ऊखलको खींचते खींचते यमलार्जुनके बीचमें गये ॥ १६ ॥ और उन दोनों युक्तोंके बीचमें तिरछी पट्टी हुई ऊखलको खींचते हुए उन्होंने ऊँची शाखाओंवाले यमलार्जुन वृक्षको उखाड़ डाला ॥ १७ ॥ तब उनके उखड़नेका कट-कट शब्द सुनकर वहाँ ब्रजवासी लोग दीह आये और उन दोनों महावृक्षोंको तथा उनके बीचमें कपरमें रस्सीसे कसकर बाँधे हुए बालकको नन्हें नन्हें अल्प दौंतांकी श्वेत किरणोंसे शुभ हास करते देखा । तभीसे रस्सीसे बाँधनेके कारण उनका नाम दामोदर पड़ा ॥ १८—२० ॥

तब नन्दगोप आदि समस्त वृद्ध गोपोंने महर्ष उत्पातोंके कारण अत्यन्त भयभीत होकर आपसमें यह सलाह की— ॥ २१ ॥ 'अब इस स्थानपर रहनेका ह्याद कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महावनको चलना चाहिये, क्योंकि यहाँ यशके कारणस्वरूप, पूतना-वध, इकट्टेका लोट जाना तथा ओंभी आदि किसी दोषके बिना ही दुष्टोंका गिर पडना इत्यादि बहुत-से उत्पात दिखायी देने लगे हैं ॥ २२-२३ ॥ अतः अन्ततः कोई भूमिसम्बन्धी महान् उत्पात प्रजको नष्ट न करे तबतक शीघ्र ही हमलोग इस स्थानसे वृन्दावनको चले दें' ॥ २४ ॥

इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलनेका विचारकर अपने-अपने कुटुम्बके लोगोंसे कहने लगे—'शीघ्र ही चलो, देरी मत करो' ॥ २५ ॥

ततः क्षणेन प्रययुः शकटीर्गोधनैस्तथा ।
 यूथशो वत्सपालाश्च कालयन्तो झञ्जीकस्तः ॥ २६ ॥
 ब्रह्मावयवनिर्द्धृतं क्षणमात्रेण तत्तथा ।
 काकभाससमाकीर्णं व्रजस्थानमभूद्द्विज ॥ २७ ॥
 वृन्दावनं भगवता कृष्णेनाकिलष्टकर्मणा ।
 शुभेन मनसा ध्यातं गवां सिद्धिमभीप्सता ॥ २८ ॥
 ततस्तत्रातिरुक्षेऽपि घर्मकाले द्विजोत्तम ।
 प्रावृद्काल इवोद्धृतं नवशय्यं सप्तततः ॥ २९ ॥
 स समावासितः सर्वो व्रजो वृन्दावने ततः ।
 शकटीवाटपर्यन्तश्चन्द्रार्द्धाकारसंस्थितिः ॥ ३० ॥
 वत्सपालीं च संवृत्तीं रामदामोदरीं ततः ।
 एकस्थानस्थितौ गोष्ठे चेतुर्बाललीलया ॥ ३१ ॥
 बहिपत्रकृतापीडौ वन्यपुष्पावतंसकौ ।
 गोपवेषुकृतातोद्यपत्रबाह्यकृतस्वनौ ॥ ३२ ॥
 काकपक्षधरौ बालीं कुमारविव पावकी ।
 हसन्तौ च रमन्तौ च चेरतुः स्म मग्नवनम् ॥ ३३ ॥
 क्वचिद्गृह्णन्तान्योन्यं झीडमानौ तथा परैः ।
 गोपपुत्रैस्समं वत्साश्चारयन्तौ विचेरतुः ॥ ३४ ॥
 कालेन गच्छता तौ तु सप्तवर्षीं मग्नव्रजे ।
 सर्वस्य जगतः पालीं वत्सपालीं बभूवतुः ॥ ३५ ॥
 प्रावृद्कालस्ततोऽतीवमेघीघस्थगिताम्बरः ।
 बभूव सारिधाराभिरिव्यं कुर्वन्दिशामिव ॥ ३६ ॥
 प्रस्तुतनक्षत्राभ्याङ्ग्या शक्रगोपाचिता मही ।
 तथा मारकतीवासीत्यन्तरागविभूषिता ॥ ३७ ॥
 ऊर्ध्वरुन्मार्गवाहीनि निम्नगाम्भांसि सर्वतः ।
 पनांसि दुर्बिनीतानां प्राप्य लक्ष्मीं नवाभिव ॥ ३८ ॥
 न रेजेऽन्तरितश्चन्द्रो निर्मलो मलिनैर्धनैः ।
 सद्वादिवाद्यो मूर्खाणां प्रगल्भाभिरिवोक्तिभिः ॥ ३९ ॥

तब वे व्रजवासी वत्सपाल दल बाँधकर एक क्षणमें ही छकड़ों और गौओंके साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिये ॥ २६ ॥ हे द्विज ! वस्तुओंके अवशिष्टशोसे युक्त यह व्रजभूमि क्षणभरमें ही काक तथा भास आदि पक्षियोंसे व्याप्त हो गयी ॥ २७ ॥

तब लीलाविद्यारी भगवान् कृष्णने गौओंकी अधिवृद्धिकी इच्छासे अपने शुद्धचित्तसे वृन्दावन (नित्य-वृन्दावनभ्रम) -का चिन्तन किया ॥ २८ ॥ इससे, हे द्विजोत्तम ! अल्पना रुक्ष शीष्मकालमें भी वहाँ वर्षाऋतुके समान सब ओर नवीन दूब उत्पन्न हो गयी ॥ २९ ॥ तब चारों ओर अर्द्धचन्द्राकारसे छकड़ोंको वाढ़ लगाकर वे सप्तत व्रजवासी वृन्दावनमें रहने लगे ॥ ३० ॥

तदनन्तर राम और कृष्ण भी बछड़ोंके रखक हो गये और एक स्थानपर रहकर गोष्ठमें बाललीला करते हुए विचरने लगे ॥ ३१ ॥ वे काकपक्षधारी दोनों बालक सिरपर मयूर-पिच्छका मुकुट धारणकर तथा वन्यपुष्पोंके कर्णभूषण पहन ग्वालोरित बंशी आदिसे सत्र प्रकारके बाजोंकी ध्वनि करते तथा पत्तोंके बानेसे ही नाना प्रकारको ध्वनि निकालते, स्कन्दके अंशभूत शास्त्र-विशाख कुम्हारोंके समान हँसते और खेलते हुए उस महावनमें विचरने लगे ॥ ३२-३३ ॥ कभी एक-दूसरेको अपने पीठपर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल-खालोंके साथ खेलते हुए वे बछड़ोंको चराते साथ-साथ घूमते रहते ॥ ३४ ॥ इस प्रकार उस मग्नव्रजमें रहते-रहते कुछ समय बीतनेपर वे निखिललोकपालक वत्सपल सात पर्यंके हो गये ॥ ३५ ॥

तब मेघसमूहसे आकाशको आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय सारिधाराओंसे दिशाओंको एकरूप करता हुआ वर्षाकाल आया ॥ ३६ ॥ उस समय नवीन दूबकी बढ़ जाने और वीरवहृदियोंसे* व्याप्त हो जानेके कारण पृथिवी पद्मपत्रगविभूषिता मरकतमयी-सौ जान पड़ने लगी ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषोंका चित्त उर्ध्वखल हो जाता है, उसी प्रकार नदियोंका जल सब ओर अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगता ॥ ३८ ॥ जैसे मूर्ख मनुष्योंकी धृष्टतापूर्ण उक्तियोंसे अच्छे वक्ताकी प्राप्ति भी मलिन पड़ जाती है वैसे ही मलिन मेघोंसे आच्छादित रहनेके कारण निर्मल चन्द्रमा भी शोभाहीन हो गया ॥ ३९ ॥

* एक प्रकारके सप्त कीड़े, जो वर्षा-कालमें उत्पन्न होते हैं, उन्हें मरकतांश और वीरवहृदी कहते हैं।

निर्गुणेनापि चापेन शक्रस्य गगने पदम् ।
 अवाप्यताविवेकस्य नृपस्येव परिग्रहे ॥ ४०
 मेघपृष्ठे बलाकानां रराज विमला ततिः ।
 दुर्वृत्ते वृत्तचेष्टेव कुलीनस्यातिशोभना ॥ ४१
 न ब्रह्मन्धाम्बरे स्थैर्यं विद्युदत्यन्तचञ्चला ।
 मैत्रीय प्रवरे पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता ॥ ४२
 मार्गां बभूवुरस्पष्टास्तृणशष्यधवायुताः ।
 अर्धान्तरमनुप्राप्ताः प्रजङ्गानामिवोक्तवः ॥ ४३
 उन्मत्तशिखिसारङ्गे तस्मिन्काले महावने ।
 कृष्णरामौ मुदा युक्तौ गोपालेश्चैरतुस्तह ॥ ४४
 क्वचिद्गोभिस्समं शशं रोयतानरतायुभौ ।
 चैरतुः क्वचिदत्यर्थं शीतवृक्षतलाश्रितौ ॥ ४५
 क्वचित्कदम्बस्रक्विचिवी मयूरस्रग्विराजितौ ।
 विलिप्तौ क्वचिद्दासलां विविधैरिग्निधातुभिः ॥ ४६
 पर्णशय्यासु संसुप्तौ क्वचिन्निद्रान्तरैषिणौ ।
 क्वचिद्गर्जति जीमूते हाहाकारवाकुली ॥ ४७
 गायतामन्यगोपानां प्रशंसापरमौ क्वचित् ।
 मयूरकेकानुगतौ गोषवेणुप्रवादकौ ॥ ४८
 इति नानाविधैर्भावैरुत्तमप्रीतिसंयुतौ ।
 क्रीडन्तौ तौ वने तस्मिंश्चैरतुस्तुष्टमानसौ ॥ ४९
 विकाले च सप्त गोभिर्गोपवृन्दसम्बन्धितौ ।
 विह्वलाश्च यथायोगं व्रजमेत्य महाबली ॥ ५०
 गोपैस्समानैस्सहितौ क्रीडन्तावधराविध ।
 एवं तावृषतुस्तश्च रामकृष्णौ महाद्युतौ ॥ ५१

जिस प्रकार विवेकहीन राजाके संगमें गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाशमण्डलमें गुणरहित इन्द्र-धनुष स्थित हो गया ॥ ४० ॥ दुराचारी पुरुषमें कुलीन पुरुषकी निष्कपट शुभ चेष्टाके समान मेघमण्डलमें बगूलोंको निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी ॥ ४१ ॥ श्रेष्ठ पुरुषके साथ दुर्जनकी मित्रताके समान अत्यन्त भ्रंशला विद्युत् आकाशमें स्थिर न रह सकी ॥ ४२ ॥ फलापूर्व यन्त्रियोंकी अन्यायिका उक्तिगोंके समान मार्ग तृण और दूरतमभूतसे आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गये ॥ ४३ ॥

उस समय उन्मत्त मयूर और चातकगणसे सुशोभित महावनमें कृष्ण और राम प्रसन्नतापूर्वक गोपकुमारोंके साथ विचरने लगे ॥ ४४ ॥ वे दोनों कभी गोओंके साथ शीतकर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यन्त शीतल वृक्षतलाका आश्रय लेते हुए विचरते रहते थे ॥ ४५ ॥ वे कभी तो कदम्बपुष्पोंके झरसे विचित्र वेष बना लेते, कभी मयूरपिच्छकी मालासे सुशोभित होते और कभी नाना प्रकारकी पर्वतीय धातुओंसे अपने शरीरको लिप्त कर लेते ॥ ४६ ॥ कभी कुछ झपकी लेनेकी इच्छासे पतलकी शय्यापर लेट जाते और कभी मेघके गर्जनेपर 'ह्र-हा' करके कोलाहल मचाने लगते ॥ ४७ ॥ कभी दूसरे गोपोंके गानेपर आप दोनों उसको प्रशंसा करते और कभी खालोंकी-सी बौसुरी बजाते हुए मयूरकी बोलोका अनुकरण करने लगते ॥ ४८ ॥

इस प्रकार वे दोनों अत्यन्त प्रीतिके साथ नाना प्रकारके भावोंसे परस्पर खेलते हुए प्रसन्नचित्तसे उस वनमें विचरने लगे ॥ ४९ ॥ समयकालके समय वे महाबली बालक वनमें यथायोग्य विहार करनेके अनन्तर गौ और भाल-बालोंके साथ व्रजमें लौट आते थे ॥ ५० ॥ इस तरह अपने समवयस्क गोपगणके साथ देवताओंके समान क्रीडा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहाँ रहने लगे ॥ ५१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सातवाँ अध्याय

कालिय-दमन

श्रीपराशर उवाच

एकदा तु विना रामं कृष्णो वृन्दावनं ययौ ।
विचचार वृतो गोपैर्वन्यपुष्पस्रगुन्ज्वलः ॥ १

स जगन्माद्य कालिन्दीं लोलकल्लोलशालिनीम् ।
तीरसंलग्नफेनौघैर्हंसन्तीमिव सर्वतः ॥ २

तस्याञ्ज्वातिमहाभीमं विषाग्निश्रितवारिकम् ।
हृदं कालियनागस्य ददर्शातिविभीषणम् ॥ ३

विषाग्निना प्रसरता दग्धतीरमहीरुहम् ।
वाताहताम्बुविक्षेपस्पर्शदग्धचिह्नङ्गमम् ॥ ४

तमतीव महारीद्रं मृत्युवक्त्रमिवापरम् ।
वित्तोक्य क्षिन्तव्यामास भगवान्मधुसूदनः ॥ ५

अस्मिन्क्षति दुष्टात्मा कालियोऽसी विषाबुधः ।
यो मया निर्जितस्त्यक्त्वा दुष्ट्ये नष्टः पयोनिधिम् ॥ ६

तेनेयं दूषिता सर्वा यमुना सागरङ्गमा ।
न चरैर्गोधनैश्चापि तुषार्तरुपधुष्यते ॥ ७

तदस्य नागराजस्य कर्तव्यो निग्रहो मया ।
निस्त्रासास्तु सुखं येन चरेयुर्ब्रजवासिनः ॥ ८

एतदर्थं तु लोकेऽस्मिन्भवतारः कृतो मया ।
यद्देशामुत्पद्यस्थानां कार्यां क्षान्तिर्दुरात्मनाम् ॥ ९

तदेतं नातिदूरस्थं कदम्बपुरुशाखिनम् ।
अधिरुह्य पतिष्यामि हृदेऽस्मिन्निलाशिनः ॥ १०

श्रीपराशर उवाच

इत्थं विचिन्त्य बद्ध्वा च गार्हं परिकरं ततः ।
निपपात हृदे तत्र नागराजस्य वेगतः ॥ ११

तेनातिपतता तत्र क्षोभितस्स मग्नहृदः ।
अत्वर्थं दूरजातास्तु समसिञ्चन्महीरुहम् ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—एक दिन रामको बिना साथ लिये कृष्ण अकेले ही वृन्दावनको गये और वहाँ तन्व पुष्पोंकी मालाओंसे सुशोभित हो गोपगणसे घिरे हुए विचरने लगे ॥ १ ॥ घूमते-घूमते ये चंचल तरंगोंसे शोभित यमुनाके तटपर जा पहुँचे जो किनारोंपर फेनके इकट्ठे हो जानेसे मानो सब ओरसे हँस रही थी ॥ २ ॥ यमुनाजीमें उन्होंने विषाग्निसे सनापत कलवाला कालियनागका महाभयंकर कुण्ड देखा ॥ ३ ॥ उसकी विषाग्निके प्रसारसे किनारेके वृक्ष जल गये थे और वायुके धपेड़ोंसे उछलते हुए जलकणोंका स्पर्श होनेसे पक्षिगण दग्ध हो जाते थे ॥ ४ ॥

मृत्युके अफर मुखके समान उस महाभयंकर कुण्डको देखकर भगवान् मधुसूदनने विचार किया— ॥ ५ ॥ 'इसमें दुष्टात्मा कालियनाग रहता है जिसका विष ही शस्त्र है और जो दुष्ट मुझे [अर्थात् मेरी विभूति गरुड]-से पराकृत हो समुद्रको छोड़कर भाग आया है ॥ ६ ॥ इसने इस समुद्रगामिनी सम्पूर्ण यमुनाको दूषित कर दिया है, अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओंके भी काममें नहीं आता है ॥ ७ ॥ अतः मुझे इस नागराजका दमन करना चाहिये, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सकें ॥ ८ ॥ 'हम कुमार्गगामी दुरात्माओंको शान्त करना चाहिये, इसलिये ही तो मैंने इस लोकमें अवतार लिया है ॥ ९ ॥ अतः अब मैं इस ऊँची-ऊँची शाखाओवाले पासहीके कदम्बवृक्षपर चढ़कर वायुमयी नागराजके कुण्डमें कूदता हूँ ॥ १० ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे शैशेव! ऐसा विचारकर भगवान् अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराजके कुण्डमें कूद पड़े ॥ ११ ॥ उनके कूदनेसे उस महाहृदने अत्यन्त क्षोभित होकर दूरस्थित वृक्षोंको भी भिगो दिया ॥ १२ ॥

तेऽहिदुष्टविषञ्चालात्पाम्बुपवनोक्षिताः ।
 जञ्चलुः पादपाससद्यो ज्वालाव्याप्तदिग्गतराः ॥ १३
 आस्त्रोदयामास तदा कृष्णो नागहृदे भुजम् ।
 तच्छब्दश्रवणाञ्चाशु नागराजोऽभ्युपागमत् ॥ १४
 आताम्रनयनः कोपाद्विषञ्चालाकुलैर्मुखैः ।
 वृत्तो महाविषैश्चान्यैरुत्तरैरनिलाशनैः ॥ १५
 नागपत्न्यश्च शतशो हरिहरोपशोभिताः ।
 प्रकम्पिततनुक्षेपचलत्कुण्डलकान्तयः ॥ १६
 ततः प्रवेष्टितस्सर्पैस्स कृष्णो भोगबन्धनैः ।
 दर्दशुस्तेऽपि तं कृष्णं विषञ्चालाकुलैर्मुखैः ॥ १७
 तं तत्र पतितं दृष्ट्वा सर्पभोगैर्निपीडितम् ।
 गोपा व्रजमुपागम्य चुक्रुशुः शोकलालसाः ॥ १८

गोपा ऊचुः

एष मोहं गतः कृष्णो मग्नो वै कालियहृदे ।
 भक्षते नागराजेन तमागच्छत पश्यत ॥ १९
 तच्छ्रुत्वा तत्र ते गोपा व्रजपातोपमं वचः ।
 गोप्यश्च त्वरिता जग्मुर्म्यशोदाप्रमुखा ह्वयम् ॥ २०
 हा हा मयासाक्षितिं जनो गोपीनामतिविह्वलः ।
 यशोदाया समं भ्रान्तो द्रुतप्रस्खलितं ययौ ॥ २१
 नन्दगोपश्च गोपाश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः ।
 स्वरितं यमुनां जग्मुः कृष्णादर्शनलालसाः ॥ २२
 ददृशुश्चापि ते तत्र सर्पराजवशंगतम् ।
 निष्प्रयत्नीकृतं कृष्णं सर्पभोगविवेष्टितम् ॥ २३
 नन्दगोपोऽपि निश्चेष्ट्ये न्यस्य पुत्रमुखे वृक्षम् ।
 यशोदा च महाभागा बभूव मुनिसत्तम ॥ २४
 गोप्यस्त्वन्या रुदन्त्यश्च ददृशुः शोककातराः ।
 प्रोक्षुश्च केशवं प्रीत्या भयकातर्यगद्गदम् ॥ २५

गोप्य ऊचुः

सर्वा यशोदया सार्धं विशामोऽत्र महाह्वयम् ।
 सर्पराजस्य नो गन्तुमस्माभिर्युज्यते व्रजम् ॥ २६
 हितसः क्वे विना सूर्यं किञ्च चन्द्रेण च निशा ।
 विना वृषेण वा गावो विना कृष्णेण चो व्रजः ॥ २७

उस सर्पके विषम विषकी ज्वालासे तपे हुए जलसे भोगनेके कारण ये वृक्ष तुरन्त ही जल उठे और उनकी ज्वालाओंसे सम्पूर्ण दिशाएँ व्याप्त हो गयीं ॥ १३ ॥

तब कृष्णचन्दने उस नागकुण्डमें अपनी भुजाओंको टेंका; उनका शब्द सुनते ही वह नागराज बुरंत उनके सम्मुख आ गया ॥ १४ ॥ उसके नेत्र क्रोधसे कुछ तम्रवर्ण हो रहे थे, मुखोंसे अग्निकी लपटें निकल रही थीं और वह महाविषले अन्य वायुभक्षी समीपसे घिरा हुआ था ॥ १५ ॥ उसके साथमें पनोहर हारोसे भूषिता और शरीर कम्पनसे हिलते हुए कुण्डलीकी कान्तिसे श्रुतःभिता सैकड़ों नागपत्नियों थीं ॥ १६ ॥ तब सपनि कुण्डलवाकार होकर कृष्णचन्द्रको अपने शरीरसे बाँध लिया और अपने विषाग्नि सन्तापा मुखोंसे काटने लगे ॥ १७ ॥

तदनन्तर गोपगण कृष्णचन्द्रको नागकुण्डमें गिरा हुआ और सर्पोंके फणोंसे पीडित होता देख ब्रजमें चले आये और शोकसे व्याकुल होकर रोने लगे ॥ १८ ॥

गोपगण बोले—आओ, आओ, देखो! यह कृष्ण कालीदेहमें डूबकर मूर्च्छित हो गया है, देखो इसे नागराज खाधे जाता है ॥ १९ ॥ व्रजपातके समान उनके इन अपंगल वाक्योंको सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियों तुरंत ही कालीदेहपर दौड़ आयीं ॥ २० ॥ 'हाय! हाय! वे कृष्ण कहीं गये?' इस प्रकार अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक रोती हुई गोपियाँ यशोदाके साथ शीघ्रतासे गिरती-पड़ती चलीं ॥ २१ ॥ नन्दजी तथा अन्यान्य गोपगण और अद्भुत-विक्रमशाली बलरामजी भी कृष्णदर्शनकी लालसासे शीघ्रतापूर्वक यमुना-तटपर आये ॥ २२ ॥

यहाँ आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचन्द्र सर्पराजके चंगुलमें फँसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीरसे लपेटकर निरुपाध कर दिया है ॥ २३ ॥ हे मुनिसत्तम! महाभागा यशोदा और नन्दगोप भी पुत्रके मुखपर टकटकी लगाकर चेष्टाशून्य हो गये ॥ २४ ॥ अन्य गोपियोंने भी जब कृष्णचन्द्रको इस दशामें देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगीं और भय तथा व्याकुलताके कारण गद्गदवाणीसे उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगीं ॥ २५ ॥

गोपियों बोलीं—अब हम सब भी यशोदाके साथ इस सर्पराजके महाकुण्डमें ही डूबी जाती हैं, अब हमें ब्रजमें जाना उचित नहीं है ॥ २६ ॥ सूर्यके बिना दिन कैसा? चन्द्रमाके बिना रात्रि कैसी? सौंडके बिना गीएँ क्या? ऐसे ही कृष्णके बिना ब्रजमें भी क्या रखा है? ॥ २७ ॥

विनाकृता न यास्यामः कृष्णो नानेन गोकुलम् ।
 अरम्यं नात्तिसेव्यं च वारिहीनं यथा सरः ॥ २८
 यत्र नेन्दीवरदलश्यामकान्तिरथ हरिः ।
 तेनापि मातुर्वासने रतिरस्तीति जिस्मयः ॥ २९
 उत्फुल्लपङ्कजदलस्पष्टकान्तिविलोचनम् ।
 अपश्यन्त्यो हरिं दीनाः कथं गोष्ठे भविष्यथ ॥ ३०
 अत्यन्तमभुरालापहृष्टाशेषमनोरथम् ।
 न विना पुण्डरीकाक्षं यास्यामो नन्दगोकुलम् ॥ ३१
 भोगेनारवैष्टितस्यापि सर्पराजस्थ पश्यत ।
 स्मितशोभि मुखं गोप्यः कृष्णस्यास्मद्विलोकने ॥ ३२

श्रीपराशर उवाच

इति गोपीवचः श्रुत्वा रीह्मिणो यो महाबलः ।
 गोपांश्च त्रासविधुराविलोक्य स्तिमितेक्षणान् ॥ ३३
 नन्दं च दीनमत्यर्थं न्यस्तदृष्टिं सुतानने ।
 मूर्च्छाकुलां यशोदां च कृष्णमाहात्मसेजसा ॥ ३४
 किमिदं देवदेवेश भावोऽयं मानुषस्त्वया ।
 घृण्यतेऽत्यन्तमात्मानं किमनन्तं न वेत्सि यत् ॥ ३५
 त्वमेव जगतो नाभिरराणामिव संश्रयः ।
 कर्तापहर्ता पाता च त्रैलोक्यं त्वं त्रयीपथः ॥ ३६
 सेनै रुद्राग्निवसुधिरादित्यैर्मरुदशिवभिः ।
 सिन्धुसे त्वमचिन्त्यात्मन् समस्तैश्चैव योगिभिः ॥ ३७
 जगत्पथं जगन्नाथ भारवतरणोच्छ्रया ।
 अवतीर्णोऽसि मर्त्येषु तवांशश्चाहमग्रजः ॥ ३८
 मनुष्यलीलां भगवन् भजता भवता सुराः ।
 सिद्धम्वयन्तस्त्वल्लीलां सर्व एव सहासते ॥ ३९
 अवतार्य भवान्पूर्वं गोकुले तु सुराङ्गनाः ।
 स्त्रीस्वार्थमात्मनः पश्चादवतीर्णोऽसि शाश्वत ॥ ४०
 अप्रावतीर्णयोः कृष्ण गोपा एव हि बान्धवाः ।
 गोप्यश्च सीदतः कस्मादेतान्बन्धुनुपेक्षसे ॥ ४१
 दर्शितो मानुषो भावो दर्शितं बालसापलम् ।
 तदयं दम्बतां कृष्ण दुष्टात्मा दृशनायुधः ॥ ४२

कृष्णके विना साथ लिये अब हम गोकुल नहीं जायेंगी; क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवरके समान अत्यन्त अपव्य और असेव्य है ॥ २८ ॥ जहाँ नीलकमलदलकी—सौ आभावाले ये श्यामसुन्दर हरि नहीं हैं उस मातु—मन्दिरसे भी प्रीति होना अत्यन्त आश्चर्य ही है ॥ २९ ॥ अरी! खिले हुए कमलदलके सदृश कान्तियुक्त नेत्रोंवाले श्रीहरिको देखे बिना अत्यन्त दीन हुईं तुम किस प्रकार व्रजमें रह सकोगी? ॥ ३० ॥ जिन्होंने अपनी अत्यन्त मनोहर बोलोसे हमारे सम्पूर्ण मनोरथोंको अपने पशीभूत कर लिया है, उन कमलनयन कृष्णचन्द्रके बिना हम नन्दजीके गोकुलकी नहीं जायेंगी ॥ ३१ ॥ अरी गोपियो! देखो, सर्पराजके फणसे आनृत होकर भी श्रीकृष्णका मुख हमें देखकर यशुर पुसकानसे सुरगोपित हो रहा है ॥ ३२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—गोपियोंके ऐसे वचन सुनकर तथा त्रासविधुर चकितनेत्र गोपीको, पुत्रके मुखपर दुष्टि लगाये अत्यन्त दीन नन्दजीको और मूर्च्छाकुल यशोदाको देखकर महाबली रोहिणीनन्दन बलरामजीने अपने संकेतमें कृष्णजीसे कहा— ॥ ३३-३४ ॥ "हे देवदेवेश्वर! क्या आप अपनेको अनन्त नहीं जानते? फिर किसलिये यह अत्यन्त मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ पहियोंकी नाभि जिस प्रकार अरोंका आश्रय होती है उसी प्रकार आप ही जगत्के आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही कैलोक्यस्वरूप और वेदत्रयीमय हैं ॥ ३६ ॥ हे अचिन्त्यात्मन्! इन्द्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुद्गण और अश्विनीकुमार तथा सप्तसप्त योगिजन आपहीके चिन्तन करते हैं ॥ ३७ ॥ हे जगन्नाथ! संसारके हितके लिये पृथिवीका भार उतारनेकी इच्छासे ही आपने मर्त्यलोकमें अवतार लिया है; आपका अग्रज मैं भी आपहीका अंश हूँ ॥ ३८ ॥ हे भगवन्! आपके मनुष्य-लीला करनेपर ये गोपवेषधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओंका अनुकरण करते हुए आपहीके साथ रहते हैं ॥ ३९ ॥ हे शाश्वत! पहले अपने विहारार्थ देजांगनाओंको गोपीरूपसे गोकुलमें अवतीर्णकर पीछे आपने अवतार लिया है ॥ ४० ॥ हे कृष्ण! यहाँ अवतीर्ण होनेपर हम दोनोंके तो ये गोप और गोपियो ही बान्धव हैं; फिर अपने इन दुःखी बान्धवोंकी आप क्यों उपेक्षा करते हैं ॥ ४१ ॥ हे कृष्ण! यह मनुष्यभाव और बालसापत्य तो आप बहुत दिखा चुके, अब तो शीघ्र ही इस दुष्टभक्त जिसके सस्त्र दौत ही हैं, दमन करीजिये ॥ ४२ ॥

श्रीपराशर उवाच

इति संस्मारितः कृष्णः स्मितधिनोष्ठसम्पुटः ।
 आस्फोट्य मोक्षयामास स्वदेहं भोगिबन्धनात् ॥ ४३ ॥
 आनम्य चापि हस्ताभ्यामुभाभ्यां मध्यमं शिरः ।
 आरुह्याभुग्नशिरसः प्रणानत्तोरुविक्रमः ॥ ४४ ॥
 प्राणाः फणोऽभयंश्चास्य कृष्णस्याहृदिभिकुट्टैः ।
 यत्रोन्नतिं च कुरुते ननामास्य ततश्शिरः ॥ ४५ ॥
 मुच्छ्रमृषाययी भ्रान्त्या नागः कृष्णस्य रेवकैः ।
 दण्डपातनिपातेन यवाम रुधिरं बहू ॥ ४६ ॥
 तं विभुग्नशिरोप्रीवमास्येभ्यस्स्वुतशोषितम् ।
 विलोक्यं करुणं जग्मुस्तत्पत्न्यौ मष्टुसूदनम् ॥ ४७ ॥

नमपत्न्य ऊचुः

ज्ञातोऽसि देवदेवेश सर्वज्ञस्त्वमनुत्तमः ।
 परं ज्योतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परमेश्वरः ॥ ४८ ॥
 न समर्थाः सुरास्तोतुं यपनन्यधर्मं विभुम् ।
 स्वरूपवर्णनं तस्य कथं बोधित्करिष्यति ॥ ४९ ॥
 यस्याखिलबहोव्योमजलाग्निपवनात्मकम् ।
 ब्रह्माण्डमल्पकाल्पांशः स्तोष्यामस्तं कथं ययम् ॥ ५० ॥
 यतन्तो न विदुर्नित्यं यत्स्वरूपं हि योगिनः ।
 परमार्थमणोरस्यं स्थूलात्स्थूलं नताः स्म तम् ॥ ५१ ॥
 न यस्य जन्मने घाता यस्य चान्ताय मानकः ।
 स्थितिकर्ता न चायोजित यस्य तस्मै नमस्सदा ॥ ५२ ॥
 क्रोधः स्वल्पोऽपि ते नास्ति स्थितिपालनमेव ते ।
 कारणं कालिघस्यास्य दमने श्रूयतां वचः ॥ ५३ ॥
 स्त्रियोऽनुकम्प्यास्वधूर्नां मूढा दीनाश्च जन्तवः ।
 यतस्ततोऽस्य दीनस्य क्षम्यतां क्षमतां वर ॥ ५४ ॥
 समस्तजगदाधारो भवानल्पबलः फणी ।
 त्वत्पादपीडितो जह्यान्सुहृतान्द्वैर्न जीवितम् ॥ ५५ ॥
 क्व पनागोऽल्पकीर्योऽयं क्व भवान्भुवनाग्रयः ।
 प्रीतिद्वेषौ सयोत्कृष्टगोचरौ भवतोऽज्यय ॥ ५६ ॥

श्रीपराशरवी बोले—इस प्रकार स्मरण करायें
 जानेपर, मधुर मुसकानसे अपने ओष्ठसम्पुटको खोलें
 हुए श्रीकृष्णचन्द्रने उद्वस्तकर अपने शरीरको सर्पके
 बन्धनसे छुड़ा लिया ॥ ४३ ॥ और फिर अपने दोनों
 हाथोंसे उसका बीचका फण झुकाकर उस नतपरतक
 सर्पके ऊपर चढ़कर जड़े वेगसे नाचने लगे ॥ ४४ ॥

कृष्णचन्द्रके चरणोंको धमकसे उसके प्राण पृच्छयें अं
 गये, यह अपने जिस पस्तकको उठाहा उसीपर कूदकर भगवन्
 उसने झुका देते ॥ ४५ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रनेको धर्मत (धन्), रेवक
 तथा दण्डपात नामको [नृत्यसम्बन्धिनी] गतियोंके ताडनसे
 यह महासर्प मूर्च्छित हो गया और उसने बहुत-सा रुधिरचपन
 किया ॥ ४६ ॥ इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओंको झुके
 हुए तथा मुखोंमें रुधिर भरता देख उसकी पत्नियों करुणासे
 भरकर श्रीकृष्णचन्द्रके पास आयीं ॥ ४७ ॥

नरगपत्नियों बोलीं— हे देवदेवेश्वर ! हमने आपसे
 पहचान लिया; आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिन्त्य
 और परम ज्योति हैं आप उसीके अंश परमेश्वर हैं ॥ ४८ ॥
 जिन स्वयम्भू और व्यापक प्रभुकी स्तुति करनेमें देवाण
 भी समर्थ नहीं हैं उन्हीं आपके स्वरूपका हम स्त्रियों किस
 प्रकार वर्णन कर सकतें हैं ? ॥ ४९ ॥ पृथिवी, आकाश,
 जल, अग्नि और वायुस्वरूप वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिनका
 छोटे-से-छोटा अंश है, उसको स्तुति हम किस प्रकार कर
 सकेंगे ॥ ५० ॥ योगिन जिनके नित्यरूपस्पर्को यत्न करनेपर
 भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थरूप अणुसे भी अणु
 और स्थूलसे भी स्थूल हैं उसे हम नमस्कार करतें हैं ॥ ५१ ॥
 जिनके जन्ममें विधाता और अन्तमें काल हेतु नहीं हैं तथा
 जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अन्य नहीं है उन्हें सर्वदा
 नमस्कार करती हैं ॥ ५२ ॥ इस कालियनागके दमनमें आपको
 मोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोकरक्षा ही इसका
 हेतु है; अतः हमारा निवेदन सुनिये ॥ ५३ ॥ हे क्षमाशीलोंमें
 श्रेष्ठ । साधु पुरुषोंको स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जन्तुओंपर
 सदा ही कृपा करनी चाहिये; अतः आप इस दीनका
 अपराध क्षमा कौनिये ॥ ५४ ॥ प्रभो ! आप सम्पूर्ण संसारके
 अधिपान हैं और यह सर्प तो [आपकी अपेक्षा] अल्पत
 बलहीन है। आपके चरणोंसे पीडित होकर तो यह आधे
 मुहूर्त्तमें ही अपने प्राण छोड़ देगा ॥ ५५ ॥

हे अन्यय ! प्रीति समानसे और द्वेष उत्कृष्टसे देखे
 जाते हैं; फिर कहीं तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहीं

तरः कुरु जगत्स्वामिन्प्रसादमवसीदतः ।
 प्राणांस्त्वजति नागोऽयं भर्तृभिक्षा प्रदीयताम् ॥ ५७
 भुवनेश जगन्नाथ महापुरुष पूर्वज ।
 प्राणांस्त्वजति नागोऽयं भर्तृभिक्षो प्रथच्छ नः ॥ ५८
 वेदान्तवेद्य देवेश दुष्टदैत्वनिर्बर्हण ।
 प्राणांस्त्वजति नागोऽयं भर्तृभिक्षा प्रदीयताम् ॥ ५९

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्ते ताभिराश्वस्य क्लान्तदेहोऽपि पन्गः ।
 प्रसीद देवदेवेति ग्राह साक्यं शनैः शनैः ॥ ६०

कालिय उवाच

तथाष्टगुणमैश्वर्यं नाथ स्वाभाविकं परम् ।
 निरस्तातिशयं यस्य तस्य स्तोष्यामि किन्त्वहम् ॥ ६१

त्वं परस्त्वं परस्याद्यः परं त्वत्तः परात्मक ।
 परस्मात्परमो यस्य तस्य स्तोष्यामि किन्त्वहम् ॥ ६२

यस्माद्ब्रह्मा च रुद्रश्च चन्द्रेन्द्रमरुदशिवनः ।
 वसवश्च महादिव्यैस्तस्य स्तोष्यामि किन्त्वहम् ॥ ६३

एकाग्रवससूक्ष्मांशो व्यस्यैतदश्विनं जगत् ।
 कल्पनावधवस्यांशस्तस्य स्तोष्यामि किन्त्वहम् ॥ ६४

सदसद्भूपिणो यस्य ब्रह्माद्यास्त्रिदशेश्वराः ।
 परमार्थं न जानन्ति तस्य स्तोष्यामि किन्त्वहम् ॥ ६५

ब्रह्मादीरर्चितो यस्तु गन्धपुष्यानुलेपमैः ।
 नन्दनादिसमुद्भूतैस्सोऽर्च्यते वा कथं मया ॥ ६६

यस्याघताररूपाणि देवराजससदादीनि ।
 न वेत्ति परमं रूपं सोऽर्च्यते वा कथं मया ॥ ६७

विषयेभ्यस्समावृत्य सर्वाक्षाणि च योगिनः ।
 यमर्चयन्ति ध्यानेन सोऽर्च्यते वा कथं मया ॥ ६८

इदि संकल्प्य यद्रूपं ध्यानेनार्चन्ति योगिनः ।
 भावपुष्पादिना नाथः सोऽर्च्यते वा कथं मया ॥ ६९

सोऽहं ते देवदेवेश नार्चनादौ स्तुतौ न च ।
 सामर्थ्यवान् कृपामात्रमनोवृत्तिः प्रसीद मे ॥ ७०

अखिलभुवनाश्रय आप ? [इसके साथ आपका द्वेष कैसा ?] ॥ ५६ ॥ अतः हे जगत्स्वामिन् ! इस दीनपर दया कौजिये । हे प्रभो ! अब यह नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है; कृपया हमें पतिकी भिक्षा दीजिये ॥ ५७ ॥ हे भुवनेश्वर ! हे जगन्नाथ ! हे महापुरुष ! हे पूर्वज ! यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है; कृपया आप हमें पतिकी भिक्षा दीजिये ॥ ५८ ॥ हे वेदान्तवेद्यदेवेश्वर ! हे दुष्ट-दैत्व-दलन ! अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है; आप हमें पतिकी भिक्षा दीजिये ॥ ५९ ॥

श्रीपराशरजी बोले— नगपत्नियोंके ऐसा कहनेपर शका-भोज होनेपर भी नागराज कुछ दौड़स आंधकर धीरे-धीरे कहने लगा "हे देवदेव ! प्रसन्न होइये" ॥ ६० ॥

कालियनाग बोला— हे नाथ ! आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है [अर्थात् आपसे बढ़कर किसीका भी ऐश्वर्य नहीं है], अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा ? ॥ ६१ ॥ आप पर हैं, आप पर (भूलप्रकृति)-के भी आदिकारण हैं, हे परात्मक ! परकी प्रवृत्ति भी आपहीसे हुई है, अतः आप परसे भी पर हैं फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा ? ॥ ६२ ॥ जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चन्द्र, इन्द्र, भरद्वाज, अश्विनीकुमार, जसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा ? ॥ ६३ ॥ यह सम्पूर्ण जगत् जिनके काल्पनिक अवयवका एक सूक्ष्म अवयवोपमात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा ? ॥ ६४ ॥ जिन सदसत् (कार्य-कारण) स्वरूपके वास्तविक रूपको ब्रह्म आदि देवेश्वरमण भी नहीं जानते उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा ? ॥ ६५ ॥ जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवाण्य तन्दनवन्दके पुष्य, गन्ध और अनुलेपन आदिसे करते हैं उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ॥ ६६ ॥ देवराज इन्द्र जिनके अवताररूपोंकी सर्वदा पूजा करते हैं तथापि वधार्थ रूपको नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ? ॥ ६७ ॥ योगिगण अपनी समस्त इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे खींचकर जिनका ध्यानद्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ॥ ६८ ॥ जिन प्रभुके स्वरूपकी चित्तमें भावना करके योगिजन भावमय पुष्प आदिसे ध्यानद्वारा उपासना करते हैं उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ? ॥ ६९ ॥ हे देवेश्वर ! आपकी पूजा अथवा स्तुति करनेमें मैं

सर्पजातिरियं क्रूरा यस्यां जातोऽस्मि केशव ।
 तत्स्वभावोऽयमत्रास्ति नापराधो ममाच्युत ॥ ७१
 सृज्यते भयता सर्वं तथा संह्रियते जगत् ।
 जातिरूपस्वभावाश्च सृज्यन्ते सृजता त्वया ॥ ७२
 यथाहं भवता सृष्टो जात्या रूपेण चेश्वर ।
 स्वभावेन च संयुक्तस्तथेदं चेष्टितं मया ॥ ७३
 यद्यन्यथा प्रवर्तैथ देवदेव ततो मयि ।
 न्याय्यो दण्डनिपातो वी तवैव वचनं यथा ॥ ७४
 तश्चाप्यज्ञे जगत्स्वामिन्दण्डं पातितवान्मयि ।
 स श्लाघ्योऽयं परो दण्डस्त्वप्तो मे नान्यो वरः ॥ ७५
 हतवीर्यो हतविषो हतितोऽहं त्वयाच्युत ।
 जीवितं दीयतामेकमाज्ञापय करोमि किम् ॥ ७६

श्रीभगवानुवाच

नात्र स्वैयं त्वया सर्प कदाचिद्व्यमुनाजले ।
 सपुत्रपरिवारस्त्वं समुद्रसलिलं व्रज ॥ ७७
 मत्पदानि च ते सर्प इष्ट्वा मूर्द्धनि सागरे ।
 गरुडः पन्नगरिपुस्तयि न प्रहरिष्यति ॥ ७८

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा सर्पराजं तं मुमोच भगवान्हरिः ।
 प्रणम्य सोऽपि कृष्णाय जगाम पयसां निधिम् ॥ ७९
 पश्यतां सर्वभूतानां सभृत्यसुतबान्धवः ।
 समस्तभार्यासहितः परित्यज्य स्वर्कं हृदम् ॥ ८०
 गते सर्वे परिध्वज्य मृतं पुनरिवागतम् ।
 गोषा मूर्द्धनि हार्देन सिधियुर्मैत्रजैर्जलैः ॥ ८१
 कृष्णामक्लिष्टकर्माणामन्ये विस्मितचेतसः ।
 तुष्टुमुमुदिता गोषा तुष्ट्वा शिवजलां नदीम् ॥ ८२
 गीघमानः स गोपीभिश्चरितैस्साधुचेष्टितैः ।
 संस्तुयमानो गोपीश्च कृष्णो वजमुषागमत् ॥ ८३

सर्वथा असमर्थ हूँ, मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपाकी ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझपर प्रसन्न होइये ॥ ७० ॥ हे केशव! मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्पजाति अत्यन्त क्रूर होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत! इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है ॥ ७१ ॥ इस सम्पूर्ण जगत्को रचना और संहार आप ही करते हैं। संसारकी रचनाके साथ उसका जाति, रूप और स्वभावको भी आप ही बनाते हैं ॥ ७२ ॥

हे ईश्वर! आपने मुझे जाति, रूप और स्वभावसे मुक्त करके वैसा बनाया है उसीके अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है ॥ ७३ ॥ हे देवदेव! यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दण्ड देना उचित है ॥ ७४ ॥ तथापि हे भगवन्स्वामिन्! आपने मुझ अज्ञको जो दण्ड दिया है वह आपसे मिला हुआ दण्ड मेरे लिये कहीं अच्छा है, किन्तु दूसरेका वर भी अच्छा नहीं ॥ ७५ ॥ हे अच्युत! आपने मेरे पुरुषार्थ और विश्वको नष्ट करने मेरा पत्नी प्रकार मानमर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणधन दीजिये और आज्ञा कौनिये कि मैं क्या करूँ ? ॥ ७६ ॥

श्रीभगवान्बोले—हेसर्प! अब तुझे इस बमुक्तकर्मणं नहीं रहना चाहिये । तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवारके सहित समुद्रके बलर्षं शला जा ॥ ७७ ॥ तैरे मस्तकपर मेरे चरण-विहनोंको देखकर समुद्रमें रहते हुए भी सर्पोंका शत्रु गरुड तुझपर प्रहार नहीं करेगा ॥ ७८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—सर्पराज कालियसे ऐसा कह भगवान् हरिने उसे छोड़ दिया और वह उन्हीं प्रणाम करके समस्त प्राणियोंके देखते-देखते अपने सेयक, पुत्र, बन्धु और शिष्योंके सहित अपने उस कुण्डको छोड़कर समुद्रको चला गया ॥ ७९-८० ॥ सर्पके चले जानेपर गोपगण, लौटे हुए मृत पुरुषके समान कृष्णचन्द्रको आलिंगनकर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तकको नेत्रजलसे भिगोने लगे ॥ ८१ ॥ क्रुद्ध अन्य गोपगण भूमनाको स्वच्छ जलवाली देख प्रसन्न होकर संतापिहास्ये कृष्णचन्द्रको विस्मितचित्तसे स्तुति करने लगे ॥ ८२ ॥ तदनन्तर अपने उत्तम शिष्योंके कारण गोपियोंसे गीयमान और गोपीसे प्रशंसित होते हुए कृष्णचन्द्र ब्रह्मर्षि चले आये ॥ ८३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठ्यध्याये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

आठवाँ अध्याय

धेनुकासुर-वध

श्रीपराशर उवाच

गाः पालयन्ती च पुनः सहितौ बलकेशयो ।
भ्रममाणी वने तस्मिन् रम्यं तालवनं गती ॥ १
तत्तु तालवनं दिव्यं धेनुको नाम दानवः ।
मृगमांसकृताहारः सदाभ्यास्ते खराकृतिः ॥ २
तत्तु तालवनं पक्वफलसम्पत्परमन्वितम् ।
दृष्ट्वा स्पृहान्विता गोपाः फलादानेऽब्रुवन्वचः ॥ ३

गोपा उचुः

हे राम हे कृष्ण सदा धेनुकेनैव रक्षयते ।
भूप्रदेशो यतस्तस्मात्पक्ष्वानीमानि सन्ति वै ॥ ४
फलानि पश्य तालानां गन्धामोदिसदींशि वै ।
वयमेतान्यभीप्सामः पात्यन्तां यदि रोचते ॥ ५

श्रीपराशर उवाच

इति गोपकुमाराणां श्रुत्वा संकर्षणो वचः ।
एतत्कर्तव्यमित्युक्त्वा पातयामास तानि वै ।
कृष्णश्च पातयामास भुवि तानि फलानि वै ॥ ६
फलानां पतनां शब्दमाकर्ण्य सुदुरासदः ।
आजगाम स द्रुष्ट्वात्मा कोपाहैतेयगर्दभः ॥ ७
पद्भ्यामुभय्यां स तदा परिषमाभ्यां बलं बली ।
जघानोरसि ताभ्यां च स च तेनाभ्यगृह्यत ॥ ८
गृहीत्वा धामयामास सोऽम्बरे गतजीवितम् ।
तस्मिन्नेव स चिक्षेप वेगेण कृष्णसजनि ॥ ९
ततः फलान्यनेकानि तालाग्रान्निपतन्धरः ।
पृथिव्यां पातयामास महावातो घनानिव ॥ १०
अन्यानश्च सजातीयानागत्तान्दत्यगर्दभान् ।
कृष्णश्चिक्षेप तालाग्रे बलभद्रश्च स्त्रीलया ॥ ११
क्षणेनालङ्कृता पृथ्वी पक्वैस्तालफलीस्तदा ।
दैत्यगर्दभदेहैश्च मैत्रेय शुशुभेऽधिकम् ॥ १२
ततो गावो मिराबाधास्तस्मिंस्तालवने द्विज ।
ववशाद्यं सुखं चेरुर्वन्न भुक्तमभूत्पुरा ॥ १३

श्रीपराशरजी बोले—एक दिन बलराम और कृष्ण साथ-साथ भी चरते अति रमणीय तालवनमें आये ॥ १ ॥ उस दिव्य तालवनमें धेनुक नामक एक गधेके आकारवाला दैत्य मृगमांसका आहार करता हुआ सदा खरा करता था ॥ २ ॥ उस तालवनको पके फलोंको सम्पत्तिसे सम्पन्न देखकर उन्हें तोड़नेकी इच्छासे गोरगण बोले ॥ ३ ॥

गोपोंने कहा—पिया राम और कृष्ण! इस भूमिप्रदेशकी रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसीलिये यहाँ ऐसे पके-पके फल लगे हुए हैं ॥ ४ ॥ अपनी गधसे सम्पूर्ण दिशाओंको आमोदित करनेवाले ये ताल-फल तो देखो; हमें इन्हें खानेकी इच्छा है; यदि आपकी अच्छा लगे तो [धाँड़े-से] झाड़ दीजिये ॥ ५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—गोपकुमारोंके ये वचन सुनकर बलरामजीने 'ऐसा ही करना चाहिये' यह कहकर फल गिरा दिये और पीछे कुछ फल कृष्णचन्द्रने भी पृथिवीपर गिराये ॥ ६ ॥ गिरते हुए फलोंका शब्द सुनकर वह दुर्द्धर्ष और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोधपूर्वक दौड़ आया और उस महाबलवान् असुरने अपने पिछले दो पैरोंसे बलरामजीकी छातीमें शक्ति पारी। बलरामजीने उसके उन पैरोंको पकड़ लिया और आकाशमें धुपाने लगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यन्त वेगसे उस तालवृक्षपर छो दे मारा ॥ ७-९ ॥ उस गधेने गिरते-गिरते उस क्षालवृक्षसे बहुत-से फल इस प्रकार गिरा दिये जैसे प्रचण्ड वायु बादलोंको गिरा दे ॥ १० ॥ उसके सजातीय अन्य गर्दभासुरोंके आनेपर भी कृष्ण और रामने उन्हें अवायास ही तालवृक्षोंपर फटक दिया ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय! इस प्रकार एक क्षणमें ही पके हुए तालफलों और गर्दभासुरोंके देहोंसे विभूषिता होकर पृथिवी अत्यन्त सुशोभित होने लगी ॥ १२ ॥ हे द्विज! तबसे उस तालवनमें गौरों निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगीं जो उन्हें पहले कभी चरनेकी नसीब नहीं हुआ था ॥ १३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेशो अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवाँ अध्याय

प्रलम्ब-वध

श्रीपराशर उवाच

श्रीपराशरजी बोले—अपने अनुचरोसहित

तस्मिन् रासभद्वैतेये सानुगे विनिपातिते ।

सौम्यं तद्गोपगोपीनां रम्यं तालवनं बभूव ॥ १ ॥

ततस्तौ जातहर्षौ तु वसुदेवसुताकुभौ ।

हृत्वा धेनुकदैतेयं भाण्डोरखटमागतौ ॥ २ ॥

क्ष्वेत्तमानौ प्रगाव्यन्ती विश्विन्वन्ती च पादपान् ।

चारयन्ती च गा दूरे व्याहरन्ती च नामभिः ॥ ३ ॥

निर्योगपाशस्कन्धौ ती वनमालाविभूषितौ ।

शुशुभाते महत्स्रानी बालशृङ्गाविवर्धभौ ॥ ४ ॥

सुवर्णाञ्जनचूर्णाभ्यां तौ तदा रूषिताम्बरौ ।

मोहन्रायुधसंयुक्तौ श्वेतकृष्णाधिवास्यदुदौ ॥ ५ ॥

चेरतुलोकसिद्धाभिः क्रीडाभिरितरेतरम् ।

समस्तलोकनाथानां नाथभूतौ भुवं गतौ ॥ ६ ॥

मनुष्यधर्माभिरतौ मानयन्तौ मनुष्यताम् ।

तञ्जतिगुणयुक्ताभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वनम् ॥ ७ ॥

ततस्त्वन्दौलिकाभिश्च निघ्नद्वैश्च महाबली ।

व्यायामं चक्रतुस्तत्र क्षेपणीयैस्तथाश्मभिः ॥ ८ ॥

तस्मिन्पुरसुरस्तत्र ह्युभयो रममाणयोः ।

आजगाम प्रलम्बाख्यो गोपवेशतिरोहितः ॥ ९ ॥

सोऽवगाहत् निशंशंकस्तेषां पथ्यममानुषः ।

पानुषं वपुरास्वाय प्रलम्बो दानवोत्तमः ॥ १० ॥

तयोश्छिद्रान्तरप्रेप्सुरविवह्यममन्यत ।

कृष्णं ततो रीहिण्येयं हन्तुं चक्रे मनोरथम् ॥ ११ ॥

हरिणाक्रीडनं नाम बालक्रीडनकं ततः ।

प्रकुर्वन्तो हि ते सर्वे द्वौ द्वौ युगपदुत्थितौ ॥ १२ ॥

उस गर्दभासुरके मारे जानेपर वह सुरम्य तालवन

गोष और गोपियोंके लिये सुखदायक हो गया ॥ १ ॥

तदनन्तर धेनुकासुरको मारकर वे दोनों वसुदेवपुत्र

प्रसन्नमनसे भाण्डौर नामक पटवृक्षके तले आये ॥ २ ॥

कन्धेपर गी बौधनेकी रस्सी डाले और वनमालासे

विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंढनाद

करते, गाते, वृक्षोंपर चढ़ते, दूरतक गीएँ चराते तथा

उनका नाम ले-लेकर पुकारते हुए नये सींगोंवाली

बछड़ोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ३-४ ॥ उन

दोनोंके वस्त्र [क्रमशः] सुनहरी और श्याम रंगसे

रीं हुए थे अतः वे इन्द्रधनुषयुक्त श्वेत और

श्याम पेशके समान जान पड़ते थे ॥ ५ ॥ वे समस्त

लोकपालोंके प्रभु पृथिवीपर अकलीर्ण होकर नाना

प्रकारकी लौकिक लीलाओंसे परस्पर खेल रहे

थे ॥ ६ ॥ मनुष्यधर्ममें तत्पर रहकर मनुष्यताका

सम्मान करते हुए वे मनुष्यजातिके गुणोंको क्रीड़ाएँ

करते हुए जनमें विश्वर रहे थे ॥ ७ ॥ वे दोनों महाबली

बलक कभी झूलामें झूलकर, कभी परस्पर मल्लयुद्धकर

और कभी रथपर फेंककर नाना प्रकारसे व्यायाम

कर रहे थे ॥ ८ ॥ इसी समय उन दोनों खेलते हुए

बालकोंको उठा ले जानेकी इच्छासे प्रलम्ब नामक

दैत्य गोपवेशमें अपनेको छिपाकर वहाँ आया ॥ ९ ॥

दानवश्रेष्ठ प्रलम्ब मनुष्य न होनेपर भी मनुष्यरूप

धारणकर निरशंकभावसे उन बालकोंके बीच घुस

गया ॥ १० ॥ उन दोनोंकी असावधानताका अवसर

देखनेवाले उस दैत्यने कृष्णको तो सर्वथा अशेष

सम्पत्ता; अतः उसने बलराघवीकी मारनेका निश्चय

किया ॥ ११ ॥

तदनन्तर वे समस्त ग्यालबाल हरिणाक्रीडन* नामक

खेल खेलते हुए आपसमें एक साथ दो-दो बलकक उठे ॥ १२ ॥

* एक विशिष्ट लकके पास दो-दो बलक एक-एक साथ हिरन्की भीति उछलते हुए जाते हैं। जो दोनोंमें पहले पहुँच जाता है वह विजयी होता है, वरता दुजब बलकन जीते हुएको अपनी घोवर कदाञ्च मुख्य स्थानतक ले अगता है। यही हरिणाक्रीडन है।

श्रीदाम्ना सह गोविन्दः प्रलम्बेन तथा बलः ।
 गोपालीरपरैश्चान्ये गोपालाः पुण्युवुस्ततः ॥ १३
 श्रीदामानं ततः कृष्णः प्रलम्बं रोहिणीसुतः ।
 जितवान्कृष्णपक्षीयैर्गोपैरन्ये पराजिताः ॥ १४
 ते वाहयन्तस्त्वन्योन्यं भाण्डीरं वटमेव चै ।
 पुनर्निववतुस्सर्वे ये ये तत्र पराजिताः ॥ १५
 सङ्घर्षणं तु स्कन्धेन शीघ्रमुत्क्षिप्य दानवः ।
 नभस्स्थलं जगाधाशु सचन्द्र इव वारिदः ॥ १६
 असहन् रोहिणेयस्य स भारं दानवोत्तमः ।
 वनूथे स महाकायः प्रावृषीव बलाहकः ॥ १७
 सङ्घर्षणस्तु तं दृष्ट्वा दग्धशैलोपमाकृतिम् ।
 स्त्रदासलम्बाभरणं मुकुटाटोपमस्तकम् ॥ १८
 रौद्रे शकटचक्राक्षं पादन्मासचलत्क्षितिम् ।
 अभीतमनसा तेन रक्षसा रोहिणीसुतः ।
 हियमाणस्ततः कृष्णमिदं वचनमब्रवीन् ॥ १९
 कृष्ण कृष्ण हिये ह्येष पर्वतोत्तममूर्तिना ।
 केनापि पश्य दैत्येन गोपालच्छदरूपिणा ॥ २०
 यदत्र साम्प्रतं कार्यं मया मधुनिबूदन ।
 तत्कश्यतां प्रयात्येष दुरात्मानित्वरान्वितः ॥ २१

श्रीपटशर उवाच

तमाह रामं गोविन्दः स्मितभिन्नोष्ठसम्पुटः ।
 महत्त्मा रोहिणेयस्य बलवीर्यप्रमाणवित् ॥ २२

श्रीकृष्ण उवाच

किमर्थं मानुषो भावो व्यक्तमेवावलम्ब्यते ।
 सर्वात्मन् सर्वगुह्यानां गुह्यगुह्यात्मना स्वया ॥ २३
 स्मरश्लेषजगद्बीजकारणं कारणाग्रजम् ।
 आत्मानमेकं तद्दृश्य जगत्प्रेकार्णवे च यत् ॥ २४
 किं न वेत्सि यथाहं च त्वं चैकं कारणं भुवः ।
 भारवतारणाशाय मर्त्यलोकमुपागती ॥ २५
 नभश्शिरस्तेऽम्बुबहाश्च केशः

पाशैः क्षितिर्वक्ष्यमनन्त वह्निः ।

तथ श्रीदामाके साथ कृष्णचन्द्र, प्रलम्बके साथ बलराम और इसी प्रकार अन्यान् गोपीके साथ और-और ग्वालकाल [श्रेष्ठ नदकर] उछरते हुए चलने लगे ॥ १३ ॥ अन्तमें, कृष्णचन्द्रने श्रीदामाको, बलरामजीने प्रलम्बको तथा अन्यान्य कृष्णपक्षीय गोपीने अपने प्रतिपक्षियोंको हरा दिया ॥ १४ ॥

उस खेलमें जो-जो बालक हारे थे, वे सब जीतनेवालोंको अपने-अपने कन्धोंपर चढ़ाकर भाण्डीरजटाक ले जाकर वहाँसे फिर लौट आये ॥ १५ ॥ किन्तु प्रलम्बासुर अपने कन्धेपर बलरामजीको चढ़ाकर चन्द्रमाके सहित मेघके समान अत्यन्त वेगसे आकाशमण्डलको चल दिया ॥ १६ ॥ वह दानवरोष्ठ रोहिणीनन्दन श्रीबलभद्रजीके भारको सहन न कर सकनेके कारण वर्षाकालीन मेघके समान बहकर अत्यन्त स्थूल शरीरवाला हो गया ॥ १७ ॥ तब माता और आभूषण धारण किये, सिरपर मुकुट पहने, गाड़ीके पहियोंके समान भयानक नेत्रोंवाले, अपने पादप्रहारसे पृथिवीको कम्पायमान करते हुए तथा दग्धपर्वतके समान आकारवाले उस दैत्यको देखकर उस विर्भय यक्षसके द्वारा ले जाये जाते हुए बलभद्रजीके कृष्णचन्द्रसे कह- ॥ १८-१९ ॥ "भैया कृष्ण! देखो, छत्रपूर्वक गोपवेश धारण करनेवाला कोई पर्वतके समान महकाय दैत्य मुझे हरे लिये जाता है ॥ २० ॥ हे मधुसूदन! अब मुझे क्या करना चाहिये, यह बताओ। देखो, यह दुरात्मा बड़ी शीघ्रतासे दौड़ा जा रहा है" ॥ २१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—उस रोहिणीनन्दनके शलवीर्यको जाननेवाले महत्तमा श्रीकृष्णचन्द्रने मधुर-भुसकाँवसे अपने औष्ठसम्पुटको खोलते हुए उन बलरामजीसे कहा ॥ २२ ॥

श्रीकृष्णचन्द्र बोले—हे सर्वात्मन्! आप सम्पूर्ण गुण पदार्थोंमें अत्यन्त गुह्यस्वरूप होकर भी यह स्पष्ट मानवभाव क्यों अवलम्बन कर रहे हैं? ॥ २३ ॥ आप अपने उस स्वरूपका स्मरण कीजिये जो सप्तल संसारका कारण तथा कारणका भी पूर्वकर्ता है और प्रलयकालमें भी स्थित रहनेवाला है ॥ २४ ॥ क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसारके एकमात्र कारण हैं और पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही मर्त्यलोकमें आये हैं ॥ २५ ॥ हे अनन्त! आकाश आपका सिर है, मेघ केश

सोमो मनस्ते श्वसितं समीरणो
दिशश्चतस्रोऽव्यय आहवस्ते ॥ २६

सहस्रवक्त्रो भगवन्महात्मा
सहस्रहस्ताद्भिर्शरीरभेदः ।

सहस्रपद्मोद्भवोनिराद्य-
स्सहस्रशक्त्यां मुनयो गृणन्ति ॥ २७

दिव्यं हि रूपं तव वेत्ति नान्यो
दैवैरशेषैरवताररूपम् ।

तदर्च्यते वेत्सि न किं यदन्ते
त्वय्येव विश्वं सद्यमभ्युपैति ॥ २८

त्वया धृतेयं धरणी विभर्ति
चराचरं विश्वमनन्तमूर्ते ।

कृतादिभेदैरज कालरूपो
निमेषपूर्वां जगदेतदस्ति ॥ २९

अतं यथा बाडवजह्निनाम्बु
हियस्वरूपं परिगृह्य कास्तम्* ।

हिमाच्छले भानुमतोऽशुसंगा-
ज्जलत्वमभ्येति पुपस्तदेव ॥ ३०

एवं त्वया संहरणेऽत्तमेत-
ज्जगत्समस्तं त्वदधीनकं पुनः ।

तवैव सर्गाय समुद्यतस्य
जगत्त्वमभ्येत्यनुकल्पमीश ॥ ३१

भवानहं च विश्वात्मनेकमेव च कारणम् ।
जगतोऽस्य जगत्पथं भेदेनावां व्यवस्थिता ॥ ३२

तत्समर्थताममेयात्मेस्त्वयात्मा जहि दानवम् ।
मानुष्यमेवावलम्ब्य बन्धूनां क्रियतां हितम् ॥ ३३

श्रीपराशर उवाच

इति संस्मारितो विप्र कृष्णेन सुमह्यत्माना ।
विहस्य पीडयामास प्रलम्बं बलवान्बलः ॥ ३४

युष्टिना सोऽहन-मूर्ध्नि कोपसंरक्तलोचनः ।
तेन चास्य प्रहारेण सहिर्याते विलोचने ॥ ३५

हैं, पृथिवी चरण हैं, आणि मुख है, चन्द्रमा भन है, वायु श्वास-प्रश्वास हैं और चारों दिशाएँ बाहु हैं ॥ २६ ॥ हे भगवन्! आप महाकाय हैं, आपके सहस्र मुख हैं तथा सहस्रों हाथ, पाँव आदि शरीरके घेद हैं। आप सहस्रों ब्रह्माण्डोंके आधिकारण हैं, मुनिजन आपका सहस्रों प्रकार वर्णन करते हैं ॥ २७ ॥ आपके दिव्य रूपको [अपके अतिरिक्त] और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके अवताररूपको ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अन्तमें यह सम्पूर्ण विश्व आपहीमें लीन हो जाता है ॥ २८ ॥ हे अनन्तमूर्ते! आपहीसे धारण की हुई यह पृथिवी सम्पूर्ण चराचर विश्वको धारण करती है। हे अब! निमेषादि कालस्वरूप आप ही कृतयुग आदि भेदोंसे इस जगत्का शास करते हैं ॥ २९ ॥ जिस प्रकार बडवानलसे पीथा हुआ जल वायुद्वारा हिमालयतक पहुँचाये जानेपर हिमका रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्यकिरणोंका संयोग होनेसे जलरूप हो जाता है, उसी प्रकार हे ईश! यह सगस्त जगत् [स्वादिरूपसे] आपहीके द्वारा विनष्ट होकर आप [परमेश्वर]-के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्पमें आपके [हिरण्यगर्भरूपसे] सृष्टि-रचनामें प्रवृत्त होनेपर यह [विराटरूपसे] स्थूल जगद्रूप हो जाता है ॥ ३०-३१ ॥ हे विश्वात्मन्! आप और मैं दोनों ही इस बगत्के एकमात्र कारण हैं। संसारके हितके लिये ही हमने भिन्न-भिन्न रूप धारण किये हैं ॥ ३२ ॥ अतः हे अभैयात्मन्! आप अपने स्वरूपको स्मरण कीजिये और मनुष्यभावका ही अवलम्बन कर इस दैत्यको धारकर बन्धुजनोंका हित-साधन कीजिये ॥ ३३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे विप्र! महात्मा कृष्णचन्द्रद्वारा इस प्रकार स्मरण कराये जानेपर महाबलवान् बलघमजी हैंसते हुए प्रलम्बासुरको पीडित करने लगे ॥ ३४ ॥ उन्होंने क्रोधसे नेत्र लाल करके उसके मस्तकपर एक घुँसा मारा, जिसकी धोटसे उस दैत्यके दोनों नेत्र बाहर निकल आये ॥ ३५ ॥

स निष्कासितप्रस्तिष्क्ये पुखाच्छोपितमुद्रमन् ।
 निपपात महीपृष्ठे दैत्यवर्यो ममार च ॥ ३६ ॥
 प्रलम्बं निहतं दृष्ट्वा बलेनाद्भुतकर्मणा ।
 प्रहृष्टास्तुष्टुसुगोपास्साधुसाध्विति चाश्रुवन् ॥ ३७ ॥
 संस्तुयमानो गोपैस्तु रामो दैत्ये निपातिते ।
 प्रलम्बे सह कृष्णेन पुनर्गोकुलमाययौ ॥ ३८ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

दसवीं अध्याय

शरद्वर्णन तथा गोवर्धनकी पूजा

श्रीपराशर उवाच

तयोर्विहरतीरेष्व रामकेशवयोर्द्वये ।
 प्राङ्मुख्यतीता विकसत्सरोज्या आभयच्छरत् ॥ १ ॥
 अवापुस्ताघमत्पर्यं शफर्यः पल्वलोदके ।
 पुत्रक्षेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा गृहो ॥ २ ॥
 मयूरा मीनपातस्थुः परित्यक्तमदा वने ।
 अस्मरतां परिज्ञाय संसारस्येव योगिनः ॥ ३ ॥
 उत्सृज्य जलसर्वस्वं विमलास्सितमूर्तयः ।
 तत्पञ्चुश्चाम्बरं मेघा गृहं विज्ञानिनो यथा ॥ ४ ॥
 शरत्सूर्याशुतप्तानि ययुश्शोषं सरांसि च ।
 ब्रह्मालम्बममत्वेन हृदयानीष देहिनाम् ॥ ५ ॥
 कुमुदैशशरदम्भांसि योग्यतालक्षणं ययुः ।
 अखड्गोर्धर्पनासीव समत्वममलात्मनाम् ॥ ६ ॥
 तारकाविमले ध्योमिनि रराजाखण्डमण्डलः ।
 चन्द्रश्चरमदेहात्प्रा योगी साधुकुले यथा ॥ ७ ॥
 शनकैश्शनकैस्तीरं तत्पञ्चुश्च जलाशयाः ।
 ममत्वं क्षेत्रपुत्रादिरुत्तमुच्चैर्वंधा बुधाः ॥ ८ ॥
 पूर्वं त्यक्तैस्सरोऽम्भोभिर्हंसा योगं पुनर्वयुः ।
 बलेशैः कुयोगिनोऽप्योर्ध्वरन्तराग्रहता इव ॥ ९ ॥

तदनन्तर वह दैत्यश्रेष्ठ मगज (प्रस्तिष्क) फट जानेपर मुखसे रक्त यमन करता हुआ पृथिवीपर गिर पड़ा और मर गया ॥ ३६ ॥ अद्भुतकर्म बलरामजीद्वारा प्रलम्बासुरको मर हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर 'साधु, साधु' कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३७ ॥ प्रलम्बासुरके मारे जानेपर बलरामजी गोपोंद्वारा प्रशंसित होते हुए कृष्णचक्रके साथ गोकुलमें लौट आये ॥ ३८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार ४९ राम और कृष्णके व्रजमें विहार करते-करते वर्षाकाल बीत गया और प्रफुल्लित कमलोंसे युक्त शरद्-ऋतु आ गयी ॥ १ ॥ जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदिमें लगी हुई ममतासे सन्ताप पाते हैं, उसी प्रकार महलियाँ गृहदोंके जलमें अत्यन्त ताप पाने लगीं ॥ २ ॥ संसारको अस्मरताको जानकर जिस प्रकार योगिजन शरत् हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूराण्ड मद्दह्येन होकर मीन हो गये ॥ ३ ॥ विज्ञानिगण [सब प्रकारकी ममता छोड़कर] जैसे घरका त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल ह्वेत मेघोंने अपना जलरूप सर्वस्व छोड़कर आकाशमण्डलका परित्याग कर दिया ॥ ४ ॥ विविध पदार्थोंमें ममता करनेसे जैसे देहधारियोंके हृदय शरहीन हो जाते हैं वैसे ही शरत्कालीन सूर्यके तापसे सरोवर सूख गये ॥ ५ ॥ निर्मलचित्त पुरुषोंके मन जिस प्रकार ज्ञानद्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरत्कालीन जलोंको [स्वच्छताके कारण] कुमुदोंसे योग्य सम्बन्ध प्राप्त हो गया ॥ ६ ॥ जिस प्रकार साधु-कुलमें वरम देह-धारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका-मण्डल-मण्डित निर्मल आकाशमें पूर्णचन्द्र विराजमान हुआ ॥ ७ ॥

जिस प्रकार ध्वज और पुत्र आदिमें बड़ी हुई ममताको विवेकव्रजम शनैः-शनैः रचना देते हैं, वैसे ही जलाशयोंका जल धीरे-धीरे अपने तटको छोड़ने लगा ॥ ८ ॥ जिस प्रकार अन्तर्धर्म * (विष्णो) से विचलित हुए कुम्भयोगियोंका

* अन्तराधर्म शौं है—

'व्याधिभ्रूत्यान्तर्धर्मप्रमादकल्पव्यधिरिधान्तिदर्शनानसम्भूमिपञ्चानवस्थितत्वाणि स्थितयिष्येकस्वेऽन्तरायाः । (योगे २० १।३०)

निभृतोऽभवदत्यर्थं समुद्रः स्तिमितोदकः ।
 क्रमावाप्तमहायोगो निश्चलात्मा यथा यतिः ॥ १०
 सर्वत्रातिप्रसन्नानि सलिलानि तथाभवन् ।
 ज्ञाते सर्वगते विष्णो मनांसीव सुमेधसाम् ॥ ११
 बभूव निर्मलं व्योम शरदा ध्वस्ततोयदम् ।
 योगाग्निदग्धक्लेशौघं योगिनामिव मानसम् ॥ १२
 सूर्याशुजनितं तापं निन्द्ये तारापतिः शमम् ।
 अहंमानोद्धवं दुःखं विवेकः सुमहानिव ॥ १३
 नभसोऽब्दं भुवः पङ्क्तं कालुष्यं चाभ्यसशरत् ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियाश्चैभ्यः प्रत्याहार इवाहरत् ॥ १४
 प्राणायाम इवाभ्योभिस्मरसां कृतपूरकैः ।
 अभ्यस्यतेऽनुदिससं रेचकाकुम्भकादिभिः ॥ १५
 विषलाम्बरनक्षत्रे काले चाभ्यागते सजे ।
 ददर्शेन्द्रमहारम्भायोद्यतास्तान्त्राञ्जकसः ॥ १६
 कृष्णस्तानुत्सुकान्दृष्ट्या गोपानुत्सवलालसान् ।
 कौतूहलादिषं वाक्यं प्राह वृद्धान्महामतिः ॥ १७
 कोऽयं शक्रमखो नाम येन यो हर्ष आगतः ।
 प्राह तं नन्दगोपश्च पृच्छन्तमतिसादरम् ॥ १८
 नन्दगोप उवाच
 मेघानां पयसां चेशो देवराजशशतक्रतुः ।
 तेन सञ्चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बुभवं रसम् ॥ १९
 तद्वृष्टिजनितं सस्यं वयमप्ये च देहिनः ।
 वर्तयामोपयुञ्जानास्तर्पयामश्च देवताः ॥ २०
 क्षीरवत्य इमा गावो वत्सवत्यश्च निर्वृताः ।
 तेन संवर्द्धितैस्सस्यैस्तुष्टाः पुष्टा भवन्ति वै ॥ २१

क्लेशों से पुनः संयोग हो* जाता है उसी प्रकार पहले खेदे हुए सरोवरके जलसे ठंडका पुनः संयोग हो गया ॥ ९ ॥ क्रमशः महायोग (सम्प्राप्तसमाधि) प्राप्त कर लेनेपर जैसे यति निश्चलात्मा हो जाता है, वैसे ही जलके स्थिर हो जानेसे समुद्र निश्चल हो गया ॥ १० ॥ जिस प्रकार सर्वगत भगवान् विष्णुको जान लेनेपर मेघाघी पुरुषोंके चित्त शान्त हो जाते हैं वैसे ही सभला जलाशयोंका जल स्थिर हो गया ॥ ११ ॥

योगाग्निद्वारा क्लेशसमूहके नष्ट हो जानेपर जैसे योगियोंके चित्त स्वच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार शीतके कारण मेघोंके लीन हो जानेसे आकाश निर्मल हो गया ॥ १२ ॥ जिस प्रकार अहंकारजनित महान् दुःखको विवेक शान्त कर देता है, उसी प्रकार सूर्यकिरणोंसे उत्पन्न हुए तापको चन्द्रमाने शान्त कर दिया ॥ १३ ॥ प्रत्याहार जैसे इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे खींच लेता है वैसे ही शरत्कालके आकाशसे मेघोंको, पृथिवीसे शूलिकों और जलसे मलको दूर कर दिया ॥ १४ ॥ [पानीसे भर जानेके कारण] मानो तालाबोंके जल पूरक कर चुकनेपर अब [स्थिर रहने और सूखनेसे] रात-दिन कुम्भक एवं रेचक क्रियाद्वारा प्राणायामका अभ्यास कर रहे हैं ॥ १५ ॥

इस प्रकार ब्रजमण्डलमें निर्मल आकाश और नक्षत्रपय शरत्कालके आनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने समस्त त्रिजगत्सिद्धियोंको इन्द्रका उत्सव मनानेके लिये तैयारी करते देखा ॥ १६ ॥ महामति कृष्णने उन गोपोंको उत्सवको बरसंगसे अत्यन्त उत्साहपूर्ण देखकर कुतूहलवश अपने बड़े-बड़ोंसे पूछा— ॥ १७ ॥ " आपलोग जिसके लिये फूले नहीं समाते वह इन्द्रयज्ञ क्या है ? " इस प्रकार अत्यन्त आदरपूर्वक पूछनेपर उनसे नन्दगोपने कहा— ॥ १८ ॥

नन्दगोप बोले—मेघ और जलका स्वामी देवराज इन्द्र है। उसकी प्रेरणासे ही मेघगण जलरूप रसकी वर्षा करते हैं ॥ १९ ॥ हृष और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षासे उत्पन्न हुए अन्नको ही वर्तते हैं तथा उसीको उपयोगमें लाते हुए देवताओंको भी तृप्त करते हैं ॥ २० ॥ ठस (वर्षा)से बड़े हुए अन्नसे ही तृप्त होकर ये गीर्ण तुष्ट और

अर्थात् व्याधि, स्यान् (साधर्म्ये अप्रवृत्ति), संशय, प्रमाद, आसन्न्य, अस्मिति (वेदप्रवृत्ति), प्रयत्नदर्शन, अलज्जपुष्कल (लास्यको उपलब्धि न होना) और अजगत्स्थित्य (लक्ष्यमें स्थिर न होना) ये नौ अन्तराव हैं।

* क्लेशा पूर्व हैं; जैसे—

अधिष्ठास्त्रितागद्विपाभिनियंशाः क्लेशाः । (यो० द० २।१)

अर्थात् अस्मिन्, अस्मिन् (अहंकार) राग, द्वेष और अभिनिवेश (परप्राप्त) ये चार क्लेश हैं।

भासस्या नातृणा भूमिर्न बुभुक्षार्दितो जनः ।
 दृश्यते यत्र दृश्यन्ते वृष्टिमन्तो खलाहकाः ॥ २२
 भीममेतत्पयो दुग्धं गोभिः सूर्यस्य वारिदैः ।
 पर्जन्यस्सर्वलोकस्योद्भवाय भुवि वर्धति ॥ २३
 तस्मात्प्रावृषि राजानस्सर्वे शक्रं मुदा धृताः ।
 मक्षीस्सुरेशमर्चन्ति वयमन्ये च मानवाः ॥ २४

श्रीपराशर उवाच

नन्दगोपस्य वचनं श्रुत्वेत्थं शक्रपूजने ।
 रोषाय त्रिदशेन्द्रस्य प्राह दामोदरस्तदा ॥ २५
 न वयं कृषिकर्तारो वाणिज्याजीविनो न च ।
 गावोऽस्मद्दृश्यते तत्र वयं वनवरा यतः ॥ २६
 आन्वीक्षिकी प्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथा परा ।
 विद्या चतुष्टयं चैतद्वात्तामात्रं शृणुष्व मे ॥ २७
 कृषिर्वणिज्या तद्वच्च तृतीयं पशुपालनम् ।
 विद्या ह्येका महाभाग वार्ता वृत्तित्रयाश्रया ॥ २८
 कर्मकाणां कृषिवृत्तिः पण्यं विपणिजीविनाम् ।
 अस्माकं गौः परा वृत्तिर्वार्ताभेदैरियं त्रिभिः ॥ २९
 विद्याया यो यथा युक्तस्तस्य सा दैवतं महत् ।
 सैव पूज्यार्चनीया च सैव तस्योपकारिका ॥ ३०
 यो यस्य फलमहनन्वं पूजयत्यपरं नरः ।
 इह च प्रेत्य चैवासी न तदाप्नोति शोभनम् ॥ ३१
 कृष्यान्ता प्रथिता सीया सीमान्तं च पुनर्वनम् ।
 वनान्ता गिरयस्सर्वे ते चास्माकं परा गतिः ॥ ३२
 न द्वारबन्धावरणा न गृहक्षेत्रिणस्तथा ।
 सुखिनस्सखिखिले लोके यथा यै ऋक्चारिणः ॥ ३३
 भ्रूयन्ते गिरयश्चैव वनेऽस्मिन्कापरुषिणः ।
 तत्तदूर्ध्वं समास्थाव रमन्ते स्वेषु सानुषु ॥ ३४

पुष्ट होकर जलस्रवती एवं दूध देनेवाली होती हैं ॥ २१ ॥
 जिस भूमिपर बरसनेवाले मेघ दिखायी देते हैं,
 उसपर कभी अन्न और तृणका अभाव नहीं होता और
 न कभी वहाँके लोग भुखे रहते ही देखे जाते हैं ॥ २२ ॥
 यह पर्जन्यदेव (इन्द्र) पृथिवीके जलको सूर्यकिरणोंद्वारा
 खींचकर सम्पूर्ण प्राणियोंकी वृद्धिके लिये उसे धेनोद्वारा
 पृथिवीपर बरसा देते हैं। इसलिये वर्षा ऋतुमें समस्त
 राजालोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इन्द्रकी
 यशोद्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा किया करते हैं ॥ २३-२४ ॥

श्रीपराशरजी उवाच—इन्द्रकी पूजाकेविषयमें नन्दजीके
 ऐसे वचन सुनकर श्रीदामोदर दैवराजको कुपित करनेके
 लिये ही इस प्रकार कहने लगे— ॥ २५ ॥ “हे तप्त! हम न
 तो कृषक हैं और न व्यापारे, हमारे देवता तो गौर्द ही हैं;
 क्योंकि हमलोग वनचर हैं ॥ २६ ॥ आन्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र),
 त्रयी (कर्मकाण्ड), दण्डनीति और वार्ता—ये चार विद्याएँ
 हैं, इनमेंसे केवल वार्ताका विवरण सुनो ॥ २७ ॥ हे महाभाग!
 वार्ता नामकी विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन इन
 तीन वृत्तियोंकी आश्रयभूता है ॥ २८ ॥ वार्ताके इन तीनों
 धेनोंमेंसे कृषि किसानोंकी, वाणिज्य व्यापारियोंकी और
 गोपालन हमलोगोंकी उत्तम वृत्ति है ॥ २९ ॥ जो व्यक्ति
 जिस विद्यासे युक्त है उसकी वही इष्टदेवता है, वही
 पूजा-अर्थात् योग्य है और वही परम उपकारिणी है ॥ ३० ॥
 जो पुरुष एक व्यक्तिसे फल-लाभ करके अन्यकी पूजा
 करता है, उसका इहलोक अथवा परलोककर्म कहीं भी
 शुभ नहीं होता ॥ ३१ ॥ खेतोंके अन्तमें सीमा है तथा सीमाके
 अन्तमें वन हैं और वनोंके अन्तमें समस्त पर्वत हैं; वे
 पर्वत ही हमारी परमगति हैं ॥ ३२ ॥ हमलोग न तो किसानों
 तथा धिक्के अन्तर रहनेवाले हैं और न निश्चित गृह
 अथवा खेतवाले किसान ही हैं, बल्कि [वन-पर्वतदिमें
 स्वच्छन्द विचरनेवाले] हमलोग चक्रचारी* मुनियोंकी भाँति
 समस्त जनसमुदायमें सुखी हैं [अतः गृहस्थ किसानोंको
 भाँति हमें इन्द्रकी पूज्य करनेका कोई फल नहीं]” ॥ ३३ ॥

* सुना जाता है कि इस वनके पर्वतगण कामरूपी
 (इच्छन्मुखर रूप धारण करनेवाले) हैं। वे मनोवाञ्छित रूप
 धारण करके अपने-अपने शिखरीपर विहार किया
 करते हैं ॥ ३४ ॥

* चक्रचारी मुनि वे हैं जो जगत् आदिसे सर्वत्र भ्रमण किया करते हैं और विनयक कर्मों का प्रवृत्त नहीं होता। वहाँ
 जहाँ शो जाते हैं वहाँ रह जाते हैं। अतः उन्हें ‘साकंशु’ भी कहते हैं।

यदा धीर्तः प्रबाध्यन्ते तेषां ये काननौकसः ।
 तदा सिंहादिरूपैस्ताभ्यातयन्ति महीधराः ॥ ३५
 गिरियज्ञस्त्वयं तस्माद्गोयज्ञश्च प्रवर्त्यताम् ।
 किमस्माकं महेन्द्रेण गावश्शैलाश्च देवताः ॥ ३६
 मन्त्रयज्ञपरा विप्रास्सीरयज्ञाश्च कर्षकाः ।
 गिरिगोयज्ञशैलाश्च वयमत्रिवनाश्रयाः ॥ ३७
 तस्माद्गोवर्धनशैलो भवद्भिक्षीषिधाहृणैः ।
 अर्च्यतां पूज्यतां मेध्यान्यशून्त्या विधानतः ॥ ३८
 सर्वघोषस्य सन्दोहो गृह्णातां मा विचार्यताम् ।
 श्वेयन्तां तेषु वै विप्रसस्तथा ये चाभिव्याज्यकाः ॥ ३९
 सत्रार्चिते कृते होमे भोजितेषु द्विजातिषु ।
 शरत्पुष्पकृतापीडाः परिगच्छन्तु गोगणाः ॥ ४०
 एतन्मम मतं गोपास्सम्प्रीत्या क्रियते यदि ।
 ततः कृता भवेत्प्रोतिर्गवामद्रेस्तथा मम ॥ ४१
 श्रीपरास्तर उवाच
 इति तस्य वचः श्रुत्वा नन्दाद्यस्तै र्रजौकसः ।
 प्रोत्सुकुल्लमुखा गोपास्साधुसाधित्यथाशुषुम् ॥ ४२
 शोभनं ते मतं वत्स यदेतद्भवतोदितम् ।
 तत्करिष्यामहे सर्वं गिरियज्ञः प्रवर्त्यताम् ॥ ४३
 तथा च कृतवन्तस्ते गिरियज्ञं र्रजौकसः ।
 दधिपायसामांसाद्यैर्ददुशैलबलिं ततः ॥ ४४
 द्विजांश्च भोजयामासुश्शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४५
 गावश्शैलं ततश्चक्रुरर्चितास्ताः प्रदक्षिणाम् ।
 वृषभाश्चातिनर्दन्तस्सतोया जलदा इव ॥ ४६
 गिरिपूर्द्धनै कृष्णोऽपि शैलोऽहमिति मूर्तिमान् ।
 बुभुज्जेऽन्नं बहुरं गोपवर्षाहृतं द्विज ॥ ४७
 स्वैनैव कृष्णो रूपेण गोपैस्साह गिरेशिशरः ।
 अधिरुह्यार्चयामास द्वितीयामात्मनस्तनुम् ॥ ४८
 अन्तर्द्धनं गते तस्मिन्गोपा लब्ध्वा ततो वरान् ।
 कृत्वा गिरिमखं गोर्षं निजमभ्यावयुः पुनः ॥ ४९

जब कभी यनयासीगण इन गिरिदेवोंको किसी तरहकी बाधा पहुँचाने है तो वे सिंहादि रूप धारणकर उन्हें मार डालते हैं। ३५ ॥ अतः आजसे [इस इन्द्रवक्त्रके स्थापने] गिरियज्ञ अथवा गोयज्ञका प्रचार होना चाहिये। हर्ष इन्द्रसे क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौर् और पर्वत ही हैं। ३६ ॥ ब्राह्मणलोग मन्त्र यज्ञ तथा कृषकगण सीरयज्ञ (हलका पूजन) करते हैं, अतः पर्वत और वनोंमें रहनेवाले हमलोगोंको गिरियज्ञ और गोयज्ञ करने चाहिये ॥ ३७ ॥

* अतएव आपलोग विधिपूर्वक गोभ्य वशुओंकी बलि देकर विविध स्रमधियोंसे गोवर्धनपर्वतकी अर्चा पूजा करें ॥ ३८ ॥ आज सम्पूर्ण ब्रजका दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्यान्य यत्नकोंकी भोजन कराओ; इस विषयमें और अधिक सोच-विचार मत करो ॥ ३९ ॥ गोवर्धनकी पूजा, होम और ब्राह्मण-भोजन सत्नाप्त होनेपर शरद-शुक्लके पुष्पोंसे सजे हुए मस्तकवाली गौर् गिरिराजकी प्रदक्षिणा करें ॥ ४० ॥ हे गोपण्य! आपलोग यदि प्रोतिपूर्वक नेरी इस सम्पतिके अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौर्ओंकी, गिरिराज और मुल्लको अत्यन्त प्रसन्नता होगी ॥ ४१ ॥

श्रीपरास्तरजी बोले—कृष्णचन्द्रके इन वाक्योंकी सुनकर उन्हे आदि ब्रजवासी गोपोंने प्रसन्नतासे खिले हुए मुखसे 'साधु, साधु' कहा ॥ ४२ ॥ और बोले—हे वत्स! तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बढ़ा ही सुन्दर है; हम सब ऐसा ही करेंगे; आज गिरियज्ञ किया जाय ॥ ४३ ॥

तदनन्तर उन ब्रजवासियोंने गिरियज्ञका अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और पांस आदिसे पर्वतपूजाकी बलि दी ॥ ४४ ॥ सैकड़ों, हजारों ब्राह्मणोंको बोधन करया तथा पुष्पाचित गौर्ओं और शजल जलधरके समान गजनेवाले साँड़ोंने गोवर्धनकी परिक्रमा की ॥ ४५-४६ ॥ हे द्विज! उस समय कृष्णचन्द्रने पर्वतके शिखरपर अन्यरूपसे प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान् गिरिराज हूँ, उन गोपश्रेष्ठोंके चढ़ाये हुए विविध व्यंजनोंको ग्रहण किया ॥ ४७ ॥ कृष्णचन्द्रने अपने निजरूपसे गोपोंके साथ पर्वतराजके शिखरपर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूपका पूजन किया ॥ ४८ ॥ तदनन्तर उनके अन्तर्धान होनेपर गोपगण अपने अधीष्ट वर पाकर गिरियज्ञ समाप्त करके फिर अपने-अपने गोधर्मोंमें चले आये ॥ ४९ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

ग्यारहवाँ अध्याय

इन्द्रका कोप और श्रीकृष्णका गोवर्धन-धारण

श्रीपराशर उवाच

मखे प्रतिहते शक्रो मंत्रेयातिरुषान्वितः ।
संवर्तकं नाम गणं तोषदानामथाश्रयीत् ॥ १
भो भो मेघा निशम्यैतद्वचनं गदतो मम ।
आज्ञानन्तरमेकाशु क्रियतामधिचारितम् ॥ २
नन्दगोपस्सुदुर्बुद्धिर्गोपैरन्यैस्सहायवान् ।
कृष्णाश्रयस्त्राश्रमातो मखभङ्गमचीकरत् ॥ ३
आजीवो याः परस्तेषां गावस्तस्य च कारणम् ।
ता गावो कृष्टिवातेन यीकृतानो वचनान्मम ॥ ४
अहमप्यत्रिमृङ्गार्थं तुङ्गभारुह्य कारणम् ।
साहाय्यं चः करिष्यामि चाश्रम्युत्सार्थोचितम् ॥ ५

श्रीपराशर उवाच

इत्याज्ञप्तास्ततस्तेन मुमुचुस्ते बलाहकाः ।
वातवर्षं महाभीममभावाद्य गवां द्विज ॥ ६
ततः क्षणेन पृथिवी ककुभोऽम्बरमेव च ।
एकं धारामहासारपुरणोभाभवन्मुने ॥ ७
विद्युत्स्तताकशाघातप्रस्तीरिष घनैर्घनम् ।
नादापुरितदिक्चक्रैर्धारामासारमपात्यत ॥ ८
अन्धकारीकृते लोके वर्षाद्विरनिशं धनैः ।
अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् च जगदाप्यमिवाभवत् ॥ ९
गावस्तु तेन घतता वर्षवातेन जेगिना ।
धूताः प्राणाञ्जहुस्सन्नत्रिकसक्थिश्निरोधराः ॥ १०
कोडेन वत्सानाक्रम्य तस्थुरन्या महामुने ।
गावो विषत्साश्च कृता वारिपूरेण चापराः ॥ ११
वत्साश्च दीनधदना घातकम्पितकन्धराः ।
श्राद्धिं ब्राह्मीत्यल्पशब्दाः कृष्णमूचुरिवातुराः ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! अपने यज्ञके रुक जानेसे इन्द्रने अत्यन्त रोषपूर्वक संवर्तक नामक मेघोंके दलसे इस प्रकार कहा— ॥ १ ॥ “अरे मेघो! मेरा यह वचन सुनो और ये जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही, बिना कुछ सोचे-बिचारे तुरन्त पूरा करो ॥ २ ॥ देखो अन्य गोपोंके सहित दुर्बुद्धि नन्दगोपने कृष्णकी सहायताके बलसे अन्धा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है ॥ ३ ॥ अतः जो उनको परम जोगिका और उनके गोपत्वका कारण है, उन गौओंको तुम मेरी आज्ञासे वर्षा और वायुके द्वारा पीड़ित कर दो ॥ ४ ॥ मैं भी पर्वत शिखरके समान अत्यन्त ऊँचे अपने ऐरावत ह्यधीपर चढ़कर वायु और अल छोड़नेके समय गुन्दारी सहायता करूँगा” ॥ ५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज! इन्द्रकी ऐसी आज्ञा होनेपर गौओंको नष्ट करनेके लिये मेघोंने अति प्रचण्ड वायु और वर्षा छोड़ दी ॥ ६ ॥ हे मुने! उस समय एक क्षणमें ही मेघोंकी छोड़ी हुई पहलू जलधाराओंसे पृथिवी, दिशाएँ और आकाश एकरूप हो गये ॥ ७ ॥ मेघगण मानों विद्युत्लतारूप दण्डघातसे भयभीत होकर मग्न शब्दसे दिशाओंको घ्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे ॥ ८ ॥ इस प्रकार मेघोंके अहर्निश बरसनेसे संसारके अन्धकारपूर्ण हो जानेपर ऊपर-नीचे और सब ओरसे समस्त लोक जलमय-सा हो गया ॥ ९ ॥

वर्षा और वायुके जेगपूर्वक चलते रहनेसे गौओंके कटि, बंधा और ग्रीवा आदि सुन हो गये और कौपते-कौपते अपने प्राण छोड़ने लगीं [अर्थात् मूर्च्छित हो गयीं] ॥ १० ॥ हे महामुने! कोई गौएँ तो अपने बड़होंको अपने नीचे छिपाये खड़ी रहीं और कोई जलके जेगसे यत्सहीना हो गयीं ॥ ११ ॥ वायुसे कौपते हुए दीनवदन बड़हें मानों व्याकुल होकर मन्द-स्वरसे कृष्णचन्द्रसे ‘रक्षा करो, रक्षा करो’ ऐसा कहने लगे ॥ १२ ॥

ततस्तद्गोकुलं सर्वं गोगोपीगोपसङ्कुलम् ।
 अतीवार्त्तं हरिर्दृष्ट्वा मैत्रेयाचिन्तयत्तदा ॥ १३
 एतकृतं महेन्द्रेण मखभंगविरोधिना ।
 तदेतदखिलं गोष्ठं त्रातव्यमधुना मया ॥ १४
 ह्यममद्रिमहं धैर्यादुत्पाटयोरुशिलाघनम् ।
 धारधिष्यामि गोष्ठस्य पृथुच्छत्रमिवोपरि ॥ १५

श्रीपराशर उवाच

इति कृत्वा मतिं कृष्णो गोवर्धनमहीधरम् ।
 उत्पाट्यैककरेणैव धारयामास लीलया ॥ १६
 गोपांश्चाह हसञ्छौरिस्सरमुत्पाटितभूधरः ।
 विशाध्वमत्र त्वरिताः कृतं वर्षनिवारणम् ॥ १७
 सुनिवातेषु देशेषु यथा जोषमिहास्यताम् ।
 प्रविश्यतां च भेतव्यं गिरिपाताच्च निर्भयैः ॥ १८
 इत्युक्तास्तेन ते गोपा विविशुर्गोधनैस्सह ।
 शकटासोपितैर्भापडैर्गोप्यश्चासारपीडिताः ॥ १९
 कृष्णोऽपि तं दधारैव शीलमत्यन्तमिष्टचलम् ।
 स्रजैकवासिभिर्दुर्धर्षविस्मिताक्षैर्निरीक्षितः ॥ २०
 गोपगोपीजनैर्दृष्टैः प्रीतिविस्तारितेक्षणैः ।
 संस्तूयमानचरितः कृष्णाश्लेषधारयत् ॥ २१
 सप्तरात्रं महामेघा बलधुर्नन्दगोकुले ।
 इन्द्रेण चोदिता विप्र गोपानां नाशकारिणा ॥ २२
 ततो भूते महशैले परिव्राते च गोकुले ।
 मिथ्याप्रतिज्ञो बलभिद्धारयामास तान्बनान् ॥ २३
 ख्यधे नभसि देवेन्द्रे वितथात्मवचस्पथ ।
 निष्क्रम्य गोकुलं द्रष्टं स्वस्थानं पुनरागतम् ॥ २४
 सुमोक्ष कृष्णोऽपि तदा गोवर्धनमहचलम् ।
 स्वस्थाने विस्मितमुखैर्दृष्टस्तैस्तु व्रजैकसैः ॥ २५

हे मैत्रेय । उस समय गो, गोपी और गोपगणके सहित सम्पूर्ण गोकुलको अत्यन्त व्याकुल देखकर श्रीनरिने विचारा ॥ १३ ॥ यज्ञ-भंगके कारण विरोध मागकर वह सब करतु इन्द्र ही कर रहा है; अतः अब मुझे सम्पूर्ण व्रजकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १४ ॥ अब मैं धैर्यपूर्वक बड़ी-बड़ी शिलाओंसे बनीभूत इस पर्वतको उखाड़कर इसे एक बड़े छत्रके अगान त्रजके ऊपर धारण करूँगा ॥ १५ ॥

श्रीकृष्णचन्द्रके बोले—श्रीकृष्णचन्द्रने ऐसा विचारकर गोवर्धनपर्वतको उखाड़ लिया और उसे लीलासे ही अपने एक हाथपर उठा लिया ॥ १६ ॥ पर्वतको उखाड़ लेनेपर शूरनन्दन श्रीश्यामसुन्दरने गोपोंसे हँसकर कहा—“आओ, शीघ्र हो इस पर्वतके नीचे आ जाओ, मैंने यहाँसे बचनेका प्रबन्ध कर दिया है ॥ १७ ॥ यहाँ वायुहीन स्थानोंमें आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ; निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वतके गिरने आदिका भय मत करो ॥ १८ ॥

श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर खलकी धारओंसे पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन-पाँडोंको छकड़ोंमें रखकर गौओंके साथ पर्वतके नीचे चले गये ॥ १९ ॥ तब वासिष्ठोद्घाट्य हथ और विस्मयपूर्वक टकटको लगाकर देख जाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र भी गिरिराजको अत्यन्त निश्चलतापूर्वक धारण किये रहे ॥ २० ॥ जो प्रीतिपूर्वक आँखें फड़फड़कर देख रहे थे उन हर्षितचित्त गोप और गोपियोंसे अपने चरितोंका स्तवन होते हुए श्रीकृष्णचन्द्र पर्वतको धारण किये रहे ॥ २१ ॥

हे विप्र । गोपोंके अस्फूर्ता इन्द्रकी प्रेरणासे नन्दजीके गोकुलमें सत रात्रिक महाभयंकर मेघ बरसते रहे ॥ २२ ॥ किंतु जब श्रीकृष्णचन्द्रने पर्वत धारणकर गोकुलको रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जानेसे इन्द्रने मेघोंको रोक दिया ॥ २३ ॥ आकाशके मेघहीन हो जानेसे इन्द्रकी प्रतिज्ञा भंग हो जानेपर समस्त गोकुलवासी वहाँसे निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने-अपने स्थानोंपर आ गये ॥ २४ ॥ और कृष्णचन्द्रने भी उन खजवासियोंके विस्मयपूर्वक देखते-देखते गिरिराज गोवर्धनको अपने स्थानपर रख दिया ॥ २५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

वारहवीं अध्याय

शक्र-कृष्ण-संवाद, कृष्ण-स्तुति

श्रीपराशर उवाच

धृते गोवर्धने शीले परित्राते च गोकुले ।
रोचयामास कृष्णस्य दर्शनं पाकशासनः ॥ १

सोऽधिरुह्य महानागमैरावतममित्रजित् ।
गोवर्धनगिरौ कृष्णं ददर्श त्रिदशेश्वरः ॥ २

चरयन्तं महावीर्यं गास्तु गोपवपुर्धरम् ।
कृत्स्नस्य जगतो गोपं वृत्तं गोपकुमारकैः ॥ ३

गरुडं च ददर्शोच्चैरन्तर्द्धामगतं द्विज ।
कृतस्त्रयं हरेर्मूर्ध्नि पश्चाभ्यां पक्षिपुङ्गवम् ॥ ४

अवरुह्य स नागेन्द्रादेकान्ते यधुसूदनम् ।
शक्रस्सस्मितपाद्वेदं प्रीतिविस्तारितेश्चपः ॥ ५

इन्द्र उवाच

कृष्ण कृष्ण शृणुखेदं यदर्धमहमागतः ।
त्वत्समीपं महाबाहो नैतच्चिन्त्यं त्वयान्यथा ॥ ६

भारावतारणार्थाय पृथिव्याः पृथिवीतले ।
अवतीर्णोऽखिलाधार त्वमेव परमेश्वर ॥ ७

मखभंगविरोधेन मया गोकुलनाशकाः ।
समादिष्टा महामेघास्मैश्लेढं कदनं कृतम् ॥ ८

ऋतिस्ताश्च त्वया गावस्समुत्पात्त्र महीधरम् ।
तेनाहं तोषितो वीरकर्मणात्पशुतेन ते ॥ ९

साधितं कृष्ण देवानामहं मन्ये प्रयोजनम् ।
त्वयाद्यमद्रिप्रवरः करेणैकेन यद्धृतः ॥ १०

गोभिश्च चोदितः कृष्ण त्वत्सकाशमिहगतः ।
त्वया त्राताभिरत्यर्धं युष्मत्सत्कारकारणात् ॥ ११

स त्वां कृष्णाभिषेह्यामि गवां वाक्यप्रचोदितः ।
उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविन्दस्त्वं भविष्यसि ॥ १२

श्रीपराशरजी चोले—इस प्रकार गोवर्धनपर्वतका धारण और गोकुलकी रक्षा हो जानेपर देवराज इन्द्रको श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करनेकी इच्छा हुई ॥ १ ॥ अतः शत्रुजित् देवराज गरुडक ऐरावतपर चढ़कर गोवर्धनपर्वतपर आये और वहाँ सम्पूर्ण जगत्के रक्षक गोपलेषधारी महाबलवान् श्रीकृष्णचन्द्रको ग्यालबालोंके साथ गीर्द चढ़ते देखा ॥ २-३ ॥ हे द्विज! उन्होंने यह भी देखा कि पक्षिश्रेष्ठ गरुड अदृश्यभावसे उनके ऊपर रहकर अपने पंखोंसे उनकी छाया कर रहे हैं ॥ ४ ॥ तब वे ऐरावतसे उतर पड़े और एकान्तमें श्रीमधुसूदनकी और प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए पुसकाकर बोले ॥ ५ ॥

इन्द्रने कइल—हे श्रीकृष्णचन्द्र! मैं जिसलिये आपके पास आया हूँ, वह सुनिये—हे महानाभे! आप इसे अन्यथा न समझें ॥ ६ ॥ हे अखिलाधार परमेश्वर! आपने पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही पृथिवीपर अवतार लिया है ॥ ७ ॥ यज्ञभंगसे विरोध भानकर ही मैंने गोकुलको नष्ट करनेके लिये महामेघोंको आह्वान किया था, उन्होंने यह संहार मचाया था ॥ ८ ॥ किन्तु आपने पर्वतको उखाड़कर गीर्दको बचा लिया। हे वीर! आपके इस अद्भुत कर्मसे मैं अति प्रसन्न हूँ ॥ ९ ॥

हे कृष्ण! आपने जो अपने एक हाथपर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओंका प्रयोजन [आपके द्वारा] सिद्ध हुआ ही सम्झता हूँ ॥ १० ॥ [गोवर्धनको रक्षाद्वारा] आपसे रक्षित [कामधेनु आदि] गौओंसे प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करनेके लिये यहाँ आपके पास आया हूँ ॥ ११ ॥ हे कृष्ण! अब मैं गौओंके चाकवानुसार ही आपका उपेन्द्र-पदपर अभिषेक करूँगा तथा आप गौओंके इन्द्र (स्वामी) हैं इसलिये आपका नाम 'गोविन्द' भी होगा ॥ १२ ॥

श्रीपराशर उवाच

अधोपसाह्यादादाय घण्टामैरावताद्राजात् ।
अभिषेकं तथा चक्रे पवित्रजलपूर्णाया ॥ १३ ॥
क्रियमाणेऽभिषेके तु गावः कृष्णस्य तद्व्रणात् ।
प्रस्रवोद्भूतदुग्धात् सद्यश्चकुर्वसुधराम् ॥ १४ ॥
अभिषिच्य गवां साक्यादुपेन्द्रै र्जनार्दनम् ।
प्रीत्या सप्रश्रयं वाक्यं पुनराह शचीपतिः ॥ १५ ॥
गवामेतत्कृतं वाक्यं तश्चान्यदपि मे शृणु ।
यद्भवीमि महाभाग भारवतरणेच्छया ॥ १६ ॥
ममांशः पुरुषव्याघ्र पृथिव्यां पृथिवीधर ।
अवतीर्णोऽर्जुनो माम संरक्ष्यो भवता सदा ॥ १७ ॥
भारवतरणे साह्यं स ते वीरः करिष्यति ।
संरक्षणीवो भवता यथात्मा मधुसूदन ॥ १८ ॥

श्रीभगवानुवाच

जानामि भारते वंशे जाते पार्थ तवांशतः ।
तमहं पालयिष्यामि यावत्स्थास्यामि भूतले ॥ १९ ॥
यावन्महीतले शक्र स्थास्याम्यहमरिन्दम ।
न तावदर्जुनं कश्चिद्देवेन्द्र युधि जेष्यति ॥ २० ॥
कंसो नाम महाब्राह्मणैर्योऽरिष्टस्तथासुरः ।
केशी कुवल्लभापीडो नरकाह्यास्तथा परे ॥ २१ ॥
इतेषु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः ।
तत्र सिद्धिं सहस्राक्ष भारवतरणं कृतम् ॥ २२ ॥
स त्वं गच्छ न सन्तापं पुत्रार्थं कर्तुमर्हसि ।
नार्जुनस्य रिपुः कश्चिन्न्यमात्रे प्रभविष्यति ॥ २३ ॥
अर्जुनार्थं त्वहं सर्वान्युधिष्ठिरपुरोगमान् ।
निवृत्ते भारते युद्धे कुन्तये दास्याम्यविक्षतान् ॥ २४ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तः सम्परिष्वज्य देवराजो जनार्दनम् ।
आरुह्यैरावतं नागं पुनरेव दिवं ययौ ॥ २५ ॥
कृष्यो हि सहितो गोभिर्गोपालैश्च पुनर्लजम् ।
आजगामाश्च गोपीनां दृष्टिपूतेन वर्त्मना ॥ २६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर इन्द्रने अपने यज्ञ
गजराज ऐरावतका घण्टा लिया और उसमें पवित्र
जल भरकर उससे कृष्णचन्द्रका अभिषेक किया ॥ १३ ॥
श्रीकृष्णचन्द्रका अभिषेक होते समय गौओंने घुल्ल ही
अपने स्तनोंसे टपकते हुए दूधसे पृथिवीको भिणो
दिया ॥ १४ ॥

इस प्रकार गौओंके कथनानुसार श्रीजनार्दनको
उपेन्द्र-पदपर अभिषेक कर शचीपति इन्द्रने पुनः
प्रीति और दिनमपूर्वक कहा— ॥ १५ ॥ "हे महाभाग!
यह तो मैंने गौओंका वचन पूरा किया, अब पृथिवीके
भार उतारनेकी इच्छासे मैं आपसे जो कुछ और
निषेदन करता हूँ वह भी सुनिये ॥ १६ ॥ हे पृथिवीधर!
हे पुरुषसिंह! अर्जुन नामक मेरे अंशने पृथिवीपर
अवतार लिया है; आप कृपा करके उसकी संवदा
रक्षा करें ॥ १७ ॥ हे मधुसूदन! वह वीर पृथिवीका
भार उतारनेमें आपका साथ देगा, अतः आप उसकी
अपने शरीरके समान ही रक्षा करें" ॥ १८ ॥

श्रीभगवान् बोले—परतवंशमें पृथाके पुत्र अर्जुनने
तुम्हारे अंशमें अवतार लिया है—यह मैं जानता हूँ। मैं
जबतक पृथिवीपर रहूँगा, उसकी रक्षा करूँगा ॥ १९ ॥ हे
शत्रुसूदन देवेन्द्र! मैं जबतक महीतलपर रहूँगा तबतक
अर्जुनको युद्धमें कोई भी न जीत सकेगा ॥ २० ॥ हे देवेन्द्र!
विशाल भुजाओंवाला कंस भागकैः सैन्य, अरिष्टासुर, केशी,
कुवल्लभापीड और नरकासुर आदि अन्यान्य घैःसौका नाश
होनेपर यहाँ महाभारत-युद्ध होगा। हे सहस्राक्ष! उसी समय
पृथिवीका भार उतरा हुआ समझना ॥ २१-२२ ॥ अब तुम
प्रसन्नतापूर्वक बाओ, अपने पुत्र अर्जुनके लिये तुम किसी
प्रकारकी चिन्ता मत करो; मेरे रहते हुए अर्जुनका कोई
भी शत्रु सफल न हो सकेगा ॥ २३ ॥ अर्जुनके लिये ही मैं
महाभारतके अन्तमें युधिष्ठिर आदि संपन्न पाण्डवोंको
अक्षत-शरीरसे कुन्तीको दूँगा ॥ २४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—कृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर
देवराज इन्द्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथीपर
आरुह्य हो स्वर्गको चले गये ॥ २५ ॥ तदनन्तर कृष्णचन्द्र
भी गोपियोंके दृष्टिपातसे पवित्र हुए मार्गद्वय गोपकुमारों
और गौओंके साथ व्रजको लौट आये ॥ २६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

तेरहवाँ अध्याय

गोपोंद्वारा भगवान्की प्रभाववर्णन तथा भगवान्का गोपियोंके साथ गसक्रीडा करना

श्रीपराशर उवाच

गते शक्रे तु गोपालाः कृष्णमद्विलष्टकारिणम् ।
ऊचुः प्रीत्या धृतं दृष्ट्वा तेन गोवर्धनाचलम् ॥ १

क्षयमस्मान्महाभाग भगवन्महलो भयात् ।
गावश्च भवता व्राता गिरिधारणकर्मणा ॥ २

बालक्रीडैवमतुला गोपालत्वं जुगुप्सितम् ।
दिव्यं च भवतः कर्म किमेतत्तात कथ्यताम् ॥ ३

कालियो दमितस्तोये धेनुको विनिपातितः ।
श्रुतो गोवर्धनश्चायं शङ्कितानि मनांसि नः ॥ ४

सत्यं सत्यं हरैः पादौ शयामोऽमितविक्रम ।
यथावद्दीर्घमालोक्य न त्वां मन्यामहे नरम् ॥ ५

प्रीतिः सस्त्रीकुमारस्य व्रजस्य त्वयि केशव ।
कर्म चेदमशक्यं यत्समस्तैस्त्रिदशैरपि ॥ ६

बालत्वं चातिवीर्यत्वं जन्म चास्मास्वशोभनम् ।
चिन्त्यमानममेषांत्वच्छ्रद्धा कृष्ण प्रचच्छ्रति ॥ ७

देखो वा दानवो वा त्वं यक्षो गन्धर्व एव वा ।
किमस्माकं विचारेण बान्धवोऽसि नमोऽस्तु ते ॥ ८

श्रीपराशर उवाच

क्षणं भूत्वा त्वसौ तूष्णीं किञ्चित्प्रणयकोषवान् ।
इत्येवमुक्तस्तैर्गोपैः कृष्णोऽप्याह महामतिः ॥ ९

श्रीभगवानुवाच

यत्सम्बन्धेन त्वो गोपा यदि लज्जा न जायते ।
श्लाघ्यो चाहं ततः किं वो विचारेण प्रयोजनम् ॥ १०

यदि वोऽस्ति मयि प्रीतिः श्लाघ्योऽहं भवतां यदि ।
तदात्मबन्धुसदृशी बुद्धिर्वः क्रियतां मयि ॥ ११

श्रीपराशरजी बोले—इन्द्रके बले जानेपर लोलप्रविहारो श्रीकृष्णचन्द्रको बिना प्रयास ही गोवर्धन-पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले— ॥ १ ॥ हे भगवन्! हे महद्भाग! आपने गिरिजको धारण कर हमारी और गौओंकी इस महान् भयसे रक्षा की है ॥ २ ॥ हे तात! कहीं आपकी यह अनुपम मालालीला, कहीं निन्दित गोपजाति और कहीं ये दिव्य कर्म? यह सब क्या है, कृपया हमें बतलाइये ॥ ३ ॥ आपने यमुनाजलमें कालियनागका दमन किया, धेनुकासुरको मात्र और फिर यह गोवर्धनपर्वत धारण किया; आपके इन अद्भुत कर्मोंसे हमारे चित्तमें बड़ी शंका हो रही है ॥ ४ ॥ हे अमितविक्रम! हम भगवान् हरिके चरणोंकी शपथ करके आपसे सच-सच कहते हैं कि आपके ऐसे बल-वीर्यको देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते ॥ ५ ॥ हे केशव! स्वयं और बालकोंके सहित सभी ब्रह्मासियोंकी आपपर अत्यन्त प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओंके लिये भी दुष्कर है ॥ ६ ॥ हे कृष्ण! आपकी यह माल्यालया, विधिय बल-वीर्य और हम-जैसे नीच पुरुषोंमें जन्म लेना—हे अमैयात्मन्! ये सब बातें विचार करनेपर हमें शंकामें डाल देती हैं ॥ ७ ॥ आप देवता हों, दानव हों, यक्ष हों अथवा गन्धर्व हों; इन बातोंका विचार करनेसे हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो आप बन्धु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है ॥ ८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—गोपगणके ऐसा कहनेपर महामति कृष्णचन्द्र कुछ देरतक चुप रहे और फिर कुछ प्रणयबन्धन कोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगे— ॥ ९ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—हे गोपगण! यदि आपलोगोंको मेरे सम्बन्धसे किसी प्रकारकी लज्जा न हो तो मैं आपलोगोंसे प्रशंसनीय हूँ इस बातका विचार करनेकी भी क्या आवश्यकता है? ॥ १० ॥ यदि मुझमें आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसाका पात्र हूँ तो आपलोग मुझमें बान्धव-बुद्धि ही करें ॥ ११ ॥

नाहं देवो न गन्धर्वो न यक्षो न च दानवः ।
अहं वो बान्धवो जातो नैतच्चिन्धमपितोऽन्यथा ॥ १२

श्रीपराशर उवाच

इति श्रुत्वा हरेर्वाक्यं बद्धमीनास्ततो वनम् ।
यद्युगौषा महाभाग तस्मिन्प्रणयकोपिनि ॥ १३

कृष्णस्तु विमलं स्वोष शरच्चन्द्रस्य चन्द्रिकाम् ।
तदा कुमुदिनो फुल्लामामोदितदिगन्तराम् ॥ १४

वनराजिं तथा कूजद्भुङ्गमालामनोहराम् ।
विलोक्य सप्त गोपीधिर्मनश्चक्रे रतिं प्रति ॥ १५

विना रामेण मधुरमतीव वनिताप्रियम् ।
जगौ क्लपदं शौरिस्तारमन्दकृतक्रमम् ॥ १६

रम्यं गीतध्वनिं श्रुत्वा सन्त्यन्यावसथांस्तदा ।
आजग्मुस्त्वरिता गोप्यो यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ १७

भनैश्शनैर्जगौ गोपी काचित्तस्य लयानुगाम् ।
दत्तावधाना काचिच्च तमेव मनसास्मरत् ॥ १८

काचित्कृष्णेति कृष्णेति श्रेच्य लज्जामुपाययी ।
ययी च काचित्प्रेमान्ध तत्पार्श्वमथिलम्बितम् ॥ १९

काचित्कृष्णस्वस्थने स्थित्वा दृष्ट्वा बहिर्युगम् ।
तन्मयत्वेन गोविन्दं दृष्ट्वा मीलितलोचना ॥ २०

तच्चित्तविमलाह्लादक्षीणपुण्यचया तथा ।
तदप्राप्तिमहादुःखचित्तानाशेषपातका ॥ २१

चिन्तयन्ती जगत्सृतिं परब्रह्मस्वरूपिणाम् ।
निरुच्छसतथा मुक्तिं गतान्या गोषकन्यका ॥ २२

गोपीपरिवृतो रात्रिं शरच्चन्द्रमनोरमाम् ।
भानयामास गोविन्दो रासारम्भरसोत्सुकः ॥ २३

गोष्यश्च वृन्दशः कृष्णश्रेष्ठास्वाद्यत्तमूर्तयः ।
अन्यदेशं गते कृष्णे चेरुर्वृन्दावनान्तरम् ॥ २४

कृष्णे निबद्धहृदया इदमूलुः परस्परम् ॥ २५

मैं न देव हूँ, न गन्धर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न दानव हूँ। मैं तो आपके बान्धवरूपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ; आप-शौर्गोको इस विषयमें और कुछ विचार न करना चाहिये ॥ १२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे महाभाग! श्रीहरिके प्रणयकोपयुक्त होकर कहे हुए इन शक्त्योंको सुनकर ये समस्त गोपगण चुपचाप घनको चले गये ॥ १३ ॥

तब श्रीकृष्णचन्द्रने निर्मल आकाश, शरच्चन्द्रको चन्द्रिका और दिशाओंको सूर्यभूत करनेवाली विकसित कुमुदिनी तथा वन-खरडोको मुखर मधुकरोंसे मनोहर देखकर गांग्रियोंके साथ रमण करनेकी इच्छा की ॥ १४-१५ ॥ उस समय बलरामजीके जिना ही श्रीमुरलीमनोहर स्त्रियोंको प्रिय लगनेवाला अत्यन्त मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद कैंचे और धीमे स्वरसे गाने लगे ॥ १६ ॥ इनकी इस सुम्य गीतध्वनिको सुनकर गोपिनियाँ अपने-अपने घरोंको छोड़कर तत्काल जहाँ श्रीमधुसूदन ने जहाँ बली आयीं ॥ १७ ॥

यहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वर-धै-स्वर मिलाकर धीरे-धीरे गाने लगी और कोई पन ही-मन उन्होंका स्मरण करने लगी ॥ १८ ॥ कोई 'हे कृष्ण, हे कृष्ण' ऐसा करती हुई लज्जावश संकुचित हो गयी और कोई प्रेमीन्मादिनी होकर दुरन्त उनके पास जा खड़ी हुई ॥ १९ ॥ कोई गोपी दाहर गुल्मनोंको देखकर अपने घरमें ही रहकर आँख मूँदकर तन्मयभावसे श्रीगोविन्दका ध्यान करने लगी ॥ २० ॥ तथा कोई गोपकुमारी जगत्के कारण परब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्रका चिन्तन करते-करते [भूष्णवस्थामें] प्राणापानके रुक जानेसे मुक्त हो गयी, क्योंकि भगवद्भयानके विमल आह्लादसे उसकी समस्त पुण्यराशि शीघ्र हो गयी और भगवान्की अप्राप्तिके महान् दुःखसे उसके समस्त पाप लीन हो गये थे ॥ २१-२२ ॥ गोपिनियोंसे घिरे हुए रासारम्भरूप रक्षके लिये उत्काण्ठित श्रीगोविन्दने उस शरच्चन्द्रसुशोभिता रात्रिको [रास करके] सम्मानित किया ॥ २३ ॥

उस समय भगवान् कृष्णके अन्धर धले जानेपर कृष्णचन्द्रके अधीन हुई गोपिनियों युव बनाकर वृन्दस्थलके अन्दर विचरने लगीं ॥ २४ ॥ कृष्णमें दिव्यचित्त हुई वे ब्रजगंगामार्ग परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगीं—[उसमेंसे एक गोपी कहेती थी—] "मैं ही कृष्ण हूँ; देखो, कैसी सुन्दर चालसे चलता हूँ; दृष्टिक मेरी

कृष्णोऽहमेव ललितं व्रजाम्यालोक्ष्यतां गतिः ।
 अन्या क्वीतिं कृष्णस्य मय गीतिर्निश्चयताम् ॥ २६
 दुष्टकालिव तिष्ठत्र कृष्णोऽहमिति चापरा ।
 बाहुमास्फोट्य कृष्णस्य लीलया सर्वमादादे ॥ २७
 अन्या ब्रवीति भो गोपा निशंकैः स्वीयतामिति ।
 अलं वृष्टिभवेनात्र धृतो गोवर्धनो मया ॥ २८
 धेनुकोऽयं मया क्षिप्तो विचरन्तु यद्येच्छया ।
 गावो ब्रवीति चैवान्या कृष्णलीलानुसारिणी ॥ २९
 एवं नानाप्रकारासु कृष्णचेष्टासु तास्तादा ।
 गोष्यो व्यग्राः सर्वं चेरु रयं वृन्दावनान्तरम् ॥ ३०
 विलोक्यैका भुवं प्राह गोपी गोपवराङ्गना ।
 पुलकाञ्चित्सर्वाङ्गी विक्रासिनयनोत्पला ॥ ३१
 ध्वजवज्राङ्कुशाब्जाङ्कुरेखावन्त्यालि पश्यत ।
 पदान्येतामि कृष्णस्य लीलाललितगामिनः ॥ ३२
 कापि तेन समाधाता कृतपुण्या मदालसा ।
 पदानि तस्याश्चैतानि घनान्धल्पतनूनि च ॥ ३३
 पुष्यापचयमत्रोच्चैश्चक्रे दामोदरो ध्रुवम् ।
 येनाग्राक्रान्तमात्राणि पदान्यत्र महात्मनः ॥ ३४
 अत्रोपविश्य वै तेन काचित्पुष्पैरलंकृता ।
 अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यर्चितस्तथा ॥ ३५
 पुष्यबन्धनसम्मानकुलमानामपास्य ताम् ।
 नन्दगोपसुतो यातो मार्गणानेन पश्यत ॥ ३६
 अनुधातैरमत्रान्या नितम्बभरमन्धरा ।
 या गन्तव्ये हृतं याति निम्नपादाग्रसंस्थितिः ॥ ३७
 हस्तन्यस्ताग्रहस्तेयं तेन याति तथा सखी ।
 अनायत्तपदव्यासा लक्ष्यते पदपद्धतिः ॥ ३८
 हस्तसंस्पर्शमात्रेण धूर्तैर्नैवा विमानिता ।
 नैराश्यान्मन्दगामिन्या निवृत्तं लक्ष्यते पदम् ॥ ३९

गति तो देखो ।" दूसरी कहती— "कृष्ण तो मैं हूँ, अलस ।
 मेरा गाता तो सुनो" ॥ २५-२६ ॥ कोई अन्य गोपी भुजाएँ
 लौककर चोल उठती— "अरे दुष्ट कालिय! मैं कृष्ण हूँ,
 शनिक उठर तो जा" ऐसा कहकर यह कृष्णके सारे चरित्रोंका
 लीलापूर्वक अनुकरण करने लगती ॥ २७ ॥ कोई और गोपी
 कहने लगती— "अरे गोपगण! मैंने गोवर्धन धारण कर लिया
 है, तुम वर्षासे मत डरो, निशंक होकर इसके पीने आकर
 शैठ जाओ" ॥ २८ ॥ कोई दूसरी गोपी कृष्णलीलाओंका
 अनुकरण करती हुई बोलने लगती— "मैंने धेनुकासुरको
 मार दिया है, अब यहाँ गाँव स्वच्छन्द होकर विचरें" ॥ २९ ॥
 इस प्रकार संभक्त गोपियाँ श्रीकृष्णचन्द्रकी नाना
 प्रकारकी चेष्टाओंमें व्यग्र होकर साथ-साथ अति सुरम्य
 वृन्दावनके अन्दर विचरने लगीं ॥ ३० ॥ खिले हुए कमल-
 नैसे नेत्रवाली एक सुन्दरी गोपोगना सर्वांग पुलकित
 हो पुशियीकी ओर देखकर कहने लगी— ॥ ३१ ॥ अरी
 आली! ये लीलाललितगामी कृष्णचन्द्रके भवजा, अग्र,
 अङ्कुश और कपल आदिकी रेखाओंसे सुशोभित पदचिह्न
 तो देखो ॥ ३२ ॥ और देखो, उनके साथ कोई पुण्यवती
 पदमाती मुदती भी आ गयी है, उसके से घने छोटे-छोटे
 और पतले चरणचिह्न दिखायी दे रहे हैं ॥ ३३ ॥ यहाँ
 निश्चय ही दामोदरने ऊँचे होकर पुष्पक्षयन किये हैं; इसी
 कारण यहाँ ठन महात्माके चरणोंके केवल अग्रभाग ही
 अंकित हुए हैं ॥ ३४ ॥ यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही
 किसी अङ्गभागिनीका पुष्पोंसे शृंगार किया है; अवश्य ही
 उसने अपने पूर्वजन्ममें स्वर्गमा श्रीविष्णुभगवान्की वपुसला
 की होगी ॥ ३५ ॥ और यह देखो, पुष्पबन्धनके सम्मानसे
 गर्विता होकर उसके मान करनेपर श्रीनन्दनन्दन उसे छोड़कर
 इस मार्गसे चले गये हैं ॥ ३६ ॥ अरी सखियो! देखो, यहाँ
 कोई नितम्बभारके कारण मन्दगामिनी गोपी कृष्णचन्द्रके
 पीछे-पीछे गयी है। वह अपने गन्तव्य स्थानको तो जगतिसे
 गयी है, इसीसे उसके चरणचिह्नोंके अग्रभाग कुछ
 नीचे दिखायी देते हैं ॥ ३७ ॥ यहाँ बैठ सखी उनके
 हाथमें अपना पाणिपरेलक्ष्य देकर घसी है, इसीसे उसके
 चरणचिह्न पराधीन-से दिखलायी देते हैं ॥ ३८ ॥ देखो,
 यहीसे उस मन्दगामिनीके निरास होकर लौटनेके
 चरणचिह्न दीख रहे हैं, माधुर्य होता है उस धूर्तने [उसकी
 अन्य आन्तरिक अधिलायाओंको पूर्ण किये बिना ही]
 केवल कर-स्पर्श करके उसका अपमान किया है ॥ ३९ ॥

नूनमुक्ता त्वरामीति पुनरेष्यामि तेऽनिकम् ।
तेन कृष्णेन येनैषा त्वरिता पदपद्धतिः ॥ ४०

प्रविष्टो गहनं कृष्णः पदमत्र न लक्ष्यते ।
निवर्तध्वं शशाङ्कस्व नैतद्दीधितिगोचरे ॥ ४१

निवृत्तास्तास्तदा गोष्यो निराशाः कृष्णादर्शने ।
यमुनातीरमासाद्य जगुस्तच्छरितं तथा ॥ ४२

ततो ददृशुरायान्तं विक्वासिमुखपंकजम् ।
गोष्यस्त्रैलोक्यगोप्तारं कृष्णमक्लिष्टचेष्टितम् ॥ ४३

काचिदालोक्य गोविन्दमायान्तमतिहृषिता ।
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति प्राह नान्यदुदीर्यत् ॥ ४४

काचिद्भूभङ्गुरं कृत्वा सलाहफलार्कं हरिम् ।
विलोक्य भैरभृद्भ्राथ्यां पयो तन्मुखपंकजम् ॥ ४५

काचिदालोक्य गोविन्दं निमीलितविलोचना ।
तस्यैव रूपं ध्यायन्ती योगारूढेव सा यथी ॥ ४६

ततः कान्ज्वित्प्रियालभैः कान्ज्विद्भूभङ्गवीक्षितैः ।
निन्देऽनुनयमन्यां च करस्पर्शेन माधवः ॥ ४७

ताभिः प्रसन्नचित्ताभिर्गोपीभिस्सह सादरम् ।
रास रासगोष्ठीभिरुदारचरितो हरिः ॥ ४८

रासमण्डलबन्धोऽपि कृष्णापार्श्वमनुष्णता ।
गोपीजनेन नैवाभूदेकस्थानस्थिरात्मना ॥ ४९

हस्तेन गृह्य चैकैकां गोपीनां रासमण्डलम् ।
सकारं तत्करस्पर्शनिमीलितदृशं हरिः ॥ ५०

ततः प्रवृत्ते रासश्चलद्दलयनिस्वनः ।
अनुवातशरत्काव्यगेधगीतिरनुकमात् ॥ ५१

कृष्णाशशरच्चन्द्रपसं कौमुदीं कुमुदाकरम् ।
जगौ गोपीजनस्त्येकं कृष्णनाम पुनः पुनः ॥ ५२

परिवृत्तिश्रमेणीका चलद्दलयस्तापिनीम् ।
ददी बाहुसतां स्कन्धे गोपीं पधुनिधातिनः ॥ ५३

यहाँ कृष्णने अवश्य उस गोपीसे कहा है '[तू यहाँ
शैल] में शीघ्र ही जाना हूँ [इस वनमें रहनेवाले
शशकको मारकर] पुनः तेरे पास लौट आऊँगा।
इसीलिये यहाँ उनके घरणोंके पिछन शीघ्र गतिके-
से पीछ रहे हैं' ॥ ४० ॥ यहाँसे कृष्णचन्द्र गहन वनमें
चले गये हैं, इसीसे उनके चरण पिछन दिखलाये
नहीं देते: अब सब लौट चले; इस स्थानपर चन्द्रमाकी
किरणें नहीं पहुँच सकती ॥ ४१ ॥

तदनन्तर वे गोपियाँ कृष्ण-दर्शनसे निराश होकर
लौट आयीं और यमुनातटपर आकर उनके चरितोंको
गाने लगीं ॥ ४२ ॥ तब गोपियोंने प्रसन्नमुखारविन्द
त्रिभुवनरक्षक लालाविहारी श्रीकृष्णचन्द्रको यहाँ आते
देखा ॥ ४३ ॥ उस समय कोई गोपी तो श्रीगोविन्दको आते
देखकर अति हर्षित हो केवल 'कृष्ण! कृष्ण!! कृष्ण!!!'
इतना ही कहती रह गयी और कुछ न बोल सकी ॥ ४४ ॥
कोई [प्रणयकोपवश] अपनी भूभंगीसे ललाट सिकोड़कर
श्रीहरिको देखते हुए अपने नेत्ररूप भ्रमरोद्गारा उनके
मुखफलका मकरन्द पान करने लगी ॥ ४५ ॥ कोई गोपी
गोविन्दको देख नेत्र मूँदकर उसीके रूपका ध्यान करती
हुई योगारूढ-सी भासित होने लगी ॥ ४६ ॥

तब श्रीमाधव किसीसे प्रिय भाषण करके, किसीको
और भूभंगीसे देखकर और किसीका हाथ पकड़कर उन्हें
भजाने लगे ॥ ४७ ॥ फिर तदारचित श्रीहरिने उन प्रसन्नचित
गोपियोंके साथ रासमण्डल बनाकर आदरपूर्वक रमण
किया ॥ ४८ ॥ किन्तु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचन्द्रको
सन्निधिको न छोड़ना चाहती थी; हरसलिये एक ही स्थानपर
स्थिर रहनेके कारण रसोचित मण्डल न बन सका ॥ ४९ ॥
तब उन गोपियोंमेंसे एक-एकका हाथ पकड़कर श्रीहरिने
रासमण्डलको रचना की। उस समय उनके करस्पर्शसे
ब्रह्मेक गोपीकी आँखें आनन्दसे मूँद जाती थीं ॥ ५० ॥

तदनन्तर रसभ्रीडा आरम्भ हुई। उसमें गोपियोंके
चंचल कंकणोंकी झनकार होने लगी और फिर क्रमशः
शरद्वर्णन-सम्बन्धी गीत होने लगी ॥ ५१ ॥ उस समय
कृष्णचन्द्र चन्द्रमा, चन्द्रिका और कुमुदवन-सम्बन्धी गान
करने लगे; किन्तु गोपियोंने तो बारम्बार केवल
कृष्णनामक ही गान किया ॥ ५२ ॥ फिर एक गोपीने नृत्य
करते-करते थककर चंचल कंकणकी झनकारसे युक्त
अपनी बाहुलता श्रीमधुसूदनके गलेमें डाल दी ॥ ५३ ॥

काचित्प्रविलसद्बाहुः परिरभ्य चुचुम्ब तम् ।
 गोपी गीतस्तुतिव्याजानियुष्ण मधुसूदनम् ॥ ५४
 गोपीकपोलसंश्लेषमभिगम्य हरेर्भुजौ ।
 पुलकोद्गमसस्याध स्वेदाम्बुघनतां गतौ ॥ ५५
 रासमेयं जगौ कृष्णो यावत्तारतरध्वनिः ।
 साधु कृष्णोति कृष्णोति तावत्ता द्विगुणं जगुः ॥ ५६
 गतेऽनुगमनं चकुर्वलने सम्मुखं ययुः ।
 प्रतिलोमानुलोमाभ्यां भेजुर्गोपाङ्गना हरिम् ॥ ५७
 स तथा सह गोपीभी ररास मधुसूदनः ।
 यथाब्दकोटिप्रतिभः क्षणस्तेन विनाभवत् ॥ ५८
 ता वार्यमाणाः प्रतिभिः पितृभिर्भ्रातृभिस्तथा ।
 कृष्णं गोपाङ्गना रात्रौ रमयन्ति रतिप्रियाः ॥ ५९
 सोऽपि कैशोरकवयो मानयन्मधुसूदनः ।
 रेमे ताभिरमेयात्वा क्षयासु क्षपिताहितः ॥ ६०
 तद्दर्तुं तया तामु सर्वभूतेषु चेश्वरः ।
 आत्मस्वरूपरूपोऽसौ व्यापी सायुर्विद्य स्थितः ॥ ६१
 यथा समस्तभूतेषु नभोऽग्निः पृथिवी जलम् ।
 चायुश्चात्मा तथैवासौ व्याप्य सर्वमवस्थितः ॥ ६२

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चौदहवाँ अध्याय

वृषभासुर-वध

श्रीपराशर उवाच

प्रदोषाग्रे कदाचित्तु रासासके ज्ज्वादीने ।
 त्रासयन्समदो गोष्ठमरिष्टस्समुपागमत् ॥ १
 सतोयतोयदृष्ट्वायस्तीक्ष्णशृङ्गोऽर्कलोचनः ।
 खुराग्रपातैरत्यर्थं दारयन्धरणीतलम् ॥ २
 लेलिहानस्सनिष्येषं जिह्वयोष्ठौ पुनः पुनः ।
 संरम्भाविद्भलाङ्गुलः कठिनस्कन्धबन्धनः ॥ ३

किसी निपुण गोपीने भगवान्के गानकी प्रशंसा करनेके सहाने भुजा फैलाकर श्रीमधुसूदनको आलिंगन करने चूम लिया ॥ ५४ ॥ श्रीहरिकी भुजाएँ गोपियोंके कपोलोंका लुब्धन पाकर उन (कपोलों) - में पुलकवर्णितरूप धान्यकी उत्पत्तिके लिये स्वंदरूप बलके मेघ बन गयीं ॥ ५५ ॥

कृष्णचन्द्र वितने उच्चस्वरसे रासोचित गान गाते थे उससे दूने शब्दसे गोपियाँ "धन्य कृष्ण! धन्य कृष्ण!!" की ही ध्वनि लगा रही थीं ॥ ५६ ॥ भगवान्के आगे जानेपर गोपियाँ उनके पीछे जातीं और छोटनेपर सामने चलतीं, इस प्रकार वे अनुलोम और शतिलोम-गतिसे श्रौंहरिका साथ देती थीं ॥ ५७ ॥ श्रीमधुसूदन भी गोपियोंके साथ इस प्रकार रासक्रीडा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियोंको करोड़ों वर्षोंके समान शीघ्रता था ॥ ५८ ॥ वे रास-रसिक गोपांगनाएँ पति, माता-पिता और भ्राजा आदिके रोकनेपर भी रात्रिमें श्रोत्र्यामसुन्दरके साथ विहार करती थीं ॥ ५९ ॥ शत्रुहन्ता अमेयात्मा श्रीमधुसूदन भी अपनी किशोरवस्थाका मान करते हुए रात्रिके समय उनके साथ रमण करते थे ॥ ६० ॥ वे सर्वव्यापी ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र गोपियोंमें, उनके पतियोंमें तथा समस्त प्राणियोंमें आत्मस्वरूपसे सायुके समान व्याप्त थे ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथिवी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियोंमें व्याप्त हैं उसी प्रकार वे भी सब पदार्थोंमें व्याप्त हैं ॥ ६२ ॥

श्रीपराशरजी बोले— एक दिन सायंकालके समय जब श्रीकृष्णचन्द्र रासक्रीडामें आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मलौन्मत्त असुर [वृषभरूप धारणकर] सबकी भयभीत करवा प्रजामें आया ॥ १ ॥ इस अरिष्टासुरकी कान्ति सजल जलधरके समान कृष्णवर्ण थी, सौंन अत्यन्त तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्यके समान तेजस्वी थे और अपने खुरोंकी चोटसे वह माने पृथिवीकी फाड़े डालता था ॥ २ ॥ वह दौत पीसला हुआ पुनः-पुनः अपनी जिह्वसे ओठोंको चाट रहा था, उसने क्रोधवशा अपनी पूंछ ठठा रखी थी तथा उसके स्कन्धबन्धन कठोर थे ॥ ३ ॥

उदग्रककुदाभोगप्रमाणो दुरतिक्रमः ।
 विपभूत्रसिप्तपृच्छाङ्गो गवामुद्देगकारकः ॥ ४
 प्रलम्बकपत्रेऽतिमुखस्तरुखाताङ्किताननः ।
 पातयन्स गवां गर्भान्दैत्यो वृषभरूपधृक् ॥ ५
 सूदयंस्तापसानुगो वनानटति यस्सदा ॥ ६
 ततस्तमतिघोराक्षमवेक्ष्यातिभयानुराः ।
 गोपा गोपस्त्रिवश्वैव कृष्ण कृष्णोति चुक्रुशुः ॥ ७
 सिंहनादं ततश्चक्रे तलशब्दं च केशवः ।
 तच्छब्दश्रवणाच्च्यासीं दामोदरमुपाययी ॥ ८
 अग्रन्यस्तविषाणाग्रः कृष्णकुक्षिकृतेक्षणः ।
 अभ्यधावत दुष्टात्मा कृष्णं वृषभदानसः ॥ ९
 आयान्तं दैत्यवृषर्षं दृष्ट्वा कृष्णो मल्लबलः ।
 न चचाल तदा स्थानादवज्रास्मितलीलया ॥ १०
 आसनं चैव जग्राह ग्राहयन्मधुसूदनः ।
 जघान जानुना कुक्षीं विषाणप्रहणाचलम् ॥ ११
 तस्थ दर्पबलं भङ्क्त्वा गृहीतस्य विषाणयोः ।
 अपीद्व्यदरिष्टस्य कण्ठं क्लिन्नमिवाप्यरम् ॥ १२
 तपाट्य मृङ्गमेकं तु तेनैवाताडयत्ततः ।
 ममार स महादैत्यो मुख्याच्छ्रेणितमुद्रमन् ॥ १३
 तुष्टुर्बुर्निहते तस्मिन्दैत्ये गोपा जनार्दनम् ।
 जम्भे हते सहस्राक्षं पुरा देवगणा अथा ॥ १४

उसके ककुद (कुहान) और शरीरका प्रमाण अत्यन्त
 कैचा एवं दुर्लब्ध था, पृष्ठभाग गोबर और मूत्रसे लिथड़ा
 हुआ था। तथा वह समस्त गौओंको भयभीत कर रहा
 था ॥ ४ ॥ उसको गीवा अत्यन्त लम्बी और मुख वृषके
 खोंखलेके समान अति गम्भीर था। वह वृषभरूपधारी
 दैत्य गौओंके गर्भोंको गिरता हुआ और तपस्वियोंको
 मारता हुआ सदा वनमें विचरा करता था ॥ ५-६ ॥

तब उस अति भयानक नेत्रोंवाले दैत्यको देखकर
 गोप और गोपोंगवाएँ भयभीत होकर 'कृष्ण, कृष्ण' पुकारने
 लगीं ॥ ७ ॥ उनका शब्द सुनकर श्रीकेशवने घोर सिंहनाद
 किया और ताडी बजायी। उसे सुनते ही वह श्रीदामोदरकी
 ओर फिरा ॥ ८ ॥ दुष्टात्मा वृषभासुर आगेको सींग करके
 तथा कृष्णचन्द्रकी कुक्षिमें दृष्टि लगाकर उनकी ओर
 दौड़ा ॥ ९ ॥ किन्तु महाबली कृष्ण वृषभासुरको अपनी
 ओर आता देख अवहेलनामें लीलापूर्वक मुसकराते हुए
 उस स्थानसे विचलित न हुए ॥ १० ॥ निकट आयेपर
 श्रीमधुसूदनने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे प्राद किली
 क्षुद्र जीवको पकड़ लेता है; तथा सींग पकड़नेसे अचल
 हुए उस दैत्यको कोखमें घुटनेसे प्रहार किया ॥ ११ ॥

इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्यका र्ध
 भंगकर भगवान्ने अरिष्टासुरकी गीवाको गोले यस्तके
 समान परोड़ दिया ॥ १२ ॥ तदनन्तर उसका एक सींग
 उखाड़कर उसीसे उसपर आघात किया, जिससे वह
 महादैत्य मुखसे रक्त वमन करता हुआ पर गयी ॥ १३ ॥
 जम्भके मरनेपर जैसे देवताओंने इन्द्रकी स्तुति की थी
 उसी प्रकार अरिष्टासुरके मरनेपर गोपगण श्रीवत्सार्दनकी
 प्रशंसा करने लगे ॥ १४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे सितुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पन्द्रहवाँ अध्याय

कंसका श्रीकृष्णको बुलानेके लिये अक्रूरको भेषना

श्रीपराशर उवाच

कंकुचति हनेऽरिष्टे धेनुके धिनिपातिते ।
प्रलम्बे निघनं नीते धृते गोसर्धनाचले ॥ १

दमिते कालिये नागे भग्ने तुङ्गद्वमद्भये ।
हतायां पूतनायां च शकटे परिसर्तिते ॥ २

कंसाय नारदः प्राह यथाधृत्तमनुक्रमान् ।
यशोदादेवकीगर्भपरिवृत्त्याहशेषतः ॥ ३

श्रुत्वा तत्सकलं कंसो नारदादेवदर्शनात् ।
वसुदेवं प्रति तदा कोपं चक्रे सुदुर्मतिः ॥ ४

सोऽतिक्रोपादुपासभ्य सर्वयादवसंसदि ।
जगहं यादवांश्चैव कार्यं चैतदचिन्तयत् ॥ ५

यावन्न अस्मारुढौ रामकृष्णौ सुखालकौ ।
तावदेव मया बध्यावसाध्यौ रुढयौवनौ ॥ ६

चाणूरोऽत्र महावीर्यो मुष्टिकश्च महाबलः ।
एताभ्यां मल्लमुद्देन मारयिष्यामि दुर्मती ॥ ७

धनुर्महमह्ययोगव्यजेनानीय ती व्रजात् ।
तथा तथा यतिष्यामि यास्येते सहस्रक्षयं यथा ॥ ८

श्वफल्कतनयं शूरमकूरं यदुपुह्ववम् ।
तयोरानयनार्थाय प्रेषयिष्यामि गोकुलम् ॥ ९

सुन्दावनचरं धोरमादेश्यामि च केशिनम् ।
तत्रैवासावतिबलस्तावुभौ घातयिष्यति ॥ १०

गजः कुवलयपीडो मत्सकाशमिहागती ।
घातयिष्यति वा गोपीं वसुदेवसुतावुभौ ॥ ११

श्रीपराशर उवाच

इत्यालोच्य स दुष्टात्मा कंसो रामजनादनी ।
हन्तुं कृतमतिवीरावकूरं साक्यमब्रवीत् ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—वृषभरूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलम्ब आदिका यध, गौवर्धनपर्यंतका धारण करना, कालियनागका दमन, दो विशाल वृक्षोंका उखाड़ना, पूतनायघ तथा शकटका उलट देना आदि अनेक लीलाएँ हो जानेपर एक दिन नारदजीने कंसको, यशोदा और देवकीके गर्भ-परिवर्तनेसे लेकर जैसा-जैसा हुआ था, वह सब वृत्तान्त क्रमशः सुना दिया ॥ १—३ ॥

देवदर्शन नारदजीसे ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंसने वसुदेवजीके प्रति अत्यन्त क्रोध प्रकट किया ॥ ४ ॥ उसने अत्यन्त कोपसे वसुदेवजीको सम्पूर्ण यादवाँको समामें डींटा तथा समस्त यादवाँकी भी निन्दा की और यह कार्य विचारने लगा—'ये अत्यन्त बालक राम और कृष्ण जबतक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभीतक मुझे उन्हें मार देना चाहिये; क्योंकि युवावस्था प्राप्त होनेपर तो ये अजेय हो जायेंगे ॥ ५-६ ॥ मेरे यहाँ महाधीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक-जैसे मरल हैं। मैं इनके साथ मल्लयुद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियोंको मरवा डालूंगा ॥ ७ ॥ उन्हें महान् धनुर्बलके बिससे बखसे बुलाकर ऐसे-ऐसे उपाय करूँगा, जिससे वे नष्ट हो जायें ॥ ८ ॥ उन्हें लानेके लिये मैं श्वफल्कके पुत्र यादवश्रेष्ठ शूरवीर अक्रूरको गोकुल भेजूँगा ॥ ९ ॥ साथ ही वृन्दावनमें विचरनेवाले घोर असुर केशीको भी आज्ञा दूँगा, जिससे वह महान्बली दैत्य उन्हें यहाँ नष्ट कर देगा ॥ १० ॥ अथवा [यदि किसी प्रकार बचकर] वे दोनों वसुदेवपुत्र गोप घेरे पास आ भी गये तो उन्हें मेरा कुवलयपीड हाथी मार डालेगा ॥ ११ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा कंसने वीरवर राम और कृष्णको मारनेका निश्चय कर अक्रूरजीसे कहा ॥ १२ ॥

कंस उवाच

भो भो दानपते वाक्यं कियतां प्रीतये मम ।
 इतः स्यन्दनमारुह्य गम्यतां नन्दगोकुलम् ॥ १३ ॥
 वसुदेवसुतौ तत्र विष्णोरंशसमुद्भवी ।
 नाशाय किल सम्भूतौ मम दुष्टौ प्रवर्द्धतः ॥ १४ ॥
 धनुर्महो ममाप्यत्र चतुर्दश्यां भविष्यति ।
 आनेयी भवता गत्वा मल्लयुद्धाय तत्र तौ ॥ १५ ॥
 चाणूरमुष्टिकौ मल्लौ नियुद्धकुशलौ मम ।
 ताभ्यां सहानयोर्दुष्टं सर्वलोकोऽग्र पश्यतु ॥ १६ ॥
 गजः कुशलवापीष्टो महामात्रप्रद्योदितः ।
 स वा हनिष्यते पापी वसुदेवात्मजौ शिशू ॥ १७ ॥
 तौ हत्वा वसुदेवं च नन्दगोपं च दुर्मतिम् ।
 हनिष्ये पितरं सैनमुग्रसेनं सुदुर्मतिम् ॥ १८ ॥
 तनस्समस्तगोपानां गोभनान्दरिद्रलान्दहम् ।
 वित्तं चापहरिष्यामि दुष्टानां महभैषिणाम् ॥ १९ ॥
 त्वाभृते यादवाश्चैते द्विषो दानपते मम ।
 एतेषां च वधायाहं यतिष्येऽनुक्रमान्ततः ॥ २० ॥
 तदा निष्कण्टकं सर्वं राज्यमेतत्त्यादयम् ।
 प्रसाधिष्ये त्वया तस्मान्मत्प्रीत्यै खीर गम्यताम् ॥ २१ ॥
 यथा च माहिषं सर्पिर्दधि चाप्युपहार्यं वै ।
 गोपास्समान्यन्त्वाशु तथा साच्यप्रस्त्वया च ते ॥ २२ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्याज्ञप्तस्तदाकूरो महाभागवतो द्विज ।
 प्रीतिम्यनभवाकृष्णं श्वो द्रक्ष्यामीति सत्वरः ॥ २३ ॥
 तथेत्युक्त्वा च राजानं रथमारुह्य शोभनम् ।
 निश्चक्राम ततः पुर्यां मधुरावा मधुप्रियः ॥ २४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चदशोऽंशे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

कंस बोला—हे दानपते! मेरी प्रसन्नताके लिये आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिये। यहाँसे रथपर चढ़कर आप नन्दके गोकुलाको आइये ॥ १३ ॥ वहाँ वसुदेवके जिनपुत्रोंसे उत्पन्न दो पुत्र हैं। मेरे नाशके लिये उत्पन्न हुए वे दुष्ट आत्मिक वर्तन पाँषव हो रहे हैं ॥ १४ ॥ मेरे यहाँ चतुर्दशको भुजुधत होनेवाला है; अतः आप यहाँ जाकर उन्हें मल्लयुद्धके लिये ले आइये ॥ १५ ॥ मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युग्म-युद्धमें अति कुशल हैं, [उर। भुजुधतके दिन] उन दोनोंके साथ मेरे इन पहलवानोंका द्वन्द्वयुद्ध यहाँ एक लोप देखें ॥ १६ ॥ अथवा महावतसे प्रेरित हुआ कुशलवापीष्ट नामक गजराज उन दोनों हुए वसुदेव-पुत्र आत्मकोंको नष्ट कर देगा ॥ १७ ॥ इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, नन्दगोप और इस अपने मन्दमति पिता उग्रसेनको भी मार दगाऊँगा ॥ १८ ॥ तदनन्तर, मेरे वधको इच्छावाले इन समस्त दुष्ट गोपोंके सम्पूर्ण गोधन तथा धनको मैं खीन लूँगा ॥ १९ ॥ हे दानपते! आपके अतिरिक्त वे सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभीको नष्ट करनेका प्रयत्न करूँगा ॥ २० ॥ फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्यको निर्विक्रान्तार्थक भोगूँगा, अतः हे वीर! मेरी प्रसन्नताके लिये आप शीघ्र ही आइये ॥ २१ ॥ आप गोकुलमें पहुँचकर गोपगणोंसे इस प्रकार कहें जिससे वे माहिष (बैसके) घृत और दधि धारि उपहारोंके सहित शीघ्र ही यहाँ आ जायें ॥ २२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज! कंससे ऐसी आज्ञा पा महाभागवत अहुरवी 'कल मैं शीघ्र ही श्रीकृष्णचन्द्रको देखूँगा'—यह सोचकर अति प्रसन्न हुए ॥ २३ ॥ माधव-प्रिय अहुरवी राजा कंससे 'जो आज्ञा' कह एक अति सुन्दर रथपर चढ़े और मधुरापुरीसे बाहर निकल आये ॥ २४ ॥

सोलहवाँ अध्याय

केशि-वध

श्रीपराशर उवाच

केशी चापि बलोदग्रः कंसदूतप्रचोदितः ।
 कृष्णस्य निधनाकाङ्क्षी वृन्दावनमुपागमत् ॥ १ ॥
 स खुरक्षतभूपुष्टस्सटाक्षेपधुताम्बुदः ।
 द्रुतविक्रान्तचन्द्रार्कभागो गोपानुपाद्रवत् ॥ २ ॥
 तस्य हेफितशब्देन गोपाला दैत्यवाजिनः ।
 गोप्यश्च भयसंविग्ना गोविन्दं शरणं ययुः ॥ ३ ॥
 ग्राहि ग्राहीति गोविन्दः श्रुत्वा तेषां ततो वचः ।
 सतोयजलदध्वानगम्भीरपिदमुक्तवान् ॥ ४ ॥
 अलं त्रासेन गोपालाः केशिनः किं भयातुरैः ।
 भवद्विगीपजातीर्यैर्वारवीर्यं विलोप्यते ॥ ५ ॥
 किमनेनास्पसारेण हेयिताटोपकारिणा ।
 दैतेयबलवाह्येन वल्गता दुष्टवाजिनः ॥ ६ ॥
 एहोहि दुष्ट कृष्णोऽहं पुष्पास्तिवष पिनाकभुक् ।
 पातयिष्यामि दशानान्वदनादखिलांस्तव ॥ ७ ॥
 इत्युक्त्वाम्भोदय गोविन्दः केशिनस्सम्मुखं ययौ ।
 विवृतास्यश्च सोऽप्येन दैतेयाश्च उपाद्रवत् ॥ ८ ॥
 बाहुभाभोगिनं कृत्वा मुखे तस्य जनार्दनः ।
 प्रवेशयामास तदा केशिनो दुष्टवाजिनः ॥ ९ ॥
 केशिनो वदने तेन विशता कृष्णबाहुना ।
 शान्तिता दशनाः पेतुः सिताभाययथा इव ॥ १० ॥
 कृष्णस्य चवृधे बाहुः केशिदेहगतो द्विज ।
 विनाशाय यथा व्याधिरासम्भूतेरुपेक्षितः ॥ ११ ॥
 विपाटितोष्टो बहुलं सफेनं रुधिरं यमन् ।
 सोऽक्षिणी विवृते छत्रे विशिष्टे मुक्तबन्धने ॥ १२ ॥
 जघान क्षरणीं पादैश्शकन्मूर्धं समुत्सृजन् ।
 स्वैद्यार्द्रगात्रशान्तश्च निर्वलस्तोऽभवत्तदा ॥ १३ ॥

श्रीपराशरजी बोले— हे मंत्रिय ! इधर कंसके दूतद्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचन्द्रके वधकी इच्छासे [घोड़ेका रूप धारण कर] वृन्दावनमें आया ॥ १ ॥ वह अपने खुरोंसे पृथिवीतलकी खोदता, ग्रीवाके बालोंसे बादलोंको छिन-भिन्न करता तथा वेगसे चन्द्रमा और सूर्यके मार्गको भी पार करता गोपोंकी ओर दौड़ा ॥ २ ॥ उस अरथरूप दैत्यके हिनहिनानेके शब्दसे भयभीत होकर सम्पन्न गोप और गोपियाँ श्रीगोविन्दको शरणमें आये ॥ ३ ॥ तब उनके ग्राहि-ग्राहि शब्दको सुनकर भगवान् कृष्णचन्द्र सबल भेषकी गर्जनाके समान गम्भीर वाणीसे बोले— ॥ ४ ॥ 'हे गोपालगण ! आपलोग केशी (केशधारी अश्व)-से न डरें, आप तो गोप-जातिके हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने यौरोक्षित पुरुषार्थका लोप क्यों करते हैं ? ॥ ५ ॥ यह अल्पवीर्य, हिनहिनानेसे आतंक फैलानेवाला और नाचनेवाला दुष्ट अश्व जिसपर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आपलोगोंका क्या विगाड़ सकता है ?' ॥ ६ ॥

[इस प्रकार गोपोंकी वैर्य बँधाकर वे केशीसे कहने लगे—] "अरे दुष्ट ! इधर आ, पिनाकधारी वीरभद्रने जिस प्रकार भूषाके दाँत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुखसे सारे दाँत गिरा दूँगा" ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर श्रीगोविन्द उल्लासकर केशीके सामने आये और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुँह खोलकर उनकी ओर दौड़ा ॥ ८ ॥ तब जनार्दनने अपनी बाँह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्यके मुखमें डाल दी ॥ ९ ॥ केशीके मुखमें घुसी हुई भगवान् कृष्णकी बाहुसे टकराकर उसके सम्पन्न दाँत शूद्र पेषलखण्डोंके समान टूटकर बाहर गिर पड़े ॥ १० ॥

हे द्विज ! उत्पत्तिके समयसे ही उपेक्षा की गयी व्याधि जिस प्रकार नास करनेके लिये बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशीके देखने प्रविष्ट हुई कृष्णचन्द्रकी भूजा बढ़ने लगी ॥ ११ ॥ अन्तमें ओष्ठोंके फट जानेसे वह फेनसहित रुधिर जमान करने लगा और उसकी आँखें स्नायुबन्धनके ढीले हो जानेसे फूट गयीं ॥ १२ ॥ तब वह मल-मूत्र छोड़ता हुआ पृथिवीपर पौर पटकने लगा, उसका शरीर पसीनेसे भरकर उण्डा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया ॥ १३ ॥

ध्यादितास्यमहारन्ध्रस्मोऽसुरः कृष्णाब्धाहुना ।
 निपातितो द्विधा भूमौ वैद्युतेन यथा द्रुपः ॥ १४
 द्विपादे पृष्ठपुच्छार्द्धे श्रवणैकाक्षिनासिके ।
 केशिनस्ते द्विधाभूते शकले द्वे विरेजतुः ॥ १५
 इत्वा तु केशिनं कृष्णो गोपालैर्मुदितैर्जितः ।
 अनाद्यस्ततनुस्वस्थो हसंस्तत्रैव तस्थिवान् ॥ १६
 ततो गोप्यश्च गोपाश्च ह्ये केशिनि विस्मिताः ।
 तुष्टुसुः पुण्डरीकाक्षमनुरागमनोरमम् ॥ १७
 अथाहान्तर्हितो विप्र नारदो जलदे स्थितः ।
 केशिनं निहतं दृष्ट्वा हर्षनिर्भरमानसः ॥ १८
 साधु साधु जयन्ताथ लीलयैव यदप्युतः ।
 निहतोऽयं त्वया केशी क्लेशदम्बिदिवीकन्साम् ॥ १९
 युद्धोत्सुकोऽहमत्यर्थं नरवाजिमहाहवम् ।
 अभूतपूर्वमन्यत्र इष्टुं स्वर्गादिहागतः ॥ २०
 कर्माण्यन्नावतारे ते कृतानि मधुसूदनः ।
 यानि तैर्विस्मितं चेतस्तोषमेतेन मे गतम् ॥ २१
 तुङ्गस्थस्य शत्रोऽपि कृष्ण देवाश्च विभ्यति ।
 धृतकेसरजालस्य द्वेषतोऽध्राघलोकिनः ॥ २२
 यस्मात्त्वयैष दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दन ।
 तस्मात्केशवनाम्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि ॥ २३
 स्वस्त्यस्तु ते गमिष्यामि कंसयुद्धेऽधुना पुनः ।
 परश्वोऽहं समेष्यामि त्वया केशिनिषूदन ॥ २४
 उग्रसेनसुते कंसे सानुगे सिनिपातिते ।
 भारवतारकर्ता त्वं पृथिव्याः पृथिवीधर ॥ २५
 तत्रानेकप्रकाराणि युद्धानि पृथिवीक्षिताम् ।
 द्रष्टव्यानि मयाद्युष्यत्प्रणीतानि जनार्दन ॥ २६
 सोऽहं यास्यामि गोविन्द देवकार्यं महकृतम् ।
 त्वयैव विदितं सर्वं स्वस्ति तेऽस्तु त्रजाम्यहम् ॥ २७
 नारदे तु गते कृष्णस्सह गोपैस्सभाजितः ।
 विवेका गोकुलं गोपीनेत्रपानैकभाजनम् ॥ २८

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रकी भुजासे जिसके मुखकर विशाल
 रख फैलाया गया है वह महान् असुर भरकर वज्रपासे
 गिरे हुए शूभके समान दो खण्ड होकर पृथिवीपर गिर
 पड़ा ॥ १४ ॥ केशीके शरीरके दो दोनों खण्ड दो पाँच,
 आधी पीठ, आधी मूँछ तथा एक-एक कान-आँख और
 नासिकारन्ध्रके सहित सुशोभित हुए ॥ १५ ॥

३४ प्रकार केशीको मारकर प्रसन्नचित्त ग्यहलक्ष्मण
 गिरे हुए श्रीकृष्णचन्द्र विना श्रमके स्वस्थचित्तसे
 हँसते हुए वहाँ खड़े रहे ॥ १६ ॥ केशीके मारे जानेसे
 विस्मित हुए गोप और गोपियोंने अनुरागपरा अत्यन्त
 मनोहर लगनेवाले कमलनयन श्रीश्यामसुन्दरकी स्तुति
 की ॥ १७ ॥

हे निप्र! उसे मरा देख मेघपटलमें छिपे हुए
 श्रीनारदजी हर्षितचित्तसे कहने लगे— ॥ १८ ॥ "हे जगन्नाथ!
 हे अच्युत!! आप धन्य हैं, धन्य हैं। अह! आपने देवताओंको
 दुःख देनेवाले इस केशीके लीलासे ही मार डाला ॥ १९ ॥
 मैं मनुष्य और अश्वके इस पहले और कहीं न होनेवाले
 युद्धको देखनेके लिये ही अत्यन्त उत्कण्ठित होकर स्वर्गसे
 यहाँ आया था ॥ २० ॥ हे मधुसूदन! आपने अपने इस
 अवतारमें जो-जो कर्म किये हैं उनसे मेरा दिव्य आपन
 विस्मित और सन्तुष्ट हो रहा है ॥ २१ ॥ हे कृष्ण! जिस
 समय यह अश्व अपनी सटाओंको हिलाता और हींसता
 हुआ आकाशकी ओर देखता था तो इससे सम्पूर्ण देवगण
 और इन्द्र भी डर जाते थे ॥ २२ ॥ हे जनार्दन! आपने इस
 दुष्टतमा केशीको मारा है; इसलिये आप लोकमें 'केशाव'
 नामसे विख्यात होंगे ॥ २३ ॥ हे केशिनिषूदन! आपका कल्याण
 ही, अब मैं जाता हूँ। परसें कंसके साथ आपका युद्ध
 होनेके समय मैं फिर आऊँगा ॥ २४ ॥ हे पृथिवीधर!
 अनुगामियों सहित उग्रसेनके पुत्र कंसके मारे जानेपर आप
 पृथिवीका भार उतार देंगे ॥ २५ ॥ हे जनार्दन! उस समय
 मैं अनेक राजाओंके साथ आप आयुष्मान् पुरुषके किने
 हुए अनेक प्रकारके युद्ध देखूँगा ॥ २६ ॥ हे गोविन्द! अब
 मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओंका बहुत बड़ा कार्य
 किया है। आप सभी कुछ जानते हैं [मैं अधिक क्या
 कहूँ?] आपका पींगल ही, मैं जाता हूँ" ॥ २७ ॥

तदनन्तर नारदजीके घले जानेपर गोपगणसे सम्मानित
 गोपियोंके नेत्रोंके एकपात्र दृश्य श्रीकृष्णचन्द्रने ग्यहलक्ष्मणकी
 साथ गोकुलमें प्रवेश किया ॥ २८ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशो षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सत्रहवीं अध्याय

अकूरजीकी गोकुलयात्रा

श्रीपराशर उवाच

अकूरोऽपि विनिष्कम्य स्यन्दनेनाशुगामिना ।
 कृष्णसंदर्शनाकाङ्क्षी प्रययौ नन्दगोकुलम् ॥ १
 चिन्तयामास चाकूरो नास्ति धन्यतरो मया ।
 योऽहमंशावतीर्णस्य मुखं द्रक्ष्यामि सक्तिजः ॥ २
 अद्य मे सफलं जन्म सुप्रभाताभवन्निशा ।
 यदुन्निद्राभपत्राक्षं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम् ॥ ३
 पापं हरति बत्पुंसां स्मृतं सङ्कल्पनामद्यम् ।
 तत्पुण्डरीकनयनं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम् ॥ ४
 विनिर्जग्मुर्यतो वेदा वेदाङ्गान्यखिलानि च ।
 द्रक्ष्यामि तत्परं धाम धाम्नां भगवतो मुखम् ॥ ५
 यज्ञेषु यज्ञपुरुषः पुरुषैः पुरुषोत्तमः ।
 इच्छते योऽखिलाधारस्तं द्रक्ष्यामि जगत्पतिम् ॥ ६
 इष्ट्या यमिन्द्रो यज्ञानां शतेनामरराजताम् ।
 अवाप तमनन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम् ॥ ७
 न ब्रह्मा नेन्द्ररुद्राश्विब्रह्मस्वादित्यमरुद्गणाः ।
 यस्य स्वरूपं जानन्ति प्रत्वक्षं याति मे हरिः ॥ ८
 सर्वात्पा सर्ववित्सर्वस्सर्वभूतेष्ववस्थितः ।
 यो ह्यचिन्त्योऽव्ययो ध्यायी स यक्षयति मया सह ॥ ९
 यत्त्यक्मूर्ध्वराहाश्वसिंहरूपादिभिः स्थितिम् ।
 अकार जगतो योऽजः सोऽद्य मां प्रलपिष्यति ॥ १०
 सायप्रतं च जगत्त्वामी कर्ष्यमात्महृदि स्थितम् ।
 कर्तुं मनुष्यतां प्राप्तस्त्वेच्छादेहधृगव्ययः ॥ ११
 योऽनन्तः पृथिवीं धत्ते श्रेष्ठरस्थितिसंस्थिताम् ।
 सोऽवतीर्णो जगत्पश्ये मामकूरेति वक्ष्यति ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—अकूरजी भी तुरंत ही भृशुगपुरीसे निकलकर श्रीकृष्ण-दर्शनकी लालसासे एक शीघ्रगामी रथद्वारा नन्दजीके गोकुलको चले ॥ १ ॥ अकूरजी सोचने लगे 'आज मुझ-बैसा बड़भागी और कोई नहीं है; क्योंकि अपने अंशसे अवतीर्ण चक्रधारी श्रीविष्णुभगवान्का मुख मैं अपने नेत्रोंसे देखूँगा ॥ २ ॥ आज मेरा जन्म सफल हो गया; आजकी रात्रि [अवश्य] सुन्दर प्रभातवाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमलके समान नेत्रवाले श्रीविष्णुभगवान्के मुखका दर्शन करूँगा ॥ ३ ॥ प्रभुका जो सकलव्यय मुखारविन्द स्मरणमात्रसे पुरुषोंके पापोंको धूर कर देता है, आज मैं विष्णुभगवान्के उसी कमलनयन मुखको देखूँगा ॥ ४ ॥ जिससे सम्पूर्ण वेद और वेदोंकी उत्पत्ति हुई है, आज मैं सम्पूर्ण तेजस्वियोंके परम आश्रय उसी भगवत्-मुखाखिन्दका दर्शन करूँगा ॥ ५ ॥ सपस्त पुरुषोंके द्वारा यज्ञोंमें जिन अखिल विश्वके आघारभूत पुरुषोत्तमका यहपुरुषरूपसे यजन (पूजन) किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगत्पतिका दर्शन करूँगा ॥ ६ ॥ जिनका सी यज्ञोंसे यजन करके इन्द्रने देवराज-पदवी प्राप्त की है, आज मैं उन्हीं अनादि और अनन्त केशवका दर्शन करूँगा ॥ ७ ॥ जिनके स्वरूपको ब्रह्म, इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, वसुधा, आदित्य और मरुद्गण आदि कोई भी नहीं जानते आज वे ही हरि मेरे नेत्रोंके विषय होंगे ॥ ८ ॥ जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतोंमें अवस्थित है तय जो अचिन्त्य, अव्यय और सर्वव्यापक है, अहो! आज स्वयं मे ही मेरे साथ भातें करेंगे ॥ ९ ॥ जिन अजन्माने पशु, कूर्म, यवह, ह्यशीम और नृसिंह आदि रूप धारणकर जगत्की रक्षा की है, आज ये ही मुझसे बार्तालाप करेंगे ॥ १० ॥

'हस समय उन अव्ययमात्मा जगत्प्रभुने अपने मनमें सोचा हुआ कर्ष्य करनेके लिये अपनी ही इच्छासे मनुष्य-देह धारण किया है ॥ ११ ॥ जो अनन्त (शेषही) अपने मस्तकपर रखी हुई पृथिवीको धारण करते हैं, संसारके हितके लिये अवतीर्ण हुए ये ही आज मुझसे 'अकूर' कहकर बोलेंगे ॥ १२ ॥

पितृपुत्रसुहृद्भातृमातृबन्धुमयीमिमाम् ।
 यन्मायां चालमुत्तर्तुं जगत्तस्मै नमो नमः ॥ १३
 तरत्थविद्यां विततां हृदि यस्मिन्निवेशिते ।
 योगमायाममेवाय तस्मै सिद्धात्मने नमः ॥ १४
 यन्वभिर्वज्रपुरुषो वासुदेवश्च सात्वतैः ।
 वेदान्तवेदिभिर्विष्णुः प्रोच्यते यो नतोऽस्मि तम् ॥ १५
 यथा यत्र जगद्भामिन् भातयैतत्प्रतिष्ठितम् ।
 सदसत्तेन सत्त्वेन भव्यसौ यातु सौम्यताम् ॥ १६
 स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते ।
 पुरुषस्तमजं भित्तं प्रजामि शरणं हरिम् ॥ १७

श्रीपराशर उवाच

इत्थं सञ्चिन्तयन्विष्णुं भक्तिनप्राप्तमानसः ।
 अकृतो गोकुलं प्राप्तः किञ्चित्सुर्यै किराजति ॥ १८
 स ददर्श तदा कृष्णामादाबादोहने गवाम् ।
 वत्समध्यगतं फुल्लनीलोत्पलदलच्छविम् ॥ १९
 प्रफुल्लपद्मपत्राक्षं शीघ्रत्साङ्कितवक्षसम् ।
 प्रलम्बबाहुमायामतुहोरः स्थलमुन्नसम् ॥ २०
 सविलासस्मिताधारे विभ्राणं मुखपङ्कजम् ।
 तुङ्गरक्तनखं पद्भ्यां धरण्यां सुप्रतिष्ठितम् ॥ २१
 विभ्राणं याससी पीते वन्यपुष्पविभूषितम् ।
 सेन्दुनीलाचलाभं तं सिताम्भोजावतंसकम् ॥ २२
 इंसकुन्देन्दुधवलं नीलाम्बरधरं द्विज ।
 तस्यां नु बलभद्रं च ददर्श यदुनन्दनम् ॥ २३
 प्राशुमुत्कृष्टाङ्गसं विकसिमुखपङ्कजम् ।
 मेघमालापरिवृतं कैलासाद्रिमिवापरम् ॥ २४
 तौ दृष्ट्वा विकसद्भवसरोजः स महामतिः ।
 पुलकाञ्चितसर्वाङ्गस्तदाङ्कुरोऽभवन्मुने ॥ २५
 तदैसत्परमं धाम तदैसत्परमं पदम् ।
 भगवद्भामुदेकांशो द्विधा योऽयं व्यवस्थितः ॥ २६
 साफल्यमक्षयोर्द्युगमेतदत्र

दृष्टे जगद्भातारि यातमुच्छ्रैः ।

'जिनको इस पिता, पुत्र, सुहृद्, भात, यशो और बन्धुरूपिणो मायाको पार करनेमें संसार सर्वथा असमर्थ है, उन मायापतिके सात्त्विक नमस्कार है॥ १३॥ जिनमें हृदयको लगा देनेसे पुरुष इस योगमायाके विस्तृत अविद्याको पार कर जाता है, उन विद्यास्वरूप श्रीहरिके नमस्कार है॥ १४॥ जिन्हें यत्किन्तुलोग 'यज्ञपुत्र', सात्वत (यादव अथवा भगवद्भक्त)-गण 'वासुदेव' और वेदान्तवेत्ता 'विष्णु' कहते हैं उन्हें धारम्बार नमस्कार है॥ १५॥ जिस (सत्य)-से यह सदसद्गुण जगत् उस जगदाधार विधातामें ही स्थित है उस सत्यबलसे ही ये प्रभु पुष्पपर प्रसन्न हो॥ १६॥ जिनके स्मरणमात्रसे पुरुष सर्वथा कल्याणप्राप्त हो जाता है, ये सर्वदा उन अजन्मा हरिकी रूपमें प्राप्त होता है॥ १७॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मनेय ! भक्तिचिन्तित अकूरजो इस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्को चिन्तन करते कुछ-कुछ सूर्य रहते ही गोकुलमें पहुँच गये॥ १८॥ वहाँ पहुँचनेपर पहले उन्होंने बिले हुए नीलकमलकी-सी भक्तिवाले श्रीकृष्णचन्द्रको गौओंके दोहनस्थानमें बछड़ोंके बीच विराजमान देखा॥ १९॥ जिनके नेत्र बिले हुए कमलके समान थे, वक्षःस्थलमें शीघ्र-चिह्न सुशोभित था, भुजायें लम्बी-लम्बी थीं, दक्षःस्थल विशाल और ऊँचा था तथा नासिका उन्नत थी॥ २०॥ जो सविलास हास्यभक्त मनोहर मुखारविन्दसे सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्तनखयुक्त चरणोंसे पृथिवीपर विराजमान थे॥ २१॥ जो दो पीताम्बर धारण किये थे, वन्यपुष्पोंसे विभूषित थे तथा चिन्ता श्लेते कमलके आभूषणोंसे युक्त स्थाम शरीर सचन्द्र नीलाचलके समान सुशोभित था॥ २२॥

हे द्विज ! श्रीवज्रचन्द्रके पीछे उन्होंने देस, कुन्द और चन्द्रमाके समान गौरवर्ण नीलाम्बरधारी यदुनन्दन श्रीबलभद्रजीको देखा॥ २३॥ विशाल भुजदण्ड, उन्नत स्कन्ध और विकसित मुखारविन्द श्रीबलभद्रजी मेघमालासे घिरे हुए दूसरे कैलासपर्वतके समान उच्च पड़ते थे॥ २४॥

हे मुने ! उन दोनों बालकोंको देखकर महामति अकूरजोका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांगमें पुलकावली छा गयी॥ २५॥ [और ये पत्र-ही-पत्र कहने लगे—] इन दो रूपोंमें जो यह भगवान् वास्तुदेवका अंश स्थित है वही परमधाम है और वही परमपद है॥ २६॥ इन जगद्दिभाताके दर्शन पाकर आज मैंने नेत्रयुगल तो सफल हो गये; किंतु क्या क्षम

अप्यङ्गमेतद्भगवत्प्रसादा-

नदङ्गसङ्गे फलयन्मम स्यात् ॥ २७

अप्येष पृष्ठे मम हस्तपश्चं

करिष्यति श्रीमदनन्तमूर्तिः ।

यस्याङ्गुलिस्पर्शहताखिलार्थै-

रवाप्यते सिद्धिरपास्तदोषा ॥ २८

येनाग्निविद्युद्भिरश्मिमाला-

करालमत्युग्रमपेतचक्रम् ।

षट्कं घृता दैत्यघतेर्हृतानि

दैत्याङ्गनानां नयनाङ्जनानि ॥ २९

यत्राम्बु विन्ध्यस्य बलिर्मनोज्ञा-

नवाप भोगान्वसुधातलस्थः ।

तथाभरत्वं त्रिदशाधिपत्वं

मन्वन्तरं पूर्णमपेतशत्रुम् ॥ ३०

अप्येष मां कंसपरिग्रहेण

दोषास्पदीभूतमदोषदुष्टम् ।

कर्ताचमानोपहतं शिगस्तु

तज्जन्म यत्साधुबहिष्कृतस्य ॥ ३१

ज्ञानात्मकस्यामलसम्भराणे-

रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य ।

किं वा जगत्पत्रं समस्तपुंसा-

मज्ञातमस्यास्ति हृदि स्थितस्य ॥ ३२

तस्मादहं भक्तिविनम्रचेता

ब्रजामि सर्वेश्वरमीश्वराणाम् ।

अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य

ह्यनादिमध्यान्तमजस्य शिष्योः ॥ ३३

भगवत्कृपासे इन्का अंगसंग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा? ॥ २७ ॥ जिनकी अंगुलीके स्पर्शपात्रसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हुए पुरुष निर्दोषसिद्धि (कैवल्ययोक्ष) प्राप्त कर लेते हैं क्या वे अनन्तमूर्ति श्रीमान् हरि मेरी पीठपर अपना करकमल रखेंगे? ॥ २८ ॥

जिन्होंने अग्नि, विद्युत् और सूर्यकी किरणमालाके समान अपने उग्र चक्रका प्रहार कर दैत्यपतिकी सेनाको नष्ट करते हुए असुर-सुन्दरियोंकी आँखोंके अंजन घो डाले थे ॥ २९ ॥ जिनको एक जलबिन्दु प्रदान करनेसे राजा बलिन पृथिवीतलमें अति मनोज्ञ भोग और एक मन्वन्तरतक देवत्वलाभपूर्वक शत्रुविहीन इन्द्रपद प्राप्त किया था ॥ ३० ॥

वे ही विष्णुभगवान् पुत्र निर्दोषको भी कंसके संसारसे दोषों उहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधुजनबहिष्कृत पुरुषके जन्मको भिक्कार है ॥ ३१ ॥ अथवा संसारमें ऐसी कौन पस्तु है जो उन ज्ञानस्वरूप, सुद्धसत्त्वराशि, दोषहीन, नित्य-प्रकाश और समस्त भूतोंके हृदयस्थित प्रभुको विदित न हो? ॥ ३२ ॥

अतः मैं उन ईश्वरोंके ईश्वर, आदि, मध्य और अन्तरहित पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुके अंशावतार श्रीकृष्णचन्द्रके पास भक्ति-विनम्रचित्तसे जाऊँ हूँ। [मुझे पूर्ण आशा है, वे मेरी कभी अवज्ञा न करेंगे] ॥ ३३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अठारहवाँ अध्याय

भगवान्का मधुराको प्रस्थान, गोपियोंकी विरह-कथा और अक्रूरजीका मोह

श्रीपराशर उवाच

धिन्त्यन्निति गोविन्दमुपगम्य स यादवः ।
 अक्रूरोऽस्मीति चरणीं ननाम शिरसा हरेः ॥ १ ॥
 सोऽप्येन ध्वजवज्राब्जकृतचित्नेन पाणिना ।
 संस्पृश्याकृष्य च प्रीत्या सुगाहं परिधस्वजे ॥ २ ॥
 कृतसंखन्दनौ तेन यथावद्वलकेशवौ ।
 ततः प्रविष्टौ संदुष्टौ तमादायात्ममन्दिरम् ॥ ३ ॥
 सह ताभ्यां तदाक्रूरः कृतसंखन्दनादिकः ।
 भुक्तभोव्यो यथाश्यायमाचचक्षे तप्तस्तयोः ॥ ४ ॥
 यथा निर्भीतितस्तेन कंसेनानकदुन्दुभिः ।
 यथा च देवकी देवी दामवेन दुरात्मना ॥ ५ ॥
 उपसेने यथा कंसस्य दुरात्मा च वर्तते ।
 यं शैवार्थं समुद्दिश्य कंसेन तु विसर्जितः ॥ ६ ॥
 तत्सर्वं विस्तारच्छ्रुत्वा भगवान्देवकीसुतः ।
 उवाचाखिलमप्येतज्ज्ञातं दानपते मया ॥ ७ ॥
 करिष्ये तन्महाभाग यदश्रीपथिकं मतम् ।
 किञ्चिन्तं नान्वद्यैतत्ते विद्धि कंसं हतं मया ॥ ८ ॥
 अहंरामश्च मधुरो ष्वो यास्वावस्सह त्वया ।
 गोपवृद्धाश्च यास्पन्ति ह्यादायोपायनं बहु ॥ ९ ॥
 निशैर्यं नीचतां धीर न चिन्तां कर्तुमर्हसि ।
 त्रिरात्राभ्यन्तरे कंसं निहनिष्यामि सानुगम् ॥ १० ॥

श्रीपराशर उवाच

समादिश्य ततो गोपानक्रूरोऽपि च केशवः ।
 सुध्याप बलभद्रश्च नन्दगोपगृहे ततः ॥ ११ ॥
 ततः प्रभाते विमले कृष्णारामौ महाद्युती ।
 अक्रूरेण समं गन्तुमुद्यतौ मधुरां पुरीम् ॥ १२ ॥
 वृष्ट्वा गोपीजनस्सास्त्रः श्लथद्वलवबाहुकः ।
 निःशस्त्रासातिदुःखार्त्तः प्राह भेदं परस्परम् ॥ १३ ॥
 मधुरां प्राप्य गोविन्दः कथं गोकुलपेष्यति ।
 नगरस्त्रीकलालापमधु श्रोत्रेण पास्यति ॥ १४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैंनेय! यदुरसी अक्रूरजीने इस प्रकार चिन्तन करते श्रीगोविन्दके पास पहुँचकर उनके चरणोंमें फिर झुकते हुए 'मैं अक्रूर हूँ' ऐसा कहकर प्रणाम किया ॥ १ ॥ भगवान्ने भी अपने ध्वाज-वज्र-पशोक्त करकमलोंसे उन्हें स्पर्शकर और प्रीतिपूर्वक अपनी और खींचकर गाढ़ आसिंगन किया ॥ २ ॥ तदनन्तर अक्रूरजीके यथायोग्य प्रणासादि कर चुकनेपर श्रीनक्षत्रमजी और कृष्णचन्द्र अति आनन्दित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आये ॥ ३ ॥ फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथायोग्य भोजनादि कर चुकनेपर अक्रूरने उनसे थक सम्पूर्ण वृत्तान्त कहना आरम्भ किया जैसे कि दुष्णा दानव कंसने आनकदुन्दुभि जसुदेव और देवी देवकीको डाँटा था तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिछे उपसेनसे दुर्व्यवहार कर रहा है और किसलिये उसने उन्हें (अक्रूरजीको) युन्दखन भेजा है ॥ ४-६ ॥ भगवान् देवकीनन्दनने यह सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनकर कहा—'हे दानपते! ये सब बातें मुझे मालूम हो गयीं ॥ ७ ॥ हे महाभाग! इस विषयमें मुझे जो उपयुक्त बात पड़ेगी शही करूँगा। अब तुम कंसको मेरेद्वारा मरा हुआ समझो, इसमें किसी और तरहका विचार न करो ॥ ८ ॥ भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मधुरा चलेंगे, हमारे साथ ही दूसरे बड़े-बड़े गोप भी बहुत-सा उपहार लेकर जायेंगे ॥ ९ ॥ हे वीर! आप यह शत्रु सुखपूर्वक विताइये, किसी प्रकारकी चिन्ता न कीजिये। तीन रात्रिके भीतर मैं कंसको उसके अनुचरोंसहित अवश्य मार डालूँगा' ॥ १० ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर अक्रूरजी, श्रीकृष्णचन्द्र और बलरामजी सम्पूर्ण गोपीकी कंसकी आज्ञा सुना नन्दगोपके घर खो गये ॥ ११ ॥ दूसरे दिन निर्मल प्रभातकाल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्णको अक्रूरके साथ मधुरा चलनेकी तैयारी करते देख जिनकी भुजाओंके कंकण डोले हो गये हैं वे गोपियाँ नेत्रोंमें आँसू भरकर तथा दुःखार्त्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगीं— ॥ १२-१३ ॥ "अब मधुरापुरी जाकर श्रीकृष्णचन्द्र फिर गोकुलमें क्या आने लगे? क्योंकि कहाँ तो ये अपने कर्तोंसे नगरनारियोंके मधुर आलापरूप मधुका ही पान करेंगे ॥ १४ ॥

विलासवाक्यपानेषु नागरीणां कृतास्पदम् ।
 चित्तपस्य कथं भूयो ग्राम्यगोपीषु यास्यति ॥ १५
 सारं समस्तगोष्ठस्य विधिना हरता हरिम् ।
 प्रहृतं गोपयोधित्सु निर्घृणेन दुरात्मना ॥ १६
 भावगर्भस्मिते वाक्यं विलासललिता गतिः ।
 नागरीणामतीवैतत्कटाक्षेक्षितमेव च ॥ १७
 ग्राम्यो हरिरस्य तासां विलासनिगर्हयुतः ।
 भवतीनां पुनः पार्श्वं कथा युक्त्वा समेष्यति ॥ १८
 एषैव रथमारुह्य मथुरां याति केशवः ।
 कूरेणाकूरकेणात्र निर्घृणेन प्रतारितः ॥ १९
 किं न वेत्ति नृशंसोऽवमनुरागपरं जनम् ।
 येनैवमक्षुण्णोराह्लादं नयत्यन्यत्र चो हरिम् ॥ २०
 एष रामेण सहितः प्रयात्यत्यन्तनिर्घृणः ।
 रथमारुह्य गोविन्दस्वर्यतामस्य चारणे ॥ २१
 गुरुणामग्रतो वक्तुं किं ब्रवीषि न नः क्षमम् ।
 गुरुषः किं करिष्यन्ति दग्धानां विरहाग्निना ॥ २२
 नन्दगोपमुखा गोपा गन्तुमेते समुद्यताः ।
 चोद्यमं कुरुते कश्चिद्गोविन्दविनिवर्तने ॥ २३
 सुप्रभाताद्य रजनी मथुरावाप्तियोधिताम् ।
 पास्यत्यत्युत्कृष्टवक्राब्जं यासां नेत्रालिपदुःखतयः ॥ २४
 धन्यास्ते पथि ये कृष्णामितो यान्त्यनियारिताः ।
 उद्बुद्ध्यन्ति पश्यन्तस्त्वदेहं पुलकाञ्जितम् ॥ २५
 मथुरानगरीपौरनयनानां महोत्सवः ।
 गोविन्दावयवैर्दृष्टैरतीवाद्य भविष्यति ॥ २६
 को नु स्वप्नसभाग्याभिर्बुष्टस्ताभिरधोऽज्ञजम् ।
 विस्तारिकान्तिनयना या द्रष्टव्यन्यनिवारिताः ॥ २७
 अहो गोपीजनस्यास्य दर्शयित्वा महानिधिम् ।
 उत्कृष्टान्यद्य नेत्राणि विधिनाकरुणात्मना ॥ २८
 अनुरागेण शीथिल्यमस्मासु व्रजिते हरी ।
 शीथिल्यमुपयान्थाशु करेषु मलयान्यपि ॥ २९

नगरकी [विदग्ध] चनिताओंके विलासयुक्त
 वचनोंके रसपानमें आसक्त होकर फिर इनका चित्त
 गँवारी गोपियोंकी ओर क्यों जाने लगा ? ॥ १५ ॥ आज
 निर्दयी दुरात्मा विभाताने समस्त प्रकृष्टके सारभूत
 (सर्वस्वस्वरूप) श्रीहरिको हरकर हम गोपनारियोंपर
 घोर आघात किया है ॥ १६ ॥ नगरकी नारियोंमें भावपूर्ण
 मुसकानमयी बोलों, विलासललित गति और कटाक्षपूर्ण
 चित्तजनकी स्वभावसे ही अधिकता होती है। उनके
 विलास-बन्धनोंसे बँधकर यह ग्राम्य हरि फिर किस
 मुक्तिले गुन्हारे [हमारे] पास आवेगा ? ॥ १७-१८ ॥
 देखो, देखो, कूर एवं निर्दयी अकूरके यहकावमें आकर
 ये कृष्णचन्द्र रथपर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं ॥ १९ ॥ यह
 नृशंस अकूर क्या अनुरागजनोंके हृदयका भाव जानक
 भी नहीं जानता ? जो यह इस प्रकार हमारे नयननन्दवर्धन
 नन्दनन्दनको अन्यत्र लिये जाता है ॥ २० ॥ देखो, यह
 अत्यन्त निष्ठुर गोविन्द रामके साथ रथपर चढ़कर जा
 रहे हैं; अरी! इन्हें रोकनेमें शीघ्रता करो ॥ २१ ॥

[इसपर गुरुजनोंके सामने ऐसा करनेमें असमर्थता
 प्रकट करनेवाली किसी गोपीको सख्त करके उसने
 फिर कहा—] “अरी! तू क्या कह रही है कि अपने
 गुरुजनोंके सामने हम ऐसा नहीं कर सकती ?” भला
 अब विरहाग्निसे भस्मीभूत हुई हमलोगोंका गुरुजन क्या
 करेंगे ? ॥ २२ ॥ देखो, यह नन्दगोप आदि गोपगण भी
 उन्हींके साथ जानेकी तैयारी कर रहे हैं। इनमेंसे भी
 कोई गोविन्दको लौटानेका प्रयत्न नहीं करता ॥ २३ ॥
 अज्ञातरी शत्रि मथुरावासिनी स्त्रियोंके लिये सुन्दर प्रभक्तवाली
 हुई है; क्योंकि आज उनके नयन-भुंग शीथल्युत्कृष्टके
 मुखारविन्दका मकरन्द पान करेंगे ॥ २४ ॥ जो लोग
 इधरसे बिना रोक-टोक श्रीकृष्णचन्द्रका अनुगमन कर
 रहे हैं वे धन्य हैं; क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए
 अपने रोमांचयुक्त हृदयका वहन करेंगे ॥ २५ ॥ ‘आज
 श्रीगोविन्दके अंग-प्रत्यंगोंको देखकर मथुरावासियोंके
 नेत्रोंको अत्यन्त महोत्सव होगा ॥ २६ ॥ आज न जाने
 उन भाग्यशालिनीयोंने ऐसा कौन शुभ स्वप्न देखा है जो
 वे कान्तिमय विशाल नयनौचाली (मथुरापुरीकी स्त्रियाँ)
 स्वच्छन्दतापूर्वक श्रीअधोःशुजकी निहारेंगी ? ॥ २७ ॥ अहो !
 निष्ठुर विधत्ताने गोपियोंको महानिधि दिखलाकर आज
 उनके नेत्र निकाल लिये ॥ २८ ॥ देखो ! हमारे प्रवि
 श्रीहरिके अनुरागमें शिथिलता आ जानेसे हमारे हृदयोंके
 कंकण भी तुरंत ही खिले पड़ गये हैं ॥ २९ ॥

अक्रूरः क्रूरहृदयश्शीघ्रं प्रेरयते हयान् ।
एवमार्तासु योचित्सु कृपा कस्य न जायते ॥ ३०
एष कृष्णारधस्योच्चैश्चक्ररेणुर्निरीक्ष्यताम् ।
दूरीभूतो हरिर्येन सोऽपि रेणुर्न लक्ष्यते ॥ ३१

श्रीपराशर उवाच

इत्येवमतिहाहेन गोपीजननिरीक्षितः ।
तत्याज वज्रभूभागं सह रामेण केशवः ॥ ३२
गच्छन्तो जवनाश्वेन रथेन यमुनातटम् ।
प्राप्ता मध्याह्नसमये रामाक्रूरजनादनाः ॥ ३३
अथाह कृष्णमहूरो भवद्भ्यां तावदास्यताम् ।
यावत्करोमि कालिन्दां आह्निकाईणमभ्यसि ॥ ३४

श्रीपराशर उवाच

तथेत्युत्तस्ततस्नातस्स्वाचान्तस्स मह्यमतिः ।
दध्यां ब्रह्म परं विप्रं प्रविष्टो यमुनाजले ॥ ३५
फणासहस्रमासाढ्यं बलभङ्गं ददर्श सः ।
कुन्दमालाङ्गमुनिप्रपन्नप्रत्रायतेक्षणम् ॥ ३६
वृत्तं वासुकिरम्भाद्यैर्महद्भिः पवनाशिभिः ।
संस्तूयमानमुद्गन्धिवनमालाविभूषितम् ॥ ३७
दधानमसिते वस्त्रे चारुरुपावतंसकम् ।
चारुकुण्डलिनं भान्तमन्तर्जलतले स्थितम् ॥ ३८
तस्योत्संगे घनश्याममाताप्रायतलोचनम् ।
चतुर्बाहुमुदारार्द्धं चक्राद्यायुधभूषणम् ॥ ३९
धीते वसानं वसने चित्रमाल्योषशोभितम् ।
शक्रचापतडिन्मालाविचित्रमिव तोषदम् ॥ ४०
श्रीवत्सवक्षसं छात्र स्फुरन्मकरकुण्डलम् ।
ददर्श कृष्णमक्षिलष्टं पुण्डरीकावतंसकम् ॥ ४१
सगन्धानाद्यैर्मुनिभिस्सिद्धयोगैरकल्पसैः ।
सञ्चिन्त्यमानं तत्रस्थैर्नासाग्रन्यस्तलोचनैः ॥ ४२

भला हय-जैसी दु-खिनी अबलाओंपर किसे दया न आवेगी ? परन्तु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रवारे घोड़ोंको हाँक रहा है ॥ ३० ॥ देखो, यह कृष्णचन्द्रके रथको धूलि दिखलायी दे रहा है; किन्तु हा! अब तो श्रीहरि इतनी दूर चले गये कि वह भूलि भी नहीं देखती ॥ ३१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार गोपियोंके अति अनुरागसहित देखते-देखते श्रीकृष्णचन्द्रने शतरामजीके सहित प्रजर्भूपिको त्याग दिया ॥ ३२ ॥ तब वे राम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्ररामो घोड़ोंवाले रथसे चलते-चलते मध्याह्नके समय यमुनातटपर आ गये ॥ ३३ ॥ यहाँ पहुँचनेपर अक्रूरने श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा—'जबतक मैं यमुनाजलमें मध्याह्नकालीन उपासनासे निवृत्त होऊँ तबतक आप दोनों यहीं विराजें' ॥ ३४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे विप्र ! तब भगवान्के 'बहुत अच्छा' कहनेपर महामति अक्रूरजी यमुनाजलमें घुसकर स्नान और आचमन आदिके अनन्तर परब्रह्मका ध्यान करने लगे ॥ ३५ ॥ उस समय उन्होंने देखा कि यलभद्रजी सहस्रफणावलिसे सुशोभित हैं, उनका शरीर कुन्दमालाओंके समान [शुश्रवण] है तथा नेत्र प्रफुल्ल कगलदलके समान विशाल हैं ॥ ३६ ॥ वे नासुकि और रम्भ आदि षट्शरपोंसे विरक्त उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यन्त सुगन्धित वनमालाओंसे विभूषित हैं ॥ ३७ ॥ वे दो श्याम वस्त्र धारण किये, सुन्दर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुण्डली (गँडुली) मारे बलके भीतर विराजमान हैं ॥ ३८ ॥

उनकी गोदमें उन्होंने आनन्दमय कमलभूषण श्रीकृष्णचन्द्रको देखा, जो मेघके समान श्यामवर्ण, कुछ लाल-लाल विशाल नयनवाले, चतुर्भुज, मनोहर अंगोपांगोंवाले तथा शंख-चक्रादि आसुधोंसे सुशीघ्र हैं; जो पीताम्बर पहने हुए हैं और विचित्र वनमालासे विभूषित हैं, तथा [उनके कारण] इन्द्रधनुष और विसुन्मालाभण्डित सजल मेघके समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सविन्द और कानोंमें देदीप्यमान मकराकृत कुण्डल विराजमान हैं ॥ ३९-४१ ॥ [अक्रूरजीने यह भी देखा कि] सक्रादि भुविजन और निष्पाप भिद्र तथा योगिजन उस जलमें ही स्थित होकर नासिकाग्र दुष्टसे उन (श्रीकृष्णचन्द्र)-का ही चिन्तन कर रहे हैं ॥ ४२ ॥

बलकृष्णौ तथाकूरः प्रत्यभिज्ञाय विस्मितः ।
 अचिन्तमदश्वाच्छ्रेष्ठं कथमत्रागताविति ॥ ४३
 विवक्षोः स्तम्भायामास वाचं तस्य जनार्दनः ।
 ततो निष्क्रम्य सलिलाद्दधमभ्यागतः पुनः ॥ ४४
 ददर्श तत्र चैवोभौ रथस्योपरि निष्ठितौ ।
 रामकृष्णौ यथापूर्वं मनुष्यवपुषान्वितौ ॥ ४५
 निमग्नश्च पुनस्तोये ददर्श च तथैव तौ ।
 संस्तुवमानौ गन्धर्वैर्मुनिसिद्धमहोरगैः ॥ ४६
 ततो जिज्ञातसद्भावस्स तु दानपतिस्तदा ।
 तुष्टाव सर्वविज्ञानमथमप्युत्तमीश्वरम् ॥ ४७

अंकुश उवाच

सन्मात्ररूपिणेऽचिन्त्यमहिम्ने परमात्मने ।
 व्यापिने नैकरूपैकस्वरूपाय नमो नमः ॥ ४८
 सर्वरूपाय तेऽचिन्त्य हविर्भूताय ते नमः ।
 नमो विज्ञानपाराय पराय प्रकृतेः प्रभो ॥ ४९
 भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान् ।
 आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पञ्चधा स्थितः ॥ ५०
 प्रसीद सर्वं सर्वात्मन् क्षराक्षरमयेश्वर ।
 ब्रह्मविष्णुशिवाख्याधिः कल्पनाभिरुदीरितः ॥ ५१
 अनाख्येयस्वरूपात्मन्नाख्येयप्रयोजन ।
 अनाख्येयाभिधाने त्वां नतोऽस्मि परमेश्वर ॥ ५२
 न यत्र नाथ विद्यन्ते नामजात्यादिकल्पनाः ।
 तद्ब्रह्म परमं नित्यमविकारि भवानजः ॥ ५३
 न कल्पनामृतेऽर्थस्य सर्वस्याधिगमो यतः ।
 ततः कृष्णाच्युतानन्तविष्णुसंज्ञाभिरीड्यते ॥ ५४
 सर्वार्थास्त्वमज विकल्पनाभिरेतै-

देवाद्यैर्भवति हि चैरनन्त विश्वम् ।

विश्वात्मा त्वमिति विकारहीनमेत-

त्सर्वस्मिन् हि भवतोऽस्ति किञ्चिदन्धम् ॥ ५५

त्वं ब्रह्मा पशुपतिर्यमा विधाता

धाता त्वं त्रिदशपतिस्समीरणोऽग्निः ।

तोयेऽशो धनपतिरन्तकस्त्वमेको

भिन्नार्थैर्जगदभिपासि शक्तिभेदैः ॥ ५६

इस प्रकार वहाँ राम और कृष्णको पहचानकर
 अकूरजो बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये वहाँ
 इतनी शीघ्रतासे रथसे कैसे आ गये ? ॥ ४३ ॥ अब उन्होंने
 कुछ कहना चाहा तो भगवान्ने उनकी वाणी रोक दी। तब
 वे जलसे निकलकर रथके पास आये और देखा कि वहाँ
 भी राम और कृष्ण दोनों ही गनुष्य-शरीरसे पूर्ववत्
 रथपर धेरे हुए हैं ॥ ४४ ४५ ॥ तदनन्तर, उन्होंने जलमें
 नुसकर उन्हें फिर गन्धर्व, सिद्ध, मुनि और नागादिकोंसे
 स्तुति किये जाते देखा ॥ ४६ ॥ तब तो दानपति अकूरजो
 वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्वविज्ञानमय अष्टभुज
 भगवान्को स्तुति करने लगे ॥ ४७ ॥

अकूरजो बोले— ओ सन्धात्ररूप, अचिन्त्यमहिम,
 सर्वव्यापकः १।३। [कार्यरूपसे] अनेक और [कारणरूपसे]
 एक रूप है उन परमात्माको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ४८ ॥
 हे अचिन्तनीय प्रभो! आप सर्वरूप एवं हृदिःस्वरूप
 परमेश्वरको नमस्कार है। आप ऋद्धिसे अतीत और प्रकृतिसे
 परे हैं, आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ४९ ॥ आप भूतस्वरूप,
 इन्द्रियस्वरूप और प्रधानस्वरूप हैं तथा आप ही बीजात्मा
 और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही पाँच प्रकारसे
 स्थित हैं ॥ ५० ॥ हे सर्व! हे सर्वात्मन्! हे क्षराक्षरमय ईश्वर!
 आप प्रसन्न होइये। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव
 आदि कल्पनाओंसे वर्णन किये जाते हैं ॥ ५१ ॥ हे परमेश्वर!
 आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाथ आदि सभी अनिर्वचनीय
 हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ५२ ॥

हे नाथ! जहाँ नम और जाति आदि कल्पनाओंका
 सर्वथा अभाव है आप वही नित्य अधिकारी और अजन्मा
 परब्रह्म हैं ॥ ५३ ॥ क्योंकि कल्पनाके बिना किसी भी पदार्थका
 ज्ञान नहीं होता इसीलिये आपका कृष्ण, अष्टभुज, अनन्त
 और विष्णु आदि नामोंसे स्तवन किया जाता है [वास्तवमें
 तो आपका किसी भी नामसे निर्देश नहीं किया जा
 सकता] ॥ ५४ ॥ हे अज। जिन देवता आदि कल्पनायुक्त
 पदार्थोंसे अनन्त विश्वको उत्पत्ति हुई है वे समस्त पदार्थ
 आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्मवस्तु हैं, अतः
 आप विश्वरूप हैं। हे प्रभु! इन सम्पूर्ण पदार्थोंमें आपसे भिन्न
 और कुछ भी नहीं है ॥ ५५ ॥ आप ही ब्रह्मा, मत्तदेव, अर्षभ,
 विधाता, धाता, इन्द्र, शशु, अग्नि, यरुण, कुम्भेर और यम
 हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न-भिन्न कार्यवाले अपनी
 शक्तियोंके भेदसे इस सम्पूर्ण जगत्को रक्षा कर रहे हैं ॥ ५६ ॥

विश्वं भवान्मृजति सूर्यगभस्तिरूपो

विश्वेश तैर्गुणमयोऽवमतः प्रपञ्चः ।

रूपं परं सद्दिति वाचकमक्षरं य-

ज्ञानात्मने सदसते प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥ ५७

ॐ नमो वासुदेवाय नमस्संकर्षणाय च ।

प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्यमनिरुद्धाय तै नमः ॥ ५८

इति श्रीविष्णुपुराणे एवमेऽहंऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

उनीसवाँ अध्याय

भगवान्का मधुर-प्रवेश, राजक-वध तथा पार्लेपर कृपा

श्रीपराशर उवाच

एवमन्तर्जले विष्णुमधिष्ठूय स यादवः ।

अर्धमापास सर्वेश धूपपुर्वैर्मनोमयैः ॥ १

परित्यक्तान्वविषयो मनस्तत्र निवेश्य सः ।

ब्रह्मभूते धिरं स्थित्वा विरराम सभाधितः ॥ २

कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामतिः ।

आजगाम रथं भूयो निर्गम्य चमुनाम्भसः ॥ ३

ददर्श रामकृष्णीं च यथापूर्वमवस्थितौ ।

विस्मिताक्षस्तदाकूरस्तं च कृष्णोऽभ्यभाषत ॥ ४

श्रीकृष्ण उवाच

मूनं ते दृष्टमाश्चर्यमकूर चमुनाजले ।

विस्मयोत्फुल्लनयनो भवान्संलक्ष्यते यतः ॥ ५

अकूर उवाच

अन्तर्जले यदाश्चर्यं दृष्टं तत्र मयाञ्जुत ।

तदत्रापि हि पश्यामि पूर्तिमत्युरतः स्थितम् ॥ ६

जगदेतन्महाश्चर्यरूपं यस्य महात्मनः ।

तेमाश्चर्यपरेणाहं भवता कृष्ण सङ्गतः ॥ ७

तत्किमेतेन मथुरां यास्यामो मधुसूदन ।

विभेमि कंसान्द्विगजन्म परपिण्डोपजीविनाम् ॥ ८

इत्युक्त्वा चोदयापास स इयान् आतरंहसः ।

सम्प्राप्तश्चापि सायाह्ने सोऽकूरो मथुरां पुरीम् ॥ ९

हे विश्वेश! सूर्यकी किरणरूप होकर आप ही [पृच्छिद्वारा] विश्वकी रचना करते हैं, अतः यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। 'स्तु' पद ['ॐ क्तु, स्तु' इस रूपसे] जिसका वाचक है 'ॐ' अक्षर आपका परम स्वरूप है, आपके उस ज्ञानात्मा सदसत्सत्त्वत्मको चमस्कार है ॥ ५७ ॥ हे प्रभो! वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्धस्वरूप आपको ब्रह्मन्मर नमस्कार है ॥ ५८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—यदुकुलात्पन्न अकूरजीने श्रीविष्णुभगवान्का जलके भीतर इस प्रकार स्तवनकर उन सर्वेश्वरका मनःकल्पित धूप, दीप और पुष्पादिले पूजन किया ॥ १ ॥ उन्होंने अपने मनको अन्य विषयोंसे छटाकर उन्हींमें लगा दिया और फिरकालतक उन जलभूममें ही समाहितभावसे स्थित रहकर फिर समाधिसे विरत हो गये ॥ २ ॥ तदनन्तर महामति अकूरजी अपनेको कृतकृत्य-सा मानते हुए चमुनाजलसे निकलकर फिर रथके पास चले आये ॥ ३ ॥ वहाँ आकर उन्होंने आश्चर्ययुक्त नेत्रोंसे राम और कृष्णको पूर्वजन्म रथमें बैठे देखा। उस समय श्रीकृष्णचन्द्रने अकूरजीसे कहा ॥ ४ ॥

श्रीकृष्णजी बोले—अकूरजी! आपने अवश्य ही चमुना-जलमें कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दोख पड़ते हैं ॥ ५ ॥

अकूरजी बोले—हे अच्युत! मैंने चमुनाजलमें जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान् देख रहा हूँ ॥ ६ ॥ हे कृष्ण! यह महान् आश्चर्यमय जगत् जिस महात्माका स्वरूप है उन्हीं परम आश्चर्यस्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है ॥ ७ ॥ हे मधुसूदन! अब उस आश्चर्यके विषयमें और अधिक कहनेसे लाभ ही क्या है? चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुँचना है; मुझे कंससे बहुत भय लगता है। दूसरेके दिने हुए अन्यसे जीनेवाले पुरुषोंके शोषणको धिक्कार है ॥ ८ ॥

ऐसा कहकर अकूरजीने वायुके समान लेगाहले चोड़के हाँका और सार्वकालके समय मथुरापुरीमें पहुँच गये ॥ ९ ॥

विलोक्य मधुरां कृष्णां रामं चाह स यादवः ।
पद्भ्यां यातं महावीरौ रघुनैको विशाम्यहम् ॥ १० ॥
गन्तव्यं वसुदेवस्य नो भवद्भ्यां तथा गृहम् ।
युवयोर्हि कृते वृद्धस्य कंसेन निरस्यते ॥ ११ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा प्रविशेशाथ सोऽङ्कुरो मधुरां पुरीम् ।
प्रविष्टी रामकृष्णौ च राजमार्गमुपागताः ॥ १२ ॥
स्वीभिर्नरैश्च सानन्दं लोचनैरभिवीक्षिती ।
जग्मतुर्लीलया वीरौ मत्तौ आलगजादिव ॥ १३ ॥
भ्रममाणौ ततो दृष्ट्वा रजकं रंगकारकम् ।
अयाचेतां मुरुपाणि वासांसि रुधिराणि तौ ॥ १४ ॥
कंसस्य रजकः सोऽथ प्रसादारूढविस्मयः ।
बहून्वाक्षेपवाक्यानि प्राहोच्चै रामकेशवौ ॥ १५ ॥
ततस्तलप्रहारेण कृष्णस्तस्य दुरात्मनः ।
घातयामास रोषेण रजकस्य शिरो भुवि ॥ १६ ॥
हत्वादाय च अस्त्राणि पीतनीलाम्बरौ ततः ।
कृष्णरामौ मुदा युक्तां मालाकारगृहं गतौ ॥ १७ ॥
विक्रासिनेप्रयुगलो मालाकारोऽतिविस्मितः ।
एतौ कस्य सुतौ यातौ मैत्रेयाश्चित्तयत्तदा ॥ १८ ॥
पीतनीलाम्बरधरौ तौ दृष्ट्वातिमनोहरौ ।
स तर्कयामास तदा भुवं देवावुपागतौ ॥ १९ ॥
विक्रासिमुखपद्माभ्यां ताभ्यां पुण्याणि याचितः ।
भुवं विष्टभ्य हस्ताभ्यां प्रस्पर्शं शिरसा महीम् ॥ २० ॥
प्रसादपरमौ नाश्री मम गेहमुपागताः ।
धन्योऽहमर्षियिव्यामीत्याह तौ मास्यजीवनः ॥ २१ ॥
ततः प्रहृष्टवदनस्तयोः पुण्याणि कायतः ।
चारुण्येतान्यथैतानि प्रददौ स प्रलोभयन् ॥ २२ ॥
पुनः पुनः प्रणम्योभौ मालाकारो नरोत्तमौ ।
ददौ पुण्याणि चारुणि गन्धवन्त्यमलानि च ॥ २३ ॥
मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्नः प्रददौ धरान् ।
श्रीस्त्वां मत्संभ्रया भद्रं न कदाचित्कजिष्यति ॥ २४ ॥

मथुरापुरीको देखकर अङ्कुरने राम और कृष्णसे कहा—“हे वीरवरो! अब मैं अकेला ही रहने जाऊँगा, आप दोनों पैदल चले आवें ॥ १० ॥ मथुरामें पहुँचकर आप वसुदेवजीके घर न जायें; क्योंकि आपके कारण ही उन पुरुष वसुदेवजीका कंस सर्वदा निरादर करता रहता है” ॥ ११ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा कह—अङ्कुरजी मथुरापुरीमें चले गये। उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगरमें प्रवेशकर राजमार्गपर आये ॥ १२ ॥ वहाँके नर-नारिणोंसे आनन्दपूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मतवाले तरुण हाथियोंके समान लीलापूर्वक जा रहे थे ॥ १३ ॥

मार्गमें उन्होंने एक वस्त्र रँगनेवाले रजकको भ्रमते देख उससे रंग-विरंग सुन्दर वस्त्र माँगे ॥ १४ ॥ वह रजक कंसका था और रजकके मुँहलगा होनेसे बड़ा घमण्डो से गया था, अतः राम और कृष्णके वस्त्र माँगनेपर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े वीरोंके साथ अनेक दुर्वाक्य कहे ॥ १५ ॥ तब श्रीकृष्णचन्द्रने क्रुद्ध होकर अपने कारतलके प्रहारसे उस दुष्ट रजकका सिर पृथिवीपर गिरा दिया ॥ १६ ॥ इस प्रकार उसे मारकर राम और कृष्णने उसके वस्त्र छीन लिये तथा क्रमशः नील और पीत वस्त्र धारणकर वे प्रसन्नचित्तसे मालीके घर गये ॥ १७ ॥

हे मैत्रेय! उन्हें देखते ही उस मालीके नेत्र आनन्दसे खिल गये और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि 'ये किसके पुत्र हैं और कहाँसे आये हैं?' ॥ १८ ॥ बोले और तोले वस्त्र धारण किये उन आति मनोहर बालकोंको देखकर उसने खमझा मानो दो देवगण ही पृथिवीतलपर पधारे हैं ॥ १९ ॥ जब उन विकसितमुखकमल बालकोंने उससे पुण्य माँगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथिवीपर टेककर सिरसे भूमिको स्पर्श किया ॥ २० ॥ फिर उस मालीने कहा—“हे नाथ! आपलोग बड़े ही कृपाालु हैं जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूँगा” ॥ २१ ॥ शब्दन्तार उसने 'देखिये, ये बहुत सुन्दर हैं, ये बहुत सुन्दर हैं'—इस प्रकार प्रसन्नमुखसे लुभा-लुभाकर उन्हें इच्छानुसार पुण्य दिये ॥ २२ ॥ उसने उन दोनों पुरुषश्रेष्ठोंको पुनः-पुनः प्रणामकर अति निर्मल और सुगन्धित मनोहर पुण्य दिये ॥ २३ ॥

तब कृष्णचन्द्रने भी प्रसन्न होकर उस मालीको यह वर दिया कि “हे भद्र ! मेरे आश्रित रहनेवाली लक्ष्मी तुझे

ब्रह्महृदिर्न ते सौम्य घनहानिरथापि वा ।
 वासहिनानि ताद्यच्च न नशिष्यति सन्ततिः ॥ २५ ॥
 भुक्त्वा च क्षिपुलान्भोगास्त्वमन्ते मत्प्रसादतः ।
 ममानुस्मरणं प्राप्य दिव्यं लोकमवाप्स्यसि ॥ २६ ॥
 धर्मं मनश्च ते भद्रं सर्वकालं भविष्यति ।
 युष्मत्सन्ततिजातानां दीर्घमायुर्भविष्यति ॥ २७ ॥
 भोपसर्गादिकं दोषं युष्मत्सन्ततिसम्भवः ।
 अवाप्स्यति महाभाग यावत्सूर्यो भविष्यति ॥ २८ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा तद्गृह्यकृष्णो बलदेवसन्नयवान् ।
 निर्जगाम मुनिश्रेष्ठ माहाकारेण पूजितः ॥ २९ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

बीसवाँ अध्याय

कुम्भापर कृपा, धनुर्भंग, कुवलयापीड और चाणूरादि मल्लोका नाश तथा कंस-वध

श्रीपराशर उवाच

राजमार्गे ततः कुम्भास्सानुलेपनभाजनाम् ।
 ददर्श कुम्भामायान्तीं नवधौवनगोचराम् ॥ १ ॥
 तामाह ललितं कृष्णः कस्येदमनुलेपनम् ।
 भवत्या नीचते सत्ये वदेन्दीवरलोचने ॥ २ ॥
 स्वकामेव सा प्रोक्ता सानुरागा हरिं प्रति ।
 प्राह सा ललितं कुम्भा तद्दर्शनबलात्कृता ॥ ३ ॥
 कान्त कस्मान् आनासि कसेन विनियोजिताम् ।
 मैकवकेति विख्यातामनुलेपनकर्मणि ॥ ४ ॥
 नान्यपिष्टं हि कंसस्य प्रीतये ह्यनुलेपनम् ।
 भवाम्यहमतीवास्य प्रसादधनभाजनम् ॥ ५ ॥

श्रीकृष्ण उवाच

सुगन्धमेतद्राजाई रुधिरं रुचिरानने ।
 आवधोगां व्रसदृशं दीयतामनुलेपनम् ॥ ६ ॥

कभी न छोड़ेगी ॥ २५ ॥ हे सौम्य! तेरे अन्न और धनका ह्रास कभी न होगा और अबतक दिन (सूर्य)-की चरा रहेगी तबतक तेरी सन्तानका उच्छेद न होगा ॥ २५ ॥ तू भी मातृश्रीवन नाना प्रकारके भोग भोगता हुआ अन्तमें मेरी कृपासे मेरा स्मरण करनेके कारण दिव्य लोकको प्राप्त होगा ॥ २६ ॥ हे भद्र! तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे वंशमें कृष्ण लेनेवालोंकी आयु दीर्घ होगी ॥ २७ ॥ हे महाभाग! अबतक सूर्य रहेगा तबतक तेरे वंशमें उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग (आकस्मिक रोग) आदि दोषोंको प्राप्त न होगा ॥ २८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! ऐसा कहकर श्रीकृष्णचन्द्र बलभद्रजीके सहित मालाकारसे पूजित हो उसके घरसे चल दिये ॥ २९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—राजनार श्रीकृष्णचन्द्रने राजमार्गमें एक नवधौवना कुम्भा स्त्रीको अनुलेपनका पात्र लिये आती देखा ॥ १ ॥ तब श्रीकृष्णने उससे विलासपूर्वक कहा—“अपि कमलालोचने! तू सच-सच बत याद अनुलेपन किसके लिये ले जा रही है?” ॥ २ ॥ भगवान् कृष्णके कामुक पुरुषकी भाँति इस प्रकार पूछनेपर अनुरागिणी कुम्भाने उसके दर्शनसे हवात् आकृष्टचित्त हो अति ललितभावसे इस प्रकार कहा— ॥ ३ ॥ “हे भ्रान्त! क्या आम मुझे नहीं जानते? मैं अनेकवक्त्र नामसे विख्यात हूँ, राजा कंसने मुझे अनुलेपन-कार्यमें नियुक्त किया है ॥ ४ ॥ राजा कंसकी गैरे अतिरिक्त और किसीका पीसा हुआ उबटन पसन्द नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यन्त कृपापत्री हूँ” ॥ ५ ॥

श्रीकृष्णजी बोले—हे सुमुखि! यह सुन्दर सुगन्धमय अनुलेपन तो राजाके ही योग्य है, हमारे शरीरके योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो ॥ ६ ॥

श्रीपराशर उवाच

श्रुत्वैतदाह सा कुब्जा गृह्यतामिति सादरम् ।
 अनुलेपनं च प्रददां गात्रवोग्यमधोभयोः ॥ ७
 भक्तिच्छेदानुलिप्ताङ्गी ततस्तीं पुरुषर्षभौ ।
 सेन्द्रबापीं व्यराजेतां सितकृष्णाचिन्माश्रुदौ ॥ ८
 ततस्तीं चिबुकैः शीरिठल्लापनविधानयित् ।
 उत्पाद्य तोलयामास ह्रस्वङ्गुलेनाप्रपाणिना ॥ ९
 चकर्ष पद्भ्यां च तदा ऋजुत्वं केशवोऽनयत् ।
 ततस्सा ऋजुतां प्राप्ता घोषितामभवत्परा ॥ १०
 विलासललितं प्राह प्रेमगर्भभरालसम् ।
 वस्ये प्रगुह्य गोविन्दं मम गेहं ब्रजेति वै ॥ ११
 एवमुक्तस्तथा शरीरी रामस्थालोक्य चाननम् ।
 प्रहस्य कुब्जां तामाह नैकवक्रामनिन्दिताम् ॥ १२
 आयास्ये भवतीगेहमिति तां प्रहसन्धरिः ।
 विससर्ज जहासोच्चैः शमस्थालोक्य चाननम् ॥ १३
 भक्तिभेदानुलिप्ताङ्गी नीलपीताम्बरौ तु तौ ।
 धनुश्शालां ततो यातीं चित्रमाल्योपशोभितौ ॥ १४
 आयागं तद्धनूरत्नं ताभ्यां पृष्टैस्तु रक्षिभिः ।
 आख्याते सहसा कुब्जो गृहीत्वापूरयद्धनुः ॥ १५
 ततः पूरयता तेन भन्व्यमानं बलाद्धनुः ।
 चकार सुमहच्छब्दं मधुरा येन पूरिता ॥ १६
 अनुद्युक्तौ ततस्तीं तु भाने धनुषि रक्षिभिः ।
 रक्षिसैन्यं निहृत्योर्षा निष्क्रान्तौ कार्मुकालयात् ॥ १७
 अकूरागमवृत्तान्तमुपलभ्य महद्धनुः ।
 भानं श्रुत्वा च कंसोऽपि प्राह चाणूरमुष्टिकौ ॥ १८

कंस उवाच

गोपालदारकौ प्राप्तीं भवद्भ्यां तु ममाग्रतः ।
 मल्लयुद्धेन हन्तव्यौ मम प्राणहरीं हि तौ ॥ १९
 नियुद्धे तद्विनाशेन भवद्भ्यां तोषितो ह्यहम् ।
 दास्याप्यभिमतान्कामान्दान्यधैतौ महाबली ॥ २०

श्रीपराशरजी बोले— यह सुनकर कुब्जाने कहा—

'लोकिये' और फिर उन दोनोंको अक्षरपूर्वक उनके शरीरयोग्य चन्दनादि दिये ॥ ७ ॥ उस समय वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ [कपोल आदि अंगोंमें] पत्ररचनाविधिसे यथावत् अनुलिप्त होकर इन्द्रधनुषयुक्त श्याम और स्वेत मेघके समान सुशोभित हुए ॥ ८ ॥ तत्पश्चात् उत्थापन (सीधे करनेकी)-विधिके जाननेवाले भगवान् कृष्णचन्द्रने उसकी टोहीमें अपनी आगेकी दो अँगुलियाँ लगा उससे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरोंसे दबा लिये । इस प्रकार श्रीकेशवने उसे ऋजुकाय (सीधे शरीरवाली) कर दी । तब सीधी हो जानेपर वह सम्पूर्ण स्त्रियोंमें सुन्दरी हो गयी ॥ ९-१० ॥

तब वह श्रीगोविन्दका पल्ला पकड़कर अन्तर्गर्भित प्रेम-पारसे अलसायी हुई विलासललित वाणीमें बोली— 'आम मेंरे घर चलिये' ॥ ११ ॥ उसके ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने उस कुब्जासे, जो पहले अनेक अंगोंसे देदी थी, परंतु अब सुन्दरी हो गयी थी, बलरामजीके मुखकी ओर देखकर हैसते हुए कहा— ॥ १२ ॥ 'हाँ, गुम्हारे घर भी आऊँगा'—ऐसा कहकर श्रीहरिने उसे पुसकाते हुए शिया किया और बलभद्रजीके मुखकी ओर देखते हुए जोर-जोरसे हैसने लगे ॥ १३ ॥

तदनन्तर पत्र-रचनादि विधिसे अनुलिप्त तथा चित्र-विविध पालाश्योंसे सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलाम्बर और पीताम्बर धारण किये हुए यज्ञशालातक आये ॥ १४ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने यज्ञरक्षकोंसे उस यज्ञके उद्देश्यस्वरूप धनुषके विषयमें पूछा और उनके बतलानेपर श्रीकृष्णचन्द्रने उसे सहसा उड़कर प्रत्यक्ष (खरी) चढ़ा दी ॥ १५ ॥ उसपर अलपूर्वक प्रत्यक्ष चढ़ाते समय वह धनुष दूट गया, उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे सम्पूर्ण मधुरापुरी गूँज उठी ॥ १६ ॥ तब धनुष दूट जानेपर उसके रक्षकोंने उनपर आक्रमण किया, उस रक्षक सेनाका संहर कर वे दोनों अत्यक्त घनुरशालासे आइर आये ॥ १७ ॥

तदनन्तर अकूरके आनेका समाचार पाकर तथा उस भेदान् धनुषको भान हुआ सुनकर कंसने चापूर और मुष्टिकसे कहा ॥ १८ ॥

कंस बोले— यहाँ दोनों गोपालबालक आ गये हैं । वे मेरा प्राण-हरण करनेवाले हैं, अतः तुम दोनों मल्लयुद्धसे उन्हें मेरे सामने मार डालो । यदि तुमलोग मल्लयुद्धमें उन दोनोंका विनाश करके मुझे सन्तुष्ट कर

न्यायतोऽन्यायक्रे वापि भवद्भ्यां तौ ममाहिनी ।
 हन्तव्यौ तद्गुहाद्राप्यं सामान्यं वां भविष्यति ॥ २१
 इत्यादिश्य स तौ मल्लौ ततश्चाहुः हस्तिपम् ।
 प्रोवाचोच्छ्रित्यथा मल्लसमाजद्वारि कुञ्जरः ॥ २२
 स्थाप्यः कुञ्जलयापीडस्तेन तौ गोपदारकौ ।
 घातनीयौ नियुद्धाव रङ्गद्वारमुपागतौ ॥ २३
 तपस्याज्ञाप्य दृष्ट्वा च सर्वान्यज्जानुपाकृतान् ।
 आसन्नपरणः कंसः सूर्योदयमुदैक्षत ॥ २४
 ततः समस्तमञ्जेषु नागरस्य तदा जनः ।
 राजमञ्जेषु चारूढास्सह भृत्यैर्नराधिपाः ॥ २५
 मल्लप्राशिनकवर्गश्च रङ्गमध्यसमीपगः ।
 कृतः कंसेन कंसोऽपि तुङ्गमञ्जे व्यवस्थितः ॥ २६
 अन्तःपुराणां मञ्जेश्च तथान्ये परिकल्पिताः ।
 अन्ये च शारमुख्यानामन्ये नागरवोषिताम् ॥ २७
 चन्द्रगोपादयो गोपा मञ्जेष्वन्येष्ववस्थिताः ।
 अक्षुरवसुदेवी च मञ्जप्रान्ते स्थवस्थिता ॥ २८
 नागरीवोषितां मध्ये देवकीपुत्रगङ्दिनी ।
 अन्तकालेऽपि पुत्रस्य रक्षयामीति मुखं स्थिता ॥ २९
 चाग्रमानेषु सूर्येषु चाणूरे चापि वल्गति ।
 हाहाकारपरे लोके ह्यास्फोटयति मुष्टिके ॥ ३०
 ईषद्भसन्ती तौ वीरी बलभद्रजनार्दनी ।
 गोपवेषधरी बाली रङ्गद्वारमुपागतौ ॥ ३१
 ततः कुञ्जलयापीडो महाप्राप्रप्रचोदितः ।
 अभ्यधावत वेगेन हन्तुं गोपकुमारकौ ॥ ३२
 हाहाकारो महाब्जज्ञे रङ्गमध्ये द्विजोत्तम ।
 बलदेवोऽनुजं दृष्ट्वा अचनं चेदमब्रवीत् ॥ ३३
 हन्तव्यो द्वि मह्यभाग भागोऽयं शत्रुषोदितः ॥ ३४
 इत्युक्तस्सोऽग्रेनाथ बलदेवेन वै द्विज ।
 सिंहनार्धं ततश्चक्रे माधवः परवीरह्य ॥ ३५
 करेण करमाकृष्य तस्य केशिनिघूदनः ।
 धामयामास तं शौरिरेरावतसर्प बले ॥ ३६

दोगे तो मैं तुम्हारा समस्त इच्छार्थ पूर्ण कर दूँगा; मैं इस कथनकी तुम निश्चय न समझना। तुम न्यायसे अथवा अन्यायसे मैं इन महाबलवान् अपकारियोंको अपश्य मार डालूँ। उनके बारे जानेपर यह शरीर राज्य [हमारा और] तुम दोनोंका सामान्य होगा ॥ १९—२१ ॥

मल्लोंको इस प्रकार आज्ञा दे कंसने अपने महाबलवत्के बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुञ्जलयापीड शर्षाके मल्लोंकी रंगभूमिके द्वारपर छद्म रख और जब वै गोपकुमार युद्धके लिये वहाँ आवें तो उन्हें इलसे नष्ट कर दे ॥ २२-२३ ॥ इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनोंको बधावत् रख देखकर, जिसको मृत्यु प्राप्त अः गयी है वह कंस सूर्योदयकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २४ ॥

प्रातःकाल होनेपर समस्त पंचोंपर नागरिक लोग और राजमंचोंपर अपने अनुचरोंके सहित राजालोग बैठे ॥ २५ ॥ तदनन्तर रंगभूमिके मध्यभागके समीप कंसने मुद्रपरीक्षकोंको बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊँचे सिंहासनपर बैठे ॥ २६ ॥ वहाँ आन्तःपुरकी स्त्रियोंके लिये पृथक् मंचन बनाये गये थे तथा मुख्य-मुख्य वारंगनाओं और नगरकी महिलाओंके लिये भी अलग-अलग मंच थे ॥ २७ ॥ कुछ अन्य पंचोंपर चन्द्रगोप आदि गोपगण विठाये गये थे और उन मंचोंके परम ही अक्षुर और वसुदेवजी बैठे थे ॥ २८ ॥ नगरकी नारियोंके बीचमें 'चलो, अन्तकालमें ही पुत्रकर मुख तो देख लूँगी' ऐसा विचारकर पुत्रके लिये ध्यानलक्षण करती हुई देवकीजी बैठी थीं ॥ २९ ॥

तदनन्तर जिस समय सूर्य आदिके बजने तथा चाणूरके अत्यन्त उछलने और मुष्टिकके ढाल टोंकनेपर दशकण हाहाकार कर रहे थे, गोपवेषधारी वीर बलक बलभद्र और कृष्ण कुछ हीसने हुए रंगभूमिके द्वारपर आये ॥ ३०-३१ ॥ वहाँ आते ही महाबलकी ऐरणसे कुञ्जलयापीड नामक शत्रु तो दोनों गोपकुमारोंको मारनेके लिये बड़े वेगसे दौड़ा ॥ ३२ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ! उस समय रंगभूमिमें महान् हाहाकार मच गया तथा बलदेवजीने अपने अनुज कृष्णकी ओर देखकर कहा—'हे महाभाग! इस शत्रुको शत्रुने ही प्रेरित किया है; अतः इसे मार डालना चाहिये' ॥ ३३-३४ ॥

हे द्विज! ज्येष्ठ भ्राता बलरामजीके ऐसा कहनेपर शत्रुसूदन श्रीश्यामसुन्दरने बड़े जोरसे सिंहासन पर किया ॥ ३५ ॥ फिर केशिनिघूदन भगवान् श्रीकृष्णने बलमें ऐरावतके समान उस महाबली शत्रुकी सूँड अपने हाथसे पकड़कर उसे चुमया ॥ ३६ ॥

ईशोऽपि सर्वजगतां बालालीलानुसारतः ।
 क्रीडित्वा सुधिरं कृष्णः करिदन्तपदान्ने ॥ ३७
 उत्पाद्य वामदन्तं तु दक्षिणेनैव पाणिना ।
 ताडयामास यन्तारं तस्मासीच्छ्रुतधा शिरः ॥ ३८
 दक्षिणं दन्तमुत्पाद्य बलभद्रोऽपि तत्क्षणात् ।
 सरोषस्तेन पार्श्वस्थान् गजपालानपोधयत् ॥ ३९
 ततस्तुत्सुत्य सेनेन रीहिणेयो मह्यबलः ।
 जघान वामपादेन भस्तके हस्तिनं रुषा ॥ ४०
 स पपात हतस्तेन बलभद्रेण लीलया ।
 सहस्राक्षेण शस्त्रेण ताडितः पर्वतो यथा ॥ ४१
 हत्वा कुवलयपीडं हस्त्यारोहप्रचोदितम् ।
 मदासुगनुत्पिताङ्गौ हस्तिदन्तवरासुधी ॥ ४२
 मृगमध्ये यथा सिंहौ गर्वलीलावलोकितौ ।
 प्रविष्टौ सुमहारङ्गं बलभद्रजनार्दनौ ॥ ४३
 ह्यहाकारो महाव्यजे महारङ्गे त्वनन्तरम् ।
 कृष्णोऽयं बलभद्रोऽयमिति लोकस्य विस्मयः ॥ ४४
 सोऽयं येन हता घोरा पूतना बालघातिनी ।
 क्षिप्तं तु शकटं येन भग्नौ तु यमलार्जुनी ॥ ४५
 सोऽयं यः कालियं नागं मयर्दाकृष्ट बालकः ।
 धृतो गौसर्द्धनो येन सप्तरात्रं महागिरिः ॥ ४६
 अरिष्टो धेनुकः केशी लीलयैव महात्मना ।
 निहता येन दुर्वृत्ता दृश्यतामेध सोऽच्युतः ॥ ४७
 अयं चास्य महाबाहुर्बलभद्रोऽप्रतोऽप्रजः ।
 प्रयाति लीलया योषिन्मनोनयननन्दनः ॥ ४८
 अयं स कथ्यते प्राज्ञैः पुराणार्थविशारदैः ।
 गोपालो यादवं वंशं मग्नमभ्युद्धरिष्यति ॥ ४९
 अयं हि सर्वलोकस्य विष्णोरखिलजन्मनः ।
 अवतीर्णो महिर्मशो नूनं भारहरो भुवः ॥ ५०
 इत्येवं वर्णिते परैरामे कृष्णे च तत्क्षणात् ।
 उरस्तताप देवक्याः स्नेहस्तुतपयोधरम् ॥ ५१
 महोत्सवमिवासाद्य पुत्राननविलोकनात् ।
 युवेन वसुदेवोऽभूद्ब्रिहाद्याभ्यागतां वराम् ॥ ५२

भगवान् कृष्ण यद्यपि सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं तथापि उन्होंने बहुत देरतक उस हाथीके दाँत और चरणोंके बीचमें खेलते-खेलते अपने दाँटें हथसे ठसका भाग्योँ दाँत उखाड़कर उससे महावतपर प्रहार किया । इससे उसके सिरके सैकाड़ों टुकड़े हो गये ॥ ३७-३८ ॥ उसी समय बलभद्रजीने भी क्रोधपूर्वक उसका दायाँ दाँत उखाड़कर उससे आस-पास खड़े हुए महायतोंको मार डाला ॥ ३९ ॥ तदनन्तर महाबली रोहिणीनन्दने रोषपूर्वक अति वेगसे उखलकर उस हाथीके गरतकपर अपनी नार्यी लात पारी ॥ ४० ॥ इस प्रकार वह हाथी बलभद्रजीद्वारा लीलापूर्वक मारा जाकर हन्द्र-वज्रसे आहत पर्वतके समान गिर पड़ा ॥ ४१ ॥

तब महाबलसे प्रेरित कुवलयपीडको मारकर उसके भेद और रकसे लथपथ राम और कृष्ण उसके दाँतोंकी लिये हुए गर्वयुक्त लीलापयों चितवनसे निहारते उस महान् रंगभूमिमें इस प्रकार आये जैसे मृगसमूहके बीचमें सिंह चला जाता है ॥ ४२-४३ ॥ उस समय महान् रंगभूमिमें बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगोंमें 'ये कृष्ण हैं, ये बलभद्र हैं' ऐसा विस्मय छा गया ॥ ४४ ॥

[वे कहने लगे—] 'जिसने बालघातिनी घोर राक्षसी पूतनाको मारा था, शकटको उलट दिया था और यमलार्जुनको उखाड़ डाला था वह भरी है । जिस बालकने कालियनागके ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और सात रात्रितक महापर्वत गौवर्द्धनको अपने हाथपर धारण किया था वह यही है ॥ ४५-४६ ॥ जिस महात्माने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टोंको लीलासे ही मार डाला था; देखो, यह अश्चुत यही है ॥ ४७ ॥ ये इनके अग्रे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्रजी हैं जो बड़े लीलापूर्वक चल रहे हैं । ये स्वयंके मन और नयनोंको बड़ा ही आनन्द देनेवाले हैं ? ॥ ४८ ॥ पुराणार्थवेत्ता विद्वान् लोग कहते हैं कि ये गोपालजी डूबे हुए यदुवंशका बच्चा करीगे ॥ ४९ ॥ ये सर्वलोकमय और सर्वकारण भगवान् विष्णुके ही अंश हैं, इन्होंने पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही भूमिपर अवतार लिया है ॥ ५० ॥

राम और कृष्णके विषयमें पुरवासियोंके इस प्रकार कहते समय देवकीके स्तनोंसे स्नेहके कारण दूध बहने लगा और उनके हृदयमें बड़ा अनुत्ताप हुआ ॥ ५१ ॥ पुरोंका मुख देखनेसे अत्यन्त उल्लास-सा प्राप्य होनेके कारण वसुदेवजी भी माने आये हुई वचकी छोड़कर फिरसे वसुदेवक-से हो गये ॥ ५२ ॥

जिस्तारिताक्षियुगलो राजान्तःपुरयोषिताम् ।
 नागरस्त्रीसमूहश्च द्रष्टुं न विराम तम् ॥ ५३
 सख्यः पश्यत कृष्णस्य मुखमत्यरुणेषाम् ।
 गजयुद्धकृतायासस्वेदाम्बुक्कणिकाशितम् ॥ ५४
 विक्रासिंशरत्नभोजमवश्यायजलोक्षितम् ।
 परिभूय स्थितं जन्म सफलं क्रियतां दृशः ॥ ५५
 श्रीवत्साङ्गं महद्दाम बालस्थितद्विलोक्यताम् ।
 विपक्षरूपं वक्षो भुजयुगं च भामिनि ॥ ५६
 किं न पश्यसि दुग्धेन्दुमुणालयबलाकृतिम् ।
 बलभद्रमिमं नीलपरिधानमुपागतम् ॥ ५७
 चल्गता मुष्टिकेनैव चाणूरेण तथा सखि ।
 क्रीडतो बलभद्रस्य हरेर्हस्यं विलोक्यताम् ॥ ५८
 सख्यः पश्यत चाणूरं निबुद्धार्थमयं हरिः ।
 समुपैति न सन्धय किं वृद्धा मुक्तकारिणः ॥ ५९
 वव यौवनोन्मुखीभूतसुकुमारतनुर्हरिः ।
 वव वज्रकठिनाभोगशरीरोऽयं मन्नासुरः ॥ ६०
 इमी सुललितैरङ्गैर्वर्तन्ते नवयौवनौ ।
 दैतेधमल्लाश्चाणूरप्रमुखास्त्वतिदारुणाः ॥ ६१
 निबुद्धप्राणिकावां तु महानेव घ्यतिक्रमः ।
 यद्बालबलिनोर्वृद्धं मह्यस्थैस्समुपेक्ष्यते ॥ ६२
 श्रीपराशर उवाच
 इत्थं पुरस्त्रीलोकस्य वदतश्चालयन्भुवम् ।
 वधत्वा बद्धकक्ष्योऽन्तर्जनस्य भगवान्हरिः ॥ ६३
 बलभद्रोऽपि चास्त्रोद्यधवल्लालितं तथा ।
 पदे पदे तथा भूमिर्यन्न शीर्णां तदद्भुतम् ॥ ६४
 चाणूरेण ततः कृष्णो युयुधेऽभितविक्रमः ।
 निबुद्धकुशलो दैत्यो बलभद्रेण मुष्टिकः ॥ ६५
 सन्निपाताबधूतैस्तु चाणूरेण समं हरिः ।
 प्रक्षेपणैर्मुष्टिभिश्च क्रीलवज्रनिपातनैः ॥ ६६

राजाके अन्तःपुरकी स्त्रियों तथा नगर निवास्त्रिन्ने महिलाएँ भी उन्हें एकटक देखते-देखते उपराम न हुई ॥ ५३ ॥ [वं परस्पर कहते लगीं—] "अरी सखियो! अरुणायनसं युक्त श्रीकृष्णचन्द्रका अति सुन्दर मुख तो देखो, जो कुण्डलापीठके साथ युद्ध करनेके परिश्रमसे स्वेद विन्दुपूर्ण होकर हिम-कप-सिंका शरत्कालीन प्रफुल्ल कमलको लज्जित कर रहा है। अरी! इसका दर्शन करके अपने नेत्रोंका दोन सफल कर लो" ॥ ५४-५५ ॥

[एक स्त्री योली—] "हे भामिनि! इस बालकका यह लक्ष्मी आदिका आश्रयभूत श्रौवत्सांकयुक्त वक्षःस्थल तथा शत्रुओंको नराजित करनेवाली इसकी दोनों भुजाएँ तो देखो!" ॥ ५६ ॥

[दूसरी—] "अरी! क्या तुम नालाप्यर धृष्टकिये इन दुग्ध, चन्द्र अथवा कमलतालके समान भुजवर्ष वलदेवजोंको आते हुए नहीं देखती हो?" ॥ ५७ ॥

[तीसरी—] "अरी सखियो! [अखाड़पे] चक्कर देकर घूमनेवाले चाणूर और मुष्टिकके साथ लीला करते हुए बलभद्र तथा कृष्णका हैसना देख लो!" ॥ ५८ ॥

[चौथी—] "अय! सखियो! देखो तो चाणूसे लड़नेके लिये ये हरि आगे बढ़ रहे हैं; क्या इन्हें लड़ानेवाले कोई भी बड़े-बूढ़े नहीं हैं?" ॥ ५९ ॥ 'कहाँ तो यौवनमें प्रवेश करनेवाले सुकुमार-शरीर श्याम और कर्ण वज्रके समान कठोर शरीरवाला यह भवान् असुर!' ॥ ६० ॥ ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीरवाले हैं, [किंतु इनके प्रतिपक्षी] ये चाणूर आदि दैत्य मल्ल अत्यन्त दारुण हैं ॥ ६१ ॥ मल्लयुद्धके परीक्षकगणोंका यह बहुत बड़ा अन्याय है जो ये गन्धरव्य होकर भी इन बालक और बलवान् मल्लोंके बीच युद्ध करा रहे हैं ॥ ६२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—नगरकी स्त्रियोंके इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान् कृष्णचन्द्र अपनी कमर कसकर उन सभरता दर्शकोंके बीचमें पृथिवीको कम्पायमान करते हुए रंगभूमिमें कूद पड़े ॥ ६३ ॥ श्रीबलभद्रजी भी अपने भुजगण्डोंको टोंकते हुए अति मनोहरभावसे उछलने लगे। इस समय उनके पद-पदपर पृथिवी तैली पटी, सही बड़ आश्चर्य है ॥ ६४ ॥

तदनन्तर अमित-विक्रम कृष्णचन्द्र चाणूरके साथ और इन्द्रयुद्धकुशल वक्षस मुष्टिक बलभद्रके साथ युद्ध करने लगे ॥ ६५ ॥ कृष्णचन्द्र चाणूरके साथ परस्पर चिड़कर,

पादोद्धृतैः प्रमृष्टैश्च तथोर्ध्वमुद्धमभुन्महन् ॥ ६७
 अशस्त्रमतिघोरं तत्तथोर्ध्वमुद्धं सुदारुणम् ।
 घलप्राणधिनिष्ठाद्यं समाजोत्सवसन्निधी ॥ ६८
 सावद्यावच्च चाणूरो मुयुधे हरिणा सह ।
 प्राणहानिमवापाश्रयां तावन्नावल्लवाल्लवम् ॥ ६९
 कृष्णोऽपि युयुधे तेन स्तिलयैव जग्मन्मवः ।
 खेदाच्चालयता कोपान्निजशेखरकेसरम् ॥ ७०
 बलक्षयं विवृद्धं च दृष्ट्वा चाणूरकृष्णयोः ।
 वारयामास तूर्धाणि कंसः कोपपरायणः ॥ ७१
 मृदङ्गादिषु तूर्धेषु प्रतिषिद्धेषु तत्क्षणात् ।
 खे सङ्गतान्यलाञ्छन्त देवतूर्धाण्यनेकशः ॥ ७२
 जय गोविन्द चाणूरं जहि केशव दानवम् ।
 अन्नार्द्धानिगता देवास्तमुचुरनिर्हर्षिताः ॥ ७३
 चाणूरेण चिरं कालं क्रीडित्वा मधुसूदनः ।
 उत्थाप्य धामयामास तद्दधाय कृतोद्धमः ॥ ७४
 धामयित्वा शतगुणं दैत्यमल्लमभिन्नजित् ।
 भूमावास्फोटयामास गगने गतजीवितम् ॥ ७५
 भूमावास्फोटितस्तेन चाणूरः शतधाभवत् ।
 रक्तस्त्रावमहापङ्क्यां चकार च तदा भुवम् ॥ ७६
 बलदेवोऽपि तत्कालं मुष्टिकेन महाबलः ।
 युयुधे दैत्यमल्लेन चाणूरेण यथा हरिः ॥ ७७
 सोऽप्येवं मुष्टिना पृथि्वीं वक्षस्याहत्य जाभुना ।
 पातयित्वा धरापृष्ठे निधिपेष गतायुषम् ॥ ७८
 कृष्णस्तोशलकं भूयो मल्लराजं यष्टवल्म ।
 वाममुष्टिप्रहारेण पातयामास भूतसे ॥ ७९
 घाणूरे निहते मल्ले मुष्टिके विनिपातिते ।
 नीते क्षयं तोशलके सर्वे मल्लाः प्रदुह्वुः ॥ ८०
 चवत्यातुस्ततो रंगे कृष्णसङ्घर्षणासुभी ।
 समानवयसो गोपान्बलादाकृष्य हर्षितौ ॥ ८१

नीचे गिरकर, उछालकर, घुँसे और वज्रके समान फोड़नी मारकर, पैरोंसे ठोकर मारकर तथा एक-दूसरेके अंगोंको रगड़कर लड़ने लगे । उस समय उनमें महान् युद्ध होने लगा ॥ ६६-६७ ॥

इस प्रकार उस समाजोत्सवके समीप केवल बल और प्राणशक्तिये ही सम्मन होनेवाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ ॥ ६८ ॥ चाणूर जैसे-जैसे भगवान्से भिड़ता गया जैसे-ही-वैसे उसके प्राणशक्ति धोड़ी-धोड़ी करके अत्यन्त खीण होती गयी ॥ ६९ ॥ जगन्मय भगवान् कृष्ण भी, श्रम और कोपके कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषणमें लगे हुए केशरको हिलानेवाले उस चाणूरसे लीलापूर्वक लड़ने लगे ॥ ७० ॥ उस समय चाणूरके बलका क्षय और कृष्णचन्द्रके बलका उदय देख कंसने खौझकर तूर्ध आदि जागे बन्द कर दिये ॥ ७१ ॥ रंगभूमिमें मृदंग और तूर्ध आदिके बन्द हो जानेपर आकाशमें अनेक दिव्य तूर्ध एक साथ बजने लगे ॥ ७२ ॥ और देवगण अत्यन्त हर्षित होकर अलाभितभावंसे कहने लगे—“हे गोविन्द ! आपकी जय हो । हे केशव ! आप शीघ्र ही इस चाणूर दानवको मार डालिये ।” ॥ ७३ ॥

भगवान् मधुसूदन बहुत दैरक्ष चाणूरके साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करनेके लिये उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया ॥ ७४ ॥ शत्रुविजयी श्रीकृष्णचन्द्रने उस दैत्य मल्लको सैकड़ों बार घुमाकर आकाशमें ही दिर्बोव हो जानेपर पृथिवीपर पटक दिया ॥ ७५ ॥ भगवान्के द्वारा पृथिवीपर गिराये जाते ही चाणूरके शरीरके सैकड़ों टुकड़े हो गये और उस समय उसने रक्तस्त्रावसे पृथिवीको अत्यन्त कीचड़मय कर दिया ॥ ७६ ॥ इधर, जिस प्रकार भगवान् कृष्ण चाणूरसे लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्रजी भी उस समथ दैत्य मल्ल मुष्टिकसे भिड़े हुए थे ॥ ७७ ॥ बलराजजीने उसके मस्तकपर घुँसोंसे तथा वज्रःस्थलमें जानुसे प्रहार किया और उस गतायु दैत्यको पृथिवीपर पटककर खँद डाला ॥ ७८ ॥

उदनन्तर श्रीकृष्णचन्द्रने मल्लयली मल्लराज तोशलको धार्य हाथसे घुँसा मारकर पृथिवीपर गिरा दिया ॥ ७९ ॥ मल्लश्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिकके मारे जानेपर तथा मल्लराज तोशलके नष्ट होनेपर समस्त मल्लगण भाग गये ॥ ८० ॥ तब कृष्ण और संकर्षण अपने सपवयस्क गोपोंको बलपूर्वक खींचकर [आलिंगन करते हुए] हर्षसे रंगभूमिमें उल्लसने लगे ॥ ८१ ॥

कंसोऽपि कोपरन्नाक्षः प्राहो ज्वैर्व्यायतानरान् ।
 गोपाक्षेती समाज्जीघामिष्कामयेतां बलनादितः ॥ ८२
 चन्दोऽपि गुह्यतां पापो निर्गलैरायसैरिह ।
 अशुद्धार्हेण दण्डेन वसुदेवोऽपि सध्यताम् ॥ ८३
 बलान्ति गोपाः कृष्णेन ये धेमे सहिताः पुरः ।
 गावो निगृह्यतामेवां यच्चास्ति क्षसु किञ्चन ॥ ८४
 एवमाज्ञापयन्तं तु प्रहस्य मधुसूदनः ।
 उत्प्लुत्यारुह्य तं भर्ज्वं कंसं जग्राह वेगतः ॥ ८५
 केशेष्वाकृष्य विगलत्किरीटमवनीतले ।
 स कंसं पातयामास तस्योपरि पपात च ॥ ८६
 अशेषजगदाधारगुरुणा पततोपरि ।
 कृष्णेन त्याजितः प्राणानुग्रसेनात्मजो नृपः ॥ ८७
 भूतस्य केशेषु तदा गृहीत्वा मधुसूदनः ।
 चर्कर्यं देहं कंसस्य रङ्गमध्ये महाबलः ॥ ८८
 गौरवेणातिमहता परिधा तेन कृष्यता ।
 कृता कंसस्य देहेन योगेनेव महाभ्रसः ॥ ८९
 कंसं गृहीते कृष्णेन तद्भाताऽभ्यागतो रुधा ।
 सुमाली बलभद्रेण लीलैर्बल निपातितः ॥ ९०
 ततो ह्यहाकृतं सर्वमासीत्तद्भ्रमण्डलम् ।
 अवज्ञया हतं दुष्ट्या कृष्णेन मधुरेश्वरम् ॥ ९१
 कृष्णोऽपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सत्वरः ।
 देवक्याश्च महाबाहुर्बलदेजसहायवान् ॥ ९२
 उत्थाप्य वसुदेवस्तं देवकीं च जनार्दनम् ।
 स्मृतबन्धोक्तवचनौ तावेव प्रणती स्थितौ ॥ ९३

श्रीवसुदेव उवाच

प्रसीद सीदतां दत्तो देवानां यो वरः प्रभो ।
 तथावयोः प्रसादेन कृतोद्धारस्स केशव ॥ ९४
 आराधितो यद्भगवानवतीर्णो गृहे मम ।
 दुर्वृत्तनिधनाद्याय तेन नः पावितं कुलम् ॥ ९५
 त्वमन्तः सर्वभूतानां सर्वभूतमयः स्थितः ।
 प्रवर्तते समस्तात्मस्त्वतो भूतभविष्यती ॥ ९६

तदनन्तर कंसने क्रोधसे नेत्र लाल करके वहाँ एकवित्त हुए पुरुषोंसे कहा—“अरे! इस समाजसे इन ग्वालबालोंको बलपूर्वक निकाल दो ॥ ८२ ॥ पापी चन्दको लोहेकी शृंखलामें बाँधकर गकट लो तथा वृद्ध पुरुषोंके अयोग्य दण्ड देकर वसुदेवको भी मार डालो ॥ ८३ ॥ मैं सामने कृष्णके साथ ये जितने गोगवालक उछल रहे हैं इन सबको भी मार डालो तथा इनको गौरु और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो” ॥ ८४ ॥ जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्रीमधुसूदन ईशते-हँसते उछलकर मंचपर दड़ गये और शीघ्रतासे उसे पकड़ लिया ॥ ८५ ॥ भगवान् कृष्णने उसके केशोच्छो खींचकर उसे पृथिवीपर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े, इस समय उसका मुकुट सिरसे छिसककर अलग जा पड़ा ॥ ८६ ॥ सम्पूर्ण जातके आधार भगवान् कृष्णके ऊपर गिरते ही उग्रसेनात्मज राजा कंसने अपनं प्राण छोड़ दिधे ॥ ८७ ॥ तब महाबली कृष्णचन्द्रने पूनाक कंसके केश पकड़कर उसके देहको रंगभूमिमें मसोटा ॥ ८८ ॥ कंसका देह बहुत भारी था, इसलिये उसे घसीटनेसे जलके मत्तान् वेगसे हुई दराखे समान पृथिवीपर परिधा वन गयी ॥ ८९ ॥

श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा कंसके पकड़ लिधे जानेपर उसके गार्ह क्षुपाखीने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया ॥ उसे बसारापनीने लीलासे ही मार डाला ॥ ९० ॥ इस प्रकार मधुरापति कंसको कृष्णचन्द्रद्वारा अवज्ञापूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमिमें उपस्थित सम्पूर्ण जनता हाहाकार करने लगी ॥ ९१ ॥ उसी समय महाबाहु कृष्णचन्द्र बलदेवजी-सहित वसुदेव और देवकीके चरण पकड़ लिये ॥ ९२ ॥ तब वसुदेव और देवकीको पूर्वजन्ममें कहे हुए भगवद्वाक्योंका स्मरण हो आया और उन्होंने श्रीजनार्दनको पृथिवीपरसे उठा लिया तथा उनके सामने प्रणतभावसे खड़े हो गये ॥ ९३ ॥

श्रीवसुदेवजी बोले—हे प्रभो! अब आप हमपर प्रसन्न होइये। हे केशव! आपने आर्त देवगणोंको जो वर दिया था, वह हम दोनोंपर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया ॥ ९४ ॥ भगवन्! आपने जो मेरी आराधनासे दुष्टजनोंके नाशके लिये मेरे धरमें जन्म लिया, उससे हमारे कुलको पवित्र कर दिया है ॥ ९५ ॥ आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतोंके भीतर स्थित हैं। हे समस्तात्मन्! पूत और भविष्यत् आपहीसे प्रवृत्त होते हैं ॥ ९६ ॥

घञ्जेस्त्वमिच्छसेऽचिन्त्य सर्वदेवमयाच्युत ।
 त्वमेव यज्ञो यष्टा च यच्चनां परमेश्वर ॥ ९७
 समुद्भवस्समस्तस्य जगतस्त्वं जनार्दन ॥ ९८
 सापहृषं मम मनो यदेतत्त्वयि जायते ।
 देवैश्चाश्चात्मजप्रीत्या तदत्यन्तविद्वय्या ॥ ९९
 त्वं कर्ता सर्वभूतानामनादिनिधनो भवान् ।
 त्वां मनुष्यस्य कस्यैवा जिह्वा पुत्रेति यक्षयति ॥ १००
 जगदेतज्जगन्नाथ सम्भूतमखिलं यतः ।
 क्वा युक्त्वा किना भावो सोऽस्मत्तः सम्भविष्यति ॥ १०१
 यस्मिन्प्रतिष्ठितं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् ।
 स कोऽतोत्सङ्गशयनो मानुषो जायते कथम् ॥ १०२
 स त्वं प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्व-
 मंशावतारकरणैर्न ममासि पुत्रः ।
 आश्रहापादपमिदं जगदेतदीश
 स्वत्तो विमोहयसि किं पुरुषोत्तमास्मान् ॥ १०३
 मायाविमोहितदृशा तनयो ममेति
 कंसाद्भयं कृतमपास्तभयात्तिनीशम् ।
 नीतोऽसि गोकुलमरातिभयाकुलेन
 वृद्धिं गतोऽसि मम नास्ति ममत्वमीश ॥ १०४
 कर्माणि रुद्रमरुदशिवशतक्रतूनां
 साध्यानि यस्य न भवन्ति निरीक्षितानि ।
 त्वं विष्णुरीश जगतामुपकाररहेतोः
 प्राप्नोऽसि नः परिगतो विगतो हि मोहः ॥ १०५

हे अचिन्त्य! हे सर्वदेवमय! हे अच्युत! समस्त
 यज्ञोंसे आश्रहेका यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर!
 आप ही यज्ञ करनेवालोंके यष्ट्य और यज्ञस्वरूप
 हैं ॥ ९७ ॥ हे जनार्दन! आप तो सम्पूर्ण जगत्के उत्पत्ति-
 स्थान हैं, आपके प्रति पुत्र्यात्सत्त्वके कारण जो मेरा
 और देवकोंका चित्त भ्रान्तियुक्त हो रहा है यह बड़ी
 ही हींसोंको बात है ॥ ९८-९९ ॥ आप आदि और
 अन्तसे रहित हैं तथा समस्त प्राणियोंके उत्पत्तिकर्ता
 हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिह्वा आपको 'पुत्र'
 कहकर सम्बोधन करेगी? ॥ १०० ॥

हे जगन्नाथ! जिन आपसे यह सम्पूर्ण जगत्
 उत्पन्न हुआ है वही आप बिना मायाशक्तिके और
 किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकती हैं ॥ १०१ ॥
 जिसमें सम्पूर्ण रथावर-जंगम जगत् स्थित है वह प्रभु
 कुक्षि (कोख) और गोदमें शयन करनेवाला मनुष्य
 कैसे हो सकता है? ॥ १०२ ॥

हे परमेश्वर! वही आप हमपर प्रसन्न होइये और
 अपने अंशावतारसे विश्वकी रक्षा कीजिये। आप मेरे पुत्र
 नहीं हैं। हे ईश! ब्रह्मसे लेकर वृक्षादिपर्यन्त यह सम्पूर्ण
 जगत् आपहीसे उत्पन्न हुआ है, फिर हे पुरुषोत्तम! आप
 हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? ॥ १०३ ॥ हे निर्भय! 'आप
 मेरे पुत्र हैं' इस मायासे मोहित होकर मैंने कंससे अत्यन्त
 भय माना था और उस शत्रुके भयसे ही मैं आपको गोकुल
 से गया था। हे ईश! आप वही रहकर इतने बड़े हुए हैं,
 इसलिये अब आपमें मेरी ममता नहीं रहती है ॥ १०४ ॥
 अशक्त मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र,
 मरुद्गण, अश्विनोकुमार और इन्द्रके लिये भी साध्य
 नहीं हैं। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश! [मैंने
 निश्चयपूर्वक जान लिया है कि] आप साक्षात् श्रीविष्णुभगवान्
 ही जगत्के उपकारके लिये प्रकट हुए हैं ॥ १०५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशो विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

इक्कीसवाँ अध्याय

उग्रसेनका राज्याभिषेक तथा भगवान्का विद्याध्ययन

श्रीपराशर उवाच

तीं समुत्पन्नविज्ञानीं भगवत्कर्मदर्शनात् ।
 देवकीवसुदेवीं तु दृष्ट्वा मायां पुनर्हरिः ।
 मोहाय यदुचक्रस्य विततान स वैष्णवीम् ॥ १
 उवाच चाप्य हे तात त्विरादुत्कण्ठितेन मे ।
 भवन्तीं कंसभीतेन दृष्टीं सङ्कर्षणेन च ॥ २
 कुर्वतां याति यः कालो मातापित्रोरपूजनम् ।
 तत्खण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां हि जायते ॥ ३
 गुरुदेवद्विजातीनां मातापित्रोरपूजनम् ।
 कुर्वतां सफलः कालो देहिनां तात जायते ॥ ४
 तत्क्षन्तव्यमिदं सर्वमतिक्रमकृतं पितः ।
 कंसवीर्यप्रतापाभ्यामावयोः परवश्ययोः ॥ ५

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वाथ प्रणम्योर्ध्वं यदुवृद्धाननुक्रमात् ।
 यथावदधिपूज्याथ चक्रतुः पौरमाननम् ॥ ६
 कंसपत्न्यस्ततः कंसं परिवार्यं हतं भुवि ।
 विलेपुर्मातरश्चास्य दुःखशोकपरिस्तुताः ॥ ७
 षड्प्रकारमत्यर्थं पश्चात्तापरातुरो हरिः ।
 तास्समाश्र्वासायमास स्वयमस्त्राविलेक्षणः ॥ ८
 उग्रसेनं ततो बन्धान्मुमोच मधुसूदनः ।
 अभ्यसिञ्चत्तदैवैर्न निजरान्ये इतात्मजम् ॥ ९
 राज्येऽभिषिक्तः कृष्णेन यदुसिंहस्मृतस्य सः ।
 चकर प्रेतकार्याणि ये चान्ये तत्र घासिताः ॥ १०
 कृतौर्द्वैवदैहिकं चैनं सिंहासनगतं हरिः ।
 उवाचाज्ञापय विभो वत्कार्यमविशङ्कितः ॥ ११
 ययातिशापाद्देशोऽयमरान्याहोऽपि साम्प्रतम् ।
 मथि भृत्ये स्थिते देवानाज्ञापयतु किं नृपैः ॥ १२

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा सोऽस्मरह्यायुमाजगाम च तत्क्षणात् ।
 उवाच चैनं भगवान्केशवः कार्यमानुषः ॥ १३

श्रीपराशरजी बोले— अपने अति अद्भुत कर्मोंको देखनेसे वसुदेव और देवकीको विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान्ने यदुवृद्धियोंको मोहित करनेके लिये अपनी वैष्णवी पायका त्रिरत्नर किया ॥ १ ॥ और बोले— "हे यात! हे पितारजी! बलरामजी और मैं बहुत दिनोंसे कंसके भयसे छिपे हुए आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित थे, सो आज आपका दर्शन हुआ है ॥ २ ॥ जो समय जाता-पिताको सेवा किये विना बीतता है वह असाधु पुरुषोंको ही आयुका श्राग व्यर्थ जाता है ॥ ३ ॥ हे तात! गुरु, देव, ब्राह्मण और गाथा पितारका पूजन करते रहनेसे देहभारियोंका जीवन सफला हो जाता है ॥ ४ ॥ अतः हे तात! कंसके वीर्य और प्रतापसे भीत २५ परवशोंसे जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा करें ॥ ५ ॥

श्रीपराशरजी बोले— राम और कृष्णने इस प्रकार वरु मत्ता-पिताको प्रणाम किया और फिर ऋगणः समस्त यदुवृद्धोंका यथायोग्य अभिवादन कर पूरवासियोंका सम्मान किया ॥ ६ ॥ उस समय कंसकी पत्नियों और माताएँ पृथिवीपर पड़े हुए मृतक कंसको मेरफर दुःख-शोकसे पूर्ण हो विलाप करने लगीं ॥ ७ ॥ तब कृष्णचन्द्रने भी अत्यन्त पश्चात्तापसे विह्वल हो स्वयं आँसुओंमें आँसु परकर उन्हें अनेकों प्रकारसे ढाँहलें बैठाया ॥ ८ ॥

तदनन्तर श्रीमधुसूदनने उग्रसेनको बन्धनसे मुक्त किया और पुत्रके मारि जानेपर उन्हें अपने राज्यपरदपर अभिषिक्त किया ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णसङ्कष्टर राज्याभिषिक्त होकर यदुवृद्ध उग्रसेनने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहाँ पारे गये थे, उन सबके और्ध्वदैहिक कर्म किये ॥ १० ॥ और्ध्वदैहिक कर्मोंसे निवृत्त होनेपर सिंहासनारूढ़ उग्रसेनसे श्रीहरि बोले— "हे विभो! हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिये हमें निश्चयक होकर आज्ञा दीजिये ॥ ११ ॥ ययातिको ज्ञाप होनेसे यद्यपि हमारा वंश उग्यका अधिकारी नहीं है तथापि इस समय मुझ दासके रहते हुए राजाओंको तो क्या, आप देवताओंको भी आज्ञा दे सकते हैं ॥ १२ ॥

श्रीपराशरजी बोले— उग्रसेनसे इस प्रकार कह [धर्मसंस्थापनादि] कर्मोंसिद्धिके लिये मनुष्यरूप धारण करने-वाले भगवान्ने कृष्णने चायुका स्मरण किया और यह उससे सम्झ वहाँ उपस्थित हो गया । तब भगवान्ने उससे कहा— ॥ १३ ॥

गच्छेदे वृहि वायो त्वमसं गर्वेण यासथ ।
 दीयतापुत्रसेनाय सुधर्मा भवता सभा ॥ १४
 कृष्णो ब्रवीति राजार्हमेतद्रत्नमनुत्तमम् ।
 सुधर्माख्यसभा युक्तमस्यां यदुभिरासितुम् ॥ १५

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तः पवनो यत्वा सर्वमाह शचीपतिम् ।
 ददौ सोऽपि सुधर्माख्यां सभां वायोः पुन्दरः ॥ १६
 वायुना चाह्लां दिव्यां सभां ते यदुपुङ्गवाः ।
 बुभुक्षुस्सर्वरत्नाढ्यां गोविन्दभुजसंश्रयाः ॥ १७
 विदितखिलचिज्ञानी सर्वज्ञानमयावपि ।
 शिष्याचार्यकर्म वीरौ ख्यापयन्तौ यदुत्तमौ ॥ १८
 ततस्सान्दीपनिं काश्यपमवन्तिपुरवासिनम्
 विद्यार्थं जन्ममुखांस्तौ कृतोपनयनकामी ॥ १९
 वेदाभ्यासकृतप्रीती सङ्कर्षणजनार्दनी ।
 तस्य शिष्यत्वमभ्येत्य गुरुशुभियरी हि ती ।
 दर्शयाञ्चक्रतुर्षीरासाचारमखिले जने ॥ २०
 सरहस्यं धनुर्वेदं समद्ग्रहमधीयताम् ।
 अहोरात्रचतुष्पष्ट्या तदद्भुतमभूदद्विज ॥ २१
 सान्दीपनिरसम्भाव्यं तयोः कर्मातिमानुषम् ।
 विचिन्त्य ती तदा मेने प्राप्तां चन्द्रदिवाकरौ ॥ २२
 साङ्गांश्च चतुरो वेदान्सर्वशास्त्राणि चैव हि ।
 अस्त्रग्राममशेषं च प्रोक्तमात्रमवाप्य ती ॥ २३
 ऊघतुर्वियतां या ते दातव्या गुरुदक्षिणा ॥ २४
 सोऽप्यतीन्द्रियमालोक्य तयोः कर्म महापतिः ।
 अघाततं मृतं पुत्रं प्रभासे लवणार्णवे ॥ २५
 गृहीतास्तौ ततस्तौ तु सार्धं हस्तौ महोदधिः ।
 उवाच न मया पुत्रो हतस्सान्दीपनेरिति ॥ २६
 दैत्यः पञ्चजनो नाम शङ्करूपस्य बालकम् ।
 जग्राह योऽस्ति सलिले ममैवासुरसूदन ॥ २७

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तोऽन्तर्जले गत्वा हत्वा पञ्चजनं च सप्तम् ।
 कृष्णो जग्राह तस्यास्थिप्रभवं शङ्कमुत्तमम् ॥ २८

“हे वायो! तुम जाओ और इन्द्रसे कहो कि हे वासव! व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेनको अपनी सुधर्मा नामकी सभा दो ॥ १४ ॥ कृष्णचन्द्रकी आज्ञा है कि यह सुधर्मा-सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजाके ही योग्य है इसमें यादवोंका विरातानाम होना उपयुक्त है” ॥ १५ ॥

श्रीपराशरजी बोले— भगवन्तुम् ऐसी आज्ञा होनेपर वायुने यह सारा समाचार इन्द्रसे जाकर कह दिया और इन्द्रने भी तुरन्त ही अपनी सुधर्मा नामकी सभा वायुको दे दी ॥ १६ ॥ वायुद्वारा लायी हुई उस सर्वरत्न-सम्पन्न दिव्य सभाका सम्पूर्ण भोग ये यदुष्क्रेष्ट श्रीकृष्णचन्द्रकी भुजाओंके आश्रित रहकर करने लगे ॥ १७ ॥

तदनन्तर सगररा विद्वानोंको जानते हुए और सर्वज्ञान-सम्पन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु-शिष्य-सम्बन्धको प्रकाशित करनेके लिये उपनयन-संस्कारके अनन्तर विद्यापाजनके लिये काशीमें उत्पन्न हुए अवन्तिपुरवासी सान्दीपनि मुनिके यहाँ गये ॥ १८-१९ ॥ और संकर्षण और जनार्दन सान्दीपनिका शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यासपरायण हो यथायोग्य गुरुशुभ्यादिमें प्रवृत्त रह सम्पूर्ण लोकोंको चर्योचित शिष्याचार प्रदर्शित करने लगे ॥ २० ॥ हे द्विज! यह वदो आश्चर्यकी बात हुई कि उन्होंने केवल चौंसठ दिनोंमें रहस्य (अस्त्र-यन्त्रोपनिषद्) और संग्रह (अस्त्रप्रयोग)-के सहित सम्पूर्ण धनुर्वेद सीख लिया ॥ २१ ॥ सान्दीपनिने जब उनके इस असम्भव और अतिमानुष-कर्मको देखा तो यही सभझा कि साक्षात् सूर्य और चन्द्रमा ही मेरे घर आ गये हैं ॥ २२ ॥ उन दोनोंने अंगांसहित चारों वेद, सम्पूर्ण शास्त्र और सब प्रकारकी अस्त्रविद्या एक धार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजीसे कह्य—“कहिये, आपको क्या गुरुदक्षिणा दें ?” ॥ २३-२४ ॥ महापति सान्दीपनिने उनके अतीन्द्रिय-कर्म देखकर प्रभासक्षेत्रके खारे समुद्रमें डूबकर मेरे हुए अपने पुत्रको माँगा ॥ २५ ॥ तदनन्तर जब वे शास्त्र ग्रहणकर समुद्रके पास पहुँचें तो समुद्र अर्ध्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहे—“मैंने सान्दीपनिका पुत्र हरण नहीं किया ॥ २६ ॥ हे दैत्यपवन! मेरे जलमें ही पंचजन नामक एक दैत्य शंकरूपसे रहता है; उसीने उस बालकको पकड़ लिया था” ॥ २७ ॥

श्रीपराशरजी बोले— समुद्रके इस प्रकार कहनेपर कृष्णचन्द्रने जलके भीतर जाकर पंचजनका वध किया और उसकी अस्थियोंसे उत्पन्न हुए संकर्षण से लिया ॥ २८ ॥

यस्य चादेन दैत्यानां बलहानिरजायत ।
 देवानां चवृक्षे तेजो यात्यधर्मश्च सङ्क्षयम् ॥ २९
 तं पाञ्चजन्यमापूर्वं गत्वा यमपुरं हरिः ।
 बलदेवश्च बलवाञ्जित्स्त्वा वैशस्वतं यमम् ॥ ३०
 तं बालं यातनसंस्थं यथापूर्वशरीरिणम् ।
 पित्रे प्रदत्तवान्कृष्णो बलश्च बलिमां वरः ॥ ३१
 मथुरां च पुनः प्राप्तावुग्रसेनेन पालिताम् ।
 प्रहृष्टपुरुषस्वीकामुभौ रामजनार्दनी ॥ ३२

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

बाईसवाँ अध्याय

जरासन्धकी घराजय

श्रीपराशर उवाच

जरासन्धसुते कंस उपशेमे महाबलः ।
 अस्ति प्रापितं च मैत्रेय तद्योर्भर्तृहणं हरिम् ॥ १
 महाबलपरीवारो मगधाधिपतिर्बली ।
 हन्तुमध्याययीं कोपाञ्जरासन्धस्सयादधम् ॥ २
 उषेत्य मथुरां सोऽथ रुरोध मगधेश्वरः ।
 अक्षीहिणीभिस्सैन्यस्य त्रयोविंशतिभिर्वृतः ॥ ३
 निष्क्रम्यात्परीवारसुभौ रामजनार्दनी ।
 युयुधाते समं तस्य बलिनीं बलिसैनिकैः ॥ ४
 ततो रामश्च कृष्णश्च मत्तिं चक्रन्तुरञ्जसा ।
 आयुधानां पुराणानामादाने मुनिसत्तम ॥ ५
 अनन्तरं ह्येकशाङ्गं तूष्णीं चाक्षयसायकी ।
 आकाशाद्वगती विप्र तथा कौमोदकी गदा ॥ ६
 ह्यनं च बलभद्रस्य गगनादागतं महत् ।
 मनसोऽभिमतं विप्र सुनन्दं मुसलं तथा ॥ ७
 ततो मुद्धे पराजित्य ससैन्यं मगधाधिपम् ।
 पुरीं विविशतुर्वीरासुभौ रामजनार्दनी ॥ ८
 जिते तस्मिन्सुदुर्वृत्ते जरासन्धे महामुने ।
 जीवमाने गते कृष्णस्तेनामन्यत नाजितम् ॥ ९

जिसके शब्दसे दैत्योंका बल नष्ट हो जाता है, देवताओंका तैब बढ़ता है और अधर्मका क्षय होता है ॥ २९ ॥ तदनन्तर उस पांचजन्य शंखको बजाने हुए श्रीकृष्णचन्द्र और बलवान् बलराम यमपुरको गये और सूर्यपुत्र यमको जोतकर यमयातना भोगते हुए उस बालकको पूर्ववत् शरीरसुत्कर उसके पिताको दे दिया ॥ ३०-३१ ॥

इसके उपरान्त वे राम और कृष्ण रामा उग्रसेन्द्रग परिपालित मथुरापुरीमें, जहाँके 'स्त्री-पुरुष [उनके आगमन्से] आनन्दित हो रहे थे, पधारे ॥ ३२ ॥

श्रीपराशरजी बोले— हे मैत्रेय! महाबली कंसने जरासन्धकी पुत्री अस्ति और प्रापितसे विचार किया था, अतः वह अत्यन्त बलिष्ठ मगधराज प्रीधपूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियोंके स्वामी कंसको मारनेवाले श्रीहरिको यादवोंके सहित मारनेको दृष्ट्यसे मथुरापर चढ़ आया ॥ १-२ ॥ मगधेश्वर उग्रसेनने तेईस अक्षीहिणी सेनाके सहित आकर मथुराको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३ ॥

तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ो-सो सेनाके साथ नगरसे निकलकर जरासन्धके प्रबल सैनिकोंसे युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! उस समय राम और कृष्णने अपने पुरातन शस्त्रोंको ग्रहण करनेका विचार किया ॥ ५ ॥ हे विप्र! हरिके स्मरण करते ही उनका शार्ङ्ग धनुष, अक्षय आणसुक्त दो तरकरा और कौमोदकी नामकी गदा आकाशसे आकर उपस्थित हो गये ॥ ६ ॥ हे द्विज! बलभद्रजीके पास भी उनकर मनीर्वाचित महान् हल और सुनन्द नामक मूसल आकाशसे आ गये ॥ ७ ॥

तदनन्तर दोनों वीर राम और कृष्ण सेनाके सहित मगधराजको युद्धमें हराकर मथुरापुरीमें चले आये ॥ ८ ॥ हे महामुने! दुराचारी जरासन्धको जीव लेनेपर भी उसके जीवित रहने जानेके कारण कृष्णचन्द्रने अपनेको अपराजित नहीं समझा ॥ ९ ॥

पुनरप्याजगामाथ जरासन्धो बलान्वितः ।
 जितश्च रामकृष्णाभ्यामपक्रान्तो द्विजोत्तम ॥ १०
 दश चाष्टौ च सङ्ग्रामानेवमत्वन्तदुर्मदः ।
 यदुभिर्भागधो राजा शक्रे कृष्णापुरोगमैः ॥ ११
 सर्वेष्वेतेषु युद्धेषु यादवैस्स पराजितः ।
 अपक्रान्तो जरासन्धस्वरूपसैन्यैर्बलाधिकः ॥ १२
 न तद्वत् यादवानां विजितं यदनेकशः ।
 तनु सन्निधिमाहात्म्यं विष्णोरंशस्य शक्तिणः ॥ १३
 मनुष्यधर्मशीलस्य लीला सा जगतीपतेः ।
 अस्त्राण्यनेकरूपाणि यदरातिषु मुञ्चति ॥ १४
 मनसैव जगत्सृष्टिं संहरं च करोति यः ।
 तस्यारिपक्षक्षपणे कियानुद्यमविस्तरः ॥ १५
 तथापि यो मनुष्याणां धर्मस्तपनुवर्तते ।
 कुर्वन्बलवता सन्धिं हीनैर्बुद्धं करोत्यसौ ॥ १६
 साम शोपप्रदानं च तथा भेदं च दर्शयन् ।
 करोति दण्डपातं च क्वचिदेव पलायनम् ॥ १७
 मनुष्यदेहिनां चेष्टामित्येवमनुवर्तते ।
 लीला जगत्पतेस्तस्यच्छन्दतः परिवर्तते ॥ १८

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

तेईसवाँ अध्याय

हारका-दुर्गाकी रचना, कालयवनका भस्म होना तथा मुचुकुन्दकृत भगवत्तुति

श्रीपराशर उवाच

गार्ग्य गोष्ठ्यां द्विजं श्शालम्बण इत्युक्तवाद्द्विज ।
 यदूनां सन्निधी सर्वे जहसुर्यादवास्तदा ॥ १
 ततः क्रोपपरीतात्मा दक्षिणापथमेत्य सः ।
 सुतमिच्छंस्तपस्तेपे यदुचक्रुर्भयावहम् ॥ २
 आराधयन्महादेवं लोहचूर्णमभक्षयत् ।
 ददौ सर्ं च तुष्टोऽस्मै सर्वे तु द्वादशे हरः ॥ ३
 सन्तोषयामास च तं यवनेशो ह्यनात्पजः ।
 तद्योषित्सङ्क्रयाच्चास्य पुत्रोऽभूदलिसन्निभः ॥ ४

हे द्विजोत्तम! जरासन्ध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किन्तु राम और कृष्णसे पराजित होकर भाग गया ॥ १० ॥ इस प्रकार अत्यन्त दुर्घर्ष मगधराज जरासन्धने राम और कृष्ण आदि यादवोंसे अद्भुत बार युद्ध किया ॥ ११ ॥ इन सभी युद्धोंमें अधिक सैन्यशाली जरासन्ध थोड़ी-सी सेनावाले यदुवशियोंसे हारकर भाग गया ॥ १२ ॥ यादवोंकी थोड़ी-सी सेना भी जो [उसकी अनेक बड़ी सेनाओंसे] पराजित न हुई, यह सब भगवान् विष्णुके अंशवत्तर श्रीकृष्णचन्द्रकी सन्निधिका ही माहात्म्य था ॥ १३ ॥ उन मानवधर्मशील जगत्पतिकी यह लीला तो है जो कि वे अपने शत्रुओंपर नाना प्रपत्रके अस्त्र-शस्त्र छोड़ रहे हैं ॥ १४ ॥ जो केवल संकल्पमात्रसे ही संसारको उत्पत्ति और संहार कर देते हैं, उन्हें अपने शत्रुपक्षका नाश करनेके लिये भला उद्योग फैलानेकी कितनी आवश्यकता है? ॥ १५ ॥ तथापि वे बलशालीसे सन्धि और बलहीनसे युद्ध करके मानव-धर्मका अनुवर्तन कर रहे थे ॥ १६ ॥ वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेदनीतिका व्यवहार करते थे तथा कहीं दण्ड देते और कहींसे स्वयं भाग भी जाते थे ॥ १७ ॥ इस प्रकार मानवदेहधारियोंकी चेष्टाओंका अनुवर्तन करते हुए श्रीजगत्पतिकी अपनी इच्छानुसार लीलाएँ होती रहती थीं ॥ १८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज! एक बार महर्षि गार्ग्यसे उनके सालेने यादवोंकी गोष्ठीमें नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हरि परे ॥ १ ॥ तब गार्ग्यने अत्यन्त कुपित हो दक्षिण-समुद्रके तटपर जा यादवसेनाको भयभीत करनेवाले पुत्रकी प्राप्तिके लिये तपस्या की ॥ २ ॥ उन्होंने श्रीमहादेवजीको उपासना करते हुए केवल लौहचूर्ण भक्षण किया तब भगवान् शंकरने बारहवें वर्षमें प्रसन्न होकर उन्हें आपीष्ट वर दिया ॥ ३ ॥

एक पुत्रहीन यवनराजने महर्षि गार्ग्यकी अत्यन्त सेवाकर उन्हें सन्तुष्ट किया, उसको स्त्रीके संगसे श्री इनके एक बच्चेके समान कृष्णवर्ण बालक हुआ ॥ ४ ॥

तं कालयवने नाम राज्ये स्वे यवनेश्वरः ।
 अभिविष्य खनं यातो वज्राग्रकठिनोरसम् ॥ ५
 स तु वीर्यमदोन्मत्तः पुष्टिष्यां बलिनो नृपान् ।
 अपृच्छन्नारदस्तस्मै कक्षयामास यादवान् ॥ ६
 प्लेच्छकोटिसहस्राणां सहस्रस्योऽभिसंवृतः ।
 गजाश्वरथसम्पन्नैश्चकार परमोद्यमम् ॥ ७
 प्रययौ सोऽव्यवच्छिन्नं छिन्नयानो दिने दिने ।
 यादवान्प्रति सामर्थो मैत्रेय मधुरो पुरीम् ॥ ८
 कृष्णोऽपि चिन्तयामास क्षपितं यादवं बलम् ।
 यवनेन रणो गम्यं मागधस्य भविष्यति ॥ ९
 मागधस्य खलं क्षीपां स कालयवनो बली ।
 हनैतदेवमायातं यदूनां व्यसनं द्विधा ॥ १०
 तस्माद्दुर्गं करिष्यामि यदूनामरिदुर्जयम् ।
 स्त्रियोऽपि यत्र युद्धेयुः किं पुनर्बुध्यापुङ्गवाः ॥ ११
 मयि मत्ते प्रमत्ते वा सुप्ते प्रवसितेऽपि वा ।
 यादवाभिर्धवं दुष्टा मा कुर्वन्त्वरयोऽधिकारः ॥ १२
 इति सञ्चिन्त्य गोविन्दो योजनानां महोदधिम् ।
 यथाशे द्वादश पुरीं द्वारकां तत्र निर्ममे ॥ १३
 महोद्यानां महाघण्टां तटाकशतशोभिताम् ।
 प्रासादगृहसम्बाधामिन्द्रस्येवामरायतीम् ॥ १४
 मधुरावासिनं लोकं तत्रानीय जनार्दनः ।
 आसन्ने कालयवने मधुरां च स्वयं ययौ ॥ १५
 बहिरावासिते सैन्ये मधुराया निरायुधः ।
 निर्जगाम च गोविन्दो ददर्श यवनश्च तम् ॥ १६
 स ज्ञात्वा वासुदेवं तं बाहुप्रहरणं नृपः ।
 अनुयातो महायोगिद्यैतोभिः प्राप्यते न वः ॥ १७
 तेनानुयातः कृष्णोऽपि प्रविवेश महागुह्यम् ।
 यत्र शेते महावीर्यो मुचुकुन्दो नरेश्वरः ॥ १८

वह यवनराज उस कालयवन नामक बालकको, जिसका जख-स्थल जखके संगन कटोर था, अपने मुख्यपदपर अभिविक्त कर स्वयं वनको चला गया ॥ ५ ॥ तदनन्तर वीर्यमदोन्मत्त कालयवने नारदजीसे पूछा कि पुष्टिशीपर बलान् १५॥ कीन-कीनसे हैं ? इसपर नारदजीने उसे यादवाको जो सबसे अधिक बराशाली बतलाया ॥ ६ ॥ यह सूतकर कालयवनने हजारों घोड़े और रथोंके सहित सहस्रों करोड़ प्लेच्छसेनाको साथ ले चढ़ा भारी तैयारी को ॥ ७ ॥ और यारलोंके प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन [हाथी, घोड़े आदिके शक जानेपर] उन यादवाका त्याग करता हुआ [अन्य यादवीपर चक्कर] अविच्छिन्न-गतिसे मधुरपुरीपर चढ़ आया ॥ ८ ॥

[एक और जरासन्धका आक्रमण और दूसरी और कालयवनकी चढ़ाई देखकर] श्रीकृष्णपुत्रने सोचा— "यवनोंके साथ युद्ध करनेसे क्षीण हुई यादव-सेना अवश्य ही मगधनरेशसे पराजित हो जायगी ॥ ९ ॥ और यदि प्रथम मगधनरेशसे लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादवसेनाको बलवान् कालयवन नष्ट कर देगा । हन ! इस प्रकार यादवीपर [एक ही साथ] यह दो शत्रुकी आपत्ति आ पहुँची है ॥ १० ॥ अतः मैं यादवीके लिये एक ऐसा दुर्गय दुर्ग तैयार करता हूँ जिसमें बैठकर वृष्टिशैल यादवीकी तो बात हो क्या है, स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकें ॥ ११ ॥ उस दुर्गमें रहनेपर यदि मैं मत्त, प्रमत्त (असावधान), सोया अथवा कहीं बाहर भी गया होऊँ तब भी, अधिक-से-अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यदवाको पराभूत न कर सकें" ॥ १२ ॥

ऐसा विचारकर श्रीगोविन्दने समुद्रसे बारह योजन भूमि माँगी और उसमें द्वापरकपुरी निर्माण की ॥ १३ ॥ जो इन्द्रकी अमरावतोपुरीके समान महान् उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलोंसे सुशोभित थी ॥ १४ ॥ कालयवनके समीप आ जानेपर श्रीजनार्दन सम्पूर्ण मधुरा-निवासियोंको द्वारकामें ले आये और फिर स्वयं मधुरा शीत गये ॥ १५ ॥ जब कालयवनको सेनाने मधुराको भेर लिया तो श्रीकृष्णपुत्र बिना शस्त्र लिये मधुरासे बाहर निकल आये । तब यवनराज कालयवनने उन्हें देखा ॥ १६ ॥ महायोगीश्वरोंका निर भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता उन्हीं वासुदेवको केवल बाहुरूप शक्तियोंसे ही युक्त [अर्थात् खाली हाथ] देखकर वह उनके पीछे दौड़ा ॥ १७ ॥

कालयवनसे पीछा किये जाते हुए श्रीकृष्णपुत्र उस महा गुह्यमें घुस गये जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुन्द

सोऽपि प्रविष्टो यवनो दृष्ट्वा शय्यागतं नृपम् ।
पादेन ताडयामास मत्वा कृष्णं सुदुर्मतिः ॥ १९
उत्थाय मुचुकुन्दोऽपि ददर्श चवर्नं नृपः ॥ २०
दृष्टमाश्रय्य तेनासौ जष्याल यवनोऽग्निना ।
तत्क्रोधजेन मैत्रेय भस्मीभूतश्च तत्क्षणात् ॥ २१
स हि देवासुरे युद्धे गतो हत्वा महासुरान् ।
निद्रार्तस्मुमहाकालं निद्रां खदे खरं सुरान् ॥ २२
प्रोक्तश्च दैवैस्संसृप्तं यस्त्वामुत्थापयिष्यति ।
देहजेनाग्निना सहस्रस तु भस्मीभविष्यति ॥ २३
एवं दग्ध्वा स तं पापं दृष्ट्वा च मधुसूदनम् ।
कस्त्वमित्वाह सोऽप्याह जातोऽहं शशिनः कुले ।
वसुदेवस्य तनयो सदोर्वशसमुद्भवः ॥ २४
मुचुकुन्दोऽपि तत्रासी बृद्धगार्ग्यवज्रोऽस्मरत् ॥ २५
संस्मृत्य प्रणिपत्यैवं सर्वं सर्वेश्वरं हरिम् ।
प्राह ज्ञातो भवान्निष्पारेणशस्त्रं परमेश्वर ॥ २६
पुरा गार्ग्येण कथितमष्टाविंशतितमे युगे ।
द्वापरान्ते हरेर्जन्म यदुवंशे भविष्यति ॥ २७
स त्वं प्राप्तो न सन्देहो मर्त्यानामुपकारकृत् ।
तथापि सुमहत्तेजो नालं सोढुमहं तव ॥ २८
तथा हि सजलाम्भोदेनादधीरतरं तव ।
वाक्यं नमति चैवीवीं युष्यत्यादप्रपीडिता ॥ २९
देवासुरमहायुद्धे दैत्यसैन्यमहभटाः ।
न सेहूर्मम तेजस्ते त्वत्तेजो न सहस्रम्यहम् ॥ ३०
संसारपतितस्यैको जन्तोस्त्वं शरणां परम् ।
प्रसीद त्वं प्रपन्नार्तिहर नाशय मेऽशुभम् ॥ ३१
त्वं पयोनिधयश्शैलसरितस्त्वं वनानि च ।
षेदिनी शगनं वायुरापोऽग्निस्त्वं तथा मनः ॥ ३२
बुद्धिरव्याकृतप्राणाः प्रापोशस्त्वं तथा पुमान् ।
पुंसः परतरं यच्च व्याप्यजन्मविकारवत् ॥ ३३
शब्दादिहीनमजरममेवं क्षयवर्जितम् ।
अबुद्धिनाशं तद्गृह्य त्वमाद्यन्तविवर्जितम् ॥ ३४

सो रहा था ॥ १८ ॥ उस दुर्मति यवनने भी उस युगार्थे जाकर सोचे हुए राजाको कृष्ण सभझकर लात मारी ॥ १९ ॥ उसके लात मारनेसे उठकर राजा मुचुकुन्दने उस यवनशब्दको देखा । हे मैत्रेय । उनके देखते ही वह यवन उसकी क्रोधविनिसे जलकर भस्मीभूत हो गया ॥ २०-२१ ॥

पूर्वकालमें राजा मुचुकुन्द देवताओंकी ओरसे देवासुर-संग्राममें गये थे; असुरोंको पार चुकनेपर अत्यन्त निद्रालु होनेके कारण उन्होंने देवताओंसे बहुत सभसतक सोनेका वर माँगा था ॥ २२ ॥ उस समय देवताओंने कहा था कि तुम्हारे शयन करनेपर तुम्हें जो कोई जगावेगा यह तुम्हें ही अपने शरीरसे उत्पन्न हुई अग्निसे बलकर भस्म हो जायगा ॥ २३ ॥

इस प्रकार पापों कालयवनको दाघ कर चुकनेपर राजा मुचुकुन्दने श्रीमधुसूदनको देखकर पूछा—‘आप कौन हैं?’ तब भगवान्ने कहा—‘मैं यन्द्रवृक्षके अन्तर्गत यदुकुलमें वसुदेवजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ हूँ’ ॥ २४ ॥ तब मुचुकुन्दको बृद्ध गार्ग्य पुनिके वचनोंका स्मरण हुआ । उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्रीहरिको प्रणाम करके कहा—‘हे परमेश्वर! मैंने आपको जान लिया है; आप साक्षात् भगवान् विष्णुके अंश हैं ॥ २५-२६ ॥ पूर्वकालमें गार्ग्य मुनिने कहा था कि अद्भुतसर्वे युगमें द्वारके अन्तमें यदुकुलमें श्रीहरिका जन्म होगा ॥ २७ ॥ निस्सन्देह आप भगवान् विष्णुके अंश हैं और मनुष्योंके उपकारके लिये ही अवतारण हुए हैं तथापि मैं आपके महान् तेजको सहन करनेमें सक्षम नहीं हूँ ॥ २८ ॥ हे भगवन्! आपका शब्द सजल पेषकों घोर गर्जनके समान अति गम्भीर है तथा आपके चरणोंसे पोडिता होकर पृथिवी झुकी हुई है ॥ २९ ॥ हे देव । देवासुर-महासंग्राममें दैत्य-सैनाके बड़े-बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ संसारमें पतित जीवोंके एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं । हे शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले! आप प्रसन्न होइये और मेरे अपंगलोकको नष्ट कीजिये ॥ ३१ ॥

आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियों हैं और आप ही धन हैं तथा आप ही पृथिवी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन हैं ॥ ३२ ॥ आप ही बुद्धि, अव्याकृत, प्राण और प्राणोंका अधिष्ठाता पुरुष हैं; तथा पुरुषसे भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकारसे शून्य तत्त्व है वह भी आप ही हैं ॥ ३३ ॥ जो शब्दादिसे रहित, अजर, अमय, अज्ञय और नाश तथा बुद्धिसे रहित है, वह आद्यन्तहीन ब्रह्म भी आप ही हैं ॥ ३४ ॥

त्वत्तोऽमरास्सपितरो यक्षगन्धर्वकिन्नराः ।
 सिद्धाश्चाप्सरस्स्त्वजो मनुष्याः पशवः खगाः ॥ ३५
 सरीसृपा मृगास्सर्पे त्वत्तस्सर्वे महीरुह्यः ।
 यच्च भूतं भविष्यं च किञ्चिदत्र चराचरम् ॥ ३६
 मूर्तामूर्तं तथा चापि स्थूलं सूक्ष्मतरं तथा ।
 तत्सर्वं त्वं जगत्कर्ता नारिं किञ्चित्त्वया विना ॥ ३७
 मया संसारचक्रेऽस्मिन्भ्रमता भगवन् सदा ।
 तापत्रयाभिभूतेन न प्राप्ता निर्वृतिः क्वचित् ॥ ३८
 दुःखान्येव सुखानीति मृगतृष्णा जलाशया ।
 मया नाथ गृहीतानि तानि तापाय मेऽभवन् ॥ ३९
 राज्यमूर्धा बलं क्रौंशो मित्रपक्षस्तथात्मजाः ।
 भार्गो भृशज्जो वे च शब्दाद्य विषयाः प्रभो ॥ ४०
 सुखबुद्ध्या मया सर्वं गृहीतमिदमव्ययम् ।
 परिणामे तदेवेश तापात्मकमभून्मम ॥ ४१
 देवलोकगतिं प्राप्तो नाथ देवगणोऽपि हि ।
 मत्तस्साह्यव्यकामोऽभूच्छाश्वती कुत्र निर्वृतिः ॥ ४२
 त्वामनाराध्य जगतां सर्वेषां प्रभवास्पदम् ।
 शाश्वती प्राप्यते केन परमेश्वर निर्वृतिः ॥ ४३
 त्वन्मायामूढमनसो जन्ममृत्युजरादिकान् ।
 अवाप्य तापान्यश्नन्ति प्रेतराजमन्तरम् ॥ ४४
 ततो निजक्रियासूति नरकेष्वतिदारुणाम् ।
 प्राप्नुवन्ति नरा दुःखमस्वरूपविदस्तव ॥ ४५
 अहमत्यन्तविषयी मोहितस्तव मायया ।
 ममत्वर्गवर्गगतान्तर्भ्रमाणि परमेश्वर ॥ ४६
 सोऽहं त्वां शरणमपारमप्रमेयं
 सम्प्राप्तः परमपदं यतो न किञ्चित् ।
 संसारभ्रमपरितापतप्तघेता
 निर्वाणो परिणतध्यामि सप्रभिलाषः ॥ ४७

आपहोसे देवता, पितृगण, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आपहोसे मनुष्य, पशु, नदी, सरीसृप और पृग आदि हुए हैं तथा आपहोसे सम्पूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत-भविष्यत् चराचर जगत् है वह सब हुआ है ॥ ३५-३६ ॥ हे प्रभो! मूर्त-अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप जगत्कर्ता ही हैं, आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है ॥ ३७ ॥

हे भगवन्! तापत्रयसे आँबपूत होकर सर्वदा इस संसार-चक्रमें भ्रमण करते हुए मुझे कभी शान्ति प्राप्त नहीं हुई ॥ ३८ ॥ हे नाथ! जलकी आशासे मृतृष्णाके समान मैंने दुःखोंको ही सुख समझकर प्रलण किया था; परन्तु वे मेरे सन्तापके जो कारण हुए ॥ ३९ ॥ हे प्रभो! राज्य, पृथिवी, सेना, क्रौंश, मित्रपक्ष, पुत्रगण, स्त्रो तथा सेवक आदि और शब्दादि विषय इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख-बुद्धिसे ही अपनाया था; किन्तु हे ईश! परिणाममें वे ही दुःखरूप सिद्ध हुए ॥ ४०-४१ ॥ हे नाथ! जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओंको मेरी सहायताकी इच्छा हुई तो वस (स्वर्गलोक)-में भी कित्य-कानि कहाँ है? ॥ ४२ ॥ हे परमेश्वर! सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिके आदि-स्थान आपकी आराधना किये बिना कौन शाश्वत शान्ति प्राप्त कर सकता है? ॥ ४३ ॥ हे प्रभो! आपकी मायासे मूढ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि सन्तानोंको भोगते हुए अन्तमें यमराजका दर्शन करते हैं ॥ ४४ ॥ आपके स्वरूपको न जाननेवाले पुरुष नरकोंमें पड़कर अपने कर्मोंके फलस्वरूप नाना प्रकारके दारुण क्लेश पाते हैं ॥ ४५ ॥ हे परमेश्वर! मैं अत्यन्त विषयी हूँ और आपकी भाषासे मोहित होकर ममत्वाभिमानके गुणमें भटकता रहा हूँ ॥ ४६ ॥ वही मैं आज अपार और अप्रमेय परमपदरूप आप परमेश्वरकी शरणमें आया हूँ जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है और संसारभ्रमणके छेदसे छिन्न चित्त होकर मैं निरतिशय तेजोमय निर्वाणस्वरूप आषक हो अमित्प्रयो हूँ ॥ ४७ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

चौबीसवाँ अध्याय

मुचुकुन्दकी तपस्याके लिये प्रस्थान और बलरामजीकी ब्रजयात्रा

श्रीपराशर उवाच

इत्थं स्तुतस्तादा तेन मुचुकुन्देन धीमता ।
प्रादेशः सर्वभूतानामनादिनिधने हरिः ॥ १

श्रीभगवानुवाच

यथाभिवाञ्छितान्दिव्यान्गच्छ लोकान्तराधिप ।
अव्याहृतपरैश्शुभैर् यत्प्रसादोपबृंहितः ॥ २
भुक्त्वा दिव्यान्महाभोगान्भविष्यसि महाकुले ।
जातिस्मरो मत्प्रसादात्ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ३

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तः प्रणिपत्येशं जगतामच्युतं नृपः ।
गुह्यमुखाङ्घ्रिनिष्क्रान्तस्स ददर्शास्थकान्तरान् ॥ ४
ततः कलिद्युगं मत्वा प्राप्तं तप्तं नृपस्तपः ।
नरनारायणस्थानं प्रययौ गन्धमादनम् ॥ ५
कृष्णोऽपि घातयित्वा रिभुपादेन हि तद्वलम् ।
जग्राह मथुरामेत्य हस्त्यश्वस्यन्दनोऽखलम् ॥ ६
अनीय चोग्रसेनाय द्वारवत्यां न्यवेदयत् ।
पराभिभवनिशङ्कं बभूव च यदोः कुलम् ॥ ७

बलदेवोऽपि मैत्रेय प्रशान्ताखिलधिग्रहः ।
ज्ञातिदर्शनसौत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम् ॥ ८
ततो गोपांश्च गोपींश्च यथा पूर्वममिब्रजित् ।
तथैवाभ्यवदत्प्रेम्णा बहुमानपुरस्सरम् ॥ ९
स कैश्चित्सम्परिवृक्तः कांश्चिच्च परिधस्वजे ।
हास्यं चक्रे समं कैश्चित्पुत्रोपैर्गोपीजनैस्तथा ॥ १०
प्रियापयनेकान्ब्रह्मदन् गोपास्तत्र हलामुधम् ।
गोप्यश्च प्रेमकुपिताः प्रोचुस्सेर्षमथापराः ॥ ११
गोप्यः पप्रच्छपरा नागरीजनवल्लभः ।
कच्चिदास्ते सुखं कृष्णश्श्लोत्रेऽप्यस्यैवतमकः ॥ १२
अस्मच्छ्रेष्ठा मपहसन् कश्चित्पुरयोषिताम् ।
सौभाग्यमानमधिकं करोति क्षणसौहृदः ॥ १३

श्रीपराशरजी बोले—परम बुद्धिमान् राजा मुचुकुन्दके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वभूतोंके ईश्वर अनादिनिधन भगवान् हरि बोले ॥ १ ॥

श्रीभगवान्ने कहल—हे नरेश्वर! तुम अपने अभिमत दिव्य लोकोंको बाओ; मेरी कृपासे तुम्हें अव्याहृत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा ॥ २ ॥ वहाँ अत्यन्त दिव्य भोगोंको भोगकर तुम अन्तमें एक महान् कुलमें जन्म लोगे, उस समय तुम्हें अपने पूर्वजन्मका स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपासे तुम मोक्षपद प्राप्त करोगे ॥ ३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—भगवान्के इस प्रकार कहनेपर राजा मुचुकुन्दने जगदोश्वर श्रीअच्युतकी प्रणाम किया और गुफासे निकलकर देखा कि लोग बहुत झोटे-झूठे हो गये हैं ॥ ४ ॥ उस समय कलियुगको वर्तमान समझकर राजा तपस्या करनेके लिये श्रीनरनारायणके स्थान गन्धमादनपर्वतपर चले गये ॥ ५ ॥ इस प्रकार कृष्णचन्दने उपायपूर्वक शत्रुको नष्टकर फिर मथुरामें आ उसकी हाथी, घोड़े और रथादिसे सुशोभित सेनाको अपने पशुभूत किया और उसे द्वारकामें लाकर राजा उग्रसेनको अर्पण कर दिया। तबसे यदुवंश शत्रुओंके दमनसे निःशंक हो गया ॥ ६-७ ॥

हे मैत्रेय! इस सम्पूर्ण विग्रहके ज्ञान हो जानेपर बलदेवजी अपने बन्धुवोंके दर्शनको उत्कण्ठासे नन्दजीके गोकुलको गये ॥ ८ ॥ वहाँ पहुँचकर शत्रुबिद् युवराजजीने गोप और गोपियोंका पहलेहीकी भीति अति आदर और प्रेमके साथ अभिवादन किया ॥ ९ ॥ किसीने उनका आलिंगन किया और किसीको उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियोंके साथ उन्होंने हस-परिहास किया ॥ १० ॥ गोपोंने बलरामजीसे अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियोंमेंसे कोई प्रणयकुपित स्नेहक बोली और किन्हींने उपालम्बयुक्त आँसू भी ॥ ११ ॥

किन्हीं अन्य गोपियोंने पूछा—चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभ्रव है, वे स्नान-नारियोंके प्राणाधार कृष्ण ही आनन्दमें हैं न? ॥ १२ ॥ ये क्षणिक स्नेहवाले नन्दनन्दन हमारे चेष्टाओंका उपहास करते हुए क्या नगरकी महिलाओंके सौभाग्यका मान नहीं बढ़ाया करते? ॥ १३ ॥

कृष्णस्मरति नः कृष्णो गीतानुगमनं कलम् ।
 अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यति ॥ १४
 अथवा किं तदालापः क्रियन्तामपराः कथाः ।
 यस्यास्माभिर्विना तेन विनास्माकं भविष्यति ॥ १५
 पिता माता तथा भ्राता भर्ता बन्धुजनश्च किम् ।
 सन्त्यक्तस्तत्कृतेऽस्माभिरकृतज्ञस्वजो हि सः ॥ १६
 तथापि कृष्णदालापमिहागमनसंश्रयम् ।
 करोति कृष्णो वक्तव्यं भवता राम नानृतम् ॥ १७
 दामोदरोऽसौ योषिन्दः पूरस्त्रीसक्तमानसः ।
 अपेतप्रीतिरस्मासु दुर्दर्शः प्रतिभाति नः ॥ १८

श्रीपराशर उवाच

आमन्वितश्च कृष्णोति पुनर्दामोदरेति च ।
 जहसुस्सस्वरं गोप्यो हरिणा हतचेतसः ॥ १९
 सन्देहैस्साममथुरैः प्रेमगर्भैरगर्वितैः ।
 रामेणाश्वासिता गोप्यः कृष्णस्थातिमनोहरैः ॥ २०
 गोपैश्च पूर्ववद्रामः परिहासमनोहराः ।
 कथाश्चकार रेमे च सह तैर्व्रजभूमिषु ॥ २१

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठ्यर्धेऽंशे चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

पच्चीसवाँ अध्याय

बलभद्रजीका खज-विहार तथा यमुनाकर्षण

श्रीपराशर उवाच

वने विचरतस्तस्य सह गोपैर्महात्मनः ।
 मानुषच्छरूपस्य शेषस्य धरणीघृतः ॥ १
 निष्पादितोरुकार्यस्य कार्ययोगीप्रचारिणः ।
 उपभोगार्थमित्यर्थं वरुणाः प्राह वारुणीम् ॥ २
 अधीष्टा सर्वदा यस्य महिरे त्वं महीजसः ।
 अनन्तस्योपभोगाय तस्य गच्छ मुदे शुभे ॥ ३
 इत्युक्त्वा वारुणी तेन सन्निधानमथाकरोत् ।
 घृन्दावनसमुत्पन्नकदम्बतरुकोटरे ॥ ४

क्या कृष्णचन्द्र कभी हमारे गीतानुपायी मनोहर स्वका स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माताको भी देखनके लिये यहाँ आवेंगे? ॥ १४ ॥ अथवा अब उनको बात करनेसे हमें क्या प्रयोजन है, कोई और हाथ करो। जब उनको हमारे बिना निध गयी तो हम भी उनके बिना निधा ही लेंगे ॥ १५ ॥ क्या माता, क्या पिता, क्या बन्धु, क्या पति और क्या कुटुम्बके लोग? हमने उनके लिये सभीको छोड़ दिया, किन्तु वे तो अकृतज्ञोंकी प्यजा ही निकले ॥ १६ ॥ तथापि बलरामजी। सच-सच बतलाइये क्या कृष्ण कभी यहाँ आनेके विषयमें भी कोई बातचीत करते हैं? ॥ १७ ॥ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्णका चित्त नागरी नारियोंमें फँस गया है; हममें अब उनकी शीति नहीं है, अतः अब हटें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है ॥ १८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर श्रीहरिने जिनका चित्त हर लिया है, वे गोपियाँ बलरामजीको कृष्ण और दामोदर कहकर सम्बोधन करने लगीं और फिर वचस्वरसे हींसें लगीं ॥ १९ ॥ तब बलभद्रजीने कृष्णचन्द्रका अति मनोहर और शान्तिमय, प्रेमगर्भित और गर्वहीन सन्देश सुनाकर गोपियोंकी सान्त्वना दी ॥ २० ॥ तथा गोपोंके साथ हास्य करते हुए उन्होंने वरुणकी भीति मजदूर सी मनोहर बातें कीं और उनके साथ व्रजभूमिमें नाना प्रकारकी लीलाएँ करते रहे ॥ २१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—अपने कार्योंसे पुथिबीको विचलित करनेवाले, बड़े विकट कार्य करनेवाले, धरणीघर शेषबीके अवतार माया-पानवरुण महद्गमा बलरामजीको गोपोंके साथ वनमें विचरते देख उनके उपभोगके लिये वरुणने वारुणी (मदिश)-से कहा— ॥ १-२ ॥ "हे मदिश। जिन महाबलशाली अनन्तदेवकी तुम सर्वदा प्रिय हो; हे शुभे। तुम उनके उपभोग और प्रसन्नताके लिये आओ" ॥ ३ ॥ वरुणकी ऐसी आज्ञा होनेपर वारुणी घृन्दावनमें उत्पन्न हुए कदम्ब-वृक्षके कोटरमें रहने लगी ॥ ४ ॥

विचरन् बलदेवोऽपि मदिरागन्धमुत्तमम् ।
 आञ्जाय मदिरातर्षमवापाय चराननः ॥ ५
 ततः कदम्बात्महसा मद्यधारां स लाङ्गली ।
 पतन्तीं वीक्ष्य मैत्रेय प्रययौ परमां मुदम् ॥ ६
 पपी च गोपगोपीभिस्समुपेतो मुदान्वितः ।
 प्रगीयमानो स्तितं गीतवाद्यविशारदैः ॥ ७
 स भक्तोऽत्यनामर्षाभिः कृष्णकर्मोक्तिस्तोऽञ्जलः ।
 आगच्छ यमुने स्नातुमिच्छामीत्याह विह्वलः ॥ ८
 तस्य वाचं नदी सा तु मलोकामवमत्य वै ।
 नाजगाम ततः क्रुद्धो हलं जग्राह लाङ्गली ॥ ९
 गृहीत्वा तां हलान्तेन चकर्ष मदविह्वलः ।
 पापे नायासि नायासि गम्यतामिच्छामान्यतः ॥ १०
 साकृष्टा सहसा तेन मार्गं सन्त्यज्य निम्नगा ।
 यत्रास्ते बलभद्रोऽसौ प्लावधामास तद्वनम् ॥ ११
 शरीरिणी तदारभ्येत्य त्रासविह्वललोचना ।
 प्रसीदेत्यब्रवीद्रामं मुञ्च मां सुसलामुध ॥ १२
 ततस्तस्याः सुवचनमाकर्ण्य स हलामुधः ।
 सोऽब्रवीद्वधजानासि मम शौर्यबले नदि ।
 सोऽहं त्वां हलपातेन नयिष्यामि सहस्रधा ॥ १३

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तयातिसन्वासात्तथा नद्या प्रसादितः ।
 भूभागे प्लाविते तस्मिन्मुपोच यमुनां बलः ॥ १४
 ततस्नातस्य वै कान्तिरजायत महात्मनः ॥ १५
 अघतंसोत्पलं चारु गृहीत्वैकं च कुण्डलम् ।
 वरुणप्रहितं चारुमं मालामम्लानपङ्कजाम् ।
 समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मीरयच्छत ॥ १६
 कृतावतंसस्स तदा चारुकुण्डलभूषितः ।
 नीलाम्बरधरस्त्रग्वी शुशुभे कान्तिसंयुतः ॥ १७
 इत्थं विभूषितो रेमे तत्र रामस्तथा व्रजे ।
 मासद्भवेन यातश्च स पुनर्हरिकां पुरीम् ॥ १८
 रेवती नाम तनया रेवतस्य यद्दीपतेः ।
 उपयेमे बलस्तस्या जज्ञाते निशद्येल्मुकौ ॥ १९

तय मनोहर मुखवाले बलदेवजीको वनमें विचरते हुए मदिराकी अति उष्ण गन्ध सूँपनेसे उसे पीनेकी इच्छा हुई ॥ ५ ॥ हे मैत्रेय! उसी समय कदम्बसे मद्यकी धारा गिरती देख हलधारी बलरामजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ तथा गाने बजानेमें कुशल गोप और गोपियोंके मधुर स्वरसे गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक मद्यपान किया ॥ ७ ॥

तदनन्तर अत्यन्त घामके कारण स्वेद बिन्दुरूप गोलियोंसे सुशोभित मदोन्मत्त बलरामजीने विह्वल होकर कहा—“यमुने! आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ” ॥ ८ ॥ उनके वाक्यको उन्मत्तका प्रलाप समझकर यमुनाने उसपर कुछ भी ध्यान न दिया और यह वहाँ न आयी। इसपर हलधरने क्रोधित होकर अपना हल उठाया ॥ ९ ॥ और मद्रसे विह्वल होकर यमुनाको हलकी नोकसे पकड़कर खींचते हुए कहा—“अरी पापिनि! तू नहीं आती थी! अच्छा अब [यदि शक्ति हो तो] इच्छानुसार अन्यत्र जा तो सही ॥ १० ॥” इस प्रकार बलरामजीके खींचनेपर यमुनाने अकस्मात् अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस यनमें बलरामजी खड़े थे उसे आस्तायित कर दिया ॥ ११ ॥

तत्र वह शरीर धारणकर बलरामजीके पास अग्री और भयवशा डबडवाती आँखोंसे कहने लगी—“हे सुसलामुध! आप प्रसन्न होइये और मुझे छोड़ दीजिये” ॥ १२ ॥ उसके उन मधुर वचनोंको सुनकर हलामुध बलभद्रजीने कहा—“अरी नदि! क्या तू मेरे बल-वीर्यकी कथना करती है? देख, इस हलसे मैं अभी तेरे हाथो दुकड़े कर डलूँगा” ॥ १३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—बलचमजीद्वारा इस प्रकार कही जानेसे भयभीत हुई यमुनाके इस भू-भागमें बहने लगनेपर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया ॥ १४ ॥ उस समय स्नान करनेपर महात्मा बलरामजीको अत्यन्त शोभा हुई। तब लक्ष्मीजीने [सज्जरी प्रकट होकर] उन्हें एक सुन्दर कर्णफूल, एक कुण्डल, एक वरुणकी भेजी हुई कपी न कुम्हलानेवाले कमल-पुष्पोंकी माला और दो समुद्रके समान कान्तिवाले नीलवर्ण अश्रु दिये ॥ १५-१६ ॥ उन कर्णफूल, सुन्दर कुण्डल, नीलाम्बर और पुष्प-मालाको धारणकर श्रीबलरामजी अतिशय कान्तियुक्त हो सुशोभित होने लगे ॥ १७ ॥ इस प्रकार विभूषित होकर श्रीबलभद्रजीने ब्रजमें अनेकों तीलारों की और फिर दो पास पश्चात् द्वारकापुरीको चले आये ॥ १८ ॥ वहाँ आकर बलदेवजीने राजा रेवतकी पुत्री रेवतीसे विवाह किया; उससे उनके निश्कट और उल्मुक नामक दो पुत्र हुए ॥ १९ ॥

छब्बीसवाँ अध्याय

रुक्मिणी-हरण

श्रीपराशर उवाच

भीष्मकः कुण्डिने राजा विदभविषयेऽभवत् ।
 रुक्मी तस्याभवत्पुत्री रुक्मिणी च धरानना ॥ १
 रुक्मिणी चक्रे कृष्णस्सा च तं चारुहासिनी ।
 न ददौ याचते चैनां रुक्मी द्वेषेण चक्रिणे ॥ २
 ददौ च शिशुपालाय जरासन्धप्रचोदितः ।
 भीष्मको रुक्मिणा सार्धं रुक्मिणीमुरुषिक्रमः ॥ ३
 धिवाहार्थं ततः सर्वे जरासन्धमुखा नृपाः ।
 भीष्मकस्य पुरं जग्मुश्शिशुपालप्रियैधिपिणः ॥ ४
 कृष्णोऽपि बलभद्राद्यैर्यदुभिः परिवारितः ।
 प्रययौ कुण्डिनं द्रष्टुं विवाहं चैवभूभृतः ॥ ५
 श्वोभाषिनि विवाहेतु तां कन्यां हतवान्हरिः ।
 विपन्नभारमासख्य रामादिष्वथ बन्धुषु ॥ ६
 ततश्च पीण्डकश्रीमानन्दन्तवस्त्रो विदूरथः ।
 शिशुपालजरासन्धशाल्याद्याश्च महीभृतः ॥ ७
 कुपितास्ते हरिं हन्तुं अक्रुरुद्योगमुत्तमम् ।
 निर्जिताश्च समागम्य रामाद्यैर्यदुपुङ्गवैः ॥ ८
 कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि ह्यहत्वा युधि केशवम् ।
 कृत्वा प्रतिज्ञां रुक्मी च हन्तुं कृष्णमनुवृतः ॥ ९
 हत्वा धूलं सनागाश्वं पतिस्यन्दनसङ्कुलम् ।
 निर्जितः पतितश्चोर्ध्वा लीलथैव स अक्रिणा ॥ १०
 र्भिक्षित्य रुक्मिणां सम्यगुपयेये च रुक्मिणीम् ।
 राक्षसेन विवाहेन सम्प्राप्तां मधुसूदनः ॥ ११
 तस्यां जज्ञे च प्रद्युम्नो मदनांशमरवीर्यवान् ।
 जह्वार शम्बरो यं सै चो अधान च शम्बरम् ॥ १२

श्रीपराशरजी कोले— विदभदेशान्तर्गत कुण्डिनपुर नामक नगरमें भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मिणी नामकी एक सुपुत्री कन्या थीं ॥ १ ॥ श्रीकृष्णने रुक्मिणीकी और चारुहासिनी रुक्मिणीने श्रीकृष्णचन्द्रकी अपिलाषा थी, किंतु भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके प्रार्थन करनेपर भी उनसे द्वेष करनेके कारण रुक्मीने उन्हें रुक्मिणी न दी ॥ २ ॥ महापराक्रमी भीष्मकने जरासन्धकी प्रेरणासे रुक्मीसे सहमत होकर शिशुपालको रुक्मिणी देनेका निश्चय किया ॥ ३ ॥ तब शिशुपालके हितैषी जरासन्ध आदि सम्पूर्ण राजागण विवाहमें सम्मिलित होनेके लिये भीष्मकके नगरमें गये ॥ ४ ॥ इधर बलभद्र आदि यदुवशियोंके सहित श्रीकृष्णचन्द्र भी चेदिशअन्तः निकटोत्सव देखनेके लिये कुण्डिनपुर आये ॥ ५ ॥

तदनन्तर विवाहका एक दिन रहनेपर अपने विपक्षियोंका भार बलभद्र आदि बन्धुओंको सौंपकर श्रीहरिने उस कन्याका हरण कर लिया ॥ ६ ॥ तब श्रीमान् पीण्डक, दन्तवक्त्र, विदूरथ, शिशुपाल, जरासन्ध और शाल्य आदि राजाओंने क्रोधित होकर श्रीहरिको पारनेत्र महान् उद्योग किया, किंतु वे सब बलव्रम आदि यदुश्रेष्ठीसे मुठभेड़ होनेपर पराजित हो गये ॥ ७-८ ॥ तब रुक्मीने यह प्रतिज्ञाकर कि 'मैं युद्धमें कृष्णको मारे बिना कुण्डिनपुरमें प्रवेश न करूँगा' कृष्णको पारनेके लिये उनका पीछा किया ॥ ९ ॥ किन्तु श्रीकृष्णने लीलासे झे हाथी, घोड़े, रथ और पदातिव्योंसे युक्त उसको सेनाको नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथिवीमें गिरा दिया ॥ १० ॥

इस प्रकार रुक्मीको युद्धमें पथस्तकर श्रीमधुसूदने राक्षसविवाहसे मिट्टी हुई रुक्मिणीका सम्यक् (वेदोक्त) रीतिसे पाणिग्रहण किया ॥ ११ ॥ उससे उनके कामदेवके अंशसे उत्पन्न हुए बौर्यवान् प्रद्युम्नजीका जन्म हुआ, जिन्हें शम्बरसुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने [काल-क्रमसे] शंभरासुरका वध किया था ॥ १२ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

सत्ताईसवाँ अध्याय

प्रद्युम्न-हरण तथा शम्बर-वध

श्रीमंत्रेण उवाच

शम्बरेण हृतो वीरः प्रद्युम्नः स कथं मुने ।
शम्बरः स महावीर्यः प्रद्युम्नेन कथं हतः ॥ १
वस्तेनापह्नतः पूर्वं स कथं विजघान तम् ।
एतद्विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि सकलं गुरो ॥ २

श्रीपराशर उवाच

षष्ठेऽह्नि जातमात्रं तु प्रद्युम्नं सूतिकागृहात् ।
ममैष हनेति मुने हतवान्कालशम्बरः ॥ ३
हत्वा चिक्षेप चैवैनं प्राहोत्रे लवणार्णवे ।
कल्सोलजनितावर्षे सुघोरे मकरालये ॥ ४
पातितं तत्र चैवैको मत्स्यो जग्राह बालकम् ।
न ममार च तस्वापि जठराग्निप्रदीपितः ॥ ५
मत्स्यबन्धैश्च मत्स्योऽसौ मत्स्यैरन्यैस्सह द्विज ।
घातितोऽसुरवर्याय शम्बराय निवेदितः ॥ ६
तस्य मायावती नामपत्नी सर्वगुहेश्वरी ।
कारयामास सूदानामाधिपत्यमभिन्दिता ॥ ७
दारिते मत्स्यजठरे सा ददर्शातिशोभनम् ।
कुमारं मन्मथतरोर्दग्धस्व प्रधमाङ्कुरम् ॥ ८
सौऽर्चं कथमयं मत्स्यजठरे प्रविवेशितः ।
इत्येवं कौतुकाविष्टां तन्वीं प्राहृष्य नारदः ॥ ९
अयं समस्तजगतः स्थितिसंहारकारिणः ।
शम्बरेण हृतो विष्णोस्तनयः सूतिकागृहात् ॥ १०
क्षिप्तस्समुद्रे मत्स्येन निगीर्णस्ते गृहे गतः ।
नररत्नमिदं सुभु विस्वस्था परिपालय ॥ ११

श्रीपराशर उवाच

नारदेनैवमुक्ता सा पालयापास तं शिशुम् ।
बाल्यादेवातिरागेण रूपातिशयमोहिता ॥ १२
स यदा यौवनाभोगभूषितोऽभूमहाभते ।
साभिलाषा तदा सापि बभूव गजगामिनी ॥ १३

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे मुने! वीरवर प्रद्युम्नको शम्बरासुरने कैसे हरण किया था? और फिर उस महाबली शम्बरको प्रद्युम्नने कैसे मारा? ॥ १ ॥ जिसको पहले उसने हरण किया था उसीने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला? हे गुरो! मैं यह सम्पूर्ण प्रसंग विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मुने! कालके समान विकराल शम्बरसुरने प्रद्युम्नको, जन्म लेनेके छठे ही दिन 'यह मेरा मारनेवाला है' ऐसा भत्कर सूतिकागृहसे हर लिया ॥ ३ ॥ उसको हरण करके शम्बरसुरने लवणसमुद्रमें डाल दिया, जो तरंगमालाजनिता आवर्तसे पूर्ण और बड़े भयानक मकरोका घर है ॥ ४ ॥ वहाँ फेंके हुए उस बालकको एक मत्स्यने निगल लिया, किन्तु वह उसकी जठराग्निसे जलकर भी न मरा ॥ ५ ॥

कालान्तरमें कुछ मछरोंने उसे अन्य मछलियोंके साथ अपने जालमें फँसाया और असुरश्रेष्ठ शम्बरको निवेदन किया ॥ ६ ॥ उसकी नापपात्रकी पत्नी मायावती सम्पूर्ण अन्तःपुरकी रक्षापिनी थी और वह सुलक्षण सम्पूर्ण सुदी (रक्षोऽर्षी)-का आधिपत्य करती थी ॥ ७ ॥ उस मछलीका पेट चीरते ही उसमें एक अति सुन्दर बालक दिखायी दिया जो दग्ध हुए कामवृष्का प्रथम अंकुर था ॥ ८ ॥ 'तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछलीके पेटमें डाला गया' इस प्रकार अत्यन्त आश्चर्यचकित हुई उस सुन्दरीसे देवर्षि नारदने आकर कहा— ॥ ९ ॥ 'हे सुन्दर भृकुटिमाली! यह सम्पूर्ण जगत्के स्थिति और संहारकर्ता भगवान् विष्णुका पुत्र है; इसे शम्बरसुरने सूतिकागृहसे चुराकर समुद्रमें फेंक दिया था। यहाँ इसे यह मत्स्य निगल गया और अब इसीके द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तू इस नररत्नका विश्वस्त होकर पालन कर' ॥ १०-११ ॥

श्रीपराशरजी बोले—नारदजीके ऐसे कहनेपर मायावतीने उस बालककी अतिशय सुन्दरतासे मोहित हो बाल्यावस्थासे ही उसका अति अनुरागपूर्वक पालन किया ॥ १२ ॥ हे मत्स्यभते! जिस समय वह नवयौवनके समारम्भसे सुशोभित हुआ तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामनाबुद्ध अनुराग प्रकट करने लगी ॥ १३ ॥

मायावती ददौ तस्मै मायास्सर्वा महामुने ।
 प्रद्युम्नायानुरागान्धा तन्व्यस्तद्दयैक्षणा ॥ १४
 प्रसम्बन्ती तु तो प्राह संकर्षिणः कमलेक्षणीम् ।
 मातृत्वमपहायाद्य किमेव यत्तसेऽन्यथा ॥ १५
 सा तस्मै कथयामास न पुत्रस्त्वं ममेति वै ।
 तनयं त्वामयं विष्णोर्द्वैतवान्कालशम्बरः ॥ १६
 क्षिप्तः समुद्रे मत्स्यस्य सम्प्राप्तो जठरान्मघा ।
 सा हि रोदिति ते माता कान्ताद्याप्यतिवत्सला ॥ १७

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तशशम्बरं युद्धे प्रद्युम्नः स समाह्वयत् ।
 क्रोधाकुलीकृतमना युयुधे च महाबलः ॥ १८
 हत्वा सैन्यमशेषं तु तस्य दैत्यस्य यादवः ।
 सप्त माया व्यतिक्रम्य मायां प्रयुयुधेऽष्टमीम् ॥ १९
 तथा जघान तं दैत्यं मायया कालशम्बरम् ।
 उत्पत्य च तथा सार्धमाजगाम पितुः पुरम् ॥ २०
 अन्तःपुरे निपतितं मायावत्या समन्वितम् ।
 तं दृष्ट्वा कृष्णसङ्कल्पा बभूवुः कृष्णयोधिनः ॥ २१
 रुक्मिणी साभक्त्येष्णा सात्सुदृष्टिरनिन्दिता ।
 धन्यायाः खल्वयं पुत्रो वर्तते नवयौवने ॥ २२
 अस्मिन्वयसि पुत्रो मे प्रद्युम्नो यदि जीवति ।
 सभाया जग्मी षत्स सा त्वया स्र विभूषिता ॥ २३
 अथवा यादवः स्नेहे मम यादवपुस्तव ।
 हरेरपत्यं सुख्यक्तं भवान्भक्तस भक्षिष्यति ॥ २४

श्रीपराशर उवाच

एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तास्सह कृष्णो न नारदः ।
 अन्तःपुरचरां देवीं रुक्मिणीं प्राह हर्षयन् ॥ २५
 एष ते तनयः सुभ्रु हत्वा शम्बरमागतः ।
 हतो येनाभक्तद्वालो भवत्यास्सूतिकागृहात् ॥ २६
 इयं मायावती भार्या तनयस्यास्य ते सती ।
 शम्बरस्य न भार्येयं श्रूयतामत्र कारणम् ॥ २७
 मन्मथे तु गते नार्शं तद्दुद्धवपरायणा ।
 शम्बरं मोहयामास मायारूपेण रूपिणी ॥ २८

हे महामुने! जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्नमें अर्पित कर चुकी थी उस मायावतीने अनुरागसे अच्छी छीकर उसे भय प्रकारकी माया दिखा दी ॥ १४ ॥ इस प्रकार अपने ऊपर आराक हुई उस कमलालोचनासे कृष्णानन्दन प्रद्युम्नने कहा—“आज तुम मातृभावको छोड़कर यह अन्य प्रकारका भाव क्यों प्रकट करनी हो?” ॥ १५ ॥ तब मायावतीने कहा—“तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान् विष्णुके तनय हो। तुम्हें शम्बरशम्बरने हरकर समुद्रमें फेंक दिया था; तुम मुझे एक मत्स्यके उदरमें मिले हो। हे कान्ता! आपकी पुत्रवत्प्रला जननी आज भी रोती होगी” ॥ १६, १७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—मायावतीके इस प्रकार कहनेपर महाबलवान् प्रद्युम्नजीने क्रोधमें विवृल हो शम्बरसुरकी युद्धके लिये ललकारा और उससे युद्ध करने लगे ॥ १८ ॥ यादवश्रेष्ठ प्रद्युम्नजीने उस दैत्यकी सम्पूर्ण सेना मार डाली और उसकी सात मायाओंकी नीतिकर स्वयं आठवीं मायाका प्रयोग किया ॥ १९ ॥ उस मायासे उन्होंने दैत्यराज कालशम्बरकी मार डाली और मायावतीके साथ [क्षिप्तान्द्राय] उड़कर आकाशमार्गसे अपने निक्ताके नगद्वयें आ गये ॥ २० ॥

मायावतीके सहित अन्तःपुरमें उतरनेपर श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा ॥ २१ ॥ किन्तु अनिन्दिता रुक्मिणीके नेत्रोंमें श्रेमवशा आँसू भर आये और वे कहने लगीं—“अनर्थ ही यह नवयौवनको प्राप्त हुआ किसी विद्वानिनीका पुत्र है ॥ २२ ॥ यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न नीधित जेग तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वल्लः! छेक-छेक बता तूने किस भाग्यवती जननीको विभूषित किया है? ॥ २३ ॥ अथवा, बेटा! जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्रीहरिका ही पुत्र है” ॥ २४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इसी समय श्रीकृष्णचन्द्रके साथ वहीं नारदजी आ गये। उन्होंने अन्तःपुरनिवासिनी देवी रुक्मिणीको आनन्दित करते हुए कहा— ॥ २५ ॥ “हे सुभ्रु! यह तेरा ही पुत्र है। यह शम्बरसुरकी मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्यावस्थामें सूतिकागृहसे हर लिया था ॥ २६ ॥ यह सखी मायावती भी तेरे पुत्रकी ही स्त्री है; यह शम्बरसुरकी पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन ॥ २७ ॥ पूर्वकालमें कामदेवके चमत् हो जानेपर उसके पुनर्बन्धकी प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामयरूपसे शम्बरसुरको मोहित किया था ॥ २८ ॥

विहाराद्युपभोगेषु रूपं माद्यामये शुभम् ।
दर्शयामास दैत्यस्य तस्येयं मद्विरेक्षणा ॥ २९
कामोऽवतीर्णः पुत्रस्ते तस्येयं दधिता रतिः ।
विशङ्का नात्र कर्तव्या स्नुषेयं तव शोभने ॥ ३०
ततो हर्षसमाधिष्ठी रुक्मिणीकेशवीं तदा ।
नगरीं च समस्ता सा साधुसाध्वित्यभाषत ॥ ३१
चिरं नष्टेन पुत्रेण सङ्गतां प्रेक्ष्य रुक्मिणीम् ।
अवाप विस्मयं सर्वो द्वारवत्यां तदा जनः ॥ ३२

इति श्रीलिङ्गपुराणे पञ्चमोऽंशे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

अट्टाईसवाँ अध्याय

रुक्मीका वध

श्रीपरशर उवाच

चारुदेष्वां सुदेष्वां च चारुदेहं च धीर्यवान् ।
सुषेणं चारुगुणं च भद्रचारुं तथा परम् ॥ १
चारुविन्दं सुचारुं च चारुं च बलिनां वरम् ।
रुक्मिण्यजनयत्पुत्रान्कन्यां चारुमतीं तथा ॥ २
अन्याश्च भार्याः कृष्णास्य बभूवुः सन्त शोभनाः ।
कालिन्दी विश्विन्दा च सत्या मानजिती तश्च ॥ ३
देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी ।
मद्राजसुता चान्य सुशीला शीलमण्डना ॥ ४
साम्राजिती सत्यभामा लक्ष्मणा चारुहसिनी ।
षोडशासन् सहस्राणि स्त्रीणामन्यानि चक्रिणः ॥ ५
प्रद्युम्नोऽपि महावीर्यो रुक्मिणस्तनया शुभाम् ।
स्वयंकरे तां जग्राह सा च तं तनयं हरेः ॥ ६
तस्यामस्याभयत्पुत्रो महाबलपराक्रमः ।
अनिरुद्धो रणेऽरुद्धवीर्योऽदधिरिन्दमः ॥ ७
तस्यापि रुक्मिणः पौत्रीं वरयामास केशवः ।
दौहित्राय ददौ रुक्मीं तां स्पृहन्पि चक्रिणा ॥ ८

यह मतविलोचना उस दैत्यको विहारादि उपभोगोंके समय अपने अति सुन्दर मायामय रूप दिखलाती रहती थी ॥ २९ ॥ कामदेवने ही तैरे पुत्ररूपसे जन्म लिया है और यह सुन्दरी उसको प्रिया रति ही है। हे शोभने! यह तेरी पुत्रवधू है, इसमें तू किसी प्रकारकी विपरीत शंका न कर" ॥ ३० ॥

यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्णको अतिशय आनन्द हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी 'साधु-साधु' कहने लगी ॥ ३१ ॥ उस समय त्रिकालसे धीमे हुए पुत्रके साथ रुक्मिणीका समागम हुआ देख द्वारकापुरीके सभी नागरिकोंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३२ ॥

श्रीपरशरजी बोले—हे मंत्रेय! रुक्मिणीके [प्रद्युम्नके अतिरिक्त] चारुदेष्वा, सुदेष्वा, धीर्यवान्, चारुदेह, सुषेण, चारुगुण, भद्रचारु, चारुविन्द, सुचारु और बलवानोंमें श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नामकी एक कन्या हुई ॥ १-२ ॥ रुक्मिणीके अतिरिक्त श्रीकृष्णचन्द्रके कालिन्दी, विश्विन्दा, नगनजित्का पुत्री सत्या, जाम्बवानकी पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अति-शीलवती मद्रराजसुता सुशीला भद्रा, सत्राकिष्की पुत्री सत्यभामा और चारुहसिनी लक्ष्मणा—ये अति सुन्दरी सात स्त्रियाँ और थीं, इनके सिवा उनके सोलह हजार स्त्रियाँ और भी थीं ॥ ३-५ ॥

महावीर प्रद्युम्नने रुक्मीकी सुन्दरी कन्याकी और उस कन्याने भी भगवान्के पुत्र प्रद्युम्नजीको स्वयंवरमें ग्रहण किया ॥ ६ ॥ उससे प्रद्युम्नजीके अनिरुद्ध नामक एक महाबलपराक्रमसम्पन्न पुत्र हुआ जो युद्धमें रुद्ध (प्रतिहत) न होनेवाला, बलका समुद्र तथा शत्रुओंका दमन करनेवाला था ॥ ७ ॥ कृष्णचन्द्रने उस (अनिरुद्ध)—के लिये भी रुक्मीकी पौत्रीका वरण किया और रुक्मीने कृष्णचन्द्रसे इच्छा रखते हुए भी अपने दौहित्रको अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया ॥ ८ ॥

तस्या विवाहे रामाद्या चादवा हरिणा सह ।
 रुक्मिणो नगरं जग्मुर्नाम्ना भोजकटं द्विज ॥ १
 विवाहे तत्र निर्वृते प्राद्युग्नेस्तु महात्मनः ।
 कलिङ्गराजप्रमुखा रुक्मिणं वाक्स्वमस्तुवन् ॥ १०
 अनक्षज्ञो हृत्तो द्यूते तथास्य व्यसनं महत् ।
 न जयामो बलं कस्माद्द्यूतेनेनं महाबलम् ॥ ११

श्रीपराशर उवाच

तथेति तामाह नृपान् रुक्मी बलमदान्वितः ।
 सभायां सह रामेण चक्रे द्यूतं च वै तदा ॥ १२
 सहस्रमेकं निष्कारणां रुक्मिणा विजितो बलः ।
 द्वितीयेऽपि पणे चान्यत्तहस्रं रुक्मिणा जितः ॥ १३
 ततो दशसहस्राणि निष्कारणां पणमददे ।
 बलभद्रोऽजयत्तानि रुक्मी द्यूतविदां वरः ॥ १४
 ततो जहास स्वयवत्कलिङ्गाधिपतिर्द्विज ।
 ह्सान्विदृशंयन्मूर्खो रुक्मी चाह मदोद्धतः ॥ १५
 अविद्योऽयं मया द्यूते बलभद्रः पराजितः ।
 मुधैवाश्नावलेपाश्वो योऽवमेनेऽक्षकोविदान् ॥ १६
 दृष्ट्वा कलिङ्गराजन्तं प्रकाशदशानाननम् ।
 रुक्मिणं चापि दुर्वाक्यं क्षोपं चक्रे ह्लायायुधः ॥ १७
 ततः क्षोपपरीतात्मा निष्ककोटिं समाददे ।
 ग्लहं जग्राह रुक्मी च तदर्थेऽक्षानपातयत् ॥ १८
 अजयद्बलदेवस्तं प्राहोऽर्धैर्विजितं मया ।
 मयेति रुक्मी प्राहोऽर्धैरलीकोकेरस्तं बल ॥ १९
 त्वयोक्तोऽयं ग्लहस्तस्यं न मयैषोऽनुमोदितः ।
 एवं त्वया चेद्विजितं विजितं न मया कथम् ॥ २०

श्रीपराशर उवाच

अधान्तरिक्षे वागुच्चैः प्राह गम्भीरनादिनी ।
 बलदेवस्य तं क्षोपं सद्द्वयन्ती महात्मनः ॥ २१
 जितं बलेन धर्म्येण रुक्मिणा भाषितं मुधा ।
 अनुकृत्वापि वचः किञ्चिक्कृतं भवति कर्मणा ॥ २२
 ततो बलः समुत्थाय क्षोपसंरक्तलोचनः ।
 जघानाष्टापदेनैव रुक्मिणं स महाबलः ॥ २३

हे द्विज! उसके विवाहमें सम्मिलित होनेके लिये कृष्णचन्द्रके साथ बलभद्र आदि अन्य महातमगण भी रुक्मीके राजधानी भोजकट नामक नगरको गये ॥ १ ॥ जब प्रद्युम्न-पुत्र महात्मा अनिरुद्धका विवाह-संस्कार हो चुका तो कलिङ्गराज आदि राजाओंने रुक्मीसे कहा— ॥ १० ॥ "ये बलभद्र द्यूतक्रोडा [अच्छी तरह] जानते तो हैं नहीं तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है; तो फिर हम इन महाबली रामको जुरसे ही क्यों न जीत लें?" ॥ ११ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब बलके मदसे उत्पन्न रुक्मीने उन राजाओंसे कहा—'बहुत अच्छा' और सभामें बलरामजीके साथ द्यूतक्रोडा आरम्भ कर दी ॥ १२ ॥ रुक्मीने पहले ही दौबमें बलराजजीसे एक सहस्र निष्क जीते तथा दूसरे दौबमें एक सहस्र निष्क और जीत लिये ॥ १३ ॥ तब बलभद्रजीने दस हजार निष्कका एक दौब और लगाया । उसे भी पक्के जुआरी रुक्मीने ही जीत लिया ॥ १४ ॥ हे द्विज! इसपर मूढ़ कलिङ्गराज दौत दिखाता हुआ जोरसे हँसने लगा और मदीन्मन रुक्मीने कहा— ॥ १५ ॥ "द्यूतक्रोडासे अनभिज्ञ इन बलभद्रजीको मैंने हरा दिया है; ये पृथा ही अक्षके चमण्डसे अन्ये होकर अबकुशल पुरुषोंका अपमान करते थे" ॥ १६ ॥

इस प्रकार कलिङ्गराजको दौत दिखाते और रुक्मीको दुर्वाक्य कहते देखे ह्लायायुध बलभद्रजी अत्यन्त क्रोधित हुए ॥ १७ ॥ तब उन्होंने अत्यन्त क्रुपित होकर करोड़ निष्कका दौब लगाया और रुक्मीने भी उसे ग्रहणकर उसके निर्मित पैसे फेंके ॥ १८ ॥ उसे बलदेवजीने ही जीता और वे जोरसे बोल उठे, 'मैंने जीता।' इसपर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला—'बलराम! असत्य बोलनेसे कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दौब भी मैंने ही जीता है' ॥ १९ ॥ आपने इस दौबके विषयमें जिज्ञास्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया । इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता?" ॥ २० ॥

श्रीपराशरजी बोले—उसी समय महात्मा बलदेवजीके क्रोधको चढ़ाती हुई आकाशवाणीने गम्भीर स्वरमें कहा— ॥ २१ ॥ "इस दौबको धर्मानुसार तो बलरामजी ही जीते हैं; रुक्मी मूर्ख बोलता है क्योंकि [अनुमोदनसुषक] वचन न कहनेपर भी [पैसे फेंकने आदि] कार्यसे यह अनुमोदित ही मान जायगा" ॥ २२ ॥

तब क्रोधसे अरुणनयन हुए महाबली बलभद्रजीने उठकर रुक्मीको जुआ खेलनेके पॉसोंसे ही धार खला ॥ २३ ॥

कशिरङ्गराजं चादाय विस्फुरन्तं बलाद्दलः ।
 बभञ्ज सन्तान्कुपितो यैः प्रकाशं जहस सः ॥ २४
 आकृष्य च महास्ताम्भं जातरूपमर्थं बलः ।
 जघान तान्ये तत्पक्षे भूभुतः कुपितो भृशम् ॥ २५
 ततो ह्यहकृतं सर्वं पलायनपरं द्विज ।
 तद्राजमण्डलं भीतं बभूव कुपिते बले ॥ २६
 बलेन निहतं दृष्ट्वा रुक्मिणं मधुसूदनः ।
 नौवाच किञ्चिन्मैत्रेय रुक्मिणीकलयोर्भवात् ॥ २७
 ततोऽनिरुद्धमादाय कृतदारं द्विजोत्तम ।
 द्वारकामाजगाथाथ यदुचक्रं च केशवः ॥ २८

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशोऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

उनतीसवाँ अध्याय

रक्तासुरकाय वध

श्रीपराशर उवाच

द्वारवत्यां स्थिते कृष्णे शक्रस्त्रिभुवनेश्वरः ।
 आजगामाथ मैत्रेय यत्तीरावतपृष्ठगः ॥ १
 प्रविश्य द्वारकां सोऽथ समेत्य हरिणा ततः ।
 ऋथयामास दैत्यस्य नरकस्य विधेष्टितम् ॥ २
 त्वया नाथेन देवानां मनुष्यत्वेऽपि सिष्टता ।
 प्रशमं सर्वदुःखानि नीतानि मधुसूदन ॥ ३
 तपस्विस्वसनार्थाय सोऽरिष्टो धेनुकस्तथा ।
 प्रवृत्तो यस्तथा केशी ते सर्वे निहतास्त्वया ॥ ४
 कंसः कुबलचापीडः पूतना बालघातिनी ।
 पाशं नीतास्त्वया सर्वे येऽन्ये जगदुपद्रवाः ॥ ५
 युष्मद्दोर्दण्डसम्भृतिपरिज्ञाते जगत्त्रये ।
 यञ्चयज्ञांशसम्प्राप्त्या तृप्तिं यान्ति दिवीकसः ॥ ६
 सोऽहं साम्प्रतमायातो यन्निमित्तं जनार्दन ।
 तच्छ्रुत्वा तत्प्रतीकारप्रयत्नं कर्तुमर्हसि ॥ ७

फिर फड़कते हुए कलिंगराजको बलपूर्वक पकड़कर बलरामजीने उसके दाँत, जिन्हें दिखलाता हुआ वह हँसा था, तोड़ दिये ॥ २४ ॥ इनके सिवा उसके पक्षके और भी जो कोई राजालोग थे, उन्हें बलरामजीने अत्यन्त कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तम्भ उखाड़कर उससे मार डाला ॥ २५ ॥ हे द्विज! उस समय बलरामजीके कुपित होनेसे महाराज मच गया और सम्पूर्ण राजालोग भयभीत होकर भागने लगे ॥ २६ ॥

हे मैत्रेय! उस समय रुक्मीको मारा गया देख श्रीमधुसूदनने एक ओर रुक्मिणीके और दूसरी ओर बलरामजीके भयसे कुछ भी नहीं कहा ॥ २७ ॥ तदनन्तर, हे द्विजश्रेष्ठ! यादवोंके सहित श्रीकृष्णचन्द्र सपत्नीक अनिरुद्धको लेकर द्वारकापुरीमें चले आये ॥ २८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! एक बार जब श्रीभगवान् द्वारकामें ही थे त्रिभुवनपति इन्द्र अपने मत गजराज ऐरावतपर चढ़कर उनके पास आये ॥ १ ॥ द्वारकामें आकर वे भगवान्से मिले और उनसे नरकासुरके अत्याचारोंका वर्णन किया ॥ २ ॥ [वे बोले—] “हे मधुसूदन! इस समय मनुष्यरूपमें स्थित होकर भी आप सम्पूर्ण देवताओंके स्वामीने हमारे समस्त दुःखोंको शान्त कर दिया है ॥ ३ ॥ जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि अशुर सर्वदा तपस्वियोंको श्लेषित करते रहते थे उन सबको आपने मार डाला ॥ ४ ॥ कंस, कुबलायापीड और बालघातिनी पूतना तथा और भी जो-जो संसारके उपद्रवरूप थे उन सबको आपने नष्ट कर दिया ॥ ५ ॥ आपके आहुदण्डकी सत्त्वसे त्रिलोकको सुरक्षित हो जानेके कारण यादवोंके दिये हुए यज्ञभागोंको प्राप्तकर देवगण तृप्त हो रहे हैं ॥ ६ ॥ हे जनार्दन! इस समय जिस निमित्तसे मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतीकारका प्रयत्न करें ॥ ७ ॥

भीमोऽयं नरको नाम प्राग्ज्योतिषपुरेश्वरः ।
 करोति सर्वभूतानामुपघातमरिन्दम ॥ ८
 देवसिद्धासुरादीनां नृपाणां च जनार्दन ।
 हत्वा तु सोऽसुरः कन्या रुरुधे निजमन्दिरे ॥ ९
 छत्रं यत्सलिलस्त्राधि तप्लहार प्रचेतसः ।
 मन्दरस्य तथा शृङ्गं हृतवान्मणिपर्वतम् ॥ १०
 अमृतस्त्राविणी दिव्ये मन्मथुः कृष्ण कुण्डले ।
 जह्वर सोऽसुरोऽदित्या वाञ्छित्वैरावतं गजम् ॥ ११
 दुर्नीतमेतद्गोविन्द मया तस्य भिवेदितम् ।
 यदत्र प्रति कर्तव्यं तत्स्वयं परिमुश्यताम् ॥ १२

श्रांषयशर उवाच

इति श्रुत्वा स्मितं कृत्वा भगवान्देवकीसुतः ।
 गृहीत्वा वासवं हस्ते समुत्तस्थौ चरासनात् ॥ १३
 सञ्चिन्त्यागतमारुह्य गरुडं गगनेचरम् ।
 सत्यभामां समारोप्य ययौ प्राग्ज्योतिषं पुरम् ॥ १४
 आरुह्यैरावतं नागं शक्रोऽपि त्रिदिवं ययौ ।
 ततो जगाम कृष्णाश्च पश्यतां द्वारकौकसात् ॥ १५
 प्राग्ज्योतिषपुरस्यापि समन्ताच्छतयोजनम् ।
 आचिता मौरवैः पाशैः क्षुरानैर्भुङ्क्ष्वीतम् ॥ १६
 तश्चिच्छेद हरिः पाशान्क्षिप्त्वा चक्रं सुवर्णम् ।
 ततो मुरस्समुत्तस्थौ तं जघान च केशवः ॥ १७
 मुरस्थं तनयान्सप्त सहस्रांस्तांस्ततो हरिः ।
 चक्रधारान्निर्दग्धांश्चकार शलभानिव ॥ १८
 हत्वा पुरं हयग्रीवं तथा पञ्चजनं द्विज ।
 प्राग्ज्योतिषपुरं धीर्मास्त्वरावांसमुपाद्रवत् ॥ १९
 नरकेणास्य तत्राभूमहासैन्येन संयुगम् ।
 कृष्णस्य यत्र गोविन्दो जघ्ने दैत्यान्सहस्रशः ॥ २०
 शस्त्रास्त्रवर्षं मुञ्चन्तं ते भीमं नरकं बली ।
 क्षिप्त्वा चक्रं द्विधा चक्रे चक्री दैतेयचक्रहा ॥ २१
 हते तु नरके भूमिर्गृहीत्वादितिकुण्डले ।
 उपतस्थे जगन्तार्थं वाक्यं चेदमथाकधीत् ॥ २२

हे शत्रुघ्नन! यह पृथिवीका पुत्र नरकासुर प्राग्ज्योतिषपुरका स्वामी है; इस समय यह सम्पूर्ण पृथिवीका घात धर रहा है ॥ ८ ॥ हे जनार्दन! उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकोंको कन्याओंके बलान् लाकर अपने अन्तःपुरमें बन्द कर रखा है ॥ ९ ॥ इस दैत्यने तरुणका जल नरमानेवाला छत्र और मन्दराचलका अधिपत्यनागक शिखर भी हल लिया है ॥ १० ॥

हे कृष्ण! उसने मेरी माना अदितिके अमृतस्त्रकी दोनीं दिव्य कुण्डल ले रिते हैं और अब इस ऐश्वर्य हथीको भी लेना चकता है ॥ ११ ॥ हे गोविन्द! मैंने आपको उसकी ये सब अनीतिशां सुना दी हैं; इनका जो शोका होना चाहिये, वह आप स्वयं विचार लें ॥ १२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—इन्द्रके ये वचन सुनकर श्रोदेवकीनन्दन मुसकाये और इन्द्रका हाथ गकड़कर अपने श्रेष्ठ आसनसे उठे ॥ १३ ॥ फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुडपर सत्यभामाको धराकर स्वयं चढ़े और प्राग्ज्योतिषपुरको चले ॥ १४ ॥ तदनन्तर इन्द्र भी ऐरावतपर चढ़कर देवलोकको गये तथा भगवान् कृष्णान्द्र सब द्वारकावाशियाँके देखते-देखते [नरकासुरको मारने] चले गये ॥ १५ ॥

हे द्विजोत्तम! प्राग्ज्योतिषपुरके चारों ओर पृथिवी कां योजनतक मुर दैत्यके बनाये हुए घुरेकी धाराके समान अति तीक्ष्ण पशोंसे घिरो हुई थी ॥ १६ ॥ भगवान्ने उन पाशोंको सुदर्शनचक्र फेंककर काट डाला; फिर मुर दैत्य भी सापना करनेके लिये उठा तब श्रीकेशवने उसे भी मार डाला ॥ १७ ॥ तदनन्तर श्रीहरिने मुरके सात हजार पुत्रोंको भी अपने चक्रकी धाररूप अग्निमें पक्षोंके समान भस्म कर दिया ॥ १८ ॥ हे द्विज! इस प्रकार पतिशान् भगवान्ने मुर, हयग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्योंको मारकर बड़ी शीघ्रतासे प्राग्ज्योतिषपुरमें प्रवेश किया ॥ १९ ॥ वहाँ पहुँचकर भगवान्का अधिक सेनावाले नरकासुरसे युद्ध हुआ, जिसमें श्रीगोविन्दने उसके सस्रहों दैत्योंको मार डाला ॥ २० ॥ दैत्यदलका दहन करनेवाले महाशरवान् भगवान् चक्रपाणिने शस्त्रास्त्रकी वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुरके सुदर्शनचक्र फेंककर दो टुकड़े कर दिये ॥ २१ ॥ नरकासुरके मरते ही पृथिवी अदितिके कुण्डल लेकर उपस्थित हुई और श्रीजगन्तापसे कहने लगी ॥ २२ ॥

पृथ्व्यावाच

यदाहमुद्भुता नाथ त्वया सूकरमूर्तिना ।
त्वत्स्पर्शसम्भवः पुत्रस्तदायं भव्यजायत ॥ २३ ॥
सोऽयं त्वयैव दत्तो मे त्वयैव विनिपातितः ।
गृह्यण कुण्डले चमे पालयास्य च सन्ततिम् ॥ २४ ॥
भारावतरणार्थाय ममैव भगवानिमम् ।
अंशेन लोकमायातः प्रसादसुमुखः प्रभो ॥ २५ ॥
त्वं कर्ता च विकर्ता च संहर्ता प्रभवोऽप्ययः ।
जगतां त्वं जगद्गुणः स्तूयतेऽद्भ्युत किं तव ॥ २६ ॥
व्याप्तिव्याप्यं क्रिया कर्ता कार्य च भगवान्यथा ।
सर्वभूतात्मभूतस्य स्तूयते तथ किं तथा ॥ २७ ॥
परमात्मा च भूतात्मा त्वमात्मा चाव्यथे भवान् ।
यथा तथा स्तुतिर्नाथ किमर्थं ते प्रवर्तते ॥ २८ ॥
प्रसीद सर्वभूतात्मनरकेण तु यत्कृतम् ।
तत्क्षाम्यतामदोषाय त्वत्सुतस्त्वनिपातितः ॥ २९ ॥

श्रीपराशर उवाच

तथेति श्लोक्त्वा धरणीं भगवान्भूतभावनः ।
रत्नानि नरकावासान्जग्राह मुनिसत्तम ॥ ३० ॥
कन्यापुरे स कन्यानां षोडशातुलविक्रमः ।
शताधिकानि ददुशे सहस्राणि महामुने ॥ ३१ ॥
क्षुर्दष्टान्जाञ्जवाग्रथान् षट्सहस्रांश्च दृष्टवान् ।
कन्यबोजानां तथाश्वानां निष्कान्येकविंशतिम् ॥ ३२ ॥
नाः कन्यस्तांस्तथा नागास्तान्श्वान् द्वारकां पुरीम् ।
प्रापयामास गोविन्दस्सद्यो नरककिङ्करैः ॥ ३३ ॥
ददुशे चारुणं छत्रं तथैव मणिपर्वतम् ।
आरोपयामास हरिर्गुरुडे पसनेश्वरे ॥ ३४ ॥
आरुह्य च स्वयं कृष्णसस्त्रभामासहयवान् ।
अदित्याः कुण्डले दातुं जगाम त्रिदशालयम् ॥ ३५ ॥

पृथिवी बोली—हे नाथ! जिस समय षट्हरूप धारणकर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्शसे मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ २३ ॥ इस प्रकार आपहीने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आपहीने इसको नष्ट किया है; आप ये कुण्डल लोभिये और अब इसकी सन्तानकी रक्षा करीजिये ॥ २४ ॥ हे प्रभो! मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारनेके लिये अपने अंशसे इस लोकमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ २५ ॥ हे अद्भ्युत! इस जगत्के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता (पोषक) और आप ही हर्ता (संहारक) हैं; आप ही इसकी उत्पत्ति और लयके स्थान हैं तथा आप ही जगत्रूप हैं; फिर हम आपको स्तुति किस प्रकार करें? ॥ २६ ॥ हे भगवन्! जब कि व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्यरूप आप ही हैं, तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? ॥ २७ ॥ हे नाथ! जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस यस्तुको लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? ॥ २८ ॥ हे सर्वभूतात्मन्! आप प्रसन्न होइये और इस नरकासुरके सङ्पूर्ण अपराध क्षमा करीजिये। निश्चय ही आपने अपने पुत्रको निर्दोष करनेके लिये ही स्वयं पारा है ॥ २९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! तदनन्तर भगवान् भूतभावनने पृथिवीसे कहा—“तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो” और फिर नरकासुरके महलसे जना प्रकारके रत्न लिये ॥ ३० ॥ हे महामुने! अक्षुण्णिक्रम श्रीभगवान्ने नरकासुरके कन्यान्तःपुरमें जाकर सोलह हजार एक सौ कन्याएँ देखीं ॥ ३१ ॥ तथा चार दौंतवाले ऊँ हजार गजश्रेष्ठ और इक्कीस लाख कान्बोजदेशीय अश्व देखे ॥ ३२ ॥ उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ोंको श्रीकृष्णचन्दने नरकासुरके सेककौड़ाय तुरन्त ही द्वारकापुरे पहुँचवा दिया ॥ ३३ ॥

तदनन्तर भगवान्ने यरुमकत्र छत्र और मणिपर्वत देखा, उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षिराज गरुडपर रख लिया ॥ ३४ ॥ और सत्वभामाके सहित स्वयं भी उसीपर षट्हर अदितिंके कुण्डल देनेके लिये स्वर्गलोकको गये ॥ ३५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

तीसवीं अध्याय

पारिजात-हरण

श्रीपराशर उवाच

गरुडो वारुणं रुद्रं तथैव मणिपर्वतम् ।
सभार्यं च हृषीकेशं लीलयैव वहन्ययी ॥ १
ततश्शङ्खमुपाध्मासीत्स्वर्गद्वारगतो हरिः ।
उपतस्थुस्तथा देवास्सार्घ्यहस्ता जनार्दनम् ॥ २
स देवैरर्चितः कृष्णो देवमातुर्निवेशनम् ।
सिताभशिश्वराकारं प्रविश्य ददृशोऽदितिम् ॥ ३
स तां प्रणम्य शक्रेण सह ते कुण्डलोत्तमे ।
ददौ नरकनाशं च शशंसास्यै जनार्दनः ॥ ४
ततः प्रीता जगन्माता धातारं जगतां हरिम् ।
तुष्टावादितिरज्यशा कृत्वा तत्प्रवणं मनः ॥ ५

अदितिरुवाच

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयंकर ।
सनातनात्मन् सर्वात्मन् भूतात्मन् भूतभावन ॥ ६
प्रणेतर्मनसो बुद्धेरिन्द्रियाणां गुणात्मक ।
त्रिगुणातीत निर्द्वन्द्व शुद्धसत्त्व हृदि स्थित ॥ ७
सितदीर्घादिभिर्ज्ञेयैश्चकल्पनापरिवर्जित ।
जन्मादिभिरसंसृष्ट स्वप्नादिपरिवर्जित ॥ ८
सन्ध्या रात्रिरहो भूमिर्गगनं वायुरम्बु च ।
हुताशनो मनो बुद्धिर्भूतादिस्त्वं तथाच्युत ॥ ९
सर्गस्थितिविनाशानां कर्ता कर्तृपतिर्भवान् ।
ब्रह्मादिष्णुशिवाख्याभिरात्ममूर्तिभिरौश्वर ॥ १०
देवा दैत्यास्तथा यक्षा राक्षसास्सिद्धयन्त्रगाः ।
कृष्णाण्डाश्च पिशाचाश्च गन्धर्वा मनुजास्तथा ॥ ११
पशावाश्च मृगाश्चैव पतेगाश्च सरीसृपाः ।
यक्षगुल्यलता बह्व्यः समस्तास्तृणजातवः ॥ १२
स्थूला मध्यास्तथा सूक्ष्मास्तूष्णमतश्च ये ।
देहभेदा भवान् सर्वे ये केचित्पुर्गलाभयाः ॥ १३
माया तद्वेयमज्ञातपरमार्थात्मिभोहिनी ।
अनात्मन्यात्मविज्ञानं घटा भूलो निरुद्ध्यते ॥ १४

श्रीपराशरजी बोलें—पश्चिाव गरुड उस आस्पष्ट
मणिपर्वत और सत्यभामाके सहित श्रीकृष्णचन्द्रको
सीलासे-ही लेकर चलाने लगे ॥ १ ॥ स्वर्गके द्वारपर
पहुँचते ही श्रीहरिने अपना शंख बजाया। उसका सद्य
सुनते ही देवगण अर्घ्य लेकर भगवान्‌के सामने
उपस्थित हुए ॥ २ ॥ देवताओंसे पूजित होकर
श्रीकृष्णचन्द्रजीने देवमाता अदितिके स्वेत मेघशिखरके
समस्त गुहर्मे जाकर उनका दर्शन किया ॥ ३ ॥
तब श्रीजनार्दनने इन्द्रके साथ देवमाताको प्रणामकर
उसके अत्युत्तम कुण्डल दिखे और उसे नरक-
वधका वृत्तान्त सुनाया ॥ ४ ॥ तदनन्तर जगन्माता अदितिने
प्रसन्नतापूर्वक तन्मय होकर जगद्धाता श्रीहरिकी
अख्यप्रभावसे स्तुति की ॥ ५ ॥

अदिति बोली—हे कमलनयन! हे भक्तोंको
आगम करनेवाले! हे सनातनस्वरूप! हे सर्वात्मन्! हे
भूतस्वरूप! हे भूतभावन! आपको नमस्कार हैं ॥ ६ ॥
हे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके रचयिता! हे गुणस्वरूप!
हे त्रिगुणातीत! हे निर्द्वन्द्व! हे शुद्धसत्य! हे अन्तर्धामिन्!
आपको नमस्कार है ॥ ७ ॥ हे नाथ! आप स्वेत, दीर्घ
आदि सम्पूर्ण कल्पनाओंसे रहित हैं, जन्मादि विकारोंसे
पृथक् हैं तथा स्वप्नादि अवस्थात्रयसे परे हैं; आपको
नमस्कार है ॥ ८ ॥ हे अच्युत! सन्ध्या, रात्रि, दिन,
भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पन, बुद्धि और
अहंकार—ये सब आप ही हैं ॥ ९ ॥

हे ईश्वर! आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक
अपनी मूर्तियोंसे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और नाशके
कर्ता हैं तथा आप कर्ताओंके भी स्वामी हैं ॥ १० ॥
देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, पन्नग (नाग),
कृष्णाण्ड, पिशाच, गन्धर्व, मनुष्य, पशु, पृग, पतंग,
सरीसृप (सर्प), अनेकों वृक्ष, गुल्म और लताएँ,
समस्त तृणजातियाँ तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म जितने देह-भेद पुर्णतः (परमाणु)-
के आश्रित हैं वे सब आप ही हैं ॥ ११-१३ ॥

हे प्रभो! आपको माया ही परमार्थतत्त्वके न
जाननेवाले पुरुषोंको मोहित करनेवाली है, जिससे मूढ़ पुरुष
अनात्मार्थे आत्मबुद्धि करके बन्धनमें पड़ जाते हैं ॥ १४ ॥

अस्ये स्वमिति भावोऽत्र यत्सुसामुपजायते ।
 अहं ममेति भावो यत्प्रायेणीवाभिजायते ।
 संसारमातुर्मायायास्तवैतन्नाथ चेष्टितम् ॥ १५
 वैः स्वधर्मपरैर्नाथ नरैराराधितो भवान् ।
 ते तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मविमुक्तये ॥ १६
 ब्रह्माद्यास्सकला देवा मनुष्याः पशवस्तथा ।
 विष्णुमायामहावर्तमोहान्धतमसावृताः ॥ १७
 आराध्य त्वामभीप्सन्ते कामानात्मभवक्षयम् ।
 यदेते पुरुषा माया सैवेयं भगवंस्तव ॥ १८
 मया त्वं पुत्रकामिन्या वैरिपक्षजयाय च ।
 आराधितो न मोक्षाय मायाविलसितं हि तत् ॥ १९
 कौपीनाच्छदनप्राया वाञ्छा कल्पद्रुमादपि ।
 जायते यदपुण्यानां सोऽपराधः स्वदोषजः ॥ २०
 तत्प्रसीदाखिलजगन्मायामोहक राव्यय ।
 अज्ञानं ज्ञानसद्भावभूतं भूतेश नाशय ॥ २१
 नमस्ते चक्रहस्ताय शार्ङ्गहस्ताय ते नमः ।
 गदाहस्ताय ते विष्णो शङ्खहस्ताय ते नमः ॥ २२
 एतत्पश्यामि ते रूपं स्थूलचिह्नोपलक्षितम् ।
 न जानामि परं यत्ते प्रसीद परमेश्वर ॥ २३
 श्रीपराशर उवाच
 अदित्यैव स्तुतो विष्णुः प्रहस्यति सुरारणिम्* ।
 माता देवि त्वमस्माकं प्रसीद वरदा भव ॥ २४
 अदितिरुवाच
 एवमस्तु तथेच्छा ते स्वमज्ञैर्बेस्सुरासुरैः ।
 अजेयः पुरुषव्याघ्र मर्त्यलोके भविष्यसि ॥ २५
 श्रीपराशर उवाच
 ततः कृष्णस्थ पत्नी च शक्रपत्न्या सह्यदितिम् ।
 सत्यभामा प्रणम्याह प्रसीदेति पुनः पुनः ॥ २६
 अदितिरुवाच
 मत्प्रसादान् ते सुभु जरा वैरूप्यमेध वा ।
 भविष्यत्यनवद्याङ्गि सुस्थिरं नवयौवनम् ॥ २७

हे नाथ! पुरुषको जो अनात्मामें अल्पबुद्धि और 'मैं-मेरा' आदि भाव प्रायः उत्पन्न होते हैं वह सब आपकी जगज्जन्ती मायाका ही विलास है ॥ १५ ॥ हे नाथ! जो स्वधर्मपरायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्षके लिये इस सम्पूर्ण मायाको पार कर जाते हैं ॥ १६ ॥ ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी जिष्णुमायाका यह रूप आवर्तमें पड़कर पोहरूप अन्धकारसे आवृत हैं ॥ १७ ॥ हे भगवन्! [जन्म और मरणके चक्रमें पड़े हुए] ये पुरुष जीवके भव-बन्धनको नष्ट करनेवाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकारकी कामनाएँ ही चाँगेते हैं, यह आपकी माया ही है ॥ १८ ॥ मैंने भी पुत्रोंको जयकामनासे शत्रुपक्षको पराजित करनेके लिये तो आपकी आराधना की है, मोक्षके लिये नहीं। यह भी आपकी मयाका ही विलास है ॥ १९ ॥ पुण्यहीन पुरुषोंको जो कल्पवृक्षसे भी कौपीन और आच्छादन-वस्त्रमात्रकी ही कामना होती है यह उनका कर्म-दोष-जन्म अपराध ही है ॥ २० ॥

हे अखिलजगन्माया-मोहकारी अव्यय प्रभो! आप प्रसन्न होइये और हे भूतेश्वर! 'मैं ज्ञानवान् हूँ' भरे इस अज्ञानको नष्ट कीजिये ॥ २१ ॥ हे चक्रराणे! आपकी नमस्कार है, हे शार्ङ्गधर! आपकी नमस्कार है; हे गदाधर! आपकी नमस्कार है; हे शंखराणे! हे विष्णो! आपकी वारम्बार नमस्कार है ॥ २२ ॥ मैं स्थूल चिह्नोंसे प्रतीत होनेवाले आपके इस रूपको ही देखती हूँ; आपके वास्तविक परस्वरूपको मैं नहीं जानती; हे परमेश्वर! आप प्रसन्न होवये ॥ २३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—अदितिद्वारा इस प्रकार स्तुति किये जानेपर भगवान् विष्णु देवमाम्नासे हँसकर बोले—
 “हे देवि! तुम तो हमारी माता हो; तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी होओ” ॥ २४ ॥

अदिति बोली—हे पुरुषसिंह! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम मर्त्यलोकमें सम्पूर्ण सुगसुखसे अजेय होगे ॥ २५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर शक्रपत्नी शचीके सहित कृष्णप्रिया सत्यभामाने अदितिको पुनः-पुनः प्रणाम करते कहे—“माता! अथ प्रसन्न होइये” ॥ २६ ॥

अदिति बोली—हे सुन्दर भृकुटियालो! मेरी कृपासे तुझे कभी नृदावस्था या विरूपता व्याप्त न होगी। हे अनिन्दितांगि! तेरा नवयौवन सदा स्थिर रहेगा ॥ २७ ॥

श्रीपराशर उवाच

अदित्या तु कृतानुज्ञो देवराजो जनार्दनम् ।
 यथावत्पूजयामास बहुमानपुरस्सरम् ॥ २८ ॥
 शची च सत्यभामायै पारिजातस्य पुष्पकम् ।
 न ददौ मानुषीं मत्वा स्वयं पुष्पैरलङ्कृता ॥ २९ ॥
 ततो ददर्श कृष्णोऽपि सत्यभामासहायवान् ।
 देवोद्यानानि हृद्यानि नन्दनादीनि सततम् ॥ ३० ॥
 ददर्श च सुगन्धाह्वं मञ्जरीपुष्पधारिणाम् ।
 नित्याह्लादकरं ताम्रखालपल्लवशोभितम् ॥ ३१ ॥
 मथ्यमानेऽपृते जातं जातरूपोपमस्वप्नम् ।
 पारिजातं जगन्नाथः केशवः केशिसूदनः ॥ ३२ ॥
 तुतोष परमप्रीत्या तरुराजमनुत्तमम् ।
 तं दृष्ट्वा प्राह गोविन्दं सत्यभामा द्विजोत्तम ।
 कस्मान् द्वारकामेष नीयते कृष्ण पादपः ॥ ३३ ॥
 यदि चेन्नहन्तः सत्यं त्वमत्यर्थं प्रियेति मे ।
 मद्गोहनिष्कुटार्थाय तदयं नीयतां तरुः ॥ ३४ ॥
 न मे जाम्बवती तादृगभीष्टा न च रुक्मिणी ।
 सत्ये यथा त्वमित्युक्तं त्वया कृष्णासकृदियम् ॥ ३५ ॥
 सत्यं तद्यदि गोविन्द नोपसारकृतं मम ।
 तदस्तु पारिजातोऽयं मम गोहविभूषणम् ॥ ३६ ॥
 बिभ्रती पारिजातस्य केशपक्षेण मञ्जरीम् ।
 सपत्नीनामहं मध्ये शोभेयमिति कामये ॥ ३७ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तस्स प्रहस्यैनां पारिजातं गरुत्मति ।
 आतोपयामास हरिस्तमूचुर्वनरक्षिणः ॥ ३८ ॥
 भो शची देवराजस्य पहिषी तत्परिग्रहम् ।
 पारिजातं न गोविन्द हर्तुमर्हसि पादपम् ॥ ३९ ॥
 उत्पन्नो देवराजाय दत्तस्सोऽपि त्वीं पुनः ।
 महिष्यी सुमह्यभाग देख्यै शस्यै कुतूहलात् ॥ ४० ॥
 शचीविभूषणार्थाय देवैरमुतमन्वने ।
 उत्पादितोऽयं न क्षेमी गृहीत्वैनं गमिष्यसि ॥ ४१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर अर्द्धतिथी आशसे देवराजने अत्यन्त आधर-सत्करके साथ श्रीकृष्णवन्द्य पूजन किया ॥ २८ ॥ किन्तु कल्पवृक्षके पुष्पोसे अलंकृत इन्द्राणीने सत्यभामाको मानुषी सपन्नकर से पुष्प न दिये ॥ २९ ॥ हे साधुश्रेष्ठ ! तदनन्तर सत्यभामाके सहित श्रीकृष्णवन्दने भी देवताओंके नन्दन आदि पत्नीहर उद्यानोंको देखा ॥ ३० ॥ जहाँपर केशिनिसूदन जगन्नाथ श्रीकृष्णने सुगन्धपूर्ण मंजरी-पुंजधारी, नित्यह्लादकारी और ताम्रवर्ण बाल पतंगे सुशोभित, अनृत-मन्थनके समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छालवाला पारिजात-वृक्ष देखा ॥ ३१-३२ ॥

हे द्विजोत्तम ! उस अत्युत्तम वृक्षराजको देखकर परम प्रीतिमय सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्रीगोविन्दसे बोली—‘हे कृष्ण ! इस वृक्षको द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते ?’ ॥ ३३ ॥ यदि आपका यह वचन कि ‘तुम ही मेरी अत्यन्त प्रिया हो’ शक्य है तो मेरे गृहोद्यानमें लगानेके लिये इस वृक्षको ले चलिये ॥ ३४ ॥ हे कृष्ण ! आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वचन कहा है कि ‘हे सत्ये ! मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी न जाम्बवती है और न रुक्मिणी ही’ ॥ ३५ ॥ हे गोविन्द ! यदि आपका यह कथन सत्य है—केवल मुझे बहलाना ही नहीं है—तो यह पारिजातवृक्ष मेरे गृहका भूषण हो ॥ ३६ ॥ मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश-कलापोंमें पारिजातपुष्प गूँथकर अपनी अन्य सपत्नियोंमें सुशोभित होऊँ ॥ ३७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—सत्यभामाके इस प्रकार कहनेपर श्रीहरिने हँसते हुए उस पारिजातवृक्षको गरुडपर रख लिया; तब नन्दनवनेके रत्नकांठे कहा— ॥ ३८ ॥ ‘हे गोविन्द ! देखरख इन्द्रको पत्नी जो महाराजो शची हैं यह पारिजातवृक्ष उनको सम्पत्ति है, आध इसका हरण न कीजिये ॥ ३९ ॥ धीर-समुद्रसे उत्पन्न होनेके अनन्तर यह देवराजको दिया गया था; फिर है महाभाग ! देवराजने कुतूहलवश इसे अपनी पहिषी शचीदेवीको दे दिया है ॥ ४० ॥ समुद्र-मन्थनके समय शचीको विभूषित करनेके लिये ही देवताओंने इसे उत्पन्न किया था; इसे लेकर आप कुशलपूर्वक नहीं जा सकेंगे ॥ ४१ ॥

देवराजो मुखप्रेक्षी यस्यास्तस्याः परिग्रहम् ।
भीक्यात्प्रार्थयसे क्षेमी गृहीत्वैनं हि क्रे ज्ञेत् ॥ ४२
अवश्यमस्य देवेन्द्रो निष्कृतिं कृष्ण यास्यति ।
वज्रोद्यतकरं शक्रमनुयास्यन्ति चापराः ॥ ४३
तदलं सकलैर्देवैर्विग्रहेण तवाच्युत ।
विपाककटु यत्कर्म तन्न शंसन्ति पण्डिताः ॥ ४४

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्ते तैरुवाचैतान् सत्यभामातिकोपिनी ।
का शची पारिजातस्य क्रे वा शक्रस्सुधाधिपः ॥ ४५
सामान्यस्सर्वलोकस्य यद्येषोऽमुतमन्थने ।
समुत्पन्नस्तरुः कस्मादेको गृह्णाति वासवः ॥ ४६
यथा सुरा यथैवेन्दुर्यथा श्रीर्वनरक्षिणः ।
सामान्यस्सर्वलोकस्य पारिजातस्तथा हुमः ॥ ४७
भर्तृन्नाहुमहागर्वाद्गुणद्वयेनमथो शची ।
तत्कथ्यतामलं क्षान्त्या सत्वा ह्यरयति हुमम् ॥ ४८
कथ्यतां च द्रुतं गत्वा पौलोम्या वचनं मम ।
सत्यभामा यदत्येतदिति गर्वीद्धृताक्षरम् ॥ ४९
यदि त्वं दयिता भर्तृर्वदि वश्यः पतिस्तव ।
मद्भर्तुर्हृत्तो वृक्षां तत्कारय निवारणाम् ॥ ५०
जानामि ते पतिं शक्रं जानामि त्रिदशेश्वरम् ।
पारिजातं तथाप्येनं मानुषी हारयामि ते ॥ ५१

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा रक्षिणो गत्वा शच्याः प्रोचुर्यथोदितम् ।
श्रुत्वा चोत्साह्यापास शची शक्रं सुराधिपम् ॥ ५२
ततस्समस्तदेवानां सैन्यैः परिश्रुतो हरिम् ।
प्रययौ पारिजातार्थमिन्द्रो योद्धुं द्विजोत्तम ॥ ५३
ततः परिघनिस्त्रिंशद्गदाशूलवरायुधाः ।
बभूवुन्निदशास्सन्जाः शक्रे वज्रकरे स्थिते ॥ ५४
ततो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजोपरिस्थितम् ।
शक्रं देवपरीवारं युद्धाय समुपस्थितम् ॥ ५५
चकार शङ्खनिर्घोषं दिशश्शब्देन पूरयन् ।
मुमोच शरसङ्घतान्सहस्रायुतशशितान् ॥ ५६

देवराज भी जिसका मुँह देखते रहते हैं, उस शचीकी सम्पत्ति इस पारिजातकी इच्छा आप मूढताहीसे करते हैं; इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है ? ॥ ४२ ॥ हे कृष्ण! देवराज इन्द्र इस वृक्षका बदला चुकानेके लिये अवश्य ही वज्र लेकर उद्यत होंगे और फिर देवाण्य भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे ॥ ४३ ॥ अतः हे अश्रुत! समस्त देवताओंके साथ रात्र बढ़ानेसे आपका कोई लाभ नहीं; क्योंकि जिस कर्मका परिणाम कटु होता है, पण्डितजन उसे अच्छा नहीं कहते ॥ ४४ ॥

श्रीपराशरजी बोले— उद्यान-रक्षकोंके इस प्रकार कहनेपर सत्यभामाने अत्यन्त क्रुद्ध होकर कहा—“शची भगवा देवराज इन्द्र ही इस पारिजातके कौन होते हैं ? ॥ ४५ ॥ यदि यह अमृत-धन्वनके सभय उत्पन्न हुआ है, तो सबकी समान सम्पत्ति है; अकेला इन्द्र ही इसे कैसे ले सकता है ? ॥ ४६ ॥ अरे वनरक्षको! जिस प्रकार [समुद्रसे उत्पन्न हुए] मदिरा, चन्द्रमा और लक्ष्मीका सब लोग सपानतासे भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजातवृक्ष भी सभीकी सम्पत्ति है ॥ ४७ ॥ यदि पतिके शोचनसे गर्विता होकर शचीने ही इसपर अपना अधिकार जमा रखा है तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्षको हरण कराकर लिये जाती है, तुम्हें क्षमा करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ४८ ॥ अरे मालियो! तुम तुरन्त जाकर मेरे ये शब्द शचीसे कहो कि सत्यभामा अत्यन्त गर्वपूर्वक कड़े आँसुओंमें यह कहती है कि यदि तुम अपने पतिको अत्यन्त प्यारी हो और ये तुम्हारे वशीभूत हैं तो मेरे पतिको पारिजात हरण करनेसे रोकें ॥ ४९-५० ॥ मैं तुम्हारे पति शक्रको जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओंके स्वामी हैं तथापि मैं मानवी हूँ तुम्हारे इस पारिजातवृक्षको लिये जाती हूँ ॥ ५१ ॥

श्रीपराशरजी बोले— सत्यभामाके इस प्रकार कहनेपर वनरक्षकोंने शचीके पास जाकर उससे सम्पूर्ण वृक्षान् ज्यों-का-त्यों कह दिया। यह सब सुनकर शचीने अपने पति देवराज इन्द्रको उत्साहित किया ॥ ५२ ॥ हे द्विजोत्तम! तब देवराज इन्द्र पारिजातवृक्षको छुड़ानेके लिये सम्पूर्ण देवसेनाके सहित श्रीहरिसे लड़नेके लिये चले ॥ ५३ ॥ जिस समय इन्द्रने अपने हाथमें अत्ररिणा उसी समय सम्पूर्ण देवराज परिघ, निस्त्रिंशद् गदा और शूल आदि अस्त्र-प्रस्रोंसे सुसज्जित हो गये ॥ ५४ ॥ अत्यन्त देवसेनासे घिरे हुए ऐक्यतासङ्घ इन्द्रको युद्धके लिये उद्यत देख श्रीगोविन्दने सम्पूर्ण दिश्वोंको शब्दाद्यमान करते हुए सङ्घ-ध्वनि की और हजारी-लाखों तोखे साथ छोड़े ॥ ५५-५६ ॥

ततो दिशो नभश्चैव दृष्ट्वा शरशतैश्चितम् ।
 मुमुक्षुस्त्रिदशास्सर्वे ह्यस्त्रशस्वाण्यनेकशः ॥ ५७
 एकैकमस्त्रं शस्त्रं च देवैर्मुक्तं सहस्रशः ।
 चिच्छेद त्रीलयीवेशो जगतां मधुसूदनः ॥ ५८
 पाशं सलिलराजस्य समाकृष्योरगाशनः ।
 स्रकार खण्डशश्चञ्चवा खालपनगदेहवत् ॥ ५९
 यमेव प्रहितं दण्डं गदाविक्षेपखण्डितम् ।
 पृथिव्यां पातयामास भगवान् वेवकीसुतः ॥ ६०
 शिषिकां च धनेशस्य चक्रेण तिलशो विभुः ।
 स्रकार शीरिरकं च दृष्टिदृष्टहतीजसम् ॥ ६१
 नीतोऽग्निहशीस्ततो वाणीत्रैविता षसवो दिशः ।
 स्रकविधिच्छन्नशूलाग्न रथ भुवि निपातिताः ॥ ६२
 साध्या विप्रवेऽथ मरुतो गन्धर्वाश्चैव सायकैः ।
 शार्ङ्गिणा प्रेरितैरस्ता व्योम्नि शात्मलितूलवत् ॥ ६३
 गरुत्मानपि तुण्डेन पक्षाभ्यां च मय्याङ्कुरैः ।
 भक्षयंस्ताडयन् देवान् दारयश्च चचार वै ॥ ६४
 ततश्शरसहस्रेण देवेन्द्रमधुसूदन ।
 परस्परं ववर्षति धाराभिरिव तीयदी ॥ ६५
 ऐरावतेन गरुडो युयुधे तत्र संकुले ।
 देवैस्समस्तैर्युयुधे शक्रेण च जनार्दनः ॥ ६६
 धिन्नेष्वशेषबाणेषु शस्त्रेष्वस्त्रेषु च त्वरन् ।
 जग्राह वासवो वज्रं कृष्णश्चक्रं सुदर्शनम् ॥ ६७
 ततो ह्यहकृतं सर्वं त्रैलोक्यं द्विजसत्तमः ।
 घञ्चक्रकरी दृष्ट्वा देवराजजनार्दनी ॥ ६८
 क्षिप्तं वज्रमश्रेत्रेण जग्राह भगवान्हरिः ।
 न मुमोच तदा चक्रं शक्रं तिष्ठेति चाबधीत् ॥ ६९
 प्रणष्टवज्रं देवेन्द्रं गरुडक्षतबाह्वनम् ।
 सत्यभामाब्रवीद्दीरं पलायनपरायणम् ॥ ७०
 त्रैलोक्येश न ते युक्तं शचीभर्तुः पलायनम् ।
 पारिजातस्रगाभोगा त्वासुपस्थास्यते शची ॥ ७१

इस प्रकार सम्पूर्ण दिशाओं और आकाशको सैकड़ों
 बाणोंसे पूर्ण देख देवताओंने अनेकों अस्त्र-स्रस्त्र
 छोड़े ॥ ५७ ॥

त्रिलोककोके स्वामी श्रीनधुसूदनने देवताओंके छोड़े
 हुए प्रत्येक अस्त्र-शस्त्रके लीलासे ही हजारों टुकड़े कर
 दिये ॥ ५८ ॥ सर्पाहारी गरुडने जलाधिपति वरुणके पाशकी
 खींचकर अपनी चौंचसे सर्पके बच्चेके समान उसके
 कितने ही टुकड़े कर डाले ॥ ५९ ॥ श्रीदेवकीनन्दने
 समके फेंके हुए दण्डको अपनी गदासे खण्ड-खण्ड
 कर पृथिवीपर गिरा दिया ॥ ६० ॥ कुबेरके विमानको
 भगवान्ने सुदर्शनचक्रद्वारा तिल-तिल कर डाला और
 सूर्यको अपनी तेजोमय दृष्टिसे देखकर ही निस्तेज कर
 दिया ॥ ६१ ॥ भगवान्ने तप्तनार बाण भरसाकर अग्निको
 शीतल कर दिया और वसुओंको दिशा-विदिशाओंमें
 भगा दिया तथा अपने चक्रसे त्रिशूलोंकी नीक काटकर
 रुद्रगणको पृथिवीपर गिरा दिया ॥ ६२ ॥ भगवत्के
 चलाये हुए बाणोंसे साध्यगण, विप्रवेदेवगण, मरुद्गण
 और गन्धर्वगण सेमलकी रुईके समान अरकाशमें ही
 लौन हो गये ॥ ६३ ॥ श्रीभगवान्के साथ गरुडजी भी
 अपनी चौंच, पंख और पंजोंसे देवताओंको खाते, मारते
 और फाड़ते फिर रहे थे ॥ ६४ ॥

फिर जिस प्रकार दो मेघ जलकी धाराएँ बरखाते
 हों उसी प्रकार देवराज इन्द्र और श्रीभधुसूदन एक-
 दूसरेपर बाण बरसाने लगे ॥ ६५ ॥ उस युद्धमें गरुडजी
 ऐरावतके साथ और श्रीकृष्णचन्द्र इन्द्र तथा सम्पूर्ण
 देवताओंके साथ लड़ रहे थे ॥ ६६ ॥ सम्पूर्ण बाणोंके
 चूक जाने और अस्त्र-शस्त्रोंके कट जानेपर इन्द्रने
 शीघ्रतासे वज्र और कृष्णने सुदर्शनचक्र हाथमें लिया ॥ ६७ ॥
 हे द्विजश्रेष्ठ ! उस समय सम्पूर्ण त्रिलोकमें इन्द्र और
 कृष्णचन्द्रको क्रमशः वज्र और चक्र लिये हुए देखकर
 हाहाकार मच गया ॥ ६८ ॥ श्रीहरिने इन्द्रके छोड़े हुए
 वज्रको अपने हाथोंसे पकड़ लिया और स्वयं चक्र न
 छोड़कर इन्द्रसे कहा—“अरे, ठहर !” ॥ ६९ ॥

इस प्रकार वज्र छिन जाने और अपने बाह्य ऐंठवके
 गरुडद्वारा क्षत-विधत हो जानेके कारण भगवते हुए वीर
 इन्द्रसे सत्यभामने कहा— ॥ ७० ॥ “हे त्रैलोक्येश्वर ! तुम
 शचीके पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्धमें पीठ दिखलाना
 उचित नहीं है। तुम भागो मत, पारिजात-पुष्पोंकी
 मालासे विभूषिता होकर शची शीघ्र ही तुम्हारे पास
 आवेगी ॥ ७१ ॥

कीदृशं देवरत्नं ते पारिजातस्त्रगुण्यस्ताम् ।
 अपश्यतो यथापूर्वं प्रणयाभ्यागतां शचीम् ॥ ७२
 अलं शक्र प्रयासेन न व्रीडां गन्तुमर्हसि ।
 नीयतां पारिजातोऽयं देवास्सन्तु गतव्यथाः ॥ ७३
 पतिगर्वावसेपेन बहुमानपुरस्सरम् ।
 न ददर्श गृहं यातामुपचारेण मां शची ॥ ७४
 स्त्रीत्वादगुलचित्ताहं स्वभर्तृश्लाघनापरा ।
 ततः कृतवती शक्र भवता सह विग्रहम् ॥ ७५
 तदलं पारिजातेन परस्वेन ह्येन मे ।
 रूपेण गर्विता सा तु भर्ता का स्त्री न गर्विता ॥ ७६

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तो वै निखवृते देवराजस्तथा द्विज ।
 प्राह चैनामलं चण्डि सख्युः खेदोक्तिविस्तारः ॥ ७७
 न चापि सर्गसंहारस्थितिकर्तारिखलस्य यः ।
 जितस्य तेन मे व्रीडा जायते विश्वरूपिणा ॥ ७८
 यस्माज्जगत्सकलमेतदनादिमध्या-
 द्वासिमन्यतश्च न भविष्यति सर्वभूतात् ।
 तेनोद्धवप्रलयपालनकारणेन
 व्रीडा कथं भवति देवि निराकृतस्य ॥ ७९
 सकलभुवनसूतिर्पूर्तिरल्पाल्पसूक्ष्मा
 विदितसकलवेदैर्ज्ञायते यस्य नान्यैः ।
 समञ्जमकृतमीशं शाश्वतं स्वेच्छयानं
 जगदुपकृतिमर्त्यं को विजेतुं समर्थः ॥ ८०

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

अब प्रेमवशा अपने पास आयी हुई शचीको पहलेकी
 भाँति पारिजात-पुष्पकी मालासे अलंकृत न देखकर तुम्हें
 देवराजत्वका क्या सुख होगा ? ॥ ७२ ॥ हे शक्र ! अब तुम्हें
 अधिक प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम संकोच
 मत करो; इस पारिजात-पुष्पको ले जाओ; इसे पाकर
 देवगण सन्ताप रहित हों ॥ ७३ ॥ अपने पतिके बाहुबलसे
 अत्यन्त गर्विता शचीने अपने घर जानेपर भी मुझे कुछ
 अधिक सम्मानको दृष्टिसे नहीं देखा था ॥ ७४ ॥ स्त्री होनेसे
 भेरा निता भी अधिक गम्भीर नहीं है, इसलिये मैंने भी
 अपने पतिका गौरव प्रकट करनेके लिये ही तुमसे यह
 लड़ाई जानी थी ॥ ७५ ॥ मुझे दूसरेकी सम्पत्ति इस पारिजातको
 ले जानेकी क्या आवश्यकता है ? शची अपने रूप और
 पतिके कारण गर्विता हैं तो ऐसी कौन-सी स्त्री है जो इस
 प्रकार गर्वीली न हो ? ॥ ७६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज ! सत्यभामाके इस
 प्रकार कहनेपर देवराज लौट आये और बोले—“हे क्रोडिनी !
 मैं तुम्हारा सुहृद् हूँ, अतः मेरे लिये ऐसी वैमनस्य बहनेवाली
 उक्तियोंके विस्तार करनेका कोई प्रयोजन नहीं है ? ॥ ७७ ॥
 जो सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहर करनेवाले
 हैं, उन विश्वरूप प्रभुसे पराजित होनेमें भी मुझे कोई
 संकोच नहीं है ॥ ७८ ॥ जिस आदि और पथ्यरहित प्रभुसे
 यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है
 और फिर जिसमें लीन होकर अन्तर्गम्य यह न रहेगा; हे
 देवि ! जगत्की उत्पत्ति, प्रलय और पालनके कारण उस
 परमात्मासे ही परमस्त होनेमें मुझे कैसे लज्जा हो सकती
 है ? ॥ ७९ ॥ जिसकी अत्यन्त अल्प और सूक्ष्म मूर्तिको,
 जो सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाली है, सम्पूर्ण धेदोंको
 जाननेवाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते तथा जिसने
 जगत्के उपकारके लिये अपनी इच्छासे ही भनुष्यरूप
 धारण किया है उस अकस्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वरको
 जीतनेमें कौन समर्थ है ? ॥ ८० ॥

इकतीसवाँ अध्याय

भगवान्का द्वारकापुरीमें लौटना और सोलह हजार एक सौ कन्याओंसे विवाह करना

श्रीपराशर उवाच

संस्तुतो भगवानित्थं देवराजेन केशवः ।
प्रहस्य भावगम्भीरमुवाचेन्द्रं द्विजोत्तम ॥ १

श्रीकृष्ण उवाच

देवराजो भक्षानिन्द्रो वयं मर्त्यां जगत्पते ।
क्षन्तव्यं भवतैवेदमपराधं कृतं मम ॥ २
पारिजाततरुश्चायं नीचतामुचितास्यदम् ।
गृषितोऽयं मया शक्र सत्यावचनकारणात् ॥ ३
चञ्चं चेदं गृहाण त्वं यदत्र प्रहितं त्वया ।
तथैवैतत्प्रहरणं शक्र वैरिबिदारणम् ॥ ४

इन्द्र उवाच

विषोहयसि मामीश मर्त्योऽहमिति किं वदन् ।
जानीमस्त्वां भगवतो न तु सूक्ष्मविदो ययम् ॥ ५
खेऽसि खेऽसि जगत्प्राणप्रवृत्तो नश्च संस्थितः ।
जगतश्शाल्यनिष्कर्षं करोष्यसुरसूदन ॥ ६
नीचतां पारिजातोऽयं कृष्ण द्वारवतीं पुरीम् ।
मर्त्यलोके त्वया त्यक्ते नायं संस्थास्यते भुवि ॥ ७
देवदेव जगन्नाथ कृष्ण विष्णो महाभुज ।
शङ्खचक्रगदापाणे क्षमस्वैतद्व्यतिक्रमम् ॥ ८

श्रीपराशर उवाच

तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्रमाजगाम भुवं हरिः ।
प्रसक्तैः सिद्धगन्धर्वैः स्तूयमानः सुरर्षिभिः ॥ ९
ततश्शङ्खमुपाध्याय द्वारकोपरि संस्थितः ।
हर्षमुत्पादयामास द्वारकावासिनां द्विज ॥ १०
अवतीर्थाश्च गरुडात्सत्यधामासहायवान् ।
निष्कुटे स्थापयामास पारिजातं महातरुम् ॥ ११
यमध्वेत्य जनसखीं जातिं स्मरति पौर्विकीम् ।
वास्यते यस्य पुष्योऽध्वान्धेनोर्वी त्रियोजनम् ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विजोत्तम! इन्द्रने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान् कृष्णचन्द्र गम्भीर-भावसे हँसते हुए इस प्रकार बोले—॥ १ ॥

श्रीकृष्णजी बोले—हे जगत्पते! आप देवराज इन्द्र हैं और हम मरणधर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें ॥ २ ॥ मैं जो यह पारिजातवृक्ष लिया था उसे उसके योग्य स्थान (नन्दनवन)-को ले जाइये। हे शक्र! मैं तो इसे सत्यधामाके कहनेसे ही ले लिया था ॥ ३ ॥ और आपने जो वचन फेंका था उसे भी ले लींजिये; क्योंकि हे शक्र! यह शत्रुओंको नष्ट करनेवाला शस्त्र आपकीका है ॥ ४ ॥

इन्द्र बोले—हे ईश! 'मैं मनुष्य हूँ' ऐसा कहकर मुझे क्यों नोहित करते हैं? हे भगवान्! मैं तो आपके ३५ अगुणस्वरूपको ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म-स्वरूपको जाननेवाले नहीं हैं ॥ ५ ॥ हे नाथ! आप जो हैं वही हैं। [हम तो इतना ही जानते हैं कि] हे देवदेवन! आप सांकरक्षामें तत्पर हैं और इस संसारके काँटोंको निकाल रहे हैं ॥ ६ ॥ हे कृष्ण! उस पारिजात-वृक्षको आप द्वारकापुरी ले जाइये, जिस समय आप मर्त्यलोक छोड़ देंगे, उस समय वह भूलोकमें नहीं रहेगा ॥ ७ ॥ हे देवदेव! हे जगन्नाथ! हे कृष्ण! हे विष्णो! हे महाबाहो! हे शंखचक्रगदापाणे! मेरी इस धृष्टताको क्षमा कीजिये ॥ ८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर श्रीहरि देवराजसे 'गुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा हो सही' ऐसा कहकर सिद्ध, गन्धर्व और देवर्षिगणसे स्तुत हो भूलोकमें भले आये ॥ ९ ॥ हे द्विज! द्वारकापुरीके ऊपर पहुँचकर श्रीकृष्णचन्दने [अपने अनेकी सूचना देते हुए] शंख बजाकर द्वारकावासियोंको आनन्दित किया ॥ १० ॥ तदनन्तर सत्यधामाके सहित गच्छसे उतरकर उस पारिजात-मखवृक्षको [सत्यधामाके] गृहोद्यानमें छाँटा दिया ॥ ११ ॥ जिसके पास आकर सब मनुष्योंको अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आता है और जिसके पुष्पोंसे निकली हुई गन्धसे तीन योजन्तक पृथिवी सुगन्धित रहती है ॥ १२ ॥

ततस्ते यादवास्सर्वे देहबन्धानमानुषान् ।
 ददुशुः पादपे तस्मिन् कुर्वन्तो मुखदर्शनम् ॥ १३
 किंकरैस्समुपानीतं हसत्यशवादि ततो धनम् ।
 विभक्त्य प्रददौ कृष्णो बान्धवानां महामतिः ॥ १४
 कन्याश्च कृष्णो जग्राह नरकस्य परिग्रहान् ॥ १५
 ततः काले शुभे प्राप्ते उपदेशे जनार्दनः ।
 ताः कन्या नरकेणासन्सर्वतो यास्समाहृताः ॥ १६
 एकस्मिन्नेव गोविन्दः काले तासां महामुने ।
 जग्राह विधिवत्पाणीन्पुथग्गेहेषु धर्मतः ॥ १७
 षोडशस्त्रीसहस्राणि शतमेकं ततोऽधिकम् ।
 तावन्ति चक्रे रूपाणि भगवान् मधुसूदनः ॥ १८
 एकैकमेव ताः कन्या येनिरे मधुसूदनः ।
 ममैव पाणिग्रहणं मैत्रेय कृतवानिति ॥ १९
 निशासु च जगत्स्त्रिया तासां गेहेषु केशवः ।
 उवास विप्र सर्वासां विश्वरूपधरो हरिः ॥ २०

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

बत्तीसवाँ अध्याय

उष-चरित्र

श्रीपराशर उवाच

प्रद्युम्नाद्या हरैः पुत्रा रुक्मिण्यां कश्चितास्तव ।
 भानुभौमेरिकाद्यांश्च सत्यभामा व्यजायत ॥ १
 दीप्तिमत्ताप्रपक्षाद्या रोहिण्यो तनया हरैः ।
 बभूवुर्जांभवत्यां च साम्बाद्या बलशालिनः ॥ २
 तनया भद्रविन्दाद्या नागनजित्या महाबलाः ।
 सङ्ग्रामजित्प्रभावास्तु शैव्यायां च हेस्सुताः ॥ ३
 वृकाद्याश्च सुता मादृशां गात्रवत्प्रमुखास्तान् ।
 अश्वप लक्ष्मणा पुत्रान्कालिण्याश्च श्रुतादयः ॥ ४
 अन्यासां चैव भार्याणां समुत्पन्नानि चक्रिणः ।
 अष्टायुतानि पुत्राणां सहस्राणि शतं तथा ॥ ५

यादृशीं उस वृक्षकं रास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखतायी दिया ॥ १३ ॥
 तदनन्तर महामति श्रीकृष्णचन्दने नरकासुरके सेवकोंद्वारा लाये हुए हाथों-घोंडे आदि धनको अपने बन्धु-बान्धवोंमें बाँट दिया और नरकासुरकी वरण की हुई कन्याओंको स्वयं ले लिया ॥ १४-१५ ॥
 शुभ समय प्राप्त होनेपर श्रीजनार्दनने उन समस्त कन्याओंके साथ, जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था, विवाह किया ॥ १६ ॥ हे महामुने! श्रीगोविन्दने एक ही समय पृथक्-पृथक् भवनोंमें उन सबके साथ विधिवत् धर्मपूर्वक पाणिग्रहण किया ॥ १७ ॥ वे सोलह हजार एक सौ स्त्रियों थीं; उन सबके साथ पाणिग्रहण करते समय श्रीमधुसूदनने इतने ही रूप बना लिये ॥ १८ ॥ हे मैत्रेय! परंतु उस समय प्रत्येक कन्या 'भगवान्ने मेरा ही पाणिग्रहण किया है' इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रहने थी ॥ १९ ॥ हे विप्र! अगस्त्यवा विप्रवरूपधारी श्रीहरि रात्रिके समय उन सभीके घरोंमें रहते थे ॥ २० ॥

श्रीपराशरजी बोले—रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए भगवान्के प्रद्युम्न आदि पुत्रोंका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं; सत्यभामाने भानु और भौमेरिक आदिको जन्म दिया ॥ १ ॥ श्रीहरिके रोहिणीके गर्भसे दीप्तिमान् और ताप्रपक्षा आदि तथा जाम्बवतोसे बलशाली सत्य आदि पुत्र हुए ॥ २ ॥ नागनजिता (सत्या)-से महाबली पद्मविन्द आदि और शैव्या (मित्रविन्दा)-से संग्रामजित् आदि उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ माद्रीसे वृक आदि, लक्ष्मणासे गात्रवान् आदि तथा कालिन्दीसे सुत आदि पुत्रोंका जन्म हुआ ॥ ४ ॥ इसी प्रकार भगवान्की अन्य स्त्रियोंके भी आठ अश्वत् आठ हजार आठ सौ (अष्टासौ हजार आठ सौ) पुत्र हुए ॥ ५ ॥

प्रद्युम्नः प्रथमस्तेषां सर्वेषां रुक्मिणीसुतः ।
 प्रद्युम्नादनिरुद्धोऽभूद्भ्रतस्तस्मादजायत ॥ ६
 अनिरुद्धो रणेऽरुद्धो बालेः पीत्री महाबलः ।
 उषां बाणस्य तनयामुपयेमे द्विजोत्तम ॥ ७
 यत्र युद्धमभूद्धोरं हरिशङ्करयोर्महत् ।
 छिन्नं सहस्रं बाहूनां यत्र बाणस्य चक्रिणा ॥ ८

श्रीमैत्रेय उवाच

कथं युद्धमभूत्बहानुनाद्यथै हरकृष्णयोः ।
 कथं क्षयं च बाणस्य बाहूनां कृतवान्हरिः ॥ ९
 एतत्सर्वं महाभाग ममाख्यातुं त्वमर्हसि ।
 महत्कौतूहलं जातं कथां श्रोतुमिमां हरेः ॥ १०

श्रीपराशर उवाच

उषा बाणसुता विप्र पार्वतीं सह शम्भुना ।
 श्रीकृन्तीमुपलक्ष्योच्चैः स्पृहां चक्रे तदाश्रयाम् ॥ ११
 ततस्सकलचित्तज्ञा गौरी तामाह भामिनीम् ।
 अलमत्यर्थतापेन भर्ता त्वमपि रंस्यसे ॥ १२
 इत्युक्ता सा तया चक्रे कदेति मतिमात्मनः ।
 कौ या भर्ता ममेत्याह पुनस्तामाह पार्वती ॥ १३

पार्वतीकथं

वैशाखशुक्लद्वादश्यां स्वप्ने योऽभिभवं तव ।
 करिष्यति स ते भर्ता राजपुत्रि भविष्यति ॥ १४

श्रीपराशर उवाच

तस्यां तिथ्यामुपास्थाने यथा देव्या समीरितम् ।
 तथैवाभिभवं चक्रे कश्चिद्रागं च तत्र सा ॥ १५
 ततः प्रबुद्धा पुरुषमपश्यन्ती सधुस्तुका ।
 क्व गतोऽसीति निर्लम्बा मैत्रेयोक्तवती सखीम् ॥ १६
 बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डश्चित्रलेखा च तत्सुता ।
 तस्याः सख्यभ्यस्ता च प्रहृष्टा कोऽयं त्वयोच्चते ॥ १७
 यत्तु लज्जकुला नास्यै कथयामास सा सखी ।
 तदा विश्वासमानीय सर्वमेवाभ्यवादयत् ॥ १८

इन सब पुत्रोंमें रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे; प्रद्युम्नसे अनिरुद्धका जन्म हुआ और अनिरुद्धसे वज्र उदयन हुआ ॥ ६ ॥ हे द्विजोत्तम ! महाबली अनिरुद्ध युद्धमें किसीसे रोके नहीं जा सकते थे । उन्होंने बलिकी पौत्री एवं बाणासुरकी पुत्री उषासे विवाह किया था ॥ ७ ॥ उस विवाहमें श्रीहरि और भगवान् शंकरका घोर युद्ध हुआ था और श्रीकृष्णचन्दने बाणासुरकी सहाय भुजाएँ काट डाली थीं ॥ ८ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे ब्रह्मन् ! उषाके लिये श्रीमहादेव और कृष्णका युद्ध क्यों हुआ और श्रीहरिने बाणासुरकी भुजाएँ क्यों काट डालीं ? ॥ ९ ॥ हे महाभाग ! आप मुझसे यह सम्पूर्ण वृत्तान्त कहिये; मुझे श्रीहरिकी यह कथा सुननेका बड़ा कुतूहल हो रहा है ॥ १० ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे विप्र ! एक बार बाणसुरकी पुत्री उषासे श्रीहर्षकरके साथ पार्वतीजीके क्रीडा करती देख स्वयं भी आपने पतिके साथ रमण करनेकी इच्छा की ॥ ११ ॥ तब सर्वान्तर्मपिन्दी श्रीपार्वतीजीने उस सुकुमारसे कहा— "तू अधिक सन्तप्त मत हो, बयासमय तू भी अपने पतिके साथ रमण करेगी " ॥ १२ ॥ पार्वतीजीके ऐसा कहनेपर उषा ने मन-ही-मन यह सोचकर कि 'न जाने ऐसा कब होगा ? और मेरा पति भी कौन होगा ?' इस सम्बन्धमें पार्वतीजीसे पूछा, तब पार्वतीजीने उससे फिर कहा— ॥ १३ ॥

पार्वतीजी बोलीं—हे राजपुत्रि ! वैशाख शुक्ल द्वादशीको रात्रिको जो पुरुष स्वप्नमें मुझसे उठान् सम्भोग करेगा वही तेरा पति होगा ॥ १४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर उसी त्रिपिके उषाको स्वप्नावस्थामें किसी पुरुषने उससे, नैसा श्रीपार्वतीदेवीने कहा था, उसी प्रकार सम्भोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया ॥ १५ ॥ हे मैत्रेय ! तब उसके बाद स्वप्नसे जगनेपर जब उसने उस पुरुषको न देखा तो वह उसे देखनेके लिये अत्यन्त अनुसूक्त होकर अगनी सखीकी ओर लक्ष्य करके निर्लम्बापूर्वक कहने लगी—'हे नाथ ! आप कहीं चले गये ?' ॥ १६ ॥

बाणासुरका मन्त्री कुम्भाण्ड था; उसकी चित्रलेखा नामकी पुत्री थी, वह उषाकी सखी थी, [उषाका यह प्रत्यन सुनकर] उसने पूछा—'मह तुम किसके विषयमें कह रही हो ?' ॥ १७ ॥ किन्तु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखाने [सब बात गुप्त रखनेका] विश्वास दिलाकर उषासे सब वृत्तान्त कहला लिया ॥ १८ ॥

विदितास्थां तु तामाह पुनश्चोवा बधोदितम् ।
देव्या तथैव तस्मिन् यो ह्युपायः कुरुष्व तम् ॥ १९

चित्रलेखोवाच

दुर्लभं ज्ञेयमिदं वक्तुं प्राप्नुं वापि न शक्यते ।
तथापि किञ्चिन्कर्तव्यमुपकारं प्रिये तव ॥ २० ॥
सप्ताष्टदिनपर्यन्तं तावत्कालः प्रतीक्ष्यताम् ।
इत्युक्त्वाभ्यन्तरं गत्वा उपायं तमथाकरोत् ॥ २१ ॥

श्रीपराशर उवाच

ततः पठे सुरान्दैत्यानाम्धर्वाश्च प्रधानतः ।
मनुष्याश्च विलिख्यास्यै चित्रलेखा व्यदर्शयत् ॥ २२ ॥
अपास्य सा तु गन्धर्वाभित्थोरगसुरासुरान् ।
मनुष्येषु ददौ दृष्टिं तेष्वप्यन्धकवृष्णिषु ॥ २३ ॥
कृष्णसमीं विलोक्यासीत्सुभूर्लज्जाजडेव सा ।
प्रद्युम्नदर्शने त्रीडादृष्टिं निन्देऽन्यतो द्विज ॥ २४ ॥
दृष्टमात्रे ततः कान्ते प्रद्युम्नतनये द्विज ।
दृष्ट्वात्यर्थविलासिन्या लज्जा क्यापि भिरकृता ॥ २५ ॥
सोऽयं सोऽयमितीत्युक्ते तथा सा योगगामिनी ।
चित्रलेखास्मीदेनामुषो वाणसुतां तदा ॥ २६ ॥

चित्रलेखोवाच

अयं कृष्णस्य पौत्रस्ते भर्ता देव्या प्रसादितः ।
अनिरुद्ध इति ख्यातः प्रख्यातः प्रियदर्शनः ॥ २७ ॥
प्राप्नोषि यदि भर्तारमिमं प्राप्तं स्वयाखिलम् ।
दुष्प्रवेशा पुरी पूर्वं द्वारका कृष्णपालिता ॥ २८ ॥
तथापि यत्नाद्धर्तारमानचिध्यामि ते सखि ।
रहस्यमेतद्दत्तव्यं न कस्यचिदपि त्वया ॥ २९ ॥
अशिरादागमिध्यामि सहस्रव विरहं मम ।
यथा द्वारवतीं चोषां समाश्रयस्य ततः सखीम् ॥ ३० ॥

चित्रलेखाके सब बात जान लेनेपर उषाने जो कुछ श्रीपावतीजीने कहा था, वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो घड़ी उपाय करो ॥ १९ ॥

चित्रलेखाने कहा—हे प्रिये! तुमने जिस पुरुषको देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ-न-कुछ उपकार तो करूँगी ही ॥ २० ॥ तुम सात या आठ दिनतक मेरी प्रतीक्षा करना—ऐसा कहकर वह अपने घरके भीतर गयी और उस पुरुषको ढूँढनेका उपाय करने लगी ॥ २१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर [सात-आठ दिन परचात् सौदकर] चित्रलेखाने चित्रपटपर मुख्य-मुख्य देवता, दैत्य, गन्धर्व और मनुष्योंके चित्र लिखकर तथाको दिखलाये ॥ २२ ॥ तब उषाने गन्धर्व, नाग, देवता और दैत्य आदिको छोड़कर केवल मनुष्योंपर और इनमें भी विशेषतः अन्धक और कृष्णवंशी यादवोंपर ही दृष्टि दी ॥ २३ ॥ हे द्विज! राम और कृष्णके चित्र देखकर वह सुन्दर भृङ्गुटियाली लज्जासे जडप्रत् हो गयी तथा प्रद्युम्नको देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली ॥ २४ ॥ तत्पश्चात् प्रद्युम्नतनय प्रियतम अनिरुद्धजीको देखते ही उस अत्यन्त विलासिनीको लज्जा मानो कहीं चली गयी ॥ २५ ॥ [वह बोले उठे]—‘वह यही है, वह यही है।’ उसके इस प्रकार कहनेपर योगगामिनी चित्रलेखाने उस वाणासुरकी कान्थासे कहा— ॥ २६ ॥

चित्रलेखा बोली—देखाने प्रसन्न होकर यह कृष्णका पौत्र ही तेरा पति विशिचत किया है; इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुन्दरताके लिये प्रसिद्ध है ॥ २७ ॥ यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया; किन्तु कृष्णचन्द्रेद्वारा सुरकित द्वारकापुरीमें पहले प्रवेश ही करना कठिन है ॥ २८ ॥ तथापि हे सखि! किसी उपायसे मैं तेरे पतिको लाऊँगी ही, तू इस गुप्त रहस्यको किसीसे भी न कह ॥ २९ ॥ मैं शीघ्र ही आऊँगी, इतनी देर तू मेरे विधोगको सहन कर। अपनी सखी उषाको इस प्रकार दादस बँधाकर चित्रलेखा द्वारकापुरीको गयी ॥ ३० ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशो द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

तीतीसवाँ अध्याय

श्रीकृष्ण और बाणासुरका युद्ध

श्रीपराशर उवाच

बाणोऽपि प्रणिपत्याग्रे मैत्रेयाहत्रिलोचनम् ।
देव बाहुसहस्रेण निर्बि०णोऽस्म्याहसं विना ॥ १

कच्चिन्ममैषां बाहूनां साफल्यजनको रणः ।
भविष्यति विना युद्धं भाग्य मम किं भुजैः ॥ २

श्रीशंकर उवाच

मयूरध्वजभङ्गस्ते यदा बाण भविष्यति ।
पिशिताशिजनानन्दं प्राप्स्यसे त्वं तदा रणम् ॥ ३

श्रीपराशर उवाच

ततः प्रणाम्य वरदं शम्भुमभ्यागतो गृहम् ।
सभग्नं ध्वजमालोक्य हृष्टो हर्षं पुनर्वच्यौ ॥ ४

एतस्मिन्नेव काले तु योगविद्याबलेन तम् ।
अनिरुद्धमथानिन्द्ये चित्रलेखा वराप्सराः ॥ ५

कन्यान्तःपुरमध्येत्य रममाणं सहोषया ।
विज्ञाय रक्षिणो गत्वा शशांसुर्देत्यभूपतैः ॥ ६

ष्यादिष्टं किंकराणां तु सैन्यं तेन महात्मना ।
जघान परिघं घोरमादाय परवीरहो ॥ ७

हतेषु तेषु बाणोऽपि रथस्थस्तद्वधोद्यतः ।
युध्यमानो यथाशक्ति यदुर्वीरण निर्जितः ॥ ८

मायया युयुधे तेन स तदा मन्त्रिचोदितः ।
ततस्तं पन्नगाश्रेण बबन्ध यदुनन्दनम् ॥ ९

द्वारवत्यां क्व यासोऽसावनिरुद्धेति जल्पताम् ।
यदूमात्रचक्षे तं बद्धं बाणेन नारदः ॥ १०

तं शोणितपुरं नीतं श्रुत्वा विद्याविदग्धया ।
शोषिता प्रत्ययं जग्धुर्वादेवा नामरैरिति ॥ ११

ततो गरुडमारुह्य स्मृतमात्रागतं हरिः ।
बलप्रद्युम्नसहितो बाणस्य प्रययौ पुरम् ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! एक नर बाणासुरे भी भगवान् त्रिलोचनको प्रणाम करके कहत था कि हे देव! बिना युद्धके इन हजार भुजाओंसे मुझे वक्रा हो खंड हो रहा है ॥ १ ॥ क्या कभी मेरी इन भुजाओंकी सफल करनेवाला युद्ध होगा? भला विनः युद्धके इन भाररूप भुजाओंसे मुझे लाभ ही क्या है? ॥ २ ॥

श्रीशंकरजी बोले—हे बाणासुर! जिस समय तेरी मयूरचिह्नवाली ध्वजा टूट जायगी, उसी समय तेरे सामने पांसभोजी यक्ष-पिशाचादिको आनन्द देनेवाला युद्ध उपस्थित होगा ॥ ३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर, वरदायक श्रीशंकरके प्रणामकर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालान्तरमें उस ध्वजाको टूटी देखकर और आनन्दित हुआ ॥ ४ ॥ इसी समय अप्सराश्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योगबलसे अनिरुद्धको वहाँ ले आयी ॥ ५ ॥ अनिरुद्धको कन्यान्तःपुरमें आकर उषाके साथ रमण करता जान अन्तःपुरराकोने सम्पूर्ण वृत्तान्त दैत्यराज बाणासुरसे कह दिया ॥ ६ ॥ तब महावीर बाणासुरने अपने श्रेयकोंको उससे युद्ध करनेकी आज्ञा दी; किंतु शत्रु-दमन अनिरुद्धने अपने सम्मुख आनेपर उस सम्पूर्ण सेनाको एक लोहमय दण्डसे पार डाला ॥ ७ ॥

अपने सेवकोंके मारे जानेपर बाणासुर अनिरुद्धके मार डालनेकी इच्छासे रथपर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा; किंतु अपने शक्तिपर युद्ध करनेपर भी वह यदुवीर अनिरुद्धजीसे परास्त हो गया ॥ ८ ॥ तब वह मन्त्रियोंकी प्रेरणासे मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनन्दन अनिरुद्धको नागपाशसे बाँध लिया ॥ ९ ॥

इधर द्वारक्षेत्रपुरमें जिस समय सागस्त यादवोंमें यह चर्चा हो रही थी कि 'अनिरुद्ध कहाँ गये?' उसी समय देवर्षि नारदने उनके बाणासुरद्वारा बँधे जानेकी सूचना दी ॥ १० ॥ नारदजीके मुखसे योगविद्यामें निपुण युवती चित्रलेखाद्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाये गये सुनकर यादवोंको विश्वास हो गया कि देवताओंने उन्हें नहीं चुगया ॥ ११ ॥ तब स्मरणमात्रसे उपस्थित हुए गरुडपर

पुरप्रवेशे प्रमथैर्युद्धपासीन्महात्मनः ।
 यद्यी बाणपुराभ्याशं नीत्वा ततस्सङ्क्षयं हरिः ॥ १२
 ततस्त्रिपादस्त्रिशिरां चरौ माहेश्वरो महान् ।
 बाणरक्षार्थमभ्येत्य युयुधे शार्ङ्गधन्वना ॥ १४
 तद्भस्मस्पर्शसम्भूततापः कृष्णाङ्गसङ्गमात् ।
 अवाप बलदेवोऽपि भ्रममामीलितेक्षणः ॥ १५
 ततस्स युद्धचमानस्तु सह देवेन शार्ङ्गिणा ।
 वैष्णवेन चरेणाशु कृष्णादेहानिराकृतः ॥ १६
 नारायणभुजाघातपरिपीडनविह्वलम् ।
 तं वीक्ष्य क्षम्यतामस्येत्याह देवः पितामहः ॥ १७
 ततश्च क्षान्तमेवेति प्रोच्य तं वैष्णवं चरम् ।
 आत्मन्येव त्वयं निन्दे भगवान्मधुसूदनः ॥ १८

चर उवाच

मम त्वया समं युद्धं ये स्मरिष्यन्ति माभवाः ।
 विचरस्ते भविष्यन्तीत्युक्त्वा खनं ययौ चरः ॥ १९
 ततोऽग्नीभगवान्यञ्च जित्वा नीत्वा तश्चा क्षयम् ।
 दानवानां बर्त्सं कृष्णशूर्पायामास लीलयाम् ॥ २०
 ततस्समस्तसैन्येन दैतेयानां बलेस्सुतः ।
 युयुधे शङ्करश्चैव कार्तिकेयश्च श्रीरिणा ॥ २१
 हरिशङ्करयोर्वुद्धमतीवासीत्सुदारुणम् ।
 कुक्षुभुस्सकला लोकः शस्त्रास्त्रेषुप्रतोपिताः ॥ २२
 प्रलयोऽयमशेषस्य जगतो नूनमागतः ।
 मेनिरे त्रिदशास्तत्र वर्तमाने महारणे ॥ २३
 जृम्भकास्त्रेण गोविन्दो जृम्भयामास शंकरम् ।
 ततः प्रणोशुर्दैतेयाः प्रमथ्याश्च समन्ततः ॥ २४
 जृम्भाभिभूतस्तु हरो रथोपस्थं ठपाविशत् ।
 न शशाकं ततो मोदर्थं कृष्णोनाविलष्टकर्मणाम् ॥ २५
 गरुडक्षतवाहश्च प्रद्युम्नास्त्रेण पीडितः ।
 कृष्णाहुङ्कारनिर्धृतशक्तिश्चापचयी गुरुः ॥ २६

चढ़कर श्रीहरि बलराम और प्रद्युम्नके सहित बाणासुरकी राजधानीमें आये ॥ १२ ॥ नगरमें घुसने ही उन तीनोंका भगवान् शंकरके पार्षद प्रमथणगणोंसे युद्ध हुआ; उन्हें नष्ट करके श्रीहरि बाणासुरकी राजधानीके समीप चले गये ॥ १३ ॥

तदनन्तर बाणासुरकी रक्षाके लिये तीन सिर और तीन पैरवाला माहेश्वर नामक महान् चर आगे चढ़कर श्रीभगवान्से लड़ने लगा ॥ १४ ॥ [उस चरका ऐसा प्रभाव था कि] उसके फेंके हुए भस्मके स्पर्शसे सन्तप्त हुए श्रीकृष्णचन्द्रके शरीरका आलिंगन करनेपर बलदेवकीने भी शिथिल होकर नेत्र धूँद लिये ॥ १५ ॥ इस प्रकार भगवान् शार्ङ्गधरके साथ [उनके शरीरमें व्याप्त होकर] युद्ध करते हुए उस माहेश्वर चरको वैष्णव चरने तुरंत उनके शरीरसे निकाल दिया ॥ १६ ॥ उस समय श्रीनारायणको भुजाओंके आघातसे उस माहेश्वर चरको पीड़ित और विह्वल हुआ देखकर पितामह ब्रह्माजीने भगवान्से कहा— 'हसे क्षमा कौजिये' ॥ १७ ॥ तब भगवान् मधुसूदनने 'अच्छा, मैंने क्षमा की' ऐसा कहकर उस वैष्णव चरको अपनेमें लीन कर लिया ॥ १८ ॥

चर बोला—जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्धका स्मरण करेगा वै चरहीन हो जायँगा, ऐसा कहकर वह चला गया ॥ १९ ॥

तदनन्तर भगवान् कृष्णचन्द्रने पंचाग्निशौकी जीतकर नष्ट किया और फिर लीलासे ही दानवसेनाको नष्ट करने लगे ॥ २० ॥ तब सम्पूर्ण दैत्यक्षेत्रके सहित अलि-पुत्र चणासुर, भगवान् शंकर और स्वामिकार्तिकेयजी भगवान् कृष्णके साथ युद्ध करने लगे ॥ २१ ॥ श्रीहरि और श्रीमहादेवजीका परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ, इस युद्धमें प्रयुक्त शस्त्रास्त्रोंके किरणजालसे सन्तप्त होकर सम्पूर्ण लोक क्षुब्ध हो गये ॥ २२ ॥ इस घोर युद्धके उपस्थित होनेपर देवताओंने समझा कि निश्चय ही यह सम्पूर्ण जगत्का फलकाल आ गया है ॥ २३ ॥ श्रीगोविन्दने जृम्भकास्त्र छोड़ा जिससे महादेवजी निद्रित-से होकर जघुहाई लेने लगे; उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथण चारों ओर भागने लगे ॥ २४ ॥ भगवान् शंकर निद्राभिभूत होकर रथके पिछले भागमें बैठ गये और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध न कर सके ॥ २५ ॥ तदनन्तर गरुडद्वारा याहनके नष्ट हो जानेसे, प्रद्युम्नजीके शस्त्रोंसे पीड़ित होनेसे तथा कृष्णचन्द्रके हुंकारसे शक्तिहीन हो जानेसे स्वामिकार्तिकेय भी भागने लगे ॥ २६ ॥

जृम्भते शङ्करे नष्टे दैत्यसैन्ये गृहे जिते ।
 नीते प्रमथसैन्ये च सङ्क्षयं शार्ङ्गधन्वना ॥ २७
 नन्दिना संगृहीताश्चमभिरुडो महारथम् ।
 बाणस्तत्राययी योद्धुं कृष्णकार्ष्णिगवत्ससह ॥ २८
 बलभद्रो महावीर्यो बाणसैन्यमनेकधा ।
 विव्याध बाणैः प्रभृश्य धर्मतश्च पलायत ॥ २९
 आकृष्य लाङ्गलाग्नेण मुसलेनाशु ताडितम् ।
 बलं बलेन ददृशे बाणो बाणैश्च चक्रिणा ॥ ३०
 ततः कृष्णो बाणस्य युद्धमासीत्सुदारुणम् ।
 समस्यतोरिषून्दीप्तान्कायत्राणविभेदिनः ॥ ३१
 कृष्णश्चिच्छेद बाणैस्तान्बाणेन प्रहिताञ्छितान् ।
 विव्याध केशवं बाणो बाणं विष्यत्थ चक्रधृक् ॥ ३२
 मुमुचाते तथास्वाणि बाणकृष्णी जिगीषया ।
 परस्परं झतिकरौ लाघवादनिशं द्विज ॥ ३३
 भिद्यमानेष्वशेषेषु शरिष्वखे च सीदति ।
 प्राचुर्येण ततो बाणं हन्तुं चक्रे हरिर्मनः ॥ ३४
 ततोऽर्कशतसङ्घततेजसा सदृशद्युति ।
 जग्राह दैत्यचक्रारिर्हरिश्चक्रं सुदर्शनम् ॥ ३५
 मुञ्चतो बाणनाशाय ततश्चक्रं मधुसूदनः ।
 नग्ना दैतेयविद्याभूत्कोटरी पुरतो हरेः ॥ ३६
 तामग्रतो हरिर्दृष्ट्वा मीलिताक्षस्सुदर्शनम् ।
 युमोच बाणमुद्दिश्यच्छेत्तु बाहुवनं रिषोः ॥ ३७
 क्रमेण तत्तु बाहूनां बाणस्थाच्युतचोदितम् ।
 छेदं चक्रेऽसुरापास्तशस्त्रौघक्षपणादृतम् ॥ ३८
 छिन्ने बाहुवने तत्तु करस्थं मधुसूदनः ।
 मुमुक्षुर्बाणनाशाय विज्ञातस्त्रिपुरद्विधा ॥ ३९
 समुपेत्याह गोविन्दं सामपूर्वपुमापतिः ।
 विलोक्य बाणं दोर्दण्डच्छेदासुस्त्रावर्षिणम् ॥ ४०

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा महर्दयजीके विप्रभिभूत
 दैत्य-सेनाके नष्ट, स्वामिकांतिकेयके पराजित और
 शिवगणोंके क्षीण हो जानेपर कृष्ण, प्रद्युम्न और
 बलभद्रजीके साथ युद्ध करतेके लिये यहाँ भाणासुर
 साक्षात् नन्दीश्वरद्वारा हाँके जाते हुए महान् रथपर
 चढ़कर आया ॥ २७-२८ ॥ उसके आते ही महारीपश्रलो
 बलभद्रजीने अनेकों बाण बरसाकर बाणामुरको सेनाको
 छिन्न-भिन्न कर डाला; तब वह शीरश्वरसे धृष्ट
 होकर भागने लगे ॥ २९ ॥ बाणासुरने देखा कि उसकी
 सेनाको बलभद्रजी बड़ी फुर्तसे हलसे खींच खींचकर
 पूसलसे मार रहे हैं और श्रीकृष्णचन्द्र उसे बाणोंसे
 बोधे डालते हैं ॥ ३० ॥ तब बाणासुरका श्रीकृष्णचन्द्रके
 साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर क्रवचगेटी
 बाण छोड़ने लगे। परंतु भागवान् कृष्णने बाणासुरके
 छोड़े हुए तोखे बाणोंको अपने बाणोंसे काट डाला
 और फिर बाणासुर कृष्णको तथा कृष्ण बाणासुरको
 धीमे लगे ॥ ३१-३२ ॥ हे द्विज! इस समय परस्पर चोट
 करनेवाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजयकी इच्छासे
 निरन्तर शीघ्रतापूर्वक अस्त्र-शस्त्र छोड़ने लगे ॥ ३३ ॥

अन्तमें, समस्त बाणोंके छिन्न और सम्पूर्ण अस्त्र-
 शस्त्रोंके निष्फल हो जानेपर श्रीहरिने बाणासुरको मार
 डालनेका विचार किया ॥ ३४ ॥ तब दैत्यमण्डलके
 शत्रु भगवान् कृष्णने सैकड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान
 अपने सुदर्शनचक्रको लक्ष्यमें ले लिया ॥ ३५ ॥

जिस समय भागवान् मधुसूदन बाणासुरको मारनेके
 लिये चक्र छोड़ना ही चाहते थे उसी समय दैत्योंको विद्या
 (मन्त्रमयी कुलदेवी) कोटरी भगवान्के सामने नग्नावस्थामें
 उपस्थित हुई ॥ ३६ ॥ उसे देखते ही भागवान्ने नेत्र मूंद
 लिये और बाणासुरको लक्ष्य करके उस शत्रुकी भुजाओंके
 वनको काटनेके लिये सुदर्शनचक्र छोड़ा ॥ ३७ ॥ भागवान्
 अच्युतके द्वारा प्रेरित उस चक्रने दैत्योंके छोड़े हुए अस्त्रमण्डलके
 काटकर क्रमशः बाणासुरकी भुजाओंको काट डाला [केवल
 दो भुजाएँ छोड़ दीं] ॥ ३८ ॥ तब त्रिपुरशत्रु भगवान् शंकर
 जान गये कि श्रीमधुसूदन बाणासुरके बाहुवनको काटकर
 अपने हाथमें आये हुए चक्रको उसका वध करनेके लिये
 फिर छोड़ना चाहते हैं ॥ ३९ ॥ अतः बाणासुरको अपने
 खण्डित भुजापट्टोंसे लोहूकी धारा बहाते देख श्रीदुर्गादेवी
 गोविन्दके पास आकर सामपूर्वक कटा— ॥ ४० ॥

श्रीशंकर उवाच

कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम् ।
परेषां धरमात्मानमनादिनिधनं हरिम् ॥ ४१ ॥
देवतिर्यङ्मनुष्येषु शरीरग्रहणात्पिका ।
स्त्रीलेयं सर्वभूतस्य तव श्रेष्ठोपलक्षणा ॥ ४२ ॥
तत्प्रसीदाभयं दत्तं खाणस्यास्य मया प्रभो ।
तत्त्वया नानुतं कार्यं यन्मया व्याहृतं वचः ॥ ४३ ॥
अस्मत्संश्रयदुष्टोऽयं नापराधी तवाव्ययः ।
मया दत्तवरो दैत्यस्ततस्त्वां क्षमयाम्यहम् ॥ ४४ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तः प्राह गोविन्दः शूलपाणिमुपापतिम् ।
प्रसन्नवदनो भूत्वा गतामर्षोऽसुरं प्रति ॥ ४५ ॥

श्रीभगवानुवाच

सुम्भदत्तवरो चाणो जीवतामेष शङ्कर ।
त्वद्वाक्यगौरवादेतन्मया स्रक्तं निर्यतितम् ॥ ४६ ॥
त्वया यदभयं दत्तं तद्वत्तमखिलं मया ।
यत्तोऽविभिन्नमात्मानं ब्रह्मर्षीसि शङ्कर ॥ ४७ ॥
योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम् ।
यत्तो चान्यदशेषं यत्तत्त्वं ज्ञातुमिहाहीसि ॥ ४८ ॥
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः ।
वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ ४९ ॥
प्रसन्नोऽहं गमिष्यामि त्वं गच्छ वृषभध्वज ॥ ५० ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्थुक्त्वा प्रययौ कृष्णः प्राद्युम्निर्वत्र तिष्ठति ।
तद्ब्रह्मपाणिनो नेशुर्गण्डानिलपोधिताः ॥ ५१ ॥
ततोऽनिरुद्धमारोप्य सपत्नीकं गरुत्पति ।
आजग्मुर्द्वारिकां रामकार्णिकामोदराः पुरीम् ॥ ५२ ॥
पुत्रपौत्रैः परिवृत्तस्तत्र रेमे जनार्दनः ।
देवीभिस्सततं विप्र भूभारतरणेच्छया ॥ ५३ ॥

श्रीशंकरजी बोले—हे कृष्ण! हे कृष्ण! हे जगन्नाथ! ॥

मैं यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर, परमात्मा और आदि-अन्तसे रहित श्रीहरि हैं ॥ ४१ ॥ आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तिर्यक् और मनुष्यादि योनियोंमें शरीर धारण करते हैं यह आपकी स्थायी श्रेष्ठोपलक्षिका लीला ही है ॥ ४२ ॥ हे प्रभो! आप प्रसन्न होइये। मैंने इस खाणासुरको अभयदान दिया है। हे नाथ! मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न करें ॥ ४३ ॥ हे अव्यय! यह आपका अपराधी नहीं है; यह तो मेरा आश्रय पानेसे ही इतना गर्विला हो गया है। इस दैत्यको मैंने ही वर दिया था, इसलिये मैं ही आपसे इसके लिये क्षमा कराता हूँ ॥ ४४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—त्रिशूलपाणि भगवान् उमापतिके इस प्रकार कहनेपर श्रीगोविन्दने चाणसुरके प्रति क्रोधभाव त्याग दिया और प्रसन्नवदन होकर उनसे कहा— ॥ ४५ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे शंकर! यदि आपने इसे वर दिया है तो यह खाणासुर जीवित रहे। आपके वचनका मान रखनेके लिये मैं इस चक्रको रोके लेता हूँ ॥ ४६ ॥ आपने जो अभय दिया है यह सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर! आप अपनेको पुत्रसे सर्वथा अभिन्न देखें ॥ ४७ ॥ आप यह भस्वी प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ सो आप हैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी पुत्रसे भिन्न नहीं है ॥ ४८ ॥ हे हर! जिन लोगोंका चित्त अविद्यासे मोहित है, वे भिन्नदर्शी पुरुष हो हम दोनोंमें भेद देखते और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज! मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिये, मैं भी अब जाऊँगा ॥ ४९-५० ॥

श्रीपराशरजी बोले—इस प्रकार कहकर भगवान् कृष्ण जहाँ प्रद्युम्नकुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गये। उनके पहुँचते ही अनिरुद्धके बन्धनरूप समस्त नागगण भस्मके वेगसे उत्पन्न हुए जायुके प्रहारसे नष्ट हो गये ॥ ५१ ॥ तदनन्तर सपत्नीक अनिरुद्धको गरुडपर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचन्द्र द्वाराकापुरीमें लौट आये ॥ ५२ ॥ हे विप्र! यहाँ भू-भार-हरणकी इच्छासे रहते हुए श्रीजनार्दन अपने पुत्र-पौत्रादिसे घिरे रहकर अपनी रानियोंके साथ रमण करने लगे ॥ ५३ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

चौतीसवाँ अध्याय

पौण्ड्रक-यथ तथा काशीदहन

श्रीमंत्रेय उवाच

सक्रे कर्म महच्छरीरिर्बिभ्राणो मानुशीं तनुम् ।
जिगाय शक्रे शर्वं च सर्वान्देवाश्च सीत्या ॥ १

यच्छान्यदकरोत्कर्म दिव्यचेष्टाविधातकृत् ।
तत्कथ्यतां महाभाग परं कौतूहलं हि मे ॥ २

श्रीपराशर उवाच

गदतो मम विप्रश्चै श्रूयतामिदमादरात् ।
नरावतारे कृष्णेन दग्धा खाराणसी यथा ॥ ३

पौण्ड्रको वासुदेवस्तु वासुदेवोऽभवद्भुवि ।
अवतीर्णस्त्वमित्युक्तो जनैरज्ञानमोहितैः ॥ ४

स मेने वासुदेवोऽहमवतीर्णो महीतले ।
नष्टस्मृतिस्तत्सर्वं क्षिणुचिह्नमचीकरत् ॥ ५

दूर्तं च प्रेषयामास कृष्णाय सुमहात्मने ।
त्यक्त्वा चक्रादिकं चिह्नं मदीयं नाम चात्मनः ॥ ६

वासुदेवात्मकं मूढ त्यक्त्वा सर्वमशेषतः ।
आत्मनो जीवितार्थाय ततो मे प्रणतिं व्रज ॥ ७

इत्युक्तस्तम्प्राहस्यैनं दूर्तं प्राह जनार्दनः ।
निजचिह्नमहं सक्रं समुत्स्रक्ष्ये त्वयीति वै ॥ ८

वाञ्छश्व पौण्ड्रको गत्वा त्वया सूत वचो मम ।
ज्ञातस्त्वह्यक्षयसद्भावो यत्कार्यं तद्विधीयताम् ॥ ९

गृहीतचिह्नवेषोऽहमागमिष्यामि ते पुरम् ।
उत्स्रक्ष्यामि च तच्चक्रं निजचिह्नमसंशयम् ॥ १०

आज्ञापूर्वं च यदिदमागच्छेति त्वयोदितम् ।
सम्पादयिष्ये श्वस्तुष्यं समागम्याधिलम्बितम् ॥ ११

शरणं ते समभ्येत्य कर्तास्मि नृपते तथा ।
यथा त्वन्नो भयं भूष्ये न मे किञ्चिद्भविष्यति ॥ १२

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तेऽपगतं दूतं संस्मृत्याभ्यागतं हरिः ।
गरुत्मन्तयथारुह्य त्वरितस्तत्पुरं ययौ ॥ १३

श्रीमंत्रेयजी बोले—हे गुरु! श्रीविष्णुभगवान्ने मनुष्य शरीर धारणकर जो लालासे ही हन्, स्कंर और सम्पूर्ण देवतागको जोतकर महान् कर्म किये थे [बह में सुन चुका] ॥ १ ॥ इनके सिवा देवताओंको चेष्टाओंका विधात करनेवाले उन्होंने और भी जो कर्म किये थे, हे महाभाग! वे सब मुझे सुनाइये: पूर्ण उनके सुननेका बड़ा कुतूहल हो रहा है ॥ २ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे ब्रह्मर्षे! भगवान्ने मनुष्यावतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलामी हो यह मैं सुनाता हूँ, तुम्हें ध्यान देकर सुनो ॥ ३ ॥ पौण्ड्रकवंशीय वासुदेव नामक एक राजाको अज्ञानमोहित पुरुष 'आप वासुदेवस्वरूपसे पृथिवीपर अवतीर्ण हुए हैं' ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे ॥ ४ ॥ अन्तमें वह भी यही मानने लगा कि 'मैं वासुदेवस्वरूपसे पृथिवीमें अवतीर्ण हुआ हूँ।' इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जानेसे उसने विष्णुभगवान्के सामस्त चिह्न धारण कर लिये ॥ ५ ॥ और महात्मा कृष्णचन्द्रके पास यह सन्देश लेकर दूत भेजा कि 'हे पुरु। अपने वासुदेव नामको छोड़कर मेरे चक्र आदि सम्पूर्ण चिह्नोंको छोड़ दे और यदि तुझे जीवनकी इच्छा है तो मेरी शरणमें आ' ॥ ६-७ ॥

दूतने जब इसी प्रकार कहा तो श्रीजनार्दन उससे हँसकर बोले—'ठीक है, मैं अपने चिह्न चक्रको तैरे प्रति छोड़ूँगा। हे दूत! मेरी ओरसे व पौण्ड्रकसे जाकर यह कहना कि मैंने तैरे वाक्यको वास्तविक भाव समझ लिया है, तुझे जो करना हो सो कर ॥ ८-९ ॥ मैं अपने चिह्न और चक्र धारणकर तैरे नगरमें आऊँगा और निस्सन्देह अपने चिह्न चक्रको तैरे ऊपर छोड़ूँगा ॥ १० ॥' और तूने जो आज्ञा करके हुए 'आ' ऐसा कहा है, सो मैं उसे भी अवश्य पाकन करूँगा और कल शीघ्र ही तैरे पास पहुँचूँगा ॥ ११ ॥ हे राजन्! तैरी शरणमें आकर मैं वही उपाय करूँगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय न रहे ॥ १२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेन जब दूत चला गया तो भगवान् स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुडपर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानीको चले ॥ १३ ॥

ततस्तु केशयोद्योगं श्रुत्वा काशिपतिस्तदा ।
 सर्वसैन्यपरीवारः पाणिग्राह उपाययी ॥ १४
 ततो बलेन महता काशिराजबलेन च ।
 पौण्ड्रक्रे वासुदेवोऽसौ केशवाभिमुखो ययौ ॥ १५
 तं ददर्श हरिर्दूराद्गुदारस्यन्दने स्थितम् ।
 चक्रहस्तं गदाशार्ङ्गबाहुं पाणिगताम्बुजम् ॥ १६
 स्वधरं पीतवसनं सुपर्णरचितध्वजम् ।
 वक्षःस्थले कृतं चास्य श्रीवत्सं ददृशे हरिः ॥ १७
 किरीटकुण्डलधरं नानारत्नोपशोभितम् ।
 तं दृष्ट्वा भावगम्भीरं जहास गरुडध्वजः ॥ १८
 युयुधे च बलेनास्य हस्त्यश्वबलिना द्विज ।
 निस्त्रिंशत्सिगादाशूलशक्तिकामुकशालिना ॥ १९
 क्षणेन शार्ङ्गनिर्मुक्तैश्शरैररिबिदारणैः ।
 गदाचक्रनिपातैश्च सूद्याभास तद्भ्रमम् ॥ २०
 काशिराजबलं चैवं क्षयं नीत्वा जनार्दनः ।
 उवाच पौण्ड्रकं मूढमात्मविह्नोपलक्षितम् ॥ २१
 श्रीभगवानुवाच
 पौण्ड्रकोक्तं त्वया यत्तु दूतवक्त्रेण मां प्रति ।
 समुत्सृजेति चिह्नानि तत्ते सम्पादयाम्यहम् ॥ २२
 चक्रमेतत्समुत्सृष्टं गदेयं ते विसर्जिता ।
 गरुत्मानेन चोत्सृष्टस्मारोहतु ते ध्वजम् ॥ २३
 श्रीपरशर उवाच
 इत्युच्चार्य विमुक्तेन चक्रेणासौ विदारितः ।
 पातितो गद्या भग्नो ध्वजश्चास्य गरुत्वता ॥ २४
 ततो हाहाकृते लोके काशिपुर्यधिपो बली ।
 युयुधे वासुदेवेन मित्रस्यापचित्नी स्थितः ॥ २५
 ततश्शार्ङ्गधनुर्मुक्तैश्छित्त्वा तस्य शिरश्शरैः ।
 काशिपुर्या स चिक्षेप कुर्वन्लोकस्य विस्मयम् ॥ २६
 ह्रवा ते पौण्ड्रकं शौरिः काशिराजं च सानुगम् ।
 पुनर्द्वारवतीं प्राप्तो रेमे स्वर्गगतो यथा ॥ २७
 तच्छिरः पतितं तत्र दृष्ट्वा काशिपतेः पुरे ।
 जनः किमेतदित्याहच्छ्रुत्वं केनेति विस्मितः ॥ २८

भगवान्के आक्रमणका समाचार सुनकर काशीनेरु
 भी उसका पृष्ठपोषक (सहायक) होकर अपनी सम्पूर्ण
 सेना ले उपस्थित हुआ ॥ १४ ॥ तदनन्तर अपनी महान्
 सेनाके सहित काशीनरेशकी सेना लेकर पौण्ड्रक वासुदेव
 श्रीकृष्णपत्निके सम्मुख आया ॥ १५ ॥ भगवान्ते दूरसे ही
 उसे हाथमें चक्र, गदा, शार्ङ्गधनुष और पद्म लिये एक
 उत्तम रथपर बँठे देखा ॥ १६ ॥ श्रीहरिने देखा कि उसके
 कण्ठमें वैजयन्तीमाला है, शरीरमें पीताम्बर है, गरुडरचित
 ध्वजा है और वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह्न है ॥ १७ ॥ उसे
 नाना प्रकारके रत्नोंसे सुसज्जित किरीट और कुण्डल
 धारण किये देखकर श्रीगरुडध्वज भगवान् गम्भीरभावसे
 हँसने लगे ॥ १८ ॥ और हे द्विज ! उसकी हाथों-घोड़ोंसे
 बलिष्ठ तथा निस्त्रिंशत् स्रग्गा, गदा, शूल, शक्ति और
 धनुष आदिसे सुलज्जित सेनासे युद्ध करने लगे ॥ १९ ॥
 श्रीभगवान्ते एक क्षणमें ही अपने शार्ङ्गधनुषसे छोड़े हुए
 शत्रुओंको विदीर्ण करनेवाले तोक्षण बाणों तथा गदा और
 चक्रसे उसकी सम्पूर्ण सेनाको नष्ट कर डाला ॥ २० ॥
 इसी प्रकार काशिपजकी सेनाको भी नष्ट करके श्रीजनार्दनने
 अपने विश्वीसे युक्त मूढपति पौण्ड्रकसे कहा ॥ २१ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे पौण्ड्रक ! मेरे प्रति तूने जो
 दूतके मुखसे यह कहलाया था कि मेरे विश्वीको छोड़ दे
 सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञाको सम्मन करता हूँ ॥ २२ ॥
 देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह तैरे ऊपर गदा भी छोड़
 दी और यह गरुड भी छोड़े देता हूँ, यह तेरी ध्वजापर
 आरूढ़ हों ॥ २३ ॥

श्रीपरशरजी बोले—ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्रने
 पौण्ड्रकको विदीर्ण कर डाला, गदाने भीचे गिरा दिया और
 गरुडने उसकी ध्वजा तोड़ डाली ॥ २४ ॥ तदनन्तर सम्पूर्ण
 सेनामें हाहाकार मच जानेपर अपने मित्रका बदला बुझानेके
 लिये खड़ा हुआ काशीनेरुश्री वासुदेवसे लड़ने लगा ॥ २५ ॥
 तब भगवान्ने शार्ङ्गधनुषसे छोड़े हुए एक बाणसे उसका सिर
 काटकर सम्पूर्ण लोगोंको विस्मित करते हुए काशीपुरीमें फेंक
 दिया ॥ २६ ॥ इस प्रकार पौण्ड्रक और काशीनेरुका अनुचरों-
 सहित मारकर भगवान् फिर द्वारकाको लौट आये और वहाँ
 स्वर्गसदृश सुखका अनुभव करते हुए रमण करने लगे ॥ २७ ॥

इधर काशीपुरीमें काशिराजका सिर गिरा देख सम्पूर्ण
 नगरनिवासी विस्मयपूर्वक कहने लगे—'यह क्या हुआ ?
 इसे किसने काट डाला ?' ॥ २८ ॥

ज्ञात्वा तं वासुदेवेन हतं तस्य सुतस्ततः ।
 पुरोहितेन सहितस्तोषयामास शङ्करम् ॥ २९
 अविमुक्ते महाश्वेत्रे तोषितस्तेन शङ्करः ।
 वरं वृषीष्वेति तदा तं प्रोवाच नृपात्मजम् ॥ ३०
 स वद्रे भगवन्कृत्या पितृहन्तुर्वधाय मे ।
 समुत्तिष्ठतु कृष्णस्य त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ ३१

श्रीपराशर उवाच

एवं भविष्यतीत्युक्ते दक्षिणाग्नेरन्तरम् ।
 महाकृत्या समुत्तस्थी तस्यैवाग्नेर्विनाशिनी ॥ ३२
 ततो ज्वालाकण्डालास्या ज्वलत्केशकपालिका ।
 कृष्ण कृष्णोति कुपिता कृत्या द्वारवती ययौ ॥ ३३
 तामवेक्ष्य जनस्त्रासद्द्विचलल्लोचनो मुने ।
 ययौ शरण्यं जगतां शरणं मधुसूदनम् ॥ ३४
 काशिराजसुतेनेयमाराध्य वृषभध्वजम् ।
 उत्पादिता महाकृत्येत्ययगम्याथ चक्रिणा ॥ ३५
 जह्नि कृत्यामिमामुग्रं वह्निष्वालाजटालकाम् ।
 घक्रमुत्सृष्टमक्षेषु क्रीडासक्तेन लीलया ॥ ३६
 तदग्निमाल्प्रजटिलज्वालोद्गारातिभीषणाम् ।
 कृत्यामनुजगामाशु विष्णुचक्रं सुदर्शनम् ॥ ३७
 चक्रप्रतापनिर्दग्धा कृत्या माहेश्वरी तदा ।
 वनाश वेगिनी वेगात्तदप्यनुजगाम ताम् ॥ ३८
 कृत्या वाराणसीमेव प्रविवेश त्वरान्विता ।
 विष्णुचक्रप्रतिभ्रतप्रभावा मुनिसत्तम ॥ ३९
 ततः काशीबलं धूरि प्रमथानां तथा बलम् ।
 समस्तशस्त्रास्त्रयुतं चक्रस्याभिमुखं ययौ ॥ ४०
 शस्त्रास्त्रमोक्षचतुरं दग्ध्वा तद्बलमोजसा ।
 कृत्यागर्भमशेषां तां तदा वाराणसीं पुरीम् ॥ ४१
 सभृद्भृदभृत्यपीरां तु साश्वमातङ्गमानवाम् ।
 अशेषगोष्ठकोशां तां दुर्निरीक्ष्यां सुरैरपि ॥ ४२

बच 'इसके पुत्रको मारुम हुआ कि उसे श्रीवासुदेवने मारा है तो उसने अपने पुरोहितके साथ पितृकर भगवान् शंकरको सन्तुष्ट किया ॥ २९ ॥ अविमुक्त महाश्वेत्मे उद्य शजकृपासे स्तुष्ट होकर श्रीशंकरने कहा— 'वर यौग' ॥ ३० ॥ वह बोला— 'हे भगवन्! हे महेश्वर! आपको कृपासे मेरे पिताका वध करनेवाले कृष्णका तडा करनेके लिये (अग्निसे) कृत्या उत्पन्न हो' ॥ ३१ ॥

श्रीपराशरजी बोले— भगवान् शंकरने कहा, 'ऐसा ही होगा ।' उनके ऐसा कहनेपर दक्षिणाग्निनाका चयन करनेके अनन्तर उससे उस अग्निनाका ही विनाश करनेवाली कृत्या उत्पन्न हुई ॥ ३२ ॥ उसका कराल मुख ज्वालामालाओंसे पूर्ण था तथा उसके केश अग्निशिखाके समान दीपितान् और ताम्रवर्ण थे । वह क्रोधपूर्वक 'कृष्ण! कृष्ण!!' कहते द्वारकापुरीमें आयी ॥ ३३ ॥

हे मुने! उसे देखकर लोगोंने भय विचलित नेत्रोंसे जगद्गति भगवान् मधुसूदाकी शरण ली ॥ ३४ ॥ जब भगवान् चक्रपाग्निने जाना कि श्रीशंकरको उपासना कर काशिराजके पुत्रने ही यह महाकृत्या उत्पन्न की है तो अशक्तोडामें लगे हुए उन्होंने लीलासे ही यह कहकर कि 'इस अग्निज्वालाकामयी जटाओंवाली भयंकर कृत्याको मार डाल' अपना चक्र छोड़ा ॥ ३५-३६ ॥

तब भगवान् विष्णुके सुदर्शनचक्रने उस अग्नि-मालापाण्डित्य जटाओंवाली और अग्निज्वालाओंके कारण भयानक मुखवाली कृत्याका पीछ किया ॥ ३७ ॥ उस चक्रके तेजसे दाध होकर जिन्ना-भिन्ना होठी हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेगसे दौड़ने लगी तथा वह चक्र भी उतने ही वेगसे उसका पीछा करने लगा ॥ ३८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! अन्तमें विष्णुचक्रसे हतप्रभाव हुई कृत्याने शीघ्रतासे काशीमें ही प्रवेश किया ॥ ३९ ॥ उस समय कश्यप-नरेशाके सम्पूर्ण सेना और प्रथमगण अश्व-शस्त्रोंसे सुसज्जित होकर उस चक्रके सम्मुख आये ॥ ४० ॥

तब वह चक्र अपने तेजसे शस्त्रास्त्र-प्रयोगमें फुराल उस सम्पूर्ण सेनाको दग्धकर कृत्याके सहित सम्पूर्ण वाराणसीको जलाने लगा ॥ ४१ ॥ जो राजा, प्रजा और सेवकोंसे पूर्ण थी; षोडशे, द्वादशी और मनुष्योंसे भरी थी; सम्पूर्ण गोष्ठ और कोशोंसे युक्त थी और देवताओंके

* हत वास्यका अर्थ यह भी होता है कि 'मेरे चक्रके लिये मेरे पिताके मारनेवाले कृष्णके पास कृत्या उत्पन्न हो' इसलिये यदि इस वक्रका विपरीत परिणाम हुआ तो उसमें शंका नहीं करने चाहिये ।

न्वालापरिष्कृताशेषगृहप्राकारचत्वराम् ।
 ददाह तद्धोश्चक्रं सकलामेव तां पुरीम् ॥ ४३
 अक्षीणामर्षभत्युग्रसाध्यसाधनसस्युहम् ।
 तच्चक्रं प्रस्फुरद्दीपि विष्णोरभ्यायवी कर्म ॥ ४४

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे षट्त्विंशोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

पैंतीसवाँ अध्याय

साम्बका विवाह

श्रीमैत्रेय उवाच

भूय एवाहमिच्छामि बलभद्रस्य धीमतः ।
 श्रोतुं पराक्रमं ब्रह्मन् तन्ममाख्यामुमर्हसि ॥ १
 यमुनाकर्षणादीनि श्रुतानि भगवन्मया ।
 तत्कथ्यन्तां महाभाग यदन्यत्कृतवान्बलः ॥ २

श्रीपराशर उवाच

मैत्रेय श्रूयतां कर्म यद्रामेणाभवत्कृतम् ।
 अनन्तेनाप्रमेयेन शेषेण धरणीधृता ॥ ३
 सुयोधनस्य तनयां स्वयंवरकृतक्षणाम् ।
 बलादादसवान्सीरस्साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ ४
 ततः कुरुक्ष्ण महावीर्याः कर्णदुर्योधनादयः ।
 भीष्मद्रोणादयश्चैनं बबन्धुर्युधि निर्जितम् ॥ ५
 तच्छ्रुत्वा यादवास्सर्वे क्रोधं दुर्योधनादिषु ।
 मैत्रेय चक्रुः कृष्णश्च तान्निहन्तु महोद्यमम् ॥ ६
 तान्निवार्य बलः प्राह मदलोलकलाक्षरम् ।
 मोक्षयन्ति ते महृष्णाद्यास्याप्येक्ये हि कौरवान् ॥ ७

श्रीपराशर उवाच

बलदेवस्ततो गत्वा नगरं नागसाह्वयम् ।
 बाह्योपवनमध्येऽभून् विवेश च तत्पुरम् ॥ ८
 बलमागतमाज्ञाय भूया दुर्योधनादयः ।
 गामर्ष्यमुदकं चैव रामाय प्रत्यवेदयन् ॥ ९

लिये भी दुर्दर्शनीय थी, उसी काशीपुरीको भगवान्
 विष्णुके उस चक्रने उसके गृह, कोट और चतुर्तीमें
 अग्निको न्वालापरिष्कृतकर जला डाला ॥ ४३-४४ ॥
 अन्तमें, बिसका क्रोध अभी शान्त नहीं हुआ तथा जो
 अत्यन्त उग्र कर्म करनेको उत्सुक था और जिसकी
 दीपि चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर
 लौटकर भगवान् विष्णुके हाथमें आ गया ॥ ४४ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे ब्रह्मन्! अब मैं फिर
 प्रतिमान् बलभद्रजोके पराक्रमकी खार्ता सुनना चाहता
 हूँ, आप वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ हे भगवन्! मैंने उनके
 यमुनाकर्षणादि पराक्रम तो सुन लिये; अब हे महाभाग!
 उन्होंने जो और-और विक्रम दिखाए हैं, उनका
 वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! अनन्त, अप्रमेय,
 धरणीधर शेषवतार श्रीबलरामजीने जो कर्म किये थे,
 वह सुनो— ॥ ३ ॥

एक बार जाप्यवतीनन्दन वीरवर साम्बने स्वयंवरके
 अवसरपर दुर्योधनकी पुत्रीको जलात् हरण किया ॥ ४ ॥
 तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदिने
 क्रुद्ध होकर उसे युद्धमें हरकर बंध लिया ॥ ५ ॥ यह
 समाचार पाकर कृष्णश्च आदि समस्त पादवीने
 दुर्योधनादिपर क्रुद्ध होकर उन्हें मारनेके लिये बड़ी
 तैयारी की ॥ ६ ॥ उनके चेककर श्रीकृष्णरामजीने यदिरके
 उन्मादसे लड़खड़ाते हुए शब्दोंमें कहा—“कौरवगण
 मेरे कहनेसे साम्बको जेद दोगे, अतः मैं अकेला ही
 उनके पास जाता हूँ” ॥ ७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर, श्रीबलदेवजी
 हस्तिनापुरके समीप पहुँचकर उसके बाहर एक उद्यानमें
 ठहर गये; उन्होंने नगरमें प्रवेश नहीं किया ॥ ८ ॥
 बलरामजीको आये जान दुर्योधन आदि राजाओंने
 उन्हें गौ, अर्घ्य और पाषादि निवेदन किये ॥ ९ ॥

गृहीत्वा विधिवत्सर्वं ततस्तानाह कौरवान् ।
 आज्ञापयत्पुत्रसेनस्साम्बमाशु विमुञ्चत ॥ १०
 ततस्तद्वचनं श्रुत्वा भीष्मद्रोणादयो नृपाः ।
 कर्णदुर्योधनाद्याश्च चुक्षुर्भुविजसत्तम ॥ ११
 कच्छुश्च कुरपितास्सर्वे बाह्लिकाद्याश्च कौरवाः ।
 अगन्याहं यदोर्वशमवेक्ष्य मुसलायुधम् ॥ १२
 भो भो किमेतद्भवता बलभद्रेरितं वचः ।
 आज्ञां कुरुकुलोत्थानां यादवः कः प्रदास्यति ॥ १३
 उग्रसेनोऽपि यद्याज्ञां कौरवाणां प्रदास्यति ।
 तदस्मि पाण्डुरैश्छर्त्तन्नृपयोग्यैर्विदुम्बरीः ॥ १४
 तद्गच्छबलमा वा त्वं साम्बमन्यायचेष्टितम् ।
 विमोक्ष्यामो न भवतश्छोग्रसेनस्य श्यासनात् ॥ १५
 प्रणतिर्यां कृतास्माकं मान्यानां कुरुकुरान्धकैः ।
 ननाम सा कृता केयमाज्ञा स्वामिनि भूत्वतः ॥ १६
 गर्दमारोपिता सूर्यं समानासनभोजनैः ।
 को ह्येषो भवतां नीतिर्व्यग्रीत्या नाचलोकिता ॥ १७
 अस्याभिरर्षो भवतो योऽयं बल नियेदितः ।
 प्रेम्णैतन्नैतदस्माकं कुरुसाधुष्पत्कुलोचितम् ॥ १८
 श्रीपराशर उवाच
 इत्युक्त्वा कुन्धः साम्बं मुञ्चामो न हेस्सुतम् ।
 कृतैकनिश्चयास्त्पूर्णं विशिशुर्गजसाह्वयम् ॥ १९
 भक्तः कोपेन चाधूर्णस्ततोऽधिक्षेपजन्मना ।
 उत्थाय पाप्यर्थां वसुधां जघान स हलायुधः ॥ २०
 ततो विदारिता पृथ्वीः पार्ष्णिघातान्महात्मनः ।
 आस्फोटयामास तदा दिशश्शब्देन पूरयन् ॥ २१
 उवाच चातिताप्राक्षो भृकुटीकुटिलाननः ॥ २२
 अहो मदावलेपोऽयमसाराणां दुरात्मनाम् ।
 कौरवाणां महीपत्नमस्माकं किल कालजम् ।
 उग्रसेनस्य वे नाज्ञां मन्यन्तेऽद्यापि लङ्घनम् ॥ २३
 उग्रसेनः समध्यास्ते सुधर्मा न शचीपतिः ।
 धिङ्मानुषशतोच्छिष्टे तुष्टिरेषां नृपासने ॥ २४

२३ तककी विधिवत् ग्रहण कर बलभद्रीन
 कौरवोंसे कहा—“राजा उग्रसेनकी आज्ञा है आपलोग
 साम्बको तुरन्त छोड़ दें” ॥ १० ॥

११ द्विजलक्षणा! बलरामजीके इन वचनोंको सुकर
 भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओंको बड़ा
 क्रोध हुआ ॥ ११ ॥ और यदुर्वंशको राज्यपदके अयोग्य
 सम्पन्न बाह्लिक आदि सभी कौरवगण क्रुपित होकर भूसलधारों
 बलभद्रीसे कहने लगे— ॥ १२ ॥ “हे बलभद्र! तुम यह
 क्या कह रहे हो; ऐसा कौन यदुर्वंशों है जो कुरुकुलोत्पन्न
 किसी खोरको आज्ञा दे ? ॥ १३ ॥ यदि उग्रसेन भी कौरवोंको
 आज्ञा दे सकता है तो राजाओंके योग्य कौरवोंके इश
 स्वतंत्र छत्रका क्या प्रयोजन है ? ॥ १४ ॥ अतः हे बलराम !
 तुम जाओ अथवा रहो, हमलोग तुम्हारी या उग्रसेनकी
 आज्ञासे अन्धायकर्मों साध्यकी नहीं छोड़ सकते ॥ १५ ॥
 पूर्वकालमें फुफुर और अन्धकर्मशील यादवगण हम
 माननीयोंको प्रणाम किया करते थे सो अब ये ऐसा नहीं
 करते तो न सही, किन्तु स्वामीको यह सेवककी ओरसे
 आज्ञा देना कैसा ? ॥ १६ ॥ तुमलोगोंके साथ समान आसन
 और भोजनका व्यवहार करके तुम्हें हमहीने गर्वीला बच
 दिया है; इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है; क्योंकि हमने ही
 शीतिलरु नीतिका विचार नहीं किया ॥ १७ ॥ हे बलराम!
 हमने जो तुम्हें यह अर्घ्य आदि निवेदन किया है वह
 प्रेमवश ही किया है, वास्तवमें हमारे कुलकी तरफसे
 तुम्हारे कुलको अर्घ्यादि देना उचित नहीं है” ॥ १८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा कहकर कौरवगण यह
 निश्चय करके कि “हम कृष्णके पुत्र साम्बको नहीं छोड़ेंगे”
 तुरन्त इस्तिनापुरमें चले गये ॥ १९ ॥ तदनन्तर हलायुध
 श्रीबलरामजीने उनके तिरस्कारसे उत्पन्न हुए क्रोधसे मत्त होकर
 पृथ्वी हुए पृथिवीमें लात मारी ॥ २० ॥ महात्मा बलरामजीके
 पाद-प्रहारसे पृथिवी फट गयी और ये अपने शब्दसे सम्पूर्ण
 दिशाओंको गुँजाकर कम्पायमान करने लगे तथा लाल-
 लाल नेत्र और ज्येष्ठ भृकुटि काके बोले— ॥ २१-२२ ॥ “अहो!
 इन खारहीन दुरात्मा कौरवोंको यह कैसा राजपदक अभिमान
 है। कौरवोंका महीपालात्न तो स्वतःसिद्ध है और हमारा
 सामयिक—ऐसा संपन्नकर ही आज ये पक्षछत्र उग्रसेनकी
 आज्ञा नहीं मानते; बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं ॥ २३ ॥
 अणि राजा उग्रसेन सुधर्मा-सभामें स्वयं विराजमान होते
 हैं, उसमें शचीपति इन्द्र भी नहीं बैठने पाते। परन्तु इन

पारिजाततरोः पुष्पमञ्जरीर्वनिताञ्जनः ।
 बिभर्ति यस्य भृत्यानां सोऽप्येषां न महीपतिः ॥ २५ ॥
 समस्तभूभृतां नाथ उग्रसेनस्स तिष्ठतु ।
 अद्य निष्क्रीवामुर्वीं कृत्वा यास्यामि तत्पुरीम् ॥ २६ ॥
 कर्णं दुर्योधनं द्रोणमद्य भीष्मं सत्राह्निकम् ।
 दुःशशासनादीन्भूरिं च भूरिश्रवसमेव च ॥ २७ ॥
 सोमदत्तं शालं चैव भीमार्जुनयुधिष्ठिरान् ।
 यमीं च कौरवांश्चान्यादृत्वा साश्वरथद्विपान् ॥ २८ ॥
 वीरमादाय तं साम्बं सपत्नीकं ततः पुरीम् ।
 द्वारकामुग्रसेनादीन्गत्वा ब्रह्म्यामि बान्धवान् ॥ २९ ॥
 अथ वा कौरवावासं समस्तैः कुरुभिस्सह ।
 भागीरथ्यां क्षिपाम्याशु नगरं नागसाह्वयम् ॥ ३० ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा मदरक्ताक्षः कर्षणाधोमुखं हलम् ।
 प्राकारसप्रदुर्गस्य चकर्ष मुसलायुधः ॥ ३१ ॥
 आघूर्णितं तत्सहसा ततो वै हस्तिनं पुरम् ।
 दृष्ट्वा संक्षुब्धहृदयाश्चक्षुभुः सर्वकौरवाः ॥ ३२ ॥
 राम राम महाबाहो क्षम्यतां क्षम्यतां त्वया ।
 उपसंह्रियतां कोपः प्रसीद मुसलायुध ॥ ३३ ॥
 एष साम्बस्सपत्नीकस्तव निर्वीतितो बल ।
 अविज्ञातप्रभावाणां क्षम्यतामपराधिनाम् ॥ ३४ ॥

श्रीपराशर उवाच

ततो निर्वीतयामासुस्साम्बं पत्नीसमन्वितम् ।
 निष्क्रम्य स्वपुरात्तूर्णं कौरवा मुनिपुङ्गव ॥ ३५ ॥
 भीष्मद्रोणकृपादीनां प्रणम्य धदतां प्रियम् ।
 क्षान्तमेव मयेत्याह बल्लो बल्लवतां वरः ॥ ३६ ॥
 अद्याप्याघूर्णिताकारं लक्ष्यते तत्पुरं द्विज ।
 एष प्रभावो रामस्य बलशीरोपलक्षणः ॥ ३७ ॥
 ततस्तु कौरवास्साम्बं सम्पूज्य हस्तिना सह ।
 प्रेषयामासुरुद्वाहधनभार्यासमन्वितम् ॥ ३८ ॥

इति श्रीकृष्णपुराणे पञ्चमोऽंशे पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

कौरवोंको धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्योंके उच्छिष्ट राजसिंहासनमें इतनी तुष्टि है ॥ २४ ॥ जिनके सेवकोंकी स्त्रियों भी पारिजात-वृक्षकी पुष्प-भंजरी धारण करती हैं यह भी इन कौरवोंके महाराज नहीं हैं ? [यह कैसा आश्चर्य है ?] ॥ २५ ॥ ये उग्रसेन ही सम्पूर्ण राजाओंके महाराज बनकर रहे । आज मैं अकेला ही यृधिवीको कौरवहीन करके उनको द्वारकापुरीको जाऊँगा ॥ २६ ॥ आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, साह्निक, दुःशशास-त्रि, भूरि, भूरिश्रवा, श्लेमदत्त, शाल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्गान्य समस्त कौरवोंको उनके हाथी-घोड़े और रथके सहित मारकर तथा नवबधूके साथ वीरवर साम्बको लेकर ही मैं द्वारकापुरीमें जाकर उग्रसेन आदि अपने बन्धु-भा-न्धवोंको देखूँगा ॥ २७-२९ ॥ अथवा समस्त कौरवोंके सहित उनके निवासस्थान इस हस्तिनापुर नगरको ही अर्था गंगवीमें फेंके देता हूँ ॥ ३० ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा कहकर मदसे अरुणनयन मुसलामुध श्रीबलभद्रजीने हलकी नोकको हस्तिनापुरके खाई और दुर्गसे घुके प्राकारके मूलमें लगाकर खींचा ॥ ३१ ॥ उस समय सम्पूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण क्षुब्धचित्त होकर भयभीत हो गये ॥ ३२ ॥ [और कहने लगे—] "हे राम ! हे राम ! हे महाबाहो ! क्षमा करो, क्षमा करो ! हे मुसलायुध ! अपना कोप शान्त करके प्रसन्न होइये ॥ ३३ ॥ हे बलराम ! हम आपको पत्नीके सहित इस साम्बको सीपते हैं । हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसीसे आपका अपराध किया ; कृपया क्षमा कीजिये" ॥ ३४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर कौरवोंने सुरत ही अपने नगरसे बाहर आकर पत्नीसहित साम्बको श्रीबलरामजीके अर्पण कर दिया ॥ ३५ ॥ तत्र प्रणामपूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कृप आदिसे वीरवर बलरामजीने कहा—"अच्छा मैंने क्षमा किया" ॥ ३६ ॥ हे द्विज । इस समय भी हस्तिनापुर [गंगाको ओर] कुछ झुका हुआ-सा दिखायी देता है, यह श्रीबलरामजीके बल और शूरवीरताका परिचय देनेवाला उनका प्रथम ही है ॥ ३७ ॥ तदनन्तर कौरवोंने बलरामजीके सहित साम्बका पूजन किया तथा बहुत-से दहेब और वधूके सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया ॥ ३८ ॥

छत्तीसवाँ अध्याय

द्विविद-वध

श्रीपराशर उवाच

मैत्रेयैतद्गुणं तस्य बलस्य बलशालिनः ।
 कृतं यदन्यत्तेनाभूत्तदपि श्रूयतां त्वया ॥ १
 नरकास्थामुरेन्द्रस्य देवपञ्चविरोधिनः ।
 सखाभसन्महावीर्यो द्विविदो वानरर्षभः ॥ २
 वैरानुबन्धं बलधानस चकार सुरान्प्रति ।
 नरकं हतवान्कृष्णो देवराजेन चोदितः ॥ ३
 करिष्ये सर्वदेवानां तस्मादेतत्प्रतिक्रियाम् ।
 यज्ञविध्वंसनं कुर्वन् मर्त्यलोकक्षयं तथा ॥ ४
 ततो विध्वंसयामास यज्ञानज्ञानमोहितः ।
 विभेदं सायुमर्षादीं क्षयं चक्रे च देहिनाम् ॥ ५
 ददाह सवनादेशान्पुराणान्तराणि च ।
 क्वचिच्च पर्वताक्षेपैर्गामादीन्सभञ्जूर्णयत् ॥ ६
 शीलानुत्पाद्य तोयेषु मुमोचाम्बुनिधीं तथा ।
 पुनश्चार्णवपथस्थः क्षोभयामास सागरम् ॥ ७
 तेन विक्षोभितश्चाक्विरुद्रेणो द्विज जायते ।
 प्लावयंतीरजान्यामान्पुरादीनतिवेगवान् ॥ ८
 कामरूपी महारूपं कृत्वा सस्थान्यशेषतः ।
 लुठन्भ्रमणसम्पदंस्सञ्जूर्णयति वानरः ॥ ९
 तेन विप्रकृतं सर्वं जगदेतद्दुरात्मना ।
 निस्स्थाब्धोयवषट्कारं मैत्रेयासीत्सुदुःखितम् ॥ १०
 एकदा रैवतोद्याने पपी पानं हलायुधः ।
 रैवती च महाभगा तथैवान्या वरस्त्रियः ॥ ११
 उद्गीयमानो विलसत्सलनार्थीलिमध्यगः ।
 रमे यदुकुलश्रेष्ठः कुबेर इव मन्दरे ॥ १२
 ततस्स वानरोऽभ्येत्य गृहीत्वा सीरिणो हलाम् ।
 मुसलं च चक्रारास्य सम्मुखं च विव्यनम् ॥ १३
 तथैव योधितां तासां जहासाभिमुखं कपिः ।
 पानपूर्णांश्च करकाज्जिह्वेपाहस्य वै तदा ॥ १४

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! बलशाली बलरामजीका ऐसा ही पराक्रम था। अब, उन्होंने भी और एक कर्म किया था वह भी सुनो ॥ १ ॥ द्विविद नामक एक महकायशाली वानरश्रेष्ठ देवविरोधी देवराज नरकासुरका मित्र था ॥ २ ॥ भगवान् कृष्णने देवाव इन्द्रकी प्रेरणासे नरकासुरका वध किया था, उसलिये वीर वानर द्विविदने देवताओंसे वैर डाना ॥ ३ ॥ [उसने निश्चय किया कि] "मैं मर्त्यलोकका क्षय कर दूँगा और इस प्रकार यज्ञ-यागदिका उच्छेद करके सम्पूर्ण देवताओंसे इसका बदला चुका लूँगा" ॥ ४ ॥ तबसे यह अज्ञानमोहित होकर यज्ञोंको विध्वंस करने लगा और साधुमर्षादिको मिताने तथा देहधारी जीवोंको नष्ट करने लगा ॥ ५ ॥ वह वन, देश, पुर और भिन्न-भिन्न ग्रामोंको जला देता तथा कभी कबूत गिराकर ग्रामादिकोंको चूर्ण कर डालता ॥ ६ ॥ कभी पहाड़ोंकी चट्टान टूटाड़कर समुद्रके जलमें छोड़ देता और फिर कभी समुद्रमें घुसकर उसे क्षुभित कर देता ॥ ७ ॥ हे द्विज! उससे क्षुभित हुआ समुद्र कैचो-कैची तरंगोंसे उठकर अति वेगसे युक्त हो अपने तीरतों प्राय और पुर आदिको डूबो देता था ॥ ८ ॥ वह धामरूपी वानर महान् रूप धारणकर लोटने लगा था और अपने लुण्ठनके संघर्षसे सम्पूर्ण धान्यों (खेतों)-को कुचल डालता था ॥ ९ ॥ हे द्विज! उस दुरात्माने इस सम्पूर्ण जगत्को स्वाध्याय और भषट्कारसे शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यन्त दुःखपन हो गया ॥ १० ॥

एक दिन श्रीबलभद्रजी रैवतोद्यानमें [जोडासक होकर] पहापान कर रहे थे। साथ ही महाभगा रैवती तथा अन्य सुन्दर रमणियों भी थीं ॥ ११ ॥ उस समय पदुश्रेष्ठ श्रीबलरामजी मन्दराबलपर्वतपर कुबेरके समान [रैवतकपर स्वयं] रमण कर रहे थे ॥ १२ ॥ इन्हीं रमण यहाँ द्विविद वानर आया और श्रीहस्तधरके हल और मुसल लेकर उनके सामने गी उनको नष्ट करने लगा ॥ १३ ॥ वह दुरात्मा वानर टन स्त्रियोंको ओर देख-देखकर हँसने लगा और उसने पहिले घेरे हुए षडे फौजकर फेंक दिये ॥ १४ ॥

ततः कोपपरीतात्मा भर्त्सयामास तं हृली ।
 तथापि तमवज्ञाय चक्रे किलकिलाध्वनिम् ॥ १५ ॥
 ततः स्पर्यित्वा स बलो जग्राह मुसलं रुषा ।
 सोऽपि शैलशिलां भीमां जग्राह प्लवग्वेत्तमः ॥ १६ ॥
 धिक्षेप स च तां क्षिप्रां मुसलेन सहस्रधा ।
 विभेद यादवश्रेष्ठस्सा पपात महीतले ॥ १७ ॥
 अथ तन्मुसलं चासौ समुल्लङ्घ्य प्लवङ्गमः ।
 वेगेनागत्य रोषेण करेणोरस्थताडयत् ॥ १८ ॥
 ततो बलेन कोपेन मुष्टिना मूर्ध्नि ताडितः ।
 पपात रुधिरोद्गारी द्विविदः क्षीणजीवितः ॥ १९ ॥
 पतता तच्छरीरेण गिरेःशृङ्गमशीर्यत ।
 मंत्रेय शतधा यज्ञिवज्रेणेव विदारितम् ॥ २० ॥
 पुष्पसृष्टिं ततो देवा रामस्वोपरि चिक्षिपुः ।
 प्रशाशंसुस्ततोऽश्वेत्य साध्वेतत्ते महत्कृतम् ॥ २१ ॥
 अनेन दुष्टकपिना दैत्यपक्षोपकारिणा ।
 जगन्निराकृतं वीर दिष्ट्या स क्षयमागतः ॥ २२ ॥
 इत्युक्त्वा दिव्यमाजगमुर्देवा हृष्टास्सगुह्यकाः ॥ २३ ॥

श्रीपराशर उवाच

एवंविधान्यनेकानि बलदेवस्य धीमतः ।
 कर्माण्यपरिमेयानि शेषस्य धरणीभृतः ॥ २४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेशो षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

सैंतीसवाँ अध्याय

ऋषियोंका शाप, पट्टवंशविनाश तथा भगवान्का स्वधाम सिधारन

श्रीपराशर उवाच

एवं दैत्यवधं कृष्णो बलदेवसहायवान् ।
 चक्रे दुष्टक्षितीशानां तथैव जगतः कृते ॥ १ ॥
 क्षितेश्च धारं भगवान्कात्पुनेन समन्वितः ।
 अघ्स्तारयामास विभुस्समस्ताक्षीहिणीवधात् ॥ २ ॥
 कृत्वा भारवतरणं भुवो हत्वाखिलान्पान् ।
 शापव्याजेन विप्रापाभुपसंभूतवान्कुलम् ॥ ३ ॥

तब श्रीहस्तधरने क्रुद्ध होकर उसी धमकाया तथापि वह उनको अयज्ञा करके किलकारो मारने लगा ॥ १५ ॥ तदनन्तर श्रीबलरामजीने मुसकाकर क्रोधसे अपना मूसल टूट्ट लिया तथा उस वानरने भी एक भारी लहान ले ली ॥ १६ ॥ और उसे बलरामजीके ऊपर फेंकी, किन्तु यदुवीर बलभद्रजीने मूसलसे उसके हजारों टुकड़े कर दिये; जिससे वह पृथिवीपर गिर पड़ी ॥ १७ ॥ तब उस वानरने बलरामजीके मूसलका वार बचाकर रोषपूर्वक अत्यन्त वेगसे उनकी लक्ष्मीमें घुँसा मारा ॥ १८ ॥ तत्पश्चात् बलभद्रजीने भी क्रुद्ध होकर द्विविदके सिरमें घुँसा मारा जिससे वह रुधिर बमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ १९ ॥ हे मंत्रेय! उसके गिस्ते समय उसके शरीरका आघात पाकर इन्द्र-वज्रसे विदीर्ण होनेके समान उस परतके शिखरके सैकड़ों टुकड़े हो गये ॥ २० ॥

उस समय देवतालोग बलरामजीके ऊपर फूल बरसाने लगे और वहाँ आकर "आपने यह बड़ा अच्छा किया" ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ २१ ॥ "हे वीर! दैत्यपक्षके उपकारक इस दुष्ट वानरने संसारको बड़ा कष्ट दे रखा था; यह बड़े जो सौभाग्यका विषय है कि आज यह आपके हाथों मारा गया।" ऐसा कहकर गुह्यकोंके सहित देवगण अत्यन्त हर्षपूर्वक स्वर्गलोकको चले आये ॥ २२-२३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—शेषवन्तार धरणीधर धीमन् बलभद्रजीके ऐसे ही अनेकों कर्म हैं, जिनका कोई परिमाण (तुलना) नहीं बताया जा सकता ॥ २४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मंत्रेय! इसी प्रकार संसारके उपकारके लिये बलभद्रजीके सति सौकृष्णवन्दने दैत्यों और दुष्ट राजाओंका यथ किया ॥ १ ॥ तथा अन्तमें अर्जुनके साथ मिलकर भगवान् कृष्णने अठारह अर्द्धदिशि सेनाको भारकर पृथिवीका धार रखा ॥ २ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण राजाओंको मारकर पृथिवीका भारवतरण किया और फिर ब्राह्मणोंके शापके मितसे अपने कुलका भी उपसंहार कर दिया ॥ ३ ॥

उत्सृज्य द्वारकां कृष्णास्त्यक्त्वा मानुष्यमात्मनः ।
सोशो विष्णुमयं स्थानं प्रविवेश मुने निजम् ॥ ४

श्रीमंत्रेण उवाच

स विप्रशापव्याजेन संजह्ने स्वकुलं कथम् ।
कथं च मानुषं देहमुत्ससर्ज जनार्दनः ॥ ५

श्रीपराशर उवाच

विश्वामित्रस्तथा कण्वो नारदश्च मह्यमुनिः ।
पिण्डारके महातीर्थे दृष्ट्वा यदुकुमारकैः ॥ ६
ततस्ते चौवनोन्मत्ता भाषिकार्यप्रचोदिताः ।
साम्बं जाम्बवतीपुत्रं भूषयित्वा स्त्रियं यथा ॥ ७
प्रक्षितास्तान्मुनीन्नुचुः प्रणिपातपुरस्सरम् ।
इयं स्त्री पुत्रकामा वै ब्रूत किं जनधिष्यति ॥ ८

श्रीपराशर उवाच

दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते विप्रलब्धाः कुमारकैः ।
मुनयः कुपिताः प्रोचुर्मुसलं जनधिष्यति ॥ ९
सर्वबादसंहारकारणं भुवनोत्तरम् ।
येनखिलकुलोत्सादो यादवानो भविष्यति ॥ १०
इत्युक्तास्ते कुमारास्तु आचचक्षुर्यथातथम् ।
उग्रसेनाय मुसलं जज्ञे साम्बस्य चोदरात् ॥ ११
तदुग्रसेनो मुसलमयश्चूर्णमकारवत् ।
जज्ञे तदेरकाचूर्णं प्रक्षिप्तं तैर्महोदधौ ॥ १२
मुसलस्याथ लोहस्य चूर्णितस्य तु यादवैः ।
खण्डं चूर्णितशेषं तु ततो यतोपराकृति ॥ १३
तदप्यम्बुनिधौ क्षिप्तं मत्स्यो जग्राह जालिभिः ।
यातितस्योदरात्तस्य सुब्धो जग्राह तन्जराः ॥ १४
विज्ञातपरमार्थोऽपि भगवान्मधुसूदनः ।
नैच्छत्तदन्यथा कर्तुं विधिना यत्समीहितम् ॥ १५
देवैश्च प्रहितो वायुः प्रणिपत्याह केशवम् ।
रहस्येवमहं व्रूतः प्रहितो भगवन्सुरैः ॥ १६
अस्वशिवमरुदादित्यरुद्रसाध्यादिभिस्सह ।
विज्ञापयति शक्रस्तां तदिदं श्रूयतां विभो ॥ १७

हे मुने! अन्तमें द्वारकापुरीको छोड़कर तथा अपने मानव-शरीरकी त्यागकर श्रेयकृष्णचन्द्रने अपने अंश (बलराम-ब्रह्मन्नादि)-के सहित अपने विष्णुमय धाममें प्रवेश किया ॥ ४ ॥

श्रीमंत्रेणजी बोले—हे मुने: श्रीजनार्दनने विप्रशापके मित्रसे किस प्रकार अपने कुलका नाश किया और अपने पानव देहको किस प्रकार छोड़ा? ॥ ५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—एक बार कुछ यदुकुमारोंने महातीर्थ पिण्डारक क्षेत्रमें विश्वामित्र, कण्व और नमद आदि महापुनियोंको देखा ॥ ६ ॥ तब चौवनमें उन्मत्त हुए उन बालकोंने हीनहारकी प्रेरणासे साम्बकीके पुत्र साम्बका शो लेष बनाकर उन मूर्तिस्वरोंको प्रणाम करनेके अनन्त अति नम्रतासे पूछा—“इस स्त्रीको पुत्रको हृष्य है, है मुदिजन ! कहिये यह क्या जनंगी ?” ॥ ७-८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—यदुकुमारोंके इस प्रकार धोखा देनेपर उन दिव्य ज्ञानधम्पन भुविजनोंने क्रुपित होकर कहा—“यह एक लोकोत्तर मूसल जनंगी, जो लम्बत यादवोंके नाशका कारण होगा और जिससे यादवोंका सम्पूर्ण कुल संसारमें निर्मूल हो जायगा ॥ ९-१० ॥

मुनिगणके इस प्रकार कहनेपर उन कुमारोंने सम्पूर्ण वृक्षान्त ज्यों-का-त्यों रावा उग्रसेनसे कह दिया तथा साम्बके पेटमें एक मूसल उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ उग्रसेनने उस लोहमय मूषलका चूर्ण करा जाला और उसे उन बालकोंने [ले जाकर] समुद्रमें फेंक दिया, उससे वहाँ बहुत-से सरकण्डे उत्पन्न हो गये ॥ १२ ॥ यादवोंको चूर्ण किये गये इस मूसलके लोहेका जो भालेकी नोकके समान एक खण्ड चूर्ण करनेसे बचा उसे भी समुद्रहीमें फिकवा दिया; उसे एक गच्छली निगत गयी। उस गच्छलीकी मछेरोंने पकड़ लिया तथा धीरेधरेपर उसके पेटमें निकले हुए उस मूसलखण्डके जरा नामक व्याधने ले लिया ॥ १३-१४ ॥ भाग्यन्त मधुसूदन इन समस्त बातोंको यथावत् जानते थे तथा उन्हींने विघलाके इच्छाको अन्यथा करना न चाहा ॥ १५ ॥

इसी समय देवताओंने वायुको भेजा। उसने एकनर्च श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करके कहा—“भाग्यन्! मुझे देवताओंने दूत बनाकर भेजा है ॥ १६ ॥ “हे विभो! कसृगण अश्विनोकुमार, रुद्र, आदित्य, मरुद्गण और साध्यादिके सहित इन्द्रने आपको जो सन्देश भेजा है वह सुनिये ॥ १७ ॥

भारावतरणार्थं चर्षाणामधिकं शतम् ।
 भगवानवतीर्णोऽत्र त्रिदशीस्मद् चोदितः ॥ १८
 दुर्वृत्ता निहता दैत्य भुवो भारोऽवतारितः ।
 त्वया सनाथास्त्रिदशा भवन्तु त्रिदिवे सदा ॥ १९
 तदतीतं जगन्नाथ चर्षाणामधिकं शतम् ।
 इदानीं गम्भिरां स्वर्गो भवता यदि रोचते ॥ २०
 देवैर्विज्ञाप्यते देव तथार्त्रैव रतिस्तव ।
 तत्स्थीयतां यथाकालमाख्येयमनुजीविभिः ॥ २१

श्रीभगवानुवाच

यत्त्वमात्थाखिलं दूत वेदम्येतदहमप्युत ।
 प्रारब्ध एव हि मया यादवानां परिश्रयः ॥ २२
 भुवो नाह्यामि भारोऽयं यादवैरनिर्वाहितैः ।
 अवतार्य करोम्येतत्सप्तरात्रेण सत्वरः ॥ २३
 यथा गृहीतामभोधेर्दत्त्वाहं द्वारकाभुसम् ।
 यादधानुपसंहृत्य यास्यामि त्रिदशालयम् ॥ २४
 मनुष्यदेहमृत्सुख्य संकर्षणसहायवान् ।
 प्राप्त एवास्मि मन्तव्यो देवेन्द्रेण तथामरैः ॥ २५
 जरासन्धादयो येऽन्ये निहता भारहेतवः ।
 क्षितेरस्तेभ्यः कुमारोऽपि यदूर्ता नापधीयते ॥ २६
 तदेतं सुमहाभारमवतार्य क्षितेरहम् ।
 यास्याम्यमरलोकस्य पालनाय ब्रवीहि तान् ॥ २७

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तो सासुदेवेन देवदूतः प्रणम्य तम् ।
 मैत्रेय दिक्ष्वा गत्वा देवराजान्तिकं ययी ॥ २८
 भगवानप्यथोत्पातान्दिव्यभौमान्तरिक्षान् ।
 ददर्श द्वारकापुर्यां किनाशाच दिवानिशम् ॥ २९
 तान्दृष्ट्वा यादवानाह पश्यस्वमतिदारुणान् ।
 भङ्गोत्पाताञ्छ्रमायैर्षां प्रभासं याम मा चिरम् ॥ ३०

श्रीपराशर उवाच

एवमुक्ते तु कृष्णेन यादवप्रवरस्ततः ।
 महाभागवतः प्राह प्रणिपत्योद्भवो वृरिम् ॥ ३१

हे भगवन्! देवताओंकी प्रेरणासे उनके ही साथ पृथिवीका भार उतारनेके लिये अवतीर्ण हुए आपको सौ वर्षसे अधिक बीत चुके हैं ॥ १८ ॥ अब आप दुराचार्य दैत्योंको मार चुके और पृथिवीका भार भी उतार चुके, अतः [हमारी प्रार्थना है कि] अब देवगण सर्वादा स्वर्गमें ही आपसे सनाथ हों [अर्थात् आप स्वर्ग पधारकर देवताओंको सनाथ करें] ॥ १९ ॥ हे जगन्नाथ! आपको भूमण्डलमें पधारे हुए सौ वर्षसे अधिक हो गये, अब यदि आपको पसन्द आये तो स्वर्गलोक पधारिये ॥ २० ॥ हे देव! देवगणका यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगे तो रहें, सेवकोंका तो यहाँ धर्म है कि [स्वामीको] यथासंभव कर्तव्यका निवेदन कर दें' ॥ २१ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे दूत! तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूँ, इसलिये अब मैंने यादवोंके नाशका आरम्भ कर ही दिया है ॥ २२ ॥ इन यादवोंका संहार हुए किना अभीतक पृथिवीका भार हल्का नहीं हुआ है, अतः अब सप्त रात्रिके भीतर [इनका संहार करके] पृथिवीका भार उतारकर मैं शीघ्र ही [जैसा तुम कहते हो] वही करूँगा ॥ २३ ॥ जिस प्रकार यह द्वारकाकी भूमि मैंने समुद्रसे माँगी थी इसे इसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवोंका उपसंहार कर मैं स्वर्गलोकमें आऊँगा ॥ २४ ॥ अब देवराज इन्द्र और देवताओंको यह समझना चाहिये कि संकर्षणके सहित मैं मनुष्य-शरीरको छोड़कर स्वर्ग पहुँच ही चुका हूँ ॥ २५ ॥ पृथिवीके भारभूत जो जरासन्ध आदि अन्य खणागण परे पड़े हैं, ये यदुकुमार भी उनसे कम नहीं हैं ॥ २६ ॥ अतः तुम देवताओंसे ज़रूर कहो कि मैं पृथिवीके इस महाभारको उतारकर ही देवलोकका पालन करनेके लिये स्वर्गमें आऊँगा ॥ २७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! भगवान् वासुदेवके इस प्रकार कहनेपर देवदूत वासु उन्हें प्रणम करके अपनी दिव्य गतिसे देवराजके पास चले आये ॥ २८ ॥ भगवान्ने देखा कि द्वारकापुरीमें रात-दिन नाशके सूचक दिव्य, घौम और अन्तरिक्ष-सन्तन्त्री महान् उत्पात हो रहे हैं ॥ २९ ॥ उन उत्पातोंको देखकर भगवान्ने यादवोंसे कहा—“देखो, ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं, चली, शीघ्र ही इनको शान्तिके लिये प्रभासक्षेत्रको चलो” ॥ ३० ॥

श्रीपराशरजी बोले—कृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर महाभागवत यादवश्रेष्ठ उद्भवने श्रीहरिको प्रणाम करके

भगवन्धनमया कार्यं तदाज्ञापय साम्प्रतम् ।
मन्धे कुलमिदं सर्वं भगवान्संहरिष्यति ॥ ३२

नाशायास्य निमित्तानि कुलस्याच्युत लक्ष्ये ॥ ३३

श्रीभगवानुवाच

गच्छ त्वं दिव्यया गत्वा मत्प्रसादसमुत्थया ।
अद्भुतर्याश्रमं पुण्यं गन्धमादनपर्वते ।
नरनारायणस्थाने तत्पवित्रं महीतले ॥ ३४

मन्मना मत्प्रसादेन तत्र सिद्धिभवाप्स्यसि ।
अहं स्वर्गं गमिष्यामि ह्युपसंहृत्य वै कुलम् ॥ ३५

द्वारकां च मया त्यक्त्वा समुद्रः प्लावयिष्यति ।
महेश्वरं चैकं मुक्त्वा तु भवान्नतो जलाशये ।
तत्र सन्निहितश्चाहं भक्तानां हितकाम्यया ॥ ३६

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तः प्रणिपत्यैव जगामाशु तपोवनम् ।
नरनारायणस्थानं केशवेनानुमोदितः ॥ ३७

ततस्ते यादवास्सर्वे रथानारुह्य शिघ्रगान् ।
प्रभासं प्रययुस्सार्धं कृष्णरामादिभिर्द्विज ॥ ३८

प्रभासं समनुप्राप्ताः कुकुराभ्यकथञ्चनः ।
चक्रुस्तत्र महापानं वासुदेवेन चोदिताः ॥ ३९

पिबतां तत्र चैतेषां सङ्घर्षेण परस्परम् ।
अतिवादेन्धनो जज्ञे कलहात्मिनः क्षयावहः ॥ ४०

श्रीमैत्रेय उवाच

स्यं स्वं वै भुञ्जतां तेषां कलहः किन्निमित्तकः ।
सङ्घर्षो वा द्विजश्रेष्ठ तन्ममाख्यानुमर्हसि ॥ ४१

श्रीपराशर उवाच

मृष्टं मदीयमनं ते न मृष्टमिति जल्पताम् ।
मृष्टामृष्टकथां जज्ञे सङ्घर्षकलहौ ततः ॥ ४२

ततश्चान्योन्यमभ्येत्य क्रोधसंरक्तलौचनाः ।
जघ्नुः परस्परं ते तु शस्त्रैर्देवमाल्पात्कृताः ॥ ४३

क्षीणशस्त्राश्च जगुहुः प्रत्यासन्नामधैरकाम् ॥ ४४

कहा— ॥ ३१ ॥ "भगवन्! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुलका नाश करेंगे; क्योंकि हे अच्युत! इस समय सब ओर इसके नाशके सूक्त कारण दिखायी दे रहे हैं, अतः मुझे आशा दीजिये कि मैं क्या कहूँ?" ॥ ३१-३३ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे उद्धव! अब तुम मेरी बुझासे प्राप्त हुई दिव्य गतिसे नर-नारायणके निवासस्थान गन्धमादनपर्वतपर जो पवित्र बदरिकाश्रम क्षेत्र है वहाँ जाओ। पृथिवीतलपर वहाँ सबसे पावन स्थान है ॥ ३४ ॥ वहाँपर मुझमें चित्त लगाकर तुम मेरी कृपासे सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुलका संहार करके स्वर्गलोकको चला जाऊँगा ॥ ३५ ॥ धीरे धीरे देवेपर सम्पूर्ण द्वारकाको समुद्र जलमें डूबो देगा; मुझसे यह माननेके कारण केवल मेरे भवनको छोड़ देगा; अपने इस भवनमें मैं भक्तोंको हितकामनासे सर्वद्व निवास करता हूँ ॥ ३६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—भगवान्के ऐसा कहनेपर उद्धवजी ठठे प्रणामकर दूरत हो उनके बतलाये हुए तपोवन श्रीनरनारायणके स्थानको चले गये ॥ ३७ ॥ हे द्विज! तदनन्तर कृष्ण और बलराम आदिके सहित सम्पूर्ण यादव शीघ्रगामी रथोंपर चढ़कर प्रभासक्षेत्रमें आये ॥ ३८ ॥ वहाँ पहुँचकर कुकुर, अन्यक और वृषिण आदि वेशोंके समरत यादवोंने कृष्णचन्द्रको प्रेरणासे महापान और भोजन किया ॥ ३९ ॥ पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जानेसे वहाँ कुवच्यरूप ईधनसे युक्त शलमकरिणी कलहाग्नि शभक ठली ॥ ४० ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे द्विज! अपना-अपन भोजन करते हुए उन यादवोंमें किस कारणसे कलह (बाबुद) अथवा संघर्ष (हाथापाई) हुआ, सो आप कहिये ॥ ४१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—'मेरा भोजन शुद्ध है, वेरा अच्छा नहीं है।' इस प्रकार भोजनके अच्छे-बुरेकी चर्चा करते-करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गयी ॥ ४२ ॥ तब वे दैवी प्रेरणासे विचल होकर आपसमें क्रोधसे रक्तनेत्र हुए एक-दूसरेपर शस्त्रप्रहार करने लगे और जब शस्त्र समाप्त हो गये तो पालहीमें लगे हुए सरकण्डे ले लिये ॥ ४३-४४ ॥

एरका तु भृहीता सै वज्रभूतेषु लक्ष्यते ।
 तत्रा परस्परं जघ्नुस्संप्राहारे सुदारुणे ॥ ४५ ॥
 प्रद्युम्नसाम्बप्रमुखाः कृतवर्माश्च सात्यकिः ।
 अनिरुद्धादयश्चान्ये पृथुर्विपुश्चरेव च ॥ ४६ ॥
 चारुवर्मा चारुकश्च तथाकूरादयो द्विज ।
 एरकारुपिभिवर्चस्ते मिजघ्नुः परस्परम् ॥ ४७ ॥
 निवारयामास हरिर्यादवांस्ते च केशवम् ।
 सहायं मेभिरिद्रीणां प्राप्तं जघ्नुः परस्परम् ॥ ४८ ॥
 कृष्णोऽपि कुपितस्तेषामेरकामुष्टिमाददे ।
 वधाय सोऽपि मुसलं मुष्टिर्लोहमभूत्तदा ॥ ४९ ॥
 जघान तेन विश्लेषान्यादवानातदायिनः ।
 जघ्नुस्ते सहसाभ्येत्य तश्चान्येऽपि परस्परम् ॥ ५० ॥
 ततश्चार्णवमख्येन जैत्रोऽसी चक्रिणो रथः ।
 पश्यतो दारुकस्याश्च प्रायादश्वैर्भुतो द्विज ॥ ५१ ॥
 चक्रं गदा तथा शार्ङ्गं तूणी शङ्खेऽसिरेव च ।
 प्रदक्षिणां हरिं कृत्वा जग्मुरादित्यवर्त्मना ॥ ५२ ॥
 क्षणेन नाभवत्कश्चिच्छादवानामघातितः ।
 ऋते कृष्णं महात्मानं दारुकं च महामुने ॥ ५३ ॥
 चङ्कम्यमाणौ ती रामं वृक्षमूले कृतासनम् ।
 ददृशाते मुखाम्बास्य निष्कामतं महोरगम् ॥ ५४ ॥
 निष्कम्य स मुखाम्बास्य महाभोगो भुजङ्गमः ।
 प्रयथावर्णवं सिद्धैः पूज्यमानस्तथोरगैः ॥ ५५ ॥
 ततोऽर्घ्यमादाय तदा जलधित्सम्मुखं ययौ ।
 प्रदिवेश ततस्तोयं पूजितः पन्नगोत्तमैः ॥ ५६ ॥
 दृष्ट्वा बलस्य निर्याणं दारुकं प्राह केशवः ।
 इत्वं सर्वं समाचक्ष्व वसुदेवोऽप्रसेनयोः ॥ ५७ ॥
 निर्याणं जलभद्रस्य यादवानां तथा क्षवम् ।
 योगे स्थित्वाहमप्येतत्परित्यक्ष्ये कलेवरम् ॥ ५८ ॥
 वाच्यश्च द्वारकावासी जनस्सर्वस्तथाहुकः ।
 यथेर्षां नगरीं सर्वां समुद्रः प्लावयिष्यति ॥ ५९ ॥
 तस्माद्भवद्भिस्सर्वैस्तु प्रतीक्ष्यो ह्यर्जुनागमः ।
 न स्थेयं द्वारकामध्ये निष्क्रान्ते तत्र पाण्डवे ॥ ६० ॥

उनके हाथमें लगे हुए थे सरकण्डे वज्रके समान
 प्रतीत होते थे, उन वज्रतुल्य सरकण्डोंसे ही वे उस
 दारुण युद्धमें एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे ॥ ४५ ॥

हे द्विज ! प्रद्युम्न और साम्ब आदि कृष्णपुत्रगण,
 कृतवर्मा, सात्यकि और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपुथु,
 चारुवर्मा, चारुक और अक्षर आदि यादवगण एक-दूसरेपर
 एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे ॥ ४६-४७ ॥ जब श्रीहरिने
 उन्हें आपसमें लड़नेसे रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपर्षीका
 सहायक होकर आये हुए समझा और [उनकी बातकी
 अवहेलनाकर] एक-दूसरेको मारने लगे ॥ ४८ ॥ कृष्णचन्द्रने
 भी कुपित होकर उनका वध करनेके लिये एक मुट्ठी
 सरकण्डे उठा लिये : वे मुट्ठीपर सरकण्डे लोहेके मूसल
 [समान] हो गये ॥ ४९ ॥ उन मूसलरूप सरकण्डोंसे
 कृष्णचन्द्र सम्पूर्ण आततायी यादवोंको मारने लगे तथा अन्य
 समस्त यादव भी वहाँ आ-आकर एक-दूसरेको मारने
 लगे ॥ ५० ॥ हे द्विज ! तदनन्तर भगवान् कृष्णचन्द्रका जीव
 नामक रथ घोड़ोंसे आकृष्ट हो दारुकके देखते-देखते समुद्रके
 मध्यपथसे चला गया ॥ ५१ ॥ इसके पश्चात् भगवान्के
 शंख, चक्र, गदा, शार्ङ्गधनुष, तरकश और खड्ग आदि
 आयुध श्रीहरिको प्रदक्षिणा कर सूर्यमार्गसे चले गये ॥ ५२ ॥

हे महामुने ! एक क्षणमें ही महात्मा कृष्णचन्द्र और
 उनके सारथी दारुकको छोड़कर और कोई यदुर्वशी भीषित
 न बचा ॥ ५३ ॥ उन दोनोंने वहाँ पहुँचे हुए देखा कि
 श्रीकलरामजी एक वृक्षके तले बैठे हैं और उनके मुखसे
 एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है ॥ ५४ ॥ यह विशाल
 फणधारी सर्प उनके मुखसे निकलकर सिद्ध और नागोंसे
 पूजित हुआ समुद्रको ओर गया ॥ ५५ ॥ वही समय समुद्र
 अर्घ्य लेकर उस (महासर्प)-के सम्मुख उपस्थित हुआ
 और वह नागश्रेष्ठोंसे पूजित हो समुद्रमें घुस गया ॥ ५६ ॥

इस प्रकार श्रीकलरामजीका प्रयाण देखकर
 श्रीकृष्णचन्द्रने दारुकसे कहा—“तुम यह सब वृत्तान्त
 उग्रसेन और वसुदेवजीसे जाकर कहो” ॥ ५७ ॥
 नलभद्रजीका निर्माण, खदवोंका क्षय और मैं भी योगस्थ
 होकर शरीर छोड़ूँगा—[यह सब भयाचार उन्हें] जाकर
 सुनओ ॥ ५८ ॥ सम्पूर्ण द्वारकावासी और आहुक (उग्रसेन)—
 से कहना कि अब इस सम्पूर्ण नागोंको समुद्र
 डुबो देगा ॥ ५९ ॥ इसलिये आप सब केवल अर्जुनके
 आगमनको प्रतीक्षा और करें तथा अर्जुनके पहुँचने लौटते

तेनैव सह मन्तस्त्वं यत्र याति स कौरवः ॥ ६१
 गत्वा च ब्रूहि कौन्तेयमर्जुनं चचनाम्भम् ।
 पालनीयस्त्वया शक्त्या जनोऽर्धं मत्परिग्रहः ॥ ६२
 त्वमर्जुनेन सहितो द्वारचत्वां तथा जनम् ।
 गृहीत्वा चाहि घञ्जश्च यदुराजो भविष्यति ॥ ६३

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तो दारुकः कृष्णं प्रणिपत्य पुनः पुनः ।
 प्रदक्षिणं च बहुशः कृत्वा प्रायाद्यथोदितम् ॥ ६४
 स च गत्वा तदाचष्ट द्वारकायां तथाजुनम् ।
 आनिनाय महाशुद्धिर्वज्रं चक्रे तथा नृपम् ॥ ६५
 भगवानपि गोविन्दो यासुदेवात्मकं परम् ।
 ब्रह्मात्मनि समारोष्य सर्वभूतेष्वधारयत् ।
 निष्प्रपञ्चे महाभाग संयोज्यात्ममत्प्राम्नि ।
 तुर्धावस्थं सत्नीलं च शेते स्म पुरुषोत्तमः ॥ ६६
 सम्मानयन्द्वाजवचो दुर्वासा यदुवाच ह ।
 योगयुक्तोऽभवत्पादं कृत्वा जानुनि सत्तम ॥ ६७
 आययी च अरानाम तदा तत्र स लुब्धकः ।
 मुसलावशेषलोहैकसायकन्यस्ततोमरः ॥ ६८
 स तत्पादं मृगाकारमयेक्ष्यारादवस्थितः ।
 तले विव्याध तेनैव तोमरेण द्विजोत्तम ॥ ६९
 ततश्च ददृशे तत्र चतुर्बाहुधरं नरम् ।
 प्रणिपत्याह चैवैनं प्रसीदेति पुनः पुनः ॥ ७०
 अजानता कृतमिदं मया हरिणशक्या ।
 क्षम्यतां मम पापेन दग्धं मां ज्ञातुमर्हसि ॥ ७१

श्रीपराशर उवाच

ततस्तं भगवानाह न तेऽस्तु भयमण्डपि ।
 गच्छ त्वं मत्प्रसादेन लुब्ध स्वर्गं सुरास्पदम् ॥ ७२
 विनाशमार्गं सद्यस्तद्वाक्यसमनन्तरम् ।
 आरुह्य प्रययौ स्वर्गं लुब्धकस्तत्प्रसादतः ॥ ७३

ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारकामें न रहे; जहाँ वे कुन्तिन्दर
 जायें वहाँ सब लोग चले जायें ॥ ६०-६१ ॥ कुन्तीपुत्र अर्जुनसे
 तुम मेरी ओरसे कहना कि "अपने सामर्थ्यानुसार तुम मेरे
 परिवारके लोगोंके रक्षा करना" ॥ ६२ ॥ और तुम द्वाकवासी
 सभी लोगोंको लेकर अर्जुनके साथ चले जाना । [हमारे
 पीछे] तब यदुवंशका राजा होगा ॥ ६३ ॥

श्रीपराशरजी बोले— भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके इस
 प्रकार कहनेपर दारुकाने उन्हें बारम्बार प्रणाम किया और उनकी
 अनेक परिग्रमाएँ कर उनके कथनानुसार चला गया ॥ ६४ ॥
 उस महानुद्दिने द्वारकामें पहुँचकर क्षम्युणं वृत्तान्त सुना दिया
 और अर्जुनको वहीं लाकर वज्रको राज्याभिषिक्त किया ॥ ६५ ॥

इधर भगवान् कृष्णचन्द्रने सप्रस्त भूतोंमें व्याप्त
 वासुदेवस्वरूप परब्रह्मको अपने आत्मामें आरोपित कर
 उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग! वे पुरुषोत्तम
 सीलासे ही अपने चित्तको निष्प्रपञ्च परमात्मामें लीनकर
 तुरीयपदमें स्थित हुए ॥ ६६ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! दुर्वासानोंने
 [श्रीकृष्णचन्द्रके लिये] जैसा कहा था उस द्विज-
 याक्यका* मान रखनेके लिये वे अपनी जानुओंपर
 घरण रखकर योगयुक्त होकर बैठे ॥ ६७ ॥ इसी समय
 ब्रिहते मुसलके बचे हुए तोमर (जाणमें लगे हुए लोहेके
 टुकड़े)-के आकारवाले लोहखण्डको अपने हाणको
 नोकपर लगा लिया था; यह भया नामक व्याध वहाँ
 आया ॥ ६८ ॥ हे द्विजोत्तम! उस चरणको मृगाकार देख
 उस व्याधने उसे दूरहीसे खड़े-खड़े उसी तोमरसे बाँध
 डाला ॥ ६९ ॥ किंतु वहाँ पहुँचनेपर उसने एक चतुर्भुजाधी
 मनुष्य देखा। वह देखते ही वह चरणोंमें गिरकर
 बारम्बार उनसे कहने लगा— "प्रसन्न होइये, प्रसन्न
 होइये ॥ ७० ॥ मैंने बिना जाने ही मृगाकी आशंकासे यह
 अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिये। मैं अपने पापसे
 दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये" ॥ ७१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब भगवान्ने उससे
 कहा— "लुब्धक! तू तनिक भी न डर; मेरी कृपासे
 तू अभी देवताओंके स्थान स्वर्गलोकको चला
 जा ॥ ७२ ॥ इन भगवद्वाक्योंके समाप्त होते ही वहाँ
 एक विमान आया, उसपर चढ़कर वह व्याध भगवान्की
 कृपासे उसी समय स्वर्गको चला गया ॥ ७३ ॥

* भ्रामाराममें यह प्रसंग आया है कि—एक बार महर्षि दुर्वासा श्रीकृष्णचन्द्रकोके यहाँ आये और भगवान्से सत्कार कर
 उन्होंने कहा कि आप मेरा बूँटा बल अपने सारे शरीरमें लगाइये। भगवान्ने बंधु ही किया, परंतु "नाशकका बूँट पीरसे नहीं
 धूना चाहिये" ऐसा सोचकर धरम नहीं लगाया। इसपर दुर्वासाने शाप दिया कि आपके धरम कभी छेद से जायगा।

गते तस्मिन्स भगवान्संयोज्यात्मानमात्मनि ।
ब्रह्मभूतेऽख्ययेऽचिन्त्ये वासुदेवमयेऽमले ॥ ७४ ॥
अजन्मन्यमरे विष्णावप्रमेयेऽखिलात्मनि ।
तत्याज मानुषं देहमतीत्य त्रिविधां गतिम् ॥ ७५ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

अड़तीसवाँ अध्याय

यादवाँका अन्येष्विष्ट-संस्कार, परीक्षितका रान्याभियेक तथा पाण्डवोंका स्वर्गासिंहण

श्रीपराशर उवाच

अर्जुनोऽपि तदान्विष्य रामकृष्णकलेवरे ।
संस्कारं लम्बयामास तथान्येषामनुक्रमत् ॥ १ ॥
अष्टौ महिष्यः कथिता रुक्मिणीप्रमुखामस्तु याः ।
उपगुह्य हरेर्देहं विविशुस्ता हुताशनम् ॥ २ ॥
रेवती चापि रामस्य देहमाश्लिष्य सत्तमा ।
विवेश ज्वलितं वह्निं तत्सङ्गाद्वादशीतलम् ॥ ३ ॥
उग्रसेनस्तु तच्छ्रुत्वा तथैवानकदुन्दुभिः ।
देवकी रोहिणी चैव विविशुर्जातयेदसम् ॥ ४ ॥
ततोऽर्जुनः प्रेतकार्यं कृत्वा तेषां यथाविधि ।
निश्चयकाम जनं सर्वं गृहीत्वा वज्रमेव च ॥ ५ ॥
ह्यस्वत्या विनिष्क्रान्ताः कृष्णपत्न्यः सहस्रशः ।
वज्रं जनं च कौन्तेयः पालयच्छनकैर्यया ॥ ६ ॥
सभा सुधर्मा कृष्णो न मर्त्यलोके समुद्भ्रते ।
स्वर्गं जगाम भैत्रेय पारिजातश्च पादपः ॥ ७ ॥
यस्मिन्दिने हरिर्यातो दिवं सन्यज्य मेदिनीम् ।
तस्मिन्नेवावतीर्णोऽयं वसलकायो बली कलिः ॥ ८ ॥
प्लासयामास तां शून्यां द्वारकां च महोदधिः ।
वासुदेवगृहं त्वेकं न प्लावयति सागरः ॥ ९ ॥
नातिक्रान्तुमलं ब्रह्मंस्तदद्यापि महोदधिः ।
निस्व सन्निहितस्तत्र भगवान्केशवो यतः ॥ १० ॥

उसके चले जानेपर भगवान् कृष्णचन्द्रने अपने आत्माको अन्यय, अचिन्त्य, वासुदेवस्वरूप, अमल, अमन्था, अमर, अप्रमेय, अखिलात्मा और ब्रह्मस्वरूप विष्णुभगवान्में लीन कर त्रिगुणात्मक गतिको पार करके इस मनुष्य-शरीरको छोड़ दिया ॥ ७४-७५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—अर्जुनने राम और कृष्ण तथा अन्यान्य मुख्य-मुख्य यादवाँके मृत देहोंको खोज करानेपर क्रमशः उन सबके और्ध्वदैहिक संस्कार किये ॥ १ ॥ भगवान् कृष्णकी जो रुक्मिणी आदि आठ पत्नियों बतलायी गयी हैं, उन सबने उनके शरीरका आर्तिंगन कर अग्निमें प्रवेश किया ॥ २ ॥ सती रेवतीजी भी बलरामजीके देहका आर्तिंगन कर, उनके अंग-संगके व्याह्लादसे शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश कर गयीं ॥ ३ ॥ इस सम्पूर्ण अनिष्टका समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणीने भी अग्निमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥

कदनन्तर अर्जुन उन सबका विधिपूर्वक प्रेत-कर्म कर वज्र तथा अन्यान्य कुटुम्बियोंकी साथ लेकर द्वारकासे बाहर आये ॥ ५ ॥ द्वारकासे निकली हुई कृष्णचन्द्रको सहस्रों पत्नियों तथा वज्र और अन्यान्य आन्धलोंकी [सावधानतापूर्वक] रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे-धीरे चले ॥ ६ ॥ हे भैत्रेय! कृष्णचन्द्रके मर्त्यलोकका त्याग करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात-वृक्ष भी स्वर्गलोकको चले गये ॥ ७ ॥ जिस दिन भगवान् पृथिवीको छोड़कर स्वर्ग सिंधारे थे, उसी दिनसे यह मस्तिनदेह महाबली कलिसुग पृथिवीपर आ गया ॥ ८ ॥ इस प्रकार जनशून्य द्वारकाको समुद्रने डुबी दिया, केवल एक कृष्णचन्द्रके भवनको वह नहीं डुबता है ॥ ९ ॥ हे ब्रह्मन्! उसे डुबानेमें समुद्र आज भी समर्थ नहीं है; क्योंकि उसमें भगवान् कृष्णचन्द्र सर्वदा निवास करते हैं ॥ १० ॥

तदतीव महापुण्यं सर्वपातकनाशनम् ।
 विष्णुश्रिधान्वितं स्थानं दृष्ट्वा पापाद्भिमुच्यते ॥ ११
 पार्श्वः पञ्चनदे देशे बहुधान्यधनान्विते ।
 चकार वासं सर्वस्य जनस्य मुनिसत्तमः ॥ १२
 ततो लोभस्समभवत्पार्श्वेनैकेन धन्विना ।
 दृष्ट्वा स्त्रियो नीचमाना दस्कुर्ता निहतेश्वराः ॥ १३
 ततस्ते पापकर्माणो स्रोभोपहतचेतसः ।
 आभीरा मन्त्रयामासुस्समेत्यात्यन्तदुर्मदाः ॥ १४
 अयमेकोऽर्जुनो धन्वी स्त्रीजगं निहतेश्वरम् ।
 नयत्यस्मानतिक्रम्य धिगेतद्भवतां बालम् ॥ १५
 हत्वा गर्वसमारूढो भीष्मद्रोणजयद्रशान् ।
 कर्पादींश्च न जानाति बलं ग्रामनिवासिनाम् ॥ १६
 यद्धिहस्तानवेक्ष्यास्मान्धनुष्पाणिस्स दुर्मतिः ।
 सर्वानेवावजानाति किं वो ब्राह्मभिरुन्नतैः ॥ १७
 ततो यष्टिप्रहरणा दस्यवो लोष्टधारिणः ।
 सहस्रशोऽभ्यधासन्त तं जनं निहतेश्वरम् ॥ १८
 ततो निर्धर्त्य कौन्तेयः प्राह्यभीरान्हसन्निव ।
 निवर्तध्वमधर्मज्ञा यदि न स्थ मुमूर्षवः ॥ १९
 अवज्ञाय वचस्तस्य जगृहुस्ते तदा धनम् ।
 स्त्रीधनं चैव मैत्रेय विष्वक्सेनपरिग्रहम् ॥ २०
 ततोऽर्जुनो धनुर्दिव्यं गाण्डीवमजरं युधि ।
 आरोपयितुपारिभे न शशाक च वीर्यवान् ॥ २१
 चकार सन्यं कृच्छ्रञ्च तच्चाभूच्छिथिलं पुनः ।
 न सस्मार ततोऽस्वाणि चिन्तयन्पि पाण्डवः ॥ २२
 शरान्मुमोक्ष चैतेषु पार्श्वो वैरिष्वमर्षितः ।
 त्वग्भेदं ते परं सकुरस्त गाण्डीवधन्विना ॥ २३
 अहिना येऽक्षया दत्ताशररास्तेऽपि क्षयं ययुः ।
 युद्धातस्सह गोपालैरर्जुनस्य भवक्षयैः ॥ २४
 अचिन्तयञ्च कौन्तेयः कृष्णस्यैव हि तद्वलम् ।
 यन्मया शरसङ्घातैस्सकला भूभृतो हताः ॥ २५
 मिषतः पाण्डुपुत्रस्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः ।
 आभीरैरपकृष्यन्त कामं चान्याः प्रदुहुवुः ॥ २६

वह भगवद्देशवर्मसम्पन्न स्थान अति पवित्र और
 समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला है; उसके दर्शनमत्वसे
 मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त जात है ॥ ११ ॥

हे मुनिश्रेष्ठ ! अर्जुनने उन समस्त द्वारकावासियोंको
 अत्यन्त धन-धान्य-सम्पन्न पंचनद (पंजाब) देशमें
 बसाया ॥ १२ ॥ उस समय अनाथा स्त्रियोंको अकेले धनुषी
 अर्जुनको ले गते देख लुटेरोंको तोष उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥
 तब उन अपत्य दुर्भेद, पापकर्मा और लालचहृदय आभीर
 दस्युओंने परस्पर मिलकर संगति की — ॥ १४ ॥ 'देखो,
 यह धनुषी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके
 इन अनाथा स्त्रियोंको लिये जाता है; हमारे ऐसे बल-
 पुरुषार्थको धिक्कार है ! ॥ १५ ॥ यह भीष्म, द्रोण, जयद्रथ
 और कर्ण आदि [नगर निवासियों] को मारकर ही इतना
 अभिमानो हो गया है, अभी हम ग्रामीणोंके भलको यह
 नहीं जानता ॥ १६ ॥ हमारे हाथोंमें लाठी देखकर यह दुर्भेद
 धनुष लेकर हम सबको अवज्ञा करता है, फिर हमारी इन
 ऊँची ऊँची भुजाओंसे क्या लाभ है ?' ॥ १७ ॥

ऐसी सम्पतिकर से महसूसो लुटेरे लाठी और देते
 लेकर उन अनाथ द्वारकावासियोंपर दूट मड़े ॥ १८ ॥ तब
 अर्जुनने उन लुटेरोंको झिड़ककर हँसते हुए कहा — 'ओ
 पाण्डवो ! यदि तुम्हें परनेकी इच्छा न हो तो अभी लौट
 बाओ' ॥ १९ ॥ किन्तु हे मैत्रेय ! लुटेरोंने उनके कथनपर
 कुछ भी ध्यान न दिया और भगवान् कृष्णके सम्पूर्ण धन
 और स्त्रीधनको अपने अधीन कर लिया ॥ २० ॥ तब
 चौरवर अर्जुनने युद्धमें अक्षीण अपने गाण्डीव धनुषको
 चकाना चाहा; किन्तु वे ऐसा न कर सके ॥ २१ ॥ उन्होंने
 जैसे-तैसे अति कठिनतासे उसपर प्रत्यंथा (ढोरो) चढ़
 भी ली तो फिर वे शिथिल हो गये और बहुत कुछ शौचनेपर
 भी उन्हें अपने अस्त्रोंका स्मरण न हुआ ॥ २२ ॥ तब वे
 क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओंपर आण बरसाने लगे; किन्तु
 गाण्डीवधारी अर्जुनके लौड़े हुए उन बाणोंने केवल उनको
 त्वचाको ही योंचा ॥ २३ ॥ अर्जुनका उद्वेग क्षीण हो जानेके
 कारण अग्निले दिये हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहीरोंके
 साथ लड़नेमें नष्ट हो गये ॥ २४ ॥

तब अर्जुनने सोचा कि मैंने जो अपने शरसङ्घसे
 अनेकों राजाओंको जीता था, यह सब कृष्णचन्द्रका
 ही प्रभाव था ॥ २५ ॥ अर्जुनके देखते-देखते वे अहीर
 उन स्त्रीरत्नोंको खींच-खींचकर ले जाने लगे तथा
 कोई-कोई अपने-इच्छातुल्य इधर-उधर भाग गयीं ॥ २६ ॥

तनशशरेषु क्षीणेषु धनुष्कोटश धनञ्जयः ।
 जघान दस्युंस्ते चास्य प्रहाराब्जहसुर्मुने ॥ २७
 प्रेक्षतस्तस्य पार्श्वस्य वृष्ययन्भकवरस्त्रियः ।
 जम्पुराक्षय ते म्लेच्छाः समस्ता मुनिसत्तम ॥ २८
 ततस्सुदुःखितो जिष्णुः कष्टं कष्टमिति ब्रुवन् ।
 अहो भगवतानेन वज्रिणोऽस्मि करोद् ह ॥ २९
 तद्भनुस्तानि शस्त्राणि स रथस्ते च वाजिनः ।
 सर्वमेकपदे नष्टं दानमश्रोत्रिये यथा ॥ ३०
 अहोऽतिबलवद्दैवं विना तेन मह्यत्पना ।
 यदसामर्थ्यद्युक्तेऽपि नीचधर्मो जयप्रदम् ॥ ३१
 तौ बाहू स च मे मुष्टिः स्थानं ततोऽस्मि सार्जुनः ।
 पुण्येनैव विना तेन गतं सर्वमसारताम् ॥ ३२
 ममाजुनत्वं भीमस्य भीमत्वं तत्कृते ध्रुवम् ।
 विना तेन यदाधैरिजितोऽहं रथिनां वरः ॥ ३३

श्रीपराशर उवाच

इत्थं वदन्ययी जिष्णुरिन्द्रप्रस्थं पुरोत्तमम् ।
 चकार तत्र राजानं वचं यदवनन्दनम् ॥ ३४
 स ददर्श ततो व्यासं फाल्गुनः काननाश्रयम् ।
 तमुपेत्य मह्यभागे विनयेनाभ्यसादयत् ॥ ३५
 तं सन्दमानं चरणावसलोक्य मुनिश्चिरम् ।
 उवाच वाक्यं विच्छायः कथमहं त्वमीदृशः ॥ ३६
 अधीरजोऽनुगमनं ब्रह्महत्या कृताथ वा ।
 नृवशाभङ्गदुःखीव भ्रष्टरूपयोऽसि साम्प्रतम् ॥ ३७
 सान्त्तानिकादथो वा ते याचमाना निराकृताः ।
 अगप्यस्त्रीरतिवां त्वं येनासि विगतप्रभः ॥ ३८
 भुङ्क्तेऽप्रदाय विप्रेभ्यो मिष्टमेकोऽथ वा भवान् ।
 किं वा कृपणावित्तानि इतानि भवताजुन ॥ ३९
 कच्चिन्नु शूर्पवातस्य गोचरत्वं गतोऽजुन ।
 दुष्टचक्षुर्हंतो वाऽसि निःश्रीकः कथमन्यथा ॥ ४०
 स्पृष्टो नखाभसा वाच घटवाधुंक्षितोऽपि वा ।
 केन त्वं घसि विच्छयो न्यूनां युधि निर्जितः ॥ ४१

वाणोंके समाप्त हो जानेपर धनंजय अर्जुनने धनुषकी
 नोंकसे जो प्रहार करना आरम्भ किया, किन्तु हे मुने! वे
 दस्युगण उन प्रहारोंको और भी हँसी उड़ाने लगे ॥ २७ ॥
 हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार अर्जुनके देखते-देखते वे
 म्लेच्छगण वृष्टि और अशकवक्रकी उन समस्त शस्त्रयोंको
 लेकर चले गये ॥ २८ ॥ तब सर्वदा जयशील अर्जुन अत्यन्त
 दुःखी होकर 'हा! कैसा कष्ट है? कैसा कष्ट है?' ऐसा
 कष्टकर रोने लगे [और बोले—] 'अहो! मुझे उन भगवान्ने
 ही उग लिया ॥ २९ ॥ देखो, वही धनुष है, ने ही शस्त्र हैं,
 वही रथ है और वे ही अश्व हैं, किन्तु अश्रोत्रियकी दिये
 हुए दानके समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गये ॥ ३० ॥
 अहो! दैव बड़ा प्रबल है, बिसने आज उन महात्पा कृष्णके
 न रहनेपर असमर्थ और नीच अहीरोंको जय दे दी ॥ ३१ ॥
 देखो! मेरी वे जो भुजाएँ हैं, वही मेरी मुष्टि (मुट्टी) हैं,
 वही (कुरुक्षेत्र) स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ तथापि
 पुण्यदर्शन कृष्णके बिना आज सब सारहीन हो गये ॥ ३२ ॥
 अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीमका भीमत्व भगवान्
 कृष्णकी कृपासे ही था। देखो, उनके बिना आज महारथियोंमें
 श्रेष्ठ मुझको तुच्छ आपौरोंने जीत लिया ॥ ३३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—अर्जुन इस प्रकार कहते
 हुए अपनी राजधानी इन्द्रप्रस्थमें आये और वहाँ यादवनन्दन
 वज्रक राज्याभिषेक किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर वे विपिनवासी
 व्यासमुनिके मिले और उन मह्यभाग मुनिवरके निकट जाकर
 बैठे विनयपूर्वक प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ अर्जुनको बहुत
 देरतक अपने चरणोंको वन्दना करते देख मुनिरने कहा—
 'आज तुम ऐसे कानिहीन क्यों हो रहे हो?' ॥ ३६ ॥ क्या
 तुमने भेदोंकी धूलिका अनुगमन किया है अथवा ब्रह्महत्या करी
 है या तुम्हारी कोई सुदृढ़ आशा भंग हो गयी है? जिसके
 दुःखसे तुम इस समय इतने शोहीन हो रहे हो ॥ ३७ ॥ तुमने
 किसी सन्तानके इच्छुकका विवाहके लिये याचना करनेपर
 निरादर तो नहीं किया अथवा किसी अगम्य स्त्रीसे रमण तो
 नहीं किया, जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो ॥ ३८ ॥ हे
 अर्जुन! तुम ब्राह्मणोंको बिना दिये मिष्टान्न अकेले तो
 नहीं खा लेते हो अथवा तुमने किसी कृपणका धन तो
 नहीं हर लिया है ॥ ३९ ॥ हे अर्जुन! तुमने सूपकी वायुका
 तो सेषन नहीं किया? क्या तुम्हारी आँखें दुखती हैं अथवा
 तुम्हें किसीने मारा है? तुम इस प्रकार शोहीन कैसे हो
 रहे हो? ॥ ४० ॥ तुमने नखजलका स्पर्श तो नहीं
 किया? सुफारे ऊपर घड़ेसे छलके हुए जलकी छोटि

श्रीपराशर उवाच

ततः पार्थो विनिःश्वस्य श्रूयतां भगवन्निति ।
उक्त्वा यथावदाच्छेदं व्यासायात्मपराभवम् ॥ ४२

अर्जुन उवाच

यद्गलं यच्च मत्तेजो यद्वीर्यं चः पराक्रमः ।
सा श्रीशृणुयाच्च नः सोऽस्मान्यरित्यथ्य हरिरातः ॥ ४३

ईश्वरेणापि महता स्मितपूर्वाभिभाषिणा ।
हीना चर्यं मुने तेन जातास्तृणामया इव ॥ ४४

अस्वापांसायकानां च गाण्डीवस्य तथा मम ।
सारता याभवन्मूर्तिरस्स गतः पुरुषोत्तमः ॥ ४५

यस्याघलोकनादस्माञ्छ्रैर्जयः सम्पदुनतिः ।
न तत्पाज स गोविन्दस्त्यक्त्वास्मान्भगवानातः ॥ ४६

भीष्मद्रोणाङ्गराजाद्यास्तथा दुर्योधनादयः ।
यद्गभाषेण निर्दग्धास्स कृष्णास्त्यक्तवान्भुवम् ॥ ४७

मिथीषणा गतश्रीका नष्टच्छायेषु मेदिनी ।
विभाति तात नैकोऽहं विरहे तस्य चक्रिणः ॥ ४८

यस्य प्रभावाद्भीष्माद्यैर्मय्यनी शलभावितम् ।
विना तेनाद्य कृष्णान गोपालैरस्मि निर्जितः ॥ ४९

गाण्डीवरिवधु श्लोकेषु ख्यातिं यदनुभावतः ।
गतस्तेन विनाभीरलगुडैस्स तिरस्कृतः ॥ ५०

स्वीसहस्राण्यनेकानि मन्नाशानि महामुने ।
यततो मम नीतानि दस्युभिर्लगुडावुधैः ॥ ५१

आनीयमानमाभीरैः कृष्णा कृष्णावरोधनम् ।
ह्यं चष्टिप्रहरणैः परिभूय खलं मम ॥ ५२

निश्रीकता न मे चित्रं यञ्जीवामि तदद्भुतम् ।
नीचावमानपङ्काङ्गी निर्लज्जोऽस्मि पितामह ॥ ५३

श्रीव्यास उवाच

असं ते व्रीडया पार्थ न त्वं शोषितुमर्हसि ।
अवेदि सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीदृशी ॥ ५४

कालो भवाद्य भूतानामभवाय च पाण्डव ।
कालमूलमिदं ज्ञात्वा भव स्थैर्यपरोऽर्जुन ॥ ५५

तो नहीं पढ़ गयीं अथवा तुम्हें किसी हीनबल पुत्र्यने मुझमें पराजित तो नहीं किया? फिर तू म इस तरह हतप्रभ कैसे हो रहे हो?" ॥ ४२ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब अर्जुनने दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए कहा—“भगवन्! सुनिश्च” ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजयका सम्पूर्ण वृत्तान्त व्यासजीको ज्यों-का-त्यों सुना दिया ॥ ४२ ॥

अर्जुन बोले—जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, वीर्य, पराक्रम, श्री और कान्ति थे, वे हमें छोड़कर चले गये ॥ ४३ ॥ जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रपत्न्यै-हैसकर भाते किया करते थे, वे मुने! उन हरिके बिना हम आज वृणमय पुतलके समान निःसत्त्व हो गये हैं ॥ ४४ ॥

जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्यबाणों और गाण्डीव धनुषके मूर्तिमन्सार थे वे पुरुषोत्तम भगवान् हमें छोड़कर चले गये हैं ॥ ४५ ॥ जिनकी कृपाद्गुणसे श्री. जय, सम्पत्ति और उन्नतिने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे ही भगवान् गोविन्द हमें छोड़कर चले गये हैं ॥ ४६ ॥ जिनकी प्रभावाग्निमें भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेक शूरीर दाध हो गये थे, उन कृष्णचन्द्रने इस भूमण्डलको छोड़ दिया है ॥ ४७ ॥

हे तात! उन चक्रपाणि कृष्णचन्द्रके विरहमें एक में दो क्या, सम्पूर्ण पृथिवी ही बौवन, श्री और कान्तिसे हीन प्रतीत होती है ॥ ४८ ॥ जिनके प्रभावसे अग्निरूप मुझमें भीष्म आदि महारथीगण पतंगवत् भस्म हो गये थे, आज उन्होंने कृष्णके विना मुझे गोपोंने हथ दिया! ॥ ४९ ॥ जिनके प्रभावसे यह गाण्डीव धनुष तीनों लोकोंमें विख्यात हुआ था उन्होंने विना आज यह शहीरोंको लाटिमोसे तिरस्कृत हो गया! ॥ ५० ॥

हे महामुने! भगवान्की जो सहस्रों रिययाँ मेरी देख-रेखमें आ रही थीं उन्हें, मेरे सश्र प्रकार चल करते रहनेपर भी दस्युगण अपनी लाटियोंके बलसे ले गये ॥ ५१ ॥ हे कृष्णद्वैपायन! लाटियों ही जिनके लक्ष्यार हैं उन आभीरोंने आज मेरे बलको कुण्ठितकर मेरे द्वारा साथ लाये हुए सम्पूर्ण कृष्ण-परिवारको हर लिया ॥ ५२ ॥ ऐसी अवस्थामें मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, हे शिष्यमह!

आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषोंद्वारा अपमान-पंक्रमें सनकर भी मैं निर्लज्ज अभी जीवित ही हूँ ॥ ५३ ॥

श्रीव्यासजी बोले—हे पार्थ! दुस्सारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तू म सम्पूर्ण भूतोंमें कालकी ऐसी ही गति जावो ॥ ५४ ॥ हे पाण्डव! प्राणियोंकी उन्नति और अवनतिका कारण काल ही है,

नद्यः समुद्रा गिरयस्सकला च वसुधरा ।
 देवा मनुष्याः पशवस्तरवश्चै सरीसृपाः ॥ ५६
 सृष्टाः कालेन कालेन पुनर्यास्यन्ति संश्रयम् ।
 कालात्मकमिदं सर्वं ज्ञात्वा शममवाप्नुहि ॥ ५७
 कालस्वरूपी भगवान्कृष्णः कमललोचनः ।
 यच्चात्थं कृष्णमाहात्म्यं तत्तथैव धनञ्जय ॥ ५८
 भारवत्तरकार्यार्थमवतीर्णस्स मेदिनीम् ।
 भाराक्रान्ता धरा वाता देवार्ना सभितं पुरा ॥ ५९
 तदर्शमवतीर्णोऽसौ कालरूपी जनार्दनः ।
 तच्च निष्पादितं कार्यमशेषा भूभुजो हुताः ॥ ६०
 वृष्यन्धककुलं सर्वं तथा पार्थोपसंहारम् ।
 न किञ्चिदन्धत्कर्तव्यं तस्य भूमितले प्रभोः ॥ ६१
 अतो गतस्स भगवान्कृतकृत्यो यथेच्छया ।
 सृष्टिं सर्गं करोत्येष देवदेवः स्थिती स्थितिम् ।
 अन्तेऽन्ताय समर्थोऽयं साम्प्रतं वै यथा गतः ॥ ६२
 तस्मात्पार्थ न सन्तापस्त्वया कार्यः पराभवे ।
 भवन्ति भावाः कालेषु पुरुषाणां वतः स्तुतिः ॥ ६३
 त्वयैकेन हुता भीष्मद्रोणकर्णादयो रणे ।
 तेषामर्जुन कालोत्थः किं न्यूनाभिभवो न सः ॥ ६४
 क्षिण्योस्तस्य प्रभावेण यथा तेषां पराभवः ।
 कृतस्तथैव भवतो दस्युभ्यस्स पराभवः ॥ ६५
 स देवेशश्शरीराणि समाविश्य जगत्स्थितिम् ।
 करोति सर्वभूतानां नाशमन्ते जगत्पतिः ॥ ६६
 भगोदये ते कौन्तेय सहायोऽभूञ्जनार्दनः ।
 तथान्ते तद्विपक्षास्ते केशवेन विलोकिताः ॥ ६७
 कश्श्रद्धय्यात्सगाङ्गेबान्धन्यास्त्वं कौरवाभिति ।
 आर्धैरिभ्यश्च भवतः कः श्रद्धय्यात्पराभवम् ॥ ६८

अतः हे अर्जुन! इन जय-पराजयोंको कालके अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो ॥ ५६ ॥ नदियाँ, समुद्र, गिरिगण, सम्पूर्ण पृथिवी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसृप आदि सम्पूर्ण पदार्थ कालके हाँ रचे हुए हैं और फिर कालहीसे ये क्षीण हो जाते हैं, अतः इस सारे प्रपंचको कालात्मक जानकर शान्त होओ ॥ ५६-५७ ॥

हे धनञ्जय! तुमने कृष्णचन्द्रका जैसा माहात्म्य बतलाया है वह सब सत्य ही है; क्योंकि कमलनयन भगवान् कृष्ण साक्षात् कालस्वरूप ही हैं ॥ ५८ ॥ उन्होंने पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही मर्त्यलोकमें अवतार लिया था। एक समय पूर्वकालमें पृथिवी भाराक्रान्त होकर देवताओंको सभामें गयी थी ॥ ५९ ॥ कालस्वरूपी श्रीजनार्दनने उसीके लिये अवतार लिया था। अब सम्पूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके, अतः वह कार्य सम्पन्न हो गया ॥ ६० ॥ हे पार्थ! वृष्णि और अश्वक आदि सम्पूर्ण यदुकुलका भी उपसंहार हो गया; हर्षालिये उन प्रभुके लिये अब पृथिवीतलपर और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा ॥ ६१ ॥ अतः अपना कर्तव्य समाप्त हो चुकनेपर भगवान् स्वेच्छानुसार चले गये, ये देवदेव प्रभु सर्गके आरम्भमें सृष्टि-रचना करते हैं, स्थितिके समय पालन करते हैं और अन्तमें वे ही उसका नाश करनेमें समर्थ हैं—जैसे इस समय वे [राक्षस आदिका संहार करके] चले गये हैं ॥ ६२ ॥

अतः हे पार्थ! तुझे अपनी पराजयसे दुःखी न होना चाहिये, क्योंकि अभ्युदय-काल उपस्थित होनेपर ही पुरुषोंसे ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनको स्तुति होती है ॥ ६३ ॥ हे अर्जुन! जिस समय तुझ अकेलेने ही युद्धमें भीष्म, द्रोण और कर्ण आदिको मार डाला था वह क्या उन योरीका कालक्रमसे प्राप्त हीनबल पुरुषसे पराभव नहीं था? ॥ ६४ ॥ जिस प्रकार भगवान् विष्णुके प्रभावसे तुमने उन सबोंको नीचा दिखालाया था, उसी प्रकार तुझे दस्युओंसे दवना पड़ा है ॥ ६५ ॥ वे जगत्पति देवेश्वर ही शरीरोंमें प्रविष्ट होकर जगत्की स्थिति करते हैं और वे ही अन्तमें समस्त जीवोंका नाश करते हैं ॥ ६६ ॥

हे कौन्तेय! जिस समय तेरा भाग्योदय हुआ था उस समय श्रीजनार्दन तेरे सहायक थे और जब उस (सौभाग्य)-का अन्त हो गया तो तेरे विपक्षियोंपर श्रीकेशवकी कृपादृष्टि हुई है ६७ ॥ तू गंगानन्दन भीष्मपितामहके सहित सम्पूर्ण कौरवोंको मार डालेगा—इस बातको धीन मान सकता था और फिर यह भी कैसे विश्वास होगा कि तू आभीरोंसे हार जायगा ॥ ६८ ॥

पार्थैतत्सर्वभूतस्य हरेर्सीत्पाविचेष्टितम् ।
 त्वया यत्कौरवा ध्वस्ता यद्वाभीरैर्भववाञ्जितः ॥ ६९
 गृहीता दस्सुभिर्याश्च भवाञ्छोचति तास्त्रियः ।
 एतस्याहं यथावृत्तं कथयामि तवाजुन ॥ ७०
 अष्टावक्रः पुरा विप्रो जलसासरतोऽभवत् ।
 बहुन्दर्दगणान्यार्थं गृणन्ब्रह्म सनातनम् ॥ ७१
 जितेष्वसुरसङ्घेषु मेरुपृष्ठे महोत्सवः ।
 बभूव तत्र गच्छन्त्यो ददृशुस्तं सुरस्त्रियः ॥ ७२
 रम्भातिलोत्तमाद्यास्तु शतशोऽथ सहस्रशः ।
 तुष्टुसुस्तं महात्मानं प्रशशंसुश्च पाण्डव ॥ ७३
 आकण्ठमग्नं सलिले जटाभारवहं मुनिम् ।
 विनयावतारश्चैनं प्रणेमुः स्तोत्रतत्पराः ॥ ७४
 यथा यथा प्रसन्नोऽसीं तुष्टुसुस्तं तथा तथा ।
 सर्वास्ताः कौरवश्रेष्ठ तं वरिष्ठं द्विजन्मनाम् ॥ ७५

अष्टावक्र उवाच

प्रसन्नोऽहं महाभाग भवतीनां यदिष्यते ।
 मत्तस्तदश्रियतां सर्वं प्रदास्याम्यतिदुर्लभम् ॥ ७६
 रम्भातिलोत्तमाद्यास्तं वैदिकपोऽप्सरसोऽब्रुवन् ।
 प्रसन्ने त्वय्यपर्याप्तं किमस्माकमिति द्विज ॥ ७७
 इतरास्त्वब्रुवन्विप्र प्रसन्नो भगवान्यदि ।
 तदिच्छामः पतिं प्राप्तुं विप्रेन्द्र पुरुषोत्तमम् ॥ ७८

श्रीव्यास उवाच

एवं भविष्यतीत्युक्त्वा ह्युत्तार जलान्मुनिः ।
 तमुत्तीर्णं च ददृशुर्विरूपं वक्रमण्डधाम् ॥ ७९
 तं दृष्ट्वा गूढमानानां आसौ हासः स्फुटोऽभवत् ।
 तारशशाप मुनिः कोपमवाप्य कुरुनन्दन ॥ ८०
 यस्माद्विकृतरूपं मां मत्वा हासालमानना ।
 भवतीभिः कृता तस्मादेतं शापं दद्यामि वः ॥ ८१
 मह्यमादेन भर्तारं लब्ध्वा तु पुरुषोत्तमम् ।
 यच्छापोपहतास्सर्वा दस्सुहस्तं गमिष्यथ ॥ ८२

श्रीव्यास उवाच

इत्युदीरितमाकण्ठं मुनिस्ताभिः प्रसादितः ।
 पुनस्सुरेन्द्रलोकं वै प्राह भूयो गमिष्यथ ॥ ८३

हे पार्थ! यह भव सर्वात्मा भगवान्की लोलाकी ही कीर्तुक है कि तुझे अकेलेने फीरवाँको नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहीरौले पराजित हो गया ॥ ६९ ॥

हे अर्जुन! तू जो उन दस्सुभौँद्वारा हरण की गयी स्त्रियोंके लिये शोक करता है सो मैं तुझे उसका बखानू रहस्य बतलाता हूँ ॥ ७० ॥ एक बार पूर्वकालमें विप्रपर अष्टावक्रजी सनातन ब्रह्मकी स्तुति करते हुए अनेकीं नर्यतक मरगों रहे ॥ ७१ ॥ उसी समय देवोंपर विजय प्राप्त करनेसे देवताओंने सुभेस पर्वतपर एक महान् उत्सव किया। तबमें सम्मिलित होनेके लिये जाती हुई रम्भा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओंने मागमें उन मुनिवरको देखकर उनकी अत्यन्त स्तुति और प्रशंसा की ॥ ७२-७३ ॥ वे देवांगनएँ उन जयधारी मुनिवरको कण्ठपर्यन्त जलनें डूबे देखकर विनयपूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगीं ॥ ७४ ॥ हे कौरवश्रेष्ठ! जिस प्रकार वे द्विजश्रेष्ठ अष्टावक्रजी प्रसन्न हों उसी प्रकार वे आपसएँ उनको स्तुति करने लगीं ॥ ७५ ॥

अष्टावक्रजी बोले—हे महाभागओ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे जही कर माँग लो; मैं अति दुर्लभ होनेपर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा ॥ ७६ ॥ तब रम्भा और तिलोत्तमा आदि वैदिकी (वेदप्रसिद्ध) अप्सराओंने उनसे कहा—“हे द्विज! आपके प्रसन्न हो जानेपर हमें क्या नहीं मिल गया ॥ ७७ ॥ तथा अन्य अप्सराओंने कहा—“यदि भगवान् हमपर प्रसन्न हैं तो हे विप्रेन्द्र! हम साक्षात् पुरुषोत्तमभगवान्की परितरूपसे प्राप्त करना चाहती हैं” ॥ ७८ ॥

श्रीव्यासजी बोले—तब ‘ऐसा ही होगा’—यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जलसे बाहर आये। उनके बाहर आते समय अप्सराओंने आठ स्थानोंमें बैठे उनके कुरूप देहकी देखा ॥ ७९ ॥ उसे देखकर जिन अप्सराओंकी रँसी छिपानेपर भी प्रकट हो गयी, हे कुरुनन्दन! उन्हें मुनिवरने क्रोध होकर यह शाप दिया— ॥ ८० ॥ “मुझे कुरूप देखकर तुमने हैसते हुए मेरा अपमान किया है, इसलिये मैं तुम्हें यह शाप देता हूँ कि मेरी कृपासे श्रीपुरुषोत्तमकी परितरूपसे पाकर भी तुम मेरे शापके वशीभूत होकर सुदेवोंके हाथोंमें पड़ोगे” ॥ ८१-८२ ॥

श्रीव्यासजी बोले—मुनिका यह वाक्य सुनकर उन अप्सराओंने उन्हें फिर प्रसन्न किया, तब मुनिवरने उनसे कहा “उसके पश्चात्तुम फिर स्वर्गलोकमें चली जाओगी” ॥ ८३ ॥

एवं तस्य भुनेशशापादष्टायकस्य षड्किणम् ।
 भर्तारं प्राप्य ता याता दस्युहस्तं सुराङ्गनाः ॥ ८४
 तन्वया नात्र कर्तव्यश्लोकोऽल्पोऽपि हि पाण्डव ।
 तेनैवाखिलनाथेन सर्वं तद्दुपसंहृतम् ॥ ८५
 भवतां चोपसंहार आसन्नस्तेन पाण्डव ।
 बलं तेजस्ताथा खीर्यं महात्म्यं चोपसंहृतम् ॥ ८६
 जातस्य निचतो मृत्युः पलनं च तथोन्नतेः ।
 विप्रयोगावसानस्तु संयोगः सञ्जये क्षयः ॥ ८७
 विज्ञाय न बुधाश्शोकं न हर्षमुपयान्ति ये ।
 तेषामेवैतरे चेष्टां शिक्षन्तस्सन्ति तादृशाः ॥ ८८
 तस्मान्चया नरश्रेष्ठ ज्ञात्स्वैतद्भ्रातृभिस्सह ।
 परित्यज्याखिलं तन्त्रं पन्तव्यं तपसे वनम् ॥ ८९
 तद्गच्छ धर्मराजाय निवेद्यैतद्ब्रह्मो मम ।
 परश्वो भ्रातृभिस्सार्धं यथा यासि तथा कुरु ॥ ९०
 इत्युक्तोऽभ्येत्य पार्थाभ्यां यमाभ्यां च सहाजुनः ।
 दृष्टं चैवानुभूतं च सर्वमाख्यातवांस्तथा ॥ ९१
 व्यासवाक्यं च ते सर्वे श्रुत्वाजुनमुखेरितम् ।
 राज्ये परीक्षितं कृत्वा बभूवुः पाण्डुसुता वनम् ॥ ९२
 इत्येतन्न च मैत्रेय विस्तरेण मयोदितम् ।
 जातस्य यद्यदोर्वशे वासुदेवस्य चेष्टितम् ॥ ९३
 यश्चैतच्छरितं तस्य कृष्णस्य शृणुयात्सदा ।
 सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ९४

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽंशे अष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपर्वतविर्णासके

श्रीपति विष्णुमहापुराणे पञ्चमोऽंशः समाप्तः ।

इस प्रकार पुनिवर अष्टास्रजके शापसे ही वे देवांगनाएँ श्रीकृष्णचन्द्रको पति पाकर भी फिर दस्युओंके हाथमें पड़ी हैं ॥ ८४ ॥

हे पाण्डव ! तुझे इस विषयमें शकिक भी शोक न करना चाहिये क्योंकि उन अखिलेश्वरने ही सम्पूर्ण यदुकुलका उपसंहार किया है ॥ ८५ ॥ तथा तुमलोगोंका अन्त भी अब निकट ही है; इसलिये उन सर्वेश्वरने तुम्हारे बल, तेज, धीर्य और महात्म्यका र्सकोच कर दिया है ॥ ८६ ॥ 'जो उत्पन्न हुआ है उसको मृत्यु निश्चित है, उन्नतका पतन अवश्यम्भावी है, संयोगका अन्त वियोग ही है तथा संघम (एकत्र करने) के अनन्तर क्षय (व्यय) होना सर्वथा निश्चित ही है'—ऐसा जानकर जो बुद्धिमान् पुरुष लाभ या हानिमें हर्ष अथवा शोक नहीं करते उन्हींकी चेष्टाका अवलम्बन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं ॥ ८७-८८ ॥ इसलिये हे नरश्रेष्ठ ! तुम ऐसा जानकर अपने भाइयोंसहित सम्पूर्ण राज्यको छोड़कर तपस्याके लिये वनको जाओ ॥ ८९ ॥ जब तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिरसे मेरी ये सारी बातें कहो और जिस तरह परमां भाइयोंसहित वनको चले जा सको वैसा यत्न करो ॥ ९० ॥

मुनिवर व्यासजीके ऐसा कहनेपर अर्जुनने [इन्द्रप्रस्थमें] आकर पृथा-पुत्र (युधिष्ठिर और भीमसेन) तथा यमजी (नकुल और सहदेव)—से उन्होंने जो कुछ बैसा-बैसा देखा और सुना था, सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया ॥ ९१ ॥ उन सब पाण्डु-पुत्रोंने अर्जुनके मुखसे व्यासजीका सन्देश सुनकर राज्यपदपर परीक्षितको अधिविक्र किया और स्वयं वनको चले गये ॥ ९२ ॥

हे मैत्रेय ! भगवान् वासुदेवने यदुवंशमें जन्म लेकर जो-जो लीलाएँ की थीं, वह सब धीने विस्तारपूर्वक तुम्हें सुना दों ॥ ९३ ॥ जो पुरुष भगवान् कृष्णके इस चरित्रको सर्वदा सुनता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर अन्तमें विष्णुलोकको जात है ॥ ९४ ॥



श्रीविष्णुपुराण

षष्ठ अंश

पहला अध्याय

कलियुगीपरिचयः

श्रीमैत्रेय उवाच

ध्याख्याता भवता सर्गवर्षमन्वन्तरस्थितिः ।
 वंशानुचरितं चैव विस्तरेण महामुने ॥ १
 श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वन्नो यथावदुपसंहृतिम् ।
 मह्यप्रलयसंज्ञां च कल्पान्ते च महामुने ॥ २

श्रीपराशर उवाच

मैत्रेय श्रूयतां मनो यथावदुपसंहृतिः ।
 कल्पान्ते प्राकृते चैव प्रलये जायते यथा ॥ ३
 अहोरात्रं पितृणां तु मासोऽष्टस्त्रिदिवीकसाम् ।
 घतुर्युगसहस्रे तु ब्रह्मणो वै द्विजोत्तम ॥ ४
 कृतं त्रेता ह्यपरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् ।
 दिव्यैर्वर्षसहस्रैस्तु तद्ब्रह्मदशभिरुच्यते ॥ ५
 घतुर्युगाण्यशेषाणि सदृशानि स्वरूपतः ।
 आद्ये कृतयुगे मुख्या मैत्रेयान्त्यं तथा कलिम् ॥ ६
 आद्ये कृतयुगे सर्गो ब्रह्मणा क्रियते यथा ।
 क्रियते चोपसंहारस्तद्धान्ते च कलौ युगे ॥ ७

श्रीमैत्रेय उवाच

कलेस्वरूपं भगवन्विस्तराद्ब्रह्मकुमहीसि ।
 धर्मश्चतुष्याद्भगवान्ब्रह्मन्विस्तरवयुच्छति ॥ ८

श्रीपराशर उवाच

कलेस्वरूपं मैत्रेय ब्रह्मवाग्भ्रेतुमिच्छति ।
 तन्निबोध समासेन वर्तते यन्महामुने ॥ ९
 वर्णाश्रमाभारवतो प्रवृत्तिर्न कलौ नृणाम् ।
 न सामऋग्यजुर्धर्मविधिष्यादनेहैतुकी ॥ १०
 विवाह न कलौ धर्म्या न शिष्यगुरुसंस्थितिः ।
 न दाम्पत्यक्रमो नैव अहिदेवात्मकः क्रमः ॥ ११

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे महामुने! आपने सृष्टिरचना, वंश-परम्परा और मन्वन्तरोंकी स्थितिका तथा वंशोंके चरित्रोंका विस्तारसे वर्णन किया ॥ १ ॥ अब मैं आपसे कल्पान्तमें होनेवाले महाप्रलय नामक संसारके उपसंहारका यथावत् वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! कल्पान्तके समय प्राकृत प्रलयमें जिस प्रकार जीवोंका उपसंहार होता है, वह सुने ॥ ३ ॥ हे द्विजोत्तम! मनुष्योंका एक मास पितृगणका, एक वर्ष देवगणका और दो सप्ताह चतुर्युग ब्रह्मका एक दिन-रात होता है ॥ ४ ॥ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि—ये चार युग हैं, इन सबका काल मिलाकर बारह हजार दिव्य वर्ष कल्प जाता है ॥ ५ ॥ हे मैत्रेय! [प्रत्येक मन्वन्तरके] आदि कृतयुग और अन्तिम कलियुगको छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूपसे एक समान हैं ॥ ६ ॥ जिस प्रकार आद्य (प्रथम) सत्ययुगमें ब्रह्मजी चगत्की रचना करते हैं उसी प्रकार अन्तिम कलियुगमें वे उसका उपसंहार करते हैं ॥ ७ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—हे भगवान्! कलिके स्वरूपका विस्तारसे वर्णन कीजिये, जिसमें चार चरणोंवाले भगवान् धर्मका प्रायः लोप हो जाता है ॥ ८ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! आप जो कलियुगका स्वरूप सुनना चाहते हैं सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेपसे सुनिये ॥ ९ ॥ कलियुगमें मनुष्योंकी प्रवृत्ति वर्षाश्रम-धर्मानुकूल नहीं रहती और न वह ऋक्-साम-यजुस्वरूप त्रयी-धर्मका सम्पादन करनेवाली हो होती है ॥ १० ॥ उस समय धर्मविवाह, गुरु-शिष्य-सम्बन्धकी स्थिति, दाम्पत्यक्रम और अग्निमें देवयज्ञक्रियाका क्रम (अनुष्ठान) भी नहीं रहता ॥ ११ ॥

यत्र कुत्र कुले जातो बली सर्वेश्वरः कली ।
 सर्वेभ्य एव वर्णोभ्यो योग्यः कन्वावरोधने ॥ १२
 येन केन च योगेन द्विजातिर्दीक्षितः कली ।
 यैव सैव च मैत्रेय प्राचक्षिष्वत् कली क्रिया ॥ १३
 सर्वमेव कली शास्त्रं यस्य यद्ब्रह्मं द्विज ।
 देवता च कली सर्वा सर्वस्सर्वस्य चाश्रमः ॥ १४
 उपवासस्तथायासो वित्तोत्सर्गस्तपः कली ।
 धर्मो यथाभिरुचितैरनुष्ठानैरनुष्ठितः ॥ १५
 वित्तेन भविता पुंसां स्वल्पेनाह्वयदः कली ।
 स्वीणां रूपमदश्चैव केशीरेव भविष्यति ॥ १६
 सुवर्णमणिरत्नादीं वस्त्रे चोपक्षयं गते ।
 कली स्त्रियो भविष्यन्ति तदा केशीरेव इवृत्ताः ॥ १७
 परित्यक्ष्यन्ति धर्तारं वित्तहीनं तथा स्त्रियः ।
 धर्ता भविष्यति कली वित्तवानेव योषिताम् ॥ १८
 यो वै ददाति बहूले स्वं स स्वामी सदा नृणाम् ।
 स्वामित्वहेतुस्सम्बन्धो न चाभिजनता तथा ॥ १९
 गृह्यन्ता ब्रह्मसङ्घाता ब्रह्मान्ता च तथा मतिः ।
 अर्थाङ्घ्रात्प्रेपभोग्यान्ता भविष्यन्ति कली युगे ॥ २०
 स्त्रियः कली भविष्यन्ति स्वैरिण्यो ललितस्पृहाः ।
 अन्यायावाप्तवित्तेषु पुरुषाः स्पृहयालवः ॥ २१
 अभ्यर्धितापि सुहृदा स्वार्धं हानिं न मानवाः ।
 पणार्धार्धार्द्धमात्रेऽपि करिष्यन्ति कली द्विज ॥ २२
 समानपौरुषं चेतो भावि विप्रेषु च कली ।
 क्षीरप्रदानसम्बन्धि भावि गोषु च गौरवम् ॥ २३
 अनावृष्टिभयप्रायाः प्रजाः क्षुब्धयकातराः ।
 भविष्यन्ति तदा सर्वे गगनासक्तदृष्टयः ॥ २४
 कन्दमूलफलाक्षरास्तापसा इव मानवाः ।
 आत्मानं चातयिष्यन्ति ह्यनावृष्ट्यादिदुःखिताः ॥ २५

कलियुगमें जो बलवान् होगा वही सबका स्वर्ग
 होगा चाहे किसी भी कुलमें क्यों न उत्पन्न हुआ हो,
 वह सभी वर्णोंसे कन्या ग्रहण करनेमें समर्थ होगा ॥ १२ ॥
 उस समय द्विजातिगण जिस-किसी उपाससे [अर्थात्
 निषिद्ध इव्य आदिसे] भी 'दीक्षित' हो जायेंगे और
 किसी-किसी क्रियार्थे जो प्रायश्चित्त मान ली जायेंगी ॥ १३ ॥
 हे द्विज ! कलियुगमें जिसके मुखसे जो कुछ निकल
 जायगा वही शास्त्र समझा जायगा; उस समय सभी
 (भूत-प्रेत-मक्षन आदि) देवता होंगे और सभीके
 सब आश्रम होंगे ॥ १४ ॥ उपवास, शोभादिनादि कायकोश,
 धन-दान तथा तप आदि अपनी रचिके अनुसार
 अनुष्ठान किन्ने हुए ही धर्म समझे जायेंगे ॥ १५ ॥

कलियुगमें अल्प धनसे जो लोगोंको धनाढ्यताकर गव
 हो जायगा और केशोंसे ही स्त्रियोंको सुन्दरताका अभिमान
 होगा ॥ १६ ॥ उस समय सुवर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रोंके क्षीण
 हो जानेसे स्त्रियाँ केवल-कलापोंसे ही अपनेको विभूषित
 करेंगी ॥ १७ ॥ जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियाँ छोड़ देगी।
 कलियुगमें धनवान् पुरुष ही स्त्रियोंका पति होगा ॥ १८ ॥
 जो मनुष्य [चाहे वह कितनाही निन्द्य हो] अधिक धन
 देगा वही लोगोंका स्वामी होगा; वह धन-दानका सम्बन्ध
 ही स्वामित्वका कारण होगा, कुलीनता नहीं ॥ १९ ॥

कलमें सारा द्रव्य-संग्रह घर बनानेमें ही लगात
 हो जायगा [दान-पुण्यादिमें नहीं], बुद्धि धन-संकल्पमें
 ही लगी रहेगी [आत्मज्ञानमें नहीं], सारी सम्पत्ति
 अपने उपभोगमें ही नष्ट हो जायगी [उससे अतिथि-
 सत्कारादि न होगा] ॥ २० ॥

कलिकालमें स्त्रियाँ सुन्दर पुरुषकी कामनासे
 स्वेच्छान्तरिणी होंगी तथा पुरुष अन्यायोपाक्षित धनके
 इच्छुक होंगे ॥ २१ ॥ हे द्विज ! कलियुगमें अपने सुहृदोंके
 प्रार्थना करनेपर भी लोग एक-एक दमढ़ीके लिये
 भी स्वार्धहानि नहीं करेंगे ॥ २२ ॥ कलमें ब्राह्मणोंके
 साथ ह्युद आदि समानताका दावा करेंगे और दूध
 देनेके कारण ही गौओंका सम्मान होगा ॥ २३ ॥

उस समय सम्पूर्ण प्रजा क्षुधाकी व्यथासे व्याकुल हो
 प्रायः अनावृष्टिके भयसे सदा आकाशकी ओर दृष्टि लगाये
 रहेगी ॥ २४ ॥ मनुष्य [अन्नका अभाव होनेसे] तपस्वियोंके
 समान केवल कन्द, मूल और फल आदिके सहारे ही रहेंगे
 तथा अनावृष्टिके कारण दुःखी होकर आत्मघात करेंगे ॥ २५ ॥

दुर्भिक्षमेव सततं तथा क्लेशमनीश्वराः ।
 प्राप्स्यन्ति व्याकृतसुखप्रमोदा मानवाः कलौ ॥ २६ ॥
 अस्मानभोजिनो नाग्निदेवतातिथिपूजनम् ।
 करिष्यन्ति कलौ प्राप्ते न च पिण्डोदकक्रियाम् ॥ २७ ॥
 लोलुपा ह्रस्वदेहश्च बहूनादनतत्पराः ।
 बहुप्रजात्पथाग्याश्च भविष्यन्ति कलौ स्त्रियः ॥ २८ ॥
 उभ्राभ्यामपि पापिभ्यां शिराकपकूटनं स्त्रियः ।
 कुर्वन्त्यो गुरुभर्तृणामाज्ञां भेत्यन्त्यनादराः ॥ २९ ॥
 स्वपोषणपराः क्षुद्रा देहसंस्कारवर्जिताः ।
 परुषानुत्भाषिण्यो भविष्यन्ति कलौ स्त्रियः ॥ ३० ॥
 दुःशीला दुष्टशरीलेषु कुर्वन्त्यस्सततं स्पृहाम् ।
 असद्वृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः ॥ ३१ ॥
 वेदादानं करिष्यन्ति वटवश्चाकृतप्रताः ।
 गृहस्थाश्च न होष्यन्ति न द्वास्थन्त्युचितान्यपि ॥ ३२ ॥
 वानप्रस्था भविष्यन्ति ग्राम्याहारपरिग्रहाः ।
 भिक्षवश्चापि मित्रादिस्नेहसम्बन्धयन्त्रणाः ॥ ३३ ॥
 अरक्षितारो हर्तारश्शुल्कव्याजेन पार्थिवाः ।
 हरिणो जनविज्ञानां सम्प्राप्ते तु कलौ युगे ॥ ३४ ॥
 यो योऽश्वरथनागाद्यस्स स राजा भविष्यति ।
 यश्च यश्चावल्ससर्वस्स स भूष्यः कलौ युगे ॥ ३५ ॥
 वैश्याः कृषिदणियादि सन्धय्य निजकर्म यत् ।
 शूद्रवृत्त्या प्रवर्त्यन्ति कारुकर्मोपजीविनः ॥ ३६ ॥
 भैक्षव्रतपराः शूद्राः प्रजन्त्यालिङ्गिनेऽधमाः ।
 पाषण्डसंश्रयां युतिमाश्रयिष्यन्ति सत्कृताः ॥ ३७ ॥
 दुर्भिक्षकरपीडाभिरतीवोपहृता जनः ।
 गोधूमानयथानाह्वानेऽन्यास्यन्ति दुःखितः ॥ ३८ ॥
 वेदमार्गे प्रलीने च पाषण्डादृष्टे सतो जने ।
 अधर्मवृद्ध्या लोकानामल्पमायुर्भविष्यति ॥ ३९ ॥
 अशास्त्रविहितं घोरं तप्यमानेषु वै तपः ।
 नरेषु नृपदोषेण बाल्ये मृत्युर्भविष्यति ॥ ४० ॥

कालियुगमें असमर्थ लोग सुख और आनन्दके नष्ट हो जानेसे प्रायः सर्वदा दुर्भिक्ष तथा क्लेश ही भोगेंगे ॥ २६ ॥ कालिके आनेपर लोग बिना स्नान किये ही भोजन करेंगे, अग्नि, देवता और अतिथिका पूजन न करेंगे और न पिण्डोदक क्रिया ही करेंगे ॥ २७ ॥

उस समयकी स्त्रियाँ विषयलोलुप, छोटे शरीरवाली, अति भोजन करनेवाली, अधिक सन्तान पैदा करनेवाली और मन्दभाष्या होंगी ॥ २८ ॥ ये दोनों हाथोंसे सिर खूजलाती हुई अपने गुरुजनें और पवित्रोंके आदेशका अनादरपूर्वक खण्डन करेंगीं ॥ २९ ॥ कालियुगकी स्त्रियाँ अपना ही घेट पालनेमें तत्पर, भुद्र चित्तवाली, शारीरिक शौचसे हीन तथा क्रुद्र और मिथ्या भाषण करनेवाली होंगीं ॥ ३० ॥ उस समयकी कुलंगनाएँ चिरन्तर दुश्चरित्र पुरुषोंको इच्छा रखनेवाली एवं दुश्चरित्रिणी होंगीं तथा पुरुषोंके साथ असद्व्यवहार करेंगीं ॥ ३१ ॥

ब्रह्मचारिण्यो वैदिक व्रत आदिसे डीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगीं तथा गृहस्थगण न तो त्वन करेंगीं और न सत्यात्रको उचित दान ही देंगीं ॥ ३२ ॥ वानप्रस्थ [यनके कन्द-पूलादिको छोड़कर] ग्राम्य भोजनको स्वीकार करेंगीं और संन्यासी अपने मित्रादिके स्नेह-बन्धनमें ही बँधे रहेंगीं ॥ ३३ ॥

कालियुगके आनेपर राजालोग प्रजाको रक्षा नहीं करेंगीं, बल्कि कर लेनेके बहाने प्रजाका ही धन छीनेगीं ॥ ३४ ॥ उस समय जिस-जिसके पास बहुत-से हाथी, घोड़े और रथ होंगे वह-वह ही राजा होगा तथा जो-जो राक्षसीन होगा वह-वह ही सेवक होगा ॥ ३५ ॥ वैश्यागण कृषि-वाणिज्यादि अपने कर्मोंको छोड़कर लिपिकारी आदिसे जीवन-निर्वाह करते हुए शूद्रवृत्तियोंमें ही लग जायेंगीं ॥ ३६ ॥ आश्रमदिके चिह्नसे रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्तिमें तत्पर रहेंगे और लोगोंके सम्मानित होकर पाषण्ड-वृत्तिका आश्रय लेंगे ॥ ३७ ॥ प्रजाजन दुर्भिक्ष और करकी पीड़ासे अत्यन्त उपद्रवयुक्त और दुःखिता होकर ऐसे देशोंमें चले जायेंगे जहाँ गेहूँ और जौकी अधिकता होगी ॥ ३८ ॥

उस समय वेदमार्गका लोप, मनुष्योंमें पाषण्डकी प्रचुरता और अधर्मकी वृद्धि हो जानेसे प्रजाकी आयु अल्प हो जायगी ॥ ३९ ॥ लोगोंके शास्त्रबिरुद्ध घोर तपस्या करनेसे तथा राजाके दोषसे प्रजाओंकी घाल्याजसम्बन्ध मृत्यु होने लगेंगी ॥ ४० ॥

भविता योषितां सूतिः पञ्चषट्सप्तवार्षिकी ।
 नवाष्टदशवर्षाणां मनुष्याणां तथा कलौ ॥ ४१
 पलितेद्दशश्च भविता तथा द्वादशवार्षिकः ।
 नतिजीवति वै कश्चिन्नकली वर्षाणि विंशतिः ॥ ४२
 अल्पप्रज्ञा बुधालिङ्गा दुष्टान्तःकरणाः कलौ ।
 यत्सप्ततो विनङ्क्ष्यन्ति कालेनाल्पेन मानवाः ॥ ४३
 यदा यदा हि मैत्रेय हानिर्धर्मस्य लक्ष्यते ।
 तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥ ४४
 यदा यदा हि पाषण्डवृद्धिमैत्रेय लक्ष्यते ।
 तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया महात्मभिः ॥ ४५
 यदा यदा सतां हानिर्वेदमार्गानुसारिणाम् ।
 तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥ ४६
 प्रारम्भाश्चावसीदन्ति यदा धर्मभूतां नृणाम् ।
 तदानुमेयं प्राधान्यं कलेर्मैत्रेय पण्डितैः ॥ ४७
 यदा यदा न यज्ञानामीश्वरः पुरुषोत्तमः ।
 इष्यते पुरुषैर्यज्ञैस्तदा ज्ञेयं कलेर्वलम् ॥ ४८
 न प्रीतिर्वेदवादिषु पाषण्डेषु यदा रतिः ।
 कलेर्वृद्धिस्तदा प्राज्ञैरनुमेया विचक्षणैः ॥ ४९
 कलौ जगत्पतिं विष्णुं सर्वस्त्रष्टारमीश्वरम् ।
 नार्थविष्यन्ति मैत्रेय पाषण्डोपहृता जनाः ॥ ५०
 किं देवैः किं द्विजैर्वेदैः किं शौचेनाम्बुजन्मना ।
 इत्येवं विप्र वक्ष्यन्ति पाषण्डोपहृता जनाः ॥ ५१
 स्वल्पाम्बुवृष्टिः पर्जन्यः सस्यं स्वल्पफलं तथा ।
 फलं तथाल्पसारं च विप्र प्राप्ते कलौ युगे ॥ ५२
 शानीप्रायाणि वस्त्राणि शमीप्राया महीरुहाः ।
 शूद्रप्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ ५३
 अणुप्रायाणि धान्यानि अजाप्रायं तथा पयः ।
 भविष्यति कलौ प्राप्ते ह्यीश्वरं यानुलेपनम् ॥ ५४
 श्वश्रूश्वशुरभूयिष्ठा गुरवश्च नृणां कलौ ।
 श्वास्ताद्या हारिभार्याश्च सुहृदो मुनिसत्तम ॥ ५५
 कस्य माता पिता कस्य यथा कर्मानुगः पुमान् ।
 इति चोदाहरिष्यन्ति श्वशुरानुगता नराः ॥ ५६

कलियुगमें चौच-छः अथवा सात वर्षकी स्त्री और आठ-नीं या दस वर्षके पुरुषोंके ही सन्तान हो जायगी ॥ ४१ ॥ बारह वर्षकी अवस्थामें ही लोगोंके बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति दोस वर्षसे अधिक जीवित न रहेगा ॥ ४२ ॥ कलियुगमें लोग मन्द-बुद्धि, व्यर्थ किस धारण करनेवाले और दुष्ट चित्तवाले होंगे, इसलिये वे अल्पकालमें ही नष्ट हो जायेंगे ॥ ४३ ॥

हे मैत्रेय! जब-जब धर्मकी अधिक हानि दिखलायी दे तभी-तभी बुद्धिमान् मनुष्यकी कलियुगकी बुद्धि अनुमान करना चाहिये ॥ ४४ ॥ हे मैत्रेय! जब-जब पाषण्ड बढ़ा हुआ देखे तभी-तभी महात्माओंकी कलियुगकी बुद्धि समझनी चाहिये ॥ ४५ ॥ जब-जब वैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले सत्पुरुषोंका अभाव हो तभी-तभी बुद्धिमान् मनुष्य कलिकाली बुद्धि हुई जाने ॥ ४६ ॥ हे मैत्रेय! जब धर्मात्मा पुरुषोंके आरम्भ किये हुए कार्योंमें अल्पफलता हो तब पण्डितजन कलियुगकी प्रथमता समझें ॥ ४७ ॥ जब-जब यज्ञोंके अभीश्वर भगवान् पुरुषोत्तमका लोग यज्ञोंद्वारा यज्ञ न करें तब-तब कलिका प्रथम ही समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ जब वेद-वादिमें प्रीतिका अभाव हो और पाषण्डमें प्रेम हो तब बुद्धिमान् प्राज्ञ पुरुष कलियुगकी बढ़ा हुआ जानें ॥ ४९ ॥

हे मैत्रेय! कलियुगमें लोग पाषण्डके अशीभूत हो अपनेसे सबके उर्वायिता और प्रभु जगत्पति भगवान् विष्णुका पूजन नहीं करेंगे ॥ ५० ॥ हे विप्र! उस समय लोग पाषण्डके वशीभूत होकर कहेंगे—'तु देव, द्विज, वेद और जतले होनेवाले शीशुदिमें क्या रखा है?' ॥ ५१ ॥ हे विप्र! कलिके आनेपर वृष्टि अल्प जलवाली होगी, खेती थोड़ी उपजवाली होगी और फलादि अल्प सारयुक्त होंगे ॥ ५२ ॥ कलियुगमें प्रायः सनके वने हुए सबके वृक्ष होंगे, अधिकतर शमीके वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रपद हो जायेंगे ॥ ५३ ॥ कलिके आनेपर धान्य अल्प अणु होंगे, प्रायः बकरियोंका ही दुग्ध मिलेगा और तशीर (खस) ही एकमात्र अनुलेपन होगा ॥ ५४ ॥

हे मुनिश्रेष्ठ! कलियुगमें सास और ससुर ही लोगोंके गुरुजन होंगे और हृदयहारिणी भार्या तथा साले ही सुहृद होंगे ॥ ५५ ॥ लोग अपने ससुरके अनुगामी होकर कहेंगे कि 'कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता; सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते-मरते रहते हैं' ॥ ५६ ॥

वाङ्मनःकायजैर्दोषैरभिभूताः पुनः पुनः ।
 नराः प्रापान्यनुदिनं करिष्यन्त्यल्पमेधसः ॥ ५७
 निस्स्त्वानामशौचानां निर्हृत्काणां तथा नृणाम् ।
 यद्यद्दुःखाय तत्सर्वं कलिकाले भविष्यति ॥ ५८
 निस्स्वाध्यायसषट्कारे स्वधास्वाहाविषर्जिते ।
 तदा प्रविशतो धर्मः क्वचिच्छ्लोके निवत्स्यति ॥ ५९
 तत्राल्पेनैव यत्नेन पुण्यस्क्वन्धमनुत्तमम् ।
 करोति यं कृतयुगे क्रियते तपसा हि सः ॥ ६०

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेऽर्शे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय

श्रीव्यासजीद्वारा कलियुग, शूद्र और स्त्रियोंका महत्त्व-वर्णन

श्रीपरशुराम उवाच

व्यासश्चाह महाबुद्धिर्यदत्रैव हि वस्तुनि ।
 तच्छ्रुवतां महाभाग गदतो मम तत्त्वतः ॥ १
 कस्मिन्कालेऽल्पको धर्मो ददाति सुमहत्फलम् ।
 मुनीनां पुण्यवादोऽभूत्केश्चासौ क्रियते सुखम् ॥ २
 सन्देहनिर्णयार्थाय वेदव्यासं महामुनिम् ।
 ययुस्ते संशयं प्रष्टुं मैत्रेय मुनिपुङ्गवाः ॥ ३
 ददृशुस्ते मुनिं तत्र जाह्नवीसलिले द्विज ।
 वेदव्यासं महाभागमर्द्धस्तारं सुतं मम ॥ ४
 स्नानावसानं ते तस्य प्रतीक्षन्तो महर्षयः ।
 तस्थुस्तीरि महानद्यास्तरुषण्डमुपाश्रिताः ॥ ५
 मग्नोऽथ जाह्नवीतोयाद्दुःखायाह सुतो मम ।
 शूद्रस्साधुः कलिस्साधुरित्येवं शृण्वतां वरः ॥ ६
 तेषां मुनीनां भूयश्च ममन्त्र स नदीजले ।
 साधु साध्विति चोत्थाय शूद्र धन्योऽसि चास्मदीत् ॥ ७
 निमग्नश्च समुत्थाय पुनः प्राह महामुनिः ।
 खेपितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोऽस्ति कः ॥ ८

उस समय अल्पबुद्धि पुरुष बारम्बार वाणी, मन और शरीरादिके दोषोंके वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः-पुनः पापकर्म करेंगे ॥ ५७ ॥ शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषोंकी ओ-ओ दुःख हो सकते हैं कलियुगमें वे सभी दुःख उपासित होंगे ॥ ५८ ॥ उस समय संसारके स्वाध्याय और षषट्कारसे हीन तथा स्वधा और स्वाहासे वंचित हो जानेसे कहीं-कहीं कुछ-कुछ धर्म रहेगा ॥ ५९ ॥ किंतु कलियुगमें मनुष्य धोड़ा-सा प्रयत्न करनेसे ही वो अत्यन्त उत्तम पुण्यप्राप्ति प्राप्त करता है तभी कलियुगमें महान् तपस्सासे प्राप्त किया जा सकता है ॥ ६० ॥

श्रीपरशुरामजी बोले—हे महाभाग ! इसी विषयमें महामति व्यासदेवने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत् वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १ ॥ एक बार मुनिओंमें [परस्पर] पुण्यके विषयमें यह वातलाप हुआ कि 'किन्तु सभयमें धोड़ा-सा पुण्य भी महान् फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं?' ॥ २ ॥ हे मैत्रेय ! वे समस्त मुनिश्रेष्ठ इस सन्देहका निर्णय करनेके लिये महामुनि व्यासजीके पास यह प्रश्न पूछने गये ॥ ३ ॥ हे द्विज ! वहाँ पहुँचनेपर उन मुनिजनोंने मेरे पुत्र महाभाग व्यासजीको गंगातीरमें आधा स्नान किये रेखा ॥ ४ ॥ वे महर्षिगण व्यासजीके स्नान कर चुकनेकी प्रतीक्षामें उस भवानदीके तटपर चुकींके तले बैठे रहे ॥ ५ ॥

उस समय गंगातीरमें डुबकी लगाये मेरे पुत्र व्यासने जलसे उठकर उन मुनिजनोंके सुनते हुए, 'कलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं' यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जलमें गोता लगाया और फिर उठकर कहा—'शूद्र, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो' ॥ ६-७ ॥ यह कहकर वे महामुनि फिर जलमें मग्न हो गये और फिर खड़े होकर बोले—'स्त्रियों ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है?' ॥ ८ ॥

ततः स्नात्वा यथान्यायमाद्यान्तं च कृत्वाक्रियम् ।
 उपतस्थुर्महाभागं मुनयस्ते सुतं मम ॥ १
 कृतसंखन्दनांश्चाह कृत्वासनपरिग्रहान् ।
 किमर्थमागता यूयमिति सत्यवतीसुतः ॥ १०
 तमूषुः संशयं प्रष्टुं भवन्तं वयमागताः ।
 अली तेनास्तु तावन्नः कथ्यतामपरं त्वया ॥ ११
 कलिस्साध्विति यद्रेक्तं शूद्रः साध्विति योषितः ।
 यत्नाह भगवान् साधु धन्याश्चेति पुनः पुनः ॥ १२
 तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामो न चेद् गुह्यं महामुने ।
 तत्कथ्यतां ततो ह्रस्वं प्रच्छामस्त्वां प्रयोजनम् ॥ १३

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्तो मुनिभिर्व्यासः प्रहस्येदमथाब्रवीत् ।
 धूमतां भो मुनिश्रेष्ठा यदुक्तं साधु साध्विति ॥ १४

श्रीव्यास उवाच

यत्कृते दशभिर्दशैस्वेतायां हायनेन तत् ।
 द्वापरे तस्य मासेन ज्योतिषा तत्कलौ ॥ १५
 तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः ।
 प्राप्नोति पुत्रस्तेन सविस्साध्विति भाषितम् ॥ १६
 ध्यायन्कृते यजन्भज्ञैस्वेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।
 यदाप्नोति तदाप्नोति कर्त्वी संकीर्त्यं केशवम् ॥ १७
 धर्मोत्कर्षमतीचात्र प्राप्नोति पुरुषः कलौ ।
 अस्पायासेन धर्मज्ञास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कलेः ॥ १८
 व्रतचर्यापरिग्रहा वेदाः पूर्वं द्विजातिभिः ।
 ततस्त्वधर्मसम्प्राप्तैर्यष्टव्यं विधिवद्भूतैः ॥ १९
 कृष्यं कथां कृष्या भोज्यं वृक्षेभ्यो च द्विजन्मनाम् ।
 पतनाय ततो भाष्यं तैस्तु संयमिभिस्सदा ॥ २०
 असम्यक्करणो दोषस्तेषां सर्वेषु यस्तुषु ।
 भोज्यपेयादिकं तेषां नेच्छाप्राप्तिकरं द्विजाः ॥ २१
 पारतन्त्र्यं समस्तेषु तेषां कार्येषु वै यतः ।
 जयन्ति ते निर्जालोकात्बलेशेन महता द्विजाः ॥ २२

तदनन्तर जब भैरे महाभाग पुत्र व्यासजी स्नात करनेके अनन्तर नियन्तुसार नित्यकर्मसे निवृत्त होकर आये तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे ॥ १ ॥ उन्हें आकर जब वे यथायोग्य अभिलादशक्तिके अनन्तर आश्रमोंपर श्रैष्ठ गये तो सत्यवतीनन्दन व्यासजीने उनसे पूछा—“आपलोग कैसे आये हैं?” ॥ १० ॥

तत्र मुनियोंने उनसे कहा—“हमलोग आपसे एक सन्देश पूछनेके लिये आये थे, किन्तु इस समय उसे तो जाने दीजिये, एक और बात हमें बतलाइये ॥ ११ ॥ भगवन्! आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि 'कलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं, स्त्रियाँ ही साधु और धन्य हैं', सो क्या बात है? हम यह सम्पूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने! यदि गोपनीय न हो तो कहिये। इसके पीछे हम आपसे अपनी आन्तरिक सन्देश पूछेंगे” ॥ १२-१३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—मुनियोंके इस प्रकार पूछनेपर व्यासजीने हँसते हुए कहा—“हे मुनिश्रेष्ठो! मैंने जो इन्हें बारम्बार साधु-साधु कहा था, उसका कारण सुनो” ॥ १४ ॥

श्रीव्यासजी बोले—हे द्विजगण! जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेसे मिलता है उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है, इस कारण ही मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है ॥ १५-१६ ॥ जो फल सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें देशार्चन करनेसे प्राप्त होता है वही कलियुगमें श्रेष्ठकृष्णचन्द्रका नाय-कीर्ति करनेसे मिल जाता है ॥ १७ ॥ हे धर्मज्ञगण! कलियुगमें थोड़े-से परिश्रमसे ही पुरुषको महान् धर्मकी प्राप्ति हो जाती है, इसीलिये मैं कलियुगसे अति सन्तुष्ट हूँ ॥ १८ ॥

[अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाते हैं] द्विजातियोंकी पहले ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए भेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरणसे उपाजित धनके द्वारा विश्विपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं ॥ १९ ॥ इसमें भी कार्य कार्यालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके फलके कारण होते हैं; इसलिये उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है ॥ २० ॥ सभी कर्मोंमें अनुचित (विधिके विपरीत) करनेसे उन्हें दोष लगता है; यहाँतक कि भोजन और पानादि भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते ॥ २१ ॥ क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण कार्योंमें परतन्त्रता रहती है। हे द्विजगण! इस प्रकार वे अत्यन्त क्लेशसे पुण्य-लोकोको प्राप्त करते हैं ॥ २२ ॥

द्विजशुश्रूषयैवैष पाकयज्ञाधिकारवान् ।
 निजाञ्जयति वै लोकाञ्चक्षुद्रो धन्यतरस्ततः ॥ २३ ॥
 भक्ष्याभक्ष्येषु नास्यास्ति पेयापेयेषु वै यतः ।
 नियमो मुनिशार्दूलास्तेनासौ साध्वितीरितः ॥ २४ ॥
 स्वधर्मस्याचिरोधेन नरैर्लब्धं धनं सदा ।
 प्रतिपादनीयं पात्रेषु यष्टव्यं च यथाविधि ॥ २५ ॥
 तस्यार्जने महाक्लेशः पालने च द्विजोत्तमाः ।
 तथासद्विनियोगेन विज्ञातं गहनं नृणाम् ॥ २६ ॥
 एवमन्यैस्तथा क्लेशैः पुरुषा द्विजसत्तमाः ।
 निजाञ्जयति वै लोकाञ्जपत्यादिकान्द्रमात् ॥ २७ ॥
 योषिच्छुश्रूषणाद्धर्तुः कर्मणा मनसा गिरा ।
 तद्भिता शुभमान्नेति रस्तालोक्य यतो द्विजाः ॥ २८ ॥
 नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा ।
 तुनीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः ॥ २९ ॥
 एतद्दुः कथितं विप्रा यन्निमित्तमिहागताः ।
 तत्पृच्छत यथाकर्म सर्वं वक्ष्यामि वः स्फुटम् ॥ ३० ॥
 कृषयस्ते ततः प्रोचुर्वत्पृष्टव्यं महामुने ।
 अस्मिन्नेव च तत् प्रश्ने यथावत्कथितं त्वया ॥ ३१ ॥

श्रीपराशर उवाच

ततः प्रहस्य तानाह कृष्णद्वैपायनो मुनिः ।
 विस्मयोत्फुत्सन्नसनास्तापसांस्तानुपागतान् ॥ ३२ ॥
 मयैष भवतां प्रश्नो ज्ञातो दिश्वेन चश्रुषा ।
 ततो हि वः प्रसङ्गेन साधु साध्विति भाषितम् ॥ ३३ ॥
 स्वल्पेन हि प्रयत्नेन धर्मस्सिद्धयति वै कल्पी ।
 नैरात्मगुणाभ्योभिः क्षालिताक्षिलकिस्त्वियैः ॥ ३४ ॥
 शूद्रैश्च द्विजशुश्रूषातस्यैर्द्विजसत्तमाः ।
 तथा स्त्रीभिरनायासात्पतिशुश्रूषयैव हि ॥ ३५ ॥
 ततस्त्रितयपद्येतन्मम धन्यतरं मतम् ।
 धर्मसम्पादने क्लेशो द्विजातीनां कृतादिषु ॥ ३६ ॥
 भवद्विधैर्बन्धिप्रेतं तदेतत्कथितं मया ।
 अपृष्टेनापि धर्मज्ञाः किमन्यद्विक्रयतो द्विजाः ॥ ३७ ॥

किंतु जिसे केवल [पन्नहान] शक-यज्ञका ही अधिकार है वह शूद्र द्विजाकी सेवा करनेसे ही सद्गति प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा धन्यतर है ॥ २३ ॥ हे मुनिशार्दूलो! शूद्रको भक्ष्याभक्ष्य अथवा पेयापेयका कोई नियम नहीं है, इसलिये मैंने उसे साधु कहा है ॥ २४ ॥

[अब रिदयोंकी किसलिये श्रेष्ठ कहा, यह बतलाते हैं—] पुरुषोंको अपने धर्मानुकूल प्राप्त किये हुए धनसे ही सर्वथा सुपात्रको दान और विधिपूर्वक यज्ञ करना चाहिये ॥ २५ ॥ हे द्विजोत्तमगण! इस द्रव्यके उपार्जन तथा रक्षणमें महान् क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्यमें लगानेसे भी मनुष्योंको जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है ॥ २६ ॥ इस प्रकार हे द्विजसत्तमो! पुरुषागण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्टसाध्य उपायोंसे क्रमशः प्राजापत्य आदि शुभ लोकोंको प्राप्त करते हैं ॥ २७ ॥ किंतु स्त्रियाँ तो उन-मन-वचनसे पतिकी सेवा करनेसे ही उनकी शितकारिणी होकर पतिके सघन शुभ लोकोंको अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो कि पुरुषोंको अत्यन्त परिश्रमसे मिलते हैं। इसीलिये मैंने तीसरे बार यह कहा था कि 'स्त्रियाँ साधु हैं' ॥ २८-२९ ॥ "हे विप्रगण! मैंने आपलोगोंसे यह [अपने साधुवादका रहस्य] कह दिया, अब आप जिसलिये पथारे हैं वह इच्छानुसार पूछिये। मैं आपके सब बातें स्पष्ट करके कह दूँगा" ॥ ३० ॥ तब श्रुतिगोत्रिने कहा—"हे महामुने! हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत् उत्तर आपने इसी प्रश्नमें दे दिया है। [इसलिये अब हमें और कुछ पूछना नहीं है] ॥ ३१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब मुनिवर कृष्णद्वैपायनने विस्मयसे खिले हुए नेत्रोंवाले उन सपागत तपस्विनोंसे हैसकर कहा ॥ ३२ ॥ मैं दिव्य दृष्टिसे आपके इस प्रश्नको जान गया था इसीलिये मैंने आपलोगोंके प्रसंगसे ही 'साधु-साधु' कहा था ॥ ३३ ॥ जिन पुरुषोंने गुणरूप अलसे अपने सघन दौष धी ठपले हैं उनके थोड़े-से प्रयत्नसे ही कलिपुर्णमें धर्म सिद्ध हो जाता है ॥ ३४ ॥ हे द्विजश्रेष्ठो! शूद्रोंको द्विजसेवापरामर्श होनेसे और स्त्रियोंको पतिकी सेवामात्र करनेसे ही अनायास धर्मकी सिद्धि हो जाती है ॥ ३५ ॥ इसीलिये मेरे विचारसे ये तीनों धन्यतर हैं, क्योंकि सत्ययुगादि अन्य तीन युगोंमें भी द्विजातियोंकी ही धर्म सम्पादन करनेमें महान् क्लेश उठाना पड़ता है ॥ ३६ ॥ हे धर्मज्ञ ब्राह्मणो! इस प्रकार आपलोगोंका जो अभिप्राय था वह मैंने आपके विना पूछे ही कह दिया, अब और क्या करूँ ?" ॥ ३७ ॥

श्रीपराशर उवाच

ततस्सम्पूज्य ते व्यासं प्रशशंसुः पुनः पुनः ।
 यथाऽऽगतं द्विजा जग्मुर्व्यासोत्तिकृतेनिश्चयाः ॥ ३८ ॥
 भवतोऽपि महाभाग रहस्यं कथितं मया ।
 अत्यन्तदुष्टस्य कलेरथमेको महानुणः ।
 कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परं व्रजेत् ॥ ३९ ॥
 यच्चाहं भवता पृष्टो जगतामुपसंहृतिम् ।
 प्राकृतापन्तरालां च तामव्येष सदापि ते ॥ ४० ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे उपनिषो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय

निमेषादि काल-मान तथा नैमित्तिक प्रलयका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

सर्वेषामेव भूतानां त्रिविधः प्रतिसञ्चरः ।
 नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको लयः ॥ १ ॥
 ब्राह्मो नैमित्तिकस्तेषां कल्पान्ते प्रतिसञ्चरः ।
 आत्यन्तिकस्तु मोक्षाक्षयः प्राकृतो द्विपरार्द्धकः ॥ २ ॥

श्रीमंत्रेण उवाच

परार्द्धसंख्यां भगवन्ममाचक्ष्व यथा तु सः ।
 द्विगुणीकृतया ज्ञेयः प्राकृतः प्रतिसञ्चरः ॥ ३ ॥

श्रीपराशर उवाच

स्थानात्स्थानं दशगुणमेकस्माद्गणयते द्विज ।
 ततोऽष्टादशमे भागे परार्द्धमभिधीयते ॥ ४ ॥
 परार्द्धद्विगुणं यत् प्राकृतस्स लयो द्विज ।
 तदाव्यक्तैर्द्विखलं व्यक्तं स्वहेतौ लयमेति वै ॥ ५ ॥
 निमेषो मानुषो चोऽसीं मात्रा मात्राप्रमाणतः ।
 तैः पञ्चदशभिः काव्यैश्चित्राव्ययैश्च कला स्मृता ॥ ६ ॥
 नाडिका तु प्रमाणेन सा कला दश पञ्च च ।
 उन्मानेनाम्भसस्ता तु परान्यर्द्धत्रयोदश ॥ ७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तदनन्तर उन्होंने व्यासजीका पूजनकर उनकी बारम्बार प्रशंसा की और उसके कथनानुसार निश्चयकर वहींमें आगे थे वहाँ चले गये ॥ ३८ ॥ हे महाभाग मैंनेदजी! आपसे भी मैंने यह रहस्य कह दिया। उस अत्यन्त दुष्ट करिगुणमें वही एक महान् गुण है कि इस युगमें केवल कृष्णचरका नाम-संकीर्तन करनेसे ही मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ ३९ ॥ अब आपने मुझमें जो संसारके उपसंहार-प्राकृत प्रलय और अवान्तर प्रलयके विषयमें पूछा था वह भी सुनता हूँ ॥ ४० ॥

श्रीपराशरजी बोले—सम्पूर्ण प्राणिमोंके प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक तीन प्रकारका होता है ॥ १ ॥ इनमेंसे जो कल्पान्तमें ब्राह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यन्तिक और जो दो परार्द्धके अन्तमें होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है ॥ २ ॥

श्रीमंत्रेणजी बोले—परवन्! आप मुझे परार्द्धकी संख्या बतलाइये, जिसको दूना करनेसे प्राकृत प्रलयका परिमाण जाना जा सके ॥ ३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे द्विज! एकसे लेकर क्रमशः दशगुण गिनते-गिनते जो अठारहवीं याद* गिनी जाती है वह संख्या परार्द्ध कहलाती है ॥ ४ ॥ हे द्विज! इस परार्द्धकी दूनी संख्यावाला प्राकृत प्रलय है, उस समय यह सम्पूर्ण जगत् अपने कारण अव्यक्तमें लीन हो जाता है ॥ ५ ॥ मनुष्यका निमेष ही एक मात्रावाले अक्षरके उच्चारण-कालके समान परिमाणवाला होनेसे मात्रा कहलाता है; उन पन्द्रह निमेषोंको एक काष्ठा संतो है और तीस काष्ठाकी एक कला कही जाती है ॥ ६ ॥ पन्द्रह कला एक नाडिकाका प्रमाण है। यह नाडिका साढ़े चारह पल शौचके बने हुए बलके मापसे जानी जा सकती है ॥ ७ ॥

* चासुपुराणमें इन अठारह संख्याओंके इस प्रकार नाम हैं—एक, दस, शत, सहस्र, अष्टक, तिस्र, प्रसुत, अर्धुद, न्युद, वृन्द, छर्व, निखर्व, शंख, पच, समुद्र, मध्य, अना, परार्द्ध।

भागधेन तु मानेन जलप्रस्थस्तु स स्मृतः ।
 हेममाषेः कृतच्छिन्नश्चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः ॥ ८
 नाडिकाभ्यामथ द्वाभ्यां मुहूर्तो द्विजसप्तम ।
 अहोरात्रं मुहूर्तास्तु त्रिंशन्मासो दिनैस्तथा ॥ ९
 मासैर्द्वादशभिर्वर्षमहोरात्रं तु तद्विधि ।
 त्रिभिर्वर्षशतैर्वर्षं षष्ट्या सैवासुरद्विषाम् ॥ १०
 तैस्तु द्वादशसाहस्रैश्चतुर्व्युगमुदाहृतम् ।
 चतुर्व्युगसहस्रं तु कथ्यते ब्रह्मणो दिनम् ॥ ११
 स कल्पस्तत्र मनवश्चतुर्दश मह्यमुने ।
 तदन्ते चैव मैत्रेय ब्राह्मो नैमित्तिको स्यः ॥ १२
 तस्य स्वरूपमत्युग्रं मैत्रेय गदतो मम ।
 भृगुष्व प्राकृतं भूवस्तस्य वक्ष्याम्यहं लयम् ॥ १३
 चतुर्व्युगसहस्रान्ते क्षीणप्राये महीतले ।
 अनावृष्टिरतीवोग्रा जायते शतवार्षिकी ॥ १४
 ततो यान्त्वल्पसाराणि तानि सत्त्वान्यशेषतः ।
 क्षयं यान्ति मुनिश्रेष्ठ पार्थिवान्यनुपीडनात् ॥ १५
 ततः स भगवान्विष्णु रुद्ररूपधरोऽख्यः ।
 क्षयाय यतते कर्तुमात्मस्थास्सकलाः प्रजाः ॥ १६
 ततस्स भगवान्विष्णुर्भानोस्सप्तसु रश्मिषु ।
 स्थितः पिबत्यशेषाणि जलानि मुनिसत्तम ॥ १७
 पीत्वाम्भांसि समस्तानि प्राणिभूमिगतान्यपि ।
 शोधं नयति मैत्रेय समस्तं पृथिवीतलम् ॥ १८
 समुद्रान्सरितः शैलनदीप्रस्त्रवणानि च ।
 पातालेषु च घत्तोयं तत्सर्वं नयति क्षयम् ॥ १९
 ततस्तस्यानुभावेन तोयाहारेपशुंहिताः ।
 त एव रश्मयस्सप्त जायन्ते सप्त भास्कराः ॥ २०
 अधश्चोर्ध्वं च ते दीप्तास्ततस्सप्त दिवाकराः ।
 दहनवशेषं त्रैलोक्यं सपातालतलं द्विज ॥ २१
 दह्यमानं तु तैर्दीप्तैस्त्रैलोक्यं द्विज भास्करैः ।
 साद्रिनर्णार्णवाभोगं निस्नेहमभिजायते ॥ २२
 ततो निर्दग्धवृक्षांस्तु त्रैलोक्यमखिलं द्विज ।
 भवत्येषा च वसुधा कूर्मपृष्ठोपमाकृतिः ॥ २३

मगधदेशीय पापसे यह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है; उसमें चार अंगुल लम्बी चार भारीकी सुवर्ण-शलाकामें छिद्र किया रहता है । उसके छिद्रको ऊपर करके जलमें डुबो देनेसे कितना देरमें वह पात्र भर जाय उतने ही समयकी एक नाडिका समाप्तना चाहिये ॥ ८ ॥ हे द्विजसत्तम ! ऐसी दो नाडिकाओंका एक मुहूर्त होता है, तीस मुहूर्तका एक दिन-रात होता है तथा इतने (तीस) ही दिन-रातका एक मास होता है ॥ ९ ॥ बारह मासका एक वर्ष होता है, देवलोकमें यही एक दिन-रात होता है । ऐसे तीन सौ साठ वर्षोंका देवताओंका एक वर्ष होता है ॥ १० ॥ ऐसे बारह हजार दिव्य वर्षोंका एक चतुर्व्युग होता है और एक हजार पशुव्युगका ब्रह्मणो एक दिन होता है ॥ ११ ॥

हे मह्यमुने ! यही एक कल्प है। इसमें चौदह मनु यौत जाते हैं। हे मैत्रेय ! इसके अन्तमें ब्रह्मणो नैमित्तिक प्रलय होता है ॥ १२ ॥ हे मैत्रेय ! ध्रुवो, ये उस नैमित्तिक प्रलयका अत्यन्त भयानक रूप वर्णन करता है। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलयका भी वर्णन करूँगा ॥ १३ ॥ एक सहस्र चतुर्व्युग बीतनेपर जब पृथिवी क्षीणप्राय हो जाती है तो सौ वर्षतक अति घोर अनावृष्टि होती है ॥ १४ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्तिवाले होते हैं वे सब अनावृष्टिसे पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥ १५ ॥ तदनन्तर, रुद्ररूपधारी अख्यकल्पा भगवान् विष्णु संसारका क्षय करनेके लिये सम्पूर्ण प्रजाको अपनेपै लीन कर लेनेका प्रयत्न करते हैं ॥ १६ ॥ हे मुनिसत्तम ! उस समय भगवान् विष्णु सूर्यकी साठों किरणोंमें स्थित होकर सम्पूर्ण जलको सोख लेते हैं ॥ १७ ॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार प्राणियों तथा पृथिवीके अन्तर्गत सम्पूर्ण जलको सोखकर वे समस्त भूमण्डलको शुष्क कर देते हैं ॥ १८ ॥ समुद्र तथा नदियोंमें, पर्वतों पर सरिताओं और स्रोतोंमें तथा विभिन्न पातालमें कितना जल है वे उस सबको सुखा डालते हैं ॥ १९ ॥ तब भगवान्के प्रभावसे प्रभावित होकर तथा जलपानसे मुष्ट होकर वे सातों सूर्यरश्मिमें सात सूर्य हो जाती हैं ॥ २० ॥ हे द्विज ! उस समय ऊपर-नीचे सब ओर देदीप्यमान होकर ये सातों सूर्य पातालपर्यन्त सम्पूर्ण त्रिलोकीको भस्म कर डालते हैं ॥ २१ ॥ हे द्विज ! उन प्रदीप्त भास्करोंसे दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्रादिके सहित सर्वथा नौरस हो जाती है ॥ २२ ॥ उस समय सम्पूर्ण त्रिलोकीके वृक्ष और जल आदिके दग्ध हो जानेसे यह पृथिवी कन्नूएकी पीठके समान कटोर हो जाती है ॥ २३ ॥

ततः कालाग्निरुद्रोऽसौ भूत्वा सर्वहरो हरिः ।
 शेषाहिश्वाससम्भूतः पातालानि सहत्यथः ॥ २४
 पातालानि समस्तानि स दग्ध्या ज्वलनो महान् ।
 भूमिमभ्येत्य सकलं बभूवस्तु वसुधातलम् ॥ २५
 भुवर्लोकं ततस्सर्वं स्वर्लोकं च सुदारुणः ।
 ज्वालामालामहावर्तस्तत्रैव परिवर्तते ॥ २६
 अम्बरीषमिवाभाति त्रैलोक्यमखिलं तदा ।
 ज्वालामहावर्तपरीवारमुपक्षीणधराधरम् ॥ २७
 ततस्तापपरीतास्तु लोकद्वयनिवासिनः ।
 कृताधिकारा गच्छन्ति महर्लोकं महामुने ॥ २८
 तस्मादपि महातापतप्ता लोकात्ततः परम् ।
 गच्छन्ति जमलोकं ते दशायुष्या परैधिणः ॥ २९
 ततो दग्ध्या जगत्सर्वं रुद्ररूपी जनार्दनः ।
 मुखनिःश्वासजान्मेघान्करोति मुनिसत्तम ॥ ३०
 ततो गजकुलप्रख्यास्तडित्वन्तोऽतिनादिनः ।
 उषिष्यन्ति तश्च स्योमि घोरासंवेतका घनाः ॥ ३१
 केचिन्नीलोत्पलाश्यायाः केचित्कुमुदसन्निभाः ।
 धूम्रवर्णा घनाः केचित्केचित्पीताः पयोधराः ॥ ३२
 केचिद्रासभवर्णाभा लाङ्कारसनिभास्तथा ।
 केचिद्द्वैदूर्यसंकाशा इन्द्रनीलनिभाः स्वधित् ॥ ३३
 शङ्खकुन्दनिभश्चान्ये जात्यञ्जननिभाः परे ।
 इन्द्रगोपनिभाः केचित्ततश्शिखिनिभास्तथा ॥ ३४
 मनशिशलाभाः केचिद्द्वै हरितालनिभाः परे ।
 चायपशनिभाः केचिद्वृत्तिष्ठन्ते महाघनाः ॥ ३५
 केचित्पुरघराकाराः केचित्पर्वतसन्निभाः ।
 कृत्यगारनिभाश्चान्ये केचित्स्थालनिभा घनाः ॥ ३६
 यहारावा महाकायाः पूरयन्ति नभःस्थलम् ।
 वर्षन्तस्ते महासारास्तमग्निमतिर्धरधम् ।
 जमघन्त्यखिलं विप्र त्रैलोक्यानन्तर्घोषितम् ॥ ३७
 नष्टे चाग्नी च सततं वर्षमाणा ह्यर्धनिशम् ।
 प्लावयन्ति जगत्सर्वमम्भोभिर्मुनिसत्तम ॥ ३८

तम तमको पृथ करनेके लिये दग्ध हुए श्रीहरि
 कालाग्नि-रुद्ररूपसे शेषनागके मुखसे प्रकट होकर
 नीचेसे पातालीको जलाना आरम्भ करते हैं ॥ २४ ॥ वह
 महान् अग्नि समस्त पातालीको बलाकर पृथिवीपर
 पहुँचता है और सम्पूर्ण भूतलको भस्म कर डालता
 है ॥ २५ ॥ तब वह दाहण अग्नि भुवर्लोक तथा स्वर्गलोकको
 जला डालता है और वह ज्वाला-समूहका महान् आवृतं
 वहाँ चक्कर लगाते लगता है ॥ २६ ॥ इस प्रकार अग्निके
 आवृतोंसे घिरकर सम्पूर्ण चराचरके पृथ हो जानेपर
 समस्त त्रिलोकों एक तप्त कराहके समान प्रतीत होने
 लगती है ॥ २७ ॥ हे महामुने! तदनन्तर अवस्थाके परिवर्तनसे
 परलोकको चहवाले भुवर्लोक और स्वर्गलोकमें रहनेवाले
 [मन्वादि] अधिकारिण्य अग्निज्वालामें सन्तप्त होकर
 महर्लोकको चले जाते हैं किन्तु वहाँ भी उस उग्र
 कालान्तके महातापसे सन्तप्त होनेके कारण वे उधसे
 बचनेके लिये जनलोकमें चले जाते हैं ॥ २८-२९ ॥

हे मुनिश्रेष्ठ ! तदन्तर रुद्ररूपी भगवान् विष्णु सम्पूर्ण
 संसारको दग्ध करनेके अपने मुख-निःश्वाससे मेघोंको उत्पन्न
 करते हैं ॥ ३० ॥ तब विद्युत्से युक्त भयंकर गर्जना करनेवाले
 गजसमूहके समान वृहदाकार संवेतक नामक घोर मेघ आकाशमें
 उठते हैं ॥ ३१ ॥ उनमेंसे कोई मेघ नील कभलके समान
 श्यामवर्ण, कोई कुमुद-कुसुमके समान श्वेत, कोई धूम्रवर्ण
 और कोई पीतवर्ण होते हैं ॥ ३२ ॥ कोई गधेके-से वर्षणहले,
 कोई लाखके-से रंगवाले, कोई वैदूर्य-मणिके समान और
 कोई इन्द्रनील-मणिके समान होते हैं ॥ ३३ ॥ कोई शंख
 और कुन्दके समान श्वेत-वर्ण, कोई जाती (चमेली)-के
 समान तण्डुल और कोई कज्जलके समान श्यामवर्ण, कोई
 इन्द्रगोपके समान रक्तवर्ण और कोई यमरुके समान विचित्र
 वर्णवाले होते हैं ॥ ३४ ॥ कोई गेरूके समान, कोई हरितालके
 समान और कोई यक्षमेघ, नील-कण्ठके पंखके समान रंगवाले
 होते हैं ॥ ३५ ॥ कोई नगरके समान, कोई पर्वतके समान
 और कोई कृत्यगार (गृध्रविशेष)-के समान वृहदाकार होते
 हैं तथा कोई पृथिवीतलके समान विस्तृत होते हैं ॥ ३६ ॥
 वे घनघोर शब्द करनेवाले महाकाय मेघगण आकाशको
 आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार बल बरसाकर
 त्रिलोकव्यापी भयंकर अग्निको शान्त कर देते हैं ॥ ३७ ॥
 हे मुनिश्रेष्ठ ! अग्निके पृथ हो जानेपर भी अहर्निरु निरन्तर
 बरसते हुए वे मेघ सम्पूर्ण जगत्को जलमें डुबो देते हैं ॥ ३८ ॥

धातुभिरनिमाप्राधिः प्लावधित्वास्त्रिलं भुक्म् ।
 भुवर्लोकं तथैवोर्ध्वं प्लावक्यन्ति हि ते द्विज ॥ ३९ ॥
 अन्धकारीकृते लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे ।
 वर्षन्ति ते महामेघा वर्षाणामधिकं शतम् ॥ ४० ॥
 एवं भवति कल्पान्ते समस्तं मुनिसत्तम ।
 वासुदेवस्य माहात्म्यान्नित्यस्य परमात्मनः ॥ ४१ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठैःशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय

प्राकृत प्रलयका वर्णन

श्रीपरशुर उवाच

सप्तर्षिस्थानमाकृत्य स्थितेऽथसि महामुने ।
 एकार्णावं भवत्येतत्त्रैलोक्यमस्त्रिलं ततः ॥ १ ॥
 मुखनिःश्वासजो विष्णोर्वायुस्ताञ्ज्वलद्वंस्ततः ।
 नाशयन्वाति मैत्रेय वर्षाणामपरं शतम् ॥ २ ॥
 सर्वभूतमयोऽचिन्त्यो भगवान्भूतभावनः ।
 अनादिरादिविश्वस्य पीत्वा घाद्युमशेषतः ॥ ३ ॥
 एकार्णावे ततस्तस्मिञ्छ्लेषशय्यागतः प्रभुः ।
 ब्रह्मरूपधरश्शेते भगवानादिकृद्धरिः ॥ ४ ॥
 जनलोकगतैस्सिद्धैस्सनकाद्यैरभिष्टुतः ।
 ब्रह्मलोकगतैश्चैव चिन्त्यमानो मुमुक्षुभिः ॥ ५ ॥
 आत्ममायामयीं दिव्यां योगनिद्रां समास्थितः ।
 आत्मानं वासुदेवाख्यं चिन्तयन्मधुसूदनः ॥ ६ ॥
 एष नैमित्तिको नाम मैत्रेय प्रतिसञ्चारः ।
 निमित्तं तत्र यच्छेते ब्रह्मरूपधरो हरिः ॥ ७ ॥
 यदा जागर्ति सर्वात्मा स तदा चेष्टते जगत् ।
 निमीलत्येतदस्त्रिलं मायाशय्यां गतेऽच्युते ॥ ८ ॥
 पञ्चयोर्नेदिनं यत्तु चतुर्द्युगसहस्रवत् ।
 एकार्णावीकृते लोके तावती रात्रिरिष्यते ॥ ९ ॥

हे द्विज! अपनी अति स्थूल धाराओंसे भूर्लोकको जलमें डुबोकर ये भुवर्लोक तथा उसके भी ऊपरके लोकोंको भी जलमग्न कर देते हैं ॥ ३९ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण संसारके अन्धकारमय हो जानेपर तथा सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जीवोंके नष्ट हो जानेपर भी ये महामेघ सौ वर्षसे अधिक कालतक बरसते रहते हैं ॥ ४० ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! सनातन परमात्मा वासुदेवके माहात्म्यसे कल्पान्तमें इसी प्रकार यह समस्त विप्लव होता है ॥ ४१ ॥

श्रीपरशुरजी बोले—हे महामुने! जब जल सप्तर्षियोंके स्थानको भी पार कर जाता है तो यह सम्पूर्ण त्रिलोकों एक महासमुद्रके समान हो जाती है ॥ १ ॥ हे मैत्रेय! तदनन्तर, भगवान् विष्णुके मुख-निःश्वाससे प्रकट हुआ वायु उन मैनोंको नष्ट करके पुनः सौ वर्षतक चलता रहता है ॥ २ ॥ फिर जनलोकनिवासी सनकादि सिद्धगणसे स्तुत और ब्रह्मलोकको प्राप्त हुए मुमुक्षुओंसे ध्यान किये जाते हुए सर्वभूतमय, अचिन्त्य, अनादि, जगत्के आधिकारण, आदिकर्ता, भूतभावन, मधुसूदन भगवान् हरि विश्वके सम्पूर्ण वायुको पीकर अपनी दिव्य-मायाकृपिणी योगनिद्राका आश्रय ले अपने वासुदेवकल्पक स्वरूपका चिन्तन करते हुए उस महासमुद्रमें शेषशय्यापर लयन करते हैं ॥ ३-६ ॥ हे मैत्रेय! इस प्रलयके होनेमें ब्रह्मरूपधारी भगवान् हरिका शयन करना ही निमित्त है; इसलिये यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है ॥ ७ ॥ जिस समय सर्वात्मा भगवान् विष्णु जागते रहते हैं उस समय सम्पूर्ण संसारको चेष्टाएँ होनी रहती हैं और जिस समय वे अच्युत मायाकृपी शय्यापर ली जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है ॥ ८ ॥ जिस प्रकार ब्रह्माजीका दिन एक हजार चतुर्द्युगका होता है वसी प्रकार संसारके एकार्णावरूप हो जानेपर उसको रात्रि भी उतनी ही बढ़ी होती है ॥ ९ ॥

ततः प्रबुद्धो राज्यन्ते पुनस्सृष्टिं करोत्यजः ।
 ब्रह्मस्वरूपमृग्विष्णुर्व्यथा ते कथितं पुरा ॥ १०
 इत्येष कल्पसंहारोऽवान्तरप्रलयो द्विज ।
 नैमित्तिकस्ते कथितः प्राकृतं शृण्वतः परम् ॥ ११
 अनावृष्ट्यादिसम्पर्कात्कृते संक्षालने मुने ।
 समस्तेष्वेव लोकेषु पातालेष्वखिलेषु च ॥ १२
 महादादेर्विकारस्य विशेषान्तस्य संक्षये ।
 कृष्णोच्छ्वाकारिते तस्मिन्प्रवृत्ते प्रतिसञ्चरे ॥ १३
 आपो प्रसन्ति वै पूर्वं भूमेर्गन्धात्मकं गुणम् ।
 आतगन्धा ततो भूमिः प्रलयत्वाय कल्पते ॥ १४
 प्रणष्टे गन्धतन्मात्रे भयत्पूर्वी जलात्मिका ।
 आपस्तदा प्रबुद्धास्तु वेगवत्यो महास्थनाः ॥ १५
 सर्वमापूरयन्तीदं तिष्ठन्ति विचरन्ति च ।
 सलिलेनोर्मिमालेन लोका व्याप्ताः सपन्ततः ॥ १६
 अपामपि गुणो यस्तु ज्योतिषा पीयते तु सः ।
 नश्यन्त्यापस्ततस्तार्श्च रसतन्मात्रसंक्षयात् ॥ १७
 ततश्चापो ह्यतरसा ज्योतिषं प्राप्नुवन्ति वै ।
 अग्न्यवस्थे तु सलिले तेजसा सर्वतो वृते ॥ १८
 स चाग्निः सर्वतो ध्याय्य घादते तज्जलं तथा ।
 सर्वमापूरयतिऽर्ध्विर्भिस्तदा जगदिदं शनैः ॥ १९
 अर्ध्विर्भिस्संवृते तस्मिन्स्तिर्यगूर्ध्वमधस्तदा ।
 ज्योतिषोऽपि परं रूपं वायुरग्नि प्रभाकरम् ॥ २०
 प्रलीने च ततस्तस्मिन्वायुभूतेऽखिलात्मनि ।
 प्रणष्टे रूपतन्मात्रे इतरूपो विभायसुः ॥ २१
 प्रशाम्यति तदा ज्योतिर्वायुर्दोधूयते महान् ।
 निरासोके तथा लोके वायवस्थे च तेजसि ॥ २२
 ततस्तु मूलमासाद्य वायुस्सम्भवमात्मनः ।
 ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक्च दोधवीति दिशो दश ॥ २३
 चायोरपि गुणं स्पर्शमाकाशो ग्रसते ततः ।
 प्रशाम्यति सतो वायुः खं तु तिष्ठत्यनाकृतम् ॥ २४
 अरूपरसमस्पर्शमगन्धं न च भूर्तिमत् ।
 सर्वमापूरयञ्चैव सुमहत्तत्प्रकाशते ॥ २५

उस रात्रिका अन्त होनेपर अजन्मा भगवान् विष्णु जागते हैं
 और ब्रह्मरूप धारणकर, जैसे गुणसे पहले कहा था इसी
 क्रमसे फिर सृष्टि रचते हैं ॥ १० ॥

हे द्विज ! इस प्रकार तुमसे कल्पान्तमें होनेवाले
 नैमित्तिक एवं अवान्तर-प्रलयका वर्णन किया। अब
 दूसरे प्राकृत प्रलयका वर्णन सुनो ॥ ११ ॥ हे मुने ! अनसृष्टि
 आदिके संयोगसे सम्पूर्ण लोक और निखिल पातालके
 नष्ट हो जानेपर तथा भयवदिच्छामें उस प्रलयकालके
 उपस्थित होनेपर अब महत्त्वसे लेकर [पृथिवी आदि
 पंच] विशेषगन्धतन्मात्र सन्तुष्ट विकार क्षीण हो जाते हैं तो
 प्रथम जल पृथिवीके गुण गन्धको अपनेमें लीन कर
 लेता है। इस प्रकार गन्ध क्षिप्त लिये जानेसे पृथिवीका
 प्रलय हो जाता है। १२—१४ ॥ गन्ध-तन्मात्रके नष्ट हो
 जानेपर पृथिवी जलमय हो जाती है, उस समय बड़े
 वेगसे घोर शब्द करता हुआ जल बहकर इस सम्पूर्ण
 जगत्को व्याप्त कर लेता है। यह जल सभी स्थिर होत,
 और कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंगमालाओंसे
 पूर्ण इस जलसे सम्पूर्ण लोक सब ओरसे व्याप्त हो
 जाते हैं ॥ १५-१६ ॥ तदनन्तर जलके गुण रसको तेज
 अपनेमें लीन कर लेता है। इस प्रकार रस-तन्मात्रक,
 क्षय हो जानेसे जल भी नष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥ तब
 रसहीन हो जानेसे जल अग्निरूप हो जाता है तथा
 अग्निके सय और व्याप्त हो जानेसे जलके अग्निमें
 स्थित हो जानेपर यह अग्नि सब ओर फैलकर सम्पूर्ण
 जलको सोख लेता है और धीरे-धीरे यह सम्पूर्ण जगत्
 ज्वालासे पूर्ण हो जाता है ॥ १८-१९ ॥ जिस समय सम्पूर्ण
 लोक ऊपर-नीचे तथा सब ओर अग्नि-शिखाओंसे व्याप्त
 हो जाता है उस समय अग्निके प्रकाशक स्वरूपको
 वायु अपनेमें लीन कर लेता है ॥ २० ॥ सबके प्राणस्वरूप
 उस वायुमें अब अग्निका प्रकाशक रूप लीन हो जाता
 है तो रूप-तन्मात्रके नष्ट हो जानेसे अग्नि रूपहीन हो
 जाता है ॥ २१ ॥ उस समय संसारके प्रकाशहीन और
 तेजके वायुमें लीन हो जानेसे अग्नि शान्त हो जाता है
 और अति प्रचण्ड वायु चलने लगता है ॥ २२ ॥ तब
 अपने उद्भवस्थान आकाशको आव्रण कर यह प्रचण्ड
 वायु ऊपर-नीचे तथा सब ओर दसों दिशाओंमें बड़े
 वेगसे चलने लगता है ॥ २३ ॥ तदनन्तर वायुके गुण
 स्पर्शको आकाश लीन कर लेता है; तब वायु शान्त हो
 जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता है ॥ २४ ॥
 उस समय रूप, रस, स्पर्श, गन्ध तथा आकारसे रहित
 अत्यन्त महान् एक आकाश ही सबको व्याप्त करके
 प्रकाशित होता है ॥ २५ ॥

परिमण्डले च सुविरमाकाशं शब्दलक्षणम् ।
 शब्दमात्रं तदाकाशं सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ २६
 ततश्शब्दगुणं तस्य भूतादिर्ग्रसते पुनः ।
 भूतेन्द्रियेषु युगपद्भूतादीं संस्क्रियतेषु वै ।
 अभिमानान्मको ह्येष भूतादिस्तामसस्मृतः ॥ २७
 भूतादिं ग्रसते चापि भङ्गान्धे बुद्धिलक्षणः ॥ २८
 उर्वी महाश्च जगतः प्रान्तेऽन्तर्बाह्यतस्तथा ॥ २९
 एषं सप्त महाबुद्धे क्रमात्प्रकृतयस्समुताः ।
 प्रत्याहारे तु तास्सर्वाः प्रविशन्ति परस्परम् ॥ ३०
 येनेदमावृतं सर्वमण्डमप्यु प्रलीपते ।
 सप्तद्वीपसमुद्रान्तं सप्तलोकं सपर्वतम् ॥ ३१
 उदकावरणं यत्तु ज्योतिषा पीयते तु तत् ।
 ज्योतिर्वायौ लयं याति यात्याकाशे समीरणः ॥ ३२
 आकाशं चैव भूतादिर्ग्रसते तं तथा महान् ।
 महान्तमेभिस्सहितं प्रकृतिर्ग्रसते द्विज ॥ ३३
 गुणसाम्यभनुद्विक्रमन्यूनं च भङ्गमुने ।
 प्रोच्यते प्रकृतिर्हेतुः प्रधानं कारणं परम् ॥ ३४
 इत्येषा प्रकृतिस्सर्वा व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी ।
 व्यक्तस्वरूपमव्यक्ते तस्मान्मैत्रेय लीयते ॥ ३५
 एकश्शुद्धोऽक्षरो नित्यस्सर्वव्यापी तथा पुमान् ।
 सोऽप्यंशस्सर्वभूतस्य मैत्रेय परमात्मनः ॥ ३६
 न सन्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकल्पनाः ।
 सत्तामात्रात्मके ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे ॥ ३७
 तद्ब्रह्म परमं धाम परमात्मा स चेश्वरः ।
 स विष्णुस्सर्वमेवेदं यतो नावर्तते यतिः ॥ ३८
 प्रकृतिर्या मयाऽऽख्याता सत्ताव्यक्तस्वरूपिणी ।
 पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि ॥ ३९
 परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः ।
 विष्णुनामा स वेदेषु वेदानेषु च गीयते ॥ ४०

इस समय चारों ओरसे गोल, चिद्रूप, शब्दलक्षण आकाश ही शेष रहता है; और वह शब्दभाव आकाश सबकी आच्छादित किये रहता है ॥ २६ ॥ तदनन्तर, आकाशके गुण शब्दको भूतादि ग्रस लेता है। इस भूतादिमें ही एक साथ पंचभूत और इन्द्रियोंका भी लय हो जानेपर केवल अहंकारात्मक रह जानेसे यह तामस (तमःप्रधान) कहलाता है फिर इस भूतादिको भी [सत्यप्रधान होनेसे] बुद्धिरूप महत्त्व ग्रस लेता है ॥ २७-२८ ॥

जिस प्रकार पृथ्वी और महत्त्व ब्रह्माण्डके अन्तर्जातकी आदि-अन्त सौपारि हैं उसी प्रकार उसके ब्राह्म जगत्का भी है ॥ २९ ॥ हे महत्बुद्धे! इसी तरह को सात आवरण बताये गये हैं वे सब भी प्रलयकालमें [पूर्ववत् पृथिवी आदि क्रमसे] परस्पर (अपने-अपने कारणोंमें) लीन हो जाते हैं ॥ ३० ॥ जिससे यह सप्तलोक लोक व्याप्त है वह सम्पूर्ण भूमण्डल सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों लोक और सकल पर्वतश्रेणियोंके सहित जलमें लीन हो जाता है ॥ ३१ ॥ फिर जो जलका आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायुमें और वायु आकाशमें लीन हो जाता है ॥ ३२ ॥ हे द्विज! आकाशको भूतादि (तामस अहंकार), भूतादिको महत्त्व और इन सबके सहित महत्त्वको मूल प्रकृति अपनेमें लीन कर लेता है ॥ ३३ ॥ हे महत्मुने! न्युनाधिकसे रहित जो सत्त्वादि तीनों गुणोंकी साम्यावस्था है उसीको प्रकृति कहते हैं; इसीका नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही सम्पूर्ण जगत्का परम कारण है ॥ ३४ ॥ यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्तरूपसे सर्वपयी है। हे मैत्रेय! इसीलिये अव्यक्तमें व्यक्तरूप लीन हो जाता है ॥ ३५ ॥

इससे पृथक् को एक शुद्ध, अक्षर, नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्मका अंश ही है ॥ ३६ ॥ जिस भूतामाश्रयरूप आत्मा (देहादि संघात)-से पृथक् रहनेवाले ज्ञानात्मा एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वरमें नाम और जाति आदिकी कल्पना नहीं है वही सबका परम आश्रय परब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। वह विष्णु ही इस अखिल विश्वरूपसे अवस्थित है उसको प्राप्त हो जानेपर योगिजन फिर इस संसारमें नहीं लौटते ॥ ३७-३८ ॥ जिस व्यक्त और अव्यक्तस्वरूपिणी प्रकृतिका मैंने वर्णन किया है वह तथा पुरुष--ये दोनों भी उस परमात्मामें ही लीन हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधोश्वर है; उसीका वेद और वेदान्तोंमें विष्णुनामसे वर्णन किया है ॥ ४० ॥

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ।
 ताभ्यामुभाभ्यां पुरुषैस्सर्वमूर्तिस्स इज्यते ॥ ४१ ॥
 ऋग्यजुस्सामभिर्भागैः प्रवृत्तैरिज्यते ह्यसौ ।
 यज्ञेश्वरो यज्ञपुमान्पुरुषैः पुरुषोत्तमः ॥ ४२ ॥
 ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानमूर्तिः स शेज्यते ।
 निवृत्तै योगिभिर्भागै विष्णुमुक्तिफलप्रदः ॥ ४३ ॥
 ह्रस्वदीर्घप्लुतैर्यत्तु किञ्चिद्द्वस्त्वभिधीयते ।
 यच्च वाचामविषयं तत्सर्वं विष्णुरव्ययः ॥ ४४ ॥
 व्यक्तस्स एव चाव्यक्तस्स एव पुरुषोऽव्ययः ।
 परमात्मा च विश्वात्मा दिश्वरूपधरो हरिः ॥ ४५ ॥
 व्यक्ताव्यक्तात्मिका तस्मिन्प्रकृतिस्सम्प्रलीयते ।
 पुरुषश्चापि मैत्रेय व्यापिन्यव्याहृतात्मनि ॥ ४६ ॥
 द्विपरार्द्धात्मकः कालः कथितो यो मया तव ।
 तदहस्तस्य मैत्रेय विष्णोरीशस्य कथ्यते ॥ ४७ ॥
 व्यक्ते च प्रकृतौ लीने प्रकृत्यां पुरुषे तथा ।
 तत्र स्थिते निशा चास्य तत्रमाणा माहमुने ॥ ४८ ॥
 नैवाहस्तस्य न निशा नित्यस्य परमात्मनः ।
 उपचारस्तथाप्येष तस्येशस्य द्विजोच्यते ॥ ४९ ॥
 इत्येष तव मैत्रेय कथितः प्राकृतो लयः ।
 आत्यन्तिकमथो ब्रह्मनिबोध प्रतिसञ्चरम् ॥ ५० ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अध्याय

आध्यात्मिकादि विविध तापोंका वर्णन, भगवान् तथा वासुदेव शब्दोंकी व्याख्या और भगवान्के परमार्थिक स्वरूपका वर्णन

श्रीपराशर उवाच

आध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः ।
 उत्पन्नज्ञानवैराग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिकं लयम् ॥ १ ॥
 आध्यात्मिकोऽपि द्विविधश्शारीरो मानसस्तथा ।
 शारीरो बहुभिर्भेदैर्भिद्यते श्रूयतां च सः ॥ २ ॥

वैदिक कर्म दो प्रकारका है—प्रवृत्तरूप (कर्मयोग)
 और निवृत्तिरूप (सांख्ययोग) । इन दोनों प्रकारके
 कर्मोंसे उस सर्वभूत पुरुषोत्तमका ही गवन किया
 जाता है ॥ ४१ ॥ ऋक्, यजुः और सामयेदोन् प्रवृत्ति-
 मार्गसे लोग उन पञ्चपति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुषका ही
 पूजन करते हैं ॥ ४२ ॥ तथा निवृत्ति-मार्गमें स्थित योगिजन
 भी लट्ठी जानात्मा ज्ञान-व्यक्त रूप मुक्ति फलादायक भगवान्
 विष्णुका ही ज्ञानयोगद्वारा पूजन करते हैं ॥ ४३ ॥ ह्रस्व,
 दीर्घ और प्लुत—इन त्रिविध स्वरोंसे जो कुछ कण
 बनाता है तथा जो वाणीका विषय नहीं है वह सब
 भी अव्याज्यात्मा विष्णु ही है ॥ ४४ ॥ वह विश्वरूपधारी
 विश्वरूप परमात्मा श्रीहरि ही व्यक्त, अव्यक्त एवं
 अविनाशी पुरुष हैं ॥ ४५ ॥ हे मैत्रेय ! उन सर्वव्यापक
 और अविष्कृतरूप परमात्मामें ही व्यक्ताव्यक्तरूपिणी
 प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं ॥ ४६ ॥

हे मैत्रेय ! मैंने तुमसे जो द्विपरार्द्धकाल कहा है वह
 उन विष्णुभगवान्का केवल एक दिन है ॥ ४७ ॥ हे
 महामुने ! व्यक्त जगत्के अव्यक्त-प्रकृतियें और प्रकृतिके
 पुरुषमें लीन हो जानेपर इतने ही कालको विष्णुभगवान्की
 रात्रि होती है ॥ ४८ ॥ हे द्विज ! वास्तवमें तो उन नित्य
 परमात्माका न कोई दिन है और न रात्रि, तथापि केवल
 उपचार (अध्यारोप)—से ऐसा कहा जाता है ॥ ४९ ॥ हे
 मैत्रेय ! इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्रकृत प्रलयका वर्णन
 किया, अब तुम अत्यन्तिक प्रलयका वर्णन और
 सुनो ॥ ५० ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय ! आध्यात्मिक,
 आभिव्यक्तिक और आधिभौतिक—तीनों तापोंको जानकर
 ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होनेपर पण्डितजन आत्यन्तिक
 प्रलय प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ आध्यात्मिक ताप सार्विक
 और मानसिक दो प्रकारके होते हैं; उनमें सार्विक
 तापके भी कितने ही भेद हैं, वह सुनो ॥ २ ॥

शिरोरोगप्रतिश्यायन्तरशूलभगन्दरैः ।
 गुल्मार्शःश्ववधुश्वासाच्छर्द्यादिभिरनेकथा ॥ ३
 तथाक्षिरोगतीसारकुष्ठरङ्गामयसंज्ञितैः ।
 भिद्यन्ते देहजस्तापो भानसे श्रोतुमर्हसि ॥ ४
 कामक्रोधभयद्वेषलोभमोहविषादजः ।
 शोकास्यावमानेर्ध्यामात्सर्यादिमयस्तथा ॥ ५
 भानसोऽपि द्विजश्रेष्ठ तापो भवति नैकथा ।
 इत्येष्यादिभिर्भेदैस्तापो ह्याध्यात्मिकः स्मृतः ॥ ६
 मृगपक्षिमनुष्याद्यैः पिशाचोरगराक्षसैः ।
 सरीसृपाद्यैश्च नृणां जायते चाधिभीतिकः ॥ ७
 शान्त्वातोष्यावर्षाम्बुवैद्युतादिसमुद्भवः ।
 तापो द्विजवर श्रेष्ठैः कथ्यते चाधिदैविकः ॥ ८
 गर्भजन्मजरान्मृत्युनारकजं तश्च ।
 दुःखं सहस्रशो भेदैर्भिद्यन्ते मुनिसत्तम ॥ ९
 सुकुमारतनुर्गर्भं जन्तुर्वह्नुमलावृते ।
 उल्बसंघेष्टितो भुग्नपृष्ठग्रीवास्थिसंहतिः ॥ १०
 अत्वम्लकटुतीक्ष्णोष्णालवणैर्मातृभोजनैः ।
 अत्यक्ततापैरत्यर्थं वर्द्धमानातिवेदनः ॥ ११
 प्रसारणाकुञ्चनार्दीं नाङ्गानां प्रभुरात्मनः ।
 शकृन्मूत्रमहापङ्कशावी सर्वत्र पीडितः ॥ १२
 निरुच्छ्वासः सचैतन्यस्मरञ्जन्मशतान्यथ ।
 आस्ते गर्भेऽतिदुःखेन निजकर्मनिबन्धनः ॥ १३
 जायमानः पुरीषासुहृन्मूत्रशुक्राविलाननः ।
 प्राजापत्येन वातेन पीड्यमानास्थिबन्धनः ॥ १४
 अधोमुखो वै क्रियते प्रबलैस्सूतिमारुतैः ।
 क्लेशान्निष्क्रान्तिमाप्नोति बठशन्मातुरातुरः ॥ १५
 मूर्च्छामवाप्य महतीं संपृष्टो ब्राह्मवायुना ।
 विज्ञानभशमाप्नोति जातश्च मुनिसत्तम ॥ १६
 कण्टकैरिव तुन्नाङ्गः क्रकचैरिव दारितः ।
 पूतिवपान्निपतितो धरण्यां कृमिको यथा ॥ १७
 कण्डूयनेऽपि चाशक्तः परिवर्तेऽप्यनीश्वरः ।
 स्नानपानादिकाहारमप्याप्नोति परेच्छया ॥ १८

शिरोरोग, प्रतिश्याय (पीनस), ज्वर, शूल, भगन्दर, गुल्म, अर्श (बवासीर), शोथ (सूजन), श्वास (दमा), छर्दी तथा नेत्ररोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट-भेदसे दैहिक तापके कितने ही भेद हैं। अब मानसिक तापोंको सुनो ॥ ३-४ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषय, शोक, असूया (गुणोंमें दोषग्रेषण), अपमान, ईर्ष्या और पातक्य आदि भेदोंसे मानसिक तापके अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकारके भेदोंसे युक्त तापको आध्यात्मिक कहते हैं ॥ ५-६ ॥ मनुष्योंको जो दुःख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसृप (निच्छु) आदिसे प्राप्त होता है उसे आधिभौतिक कहते हैं ॥ ७ ॥ तथा हे द्विजवर ! शान्त, उष्ण, वायु, वर्षा, चक्र और विद्युत् आदिसे प्राप्त हुए दुःखको श्रेष्ठ पुरुष आधिदैविक कहते हैं ॥ ८ ॥

हे मुनिश्रेष्ठ ! इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और तरकसे उत्पन्न हुए दुःखके भी सहस्रों प्रकारके भेद हैं ॥ ९ ॥ अत्यन्त मलपूर्ण गर्भाशयमें टल्ब (गर्भकी झिल्ली)-से लिपटा हुआ यह सुकुमारशरीर जोष, जिसकी पीठ और प्रोवाकी अस्थियाँ कुण्डलाकार मुड़ी रहती हैं, माताके छाये हुए अत्यन्त तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थोंसे जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल-मूत्ररूप महापंकमें पड़ा-पड़ा सम्पूर्ण अंगोंमें अत्यन्त पीडित होनेपर भी अपने अंगोंको फैलाने या सिकोड़नेमें समर्थ नहीं होता और चेतनायुक्त होनेपर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सिकड़ों पूर्वजन्मोंका स्मरण कर कर्मोंसे बंधा हुआ अत्यन्त दुःखपूर्वक गर्भमें पड़ा रहता है ॥ १०-१३ ॥ उत्पन्न होनेके समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदिमें लिपटा रहता है और उसके सम्पूर्ण अस्थिवन्धन प्राजापत्य (गर्भको संकुचित करनेवाली) वायुसे अत्यन्त पीडित होते हैं ॥ १४ ॥ प्रबल प्रसूति-वायु उसका मुख नीचेको कर देती है और वह आतुर होकर बड़े क्लेशके साथ माताके गर्भाशयसे बाहर निकल पता है ॥ १५ ॥

हे मुनिश्रेष्ठ ! उत्पन्न होनेके अनन्तर बाह्य वायुका स्पर्श होनेसे अत्यन्त भ्रष्ट होकर वह जीव बेसुध हो जाता है ॥ १६ ॥ उस समय वह जीव दुर्गन्धयुक्त फोड़ेमेंसे गिरे हुए किसी कण्टक-विद्ध अथवा आरसे चौर हुए कीड़ेके समान पूर्णवीर्य गिरता है ॥ १७ ॥ उसे स्वयं खूबलाने अथवा करबट लेनेको भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुग्धपलादि आहार भी दूसरेदोषोंकी इच्छासे प्राप्त करता है ॥ १८ ॥

अशुचिप्रस्तरे सुप्तः क्रीटदंशादिभिस्तथा ।
भक्ष्यमाणोऽपि नैवेधां समर्थो विनिवारणे ॥ १९

जन्मदुःखान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च ।
बालभावे यदाप्नोति ह्याधिभौतादिकानि च ॥ २०

अज्ञानतमसाऽऽच्छन्नो मूढान्तःकरणो नरः ।
न जानाति कुतः कोऽहं क्वाहं गन्ता किमात्मनः ॥ २१

केन बन्धेन बद्धोऽहं कारणां किमकारणम् ।
किं कर्ष्यं किमकर्ष्यं वा किं वाच्यं किं च नोच्यते ॥ २२

को धर्मः कस्य वाधर्मः कस्मिन्वर्तेऽथ वा कस्यम् ।
किं कर्तव्यमकर्तव्यं किं वा किं गुणदोषवत् ॥ २३

एवं पशुसमैर्पूर्वैरज्ञानप्रभवं महत् ।
अवाप्यते नैर्दुःखं शिशुनोदरपरायणैः ॥ २४

अज्ञानं तामसो भावः कार्यारम्भप्रवृत्तयः ।
अज्ञानिनां प्रवर्तन्ते कर्मलोपास्ततो द्विज ॥ २५

परकं कर्मणां लोपात्फलमाहुर्मनीषिणः ।
तस्मादाज्ञानिनां दुःखमिह चामुत्र चोत्तमम् ॥ २६

जराजर्जरदेहश्च शिथिलावयवः पुमान् ।
विगलच्छीर्णदशनो वसिस्ताद्युशिरावृतः ॥ २७

दूरप्रणष्टनयनो ध्योमान्तर्गततारकः ।
नासाविवरनिर्वातलोभपुञ्जश्चलद्वयुः ॥ २८

प्रकटीभूतसर्वास्थिरतपृष्ठास्थिसंश्रुतिः ।
उत्सन्नजठराग्निस्वाक्षत्याहरोऽल्पचेष्टितः ॥ २९

कृच्छ्राञ्जकमणोत्थानशयनासमचेष्टितः ।
मन्दीभक्षच्छीर्णमेत्रस्त्रवत्स्लास्त्रायिलानमः ॥ ३०

अनायसैस्समस्तैश्च करणैर्मरणोन्मुखः ।
सत्क्षणेऽप्यनुभूतानामस्मर्ताखिलघस्तुनाम् ॥ ३१

अपांश्व (मल-मूत्रादिमें सने हुए) बिस्तारपर पड़ा रहता है, उस समय कीड़े और डौल आदि उसे आटते हैं तथापि वह उन्हें दूर करनेमें भी समर्थ नहीं होता ॥ १९ ॥

इस प्रकार जन्मके समय और उसके अनन्तर बाल्यावस्थामें जोब आधिभौतिकदिग्दृष्टि अनेकों दुःख भोगता है ॥ २० ॥ अज्ञानरूप अन्धकारसे आवृत्त होकर भ्रूहृदय पुरुष यह नहीं जानता कि 'मैं कहींसे आया हूँ? कौन हूँ? कहीं जाऊँगा? तथा मेरा स्वरूप क्या है? ॥ २१ ॥ मैं किस बन्धनसे बँधा हूँ? इस बन्धनका क्या कारण है? अथवा यह अकारण ही प्राया हुआ है? मुझे क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये? तथा क्या कहना चाहिये और क्या न कहना चाहिये? ॥ २२ ॥ धर्म क्या है? अधर्म क्या है? किस अवस्थामें मुझे किस प्रकार रहना चाहिये? क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है? अथवा क्या गुणमय और क्या दोषमय है?' ॥ २३ ॥ इस प्रकार पशुके समान विवेकशून्य शिशुनोदर-परायण पुरुष अज्ञानजनित महान् दुःख भोगते हैं ॥ २४ ॥

हे द्विज! अज्ञान तामसिक भाव (विकार) है, अतः अज्ञानी पुरुषोंकी (तामसिक) कर्मोंके आरम्भमें प्रवृत्ति होती है; इससे वैदिक कर्मोंका लोप हो जाता है ॥ २५ ॥ मनीषिजनोंने कर्म-लोपका फल नरक बतलाया है; इसलिये अज्ञानी पुरुषोंके इन्द्रलोक और परलोक दोनों नग्न अत्यन्त ही दुःख भोगना पड़ता है ॥ २६ ॥ शरीरके नरा-जर्जरित हो जानेपर पुरुषके अंग-प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दाँत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस-नाड़ियोंसे आवृत हो जाता है ॥ २७ ॥ उसकी दृष्टि दूरस्थ विषयके ग्रहण करनेमें असमर्थ हो जाती है, नेत्रोंके तारे गोलकोंमें घुस जाते हैं, नासिकाके रन्ध्रोंमेंसे बहुत-से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर काँपने लगता है ॥ २८ ॥ उसकी समस्त ठड्डियों शिथलायी देने लायकी हैं, येरुदण्ड झुक जाता है तथा जठराग्निके मन्द पद जानेसे उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं ॥ २९ ॥ उस समय उसकी पराना-फिरना, ठठना-बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएँ बड़ी फटिनठामे होती हैं, उसके श्रोत्र और नेत्रोंकी शक्ति मन्द पड़ जाती है तथा तार बहते रहनेसे उसका मुख मलिन हो जाता है ॥ ३० ॥ अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों स्वाधीन न रहनेके कारण वह सब प्रकार मरणासन्न हो जाता है तथा [स्मरणशक्तिके क्षीण हो जानेसे] वह उसी समय अनुभव किये हुए समस्त पदार्थोंकी भी भूल जाता है ॥ ३१ ॥

सकृदुच्चारिते वाक्ये समुद्भूतमहाश्रमः ।
 श्वासकाशसमुद्भूतमहायासप्रजागरः ॥ ३२
 अन्येनोत्थाप्यतेऽन्येन तथा संदेश्यते जरी ।
 भृत्वात्मपुत्रदारणापवमानास्पदीकृतः ॥ ३३
 प्रक्षीणाखिलशीघ्रश्च विहराहारसम्पृहः ।
 ह्यस्यः परिजनस्यापि निर्विण्णाशेषबन्धवः ॥ ३४
 अनुभूतमिवान्यस्मिञ्जन्मन्यात्मविचेष्टितम् ।
 संस्मरन्वीक्षने दीर्घं निःश्वसत्यभितापितः ॥ ३५
 एवमादीनि दुःखानि जरायामनुभूय वै ।
 मरणे यानि दुःखानि प्राप्नोति शृणु तान्यपि ॥ ३६
 स्तथदशीवाङ्घ्रिहस्तोऽथ व्याप्तो वेपथुना भृत्तम् ।
 मुहुर्लानिपरवशो मुहुर्ज्ञानलवान्वितः ॥ ३७
 हिरण्यधान्यतनयभार्याभृत्यगृह्यदिषु ।
 एते कथं भविष्यन्तीत्यतीव ममताकुलः ॥ ३८
 मर्मभिन्निर्महारोगैः क्रकचैरिष दारुणैः ।
 शरीरिद्वान्तकस्योगैश्छिद्यमानासुखबन्धनः ॥ ३९
 परिषर्तिततराश्रो हस्तपादं मुहुः क्षिपन् ।
 संशुष्यमाणतास्त्रोष्ठपुटो घुरघुराद्यते ॥ ४०
 निरुद्धकण्ठे दोषीधैरुदानश्वासपीडितः ।
 तापेन महता व्याप्तस्तृषा चार्त्तस्तथा क्षुधा ॥ ४१
 क्लेशादुत्क्रान्तिमाप्नोति थमकिङ्करपीडितः ।
 ततश्च यातनादेहं क्लेशेण प्रतिपद्यते ॥ ४२
 एतान्यन्यानि क्षोग्राणि दुःखानि मरणे नृणाम् ।
 शृणुष्व नरके यानि प्राप्यन्ते पुरुषैर्मृतैः ॥ ४३
 याम्यकिङ्करपाशादिग्रहणं दण्डताडनम् ।
 यमस्य दर्शनं क्षोग्रमुग्रमार्गविलोकनम् ॥ ४४

३२ एक वाक्य उच्चारण करनेमें भी यहाँ परिश्रम होता है तथा श्वास और खाँसी आदिके महान् कष्टके कारण वस [दिन-रात] जागता रहता है ॥ ३२ ॥ बृद्ध पुरुष औरोंकी सहायतासे ही उठता तथा औरोंके बिचनेसे ही बँध सकता है, अतः वह अपने श्वेतक और स्त्री-पुत्रादिके लिये सदा अनादरका पात्र बना रहता है ॥ ३३ ॥ उसका समस्त शौचाचार गष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजनकी लालसा बढ़ जाती है; उसके परिजन भी उसकी हीसी उड़ते हैं और बन्धुजन उससे उदासीन हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ अपनी युवावस्थाकी चेष्टाओंको अन्य जन्ममें अनुभव की हुई-सी स्मरण करके वह अत्यन्त सन्तापवश दीर्घ निःश्वास जोड़ता रहता है ॥ ३५ ॥

इस प्रकार वृद्धावस्थामें ऐसे ही अनेकों दुःख अनुभव कर उसे मरणकालमें जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो ॥ ३६ ॥ कण्ठ और स्तन-पैर शिथिल पड़ जाते तथा शरीरमें अत्यन्त कम्म छा जाता है। बार-बार उसे प्लानि होती और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है ॥ ३७ ॥ उस समय वह अपने हिरण्य (सोना), धन-धान्य, पुत्र-स्त्री, भृत्य और गृह आदिके प्रति 'इन सबका क्या होगा?' इस प्रकार अत्यन्त ममतासे व्याकुल हो जाता है ॥ ३८ ॥ उस समय पर्वपेदी क्रकच (आँरे) तथा यमराजके विकराल बाणके समान महामयंककर रोगोंसे उसके प्राण-बन्धन कटने लगते हैं ॥ ३९ ॥ उसकी आँखोंके तारे चढ़ जाते हैं, वह अत्यन्त पीड़ासे वारम्बार हाथ-पैर पटकता है तथा उसके तालु और ओठ सूखने लगते हैं ॥ ४० ॥ फिर क्रमशः दोष-समूहसे उसका कण्ठ रुक जाता है अतः वह 'घरघर' शब्द करने लगता है; तथा ऊर्ध्वश्वाससे पीडित और महान् तापसे व्याप्त होकर क्षुधा-तृष्णासे व्याकुल हो उठता है ॥ ४१ ॥ ऐसी अवस्थामें भी यमदुर्गोंसे पीडित होता हुआ वह बड़े क्लेशसे शरीर खेड़ता है और अत्यन्त कष्टसे कर्मफल भोगनेके लिये यातना-देह प्राप्त करता है ॥ ४२ ॥ मरणकालमें मनुष्योंकी ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं; अब, मरणोपरांत उन्हें नरकमें जो यज्ञनार्थ भोगनी पड़ती हैं वह सुनो— ॥ ४३ ॥

प्रथम यम-किंकर अपने पाशोंमें बाँधते हैं; फिर उनके दण्ड-प्रहार सहने पड़ते हैं, तदनन्तर यमराजका दर्शन होता है और वहीतेक पहुँचनेमें सदा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है ॥ ४४ ॥

करम्भजालुकावह्नियन्त्रशस्त्रादिभीषणे ।
 प्रत्येकं नरके याश्च यातना द्विज दुःसहाः ॥ ४५ ॥
 कृकरीः पाट्यमानानां मूषायां चापि दह्यताम्* ।
 कुठारैः कृत्यमानानां भूमौ चापि निखन्वताम् ॥ ४६ ॥
 शूलेष्वारोप्यमाणानां व्याघ्रवक्त्रे प्रवेश्यताम् ।
 गुरीस्सम्भक्ष्यमाणानां द्वीपिभिश्चोपभुञ्ज्यताम् ॥ ४७ ॥
 क्वाथ्यतां तैलमध्ये च क्लिद्यतां क्षारकर्तुमै ।
 उच्चान्निपात्यमानानां क्षिप्यतां क्षेप्यन्नकैः ॥ ४८ ॥
 नरके धानि दुःखानि पापहेतुद्भयानि चै ।
 प्राप्यन्ते नारकैर्विप्र तेषां संख्या न विद्यते ॥ ४९ ॥
 न केवलं द्विजश्रेष्ठ नरके दुःखपद्धतिः ।
 स्वर्गेषुपि पातभीतस्य क्षविष्णोर्नास्ति निर्वृतिः ॥ ५० ॥
 पुनश्च गर्भे भवति जायते च पुनः पुनः ।
 गर्भे विलीयते भूयो जायमानोऽस्तमेति चै ॥ ५१ ॥
 जातमाग्रश्च सिञ्चते बालभावेऽथ यौवनैः ।
 मध्यमे वा वयः प्राप्य वारुणिके वाथ वा भृतिः ॥ ५२ ॥
 यावन्नोक्ति तावच्च दुःखैर्नानाविधैः प्लुतः ।
 तन्तुकारणपक्ष्मीधैरास्ते कार्पासबीजवत् ॥ ५३ ॥
 द्रव्यनाशे तद्योत्पत्ती मालने च सदा नृणाम् ।
 भवन्त्यनेकदुःखानि तथैवेष्टविपत्तिषु ॥ ५४ ॥
 यद्यत्प्रीतिकरं पुंसां वस्तु वैत्रेय जायते ।
 तदेव दुःखवृक्षस्य बीजत्वमुपगच्छति ॥ ५५ ॥
 कलत्रपुत्रमिप्रार्थगृहक्षेत्रधनादिकैः ।
 क्रियते न तथा भूरि सुखं पुंसां यथाऽसुखम् ॥ ५६ ॥
 इति संसारदुःखार्कतामतापितचेतसाम् ।
 विमुक्तिपादपच्छायामुते कुत्र सुखं नृणाम् ॥ ५७ ॥
 तदस्य त्रिविधस्यापि दुःखजातस्य वै मम ।
 गर्भजन्मजराद्येषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥ ५८ ॥
 निरस्तातिशयाद्भावसुखभावाकलक्षणम् ।
 भेदजं भगवत्प्राप्तिरेकान्तात्यन्तिकी मता ॥ ५९ ॥
 तस्मात्तन्प्राप्तये बलः कर्तव्यः पण्डितैर्मरैः ।
 तन्प्राप्तिहेतुर्ज्ञानं च कर्म चोक्तं महाभुने ॥ ६० ॥

हे द्विज! फिर तप्त बालुका, अग्नि यन्त्र और शस्त्रादिसे महाभयंकर नरकोंमें जो यातनार्थ भोगनी पड़नी है वे अत्यन्त आराध्य द्रोही हैं ॥ ४५ ॥ आरसे चोरे जाने, मूसमें तथाये जाने, कुत्ताहीसे काटे जाने, भूमिमें गाढ़े जाने, शूलीपर चढ़ाये जाने, बिल्केके मुखमें डाले जाने, गिट्टीके नीचने, हाथियोंसे दलित होने, तेलमें पकाये जाने, खारे दलदलमें फेंकने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराये जाने और क्षेपण-यन्त्रद्वारा दूर फेंके जानेसे नरकनिवासियोंको अपने पाप-कर्मके कारण जो-जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती ॥ ४६—४९ ॥

हे द्विजश्रेष्ठ! केवल नरकमें ही दुःख हों, सो बात नहीं है, स्वर्गमें भी पतनका भय लगे रहनेसे कभी खान्ति नहीं मिलती ॥ ५० ॥ [नरक अथवा स्वर्ग-भोगके अनन्तर] बार-बार वह गर्भमें आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भमें ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है ॥ ५१ ॥ जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही, बाल्यावस्थामें, युवावस्थामें, मध्यमवयसमें अथवा जराग्रस्त होनेपर भवस्थ मर जाता है ॥ ५२ ॥ जबतक जीता है तबतक नाना प्रकारके कष्टोंसे घिरा रहता है, जिस तरह कि कपासका बीज तनुओंके कारण सूखेसे घिरा रहता है ॥ ५३ ॥ द्रव्यके उपार्जन, रक्षण और नाशमें तथा इष्ट-पित्रोंके विपत्तिग्रस्त होनेपर भी मनुष्योंको अनेकों दुःख उठाने पड़ते हैं ॥ ५४ ॥

हे वैत्रेय! मनुष्योंको जो-जो वस्तुर्ण प्रिय हैं, वे सभी दुःखरूपी वृक्षका बीज हो जाती हैं ॥ ५५ ॥ स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र और धन आदिसे पुरुषोंको जैसा दुःख होता है वैसे सुख नहीं होता ॥ ५६ ॥ इस प्रकार सांसारिक दुःखरूप सृष्टिके तापसे जिनका अन्तःकरण चपट हो रहा है उन पुरुषोंको मोक्षरूपी वृक्षको [घनी] छायाको छोड़कर और कर्म सुख मिल सकता है? ॥ ५७ ॥ अतः मेरे मतमें गर्भ, जन्म और अथ अष्टि स्थानोंमें प्रकट होनेवाले आश्चर्यकादि त्रिविध दुःख-समूहकी एकत्र सनातन ओषधि भगवत्प्राप्ति ही है जिसका निरतिशय आनन्दरूप सुखकी प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है ॥ ५८-५९ ॥ इसलिये पण्डितजनोंको भगवत्प्राप्तिका प्रयत्न करना चाहिये। हे महाभुने! कर्म और ज्ञान—ये दो ही उसकी प्राप्तिके कारण कहे गये हैं ॥ ६० ॥

आगमोत्थं विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तदुच्यते ।
 शब्दब्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजम् ॥ ६१
 अन्धं तम इवाज्ञानं दीपवच्चन्द्रियोद्भवम् ।
 यथा सूर्यस्तथा ज्ञानं यद्विप्रैर्विवेकजम् ॥ ६२
 मनुष्याह वेदार्थं स्मृत्वा यन्मुनिसत्तमः
 तदेतच्छ्रूयतामत्र सम्बन्धे गदतो मम ॥ ६३
 हे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत् ।
 शब्दब्रह्माणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६४
 द्वे वै विष्टे वेदितव्ये इति आश्चर्यणी भुक्तिः ।
 परया त्वक्षरप्राप्तिर्कवेदादिमयापरा ॥ ६५
 यत्तदस्यक्तमजरमचिन्त्वमजमव्ययम् ।
 अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यसंयुतम् ॥ ६६
 विभुं सर्वगतं नित्यं भूतयोनिरकारणम् ।
 व्याप्यव्याप्तं यतः सर्वं यद्वै पश्यन्ति सूरयः ॥ ६७
 तद्ब्रह्म तत्परं धाम तद्ब्रह्मेयं मोक्षकन्दुक्षिभिः ।
 श्रुतिषाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ६८
 तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः ।
 वाचको भगवच्छब्दस्तस्याद्यास्याक्षयात्मनः ॥ ६९
 एवं निगदिताश्चैव तत्तत्त्वं तस्य तत्त्वतः ।
 ज्ञायते येन तज्ज्ञानं परमन्यत्रयीमयम् ॥ ७०
 अशब्दगोचरस्यापि तस्य वै ब्रह्मणो द्विज ।
 पूजार्था भगवच्छब्दः क्रियते ह्युपचारतः ॥ ७१
 शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्दते ।
 मैत्रेय भगवच्छब्दस्सर्वकारणकारणे ॥ ७२
 सम्भर्तेति तथा भर्ता भकारोऽर्थद्वयान्वितः ।
 नेता गमयिता स्वष्टा गकारार्थस्तथा मुने ॥ ७३
 ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसश्श्रियः ।
 ज्ञानवैराग्ययोश्चैव अण्णा भग इतीरणा ॥ ७४
 वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि ।
 स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽज्ययः ॥ ७५

ज्ञान दो प्रकारका है—शास्त्रजन्य तथा विवेकज ।
 शब्दब्रह्मका ज्ञान शास्त्रजन्य है और परब्रह्मका बोध
 विवेकज ॥ ६१ ॥ हे विप्रै! अज्ञान और अन्धकारके समान
 हैं। उसको नष्ट करनेके लिये शास्त्रजन्य* ज्ञान दीपकवत्
 और विवेकज ज्ञान सूर्यके समान है ॥ ६२ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ !
 इस विषयमें वेदार्थका स्मरणकर मनुजीने जो कुछ कहा है
 वह यतलाता हूँ, श्रवण करो ॥ ६३ ॥

ब्रह्म दो प्रकारका है—शब्दब्रह्म और परब्रह्म । शब्दब्रह्म
 (शास्त्रजन्य ज्ञान)—में निपुण हो जानेपर जिज्ञासु [विवेकज
 ज्ञानके द्वारा] परब्रह्मके प्राप्त कर लेता है ॥ ६४ ॥ अथर्ववेदकी
 भुक्ति है कि विद्या दो प्रकारकी है—परा और अपरा ।
 परासे अक्षर ब्रह्मकी प्राप्ति होती है और अपरा ऋणदि
 वेदत्रयीरूपा है ॥ ६५ ॥ जो अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज,
 अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणि—पादादिभूत्य, व्यापक,
 सर्वगत, नित्य, भूतोंका आदिकारण, स्वयं कारणहीन तथा
 जिससे सम्पूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ है और
 जिसे षण्ण्डब्रह्म [ज्ञानेत्रीसे] देखते हैं वह परमधाम ही
 ब्रह्म है, सुसुखीको उसका ध्यान करना चाहिये और
 वही भगवान् विष्णुका वेदवचनोंसे प्रतिपादित अति सूक्ष्म
 परमपद है ॥ ६६—६८ ॥ परमात्माका यह स्वरूप ही 'भगवत्'
 शब्दका वाच्य है और भगवत् शब्द ही उस आद्य एवं
 अक्षय स्वरूपका वाचक है ॥ ६९ ॥

जिसका ऐसा स्वरूप यतलाया गया है उस परमात्माके
 तत्त्वका जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है वही परमज्ञान
 (परा विद्या) है । त्रयीमय ज्ञान (कर्मफलण्ड) इससे पृथक्
 (अपरा विद्या) है ॥ ७० ॥ हे द्विज! वह ब्रह्म यद्यपि शब्दका
 विषय नहीं है तथापि आदरप्रदर्शनके लिये उसका 'भगवत्'
 शब्दसे उपचारतः कथन किया जाता है ॥ ७१ ॥ हे मैत्रेय!
 समस्त कारणोंके कारण, पशुविभूतिसंज्ञक परब्रह्मके लिये
 ही 'भगवत्' शब्दका प्रयोग हुआ है ॥ ७२ ॥ इस ('भगवत्'
 शब्द)—में भकारके दो अर्थ हैं—पौषण करनेवाला और
 सबका अग्रधार तथा गकारके अर्थ कर्म—फल प्राप्त करनेवाला,
 लय करनेवाला और रचयिता है ॥ ७३ ॥ सम्पूर्ण ऐश्वर्य,
 धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य—इन ऋका नाम 'भग'
 है ॥ ७४ ॥ उस अखिल भूतलयाय समस्त भूतगण निवास
 करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतोंमें विराजमान है,
 इसलिये वह अव्यय (परमात्मा) ही वाच्यरूप अर्थ है ॥ ७५ ॥

* अक्षय-वृद्धिकेवल सास्वका शब्द शैल है; इसलिये शास्त्रजन्य ज्ञान ही 'इन्द्रियोद्भव' शब्दसे कहा गया है ।

एवमेव महाब्रह्मद्वौ मैत्रेय भगवानिति ।
 परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः ॥ ७६ ॥
 तत्र पूज्यपदार्थांक्तिपरिभाषासमन्वितः ।
 शब्दोऽयं नोपचारेण त्वन्यत्र ह्युपचारतः ॥ ७७ ॥
 उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् ।
 वेत्ति विद्यामविद्यां च स साच्च्यो भगवानिति ॥ ७८ ॥
 ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः ।
 भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः ॥ ७९ ॥
 सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि ।
 भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ ८० ॥
 खाण्डिक्यजनकाद्याह पृष्टः केशिध्वजः पुरा ।
 नामव्याख्यामनन्तस्य वासुदेवस्य तत्त्वतः ॥ ८१ ॥
 भूतेषु वसते सोऽन्तर्वसन्त्यत्र च तानि यत् ।
 धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः ॥ ८२ ॥
 स सर्वभूतप्रकृतिं विकारान्-
 गुणादिसोषांश्च मुने व्यतीतः ।
 अतीतसर्वावरणोऽखिलात्मा
 तेनास्तुतं यद्भुवनान्तराले ॥ ८३ ॥
 सम्स्तोकल्याणगुणात्मकोऽसौ
 स्वशक्तिलेशावृतभूतवर्गः ।
 इच्छागुह्रीताभिमतोरुदेह-
 र्संसाधिताशेषजगदिदितो यः ॥ ८४ ॥
 तेजोबलैश्वर्यमहावबोध-
 सुवीर्यशक्त्यादिगुणैकराशिः ।
 परः पराणां सकला न यत्र
 बलेशादयस्मन्ति परावरेणो ॥ ८५ ॥
 स ईश्वरो व्यष्टिसमष्टिरूपो
 व्यक्तस्वरूपोऽप्रकटस्वरूपः ।
 सर्वेश्वरस्सर्ववृक् सर्वविष्ट
 समस्तशक्तिः परपेश्वराख्यः ॥ ८६ ॥
 संज्ञायते येन तदस्तदोषं
 शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम् ।
 संशुश्यते चाप्यवगम्यते वा
 तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम् ॥ ८७ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठोऽंशे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

हे मैत्रेय! इस प्रकार यह महान् 'भगवान्' शब्द
 परब्रह्मस्वरूप श्रीवासुदेवका ही वाचक है, किसी औरका
 नहीं ॥ ७६ ॥ पूज्य पदार्थको स्तुति करनेके लक्षणसे युक्त
 इस 'भगवान्' शब्दका परमात्मामें मुख्य प्रयोग है तथा
 औरके लिये गीण ॥ ७७ ॥ क्योंकि जो समस्त प्राणियोंके
 उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और
 अविद्याको जानता है वही भगवान् कहलानेयोग्य है ॥ ७८ ॥
 त्याग करनेयोग्य [त्रिविध] गुण [और उनके क्लेश]
 आदिको छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और
 तेज आदि सर्गुत्पत्ति ही 'भगवत्' शब्दके वाच्य हैं ॥ ७९ ॥

उन परमात्मामें ही समस्त भूत वसते हैं और वे
 स्वयं भी सबके आत्मरूपसे सकल भूतोंमें विराजमान हैं,
 इसलिये उन्हें वासुदेव भी कहते हैं ॥ ८० ॥ पूर्वकालमें
 खाण्डिक्य जनकके पृच्छनेपर केशिध्वजके उनसे भगवान्
 अनन्तके 'वासुदेव' नामको बयार्थ व्याख्या इस प्रकार की
 थी ॥ ८१ ॥ 'प्रभु' समस्त भूतोंमें व्याप्त है और सम्पूर्ण भूत
 भी उन्हींमें रहते हैं तथा वे ही संसारके रचयिता और रक्षक
 हैं; इसलिये वे 'वासुदेव' कहलाते हैं ॥ ८२ ॥ हे मुने! वे
 सर्वात्मा सम्स्त आवरणोंसे परे हैं। वे समस्त भूतोंकी
 प्रकृति, प्रकृतिके विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि
 दोषोंसे विलक्षण हैं। पृथिवी और आकाशके बीचमें जो
 कुछ स्थित है उन्हींमें वह सब व्याप्त किया है ॥ ८३ ॥ वे
 सम्पूर्ण कल्याण-गुणोंके स्वरूप हैं, उन्हींमें अपनी मायाशक्तिके
 लेशमात्रसे ही सम्पूर्ण प्राणियोंको व्याप्त किया है और वे
 अपनी इच्छासे स्वप्नोऽनुकूल महान् सरीर धारणकर समस्त
 संसारकर कल्याण-साधन करते हैं ॥ ८४ ॥ वे तेज, बल,
 ऐश्वर्य, फलालिङ्गन, वीर्य और शक्ति आदि गुणोंको एकमात्र
 राशि हैं, प्रकृति आदिसे भी परे हैं और उन परावरेणरूपमें
 अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशोंका अत्यन्तभाव है ॥ ८५ ॥ वे
 ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टिरूप हैं, वे ही व्यक्त और
 अव्यक्तस्वरूप हैं, वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और
 सब कुछ जाननेवाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान्को परमेश्वर
 संज्ञा है ॥ ८६ ॥ जिसके हृदय वे निर्दोष, विमुक्त, निर्मल
 और एकरूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं उसोका नाश
 ज्ञान (पथ विद्या) है और जो इसके विपरीत है वही
 अज्ञान (अपरा विद्या) है ॥ ८७ ॥

छठा अध्याय

केशिध्वज और खाण्डिक्यकी कथा

श्रीपराशर उवाच

स्वाध्यायसंयमाभ्यां स दृश्यते पुरुषोत्तमः ।
तत्रापत्तिकारणां ब्रह्म तदेतदिति पठ्यते ॥ १
स्वाध्यायाद्योगमासीत् योगात्स्वाध्यायमावसेत् ।
स्वाध्याययोगसम्पन्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ २
तदीक्षणाय स्वाध्यायश्चक्षुर्योगस्तथा परम् ।
न मांसचक्षुषा द्रष्टुं ब्रह्मभूतस्स शक्यते ॥ ३

श्रीमंत्रेण उवाच

भगवंस्तमहं योगं ज्ञातुमिच्छामि ते यद् ।
ज्ञाते यत्राखिलाभारे चश्येयं परमेश्वरम् ॥ ४

श्रीपराशर उवाच

यथा केशिध्वजः प्राह खाण्डिक्याय महात्मने ।
जनकाय पुरा योगं तमहं कथयामि ते ॥ ५

श्रीमंत्रेण उवाच

खाण्डिक्यः क्वोऽभवद्ब्रह्मन्क्वो वा केशिध्वजः कृती ।
कथं तयोश्च संवादो योगसम्बन्धवानभूत् ॥ ६

श्रीपराशर उवाच

धर्मध्वजो वै जनकस्तस्य पुत्रोऽमितध्वजः ।
कृतध्वजश्च नाम्नासीत्सदाध्यात्मपरतिर्नुपः ॥ ७

कृतध्वजस्य पुत्रोऽभूत् ख्यातः केशिध्वजो नृपः ।
पुत्रोऽमितध्वजस्यापि खाण्डिक्यजनकरोऽभवत् ॥ ८

कर्ममार्गेण खाण्डिक्यः पृथिव्याय भवत्कृती ।
केशिध्वजोऽप्यतीवासीदात्मविद्याविशारदः ॥ ९

तावुभाचपि चैवास्तां विजिगीषु परस्परम् ।
केशिध्वजेन खाण्डिक्यस्स्वरान्याद्वरोपितः ॥ १०

पुरोधसा मन्त्रिभिश्च समवेतोऽन्यसाधनः ।
राज्यान्निराकृतस्सोऽथ दुर्गारण्यचरोऽभवत् ॥ ११

इयाज सोऽपि सुबहून्यज्ञान्यव्यपाश्रयः ।
ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय तर्तुं मृत्युमविद्यया ॥ १२

श्रीपराशरजी बोले—वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयमद्वारा देखे जाते हैं, ब्रह्मकी प्राणिका कारण होनेसे ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं ॥ १ ॥ स्वाध्यायसे योगका और योगसे स्वाध्यायका आश्रय करे। इस प्रकार स्वाध्याय और योगरूप सम्पत्तिसे परमात्मा प्रकाशित (ज्ञानके विषय) होते हैं ॥ २ ॥ ब्रह्मस्वरूप परमात्माको मांसमय चक्षुओंसे नहीं देखा जा सकता, उन्हें देखनेके लिये स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं ॥ ३ ॥

श्रीमंत्रेणजी बोले—भगवन्! जिसे जान लेनेपर मैं अखिलाधार परमेश्वरको देख सकूँगा उस योगको मैं जानना चाहता हूँ; उसका वर्णन कौनिये ॥ ४ ॥

श्रीपराशरजी बोले—पूर्वकालमें जिस प्रकार इस योगका केशिध्वजने महात्मा खाण्डिक्य जनकसे वर्णन किया था मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ ॥ ५ ॥

श्रीमंत्रेणजी बोले—ब्रह्मन्! यह खाण्डिक्य और विद्वान् केशिध्वज कौन थे? और उनका योगसम्बन्धी संवाद किस कारणसे हुआ था? ॥ ६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—पूर्वकालमें धर्मध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमितध्वज और कृतध्वज नामक दो पुत्र हुए। इनमें कृतध्वज सर्वदा अध्यात्मशास्त्रमें रत रहता था ॥ ७ ॥ कृतध्वजका पुत्र केशिध्वज नामसे विख्यात हुआ और अमितध्वजका पुत्र खाण्डिक्य जनक हुआ ॥ ८ ॥ पृथिवीमण्डलमें खाण्डिक्य कर्म-मार्गमें अत्यन्त निपुण था और केशिध्वज अध्यात्मविद्याका विशेषज्ञ था ॥ ९ ॥ वे दोनों परस्पर एक-दूसरेको पराजित करनेकी चेष्टामें लगे रहते थे। अन्तमें, कालक्रमसे केशिध्वजने खाण्डिक्यको राज्यच्युत कर दिया ॥ १० ॥ राज्यप्राप्त होनेपर खाण्डिक्य पुरोहित और मन्त्रियोंके सहित थोड़ी-सी सामग्री लेकर दुर्गम जगतीमें चला गया ॥ ११ ॥ केशिध्वज ज्ञाननिष्ठ था तो भी अधिष्ठा (कर्म)-द्वारा मृत्युको पार करनेके लिये ज्ञानदृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञोका अनुष्ठान किया ॥ १२ ॥

एकदा वर्तमानस्य यागे योगविदां वर ।
 धर्मधेनुं जघानोग्रशार्दूलो विजने सने ॥ १३ ॥
 ततो राजा हतां श्रुत्वा धेनुं व्याघ्रेण चर्त्विजः ।
 प्रायश्चित्तं स पप्रच्छ किमत्रेति विधीयताम् ॥ १४ ॥
 तेऽप्युचुर्न सयं विप्रः कशेरुः पृच्छ्यतामिति ।
 कशेरुरपि तेनोक्तस्तथैव ग्राह भार्गवम् ॥ १५ ॥
 शुनकं पृच्छ राजेन्द्र नाहं वेत्ति स वेत्स्यति ।
 स गत्वा तमपृच्छञ्च सोऽप्याह भृगु यन्मुने ॥ १६ ॥
 न कशेरुर्न चैवाहं न चान्यः साम्प्रतं भुवि ।
 वेत्येक एव त्वच्छुः खाण्डिक्यो यो जितस्त्वय्य ॥ १७ ॥
 स चाह तं व्रजाम्येष प्रष्टुमात्मरिपुं मुने ।
 प्राप्त एव महावज्रो यदि मां स हनिष्यति ॥ १८ ॥
 प्रायश्चित्तमशेषेण स चेत्पृष्टो वदिष्यति ।
 ततश्चाविक्रलो यागो मुनिश्रेष्ठ भविष्यति ॥ १९ ॥

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा रथमारुह्य कृष्णाजिनधरो नृपः ।
 वनं जगन्म यत्रास्ते स खाण्डिक्यो महामतिः ॥ २० ॥
 तमापतन्तमालोक्य खाण्डिक्यो रिपुमात्मनः ।
 प्रोवाच क्रोधताम्राक्षस्समारोपितकामुक्कः ॥ २१ ॥

खाण्डिक्य उवाच

कृष्णाचिर्न त्वं कवचमावध्यास्मान्दृग्निष्यसि ।
 कृष्णाजिनधरे वेत्सि न मयि प्रहरिष्यति ॥ २२ ॥
 मृगाणां वद पृष्ठेषु मूढ कृष्णाजिनं न किम् ।
 येषां मया त्वया घोषाः प्रहिताश्शिलतसायकाः ॥ २३ ॥
 स त्वामहं हनिष्यामि न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ।
 आतताव्यसि दुर्बुद्धे मम राज्यहरो रिपुः ॥ २४ ॥

केशिध्वज उवाच

खाण्डिक्य संशयं प्रष्टुं भवन्तमहमागतः ।
 न स्वहं हन्तुं विचार्यैतकोपं बाणं विमुञ्च वा ॥ २५ ॥

श्रीपराशर उवाच

ततस्स मन्त्रिभिस्साह्यैकान्ते सपुरोहितः ।
 मन्त्रयामास खाण्डिक्यस्सर्वैरिव महामतिः ॥ २६ ॥

हे योगिश्रेष्ठ! एक दिन जब राजा केशिध्वज यज्ञानुष्ठानमें स्थित थे उनको धर्मधेनु (रुक्मिणीके लिये दूध देनेवाली गौ)—को निर्जन वनमें एक भयंकर सिंहने मार डाला ॥ १३ ॥ व्याघ्रद्वारा गौको मारा गयो सून राजाने प्रवृत्तियोंसे पूछा कि 'इसमें क्या प्रायश्चित्त करना चाहिये?' ॥ १४ ॥ श्रद्धिजनोंके कहे—'इस [इस विषयमें] नहीं जानते; आप कशेरुके पूछिये।' जब राजाने कशेरुके यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि 'हे राजेन्द्र! मैं इस विषयमें नहीं जानता। आप भृगुपुत्र शुनकसे पूछिये, वे अमर्य जानते होंगे।' हे मुने! जब राजाने शुनकसे जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा, वह सुनिये— ॥ १५-१६ ॥

"इस समय भृगुपुत्रमें इस बातको न कशेरु जानता है, न मैं जानता हूँ और न कोई और ही जानता है, केवल जिसे तुमने पाला किया है वह तुम्हारा शत्रु खाण्डिक्य ही इस बातको जानता है" ॥ १७ ॥ यह सुनकर केशिध्वजने कहा—'हे मुनिश्रेष्ठ! मैं अपने शत्रु खाण्डिक्यसे ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञका फल तो मिल ही जायगा और यदि मेरे पूछनेपर उसने मुझे सारा प्रायश्चित्त यथावत् बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्बिघ्न पूर्ण हो जायगा' ॥ १८-१९ ॥

श्रीपराशरजी बोले—ऐसा कहकर राजा केशिध्वज कृष्ण मृगचर्म धारणकर रथपर अरुह्य हो वनमें, जहाँ मन्त्रमति खाण्डिक्य रहते थे, आये ॥ २० ॥ खाण्डिक्यने अपने शत्रुको आते देखकर भृगुव दण्ड लिया और क्रोधसे नेत्र लाल करके कहा— ॥ २१ ॥

खाण्डिक्य बोले—अरे! क्या तू कृष्णाजिनरूप कवच बाँधकर हमलोगोंको मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृगचर्म धारण किये हुए मुझपर यह प्रहार नहीं करेगा? ॥ २२ ॥ हे मूढ़! मृगोंको पीठपर क्या कृष्ण मृगचर्म नहीं होता, जिनपर कि मैंने और तूने दोनोंहीने तीक्ष्ण बाणोंके वर्षा की है ॥ २३ ॥ अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूँगा, तू मेरे हाथसे जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे! तू मेरा राज्य छीननेवाला शत्रु है, इसलिये आतातमी है ॥ २४ ॥

केशिध्वज बोले—हे खाण्डिक्य! मैं आपसे एक सन्देश पूछनेके लिये आया हूँ, आपकी मारनेके लिये नहीं आया, इस बातको सोचकर आप मुझपर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिये ॥ २५ ॥

श्रीपराशरजी बोले—यह सुनकर महामति

तमूचुर्मन्त्रिणो वध्यो रिपुरेष वशं गतः ।
 हतेऽस्मिन्पृथिवी सर्वा तव वश्या भविष्यति ॥ २७
 खाण्डिक्यश्चाह तान्सर्वानैवमेतन् संशयः ।
 हतेऽस्मिन्पृथिवी सर्वा मम वश्या भविष्यति ॥ २८
 परलोकजयस्तस्य पृथिवी सकला मम ।
 न हन्मि चेल्लोकजयो मम तस्य वसुन्धरा ॥ २९
 नाहं मन्ये लोकजयादधिका स्याद्दसुन्धरा ।
 परलोकजयोऽनन्तस्वल्पकालो महीजयः ॥ ३०
 तस्मान्नैनं हनिष्यामि यत्पृच्छति वदामि तत् ॥ ३१

श्रीपराशर उवाच

ततस्तमभ्युपेत्याह खाण्डिक्यजनको रिपुम् ।
 प्रष्टव्यं यत्त्वया सर्वं तत्पृच्छस्व वदाम्यहम् ॥ ३२
 ततस्सर्वं यथावृत्तं धर्मधेनुवधं द्विज ।
 कथयित्वा स पप्रच्छ प्रायश्चित्तं हि तद्गतम् ॥ ३३
 स चाचष्ट यश्चान्यायं द्विज केशिध्वजाय तत् ।
 प्रायश्चित्तमशेषेण यद्वै तत्र विधीयते ॥ ३४
 विदितार्थस्स तेनैव ह्यनुज्ञातो मद्यत्पना ।
 यागभूमिमुपागम्य चक्रे सर्वाः क्रियाः क्रमात् ॥ ३५
 क्रमेण विधिवद्भागं नीत्वा सोऽवभृथाप्लुतः ।
 कृतकृत्यस्ततो भूत्वा चिन्तयामास पार्थिवः ॥ ३६
 पूजिताश्च द्विजास्सर्वे सदस्या मानिता मया ।
 तथैवाधिजनोऽप्यर्धैर्द्योजितोऽभिमतैर्मया ॥ ३७
 यथाहर्मस्य लोकस्य मया सर्वं विचेष्टितम् ।
 अनिष्पन्नक्रियं चेतस्तथापि मम किं यथा ॥ ३८
 इत्थं सञ्चिन्तयन्नेव सस्मार स महीपतिः ।
 खाण्डिक्याय न दत्तेति मया वै गुरुदक्षिणा ॥ ३९
 स जगाम तदा भूयो रथमारुह्य पार्थिवः ।
 धैत्रेय दुर्गगहनं खाण्डिक्यो वज्र संस्थितः ॥ ४०
 खाण्डिक्योऽपि पुनर्दृष्ट्वा तमायान्तं धृतायुधम् ।
 तस्मै हन्तुं कृतमतिस्तमाह स पुनर्नृपः ॥ ४१
 भो नाहं तेऽपराधाय प्रप्तः खाण्डिक्य मा क्रुधः ।
 गुरोर्निष्कयदानाय मामवेहि त्वयागतम् ॥ ४२

खाण्डिक्यने अपने सम्पूर्ण पुरोहित और मन्त्रियोंसे एकान्तमें सलाह की ॥ २६ ॥ मन्त्रियोंने कहा कि 'इस समय शत्रु आपके वशमें हैं, इसे मार डालना चाहिये। इसको मार देनेपर यह सम्पूर्ण पृथिवी आपके अधीन हो जायगी' ॥ २७ ॥ खाण्डिक्यने फट्टा—'यह निस्सन्देह लोक है, इसके मारे जानेपर अवश्य सम्पूर्ण पृथिवी मेरे अधीन हो जायगी; किन्तु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगे और मुझे सम्पूर्ण पृथिवी। परन्तु यदि इसे नहीं मारूँगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथिवी ॥ २८-२९ ॥ मैं पारलौकिक जयसे पृथिवीको अधिक नहीं मानता; क्योंकि पारलोक-जय अनन्तकालके लिये होती है और पृथिवी तो धोड़े ही दिन रहती है। इसलिये मैं इसे मारूँगा नहीं, यह जो कुछ पूरेगा, वतला दूँगा' ॥ ३०-३१ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब खाण्डिक्य जनकने अपने शत्रु केशिध्वजके पास आकर कहा—'तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूँगा' ॥ ३२ ॥

हे द्विज! तब केशिध्वजने जिस प्रकार धर्मधेनु मारो गयी थी वह सब वृत्तान्त खाण्डिक्यसे कहा और उसके लिये प्रायश्चित्त पूछा ॥ ३३ ॥ खाण्डिक्यने भी वह सम्पूर्ण प्रायश्चित्त, जिसकर कि उसके लिये विधान था, केशिध्वजको विधिपूर्वक बतला दिया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर पूछे हुए अर्धको जान लेनेपर महात्मा खाण्डिक्यकी आज्ञा लेकर वे यज्ञभूमिमें आये और क्रमशः सम्पूर्ण कर्म समाप्त किया ॥ ३५ ॥

फिर कालक्रमसे यज्ञ समाप्त होनेपर अवभृथ (यज्ञान्त) स्नानके अनन्तर कृतकृत्य होकर राजा केशिध्वजने सोचा ॥ ३६ ॥ 'मैंने सम्पूर्ण श्रुतिज्ञ ब्राह्मणोंका पूजन किया, समस्त सदस्योंका पान किया, याचकोंको उनकी इच्छित वस्तुएँ दीं, लोकाचारके अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, तथापि न जाने, क्यों मेरे चित्तमें किसी क्रियाका अभाव खटक रहा है?' ॥ ३७-३८ ॥ इस प्रकार सोचते-सोचते राजाको स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खाण्डिक्यको गुरु-दक्षिणा नहीं दी ॥ ३९ ॥ हे मन्त्रेय! तब वे रथपर चढ़कर फिर उसी दुर्गप वनमें गये, जहाँ खाण्डिक्य रहते थे ॥ ४० ॥ खाण्डिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किये आते देख मारनेके लिये उद्यत हुए। तब राजा केशिध्वजने कहा— ॥ ४१ ॥ 'खाण्डिक्य! तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करनेके लिये नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु-दक्षिणा देनेके लिये आया हूँ—ऐसा समझो ॥ ४२ ॥

निष्पादितो मया यागः सम्यक्त्वदुपदेशतः ।
सोऽहं ते दातुमिच्छामि त्वृणीष्व गुरुदक्षिणाम् ॥ ४३

श्रीपराशर उवाच

भूयस्स मन्त्रिभिस्सार्द्धं मन्त्रयामास पार्थिवः ।
भुरुनिष्कयकामोऽयं किं मया प्रार्थ्यतामिति ॥ ४४

तमुत्तुर्मन्त्रिणो राज्यमशेषं प्रार्थ्यतामयम् ।
शत्रुभिः प्रार्थ्यते राज्यमनायासितसैनिकैः ॥ ४५

प्रहस्य तावाह नृपस्स खाण्डिव्यो महामतिः ।
स्वल्पकालं महीपाल्यं मादृशैः प्रार्थ्यते कथम् ॥ ४६

एवमेतद्दधन्तोऽत्र ह्यर्थसाधनमन्त्रिणः ।
परमार्थः कथं कोऽत्र यूयं नात्र विचक्षणः ॥ ४७

श्रीपराशर उवाच

इत्युक्त्वा समुपैत्सैन्यं स तु केशिध्वजं नृपः ।
उवाच किमवश्यं त्वं ददासि गुरुदक्षिणाम् ॥ ४८

बाह्वमित्थेव तेनोक्तः खाण्डिव्यस्तमथान्नवीनु ।
भवानध्यात्मविज्ञानपरमार्थविद्यारक्षणः ॥ ४९

यदि छोदीयते मया भवता भुरुनिष्कयः ।
तत्त्वलेशप्रज्ञाभावालं यत्कर्म तददूरीय ॥ ५०

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठोऽंशे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सातवाँ अध्याय

शहयोगका निर्णय

केशिध्वज उवाच

न प्रार्थितं त्वया कस्मादस्माद्राज्यमकण्टकम् ।
राज्यलाभाद्विना नान्यत्क्षत्रियाणामतिप्रियम् ॥ १

खाण्डिव्य उवाच

केशिध्वज निबोध त्वं मया न प्रार्थितं यतः ।
राज्ययेतदशेषं ते यत्र गृह्णन्त्यपण्डिताः ॥ २

क्षत्रियाणामयं धर्मो चक्रजापरिपालनम् ।
वशाच्च धर्मयुद्धेन स्वराज्यपरिपन्थिनाम् ॥ ३

मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यह भली प्रकार समाप्त कर दिया है, अब मैं तुम्हें गुरु-दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो माँग लो" ॥ ४३ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब खाण्डिव्यने फिर अपने मन्त्रियोंसे परामर्श किया कि "यह मुझे गुरु-दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या माँगूँ?" ॥ ४४ ॥ मन्त्रियोंने कहा—"आप इससे सम्पूर्ण राज्य माँग लीजिये, खुदमान् लोग शत्रुओंसे अपने सैनिकोंको कष्ट दिये बिना राज्य ही माँग करदे हैं" ॥ ४५ ॥ तब महामति राजा खाण्डिव्यने उनसे हेमते हुए कहा—"मेरे-ईसे लोंग कुछ ही दिन रहनेवाला राज्यगद कैसे माँग सकते हैं? ॥ ४६ ॥ यह लोक है आपलोंग स्वाध-साधनके लिये जो परामर्श देनेवाले हैं; किन्तु 'परमार्थ क्या और कैसा है?' इस विषयमें आपको विशेष ज्ञान नहीं है" ॥ ४७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—यह कहकर राजा खाण्डिव्य केशिध्वजके पास आये और उनसे कहा, 'क्या हुए मुझे अवश्य गुरु-दक्षिणा दोगे?' ॥ ४८ ॥ तब केशिध्वजने कहा कि 'मैं अवश्य दूँगा' तो खाण्डिव्य बोले—'आप आभ्यात्मज्ञानरूप परमार्थ-विद्यामें बड़े कुशल हैं ॥ ४९ ॥ सो यदि आप मुझे गुरु-दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म सबसे पहले सोंकी शान्ति करनेमें समर्थ हो वह अतलाइये' ॥ ५० ॥

केशिध्वज बोले—क्षत्रियोंको तो राज्य-प्राप्तिसे अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कण्टक राज्य क्यों नहीं माँगा? ॥ १ ॥

खाण्डिव्य बोले—हे केशिध्वज ! मैंने जिस कारणसे तुम्हारा राज्य नहीं माँगा वह सुनो। इन राज्यादिकी अस्माका तो पूर्णको हुना करती है ॥ २ ॥

क्षत्रियोंका धर्म तो यही है कि प्रजाका पालन करे और अपने राज्यके विशेषियोंका धर्म युद्धसे बच करे ॥ ३ ॥

तत्राशक्तस्य मे दोषो नैवास्त्यपह्लो त्वया ।
 बन्धादीव भवत्येषा ह्यविद्याप्यक्रमोञ्जिता ॥ ४
 जन्मोपभोगलिप्सादीर्मयं राज्यस्पृहा मम ।
 अन्येषां दोषजा सैव धर्मं वै नानुरुध्यते ॥ ५
 न याच्चा क्षत्रबन्धूनां धर्माद्यैतत्सतां मतेम् ।
 अतो न याचितं राज्यमविद्यान्तर्गतं तव ॥ ६
 राज्ये गृध्नन्ध्याविद्वांसो ममत्वाद्गतचेतसः ।
 अहंमानमहापानमदमत्ता न मादृशाः ॥ ७

श्रीपराशर उवाच

प्रहृष्टस्साध्विति प्राह ततः केशिध्वजो नृपः ।
 खाण्डिक्यजनकं प्रीत्या श्रूयतां वचनं मम ॥ ८
 अहं ह्यविद्याया मृत्युं तर्तुकामः करोमि वै ।
 राज्यं यागांश्च विविधाभोगीः पुण्यक्षयं तथा ॥ ९
 तदिदं ते मनो दिष्ट्या विदेकैश्चर्यतां गतम् ।
 तच्छ्रूयतामविद्यायास्स्वरूपं कुलनन्दन ॥ १०
 अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या चास्ते स्वमिति या मतिः ।
 संसारतरुसम्भृतिबीजमेतद्द्विधा स्थितम् ॥ ११
 पञ्चभूतात्मके देहे देही मोहतमोचृतः ।
 अहं मपैतदित्युच्चैः कुरुते कुमतिर्मतिम् ॥ १२
 आकाशावाय्वग्निजलपृथिवीभ्यः पृथक् स्थिते ।
 आत्मन्यात्ममयं भावं कः करोति कलेवरे ॥ १३
 कलेवरोपभोग्यं हि गृहक्षेत्रादिकं च कः ।
 अदेहे ह्यात्मनि प्राज्ञो ममेदमिति मन्यते ॥ १४
 इत्थं च पुत्रपौत्रेषु तद्देहोत्पादितेषु कः ।
 करोति पण्डितस्वाम्यमनात्मनि कलेवरे ॥ १५
 सर्वं देहोपभोगाय कुरुते कर्म मानवः ।
 देहश्चान्यो यदा पुंसस्तदा बन्धाद्य तत्परम् ॥ १६
 मृण्मयं हि यथा गेहं लिप्यते वै मृदम्भसा ।
 पार्थिवोऽयं तथा देहो मृदम्बालेपनस्थितः ॥ १७

शक्तिहीन होनेके कारण यदि तुमने मेरा राज्य ग्रहण कर लिया है, तो [असमर्थतावश प्रजापालन न करनेपर भी] मुझे कोई दोष न होगा । [किन्तु राज्याधिकार होनेपर यथावत् प्रजापालन न करनेसे दोषका भागो होना पड़ता है] क्योंकि यद्यपि यह (स्वकर्म) अविद्या ही है तथापि निमग्निरुद्ध त्याग करनेपर यह बन्धनका कारण होती है ॥ ४ ॥ यह राज्यकी चाह मुझे तो जन्मान्तरके [कर्मोंद्वारा प्राप्त] सुखभोगके लिये होती है; और वही मन्त्रों आदि अन्य जनोंकी राग एवं लोभ आदि दोषोंसे उत्पन्न होती है केवल धर्मानुषेधसे नहीं ॥ ५ ॥ 'उत्तम शक्तिशोक' [उष्णादिकी] याचना करना धर्म नहीं है' यह महात्माओंका मत है। इसीलिये मैंने अविद्या (पालनादि कर्म) -के अन्तर्गत तुम्हारा राज्य नहीं माँगा ॥ ६ ॥ जो लोग अहंकाररूपी मदिगक पान करके डमत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है वे मृदजन ही राज्यकी अधिपता करते हैं; ये-जैसे लोग राज्यको इच्छा नहीं करते ॥ ७ ॥

श्रीपराशरजी बोले—तब राजा केशिध्वजने प्रसन्न होकर खाण्डिक्य जनकको साधुवाद दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा बन्धन सुनो— ॥ ८ ॥ मैं अविद्याद्वारा मृत्युको पार करनेकी इच्छासे ही राज्य तथा विविध यशोंका अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगोंद्वारा अपने पुण्योंका क्षय कर रहा हूँ ॥ ९ ॥ हे कुलनन्दन! बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम्हारा मन विवेकसम्पन्न हुआ है अतः तुम अविद्याका स्वरूप सुनो ॥ १० ॥ संसार-वृक्षकी बीजभूता यह अविद्या दो प्रकारकी है—अनात्मायें आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना ॥ ११ ॥ यह कुमति जीव मोहकरी अन्धकारसे आवृत होकर इस पंचभूतात्मक देहमें 'मैं' और 'मेरापन' का भाव करता है ॥ १२ ॥ जब कि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी आदिसे सर्वथा पृथक् है तो कौन बुद्धिमान् च्याकि शरीरमें आत्मबुद्धि करेगा ? ॥ १३ ॥ और आत्माके देहसे परे होनेपर भी देहके उपभोग्य गृह-क्षेत्रादिको कौन प्राज्ञ पुरुष 'अपना' मान सकता है ॥ १४ ॥ इस प्रकार इस शरीरके अनात्मा होनेसे इससे उत्पन्न हुए पुत्र-पौत्रादियें भी कौन विद्वान् अपनात्मन करेगा ॥ १५ ॥ मृण्मय सारे कर्म देहके ही उपभोगके लिये करता है; किन्तु जब कि यह देह अपनेसे पृथक् है, तो ये कर्म केवल बन्धन (देहोत्पत्ति)-के ही कारण होते हैं ॥ १६ ॥ जिस प्रकार मिट्टीके घरकी जल और मिट्टीसे लीफे-पोकते हैं उसी प्रकार यह पार्थिव

पञ्चभूतात्मकैर्भोगैः पञ्चभूतात्मकं वपुः ।
 आप्यायते यदि ततः पुंसो भोगोऽत्र किं कृतः ॥ १८
 अनेकजन्मसाहस्रानि संसारपदवीं व्रजन् ।
 मोहभ्रमं प्रयातोऽसौ चासनारेणुकुण्ठितः ॥ १९
 प्रह्लात्पते यदा सोऽस्य रेणुर्ज्ञानोष्णवारिणा ।
 तदा संसारपान्थस्य याति मोहभ्रमश्शमम् ॥ २०
 मोहभ्रमे शमं याति स्वस्थान्तःकरणः पुमान् ।
 अनन्यातिशयाबाधं परं निर्वाणमृच्छति ॥ २१
 निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽपलः ।
 दुःखाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः ॥ २२
 जलस्य कानिसंसर्गः स्थालीसंगात्तथापि हि ।
 शब्दोद्रेकादिकान्धर्मास्तत्करोति यथा नृप ॥ २३
 तथात्मा प्रकृतेस्सङ्गादहम्भानादिदूषितः ।
 भजते प्राकृतान्धर्मान्धस्तेभ्यो हि सोऽप्ययः ॥ २४
 तदेतत्कथितं बीजमविद्याया मया तव ।
 क्लेशाणां च क्षयकरं योगादन्यन्न विद्यते ॥ २५
 खाण्डव्य उवाच
 तं तु ब्रूहि महाभाग योगं योगविदुत्तम ।
 विज्ञातयोगज्ञास्त्रार्थस्त्वमस्यां निमिसन्ततौ ॥ २६
 केशिध्वज उवाच
 योगस्वरूपं खाण्डिक्य श्रूयतां भद्रतो मम ।
 यत्र स्थितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्मलयं मुनिः ॥ २७
 मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
 बन्धाय विष्वक्तसङ्गि मुक्त्यै निर्विषयं मनः ॥ २८
 विषयेभ्यस्समाहृत्य विज्ञानात्मा मनो मुनिः ।
 चिन्तयेन्मुक्तये तेन ब्रह्मभूतं परेश्वरम् ॥ २९
 आत्मभावं नयत्येनं तद्ब्रह्म ध्यायिनं मुनिम् ।
 विकार्यमात्मनश्शक्त्या लोहमाकर्षको यथा ॥ ३०
 आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः ।
 तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्याभिधीयते ॥ ३१

शरीर भी पृथिका (पुण्यम अन्न) और जलकी सहायतासे
 ही स्थिर रहता है ॥ १७ ॥ यदि यह पंचभूतात्मक शरीर
 पांचभौतिक पदार्थोंसे पुष्ट होता है तो इसमें पुरुषने क्या
 भोग किया ॥ १८ ॥ यह बीज अनेक सफल जन्मोंतक
 सांसारिक भोगोंमें पड़े रहनेसे उन्हींकी वासनारूपी धूलिसे
 अच्छादित हो जानेके कारण केवल मोहरूपी भ्रमकी ही
 प्राप्ति होता है ॥ १९ ॥ जिस समय ज्ञानरूपी गर्म जलसे उसको
 यह धूलि धो दी जाती है तब इस संसार-पथके पथिकका
 मोहरूपी भ्रम शान्त हो जाता है ॥ २० ॥ मोह-भ्रमके शान्त
 हो जानेपर मुख्य स्वस्थ-चित्त हो जाता है और निरतिशय
 एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्ति कर लेता है ॥ २१ ॥ यह
 ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण-स्वरूप ही है, दुःख आदि
 की अज्ञानमय धर्म हैं ये प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं ॥ २२ ॥
 हे शक्य! जिस प्रकार स्थाली (चटलोई)-के जलका अग्निसे
 संयोग नहीं होता तथापि स्थालीके संसर्गसे ही उसमें खोलनेके
 शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृतिके
 संसर्गसे ही आत्म अहंकारादिसे दूषित होकर प्राकृत धर्मोंको
 स्वीकार करता है; वास्तवमें तो वह अव्यायत्मा उनसे सर्वथा
 मुक्त है ॥ २३-२४ ॥ इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्याका
 बीज बतलाया; इस अविद्यासे प्राप्त हुए क्लेशोंको उच्छ
 करनेवाला योगसे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ॥ २५ ॥

खाण्डिक्य बोले—हे योगवेशाओंमें श्रेष्ठ महभाग
 केशिध्वज! तुम निमिषक्षणं योगशास्त्रके मर्मज्ञ हो,
 अतः उस योगका वर्णन करो ॥ २६ ॥

केशिध्वज बोले—हे खाण्डिक्य! जिसमें स्थित होकर
 ब्रह्ममें लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूपसे च्युत नहीं होते, मैं उस
 योगका वर्णन करता हूँ; श्रवण करो ॥ २७ ॥

मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण केवल मन ही
 है; शिष्यका संग करनेसे वह बन्धनकारी और विषयशून्य
 होनेसे मोक्षकारक होता है ॥ २८ ॥ अतः जित्नेकज्ञानसम्पन्न
 मुनि अपने चित्तको विषयोंसे हटाकर मोक्षप्राप्तिके लिये
 ब्रह्मस्वरूप परमात्माका चिन्तन करे ॥ २९ ॥ जिस प्रकार
 अयस्कान्तमणि अपनी शक्तिसे लोहेको खींचकर अपनेमें
 संयुक्त कर लेता है उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले
 मुनिको परमात्मा स्वभावसे ही स्वरूपमें लीन कर देता
 है ॥ ३० ॥ आत्मज्ञानके प्रयत्नभूत यम, नियम आदिकी
 अपेक्षा रखनेवाली जो मनकी विशिष्ट गति है, उसका
 ब्रह्मके साथ संयोग होना ही 'योग' कहलाता है ॥ ३१ ॥

एवमत्यन्तवैशिष्ट्ययुक्तधर्मोपलक्षणः ।
 यस्य योगस्य वै योगी मुमुक्षुरभिधीयते ॥ ३२
 योगयुक्तं प्रथमं योगी युञ्जानो ह्याभिधीयते ।
 विनिष्पन्नसमाधिस्तु परं ब्रह्मोपलब्धिमान् ॥ ३३
 यद्यन्तरायदोषेण दूष्यते चास्य मानसम् ।
 जन्मान्तरैरभ्यसतो मुक्तिः पूर्वस्य जायते ॥ ३४
 विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्तिं तत्रैव जल्पन्ति ।
 प्राप्नोति योगी योगातिदग्धकर्मचयोऽधिरात् ॥ ३५
 ब्रह्मचर्यमहिंसां च सत्यास्तेषापरिग्रहान् ।
 सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वपत्नो नयन् ॥ ३६
 स्वाध्यायशौचसन्तोषतपोऽसि नियतात्मवान् ।
 कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्प्रवर्णं मनः ॥ ३७
 एते यमास्तनियमाः पञ्च पञ्च च स्वीरिताः ।
 विशिष्टफलदाः काव्या निष्कामाणां विमुक्तिदाः ॥ ३८
 एकं भद्रासनादीनां समास्थाय गुणैर्युतः ।
 यमाख्यैरनियमार्थैश्च युञ्जीत निष्कतो यतिः ॥ ३९
 प्राणायामनिलं चश्यमभ्यासात्कुरुते तु यत् ।
 प्राणायामस्य सिद्धेयस्त्वबीजोऽबीज एव च ॥ ४०
 परस्परैणाभिर्भवं प्राणापानौ यथानिलौ ।
 कुरुतस्सद्विधानेन तृतीयसंघमात्तयोः ॥ ४१
 तस्य चालम्बनवतः स्थूलरूपं द्विजोत्तम ।
 आलम्बनमनन्तस्य योगिनेऽभ्यसतः स्मृतम् ॥ ४२
 शब्दादिष्वनुरक्ताभि निगृह्याक्षाणि योगिभित् ।
 कुर्याच्छ्वेत्तानुकारीणि प्रत्याहारपराचरणः ॥ ४३
 षश्यता परमा तेन जायतेऽतिचक्ष्वात्मनाम् ।
 इन्द्रियाणामवश्यैस्तेर्न योगी योगसाधकः ॥ ४४
 प्राणायामेन पवने प्रत्याहारेण चेन्द्रिये ।
 यशीकृते ततः कुर्यात्स्थितं चेतश्शुभाश्रये ॥ ४५

जिसका योग इस प्रकारके विशिष्ट धर्मसे युक्त होता है वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है ॥ ३२ ॥ जब मुमुक्षु पहले-पहले योगाभ्यास आरम्भ करता है तो उसे 'योगयुक्त योगी' कहते हैं और जब उसे परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है तो वह 'विनिष्पन्नसमाधि' कहलाता है ॥ ३३ ॥ यदि किसी विघ्नवश उस योगयुक्त योगीका चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मान्तरमें भी उसी अभ्यासको करते रहनेसे वह मुक्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ विनिष्पन्नसमाधि योगी तो योगाग्निसे कर्मसमूहके भस्म हो जानेके कारण उसी जन्ममें थोड़े ही समयमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ३५ ॥ योगीको चाहिये कि अपने चित्तको ब्रह्मचिन्तनके योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रहका निष्कामभावसे सेवन करे ॥ ३६ ॥ तथा संयत चित्तसे स्वाध्याय, शौच, सन्तोष और तपका आचरण करे तथा मनको निरन्तर परब्रह्ममें लगाता रहे ॥ ३७ ॥ ये पाँच-पाँच यम और नियम बतलाये गये हैं। इनका सकाम आचरण करनेसे पुण्य-पुण्य फल मिलते हैं और निष्कामभावसे सेवन करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥

यतिको चाहिये कि भद्रासनादि आसनोंमेंसे किसी एकका अवलम्बन कर यम-नियमादि गुणोंसे युक्त हो योगाभ्यास करे ॥ ३९ ॥ अभ्यासके द्वारा जो प्राणवायुको वशमें किया जाता है उसे 'प्राणायाम' समझना चाहिये। यह शरीर (स्थूल तथा सूक्ष्म आदि आलम्बनयुक्त) और निर्बीज (निरालम्ब) भेदसे दो प्रकारका है ॥ ४० ॥ सद्युक्तके उपदेशसे अब योगी प्राण और अपानवायुद्वारा एक-दूसरेका निरोध करता है तो [क्रमशः रोक और पूर्ण रोक] दो प्राणायाम होते हैं और इन दोनोंका एक ही समय संयम करनेसे [कुम्भक नामक] तीसरा प्राणायाम होता है ॥ ४१ ॥ हे द्विजोत्तम ! जब योगी शरीर प्राणायामका अभ्यास आरम्भ करता है तो उसके आलम्बन भगवान् अनन्तका हिरण्यगर्भ आदि स्थूलरूप होता है ॥ ४२ ॥ तदनन्तर वह प्रत्याहारका अभ्यास करते हुए शब्ददि विषयोंमें अनुरक्त हुई अपनी इन्द्रियोंको रोककर अपने चित्तको अनुगामिनी बनाता है ॥ ४३ ॥ ऐसा करनेसे अत्यन्त श्रेष्ठ इन्द्रियों उसके वशीभूत हो जाती हैं। इन्द्रियोंको वशमें किये बिना कोई योगी योग-साधन नहीं कर सकता ॥ ४४ ॥ इस प्रकार प्राणायामसे प्राण और प्रत्याहारसे इन्द्रियोंको वशीभूत करके चित्तको उसके शुभ आश्रयमें स्थित करे ॥ ४५ ॥

खाण्डिक्य उवाच

कल्पतां मे महाभाग चेतसो यश्शुभाश्रयः ।
वदाधारमशेषं तद्दन्ति दोषमलोद्भवम् ॥ ४६ ॥

केशिध्वज उवाच

आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विधा तच्च स्वभावतः ।
भूय मूर्तममूर्तं च परं सापरमेयम् ॥ ४७ ॥
त्रिविधा भावना भूप विश्वमेतन्निबोधताम् ।
ब्रह्माख्या कर्मसंज्ञा च तथा चैवोभयात्मिका ॥ ४८ ॥
कर्मभावात्मिका श्लोका ब्रह्मभावात्मिका परा ।
उभयात्मिका तथैवान्या त्रिविधा भावभावना ॥ ४९ ॥
सनन्दनादयो ये तु ब्रह्मभावपया युताः ।
कर्मभावपया चान्ये देवाद्याः स्थावराश्चराः ॥ ५० ॥
हिरण्यगर्भादिषु च ब्रह्मकर्मात्मिका द्विधा ।
बोधाधिकारयुक्तेषु विद्यते भावभावना ॥ ५१ ॥
अक्षीणेषु समस्तेषु विशेषज्ञानकर्मसु ।
विश्वमेतत्परं चान्यद्भेदधिन्नदृशां नृणाम् ॥ ५२ ॥
प्रत्यस्तमितभेदं यस्सत्तामात्रमगोचरम् ।
वक्षसामात्मसंबेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥ ५३ ॥
तच्च विष्णोः परं रूपमरूपाख्यमनुत्तमम् ।
विश्वस्वरूपवैरूप्यलक्षणं परमात्मनः ॥ ५४ ॥
न तद्योगयुजा शक्यं नृप चिन्तयितुं यतः ।
ततः स्थूलं हरे रूपं चिन्तयेद्विष्यगोचरम् ॥ ५५ ॥
हिरण्यगर्भो भगवान्वासुदेवः प्रजापतिः ।
मरुतो वसवो रुद्रा भास्करास्ताराका ग्रहाः ॥ ५६ ॥
गन्धर्वब्रह्मदेत्याद्यास्सकला देवयोनयः ।
मनुष्याः पशवश्शैलास्समुद्रास्सरितो द्रुमाः ॥ ५७ ॥
भूप भूतान्यशेषाणि भूतानां ये च हेतवः ।
प्रधानादिविशेषान्तं चेतनाद्येतनात्मकम् ॥ ५८ ॥
एकपादं द्विपादं च बहुपादमपादकम् ।
मूर्तयेतद्धरे रूपं भावनात्रितयात्मकम् ॥ ५९ ॥
एतत्सर्वमिदं विश्वं जगदेतच्चराचरम् ।
परब्रह्मस्वरूपस्य विष्णोश्शक्तिसमीन्वितम् ॥ ६० ॥

खाण्डिक्य बोले—हे महाभाग! यह बतलाइये कि जिसका आश्रय करनेसे चित्तके सम्पूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं वह चित्तका शुभाश्रय क्या है? ॥ ४६ ॥

केशिध्वज बोले—हे राजन्! चित्तका आश्रय ब्रह्म है जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर-रूपसे स्वभावसे ही दो प्रकारका है ॥ ४७ ॥ हे भूय! इस जगत्में ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नामसे तीन प्रकारको भावनाएँ हैं ॥ ४८ ॥ इनमें पहली कर्मभावना, दूसरी ब्रह्मभावना और तीसरी उभयात्मिकाभावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएँ हैं ॥ ४९ ॥ सनन्दनादि, मुनिजन ब्रह्मभावनासे युक्त हैं और देवताओंसे लेकर स्थावर-जंगमपर्यन्त समस्त प्राणी कर्मभावनायुक्त हैं ॥ ५० ॥ तथा [स्वरूपविधयक] बोध और [स्वर्गादिविधयक] अधिकारसे युक्त हिरण्यगर्भादिमें ब्रह्मकर्ममयी उभयात्मिकाभावना है ॥ ५१ ॥

हे राजन्! जबतक विशेष ज्ञानके हेतु कर्म श्लोण नहीं होते तभीतक अहंकारादि भेदके कारण भिन्न दृष्टि रखनेवाले मनुष्योंको ब्रह्म और जगत्की भिन्नता प्रतीत होती है ॥ ५२ ॥ जिसमें सम्युक्त भेद ज्ञान हो जाते हैं, जो सत्तामात्र और वाणीका अविषय हैं तथा स्वयं ही अनुभव करनेयोग्य हैं, वही ब्रह्मज्ञान कहलाता है ॥ ५३ ॥ वही परमात्मा विष्णुका अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्वरूपसे विलक्षण है ॥ ५४ ॥

हे राजन्! योगाभ्यासी जन पहले-पहल उस रूपका चिन्तन नहीं कर सकते, इसलिये उन्हें शीर्षिके विश्वमय स्थूल रूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥ ५५ ॥ हिरण्यगर्भ, भगवान्, वासुदेव, प्रजापति, मरुत्, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, प्रहगण, गन्धर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देवयोनियों तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, सम्पूर्ण भूत एवं प्रधानसे लेकर विशेष (पंचतन्मात्रा) पर्यन्त उनके कारण तथा चेतन, अचेतन, एक, दो अथवा अनेक चरणोंवाले प्राणी और बिना चरणोंवाले जीव—ये सब भगवान्, हरिके भावनात्रयसम्बन्धक मूर्तरूप हैं ॥ ५६-५९ ॥ यह सम्पूर्ण चराचर जगत्, परब्रह्मस्वरूप भगवान्, विष्णुका, उनकी शक्तिसे सम्पन्न 'विश्व' नामक रूप है ॥ ६० ॥

विष्णुशक्तिः फल प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाञ्जया तथाऽपरा ।
 अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ ६१
 यया क्षेत्रज्ञशक्तिस्सा वेष्टिता नृप सर्वगा ।
 संसारतापानखिलानवाप्नोत्यतिसन्ततान् ॥ ६२
 तथा तिरोहितत्वाच्च शक्तिः क्षेत्रज्ञसंज्ञिता ।
 सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन लक्ष्यते ॥ ६३
 अप्राणयत्सु स्वल्पा सा स्थावरेषु ततोऽधिका ।
 सरोमृषेषु तेभ्योऽपि ह्यतिशक्त्या पतत्रिषु ॥ ६४
 पतत्रिभ्यो मृगास्तेभ्यस्तच्छक्त्या पशवोऽधिकाः ।
 पशुभ्यो मनुजाश्चातिप्रक्या पुंसः प्रभाविताः ॥ ६५
 तेभ्योऽपि नागगन्धर्वयक्षाद्या देवता नृप ॥ ६६
 शक्रस्समस्तदेवेभ्यस्ततश्चाति प्रजापतिः ।
 हिरण्यगर्भोऽपि ततः पुंसः शक्त्युपलक्षितः ॥ ६७
 एतान्यशेषरूपाणि तस्य रूपाणि पार्थिव ।
 यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नभसा यथा ॥ ६८
 द्वितीयं विष्णुसंज्ञस्य योगिष्येयं महापते ।
 अमूर्तं ब्रह्मणो रूपं यत्सदित्युच्यते द्युर्धः ॥ ६९
 समस्ताः शक्तयश्चैता नृप यत्र प्रतिष्ठिताः ।
 तद्विश्वरूपवैरूप्यं रूपमन्यद्वरेर्महत ॥ ७०
 समस्तशक्तिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर ।
 देवतिर्यङ्मनुष्यादिचेष्टावन्ति स्वस्तीलया ॥ ७१
 जगतामुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा ।
 चेष्टा तस्याप्रमेयस्य व्यापिन्यव्याहृतात्मिका ॥ ७२
 तद्रूपं विश्वरूपस्य तस्य योगयुजा नृप ।
 चिन्त्यमात्मविशुद्धयर्थं सर्वैकिलिखणानाम् ॥ ७३
 यथाग्निरुद्गतशिखः कङ्कं दहति सानिलः ।
 तथा चित्तस्थितो विष्णुर्योगिनं सर्वैकिलिखम् ॥ ७४
 तस्यात्समस्तशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः ।
 कुर्वीत संस्थितिं सा तु विज्ञेया शुद्धधारणा ॥ ७५
 शुभाश्रयः स चित्तस्य सर्वगव्याघलात्मनः ।
 त्रिभावभावनातीतो मुक्तये योगिनो नृप ॥ ७६

विष्णुशक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नामकी तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है ॥ ६१ ॥ हे राजन्! इस अविद्या-शक्तिसे आवृत होकर यह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ-शक्ति सब प्रकारके अति विस्तृत संसारिक कष्ट भोग करती है ॥ ६२ ॥ हे भूपाल! अविद्या-शक्तिसे तिरोहित रहनेके कारण ही क्षेत्रज्ञ-शक्ति सम्पूर्ण प्राणियोंमें तारतम्यसे दिखलानी देती है ॥ ६३ ॥ यह सबसे कम जड़ पदार्थोंमें है, उनसे अधिक सूक्ष्म-पर्कतादि स्थावरीयें, स्थावरीसे अधिक सरीसृपदिमें और उनसे अधिक पक्षियोंमें है ॥ ६४ ॥ पक्षियोंसे मृगोंमें और मृगोंसे पशुओंमें यह शक्ति अधिक है तथा पशुओंको अपेक्ष्य मनुष्य भगवान्को उस (क्षेत्रज्ञ) शक्तिसे अधिक प्रभापित है ॥ ६५ ॥ मनुष्योंसे नाग, गन्धर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणोंमें, देवत्वोंसे इन्द्रमें, इन्द्रसे प्रजापतिमें और प्रजापतिसे हिरण्यगर्भमें इस शक्तिका विशेष प्रकाश है ॥ ६६-६७ ॥ हे राजन्! ये सम्पूर्ण रूप उस परमेश्वरके ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाशके समान उनकी शक्तिसे व्याप्त हैं ॥ ६८ ॥

हे महापते! विष्णु नामक ब्रह्मका दूसरा अमूर्त (आकाशहीन) रूप है, जिसका योगिजन ध्यान करते हैं और जिसे दुष्पजन 'सत्' कहकर पुकारते हैं ॥ ६९ ॥ हे नृप! जिसमें कि ये सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं वही भगवान्का विश्वरूपसे विलक्षण द्वितीय रूप है ॥ ७० ॥ हे नरेश! भगवान्का वही रूप अपनी लीलासे देव, तिर्यक् और मनुष्यादिकी चेष्टाओंसे युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है ॥ ७१ ॥ इन रूपोंमें अप्रमेय भगवान्को जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है यह संसारके उपकारके लिये ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती ॥ ७२ ॥ हे राजन्! योगिभ्यासको आत्म-शुद्धिके लिये भगवान् विश्वरूपके उस सर्वपापनाशक रूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार वायुसहित अग्नि ऊँची प्यास्ताओंसे युक्त होकर शुष्क तुण्डमूहको जल दातता है उसी प्रकार चित्तमें स्थित हुए भगवान् विष्णु योगियोंके समस्त पाप नष्ट कर देते हैं ॥ ७४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोंके आधार भगवान् विष्णुमें शिष्टको स्थिर करने, यही शुद्ध धारणा है ॥ ७५ ॥

हे राजन्! तीनों भावनाओंसे अतीत भगवान् विष्णु ही योगिजनोंकी मुक्तिके लिये उनके [स्वतः] चंचल तथा [किन्तो अमूर्ते विषयमें] स्थिर रहनेवाले चित्तके शुभ अश्रय हैं ॥ ७६ ॥

अन्ये तु पुरुषव्याघ्र चेतसो ये व्यपाश्रयाः ।
 अशुद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्याः कर्मयोगिनः ॥ ७७
 मूर्त्तं भगवतो रूपं सर्वापाश्रयानिःस्पृहम् ।
 एषा वै धारणा प्रोक्ता यच्चिन्तं तत्र धार्यते ॥ ७८
 यच्च मूर्त्तं हरे रूपं यादृक्चिन्त्यं नराधिपः ।
 तच्छ्रुयतामनाधारा धारणा नोपपद्यते ॥ ७९
 प्रसन्नवदनं चारुपद्मपद्ममेक्षणम् ।
 सुकपोलं सुविस्तीर्णललाटफलक्रेन्वलयम् ॥ ८०
 समकर्णान्तिकिन्यस्तचारुकुण्डलभूषणम् ।
 कम्बुश्रीखं सुविस्तीर्णश्रीवत्साङ्गिकनवक्षसम् ॥ ८१
 वलित्रिभङ्गिगना मग्ननाभिना ह्युदरेण च ।
 प्रलम्बाष्टभुजं विष्णुमधवापि चतुर्भुजम् ॥ ८२
 समस्थितोरुजङ्घं च सुस्थिताङ्घ्रिसराश्रुजम् ।
 चिन्तयेद्ब्रह्मभूर्त्तं तं पीतनिर्मलवाससम् ॥ ८३
 किरीटह्रारकेयूरकटकादिविभूषितम् ॥ ८४
 शार्ङ्गशङ्खगदाखड्गचक्राक्षवलयान्वितम् ।
 वरदाभयहस्तं च मुद्रिकारत्नभूषितम् ॥ ८५
 चिन्तयेत्तन्मयो योगी समाध्यायात्प्रमानसम् ।
 तामघावद्दुःखीभूता तत्रैव नृप धारणा ॥ ८६
 व्रजतस्तिष्ठतोऽन्यद्वा स्वेच्छवा कर्म कुर्वतः ।
 नाप्यवति यदा चिन्तास्तिह्या मन्येत तां तदा ॥ ८७
 ततः शङ्खगदाचक्रशङ्खार्द्धिरहितं बुधः ।
 चिन्तयेद्भगवद्रूपं प्रशान्तं साक्षसूत्रकम् ॥ ८८
 सा यदा धारणा तद्ददवस्थानवती ततः ।
 किरीटकेयूरमुखैर्भूषणी रहितं स्मरेत् ॥ ८९
 तदेकावयवं देवं चेतसा हि पुनर्बुधः ।
 कुर्यात्ततोऽवयविति प्रणिधानपरो भवेत् ॥ ९०

हे पुरुषसिंह! इसके अतिरिक्त मनके आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्मयोगीनों हैं, वे सब अशुद्ध हैं ॥ ७७ ॥ भगवान्‌का यह मूर्तरूप चित्तको अन्य अगलम्बनोंसे निःस्पृह कर देता है । इस प्रकार चित्तका भगवान्‌में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है ॥ ७८ ॥

हे नरेन्द्र! धारणा बिना किसी आधारके नहीं हो सकती; इसलिए भगवान्‌के जिस मूर्तरूपका जिस प्रकार ध्यान करना चाहिये, वह सुनो ॥ ७९ ॥ वो प्रसन्नवदन और कमलदलके समान सुन्दर नेत्रोंवाले हैं, सुन्दर कपोल और विशाल भालसे अत्यन्त सुशोभित हैं तथा अपने सुन्दर कानोंमें मनोहर कुण्डल पहने हुए हैं, जिनको शीवा शंखके समान और विशाल वक्षःस्थल श्रोवत्सचिह्नसे सुशोभित है, जो तरंगाकार त्रिकलो तथा नोची नाभवाले उदरसे सुशोभित हैं, बिनके लम्बी-लम्बी आठ अथवा चार भुजाएँ हैं तथा जिनके जंघा एवं ऊरु समानभावसे स्थित हैं और मनोहर चरणारविन्द सुघरतासे विराजमान हैं उन निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करे ॥ ८०—८३ ॥ हे राजन्! किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणोंसे विभूषित, शार्ङ्गभनुष, शंख, गदा, खड्ग, चक्र तथा अक्षमालासे युक्त वरद और अभयमुक्त हाथोंवाले * [तथा अँगुलियोंमें धारण की हुई] रत्नययी मुद्रिकासे शोभायमान भगवान्‌के दिव्य रूपका योगीको अपना चित्त एकाग्र करके तन्मयभावसे तबतक चिन्तन करना चाहिये जबतक यह धारणा दृढ़ न हो जाय ॥ ८४—८६ ॥ जब पलते फिरते, उठते-बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्तसे दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिये ॥ ८७ ॥

इसके दृढ़ होनेपर बुद्धिमान् प्राक्त शंख, चक्र, गदा और शार्ङ्ग आदिसे रहित भगवान्‌के स्फटिकाक्षमाला और यज्ञोपवीतधारी शान्त स्वरूपका चिन्तन करे ॥ ८८ ॥ जब यह धारणा भी पूर्णवत् स्थिर हो जाय तो भगवान्‌के किरीट, केयूरादि आभूषणोंसे रहित रूपका स्मरण करे ॥ ८९ ॥ तदनन्तर बिना पुरुष अपने चित्तमें एक (प्रधान) अवयव-विशिष्ट भगवान्‌का हृदयसे चिन्तन करे और फिर सम्पूर्ण अवयवोंको छोड़कर केवल अवयवीका ध्यान करे ॥ ९० ॥

* चतुर्भुज-मूर्तिके ध्यानमें चारों हाथोंमें क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पत्तकी भावना करे तथा अष्टभुजरूपका ध्यान करने समय छः हाथोंमें ही शार्ङ्ग आदि छः आभूषणोंकी भावना करे तथा शेष दोमें पद्म और खण्ड अथवा वरद और अभय-मुक्ताका चिन्तन करे ।

तद्रूपप्रत्यया चैका सत्सिंहचान्यनिःस्पृहा ।
 तद्भयानं प्रथमैरङ्गैः षड्भिर्निष्पाद्यते नृप ॥ ९९
 तस्यैव कल्पनाद्भिनं स्वरूपग्रहणं हि यत् ।
 मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते ॥ १००
 विज्ञानं प्रापकं प्राप्ये परे ब्रह्मणि पार्श्विक ।
 प्रापणीयस्तथैवात्मा प्रक्षीयांशेषभावनः ॥ १०१
 क्षेत्रज्ञः करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत् ।
 निष्पाद्य मुक्तिकार्यं वै कृतकृत्यो निवर्तते ॥ १०२
 तद्भावभावमापन्नस्ततोऽसौ परमात्मना ।
 भवत्यभेदी भेदश्च तस्याज्ञानकृतो भयेत् ॥ १०३
 विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्मनिकं गते ।
 आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्नं कः करिष्यति ॥ १०४
 इत्युक्तस्ते मया योगः खाण्डिक्य परिपुच्छतः ।
 संक्षेपविस्तराभ्यां तु किमन्यत्किञ्चतां तव ॥ १०५
 खाण्डिक्य उवाच
 कश्चित्ते योगसद्भावे सर्वमेव कृतं मम ।
 तत्रोपदेशेनाशेषो नष्टश्चित्तमलो यतः ॥ १०६
 ममेति अन्वया चोक्तमसदेतन्न चान्यथा ।
 नरेन्द्र यदितुं शक्यमपि विज्ञेयवेदिभिः ॥ १०७
 अहं ममेत्यविद्येयं व्यवहारस्तथानयोः ।
 परमार्थस्त्वसंलापो गोक्षरे वक्षसां न यः ॥ १०८
 तद्गच्छ श्रेयसे सर्वं ममेतद्भवता कृतम् ।
 यद्विमुक्तिप्रदो योगः प्रोक्तः केशिध्वजाख्यः ॥ १०९
 श्रीपरशुर उवाच
 यथाहं पूजया तेन खाण्डिक्येन स पूजितः ।
 आजगाम पुरं ब्रह्मास्ततः केशिध्वजो नृपः ॥ ११०
 खाण्डिक्योऽपि सुतं कृत्वा राजानं योगप्रसिद्धये ।
 वनं जगाम गोविन्दे विनिवेशितमानसः ॥ १११
 सर्वैकान्तमतिभूत्वा यमादिगुणसंयुतः ।
 विष्णुख्ये निर्मले ब्रह्मण्यवाप नृपतिर्नयम् ॥ ११२

हे राजन्! जिसमें परमेश्वरके रूपकी ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयान्तरकी स्पृहासे रहित एक अनवरत धारा है उसे ही ध्यान कहते हैं; यह अपनेसे पूर्व यम-नियमादि छः अंगोंसे निष्पन्न होता है ॥ ९९ ॥ उस ध्येय पदार्थका ही जो मनके द्वारा ध्यानसे सिद्ध होनेयोग्य स्वरूपनाहीन (ध्याता, ध्येय और ध्यानके भेदसे रहित) स्वरूप ग्रहण किया जाता है उसे ही समाधि कहते हैं ॥ १०० ॥ हे राजन्! [समाधिसे होनेवाला भगवत्संस्कारस्वरूप] विज्ञान ही प्राकल्प परब्रह्मवत् पहुँचानेवाला है तथा सम्पूर्ण भावनाओंसे रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय (अर्थात् पहुँचनेवाला) है ॥ १०१ ॥ मुक्ति-लाभमें क्षेत्रज्ञ कर्ता है और ज्ञान करण है; [ज्ञानरूपी करणके द्वारा क्षेत्रज्ञके] भुक्तिरूपी कार्यकी सिद्ध करके वह विज्ञान कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है ॥ १०२ ॥ तब समय यह भगवद्भावसे भरकर परमात्मसे अधिन्न हो जाता है; इसका भेद-ज्ञान तो अज्ञानजन्य ही है ॥ १०३ ॥ भेद उत्पन्न करनेवाले अज्ञानके सर्वथा नष्ट हो जानेपर ब्रह्म और आत्मामें अस्तु (अविद्यमान) भेद कौन कर सकता है? ॥ १०४ ॥ हे खाण्डिक्य! इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तारसे योगका वर्णन किया; अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूँ? ॥ १०५ ॥

खाण्डिक्य बोले—आपने इस महायोगका वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेशसे मेरे चित्तका सम्पूर्ण मल नष्ट हो गया है ॥ १०६ ॥ हे राजन्! मैंने जो 'मेरा' कहा यह भी असत्य ही है, अन्वया ज्ञेय वस्तुको जाननेवाले तो यह भी नहीं कह सकते ॥ १०७ ॥ 'मैं' और 'मेरा' ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है, परमार्थ तो कहने-सुननेकी बात नहीं है क्योंकि वह वाणीका अविषय है ॥ १०८ ॥ हे केशिध्वज! आपने इस मुक्तिप्रद योगका वर्णन करके मेरे कल्याणके लिये सब कुछ कर दिया, अब आप मुझपूर्वक पधारिये ॥ १०९ ॥

श्रीपरशुराज्जी बोले—हे ब्रह्मन्! तदनन्तर खाण्डिक्यसे यथोचित पूजित हो राजा केशिध्वज अपने नगरमें चले आये ॥ ११० ॥ तथा खाण्डिक्य भी अपने पुत्रको रथ्य दे * श्रीगोविन्दमें चित्त लगाकर योग सिद्ध करनेके लिये [निर्मल] वनको चले गये ॥ १११ ॥ वहाँ यमादि गुणोंसे युक्त होकर एकग्रचित्तसे ध्यान करते हुए राजा खाण्डिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्ममें लीन हो गये ॥ ११२ ॥

* यद्यपि खाण्डिक्य वन समय राजा नहीं था; तथापि वनमें ओ उसके दुर्ग, मन्त्री और मृत्य आदि से वनोंका स्वामी अपने पुत्रको बनाया।

केशिध्वजो विमुक्त्यर्थं स्वकर्मक्षपणोन्मुखः ।

बुभुजे विषयान्कर्म चक्रे चानभिर्संहितम् ॥ १०५ ॥

सकल्यापोपभोगैश्च क्षीणपापोऽमलस्तथा ।

अवाप सिद्धिमत्यन्तां तामक्षयफलां द्विज ॥ १०६ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेऽशो सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

आठवाँ अध्याय

शिष्यपरम्परा, पादप्रत्यय और उपसंहार

श्रीपराशर उवाच

इत्येष कथितः सम्यक् नृतीयः प्रतिसन्धरः ।
आत्मनिकरे विमुक्तिर्वा सत्ये ब्रह्मणि ज्ञाप्यते ॥ १

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च षष्ठामन्वन्तराणि च ।
वंशानुचरितं चैव भवतो गदितं मया ॥ २

पुराणं वैष्णवं चैतत्सर्वकिस्त्रिष्यनाशनम् ।
विशिष्टं सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुवार्षोपपादकम् ॥ ३

तुभ्यं यथावन्मैत्रेय प्रोक्तं शुश्रूषवेऽप्ययम् ।
यदन्यदपि वक्तव्यं तत्पृच्छाद्य वदामि ते ॥ ४

श्रीमैत्रेय उवाच

भगवन्कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽसि मया मुने ।
श्रुतं चैतन्मया भक्त्या नान्यत्पृष्टव्यमस्ति मे ॥ ५

विच्छिन्नाः सर्वसन्देहा वैमल्यं मनसः कृतम् ।
त्वत्प्रसादान्मया ज्ञात्वा उत्पत्तिस्थितिसंक्षयाः ॥ ६

ज्ञातश्चतुर्विधो राशिः शक्तिश्च त्रिविधा गुरो ।
विज्ञात्वा स च कात्स्न्येन त्रिविध भावभावना ॥ ७

त्वत्प्रसादान्मया ज्ञातं ज्ञेयमन्वीरलं द्विज ।
यदेतदखिलं विष्णोर्जगन् व्यतिरिच्यते ॥ ८

किन्तु केशिध्वज विदेहमुक्तिके लिये अपने कर्मोंको क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फलकी इच्छा न करके अनेकों शुभ-कर्म किये ॥ १०५ ॥ हे द्विज! इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगोंको भोगते हुए उन्होंने पाप और मल (पारलभ्य कर्म) का क्षय हो जानेपर तापत्रयको दूर करनेवाली आत्मनिक सिद्धि प्राप्त कर ली ॥ १०६ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय! इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे आत्मनिक प्रलयका वर्णन किया, जो सन्निव न्ब्रह्ममें लयरूप मोक्ष हो है ॥ १ ॥ मैंने तुमसे संसारकी उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मन्वन्तर तथा वंशोंके चरित्रोंका वर्णन किया ॥ २ ॥ हे मैत्रेय! मैंने तुम्हें सुननेके लिये उत्सुक देखकर यह सम्पूर्ण शास्त्रोंमें श्रेष्ठ सर्वपापविनाशक और पुरुषार्थक प्रतिपादक वैष्णवपुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ पूछना हो पूछो। मैं उसका तुमसे वर्णन करूँगा ॥ ३-४ ॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—भगवन्! मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धागणितपूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है ॥ ५ ॥ हे मुने! आपकी कृपासे मैंने समस्त सन्देह निवृत्त हो गये और मेरा चित्त निर्पला हो गया तथा मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका ज्ञान हो गया ॥ ६ ॥ हे गुरो! मैं चार प्रकारकी राशि^१ और तीन प्रकारकी शक्तियों^२ जान गया तथा मुझे त्रिविध भाव-भावनाओंका^३ भी सम्यक् बोध हो गया ॥ ७ ॥ हे द्विज! आपकी कृपासे मैं, जो जानना चाहिये वह भली प्रकार जान गया कि यह सम्पूर्ण जगत् श्रीविष्णुभगवान्से भिन्न नहीं है, इसलिये अब मुझे अन्य बातोंके जाननेसे कोई लाभ नहीं ॥ ८ ॥

१-द्विविधै—प्रथम और अध्याय २२ श्लोक २१-३३।

२-दत्त अत्र अध्याय ७ श्लोक ३१-६३।

३-एव अध्याय ७ श्लोक ४८-५१।

कृतार्थोऽहमसन्देहस्त्वत्प्रसादान्महामुने ।
 वर्णधर्मादयो धर्मा विदिता यदशेषतः ॥ ९
 प्रवृत्तं च निवृत्तं च ज्ञाते कर्म मयाखिलम् ।
 प्रसीद विप्रप्रवर नान्यत्प्राष्टव्यमस्ति मे ॥ १०
 यदस्य कथनायासैर्घोर्जितोऽसि मया गुरो ।
 तत्क्षम्यतो विशेषोऽस्ति न सर्ता पुत्रशिष्ययोः ॥ ११

श्रीपराशर उवाच

एतत्ते यन्मयाख्यातं पुराणं वेदसम्मतम् ।
 श्रुतेऽरिमन्सर्वदोषोत्थाः पापराशिः प्रणश्यति ॥ १२
 सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च ।
 वंशानुचरितं कृत्स्नं मयात्र तव कीर्तितम् ॥ १३
 अत्र देवास्तथा दैत्या गन्धर्वोरगराक्षसाः ।
 यक्षविद्याभरारिस्त्रिहृदाः कथ्यन्तेऽपसरसस्तथा ॥ १४
 पुनयो भावित्तात्मानः कथ्यन्ते तपसाञ्जिताः ।
 चातुर्वर्ण्यं तथा पुंसो विशिष्टचरितानि च ॥ १५
 पुण्याः प्रदेशा मेदिन्याः पुण्या नद्योऽथ सगराः ।
 पर्वताश्च महापुण्याश्चरितानि च धीमताम् ॥ १६
 वर्णधर्मादयो धर्मा वेदशास्त्राणि कृत्स्नशः ।
 येषां संस्मरणात्सदाः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १७
 उत्पत्तिस्थितिनाशानां हेतुर्यो जगतोऽव्ययः ।
 स सर्वभूतस्सर्वात्मा कथ्यते भगवान्हरिः ॥ १८
 अवशेनापि यन्नाग्निं कीर्तिते सर्वपातकैः ।
 पुमान्निमुच्यते सदाः सिंहत्रस्तैर्वृकैरिव ॥ १९
 यन्नामकीर्तनं भक्त्या विलायनमनुत्तमम् ।
 मैत्रेयाश्लेषपापानां धातुनामिव पावकः ॥ २०
 कलिकल्पमत्युग्रं नरकार्तिप्रदं नृणाम् ।
 प्रयाति विलस्यं सदाः सकृदत्र च संस्मृते ॥ २१
 हिरण्यगर्भदेवेन्द्ररुद्रादित्याशिववायुभिः ।
 पाचकैर्वसुभिः सारथीर्विश्वेदेवादिभिः सुरैः ॥ २२
 यक्षरक्षोरगैः सिद्धैर्दैत्यगन्धर्वदानवैः ।
 अप्सरोभिस्तथा तारानक्षत्रैः सकलैर्ग्रहैः ॥ २३

हे महामुने! आपके प्रसादसे मैं निस्सन्देह कृतार्थ
 हो गया क्योंकि मैंने वर्ण-धर्म आदि सम्पूर्ण धर्म
 और प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप सबस्त कर्म जान लिये।
 हे विप्रवर! आप प्रसन्न रहे; अब मुझे और कुछ भी
 पूछना नहीं है ॥ ९-१० ॥ हे गुरो! मैंने आपको जो इस
 सम्पूर्ण पुराणके कथन करनेका कष्ट दिया है, उसके
 लिये आप मुझे क्षमा करें; साधुजनकी दुष्टियें पुत्र
 और शिष्यमें कोई भेद नहीं होता ॥ ११ ॥

श्रीपराशरजी बोले—हे मुने! मैंने तुमको जो
 यह वेदसम्मत पुराण सुनया है इसके त्रयणमात्रसे
 सम्पूर्ण दोषोंसे उत्पन्न हुआ पापपुंज नष्ट हो जाता
 है ॥ १२ ॥ इसमें मैंने तुमसे सुष्टिकी उत्पत्ति, प्रलय,
 वंश, मन्वन्तर और संशोकके चरित—इन सभोका
 वर्णन किया है ॥ १३ ॥ इस ग्रन्थमें देवता, दैत्य,
 गन्धर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याभर, सिद्ध और
 अप्सरागणका भी वर्णन किया गया है ॥ १४ ॥ आत्माराम
 और तपोनिष्ठ मुनिजन चातुर्वर्ण्य—विभाग, महापुरुषोंके
 विशिष्ट चरित, पृथिवीके पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी
 और समुद्र, अत्यन्त पावन पर्वत, बुद्धिमान् पुरुषोंके
 चरित, वर्ण-धर्म आदि धर्म तथा वेद और शास्त्रोंका
 जो इसमें सम्यक् रूपसे निरूपण हुआ है, जिनके
 स्मरणमात्रसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता
 है ॥ १५—१७ ॥

जो अव्ययत्वा भगवान् हरि संसारकी उत्पत्ति,
 स्थिति और प्रलयके एकमात्र कारण हैं उनका भी
 इसमें कीर्तन किया गया है ॥ १८ ॥ जिनके नामका
 विवश होकर कीर्तन करनेसे जो मनुष्य सिद्धसे डरे
 हुए गीदहोंके समान पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १९ ॥
 हे मैत्रेय! जिनका भक्तिपूर्वक किया हुआ नाम-
 संकीर्तन सम्पूर्ण धातुओंको पिघलानेवाले अग्निके
 समान समस्त पापोंका सर्वोत्तम विलयन (लौन कर
 देनेवाला) है ॥ २० ॥ जिनका एक बार भी स्मरण
 करनेसे मनुष्योंको नरक—यातनाएँ देनेवाला अति
 उग्र कलि-कल्पमत्र तुरन्त नष्ट हो जाता है ॥ २१ ॥
 हे द्विजोत्तम! हिरण्यगर्भ, देवेन्द्र, रुद्र, आदित्य,
 अश्विनीकुमार, वायु, अग्नि, वसु, सारथ्य और
 विश्वेदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, सिद्ध, दैत्य,
 गन्धर्व, वृक्ष, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह,

सप्तर्षिभिस्तथा धिष्यथैषिष्ययाधिपतिर्भस्ताथा ।
 ब्राह्मणाद्यैर्मनुष्यैश्च तथैव पशुभिर्मृगैः ॥ २४
 सरीसृपैर्विहङ्गैश्च पलाशाद्यैर्महीरुहैः ।
 वनाग्निसागरसरित्पातालैः सधरादिभिः ॥ २५
 शब्दादिभिश्च सहितं ब्रह्माण्डमखिलं द्विज ।
 मेरोरिवाणुयंस्वैतद्यन्मयं च द्विजोत्तम ॥ २६
 स सर्वः सर्ववित्सर्वस्वरूपो रूपवर्जितः ।
 भगवान्कीर्तितो विष्णुरत्र पापप्रणाशनः ॥ २७
 यदश्वमेधावभुञ्जे स्नातः प्राप्नोति वै फलम् ।
 मानवस्तदवाप्नोति क्षुत्सैतन्मुनिसत्तम ॥ २८
 प्रयागे पुष्करे चैव कुरुक्षेत्रे तथार्णवे ।
 कृतोपवासः प्राप्नोति तदस्य श्रवणात्नरः ॥ २९
 अग्निहोत्रे सुहृते वर्षेणाप्नोति मानवः ।
 मह्यपुण्यफलं विप्र तदस्य श्रवणात्सकृत् ॥ ३०
 यन्वेष्टशुक्ल द्वादश्यां स्नात्वा वै यमुनाजले ।
 मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति पुरुषः फलम् ॥ ३१
 तदाप्नोत्यखिलं सम्यग्धाधं यः शृणोति वै ।
 पुराणस्यास्य विप्रर्वै केशवार्पितमानसः ॥ ३२
 यमुनासलिलस्नातः पुरुषो मुनिसत्तम ।
 ज्येष्ठामूले सिते पक्षे द्वादश्यां समुपोधितः ॥ ३३
 समभ्यर्च्यञ्च्युतं सम्यग् मथुरायां समाहितः ।
 अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्राप्नोत्यखिलं फलम् ॥ ३४
 आलोक्यर्द्धमधान्येषामुनीतानां स्ववशजैः ।
 एतत्किलोचुरन्येषां पितरः सपितामहाः ॥ ३५
 कच्चिदमत्कुले जातः कालिन्दीसलिष्णाप्लुतः ।
 अर्चयिष्यति गोविन्दं मथुरायामुपोधितः ॥ ३६
 ज्येष्ठामूले सिते पक्षे येनैवं वयमप्युत ।
 परमृद्धिमवाप्स्यामस्तारिताः स्वकुलोद्भवैः ॥ ३७
 ज्येष्ठामूले सिते पक्षे समभ्यर्च्यं जनार्दनम् ।
 धनानां कुलजः पिण्डान्यमुनायां प्रदास्यति ॥ ३८
 तस्मिन्काले समभ्यर्च्यं तत्र कृष्णं समाहितः ।
 दत्त्वा पिण्डं पितृभ्यश्च यमुनासलिलाप्लुतः ॥ ३९

सप्तर्षि, लोक, लोकपालाण, ब्राह्मणादि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथिवी आदि और ऋक्षादि विषयोंके सहित यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिनके आगे सुमेरुके सामने एक रेणुकें समान है तथा जो इसके उपादान-कारण हैं उन सर्व सर्वज्ञ सर्वस्वरूप स्वरहित और पापनाशक भगवान् विष्णुका इसमें कौतन किया गया है ॥ २२-२७ ॥

हे मुनिसत्तम! अश्वमेध-यज्ञमें अश्वपृथ (यज्ञान्) स्नान करनेसे जो फल मिलता है वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है ॥ २८ ॥ प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्रतटपर रहकर उपवास करनेसे जो फल मिलता है वही इस पुराणको सुननेसे प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥ एक वर्षतक त्रियमानुसार अग्निहोत्र करनेसे मनुष्यको जो महान् पुण्यफल मिलता है वही इसी एक बार सुननेसे ही जाता है ॥ ३० ॥ ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशीके दिन मथुरापुरीमें यमुना-स्नान करके कृष्णचन्द्रका दर्शन करनेसे जो फल मिलता है हे विप्रर्वै! वही भगवान् कृष्णमें चित्त लगाकर इस पुराणके एक अध्यायको सावधानतापूर्वक सुननेसे मिल जाता है ॥ ३१-३२ ॥

हे मुनिषेष्ठ! ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीको मथुरापुरीमें उपवास करते हुए यमुना-स्नान करके समाहितचित्तसे श्रीअप्युतका भलीप्रकार पूजन करनेसे मनुष्यको अश्वमेध-यज्ञका सम्पूर्ण फल मिलता है ॥ ३३-३४ ॥ कहते हैं अपने वंशजोंद्वारा [यमुनातटपर पिण्डदान करनेसे] उन्नति लाभ किये हुए अन्य पितरोंको समृद्धि देखकर दूसरे लोगोंके पितृ-पितामहोंने [अपने वंशजोंको लक्ष्य करके] इस प्रकार कहा था— ॥ ३५ ॥ क्या हमारे कुलमें उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ-मासके शुक्ल पक्षमें [द्वादशी तिथिको] मथुरामें उपवास करते हुए यमुनाजलमें स्नान करके श्रीगोविन्दका पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजोंद्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे? जो बड़े भाग्यवान् होते हैं उन्होंने वंशधर ज्येष्ठमासमें शुक्लपक्षमें भगवान्का अर्चन करके यमुनामें पितृगणको पिण्डदान करते हैं ॥ ३६-३८ ॥ उस समय यमुनाजलमें स्नान करके सावधानतापूर्वक भलीप्रकार भगवान्का पूजन

यदाप्नोति नरः पुण्यं तारयन्स्वपितामहान् ।
 श्रुत्वाध्यायं तदाप्नोति पुराणस्यास्य भक्तितः ॥ ४०
 एतत्संसारभीरूणां परिव्राणमनुत्तमम् ।
 श्राव्याणां परमं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम् ॥ ४१
 दुःस्वप्ननाशनं नृणां सर्वदुष्टनिवर्णनम् ।
 मङ्गलं मङ्गलानां च पुत्रसम्पत्प्रदायकम् ॥ ४२
 इदमार्थं पुरा ग्राह ऋभवे कमलोद्भवः ।
 ऋभुः प्रियव्रतायाह स च भागुर्येऽब्रवीत् ॥ ४३
 भागुरिः स्तम्भमित्राय दधीचाय स चोक्तवान् ।
 सारस्वताय तेनोक्तं भृगुस्सारस्वतेन च ॥ ४४
 भृगुणा पुरुकुत्साय नर्मदायै स चोक्तवान् ।
 नर्मदा घृतराष्ट्राय नागायापूरणाय* च ॥ ४५
 ताभ्यां च नागराजाय प्रोक्तं वासुकये द्विज ।
 वासुकिः प्राह वत्साय वत्सश्चाश्वतराय वै ॥ ४६
 कम्बलाय च तेनोक्तमेलापुत्राय तेन वै ॥ ४७
 पातालं समनुप्राप्तस्ततो वेदशिरा मुनिः ।
 प्राप्तवानेतदखिलं स च प्रमत्तये ददौ ॥ ४८
 दत्तं प्रमतिना चैतज्जातुकर्णाय धीमते ।
 जातुकर्णेन चैवोक्तमन्वेषां पुण्यकर्मणाम् ॥ ४९
 पुलस्त्यश्वरदानेन प्रमाप्येतत्समृतिं गतम् ।
 मयापि तुभ्यं मैत्रेय यथावत्कथितं त्विदम् ॥ ५०
 त्वमप्येतच्छिनीकाय कलेरनेन वदिष्यसि ॥ ५१
 इत्येतत्परमं गुह्यं कलिकल्मषनाशनम् ।
 यः शृणोति नरो भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५२
 समस्ततीर्थस्नानानि समस्तामरसंस्तुतिः ।
 कृता तेन भवेदेतद्यः शृणोति दिने दिने ॥ ५३
 कपिलादानजनितं पुण्यमत्यन्तदुर्लभम् ।
 श्रुत्वास्तस्य दशाध्यायानवाप्नोति न संशयः ॥ ५४
 यस्त्वेतत्सकलं शृणोति पुरुषः

कृत्वा

मनस्यच्युतं

करनेसे और पितृयणको पिण्ड देनेसे अपने पितामहोंको
 तारता हुआ पुरुष जिस पुण्यका भागी होता है वही
 पुण्य भक्तिपूर्वक इस पुण्यका एक अध्याय सुननेसे
 प्राप्त हो जाता है ॥ ३९-४० ॥ यह पुराण संसारसे
 भयभीत हुए पुरुषोंका अति उत्तम रक्षक, अत्यन्त
 श्रवणयोग्य तथा पवित्रोंमें परम उत्तम है ॥ ४१ ॥ यह
 मनुष्योंके दुःस्वप्नोंको नष्ट करनेवाला, सम्पूर्ण दोषोंको
 दूर करनेवाला, मांगलिक वस्तुओंमें परम मांगलिक
 और सन्तान तथा सम्पत्तिका देनेवाला है ॥ ४२ ॥

इस आर्यपुराणको सबसे पहले भगवान् ब्रह्माजीने
 ऋभुको सुनाया था। ऋभुने प्रियव्रतको सुनाया और
 प्रियव्रतने भृगुमित्रसे कहा ॥ ४३ ॥ फिर इसे भागुरिने
 स्तम्भमित्रको, स्तम्भमित्रने दधीचिको, दधीचिने
 सारस्वतको और सारस्वतने भृगुको सुनाया ॥ ४४ ॥
 तथा भृगुने पुरुकुत्ससे, पुरुकुत्सने नर्मदासे और नर्मदा
 ने घृतराष्ट्र एवं पूरणनागसे कहा ॥ ४५ ॥ वे द्विज। इन
 दोनोंने यह पुराण नागयज वासुकिको सुनाया। वासुकिने
 वत्सको, वत्सने अश्वतरको, अश्वतरने कम्बलको
 और कम्बलने एलापुत्रको सुनाया ॥ ४६-४७ ॥ इसी
 समय मुनिवर वेदशिरा पातालालोकमें पहुँचे, उन्होंने
 यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमत्तिको
 सुनाया ॥ ४८ ॥ प्रमत्तिने उसे परम बुद्धिमान् जातुकर्णको
 दिया तथा जातुकर्णने अन्यान्य पुण्यशील महात्माओंको
 सुनाया ॥ ४९ ॥

[पूर्व-जन्ममें सारस्वतके मुखसे सुना हुआ
 यह पुराण] पुलस्त्यश्विके धरदानसे मुझे भी स्मरण
 रह गया। सो मैंने ज्यों-का-त्यों तुम्हें सुना दिया।
 अब तुम भी कलियुगके अन्तमें इसे शिनीकको
 सुनाओगे ॥ ५०-५१ ॥

जो पुरुष इस अति गुह्य और कलि-कल्मष-
 नाशक पुराणको भक्तिपूर्वक सुनता है वह सब पापोंसे
 मुक्त हो जाता है ॥ ५२ ॥ जो मनुष्य इसका प्रतिदिन
 श्रवण करता है बसने तो मानों सभी तीर्थोंमें स्नान कर
 लिया और सभी देवताओंकी स्तुति कर ली ॥ ५३ ॥
 इसके दस अध्यायोंका श्रवण करनेसे निःसन्देह कपिला
 गीके दानका अति दुर्लभ पुण्य-फल प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥

सर्वं सर्वमयं समस्तजगता-
 माधारमात्माश्रयम् ।
 ज्ञानज्ञेयमनादिमन्तरहितं
 सर्वांमराणां हितं
 स प्राप्नोति न संशयोऽस्त्वविकलं
 यद्वाजिमेधे फलम् ॥ ५५ ॥
 यत्रादी भगवांश्चराक्षरगुरु-
 र्मध्ये तथान्ते सः
 ब्रह्मज्ञानमयोऽच्युतोऽखिलजग-
 न्मध्यान्तसर्गप्रभुः ।
 तत्सर्वं पुरुषः पवित्रममलं
 शृण्वन्वठन्वाषय-
 न्प्राप्नोत्यस्ति न तत्फलं त्रिभुवने-
 ष्वेकान्तसिद्धिर्हरिः ॥ ५६ ॥
 यस्मिन्व्यस्तमतिर्न घाति नरकं
 स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने
 विष्णो यत्र निवेशितात्पमनसो
 ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः ।
 भुक्तिं चेतसि चः स्थितोऽमलधियां
 पुंसां दत्तात्यव्ययः
 किं चिन्नं यदन्नं प्रयाति विलयं
 तत्राच्युते कीर्तिते ॥ ५७ ॥
 यज्ञैर्यज्ञविदो यजन्ति सततं
 यज्ञेश्वरं कर्मिणो
 यं वै ब्रह्ममयं परावरमयं
 ध्यायन्ति च ज्ञानिनः ।
 यं सञ्चिन्त्य न जायते न भ्रियते
 नो वद्धंते ह्ययते
 नैवासन्न स ब्रह्मवत्यति ततः
 किं वा हरेः श्रूयताम् ॥ ५८ ॥
 कव्यं यः पितृरूपघृगिवधिभुतं
 हृष्यं च भुङ्क्ते विभु-
 र्द्वैतये भगवाननादिनिधमः
 स्वाहास्वथासंज्ञिते ।

श्री पुरुष सम्पूर्ण जगत्के आधार,
 आत्माके अवलम्ब, सर्वस्वरूप, सर्वमय ज्ञान
 और ज्ञेयरूप आदि-अन्तरहित तथा समस्त
 देवताओंके हितकारक श्रीविष्णुभगवान्का चित्तमें
 ध्यान कर इस सम्पूर्ण पुराणको सुनता है उसे
 निःसन्देह अश्वमेध-यज्ञका समग्र फल प्राप्त
 होता है ॥ ५५ ॥

जिसके आदि, मध्य और अन्तमें अखिल
 जगत्को सृष्टि, स्थिति तथा संहारमें सपर्य
 ब्रह्मज्ञानमय चराचरगुरु भगवान् अच्युतका ही
 कीर्तन हुआ है उस परम श्रेष्ठ और अमल
 पुराणको सुनने, पढ़ने और धारण करनेसे जो
 फल प्राप्त होता है वह सम्पूर्ण त्रिलोकोंमें और
 कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकान्त
 मुक्तिरूप सिद्धिको देनेवाले भगवान् विष्णु ही
 इसके प्राप्तव्य फल हैं ॥ ५६ ॥

जिनमें चित्त लगानेवाला कभी नरकमें नहीं
 जा सकता, जिनके स्मरणमें स्वर्ग भी किन्तु रूप
 है, जिनमें चित्त लग जानेपर ब्रह्मलोक भी अति
 तुच्छ प्रतीत होता है तथा जो अव्यय प्रभु
 निर्मलचित्त पुरुषोंके हृदयमें स्थित होकर उन्हें
 मोक्ष देते हैं उन्हें अच्युतका कीर्तन करनेसे यदि
 पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही
 क्या है? ॥ ५७ ॥ यज्ञवेत्ता कर्मनिष्ठ लोग
 यज्ञोंद्वारा जिनका यज्ञेश्वररूपसे यजन करते हैं,
 ज्ञानोक्तन जिनका परावरमय ब्रह्मस्वरूपसे ध्यान
 करते हैं, जिनका स्मरण करनेसे पुरुष न जन्यता
 है, न मरता है, न बढ़ता है और न क्षीण ही
 होता है तथा जो न सत् (कारण) हैं और न
 असत् (कार्य) ही हैं उन श्रीहरिके अतिरिक्त
 और क्या सुना जाय? ॥ ५८ ॥ जो अनादिनिधन
 भगवान् विभु पितृरूप धारणकर स्वथासंज्ञक
 कव्यको और देवता होकर अग्निमें
 विधिपूर्वक हवन किये हुए स्वाहा नामक
 हवनको प्रहण करते हैं तथा जिन समस्त
 शक्तिपौके आश्रयभूत भगवान्के लियसमें ब्रह्म-बड़े

यस्मिन्ब्रह्मणि सर्वशक्तिनित्ये
 मानानि नो मानिनां
 पिष्टायै प्रभवन्ति हन्ति कस्तुर्ब
 ओन्नं स यातो हरिः ॥ ५९ ॥
 नातोऽस्ति यस्य न च यस्य स्मद्भवोऽस्ति
 ष्टिद्धिर्न यस्य परिणामयिवजितस्य ।
 नापक्षयं च समुपैत्यविकारि वस्तु
 वस्तं नतोऽस्मि पुरुषोत्तममीशमीश्वरम् ॥ ६० ॥
 तस्यैव योऽनु गुणभुग्बहुर्धैक एव
 शुद्धोऽव्यशुद्ध इव भाति हि मूर्तिधैः ।
 ज्ञानान्वितः सकलसत्त्वविभूतिकर्ता
 तस्मै नमोऽस्तु पुरुषाय सदाव्ययाय ॥ ६१ ॥
 ज्ञानप्रवृत्तिनियमैक्यमयाय पुंसो
 भोगप्रदानपटवे त्रिगुणात्मकाय ।
 अव्याकृताय भवभावनकारणाय
 वन्दे स्वरूपभवनाय सदाजराय ॥ ६२ ॥
 ज्योमानिलाग्निजलभूरचनामयाय
 शब्दादिभोग्यविषयोपनयक्षमाय ।
 पुंसः समस्तकरणैरुपकारकाय
 व्यक्ताय सूक्ष्मबृहदात्मवते नतोऽस्मि ॥ ६३ ॥
 इति विविधमजस्य यस्य रूपं
 प्रकृतिपरात्ममयं सनातनस्य ।
 प्रदिशतु भगवानशेषपुंसां
 हरिरपजन्मजरादिकां स सिद्धिम् ॥ ६४ ॥

प्रमाणकुशल पुरुषोंके प्रमाण भी इयत्ता करनेमें समर्थ नहीं होते वे श्रीहरि श्रवण-पथमें जाते ही समस्त पापोंको नष्ट कर देते हैं ॥ ५९ ॥

जिन परिणामहीन प्रभुका आदि, अन्त, वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ हैं उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तमको ये नमस्कार करता हूँ ॥ ६० ॥ जो उन्हींके समान गुणोंको भोगनेवाला है, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपोंके कारण अशुद्ध-(विकारवान्)-सा प्रतीत होता है और जो ज्ञानस्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियोंका कर्ता है उस नित्य अव्यय पुरुषको नमस्कार है ॥ ६१ ॥ जो ज्ञान (सत्त्व), प्रवृत्ति (रज) और नियमन (तम)-की एकतारूप है, पुरुषको भोग प्रदान करनेमें कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्याकृत है, संसारकी उत्पत्तिका कारण है, उस स्वतःसिद्ध तथा जराशून्य प्रभुको सर्वदा नमस्कार करता हूँ ॥ ६२ ॥ जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवीरूप है, शब्दादि भोग्य विषयोंको प्राप्ति करानेमें समर्थ है और पुरुषका उसकी समस्त इन्द्रियोंद्वारा उपकार करता है उस सूक्ष्म और विराटरूप अथक परमात्माको नमस्कार करता हूँ ॥ ६३ ॥

इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्माके प्रकृति-पुरुषमय ऐसे अनेक रूप हैं वे भगवान् हरि समस्त पुरुषोंको जन्म और जरा आदिले रहित (मुक्तिरूप) सिद्धि प्रदान करें ॥ ६४ ॥

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठोऽंशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपारत्वनिर्णायके श्रीयति
 विष्णुमहापुराणे षष्ठोऽंशः समाप्तः ।

इति श्रीविष्णुमहापुराणं सम्पूर्णम्

॥ श्रीविष्णुवर्षणामस्तु ॥

समाप्त